

॥ ओ३म् ॥

प्रियं मां कृणु देवेषु प्रियं राजंसु मा कृणु ।
प्रियं सर्वस्य पश्यंत उत शूद्र उतार्ये ॥ १ ॥

अथर्व० का० १६ सू० ६२ म० १ ॥

प्रिय मोहि करौ देव, तथा राज समाज में ।

प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शूद्र और अर्य में ॥

अथर्ववेदस्य गोपयब्राह्मणम् ॥

आर्यभाषायामनुवाद-भावार्थादिसहितं

संस्कृते व्याकरणनिरुक्तादिप्रमाणासमन्वितं च ।

श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमवीर-वीर-धिरप्रतापि-श्री

सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास-

दक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्ववेदभाष्येषु

लब्धदक्षिणेन

श्री पण्डित क्षेमकरणदासत्रिवेदिनाथर्ववेदभाष्यकारेण

निर्मितं प्रकाशितं च ।

Make me beloved among the Gods,
beloved among the Princes, make
Me dear to every one who sees,
to Sudra and to Aryanman.

Griffith's Trans. Atharva 19 : 62 : 1.

अयं ग्रन्थः पाण्डेय बदरीप्रसाद शर्मा प्रबन्धेन

प्रयागनगरे नारदयज्ञशालये मुद्रितः ।

सर्वाधिकारः स्वाधीन एव भाष्यकारेण रक्षितः ।

प्रथमावृत्तौ

संवत् १९८१ वि०

१००० पुस्तकानि

सन् १९२४ ई०

मूल्यम् ७।।

पता—पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी, ५२, लूकरगंज प्रयाग (Allahabad).

॥ ओ३म् ॥

नया आनन्द समाचार ॥

पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी कृत वैदिक ग्रन्थ ॥

(अथर्ववेदभाष्य और गोपथब्राह्मण भाष्य पूरे छप गये ।)

१-अथर्ववेदभाष्य-अथर्ववेद का अर्थ अब तक यहां की किसी भाषा में न था और संस्कृत में भी सायण भाष्य पूरा नहीं है । अब परमात्मा की कृपा से इस वेद का हिन्दी और संस्कृत प्रामाणिक भाष्य बीसो काण्ड, विषय सूची, मन्त्र सूची, पद सूची आदि सहित २३ भागों में छप गया । छपाई उत्तम कागज़ देसी बढिया रायल अठपेजी, बोझ ६०० तोला (७॥ सेर), मूल्य ४७॥), वी० पी० व्यय ४॥॥), पुस्तक थोड़े रहे हैं, ग्राहक महाशय शीघ्र मंगावें ।

२-गोपथब्राह्मण भाष्य-गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण है, इस प्राचीन वैदिक ग्रन्थ का अब तक न कोई संस्कृत भाष्य और न हिन्दी, अंग्रेज़ी आदि किसी भाषा में कोई अनुवाद था । अब परमेश्वर की कृपा से यह सम्पूर्ण ग्रन्थ हिन्दी और संस्कृत प्रामाणिक भाष्य, विषय सूची, मन्त्र सूची आदि सहित छप गया । छपाई उत्तम, कागज़ देसी सफ़ेद बढिया रायल अठपेजी । मूल्य ७॥) वी० पी० व्यय ॥३), पुस्तक थोड़े हैं, ग्राहक महाशय शीघ्र मंगावें ॥

३-हवनमन्त्राः-धर्म शिक्षा का उपकारी पुस्तक-चारों वेदों के संगृहीत मन्त्र ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वामदेव्य-गान, सरल हिन्दी में शब्दाथ सहित, गुरुकुलों, डी० ए० वी० कालिजों और स्कूलों में प्रचलित संशोधित ।-), डाक से ।=)

४-रुद्राध्यायः-प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः) ब्रह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेज़ी में मूल्य ।=), डाक से ॥)

५-रुद्राध्यायः-मूलमात्र बढिया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य ॥ डाक से -)

६-वेदविद्यायें-कांगड़ी गुरुकुल में हिन्दी व्याख्यान । वेदों में विमान, नौका, अस्त्र शस्त्र, व्यापार, गृहण, अतिथि, सभा, ब्रह्मचर्यादि का वर्णन मूल्य -)॥, डाक से =)

मार्गशीर्ष शुक्ल ३ सं० १९८१,
१ दिसबर १९२४

पता-पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी
५२, लूकरगंज, प्रयाग ।

Address—Pt. Khem Karan Das Trivedi,

52, LUKERGANJ, ALLAHABAD.

॥ ओ३म् ॥

प्रियं मां कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।
प्रियं सर्वस्य पश्यंत उत शुद्र उतार्ये ॥ १ ॥

अथर्व० का० १६ सू० ६२ म० १ ॥

प्रिय मोहि करौ देव, तथा राज समाज में ।

प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शूद्र और अर्य में ॥

अथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणम् ॥

आर्यभाषायामनुवाद-भावार्थादिसहितं

संस्कृते व्याकरणनिरुक्तादिप्रमाणसमन्वितं च ।

श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीर-वीर-चिरप्रतापि-श्री

सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास-

दक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्ववेदभाष्येषु

लब्धदक्षिणेन

श्री पण्डित क्षेमकरणदासत्रिवेदिनाथर्ववेदभाष्यकारेण

निर्मितं प्रकाशितं च ।

Make me beloved among the Gods,
beloved among the Princes, make
Me dear to every one who sees,
to Sudra and to Aryanman.

Griffith's Trans. Atharva 19 ; 62 : 1.

अयं ग्रन्थः पाण्डेय बदरीप्रसाद शर्म प्रबन्धेन

प्रयागनगरे नारायणयन्त्रालये मुद्रितः ।

सर्वाधिकारः स्वाधीन एव भाष्यकारेण रक्षितः ।

प्रथमावृत्तौ

१००० पुस्तकानि

संवत् १९२४ वि०

सन् १९२४ ई०

मूल्यम् ७।)

गोपथब्राह्मण भाष्य की विषय सूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
गोपथ ब्राह्मणभाष्य भूमिका ...	१	गोपथ ब्राह्मण का विषय	
१-ईश्वर प्रार्थना ...	१	सूचीपत्र ...	८
२-गोपथ ब्राह्मण क्या है ...	३	भाष्यकार का चित्र ...	२०
३-गोपथ के भाष्य करने में कठिनाई ...	४	गोपथ ब्राह्मण भाष्य ...	१
४-गोपथ ब्राह्मण का विषय ...	५	गोपथ ब्राह्मण भाष्य में वेद-मन्त्र ब्राह्मण वचन की वर्णानुक्रमण सूची ...	६७३
५-गोपथ ब्राह्मण का विस्तार ...	६		
६-धन्यवाद ...	६		
७-उपसंहार ...	७		

सङ्केत सूची ।

सङ्केत

सङ्केत विषय

अ०, अथर्व० = अथर्ववेद, काण्ड, सूक्त, मन्त्र ।

उ० = उणादिकोष, पाद, सूत्र (स्वामी दयानन्द सरस्वती संशोधित) ।

ऋ० ऋग्० = ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र ।

ऐ० ब्रा० = ऐतरेय ब्राह्मण, पश्चिका, करिडका ।

गो० ब्रा० उ० = गोपथ ब्राह्मण, उत्तर भाग, प्रपाठक, करिडका ।

गो० ब्रा० पू० = गोपथ ब्राह्मण पूर्वभाग, प्रपाठक, करिडका ।

निघ० = निघण्टु, अध्याय, खण्ड (यास्क मुनि कृत) ।

निरु० = निरुक्त, अध्याय, खण्ड (यास्क मुनि कृत) ।

पा० = पाणिनि व्याकरण-अष्टाध्यायी, अध्याय, पाद, सूत्र ।

य०, यजु० = यजुर्वेद, अध्याय, मन्त्र ।

श० क० द्रु० = शब्दकल्पद्रुम कोष, राजा राधाकान्त देव बहादुर विरचित ।

सा० वे० उ० = सामवेद, उत्तरार्चिक, प्रपाठक, अधप्रपाठक, सूक्त वा तृच ।

सा० वे० पू० = सामवेद, पूर्वार्चिक, प्रपाठक, दशति, मन्त्र ।

(), इस कोष्ठ में मूल ग्रन्थ के पद हैं ।

[], ऐसे कोष्ठ के शब्द व्याख्या वा अध्याहार हैं ।

॥ ओ३म् ॥

गोपथ ब्राह्मण भाष्य भूमिका ॥

१-ईश्वर प्रार्थना ॥

त्वं न इन्द्रा भरुँ अोजो नृम्यां शतक्रतो विचर्षणे ।
आ वीरं पृतनासहम् ॥ १ ॥

मन्त्र १-३ अथर्व० २० । १०८ । १-३, ऋग्वे० ८ । ६८ [सायणभाष्य ८७] । १०-१२, साम० ३० ४ । २ । तृच १३ ॥

(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्म करने वाले ! (विचर्षणे) हे विविध प्रकार देखने वाले ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] (त्वम्) तू (नः) हमारे लिये (अोजः) पराक्रम, (नृम्याम्) धन (आ) और (पृतनासहम्) सङ्ग्राम जीतने वाले (वीरम्) वीर को (आ) भले प्रकार (भर) पुष्ट कर ॥ १ ॥

हे परमात्मन् ! आप के अनुग्रह से हम सैकड़ों शुभ कर्म करते हुये बलवान्, धनवान् और वीर पुरुषों वाले होवें ॥ १ ॥

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।
अधा ते सुममीमहे ॥ २ ॥

(वसो) हे बसाने वाले ! (शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वाले ! [परमेश्वर] (त्वम्) तू (हि) ही (नः) हमारा (पिता) पिता और (त्वम्) तू ही (माता) माता (बभूविथ) हुआ है, (अध) इस लिये (ते) तेरे (सुमम्) सुख को (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ २ ॥

हे परमेश्वर ! आप सदा से सब सृष्टि के पालन और पोषण करने वाले हैं, हम आप से प्रार्थना करते हुये सैकड़ों उपकार करके सदा सुखी होवें ॥ २ ॥

त्वां शुष्मिन् पुरुहूत वाज्यन्तमुप ब्रुवे शतक्रतो ।
स नी रास्व सुवीयम् ॥ ३ ॥

(शुष्मिन्) हे महाबली ! (पुरुहूत) हे बहुत प्रकार से बुलाये गये !

(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वाले ! [परमेश्वर] (वाजयन्तम्) बलवान् बनाने वाले (त्वाम्) तुझ को (उप) आदर से (ब्रुवे) मैं बुलाता हूं, (सः) सो तू (नः) हमें (सुवीर्यम्) बड़ा वीरपन (रास्व) दे ॥ ३ ॥

हे अनन्त बल जगदीश्वर ! आप कृपा करें जिस से हम महापराक्रमी और महापुरुषार्थी हो कर सदा आनन्द पावें ॥ ३ ॥

कृतं मे दक्षिणे हस्ते ज्यो मे सव्य आहितः ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद् धनंज्यो हिरण्यजित् ॥ ४ ॥

अथर्व० ७ । ५० । ८ ॥

[हे सर्वपोषक परमेश्वर !] (कृतम्) कर्म [वेदविहित व्यवहार] (मे) मेरे (दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) हाथ में और (जयः) जीत (मे) मेरे (सव्ये) बायें [हाथ] में (आहितः) ठहरी हो । मैं (गोजित्) भूमि जीतने वाला, (अश्वजित्) घोड़े जीतने वाला, (धनंजयः) धन जीतने वाला और (हिरण्यजित्) तेज जीतने वाला (भूयासम्) रहूं ॥ ४ ॥

हे परमात्मन् ! आप ऐसी कृपा करें जिस से हम सदा वेदविहित कर्म में पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते हुये संसार में सुखी रहें, और सुपात्र वीर होकर आप से आप की कृपा का दान लें ॥ ४ ॥

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः^१ः स्वायाः ।
अश्लोणा अङ्गैरहु^१ताः स्वर्गं तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥५॥

अथर्व० ६ । १२० । ३ ॥

(यत्र) जहां पर (सुहार्दः) सुन्दर हृदय वाले, (सुकृतः) सुकर्मों लोग (स्वायाः) अपने (तन्वः) शरीर का (रोगम्) रोग (विहाय) छोड़ कर (मदन्ति) आनन्द भोगते हैं । (तत्र) वहां पर (स्वर्गं) स्वर्ग [सुख] में (अश्लोणाः) बिना लंगड़े हुये और (अङ्गैः) अङ्गों से (अहुताः) बिना टेढ़े हुये हम (पितरौ) माता पिता (च) और (पुत्रान्) पुत्रों [सन्तानों] को (पश्येम) देखें ॥ ५ ॥

हे जगत्पिता परमेश्वर ! हम सब ब्रह्मचर्य आदि सेवन से वेदानुगामी सुकर्मों और नीरोग रहें और उस स्वर्ग में रह कर हम सब मिलकर प्रयत्न-पूर्वक स्थिर सुख पावें ॥ ५ ॥

२—गोपथब्राह्मण क्या है ॥

चार वेदों के चार ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का साम, और अथर्ववेद का गोपथ । विदित नहीं है कि गोपथब्राह्मण के कौन कर्ता थे । यह पद तो तीन शब्दों से बना है, गो + पथ + ब्राह्मण, जिनकी सिद्धि इस प्रकार है—गमेर्डोः । उ० २ । ६७ । गम्लृ गतौ—जाना, जानना और पाना—डोप्रत्यय । पाने योग्य पदार्थ गो शब्द वाणी, भूमि, स्वर्ग, इन्द्रिय आदि का वाचक है । पथ गतौ—अच् प्रत्यय । पथ नाम मार्ग का है । वृहेर्नाऽञ्च । उ० ४ । १४६ । वृहि वृद्धौ—मनिन्, नकार का अकार और रत्व होकर ब्रह्मन् शब्द [ब्रह्म और ब्रह्मा] सिद्ध होता है फिर । तस्येदम् । पा० ४ । ३ । १२० । ब्रह्मन्—अण् । इस प्रकार ब्राह्मण [न० लिङ्ग] शब्द बना, जिस का अर्थ ब्रह्म परमेश्वर वा वेद का ज्ञान है । इस से गोपथब्राह्मणम् का यह अर्थ है—गो, वाणी अर्थात् वेद वाणी, भूमि अर्थात् पृथिवी का राज्य और स्वर्ग अर्थात् सुख पाने के मार्ग का ईश्वरीय वा वैदिक ज्ञान । अर्थात् इस ग्रन्थ के पढ़ने और विचारने से वेदों के पढ़ने, राज्य प्रबन्ध करने, और परम आनन्द पाने के लिये मनुष्य का पुरुषार्थ बढ़ता है ॥

भगवान् महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी वेदों की पठन पाठन विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रथमबार पृष्ठ ३२० में इस प्रकार लिखते हैं—मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिये अर्थयोजना सहित व्याकरण, अष्टाध्यायी धातुपाठ उणादिगण गणपाठ और महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघंटु निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये छः वेदों के अङ्ग । मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त, ये छः शास्त्र जो वेदों के उपाङ्ग, अर्थात् जिन से वेदार्थ ठीक ठीक जाना जाता है । तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ, ये चार ब्राह्मण । इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ़ के अथवा जिन्होंने ने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किये हों उन को देख के वेद का अर्थ यथावत् जान लें—इस लेख से प्रकट है कि वेदार्थ जिज्ञासुओं के लिये चारों ब्राह्मण महान् उपयोगी हैं जिन में से यह एक गोपथब्राह्मण है ॥

३—गोपथ के भाष्य करने में कठिनाई ॥

मेरे पास गोपथब्राह्मण के दो पुस्तक हैं, एक पं० राजेन्द्रलाल मित्र सम्पादित, छपा एशियाटिक सोसैटी कलकत्ता सन् १८७२ ईस्वी, दूसरा पं० जीवानन्द विद्यासागर सम्पादित छपा कलकत्ता सन् १८६१ ईस्वी । पं० राजेन्द्रलाल मित्र ने प्रयत्न करके हस्तलिखित पुस्तकों को मिलाकर अपना पुस्तक पहिले ही पहिले छपवाया, उस के पीछे पं० जीवानन्द का छपा । दोनों पुस्तकों में कुछ तौ लेख प्रमाद और कुछ छापे की अशुद्धियाँ हैं । इस के अतिरिक्त ग्रन्थ के प्रयोगों में प्रायः आर्ष शैली है—जैसे (इषे त्वा) के स्थान पर (इखे त्वा—पू० १ । २६), (सरसतायै) के स्थान पर (सरस्वतायै—उ० ४ । १८), (पारुच्छेपी) के स्थान पर (पारुक्षेपी—उ० ६ । १), (कवीरिच्छामि) के स्थान पर (कवां ऋच्छामि—उ० ६ । २) इत्यादि इत्यादि । ऐसी अशुद्धियों और शैलियों के यथार्थ रूप वेद मन्त्रों और ऐतरेय ब्राह्मण से यथासम्भव मैं ने शुद्ध कर दिये हैं ॥

एक और कठिनाई है कि अब तक इस ब्राह्मण का न तौ कोई भाष्य और न कोई अनुवाद उपस्थित है । राजेन्द्रलाल मित्र ने इस के भाष्य के लिये बहुत प्रयत्न किया परन्तु न मिलने से उन्होंने ने मूल मात्र ही यथासम्भव शोधकर छपा दिया । पं० राजेन्द्रलाल ने अपने गोपथब्राह्मण की भूमिका में और मौरिस ब्लूमसफील्ड साहिब ने अपने पुस्तक (The Atharva Veda and the Gopatha Brahmana by Maurice Bloomsfield) में अंगरेज़ी भाषा में कुछ टिप्पणियाँ दी हैं । वे किसी अंश में उपयोगी हैं । उन महाशयों को धन्यवाद है जिन्होंने अपने अन्वेषण का फल प्रकाशित कर दिया है । मैं ने भी पुराने भाष्य और अनुवाद के लिये बहुत खोज किया, परन्तु कोई न मिला ॥

जब मेरा अथर्ववेद भाष्य हिन्दी अनुवाद सहित पूरा होकर संवत् १६७८ विक्रमीय (सन् १६२१ ईस्वी) में छपकर प्रकाशित हो गया, बहुत से विद्वान् महाशयों ने अनेक पुस्तकों के भाष्य करने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, उन में गोपथ के लिये बहु सम्मति थीं, और मैं ने विचार कर कि यह प्राचीन वैदिक ग्रन्थ भी महान् उपयोगी है, इसी के लिये प्रयत्न किया । अपनी वृद्धावस्था के कारण मुझे ग्रन्थ के पूरे हो जाने की आशा न थी, परन्तु सर्वशक्तिमान् परमात्मा की महती कृपा से अब यह ग्रन्थ भाषानुवाद, टिप्पणियों, व्याकरण प्रक्रियाओं और विनियोगीय वेद मन्त्रों आदि सहित सर्वसाधारण के सामने छपकर उपस्थित है । सब विचारशील स्त्री पुरुष आत्मोन्नति करने और वेदार्थ

जानने में उस से लाभ उठावें । संस्कृत कोषों में वैदिक शब्द और ब्राह्मण शब्द बहुधा नहीं मिलते विद्वान् लोग इस ओर भी ध्यान दें ॥

४-गोपथब्राह्मण का विषय ॥

गोपथब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण कहा जाता है, परन्तु उस में यज्ञ करने के लिये चारों वेदों के मन्त्रों का विनियोग है । इस से विदित है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार वेद संहिताओं के अलग अलग नाम हैं और चारों नाम एक दूसरे के भी बोधक हैं । और यह भी प्रकट है कि चारों वेदों का नाम अलग अलग करके तथा मिलाकर त्रयी वा त्रयी विद्या [कर्म, उपासना और ज्ञान] है । गोपथ पू० २ । १८ में वर्णन है—(एष ह वै विद्वांस्सर्ववित् ब्रह्मा यद् भृग्वङ्गिरोवित्) यही विद्वान् सब जानने वाला ब्रह्मा [प्रधान ऋत्विज] है जो भृगु-अङ्गिराओं [प्रकाशमान ज्ञानों, चारों वेदों] का जानने वाला पुरुष है । भगवान् यास्क मुनि निरुक्त १ । ८ में लिखते हैं—(ब्रह्मैको जाते जाते विद्यां वदति ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति, ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः) एक ब्रह्मा उत्पन्न हुये उत्पन्न हुये कर्म में विद्या बताता है, ब्रह्मा सब विद्याओं वाला, और सब जानने योग्य होता है, ब्रह्मा वेद विद्या के कारण बढ़ा हुआ होता है । यह भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा चतुर्मुखी अर्थात् चतुर्वेदी होता है । इन कथनों से स्पष्ट है कि भृग्वङ्गिरस्, अथर्ववेद, ब्रह्मा वेद आदि शब्द वेद की संहिता विशेष [अथर्ववेद] के और चारों संहिताओं के नाम हैं, प्रकरण के अनुसार अर्थ कर लेना चाहिये ॥

गोपथ में यज्ञ विषय [अर्थात् आहवनीय आदि अग्नियों द्वारा वेद मन्त्रों से अग्नि प्रज्वलन] दीख पड़ता है, परन्तु वस्तुतः आत्मिक यज्ञ अर्थात् आत्मा की उन्नति से पुरुषार्थ बढ़ाकर अन्न, प्रजा, पशु और स्वर्ग [सुख] की प्राप्ति का विधान वेद मन्त्रों द्वारा वर्णित है । (या वाक् सोग्निः, यः प्राणः स वरुणः, यन्मनः स इन्द्रः, यच्चक्षुः स वृहस्पतिः, यच्छ्रोत्रं स विष्णुः—गो० उ० ४ । ११) जो वाणी है वह अग्नि [तापक पदार्थ] है, जो प्राण [श्वास] है वह वरुण [स्वीकार करने योग्य पदार्थ] है, जो मन है वह इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला पदार्थ] है, जो आंख है वह वृहस्पति [बड़े बड़ों का पालने वाला पदार्थ] है, जो कान है वह विष्णु [व्यापक पदार्थ] है [यह यज्ञ के देवता हैं] । (पुरुषो वै यज्ञः, तस्य शिर एव हविर्धानं, मुखमाहवनायः, उदरं सदः, इत्यादि—गो० उ० ५ । ४) पुरुष ही यज्ञ है, उस का शिर ही हविर्धान [हवि का स्थान], मुख आहवनीय

[यज्ञाग्नि] और उदर सद [सभा शाला] है, इत्यादि । (प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः य एवं वेद—गो० उ० ६। १२) वह पुरुष प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐला जानता है । इसी प्रकार के अनेक वाक्य आत्मिक यज्ञ के प्रतिपादक हैं । इस के अतिरिक्त विशेष करके सृष्टि विद्या, ओम् शब्द व्याख्या, गायत्री मन्त्र व्याख्या, ब्रह्मचर्य सेवन, शरीर विद्या, सत्यभाषण आदि विषय मनोरोचक, उन्नतिकारक और पुरुषार्थ वर्धक हैं—विषय सूची देखो ॥

५—गोपथब्राह्मण का विस्तार ॥

गोपथब्राह्मण (ओं ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्) इन पदों से आरम्भ होकर (यत्रैवंविदं शंसति यत्रैवंदिं शंसतीति ब्राह्मणम्) इन पदों पर समाप्त होता है । इस के दो भाग हैं, पूर्वभाग और उत्तरभाग । दोनों भागों में ग्यारह (११) प्रपाठक और दो सौ आठठावन (२५८) कण्डिकायें निम्न प्रकार से हैं ॥

गोपथब्राह्मण के प्रपाठक और कण्डिकायें ॥

प्रपाठक	कण्डिका	प्रपाठक	कण्डिका						
पूर्व भाग		उत्तर भाग		कण्डिका	१३५	१२३			
१	३६	१	२६				प्रपाठक	५	६
२	२४	२	२४						
३	२३	३	२३						
४	२४	४	१६						
५	२५	५	१५						
		६	१६						
योग	१३५	योग	१२३	पूर्व भाग	उत्तर भाग	महायोग			

६—धन्यवाद ॥

उस सर्वशक्तिमान् परमपिता जगदीश्वर को अत्यन्त धन्यवाद है जिस की महती कृपा से अथर्ववेद भाष्य के पीछे यह गोपथब्राह्मण का भाष्य मेरे हाथ

से पूरा होकर सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत है। वृद्धावस्था के कारण शरीर तो कुछ ढीला पड़ गया है, और मृत्युदेव कान में यह कहता रहता है—

काल करे सो आज कर आज करे सो अब ।

पल में परलय होइगी फेर करेगा कब ॥

इस प्रेरणा से परमेश्वर पर भरोसा करके अन्य आवश्यकताओं से बचे समय को लगातार लगाये रहने से धीरे धीरे यह भाष्य पूरा हो गया ॥

मैं यहाँ पर बदायूँ निवासी श्रीमान् स्वामी रामभिक्षु जी महाराज को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उन की प्रेरणा और विचारशीलता आदि सहायता से मेरे चित्त में उत्साह बढ़ता रहा। उक्त स्वामी जी मेरे पास वेदों का स्वाध्याय करने आये थे। जब तक वे रहे, इस भाष्य के और वेद मन्त्रों के देखने, विचारने, लिखने और मुद्रणपत्र (Proof sheet) शोधने तथा सूचीपत्र और अनुक्रमणिका आदि बनाने में प्रेम से मेरे सहायक हुये ॥

७—उपसंहार ॥

प्रियं मा कृणु देवेषु' प्रियं राजसु मा कृणु । प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये'—अथ० १६ । ६२ । १ ॥ [हे सर्वशक्तिमान् परमात्मन् !] (मा) मुझे (देवेषु) विद्वानों में (प्रियम्) प्रिय (कृणु) बना, (मा) मुझे (राजसु) राजाओं में (प्रियम्) प्रिय (कृणु) बना, (उत) और (आर्ये) वैश्यों में (उत) और (शूद्रे) शूद्रों में, और (सर्वस्य; प्रत्येक (पश्यतः) दृष्टि वाले का (प्रियम्) प्रिय [बना] ॥

हे परम पिता ! हमें पुरुषार्थ दीजिये जिसे से हम वेदों के पठन पाठन, विचार और अभ्यास से सब संसार के उपकार करने में उद्यत रहें ॥

आ३म् । शान्तिशान्तिशान्तिः ॥

हे जगदीश्वर ! हमें एक आत्मिक शान्ति, दूसरी शारीरिक शान्ति और तीसरी सामाजिक शान्ति दीजिये ॥

क्षेमकरणदास त्रिवेदी ।

५२ लूकरगंज, प्रयाग,
[अलाहाबाद]
कार्तिकशुक्ला ७ संवत् १९८१ वि०,
ता० ३ नवेम्बर १९२४ ई० ॥

जन्म, कार्तिक शुक्ला ७ संवत् १९०५
विक्रमीय [ता० ३ नवेम्बर १८४८ ईस्वी]
जन्मस्थान, ग्राम शाहपुर-मडराक,
ज़िला अलीगढ़ ॥

गोपथब्राह्मण का विषय सूचीपत्र ॥

पूर्वभाग ॥

प्रपाठक १ ॥

करिडका	विषय	पृष्ठ
१—	ब्रह्म और सृष्टि की इच्छा	१
२—	ब्रह्म के रोमों से पसीने की धारायें और सृष्टि की इच्छा	३
३—	ब्रह्म के बीज का जल में गिरना, समुद्र और भृगु की उत्पत्ति	६
४—	अथर्वा और प्रजापति	८
५—	दस अथर्वा ऋषि, दस आथर्वण, वेद और ओम्	११
६—	तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद और तीन महाव्याहृति	१५
७—	समुद्र, वरुण, मृत्यु और अङ्गिरा	१६
८—	बीस अङ्गिरा दश आङ्गिरस, वेद और जनत् महाव्याहृति	२१
९—	ब्रह्म और वेद की सर्वोत्तमता	२४
१०—	सर्पवेदादि ५ वेद, वृधत् आदि ५ महाव्याहृति	२६
११—	महाव्याहृति शम्	२८
१२—	चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थ	२६
१३—	ब्रह्मयज्ञ और उस की त्रुटि में अनिष्ट फल	३२
१४—	यज्ञ के दोष निवारण से इष्ट फल की प्राप्ति	३४
१५—	यज्ञ की सफलता का लाभ	३६
१६—	ब्रह्मा का ब्रह्मचर्य, ओम्, जगत् की सृष्टि	३८
१७—	ओम् की पहिली स्वर मात्रा से पृथिवी आदि की उत्पत्ति	४०
१८—	ओम् की दूसरी स्वर मात्रा से वायु आदि की उत्पत्ति	४१
१९—	ओम् की तीसरी स्वर मात्रा से सूर्य आदि की रचना	४२
२०—	ओम् की वकार मात्रा से जल आदि की रचना	४२
२१—	ओम् से इतिहास पुराण आदि का ज्ञान	४३
२२—	ओम् को सहस्र बार जपने की महिमा	४५
२३—	आख्यायिका—ओम् द्वारा असुरों से देवताओं की रक्षा	४८
२४—	ओङ्कार के विषय में ३६ प्रश्न	५०

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
२५—	आख्यायिका—ओङ्कार के विषय में इन्द्र के प्रश्न और प्रजापति के उत्तर	५२
२६—	कण्डिका २४ के ओम् विषयक प्रश्नों के उत्तर	५४
२७—	कण्डिका २४ के ओम् विषयक शेष प्रश्नों के उत्तर	५६
२८—	ओम् को आदि में बोलने का वर्णन	५६
२९—	चारों वेद और देवता आदि	६१
३०—	ओङ्कार का चिन्तन और उसका फल	६४
३१—	मौद्गल्य और मैत्रेय की कथा	६६
३२—	मौद्गल्य और मैत्रेय का गायत्री मन्त्र पर वार्तालाप	६६
३३—	सावित्री वा गायत्री मन्त्र के चौबीस उत्पत्ति स्थान और बारह जोड़ा	७२
३४—	सावित्री वा गायत्री मन्त्र के प्रथम पाद की व्याख्या	७५
३५—	सावित्री वा गायत्री मन्त्र के दूसरे पाद की व्याख्या	७७
३६—	सावित्री वा गायत्री मन्त्र के तीसरे पाद की व्याख्या	७८
३७—	बारह महातत्त्वों की परम्परा	८०
३८—	दूसरे प्रकार से पूर्वोक्त बारह तत्त्वों का विचार	८१
३९—	आचमन के विधान और लाभ	८३

प्रपाठक २ ॥

१—	ब्रह्मचारी की महिमा	६१
२—	ब्रह्मचारी का सात मनोरोगों का दमन आदि कर्तव्य	६४
३—	ब्रह्मचारी के कर्तव्य, आचार्य की सेवा आदि कर्म	६७
४—	ब्रह्मचारी का अपने पांच अग्निओं का वशीकरण और दूसरा विनीत कर्तव्य	६८
५—	जनमेजय का दो हंसों और दन्तावल से ब्रह्मचर्य की महिमा और अड़तालीस वर्ष आदि समय पर वार्तालाप	१०२
६—	ब्रह्म ने ब्रह्मचारी को और उसे भिक्षा देने वाले गृहपति को छोड़कर सब प्रजाओं को मृत्यु को दिया	१०४
७—	ब्रह्मचारी के दोषों का प्रायश्चित्त विधान	१०६
८—	ब्रह्मचारी के आश्रम वा तपोवन	१०६
९—	होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा का वर्णन	११४

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
१०	—कावन्धि की मान्धाता के यज्ञ में यज्ञ विषयक वार्ता	... ११६
११	—कावन्धि के देवयजन और ऋत्विजों के विषय में प्रश्नोत्तर	... १२१
१२	—कावन्धि का अधिक यज्ञ विषयक विचार	... १२३
१३	—कावन्धि का आगे यज्ञ विषयक विचार	... १२४
१४	—कावन्धि का देव यजनों के विषय में वर्णन	... १२६
१५	—अदिति की सृष्टि रचना के दृष्टान्त से भौतिक यज्ञ की रचना	... १२८
१६	—ब्रह्मज्ञानियों को चार चार प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति	... १३१
१७	—ईश्वर मानने वाले की महिमा	... १३४
१८	—विधनों को हटाकर अश्वनामक अग्नि की स्थापना	... १३६
१९	—आरुशायिका—असुरों से इन्द्र द्वारा देवताओं की रक्षा और अग्न्याधान	... १४०
२०	—वैश्वानर जातवेदा और अश्व नामक अग्नि	... १४४
२१	—वैश्वानर, जातवेदा और अश्व नामक अग्नि का वही विषय	... १४७
२२	—सान्तपन अग्नि में प्राजापत्य हवि के साथ ब्राह्म्य हवि की आवश्यकता	... १५२
२३	—बिना यज्ञ अग्नि वाला ब्राह्मण स्वर्ग नहीं पाता	... १५५
२४	—ऋत्विजों के चुनाव में ऋग्वेदी होता, यजुर्वेदी अध्वर्यु, सामवेदी उद्गाता, चतुर्वेदी ब्रह्मा हावे	... १५७
प्रपाठक ३ ॥		
१	—ऋत्विज चुने हुये वेदवेत्ता पुरुष हों	... १६१
२	—चतुर्वेदी चार ऋत्विजों के बिना यज्ञ गिर जाता है	... १६४
३	—यज्ञ में त्रुटि होने पर प्रायश्चित्त	... १६५
४	—ऋत्विजों के कर्म जिन में वे दक्षिणा पाते हैं	... १६८
५	—तीन ऋत्विजों से यज्ञ करना	... १७०
६	—उद्दालक ऋषि का उत्तर वालों से शास्त्रार्थ करने का प्रयत्न	... १७२
७	—अमावस्या और पौर्णमासी के यज्ञ के सम्बन्ध से उद्दालक के शरीर सम्बन्धी प्रश्न	... १७४
८	—पूर्वाक्त प्रश्नों के विषय में उद्दालक और स्वैदायन वा शौनक का वार्तालाप	... १७६

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
६—अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ विधान से शरीर की अवस्था का वर्णन	१७६
१०—कण्डिका ८ के यज्ञ सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर	१८२
११—प्राचीन योग्य मुनि के उद्दालक से अग्निहोत्र विषयक चालीस प्रश्न	१८५
१२—प्राचीन योग्य के ४० प्रश्नों के उद्दालक के दिये उत्तर	१८८
१३—तीनों अग्नियों में विघ्न पड़ने पर उपाय और प्रायश्चित्त	१९३
१४—स्नान पान के लाभ	१९७
१५—क्रियात्मक और मानसिक यज्ञ करना चाहिये	१९६
१६—स्वाहा शब्द के विषय में प्रश्नोत्तर	२०१
१७—अग्निष्टोम विषय	२०२
१८—पशुरूप वेदवाणी की सूक्ष्मता का विचार	२०३
१९—दीक्षित पुरुष के कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म	२०७
२०—दीक्षा विषयक प्रश्नोत्तर	२११
२१—दीक्षित के कर्तव्य कर्म और भूल में प्रायश्चित्त	२१३
२२—दीक्षित की भूल के प्रायश्चित्त	२१५
२३—पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान	२१६
प्रपाठक ४ ॥		
१—गृहपति की दीक्षा	२१८
२—ब्रह्मा की दीक्षा	२१९
३—उद्गाता की दीक्षा	२२०
४—होता की दीक्षा	२२०
५—अध्वर्यु की दीक्षा	२२१
६—सहायक ऋत्विजों की दीक्षा	२२२
७—अग्निष्टोम, और अठारह प्रकार के यज्ञों के देवी देवता	२२४
८—अठारह प्रकार के यज्ञ और उन के फल और अग्निष्टोम	२२७
९—प्रायणीय अतिरात्रादि पन्द्रह प्रकार के यज्ञ और संवत्सर	२३१
१०—प्रायणीय अतिरात्रादि पन्द्रह प्रकार यज्ञ और उन के फल और संवत्सर का जन्म	२३४

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
११—	संवत्सर के ज्ञान की महिमा ...	२३७
१२—	संवत्सर की बृहती छन्द से उपमा और महिमा ...	२३७
१३—	संवत्सर और महाव्रत ...	२३८
१४—	संवत्सर और महाव्रत यज्ञ के विषय में प्रश्नोत्तर ...	२४०
१५—	... तथा ... तथा ...	२४१
१६—	... तथा ... तथा ...	२४२
१७—	... तथा ... तथा ...	२४३
१८—	संवत्सर बड़ा गरुड़, विषुवान् आत्मा और दोनों अर्ध संवत्सर दो पक्ष ...	२४५
१९—	विषुवान् से संवत्सर के बारह महीने ...	२४६
२०—	ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों के विषय में प्रश्नोत्तर ...	२४७
२१—	संवत्सर का अतिरात्र आदिकों से सम्बन्ध ...	२४८
२२—	... तथा ... तथा ...	२५०
२३—	अभिषेक और पृथ्वी की व्युत्पत्ति और दूसरे यज्ञ ...	२५१
२४—	प्रेदि, कौशाम्भेय, कौसुर विन्दु, और उद्दालक आरुण से संवत्सर और यज्ञीय दिनों के विषय में प्रश्नोत्तर ...	२५४

प्रपाठक ५ ॥

१—	संवत्सर से अभिषेक का सम्बन्ध ...	२५७
२—	यज्ञों में गाध प्रतिष्ठा और तीर्थ ...	२५८
३—	मनुष्य शरीर के दृष्टान्त से संवत्सर यज्ञ का वृत्तान्त ...	२६१
४—	... तथा ... तथा ...	२६३
५—	मनुष्य शरीर के दृष्टान्त से संवत्सर अर्थात् वर्ष का वृत्तान्त ...	२६७
६—	संवत्सर यज्ञ में विषुवान् के दोनों ओर यज्ञ की समता ...	२७१
७—	पन्द्रह प्रकार के यज्ञों का क्रम, जिन में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि सम्मिलित हैं ...	२७२
८—	प्रजापति की कथा जिस ने बहुत यज्ञों को करके आत्मिक यज्ञ से अत्यन्त सुख पाया ...	२७४
९—	संवत्सर यज्ञ में आवश्यक कर्मों का विधान ...	२७७
१०—	सहस्र संवत्सर यज्ञ और उसके स्थानापन्न विश्वजित् यज्ञ के विषय में कथा ...	२८०

करिडका	विषय	पृष्ठ
११—ऋत्विजों की योग्यता के विषय में प्रजापति और नारायण की कथा	२८३
१२—प्रातःसवन की स्तुति का मन्त्र सोम विषय में	...	२८५
१३—माध्यन्दिन सवन की स्तुति का मन्त्र सोम विषय में	...	२८७
१४—तृतीय सवन की स्तुति का मन्त्र सोम विषय में	...	२८८
१५—संस्थित सवन में भर्ग आदि चार पदार्थों का दस प्रकार से वर्णन	२८९
१६—भर्ग [तेज] का वर्णन	२९३
१७—महः वा महत्त्व का वर्णन	२९३
१८—यश वा कीर्ति का वर्णन	२९४
१९—सर्व वा सब ज्ञान का वर्णन	२९५
२०—दश गुणित चार पदार्थों का विराट् से सम्बन्ध	...	२९५
२१—यज्ञ के विषय में दध्यङ् और अनर्वा का वार्तालाप	...	२९६
२२—मिश्रित यज्ञों का विषय	२९८
२३—विविध यज्ञों के विधान और गणना सहित व्याख्यान श्लोकों में	...	३०१
२४—तपस्वी वैश्वानर से श्रद्धा में अङ्गिरा ऋषि की उत्पत्ति और वेदों का यज्ञों तथा ऋत्विजों से सम्बन्ध	३०५
२५—ऋग्वेद आदि चारो वेदों के स्थान तथा देवता आदि का वर्णन और यह कि चारो वेद ही त्रयी विद्या हैं	३१०

उत्तर भाग ॥

प्रपाठक १ ॥

१—यज्ञ में ब्रह्मा का आसन, प्रणीता पात्र और परिधियाँ	...	३१५
२—प्रजापति का रुद्र को भाग शून्य करना, प्राशित्र का वर्णन, भग सविता आदि का अङ्गभङ्ग होना और बृहस्पति वा ब्रह्मा का शान्त करना	३१८
३—प्राशित्र [अन्न] का विधान	३२३
४—यज्ञ के विघ्नों का नाश और यज्ञ के आरम्भ का विधान	...	३२६

करिडका	विषय	पृष्ठ
५—	पौर्णमासी और अमावस को दक्षिणा के स्थान में ओदन का दान	३२६
६—	यज्ञ में दो प्रकार के देवता आते हैं एक सोमपा दूसरे असोमपा अथवा एक हुताद और दूसरे अहुताद, उनका वर्णन ...	३३०
७—	देवासुर संग्राम में प्रजापति द्वारा ओदन के विभाग से देवों की जीत	३३२
८—	दर्श पौर्णमास यज्ञ के साथ ही सोम यज्ञ करने और यज्ञ करने वालों की उषदशा का वर्णन	३३४
९—	चन्द्रमा के उदय होने के पीछे हवि देने का विधान ...	३३५
१०—	पूर्व और उत्तर पूर्णमासी और अमावास्या का विचार ...	३३६
११—	दोनों पौर्णमासी और अमावस में से एक एक ही यज्ञ के आरम्भ और समाप्ति के लिये रहे	३३८
१२—	दर्श पूर्णमास यज्ञ पर अग्नि और विष्णु तथा सरस्वती और सरस्वान् को चरु	३३६
१३—	मार्गकर्ता अग्नि के लिये अष्टाकपाल चरु	३४१
१४—	व्रतपालक अग्नि के लिये अष्टाकपाल चरु, और व्रत में स्त्रीगमन और मांसभक्षण का निषेध	३४१
१५—	व्रतपोषक अग्नि के लिये अष्टाकपाल चरु	३४२
१६—	त्तिस के पिता, पितामह ने सोमपान नहीं किया, वह सोमयाग करे	३४२
१७—	ओषधियों [अन्न आदि पदार्थों] के पकने पर इन्द्र-अग्नि विश्वे-देवा और सोम के लिये चरु के विषय में कथा ...	३४५
१८—	अप्रतिरथ नाम सूक्त [युद्ध यात्रा के राग] के प्रयोग की कथा ...	३४७
१९—	चातुर्मास यज्ञ फाल्गुनी पूर्णमासी से करने होते हैं ...	३५०
२०—	अग्नि और सोम के साथ दूसरे देवताओं के यज्ञ ...	३५२
२१—	प्रजापति के प्रजायें उत्पन्न और वरुण को प्रसन्न करने की कथा ...	३५४
२२—	इन्द्र-अग्नि, वरुण आदि के लिये हवि	३५६
२३—	इन्द्र, अग्नि और मरुत् देवताओं के लिये हवि	३५८
२४—	पितरों के लिये हवि	३६०
२५—	पितृ यज्ञ के साथ देवयज्ञ आदि का विधान	३६३

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
२६-	तेरहवें महीने और शुमासीर यज्ञ के साथ अग्नि, वायु, सूर्य, संवत्सर और चातुर्मास्यों का वर्णन ...	३६६

प्रपाठक २ ॥

१-	इन्द्र-अग्नि अर्थात् प्राण और अपान के लिये यज्ञ के लाभ ...	३६६
२-	देवताओं ने पांच प्रकार से चढ़ाई करके असुरों को जीता ...	३७२
३-	यजुर्वेद के मन्त्र के आश्रय से यज्ञ कर्म ...	३७४
४-	सोम यज्ञ में त्रुटि की यजुर्वेद मन्त्र से पूर्ति ...	३७७
५-	यज्ञ में दोषों को ब्रह्मा ठीक कर सकता है ...	३८०
६-	यज्ञ, धर्म और प्रवर्ग्य का वर्णन ...	३८४
७-	देवासुर सङ्ग्राम में उपसद् यज्ञ द्वारा देवताओं का विजय ...	३८८
८-	उपसद् यज्ञों का अधिक वर्णन ...	३९२
९-	आग्नीध्र द्वारा देवपत्नियों का वर्णन ...	३९४
१०-	यज्ञ में सोमपान की महिमा ...	३९६
११-	देवताओं ने यज्ञ द्वारा असुरों पर विजय पाया ...	३९६
१२-	सोम यज्ञ का वर्णन ...	४०२
१३-	आख्यायिका-वसिष्ठ ने इन्द्र को देखा और इन्द्र ने उसे स्तोम भागों द्वारा ब्रह्मज्ञान बताया ...	४०६
१४-	आगे और स्तोम भागों और व्याहृतियों का वर्णन ...	४०६
१५-	स्तोम भागों से शत्रुओं का नाश ...	४१३
१६-	आग्नीध्र द्वारा यज्ञ की सिद्धि ...	४१५
१७-	प्रवृत्त आहुतियों का वर्णन ...	४१६
१८-	प्रजापति को नमस्कार ...	४१८
१९-	सदस्य गन्धर्वों को नमस्कार ...	४२०
२०-	प्रातःसवन में इन्द्र आदि के लिये हवि का निर्णय ...	४२२
२१-	माध्यन्दिन सवन में इन्द्र को हवि ...	४२६
२२-	तृतीय सवन में इन्द्र और ऋभुओं को हवि ...	४२६
२३-	सत्य ही बोलना चाहिये ...	४२४
२४-	दर्शपौर्णमास यज्ञ में देवताओं को एक दिन पहिले निमन्त्रण करे ...	४३५

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
प्रपाठक ३ ॥		
	१-वषट्कार और अनुवषट्कार का वर्णन	४३९
	२-वषट्कार वज्र, छद्म ऋतु और छह आकाश आदि हैं	४३६
	३-तीन वषट्कार वज्र, धामच्छत् और रिक्त का वर्णन	४४१
	४-वषट्कार के साथ हवि के लिये देवता का निर्णय	४४४
	५-वषट्कार को उपयोगी बनाने का उपाय	४४४
	६-वाक् और प्राण और अपान ही वषट्कार हैं	४४६
	७-प्राण ही ऋतुयाज हैं, ऋतुयाजों में अनुवषट् न करे	४४८
	८-होता यक्षत् होता यक्षत्-इन मन्त्रों के उच्चारण का विषय	४५३
	९-हिङ्कार [प्रतिध्वनि] के उच्चारण की महिमा और प्रमाण	४५६
	१०-प्रातःसवन, माध्यन्दिन और तृतीय सवन में विशेषता से मन्त्रों का प्रयोग	४५६
	११-छन्दों के साथ प्रणव का सम्बन्ध और व्याख्यान	४६३
	१२-एकाह यज्ञ के प्रातःसवन में प्रजापति मृत्यु को स्तोत्रों द्वारा भगता है	४६६
	१३-प्रातःसवन में मैत्रावरुण द्वारा मित्र और वरुण की स्तुति	४६८
	१४-प्रातःसवन में ब्राह्मणाच्छंसी द्वारा इन्द्र और सूर्य की स्तुति	४७१
	१५-प्रातःसवन में अच्छावाक द्वारा इन्द्र और अग्नि की स्तुति	४७४
	१६-प्रातःसवन में (शंसावोम्) मन्त्र को चार चार बार बोलें	४७७
	१७-माध्यन्दिन सवन में दक्षिणा दातव्य है	४८०
	१८-दक्षिणापात्र लोगों का क्रम	४८१
	१९-दक्षिणा में दातव्य पदार्थ और उन के गुण	४८३
	२०-आख्यायिका के रूप में ऋक् और साम के सम्बन्ध का वर्णन	४८६
	२१-स्तोत्रिय आदि यज्ञाङ्गों की आत्मा आदि से सामान्यता	४८६
	२२-स्तोत्र इत्यादि यज्ञाङ्गों की आत्मा आदि से सदृशता का अधिक विवरण	४९०
	२३-माध्यन्दिन सवन के देवता इन्द्र की महिमा	४९३

प्रपाठक ४ ॥

१-एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में मैत्रावरुण के मन्त्र प्रयोग	४९७
---------------------------------------------------------------	-----

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
२-	एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में ब्राह्मणाच्छंसी के मन्त्र प्रयोग ...	५००
३-	एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में अच्छावाक के मन्त्र प्रयोग ...	५०४
४-	एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में (शंसावोम्) मन्त्र को पांच बार बोलें ...	५०८
५-	एकाह यज्ञ के तृतीय सवन में पालीवत स्तोत्र को आग्नीध्र का चुपके चुपके जपने का कारण ...	५१०
६-	तृतीयसवन में शाकला इष्टि ...	५११
७-	अध्वर्यु और यजमान की शुद्धि और अवभृथ स्नान ...	५१३
८-	वेदी पर ओषधी स्थापन और सक्तुओं से होम ...	५१५
९-	एकाष्टका इष्टि और दो अरणियों से अग्नि समारोपण ...	५१७
१०-	अग्निष्टोम सूर्य समान है, तीनों सवनों में मन्त्र बोलने का विधान, सूर्य न कभी उदय और न अस्त होता है इसका विचार...	५२१
११-	आख्यायिका—एकाह यज्ञ के तृतीय सवन में से सायंकाल में घुसे हुये असुर लोग इन्द्र, अग्नि, वरुण, बृहस्पति और विष्णु पांच देवताओं अथवा वाक् आदि पांच इन्द्रियों करके निकाले गये ...	५२५
१२-	आख्यायिका—प्रजापति पांच प्राणों से पांच देवताओं को उत्पन्न करता है और पांच देवता स्तुति किये जाते हैं ...	५२७
१३-	उक्थ में दो इन्द्र और अग्नि की स्तुति रहते हुये बहुत देवताओं की स्तुति का विचार ...	५२८
१४-	तीन ऋत्विजों के अलग अलग उक्थ और दो दो देवता वाले उक्थ हैं ...	५२९
१५-	एकाह यज्ञ के तृतीयसवन के उक्थ में मैत्रावरुण ऋत्विज के मन्त्र...	५३०
१६-	एकाह यज्ञ के तृतीय सवन के उक्थ में ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विज के मन्त्र...	५३५
१७-	एकाह यज्ञ के तृतीय सवन के उक्थ में अच्छावाक ऋत्विज के मन्त्र...	५४०
१८-	एकाह यज्ञ के तृतीय सवन में (शंशंसावोम्) इस मन्त्र को चार चार बार बोलें ...	५४५
१९-	एकाह यज्ञ में षोडशी शब्द की व्याख्या ...	५४८

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
प्रपाठक ५ ॥		
१-	आख्यायिका—अतिरात्र यज्ञ में से इन्द्र और छुन्दों ने तीन पर्यायों में असुरों को निकाल दिया	५४६
२-	अतिरात्र यज्ञ के तीन पर्यायों में तीन प्रकार से स्तुति ...	५५२
३-	अतिरात्र यज्ञ में पवमान आदि स्तोत्रों का विचार ...	५५३
४-	यज्ञ का मनुष्य के अङ्गों और ऋत्विजों का प्राणों आदि के दृष्टान्त से वर्णन	५५६
५-	यज्ञ के पर्यायों में स्तोत्रों और शस्त्रों के प्रयोग ...	५६२
६-	आख्यायिका—त्वष्टा का इन्द्र से सोमरस छीनना और सौत्रामणी इष्टि	५६५
७-	साम सब वेदों का रस है, सौत्रामणी यज्ञ में सामगान ...	५६७
८-	आख्यायिका—वाजपेय यज्ञ का वर्णन ...	५७०
९-	आख्यायिका—आप्तोर्याम यज्ञ का वर्णन ...	५७५
१०-	आप्तोर्याम यज्ञ का अधिक वर्णन	५७७
११-	अनैकाहिक वा अहीन अर्थात् अनेक दिनों में होने वाले यज्ञ का वर्णन	५८०
१२-	अहीन अहर्गण यज्ञ में आरम्भणीया ऋचाओं का वर्णन ...	५८१
१३-	अहीन वा अहर्गण यज्ञ में परिधानीया अर्थात् समाप्ति वाली ऋचाओं का वर्णन	५८४
१४-	अहीन और एकाह यज्ञों में होत्रक लोगों की दो प्रकार की परिधानीया ऋचायें	५८७
१५-	यज्ञों में अच्छावाक ऋत्विज के विशेष स्तोत्र	५९०
प्रपाठक ६ ॥		
१-	अहीन यज्ञ में सम्पात सूक्तों का वर्णन	५९५
२-	अहीन यज्ञ में आवाप सूक्तों का वर्णन और महत्त्व ...	६०६
३-	अहीन यज्ञ में कद्रवत् प्रगाथों का उपयोग और महत्त्व ...	६०८
४-	अहीन यज्ञ में विशेष मन्त्रों का प्रयोग	६११
५-	अहीन यज्ञ की युक्ति और विमुक्ति	६१५
६-	होताओं और होत्रक लोगों के उक्त्यों का वर्णन और असुरों से यज्ञ की रक्षा	६१८

कण्डिका	विषय	पृष्ठ
७-	यज्ञ में उक्त्यों और शिल्पों का वर्णन ...	६२२
८-	नाभानेदिष्ठ, नाराशंस, वालखिल्य, प्रगाथ, वृहती, सतोवृहती, वृषाकपि, न्यूह, एवयामरुत् और याज्या का विनियोग ...	६२६
९-	नाभानेदिष्ठ, वालखिल्य, वृषाकपि और एवयामरुत् सहचरणों का वर्णन तथा बुडिल और गोश्ल के प्रश्नोत्तर ...	६३१
१०-	षडह यज्ञ में पारुच्छेपी ऋचाओं का प्रयोग ...	६३६
११-	देवासुर सङ्ग्राम की आख्यायिका, यज्ञों में छठे दिन के कर्म ...	६३६
१२-	षडह यज्ञ में स्तोत्रिय, अनुरूप, सुकीर्ति, वृषाकपि, कुन्ताप [अथ० २० । १२७-१३६], रैभी, पारिक्षिती, कारव्या, दिशां-कल्पि और इन्द्र गाथाओं का वर्णन... ...	६४२
१३-	कुन्ताप सूक्तों में ऐतश प्रलाप, प्रवह्निका, प्रतिराध, आजिज्ञा-सेन्या और अतिवाद मन्त्रों का प्रयोग ...	६५०
१४-	कुन्ताप सूक्तों में आदित्या और अङ्गिरसी ऋचाओं अथवा देव-नीथ सूक्त का प्रयोग, आदित्यों का अङ्गिराओं को पृथिवी की दक्षिणा, पृथिवी की विषमता और भूतेच्छन्द का प्रयोग ...	६५६
१५-	कुन्ताप सूक्तों में आहनस्या ऋचाओं का प्रयोग ...	६६३
१६-	कुन्ताप सूक्तों में दाधिक्री, पवमानी और ऐन्द्रावार्हस्पत्य ऋचाओं का प्रयोग, षडह यज्ञ की समाप्ति ...	६६६

क्षेमकरणदास त्रिवेदी

५२ लूकरगंज, प्रयाग

मार्गशीर्ष शुक्ला २ सं० १६८१ वि०

ता० २८ नोवेम्बर १९२४ ॥



पं० जेमकरणदास त्रिवेदी अथर्ववेद तथा गोपथ ब्राह्मण आदि भाष्यकार
जन्म कार्तिक शुक्ला ७ संवत् १६०५ वि०
मुद्रित कार्तिक शुक्ला ७ सं० १६८१ वि०

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ।

॥ ओ३म् ॥

अथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणम्

॥ पूर्वभागः ॥

—:०:—

॥ प्रथमः प्रपाठकः ॥

कण्डिका १ ॥

ओं ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्, स्वयन्त्वेकमेव तदैक्षत, महद्वै यत्नं, तदेकमेवास्मि, हन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम इति, तदभ्यश्राम्यद्भ्य-
तपत् समतपत्, तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहो यदार्घ्माजा-
यत तेनानन्दत्तमब्रवीत् महद्वै यत्नं सुवेदमविदामह इति । तद्यदब्रवीत् महद्वै
यत्नं सुवेदमविदामह इति, तस्मात् सुवेदोऽभवत्तं वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद
इत्याचक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः ॥ १ ॥

कण्डिका १ । ब्रह्म और सृष्टि की इच्छा ॥

(ओम् ब्रह्म ह वै इदमग्रे आसीत्) ओम् [रत्नक परमात्मा है], ब्रह्म
[सब से बड़ा परमात्मा] ही निश्चय करके इस [जगत्] के पहिले था ।
(स्वयम् तु एकम् एव तत् ऐक्षत) और अपने को अकेला ही उसने देखा—
(महत् वै यत्नम्, तत् एकम् एव अस्मि) मैं बड़ा ही पूजनीय हूँ, सो मैं अकेला
ही हूँ । (हन्त अहम् मत् एव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्ममे इति) अरे ! मैं अपने से
ही अपने समान दूसरा देव [दिव्य पदार्थ] बनाऊँ । (तत् अभि अश्राम्यत् अभि

१—(ओम्) अवतेष्टिलोपश्च । उ० १ । १४२ । अव रत्नणादौ-मन्, टिलोपः,
अथवा, अः = विराडादिः, उः = हिरण्यगर्भादिः, मकारः = ईश्वरादिः । हे रत्नक !
परमेश्वरस्य सर्वोत्तमनाम । आरम्भः । अनुमतिः (ब्रह्म) वृहेर्नोऽच्च । उ० ४ ।
१४६ । वृहि वृद्धौ-मनिन्, नकारस्य अकारः, रत्वं च । ब्रह्म परिवृढं सर्वतः । निरु०
१ । ७ । सर्ववृद्धः परमेश्वरः (ह) निश्चयेन (वै) एव (इदमग्रे) अस्य जगतः

अतपत् सम् अतपत्) उसने सब ओर से श्रम किया, सब ओर से तप किया, भली भांति तप किया । (तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहः यत् आर्घ्यम् आ-अजायत) उस श्रम किये हुये, तपे हुये, भली भांति तपे हुये के ललाट पर चिकना द्रव्य, जो गीलापन है, सब ओर से प्रकट हुआ । (तेन अनन्दत्) उससे वह प्रसन्न हुआ, (तम् अब्रवीत्) और उस [चिकने द्रव्य] से बोला — (महत् वै यत्नम् सुवेदम् अविदामहे इति) मैं बड़ा ही पूजनीय हूँ, सुवेद [अच्छे प्रकार जानने योग्य पदार्थ] को हमने जाना है । (तत् यत् अब्रवीत्) वह जो उसने कहा— (महत् वै यत्नम् सुवेदम् अविदामहे इति) मैं बड़ा ही पूजनीय हूँ, सुवेद [अच्छे प्रकार जानने योग्य पदार्थ] को हमने जाना है— (तस्मात् सुवेदः अभवत्) इस लिये वह सुवेद [अच्छे प्रकार जानने योग्य पदार्थ] हुआ । (तम् वै) उस ही (एतम् सुवेदम् सन्तम्) इस सुवेद [अच्छे प्रकार जानने योग्य पदार्थ] होने हुये को (स्वेदः इति आचक्षते) स्वेद [पसीना] कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट प्रलय में वर्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वर्तमान अवस्था] के द्वेषी [विरोधी] (भवन्ति) होते हैं [अर्थात् दूरदर्शी लोग ब्रह्म के नियमों को विचार कर, क्षणभङ्गुर वर्तमान को छोड़ कर आगे को सुधार करके उन्नति करते हैं] योग दर्शन पाद २ सूत्र १६

पूर्वम् । प्रलयकाले (ऐक्षत) ईक्ष दर्शने—लङ् । अपश्यत् (यत्नम्) यत्न पूजा-याम्—घञ् । पूजनीयम् (हन्त) हर्षे । स्वेदे (मत्) मत्सकाशात् । आत्मनः (मन्मात्रम्) प्रमाणे द्वयसज्जघ्नमात्रचः । पा० ५ । २ । ३७ । मत्—मात्रच् । आत्मसदृशम् (निर्ममे) माङ् माने—लङ् लित् । रचयामि (ललाटे) लल ईप्सा-याम्—अच् + अट गतौ—अण् । ललम् ईप्साम् अटति ज्ञापयतीति ललाटम् । कपाले (स्नेहः) णिह् प्रीतौ स्नेहने च—घञ् । तैलादिरसः । स्निग्धता (आर्घ्यम्) आर्द्र-ष्यञ् । सजलत्वम् (तम्) स्नेहम् (सुवेदम्) विद ज्ञाने—खल् । सुखेन ज्ञेयम् (अविदामहे) विद ज्ञाने विदूत् लाभे वा—लङ्, छान्दसं रूपम् । वयं ज्ञातवन्तः । वयं लब्धवन्तः (स्वेदः) णिदा गात्रप्रक्षरणे—घञ् । घर्मः, प्रस्त्रवणम् । अत्र तु सुवेद एव स्वेदः (आचक्षते) चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि—लट् । समन्तात् कथ-यन्ति (परोक्षेण) परोक्षे लित् । पा० ३ । २ । ११५ इति निर्देशात् परस्यौकारः । अप्रत्यक्षेण प्रत्यक्षे वर्तमानेन ब्रह्मणा (परोक्षप्रियाः) परोक्षे भविष्ये रुचिराः (इव)

में कहा है—हेयं दुःखमनागतम्—न आया हुआ अर्थात् आगे का दुःख छोड़ने योग्य है] ॥ १ ॥

भावार्थ—ऋषि लोग विचारते हैं कि प्रलय में भी वर्तमान अविनाशी ब्रह्म सृष्टि करने के लिये अपना ज्ञान प्रकट करता है ॥ १ ॥

टिप्पणी १—(सुवेद और अविदामहे) पदों में यह समता मानी है कि दोनों पद एक ही धातु [विद्—ज्ञाने] से बने हैं, (स्वेद) शब्द [ष्विदा गात्रप्रक्षरणे-घञ्] से पसीना अर्थ में बनता है, किन्तु यहाँ (सुवेद) को ही (स्वेद) पसीना माना है ॥

करिडका २ ॥

स भूयोऽश्राम्यद् भूयोऽतप्यत् भूय आत्मानं समतपत्तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्यः पृथक् स्वेदधाराः प्रास्यन्दन्त । तभिरनन्दत्, तदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्चाभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चाभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदिदं किञ्चेति । तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्चेति, तस्मात् धारा अभवत्तद् धाराणां धारात्वं यच्चासु ध्रियते । तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चेति, तस्माज्जाया अभवत्तज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषा जायते, यच्च पुत्रः पुत्रामनरकमकशतारं तस्मात् प्राति पुत्रस्तत् पुत्रस्य पुत्रत्वम् । तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदिदं किञ्चेति, तस्मादाया अभवत्तदायामपत्वमाप्नोति वे स सर्वान् कामान् यान् कामयते ॥ २ ॥

करिडका २ ॥ ब्रह्म के रोमों से पसीने की धारायें और सृष्टि की इच्छा ॥

(सः भूयः अश्राम्यत्) उस [परमात्मा] ने फिर श्रम किया, (भूयः अतप्यत्) फिर तप किया, (भूयः आत्मानं समतपत्) और फिर अपने को भली भाँति तपाया । (तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य) उस श्रम किये हुये, तपे हुये, भली भाँति तपे हुये, [परमात्मा] के (सर्वेभ्यः रोमगर्तेभ्यः) सर्व रोम कूपों से (पृथक् स्वेदधाराः) अलग अलग पसीने की धारायें (प्र

यथा (देवाः) विद्वांसः (प्रत्यक्षद्विषः) वर्तमानावस्थाविरोधिनः ॥

२—(सः) परमात्मा । ब्रह्म (भूयः) भू + यस्य यत्ने-किप्, सुवे भवाय यस्यति यतत इति । पुनः (अस्यन्दन्त) स्यन्दू प्रस्रवणे-लङ् । अस्ववन् (आभिः)

अस्यन्दन्त) बहने लगीं । (ताभिः अनन्दत्) उन से वह प्रसन्न हुआ, (तत् अब्रवीत्) तब वह बोला—(आभिः वै अहम् इदं सर्वं धारयिष्यामि यत् इदं किञ्च) इन [पसीने की धाराओं] से ही मैं इस सब को धारण करूंगा, यह जो कुछ भी [होगा], (आभिः वै अहम् इदं सर्वं जनयिष्यामि यत् इदम् किञ्च) इन से ही मैं इस सब को उत्पन्न करूंगा, यह जो कुछ भी [होगा], (आभिः वै अहम् इदम् सर्वम् आपस्यामि यत् इदं किञ्च इति) इन से ही मैं इस सब में व्यापूंगा यह जो कुछ भी [होगा] । (तत् यत् अब्रवीत्) वह जो उस ने कहा—(आभिः वै अहम् इदं सर्वं धारयिष्यामि यत् इदं किञ्च इति) इन [पसीने की धाराओं] से ही मैं इस सब को धारण करूंगा, यह जो कुछ भी [होगा]—(तस्मात् धाराः अभवन्) उसी से वे धारायें [धारण शक्तियां] हुईं । (तत् च धाराणां धारात्वं यत् आसु ध्रियते) और वह धाराओं का धारापन [धारण सामर्थ्य] है जो इन में धरा गया है । (तत् यत् अब्रवीत्) वह जो उसने कहा—(आभिः वै अहम् इदं सर्वं जनयिष्यामि यत् इदं किञ्च इति) इनसे ही मैं इस सबको उत्पन्न करूंगा यह जो कुछ भी [होगा]—(तस्मात् जायाः अभवन्) उससे वे [पसीने की धारायें] जायायें [माताओं समान उत्पन्न करने वाली शक्तियां] हुईं, (तत् च जायानां जायात्वं यत् आसु पुरुषः जायते) और वह जायाओं का जायापन [उत्पादन सामर्थ्य] है जो इनमें पुरुष [जीव] उत्पन्न होता है, (यत् च पुत्रः) और जो पुत्र [संतान वा जीव] होता है । (पुत् नाम नरकम्) पुत् [जिस अवस्था में पापी लोग जाते हैं] नाम वाला नरक (अनेकशततारम्) अनेक संकड़ों दवाव वाला है, (तस्मात् पुत्रः त्राति) उस [नरक] से पुत्र बचाता है, (तत् पुत्रस्य पुत्रत्वम्)

स्वेदधाराभिः (धारयिष्यामि) धृञ् धारणे—लृट् । स्थापयिष्यामि (किञ्च) किमपि (जनयिष्यामि) जन जनने, वा जनी प्रादुर्भावे—लृट् । उत्पादयिष्यामि (आपस्यामि) आप्लु व्याप्तौ—लृट् । व्यापस्यामि (इति) वाक्यसमाप्तौ (धाराः) धृञ् धारणे—शिच्—अङ् । प्रवाहसन्ततयः । धारणशक्तयः (धारात्वं) धारणसामर्थ्यम् (ध्रियते) स्थाप्यते (जायाः) जनेर्यक् । उ० ४ । १११ । जन जनने—यक् । मातृसदृश्य उत्पादनशक्तयः (पुरुषः) पुरः कुषन् । उ० ४ । ७४ । पुर - अग्रगमने—कुषन् । जीवः (पुत्रः) पुचो ह्रस्वश्च । उ० । ४ । १६५ । पूञ् पवने—क्त्रः, धातोर्ह्रस्वत्वम्, अथवा पुत् + त्रैङ् पालने—क । पुत्रः पुरु त्रायते निपरणाद्वा पुन्नरकं ततस्त्रायत इति वा—निरु० २ । ११ । सन्तानः ।

वह पुत्र का पुत्रपन [नरक से वचाना] है । (तत् यत् अब्रवीत्) वह जो उस ने कहा—(आभिः वै अहम् इदं सर्वम् आपस्यामि यत् इदं किञ्च इति) इन [पसीने की धाराओं] से ही मैं इस सब में व्यापूंगा यह जो कुछ भी [होगा]—(तस्मात् आपः अभवन्) उससे वे आप् [व्यापक जल] हुये, (तत् अपाम् अप्त्वम्) वह जलों का जलपन [व्यापकपन] है । (सः वै सर्वान् कामान् आप्नोति यान् कामयते) वह अवश्य सब कामनायें पाता है जिन्हें वह चाहता है [जो ऐसा विद्वान् है—देखो कण्डिका ३, ४] ॥ २ ॥

भावार्थ—जगत् की उत्पत्ति में ब्रह्म के पसीने की तीन अवस्थायें मानी हैं, एक धारण सामर्थ्य, दूसरी उत्पादन सामर्थ्य और तीसरी व्यापन सामर्थ्य ॥ २ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका के इन पदों में समता मानी है, (धारयिष्यामि तथा धाराः) दोनों पद धृञ् धारणे से, (जगयिष्यामि तथा जायाः) जन वा जनी जनने से और (आपस्यामि तथा आपः) आप्तु व्याप्तौ प्राप्तौ से बने हैं ॥

टिप्पणी २—कण्डिका १-२ का मिलान करो (हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य ज्ञातः पतिरेकं आसीत् । स दाधार पृथिवीमुत द्वां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥) हिरण्यगर्भ, तेजवाले लोकों का आधार, पहिले ही पहिले वर्तमान था, वही प्रकट होकर पृथिवी आदि पंचभूत का एक पति हुआ, उस ने पृथिवी और सूर्य को धारण किया, उस सुखदायक प्रजापति की दिव्य गुण के लिये भक्ति के साथ हम सेवा करें—अथर्व० काण्ड ४ सूक्त २ मन्त्र ७ । (आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् । तस्योत जायमानस्योत्सवं आसीद्धिरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥) पहिले ही पहिले बालक रूप संसार को उत्पन्न करती हुई जल धाराओं ने गर्भ, बालक रूप संसार, को यथावत् प्रकट किया और उस उत्पन्न होते हुये [बालक, संसार] का जरायु [गर्भ की भिल्ली] तेजोमय परमात्मा था, उस सुखदायक प्रजापति की दिव्य गुण के लिये भक्ति के साथ हम सेवा करें—अथर्व ४ । २ । ८ ॥

जीवः (पुत्) पुत पुत्त वा गतौ—क्विप् । गच्छन्ति पापिनो यत्र । नरकम् (नरकम्) कृजादिभ्यः संज्ञायां वुन् । उ० । ५ । ३५ । नृ नये—वुन् । दुःखभोगावस्थाभेदः । (अनेकशततारम्) तृ अभिभवे स्वार्थे णिच्—घञ् । बहुविधाभिभवयुक्तम् (त्राति) प्रायते (आपः) आप्नोतेर्ह्रस्वश्च । उ० २ । ५८ । आप्तु व्याप्तौ—क्विप्, जसि दीर्घः । व्यापनशक्तयः । जलानि ॥

कण्डिका ३ ॥

ता अपः सृष्ट्वाऽन्वेक्षन्, तासु स्वां छायामपश्यत् तामस्येक्षमाणस्य स्वयं
रेतोऽस्कन्दत्तदप्सु प्रत्यातिष्ठत् तास्तत्रैवाभ्यश्राम्यद्भ्यतपत्, समतपत्, ताः
श्रान्तास्तप्ताः सन्तप्ताः सार्द्धमेव रेतसा द्वैधमभवन्तासामन्या अन्यतरा अति-
लवणा अपेया अस्वादूव्यस्ता अशान्ता रेतः समुद्रं वृत्वाऽतिष्ठन्नथेतराः पेयाः
स्वादूव्यः शान्तास्तत्रैवाभ्यश्राम्यद्भ्यतपत्, समतपत्, ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्त-
प्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यो यद्रेत असीत्तदभृज्यत, यदभृज्यत तस्माद् भृगुः समभवत्,
तद् भृगांर्भृगुत्वं भृगुरिव वै स सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ । ब्रह्म के बीज का जल में गिरना, समुद्र और भृगु की उत्पत्ति ॥

(ताः अपः सृष्ट्वा अनु ऐक्षत) उन जलों को उत्पन्न करके उसने फिर
देखा, (तासु स्वां छायाम् अपश्यत्) उन में अपनी छाया [कान्ति, तेज्] को
देखा । (ताम् ईक्षमाणस्य अस्य) उस [छाया] को देखते हुये इस [ब्रह्म]
का (रेतः स्वयम् अस्कन्दत्) बीज अपने आप टपका, (तत् अप्सु प्रति अति-
ष्ठत्) और वह जलों में ठहर गया । (ताः तत्र एव अभि अश्राम्यत्) उनको
वहां ही उसने सब ओर से धम दिया [द्याया], (अभि अतपत्) सब
ओर से तपाया, (सम् अतपत्) भली भांति तपाया । (ताः श्रान्ताः तप्ताः
सन्तप्ताः) वे दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुये [जल] (रेतसा
सार्द्धम् एव) बीज के साथ ही (द्वैधम् अभवन्) दो प्रकार से हो-
गये । (तासाम् अन्याः अन्यतराः) उन में से कोई, दोनों में से कोई एक
[जलधारायं] (अतिलवणाः) अति खारी, (अपेयाः) न पीने योग्य और
(अस्वादूव्यः) अरोकच थीं, (ताः अशान्ताः रेतः) वे अशान्त बीज [हाती हुयीं]
(समुद्रं वृत्वा) समुद्र [परमात्मा] को स्वीकार करके (अतिष्ठन्) ठहरां

३—(अपः) जलानि (छायाम्) माञ्जाससिसूभ्यो यः । उ० । ४ ।
१०६ । छो छेदने-यप्रत्ययः । प्रताशावरणम् । कान्तिम् । प्रतिविम्बम् (अस्य)
ब्रह्मणः (ईक्षमाणस्य) पश्यतः (रेतः) बीजम् (अस्कन्दत्) अक्षरत् (द्वैधम्)
द्विभ्योश्च धमुञ् । पा० । ५ । ३ । ४५ । द्वि-धमुञ् । द्विविधम् (अस्वादूव्यः)
अरुचिराः (समुद्रम्) सम + उत् + ङ्—ङप्रत्ययः । समुद्र आदित्यः, समुद्र

[देखो कण्डिका ७] । (अथ इतगाः) और दूसरी [जलधारायै] (पेयाः) पीने योग्य, (स्वाद्ग्व्यः) रोचक और (शान्ताः) शान्त थीं, (ताः तत्र एव अभि अश्राभ्यत्) उनको वहां ही उसने सब ओर से दबाया, (अभि अतपत्) सब ओर से तपाया, (सम् अतपत्) भली भांति तपाया । (ताभ्यः श्रान्ताभ्यः तप्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यः) उन दबाई हुई, तपाई हुई, भली भांति तपाई हुई [जल धाराओं] से (यत् रेतः आसीत्) जो बीज हुआ, (तत् अभृज्यत) वह पक गया [अथवा चमक उठा] । यत् अभृज्यत) जो वह पक गया [वा चमक उठा], (तस्मात्) उससे (भृगुः) वह भृगुः [भर्ग वाला अर्थात् चमकीला तत्त्व विशेष] (सम् अभवत्) उत्पन्न हुआ, (तत्) वह (भृगोः) भृगु का (भृगुत्वम्) भृगुपन [पकपन वा चमकीलापन] है । (भृगुः इव वै) भृगु के समान ही (सः सर्वेषुलोकेषु भाति) वह सब लोकों [जीवों] में चमकता है, (यः एव वेद) जो ऐसा विद्वान् है ॥ ३ ॥

भावार्थ—ब्रह्म ने जल रूप तत्त्व के दो रूप किये एक अतिसूक्ष्म परमाणु रूप जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, और दूसरा स्थूल रूप प्रकाश आदि ॥

टिप्पणी १—(अभृज्यत तथा भृगुः) दोनों पद भ्रस्ज पाके दीप्तौ च, एक धातु से बने हैं यह दोनों में समता है ॥

टिप्पणी २—मनु जी महाराज अध्याय १ श्लोक ८, ९, १२, १३ में ऐसा कहते हैं—(सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिष्टुर्विविधाः प्रजाः । अपएव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥ ८ ॥ तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम् । तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलाकपितामहः ॥ ९ ॥ तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवात्मनेना ध्यानादण्डमकरोद् द्विधा ॥ १२ ॥ ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे । मध्येव्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥) उस [परमात्मा] ने अपने शरीर से अनेक प्रजायें उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए सब ओर से ध्यान करके अप् [जल तत्त्व] को पहिले

आत्मा—निरु० १४ । १६ । परमात्मानम् । जलौघम् (वृत्वा) स्वीकृत्य (अभृज्यत) भ्रस्ज पाके दीप्तौ च-लङ् । पकमभवत् । अदीप्यत (भृगुः) प्रथिन्नदि-भ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च । उ० १ । २८ । भ्रस्ज पाके दीप्तौ च—कु, सम्प्रसारणं सलोपो न्यङ्कादित्वात् कुत्वं च । भृगवः, मध्यस्थानदेवताः—निरु० । ११ । १६ । भर्गयुक्तः । परिपक्वः । तेजस्वी । परमात्मरूपम् (वेद) विद्वान्—लट् । वेत्ति । जानाति ॥

उत्पन्न किया और उसमें बीज छोड़ दिया ॥ ८ ॥ वह [बीज] सूर्य के समान प्रकाशवाला चमकीला अण्डा हो गया, उस अण्डे में सब लोकों का पितामह ब्रह्मा [परमात्मा] अपने आप प्रकट हुआ ॥ ९ ॥ उस अण्डे में उस भगवान् [ऐश्वर्यवान् परमात्मा] ने वर्ष भर रह कर अपने आप ही अपने ध्यान से उस अण्डे को दो टुकड़े कर दिया ॥ १२ ॥ उस [परमात्मा] ने उन दो टुकड़ों से सूर्य और पृथिवी, बीच में आकाश, आठ दिशाओं और जलों के नित्य स्थायी स्थान को बनाया ॥ १३ ॥

कण्डिका ४ ॥

सभृगुं सृष्ट्वाऽन्तरधीयत, स भृगुः सृष्टः प्राङ्मेजत तं वागन्ववदद्वायो वायो इति, स न्यवर्त्तत, स दक्षिणां दिशमेजत तं वागन्ववदत् मातरिश्चन् मातरिश्चन्निति, स न्यवर्त्तत स प्रतीचीं दिशमेजत तं वागन्ववदत् पवमानः पवमान इति, स न्यवर्त्तत स उदीचीन्दिशमेजत तं वागन्ववदद्वात वातंति तमब्रवीन्नन्वविदामह इति, तदीत्यथार्वाङ्गेनमेतास्वेवापन्धन्विच्छेति तद्यद्ब्रवीद्यथार्वाङ्गेनमेतास्वेवापन्धन्विच्छेति तद्यथार्वाऽभवत्, तद्यथर्वणोऽथर्वत्वम् । तस्य ह वा एतस्य भगवतोऽथर्वण ऋषेर्यथैव ब्रह्मणो लोमानि यथाऽङ्गानि यथा प्राण एवमेवास्य सर्व आत्मा समभवत्तमथर्वाणं ब्रह्माऽब्रवीत् प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्वेति । तद्यद्ब्रवीत् प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्वेति, तस्मात् प्रजापतिरभवत्, तत् प्रजापतेः प्रजापतित्वमथर्वा वै प्रजापतिः, प्रजापतिरिव वै स सर्वेषु लोकेषु भानि य एवं वेद ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ । अथर्वा और प्रजापति ॥

(स भृगुं सृष्ट्वा अन्तर् अधीयत) वह [परमात्मा] भृगु [पकाने वाले वा चमकीले तत्त्व] को उत्पन्न करके अन्तर्धान हो गया । (सः भृगुः सृष्टः प्राङ् एजत = एजत) वह भृगु उत्पन्न होकर पूर्व को चला । (तं वाक् अनु अवदत्) उस से वाणी [वेद वाणी] कहने लगी—(वायो वायो इति) हे वायु ! वायु ! [चलनेवाले पवन] । (स न्यवर्त्तत) वह लौटा । (स दक्षिणां दिशम् एजत) वह दक्षिण दिशा को चला । (तं वाक् अनु अवदत्) उससे

४—(अन्तरधीयत) अन्तर + डुधाञ् धारणपोषणयोः कर्मणि लङ् । अन्तर्हितोऽदृष्टोऽभवत् (प्राङ्) प्र + अञ्चु गतिपूजनयोः—किन् । पूर्वस्यां दिशि (एजत) एजू कम्पने—लङ् । बहुलं छन्तस्यमाङ्ग्येगोऽपि । पा० ६ । ४ । ७५ ।

वाणी कहने लगी—(मातरिश्वन् मातरिश्वन् इति) हे मातरिश्वन् ! हे मात-
रिश्वन् ! [आकाश में बढ़ने वाले पवन] । (स न्यवर्तत) वह लौटा । (स
प्रतीचीं दिशम् एजत) वह पश्चिम दिशा को चला । (तं वाक् अनु अवदत्)
उस से वाणी कहने लगी—(पवमानः पवमान इति) हे पवमान ! पवमान
[शोधने वाले पवन] । (सः न्यवर्तत) वह लौटा । (स उदीचीं दिशम् एजत)
वह उत्तर दिशा को चला । (तं वाक् अनु अवदत्) उससे वाणी कहने लगी
(वात वात इति) हे वात ! वात ! [सेवनीय पवन] । (तम् = ताम्) उस
[वाणी] से (अब्रवीत्) वह बोला—(ननु अविदामहे इति) क्या [उस पर-
मात्मा को] हमने जाना है ? [वाणी ने कहा] (नहि इति) नहीं [जाना है],
(अथ अर्वाङ्) अब सामने (एनम्) इस [पुरुष] को (एतासु एव) इन ही
(अप्सु) जलों [भाप समान व्यापक तन्मात्राओं] में (अन्विच्छ इति) खोज ।
(तत्पत्) वह जो (अब्रवीत्) उस [वाणी] ने कहा—(अथ अर्वाङ् एनम्
एतासु एव अप्सु अन्विच्छ इति) अब सामने इस [पुरुष] को इनहीं जलों
[भाप समान व्यापक तन्मात्राओं] में खोज—(तत् अथर्वा अभवत्) वह
अथर्वा [निश्चल परमात्मा] हुआ [अर्थात् अथर्वा पद अथ और अर्वाङ् से
बना है] । (तत् अथर्वणः अथर्वत्वम्) वह अथर्वा का अथर्वपन है [फिर
सामने होना है] । (यथा एव ब्रह्मणः लोमानि) जैसे ही ब्रह्म के रोम, (यथा
अङ्गानि) जैसे अङ्ग [हाथ पैर आदि] थे और (यथा प्राणः) जैसा प्राण

आडभावः । अकम्पत । अगच्छत् । (वाक्) वेदवाणी (अनु) अनन्तरम् (वायो)
कृवापाजिमि० । उ० । १ । १ । वा गतिगन्धनयोः—उण् युक् च । हे गतिशील पवन
(मातरिश्वन्) श्वन्नुत्तन् पूषन्० । उ० १ । १५६ मातरि + दुओशिव गतिवृद्ध्योः,
श्वस प्राणने, शीङ् स्वप्ने वा—कनिन् । मातरिश्वा वायुर्मातिर्यन्तरिक्षे श्वसिति मा-
तर्याश्वनितीति वा—निरु० ७ । २६ । मातरि मानकर्तरि आकाशे हे वृद्धिशील
पवन (पवमानः) पूञ् शोधने—शानच् मुक् च । आर्षो विसर्गः । हे शोधक पवन
(वात) हसिमृगिण्वा० । उ० ३ । ८६ वा सुखाप्तिगतिसेवासु—तन् । हे सेव-
नीय पवन (अर्वाङ्) स्नामदिपद्यर्त्ति० । उ० ४ । ११३ । ऋ गतौ—वनिप्, इति
अर्वन् । ऋत्विग् दधृक्० । पा० ३ । २ । ५६ । अर्वन् + अश्नु गतिपूजनयोः—किन्,
अर्वन्तम् अश्नुतीति । अभिमुखः । (अथर्वा) अथर्वाणोऽथनवन्तस्यर्वतिश्चरति-
कर्म तत्प्रतिषेधः—निरु० ११ । १८ स्नामदिपद्यर्त्ति० । उ० ४ । ११३ । अ + थर्व
चरणे = गतौ—वनिप् । यद्वा अथ + ऋ गतौ—वनिप्, अत्र तु अथ + अर्वाङ् ।

था; (एवम् एव) वैसा ही (अस्य तस्य एतस्य) इस बहुत प्रसिद्ध (भगवतः) भगवान् [ऐश्वर्यवान्] (अथर्वणः ऋषेः) अथर्वा ऋषि का (ह) भी (वै) निश्चय करके (सर्वः आत्मा) सब आत्मा [शरीर] (समू अभवत्) उत्पन्न हुआ । (तम् अथर्वाणं ब्रह्म अब्रवीत्) उस अथर्वा से ब्रह्म बोला । (प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्व इति) प्रजापति की प्रजाओं [जीव जन्तु आदि पदार्थों] को उत्पन्न करके पाल । (तत् यत् अब्रवीत्) वह जो उम् [ब्रह्म] ने कहा— (प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्व इति) प्रजापति की प्रजाओं को उत्पन्न करके पाल—(तस्मात् प्रजापतिः अभवत्) उससे वह प्रजापति हुआ, (तत् प्रजापतेः प्रजापतित्वम्) वह प्रजापति का प्रजापतित्व है । (अथर्वा वै प्रजापतिः) अथर्वाही प्रजापति है । (प्रजापतिः इव वै) प्रजापति के समान ही (सः सर्वेषु लोकेषु भाति) वह पुरुष सब लोकों में चमकता है, (यः एवं वेद) जो ऐसा विद्वान् है ॥ ४ ॥

भावार्थ—ऋषि लोग ज्ञान शक्ति से पवन द्वारा सब दिशाओं में ब्रह्म को खोजने लगे, अन्त में ब्रह्म को सब परमाणुओं में सर्वथा व्यापक पाया । ब्रह्म के ही नाम यहाँ भृगु, अथर्वा और प्रजापति हैं ॥ ४ ॥

करिडका ५ ॥

तमथर्वाणामृषिमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्, समतपत्तस्माच्छ्रान्तात्तप्तात् सन्तप्तात् दशतयानथर्वण ऋषीन्निरमिमतैकर्चान् दृष्ट्वाँस्तृचांश्चतुर्चान् पञ्चर्चान् षडर्चान् सप्तर्चानष्टर्चान्नवर्चान्दशर्चानिति । तानथर्वण ऋषीनभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत्, तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो दशतयानार्थवणानर्षियान्निरमिम- तैकादशान् द्वादशांस्त्रयोदशांश्चतुर्दशान् पञ्चदशान् षोडशान् सप्तदशानष्टा- दशान्नवदशान् विंशानिति । तानथर्वण ऋषीनाथर्वणांश्चार्षेयानभ्यश्राम्यदभ्य- तपत् समतपत् तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो यान् मन्त्रानपश्यत् स आथ- र्वणो वेदोऽभवत् तमाथर्वणं वेदमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छ्रान्तात्

निश्चलः । मङ्गलशीलः । आनन्तर्ग्येण समीपः । परमात्मा । वेदः । वेदज्ञाता पुरुषः । (ऋषेः) ऋगुपधात् कित् । उ० ४ । १२० । ऋष गतौ दर्शनेच—इन् कित् । ऋषिदर्शनात्—निरु० २ । ११ । दर्शकस्य । दर्शनीयस्य (आत्मा) सातिभ्यां मनिन्मनिणौ । उ० ४ । १५३ । अत सातस्यगमने—मनिण् । स्वरूपम् । देहः । क्षीयः । ब्रह्म ॥

तप्तात् सन्ततादोमिति मन एवोर्ध्वमक्षरमुदक्रामत्, स य इच्छेत्सर्वैरेतैरथर्वभि-
श्चाथर्वणैश्च कुर्वीयेत्येतयैव तं महाव्याहृत्या कुर्वीत । सर्वैर्ह वा अस्यैतैरथर्व-
भिश्चाथर्वणैश्च कुर्वीयेत्येतयैव तं महाव्याहृत्या कुर्वीत । सर्वैर्ह वा अस्यैतैरथर्व-
भिश्चाथर्वणैश्च कृतं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेतया महाव्याहृत्या
कुरुते ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ दस अथर्वा ऋषि, दस आथर्वण, वेद और ओम् ॥

(तन् अथर्वाणाम् ऋषिम्) उस अथर्वा ऋषि [अर्थात् अपने] को
(अभि अश्राम्यत्) उस [ब्रह्म] ने सब ओर से दबाया, (अभि अतपत्)
सब ओर से तपाया, (सम् अतपत्) भली भांति तपाया । (तस्मात् श्रान्तात्
तप्तात् सन्ततात्) उस दवाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुये
[अथर्वा] से (दशतयान् अथर्वणः ऋषीन्) दस प्रकार वाले अथर्वा
(निश्चल) ऋषियों [दर्शनीय वेदज्ञानों] को (निर् अमिमत्) उस ने बनाया,
[अर्थात्] (एक—ऋचान्) एक [ओम् परमात्मा] की स्तुति योग्य विद्या
वाले [वेदज्ञानों] को, (द्वि—ऋचान्) दो [स्थावर और जङ्गम संसार] की
स्तुति योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को, (तृचान्) तीन [भूत, भविष्यत्, वर्त्त-
मान] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को, (चतुर्—ऋचान्) चार
[धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को, (पंच-
ऋचान्) पांच [पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांच तत्त्वों] की स्तुति
योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को, (षट्—ऋचान्) छह [बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा,
शरद, हेमन्त, शिशिर, ऋतुओं] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को,
(सप्त—ऋचान्) सात (दो कान, दो नथने, दो आँखें, एक मुख अथर्व०
१० । २ । ६] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को, (अष्ट—ऋचान्)
आठ [यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,

५—(अथर्वाणाम्) गो० पू० १ । ४ । निश्चलम् (ऋषिम्) गो० पू० १ । ४ ।
सन्मार्गदर्शक स्वात्मानम् (दशतयान्) संख्याया अवयवे तयप् । पा० ५ । २ । ४२ ।
दशन्—तयप् । दशप्रकारान् (ऋषीन्) दर्शनीयान् वेदमन्त्रान् (निर अमिमत्)
माङ् माने—लङ्, आर्षं बहुवचनम् । अमिमीत् । निर्मितवान् (एकऋचान्)
ऋच स्तुतौ—क्लिप् । ऋग्वाङ् नाम्—निघ० १ । ११ । ऋक् पूरब्धूपत्नामानत् ।
पा० ५ । ४ । ७४ एक + ऋच्-अप्रत्ययः समासान्तः । एकस्य ओम् इत्यस्य

योग के आठ अङ्गों] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को, (नव—
 ऋचान्) नव [आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम् । निष्ठा वृत्ति-
 स्तपो दानं नवधा कुललक्षणम्—इति शब्दकल्पद्रुमः—इन नौ कुल लक्षणों]
 की स्तुति योग्य विद्या वाले [ज्ञानों] को और (दश—ऋचान् इति) दस
 [दान, शील, क्षमा, वीरता, ध्यान, बुद्धि, सेना, उपाय, दून, ज्ञान, इन दस बलों]
 की स्तुति योग्य विद्या वाले [वेद ज्ञानों] को—[इस विषय के लिये देखो
 अथर्व काण्ड १६ सूक्त २३ मन्त्र २०, १६, १—७] । (तान्) उन (अथर्वणः)
 अथर्वा [निश्चल] (ऋचीन्) ऋषियों [दर्शनीय वेद ज्ञानों] को (अभि
 अध्याम्यत्) सब ओर से दबाया, (अभि अतपत्,) सब ओर से तपाया,
 (समू अतपत्) भली भांति तपाया । (तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः)
 उन दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुये, [निश्चल वेदज्ञानों] से
 (दशतयान्) दस प्रकार वाले (आथर्वणान्) आथर्वण [निश्चल ब्रह्म से आये
 हुये] (आर्षेयान्) आर्षेयों [ऋषियों, वेदज्ञानों में विख्यात सूदम विज्ञानों]
 को (निर अभिमत्) उस [ब्रह्म] ने बनाया—[अर्थात्] (एकादशान्) ग्यारहवें
 [प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, दस
 प्राणों के सहित ग्यारहवें जीवात्मा] से सम्बन्ध वाले, (द्वादशान्) बारहवें
 [चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण,
 पौष, माघ, ग्यारह महीनों के सहित फाल्गुन महीने] से सम्बन्ध वाले, (त्रयो-
 दशान्) तेरहवें [उछालना, गिराना, सकोड़ना, फैलाना, और चलना पांच
 कर्म—तथा छोटाई, हलकाई, प्राप्ति, स्वतन्त्रता, बड़ाई, ईश्वरपन और जिते-
 न्द्रियता, इन बारह के सहित तेरहवें सत्य संकल्प] से सम्बन्ध वाले, (चतु-
 र्दशान्) चौदहवें [कान, आंख, नासिका, जिह्वा, त्वचा—पांच ज्ञानेन्द्रिय, और
 वाक्, हाथ, पांव, पायु उपस्थ पांच कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त के सहित

परमात्मनः ऋक् स्तुत्या विद्या येषु तान् वेदान् (द्वि—ऋचान्) सिद्धिः पूर्ववत् ।
 द्वयोः स्याव (जङ्गमयोः स्तुत्यविद्यायुक्तान् वेदान् (तृचान्) त्रि + ऋचान् । न
 संप्रसारणे संप्रसारणम् । पा० ६ । १ । ३७ । अत्र वार्तिकम् । ऋचि त्रेरुत्तरपदा-
 दित्त्वोपश्चच्छन्दसि । त्रिशब्दस्य तृ, ऋच् शब्दस्य ऋत्वोपश्च । ऋक् पूरब्० ।
 पा० ५ । ४ । ७४ । तृच्—समासान्तः अप्रत्ययः । त्रयाणां भूतभविष्यद्वर्तमाननां
 स्तुत्यविद्यायुक्तान् वेदान् । एवम् (चतुर्ऋचान्, पंचर्चान्) आदि पदेषु सिद्धि-
 र्थश्च योजनीयः (आथर्वणान्) तत आगतः । पा० ४ । ३ । ७४ । अथर्वन्—

चौदहवें अहङ्कार] से सम्बन्ध वाले, (पञ्चदशान्) पन्द्रहवें [शुक्ल, नील, पीत रक्त, हरित, कपिश, और चित्र—सात रूप, तथा मधु, आस्र, लवण, कटु, कषाय और तिक्त—छह रस और चौदहवें सुरभि गन्ध के सहित पन्द्रहवें असुरभि गन्ध] से सम्बन्ध वाले, (षोडशान्) सोलहवें [प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, प्रकाश, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक—इन पन्द्रह कलाओं के सहित सोलहवीं कला नाम] से सम्बन्ध वाले, (सप्तदशान्) सत्रहवें [चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर की एक नीचे की, दस दिशायें—सत्त्व, रज, और तम, तथा ईश्वर, जीव और प्रकृति—इन सोलह के सहित सत्रहवें संसार] से सम्बन्ध वाले, (अष्टादशान्) अठारहवें [धैर्य, सहन, मन का रोकना, चोरी न करना, शुद्धता, जितेन्द्रिता, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना—यह दश धर्म—तथा ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सुवर्ण, घृत, सूर्य, जल—इन सात मंगलों के सहित अठारहवें राजा] से सम्बन्ध वाले, (नवदशान्) उन्नीसवें [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—चार वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास—चार आश्रम, सत्सङ्ग सुनना, विचारना, ध्यान करना—चार कर्म, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि, बड़े हुये का सन्मार्ग में व्यय करना, चार पुरुषार्थ—मन बुद्धि इन अठारह के सहित उन्नीसवें अहङ्कार] से सम्बन्ध वाले, (विंशान् इति) और बीसवें [पृथिवी आदि पांच सूक्ष्मभूत, पृथिवी आदि पांच स्थूल भूत—कान, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा पांच ज्ञानेन्द्रिय और वाक्, हाथ, पांव, पायु, इन उन्नीस के सहित बीसवें उपस्थेन्द्रिय] से सम्बन्ध वाले [सूक्ष्म विज्ञानों को उस ब्रह्म ने बनाया]—[इस विषय के लिये देखो अथर्व काण्ड १६ सूक्त २३ मन्त्र ८-१७] । (तान्) उन (अथर्वणः) अथर्वा [निश्चल] (ऋषीन्) ऋषियों [सन्मार्ग दर्शक वेदज्ञानों] (च) और (आथर्वणान्) आथर्वण [निश्चल ब्रह्म से आये हुये]

अण् । अन् । पा० ६ । ४ । १६७ । इति अणि प्रकृतिभावः । अथर्वणो निश्चलात् परमेश्वराद् आगतान् प्राप्तान् (आर्षेयान्) पथ्यतिथिवसति स्वपतेर्दञ् । पा० ४ । ४ । १०४ । ऋषि—डञ् वाहुलकात् । ऋषिषुविख्यात आर्षेयः—महीधर भाष्ये, यजु० ७ । ४६ । आर्षेय ऋषिषु साधुस्तत्सम्बुद्धौ—दयानन्द भाष्ये यजु० २१, ६१ । ऋषिषु वेदमन्त्रेषु विख्यातानि सूक्ष्मविज्ञानानि (एकादशान्) तस्य पूरणे डद् । पा० ५ । २ । ४८ । एकाशन्—डद् । अर्शआदिभ्यो अच् । पा० । ५ । २ । १२७ । एकादश—अच् । प्राणापानोदानव्यानसमाननागकूर्मकृकलदेव-

(आर्षेयान्) आर्षेयों [ऋषियों, वेदज्ञानों में विख्यात सूक्ष्म विद्वानों] को (अभि
 अश्राम्यत्) उस [ब्रह्म] ने सब ओर से दबाया, (अभिअतपत्) सब ओर तपाया,
 (सम् अतपत्) भलीभांति तपाया । (तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः) उन
 दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुये [वीसों] से (यान) जिन (मन्त्रान्)
 मन्त्रों [अति सूक्ष्म विचारों] को (अपश्यत्) उस [ब्रह्म] ने देखा, (सः) वह
 (आथर्वणः) आथर्वण [निश्चल ब्रह्म का] (वेदः) वेद (अभवत्) हुआ [अर्थात्
 समस्त चारों वेदांक विज्ञान प्रकट हुआ] । (तम्) उस (आथर्वणम् वेदम्) आथ-
 र्वण वेद [निश्चल ब्रह्म के विज्ञान] को (अभि अश्राम्यत्) उस [ब्रह्म] ने सब
 ओर से दबाया, (अभि अतपत्) सब ओर से तपाया, (सम् अतपत्) भली
 भांति तपाया । (तस्मात् श्रान्तात् तपतात् सन्तप्तात्) उस दबाये हुये, तपाये हुये,
 भली भांति तपाये हुये [वेद] से (ओम् इति मनः एव) ओम् [सर्वरक्षक अर्थात्]
 मन [मननशील ब्रह्म] ही (ऊर्ध्वम्) ऊंचा [उत्कृष्ट] (अक्षरम्) अक्षर
 [अविनाशी ब्रह्म शब्द] (उत् अक्रामत्) निकला । (सः यः) वह पुरुष जो
 (इच्छेत्) चाहे—(एतैः सर्वैः) इन सब (अथर्वभिः) अथर्वाओं [निश्चल
 वेद ज्ञानों] से (च) और भी (आथर्वणैः) आथर्वणों [निश्चल ब्रह्म के
 विद्वानों] से (कुर्वीय इति) मैं [पुरुषार्थ] करूँ—वह (एतया एव) इस ही
 (महाव्याहृत्या) महाव्याहृति [महावाक्य ओम्] से (तम्) उस [पुरुषार्थ]
 को (कुर्यात्) करे । (अस्य) उस [पुरुष] का (एतैः सर्वैः) इन सब (अथ-
 र्वभिः) अथर्वाओं [निश्चल वेदज्ञानों] से (च च) और भी (आथर्वणैः)
 आथर्वणों [निश्चल ब्रह्म के विद्वानों] से (ह वै) ही अवश्य (कृतम्) कर्म
 (भवति) होता है, (यः एवम् वेद) जो ऐसा विद्वान् है, (च यः) और जो
 (एवम् विद्वान्) ऐसा विद्वान् [जानकार होकर] (एवम्) इस प्रकार से
 (एतया महाव्याहृत्या) इस महाव्याहृति [ओम्] से (कुरुते) कर्म करता है ॥५॥

दत्त धनञ्जयाः—इति दशभिः प्राणैः सहितस्यैकादशस्य जीवात्मनः संभवद्भानि
 विज्ञानानि (द्वादशान्) आदीनि पदान्येवमेव साधनीयानि योजनीयानिच
 (ओम्) पू० १ । १ । सर्वरक्षकः परमेश्वरः (मनः) सर्वधातुभ्योऽसुन् । उ०
 ४ । १८६ । मन ज्ञाने—असुन् । मननशीलं ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म (ऊर्ध्वम्) उत्कृष्टम्
 (अक्षरम्) न क्षरतीति । अविनाशि ब्रह्म (उत् अक्रामत्) उदगच्छत् (कुर्वीय)
 अहं पुरुषार्थं कुर्याम् (तम्) पुरुषार्थम् (महाव्याहृत्या) महती चासौ व्याहृति-
 र्चेति । महावाक्येन (कुर्वीत) कुर्यात् (कुरुते) कर्म करोति ॥

भावार्थ—ऋषि महारमाओं ने ब्रह्म को उसके प्रकट किये हुये ज्ञानों और विज्ञानों द्वारा सब ज्ञानों और विज्ञानों का सार एक ओम् को सर्वरक्षक सर्व-व्यापक परमात्मा माना है ॥ ५ ॥

कण्डिका ६ ॥

स भूयोऽश्राम्यद् भूयोऽतप्यद् भूय [आत्मानं समतपत् स आत्मन एव त्रींलोकान्निरमिमत् पृथिवीमन्तरिक्षान्दिवमिति । स खलु पादाभ्यामेव पृथिवीं निरमिमतोदरादन्तरिक्षम्, मूर्ध्नोदिवम् । स तांस्त्रींलोकानभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यस्त्रीन् देवान् निरमिमताग्निं वायुमादित्यमिति । स खलु पृथिव्या एवाग्निं निरमिमतान्तरिक्षाद्वायुन्दिव आदित्यम् । स तांस्त्रीन् देवानभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यस्त्रीन् वेदान्निरमिमत् ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदमिति, अग्ने ऋग्वेदं, वायोर्यजुर्वेदमादित्यात्सामवेदम् । स तांस्त्रीन् वेदानभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत् तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यस्तिष्ठो महाव्याहृतीर्निरमिमत् भूर्भुवः स्वरिति । भूरित्यृग्वेदात्, भुव इति यजुर्वेदात्, स्वरिति सामवेदात् । स य इच्छेत्सर्वैरेतैस्त्रिभिर्वेदैः कुर्वीयेत्येताभिरेव तं महाव्याहृतिभिः कुर्वीत सर्वैर्ह वा अस्यैतैस्त्रिभिर्वेदैः कृतं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेताभिर्महाव्याहृतिभिः कुरुते ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद और तीन महाव्याहृति ॥

(सः भूयः आत्मानम् अश्राम्यत्) उस [परमात्मा] ने फिर अपने को दयाया, (भूयः अतप्यत्) फिर तपाया, (भूयः सम् अतपत्) फिर भली भाँति तपाया । (सः आत्मनः एव त्रीन् लोकान् निर् अमिमत्) उसने अपने में से ही तीन लोक बनाये [अपने तीन रूप प्रकट किये], (पृथिवीम्, अन्तरिक्षम्, दिवम् इति) पृथिवी [सब का कैलाने वाला,] अन्तरिक्ष [सब के भीतर देखने वाला] और प्रकाश लोक [सर्व प्रकाशक रूप] । (सः खलु पादाभ्याम् एव पृथिवीं निर् अमिमत्) उसने निश्चय करके दोनों पावों से ही पृथिवी

६—(पृथिवीम्) प्रथेः षिवन् षवन् ष्वनः संप्रसारणं च । उ० १ । १५० । प्रथ ख्यातौ विस्तारे च—षिवन्, संप्रसारणं, डीष् । सर्वविस्तारकं परमात्मरूपम् । भूमिम् । (अन्तरिक्षम्) अन्तर् + ईक्ष् दर्शने—घञ् । सर्वमध्ये दृश्यमानं रूपम् । आकाशम् (दिवम्) दिवु क्रीडाविजिगीषाकान्ति गत्यादिष्णु-

[सर्वप्रसारक रूप] को बनाया, (उदरात् अन्तरिक्षम्) पेट से अन्तरिक्ष [सब के भीतर दीखने वाला रूप] और (मूर्द्धः दिवम्) मस्तक से प्रकाश लोक [सर्वप्रकाशक रूप] को । (सा तान् त्रीन् लोकान्) उसने तीनों लोकों [अपने तीनों रूपों] को (अभि अश्राम्यत् अभि अतपत् सम् अतपत्) सब ओर से दबाया, सब ओर से तपाया और भली भांति तपाया । (तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः) उन दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुआ से (त्रीन् देवान् निर् अमिमत्) तीन देवता [अपने दिव्य रूप] बनाये, (अग्निम्) अग्नि [सर्वज्ञ], (वायुम्) वायु [सर्वव्यापक] और (आदित्यम् इति) आदित्य [सब प्रकाशक स्वरूप] । (सः खलु) उस ने निश्चय करके (पृथिव्याः एव) पृथिवी [अपने सर्व विस्तारक स्वरूपसे ही (अग्निम्) अग्नि [अपना सर्वज्ञ स्वरूप] (निर् अमिमत्) बनाया, (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष [सब में दीखने वाले स्वरूप] से (वायुम्) वायु [सर्वव्यापक स्वरूप] और (दिवः) प्रकाश लोक [प्रकाशक स्वरूप] से (आदित्यम्) आदित्य [सर्व प्रकाशक स्वरूप] । (सः तान् त्रीन् देवान्) उसने उन तीन देवताओं [दिव्य स्वरूपों] को (अभि अश्राम्यत्, अभि अतपत् सम् अतपत्) सब ओर से दबाया, सब ओर से तपाया और भली भांति तपाया । (तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः, सन्तप्तेभ्यः) उन दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुआ से (त्रीन् वेदान्) तीनों वेदों को (निर् अमिमत्) बनाया—(ऋग्वेदम्) ऋग्वेद [पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या], (यजुर्वेदम्) यजुर्वेद [सत्कर्मों की विद्या] और (सामवेदम् इति) सामवेद [मोक्ष विद्या—अर्थात् अथर्ववेद सहित चारों वेदोक्त परमेश्वर के कर्म, उपासना, ज्ञान रूप त्रयी विद्या को बनाया], (अग्नेः) अग्नि [अपने सर्वज्ञ स्वरूप] से (ऋग्वेदम्) ऋग्वेद [पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या], (वायोः) वायु [सर्वव्यापक स्वरूप] से (यजुर्वेदम्) यजुर्वेद [सत्कर्मों की विद्या] और (आदित्यात्) आदित्य [सर्व प्रकाशक स्वरूप] से (सामवेदम्) सामवेद [मोक्षविद्या] को । (सः

किप् । सर्वप्रकाशकं रूपम् । सूर्यम्—(अग्निम्) अङ्गेर्नलोपश्च । उ० ४ । ५० । अग्नि गतौ—नि, नलापः । सर्वज्ञरूपम् । वह्निम् (वायुम्) क० ३ । सर्वाधारकं रूपम् (आदित्यम्) अघ्न्यादश्च उ० । ४ । ११२ । आङ् + डुदाञ् दाने वा दीपी दीप्तौ—यक्, निपातनात् सिद्धिः । आदीप्यमानम् । सर्वप्रकाशकं, स्वरूपम् । (वेदान्) हलश्च । पा० ३ । ३ । १२१ । विद् ज्ञाने, विद् सत्तायां

तान् त्रीन् वेदान्) उसने उन तीनों वेदों को (अभि अश्राम्यत् अभि अतपत् समू अतपत्) सब ओर से दबाया, सब ओर से तपाया और भली भांति तपाया, (तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यः) उन दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुओं से (तिस्रः महाव्याहृतीः) तीन महाव्याहृतियों [महा-घाक्यों] को (निर् अमिमत्) उस [परमात्मा] ने बनाया—(भूः) भूः [सर्वा-धार], (भुवः) भुवः [सर्वव्यापक] और (स्वः इति) स्वः [सुख स्वरूप परमात्मा है—इनको]--(भूः इति) भूः को (ऋग्वेदात्) ऋग्वेद से (भुवः इति) भुवः को (यजुर्वेदात्) यजुर्वेद से और (स्वः इति) स्वः को (साम-वेदात्) सामवेद से ।

(सः यः) वह पुरुष जो (इच्छेत्) चाहे--(एतैः सर्वैः) इन सब (त्रिभिः वेदैः) तीनों वेदों से (कुर्वीय इति) मैं [पुरुषार्थ करूँ—(तम्) उस [पुरुषार्थ] को (एताभिः एव महाव्याहृतिभिः) इनहीं महाव्याहृतियों से (कुर्वीत) वह करे । (अस्य) उस [पुरुष] का (एतैः सर्वैः) इन सब (त्रिभिः वेदैः) तीनों वेदों से (ह वै) ही अवश्य (कृतम्) कर्म (भवति) होता है, (यः एवम् वेद) जो ऐसा जानता है, (च यः) और जो (एवम् विद्वान्) ऐसा विद्वान् [हो कर] (एताभिः महाव्याहृतिभिः) इन महाव्याहृतियों से (कुरुते) कर्म करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ--परमेश्वर ने अपने सर्व शक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और सर्व व्यापकता से कर्म, उपासना, ज्ञान त्रयी विद्या और भूर्भुवः स्वः तीन महाव्याहृतियों

विद् विचारणे—घञ् । त्रयीविद्यायुक्तान् परमेश्वरीयबोधान् (ऋग्वेदम्) श्रुचन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुणाननया सा ऋक् ऋक् चासौ वेदश्च ऋग्वेदः । पदार्थगुणप्रकाशिकां विद्याम् (यजुर्वेदम्) अर्त्ति पृवपि यजि० । उ० २ । ११७ । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु—उसि । सत्कर्मप्रकाशिकां विद्याम् (साम-वेदम्) सातिभ्यां मनिन्मनिणौ । उ० ४ । १५३ । षो अन्तकर्मणि—मनिन् । दुःखनाशिकां मोक्षविद्याम् (भूः) भू सत्तायां प्राप्तौ शुद्धिचिन्तनयोः मिश्रणे च—रुक् । सर्वाधारः परमेश्वरः (भुवः) भूरञ्जिभ्यां कित् । उ० ४ । २१७ । भू सत्तायां प्राप्तौ शुद्धिचिन्तनयोः मिश्रणे च—असुन् । सर्वव्यापकः शुद्धस्वरूपः परमेश्वरः (स्वः) अन्येभ्योऽपि दृश्यते । पा० ३ । २ । ७५ । सु + ऋ गतौ विच्, यद्वा स्वृ शब्दोपतापयोः—विच् । सुखस्वरूपः । परमेश्वरः ॥

को मनुष्यों के सुख के लिये प्रकाशित किया है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिव, अग्नि, वायु, आदित्य परमेश्वर के नाम हैं और तीन वेदों अर्थात् त्रयी विद्या कहने से अथर्ववेद सहित चारों वेदों का ग्रहण है। पृथिवी आदि बहुत शब्द ईश्वर नाम महर्षि दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में व्याख्यात हैं। अग्नि आदि ईश्वर नाम हैं। इसका प्रमाण (तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तकु चन्द्रमाः। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजुर्वेद अध्याय ३२ मन्त्र १)। अर्थ—(तत् एव) वही [ब्रह्म] (अग्निः) अग्नि [ज्ञान स्वरूप], [तत् आदित्यः] वही आदित्य [सर्वप्रकाशक], (तत् वायुः) वही वायु [अनन्त बलवान और सर्वभर्ता] (तत् उ चन्द्रमाः) वही चन्द्रमा [आनन्दकारक] (तत् एव शुक्रम्) वही शुक्र [शुद्ध स्वभाव वाला] (तत् ब्रह्म) वही ब्रह्म [सब से बड़ा] (ताः आपः) वही आप [सर्वव्यापक] और (सः प्रजापतिः) वही प्रजापति [उत्पन्नों का पालने वाला] है। चारों वेद ईश्वर कृत हैं, इसका प्रमाण (तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद्जायत) ऋ० १०। ६। ६। ७ यजु० ३१। ७, तथा अथर्व १६। ६। १३। (तस्मात् यज्ञात्) उस पूजनीय (सर्वहुतः) सबके दाता परमात्मा से (ऋचः) ऋग्वेद [पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या] के मन्त्र और (सामानि) सामवेद [मोक्ष विद्या] के मन्त्र (जज्ञिरे) उत्पन्न हुये। (तस्मात्) उस से (छन्दांसि) अथर्ववेद [आनन्ददायक विद्या] के मन्त्र (जज्ञिरे) उत्पन्न हुये, और (तस्मात्) उससे (यजुः) यजुर्वेद [सत् कर्मों का ज्ञान] (अजायत) उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका का मिलान करो—ऐतरेय ब्राह्मण ५। ३२ ॥

कण्डिका ७ ॥

ता या अमू रेतः समुद्रं वृत्वाऽतिष्ठंस्ताः प्राच्यो दक्षिणाच्यः प्रतीच्य उदीच्यः समद्रवन्त । तद्यत्समद्रवन्त तस्मात्समुद्र उच्यते । ता भीता अब्रुवन् भगवन्तमैव वयं राजानं वृणीमह इति । यच्च वृत्वाऽतिष्ठंस्तद्वरणोऽभवत् तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । स समुद्रादमुच्यत स मुच्युरभवत्तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । तं वरुणं मृत्यु-मभ्यभाम्यद्भ्यतपत्समतपत्तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य सर्वेभ्योऽङ्गोभ्योः

रसोऽक्षरत् सोऽङ्गत्सोऽभवत्तं वा एतमङ्गरसं सन्तमङ्गिरा इत्याचक्षते । परो-
क्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः ॥ ७ ॥

कण्डिका ॥ ७ ॥ समुद्र, वरुण, मृत्यु और अङ्गिरा ॥

(ताः या अमूः) वे जो कुछ [व्यापक तन्मात्रार्थे जल की भाप समान]
(रेतः) भीत [होकर] (समुद्रम्) समुद्र [सर्वव्यापक परमात्मा] को
(वृथा) लेकर (अतिष्ठन्) ठहरीं [कण्डिका ३ देखो], (ताः) वे सब
(प्राच्यः) माघने वाली वा पूर्व, (दक्षिणाच्यः) दाहिनी वा दक्षिण,
(प्रतीच्यः) पीछे वाली वा पश्चिम और (उदीच्यः) बाईं वा उत्तर दिशा से
(समू अवद्रवन्त = अव अवद्रवन्त) बहकर आयीं । (तत् यत् समू अव अवद्र-
वन्त) वे जो बहकर आयीं, (तस्मात्) इस लिये (समुद्रः) समुद्र [सर्व-
व्यापक परमात्मा] (उच्यते) कहा जाता है । (ताः भीताः) वे डरी हुईं
(अब्रुवन्) बोलीं—(भगवन्तम् एव) भगवान् [श्रीमान् आप] को ही
(वयम्) हम (राजानम्) राजा (वृणीमहे इति) ग्रहण करती हैं । (यत् च)
और जो (वृथा) ग्रहण करके (अतिष्ठन्) वे ठहरीं, (तत्) उस से (वर-
णः अभवत्) वह वरण [ग्रहण योग्य] हुआ । (तं वै एतं वरणं सन्तम्)
उस ही ऐसे वरण [ग्रहण योग्य] होते हुये को—(वरुणः इति आचक्षते) यह
वरुण [स्वीकरणाय] है—ऐसा वे कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट
प्रलय में वर्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्ष प्रिय [आंख
ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग]
प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वर्तमान अवस्था] के द्वेषी (भवन्ति) होते हैं । [देखो
कण्डिका १] । (सः) वह [वरुण परमेश्वर] (समुद्रात्) समुद्र [सर्व-
व्यापक परमेश्वर] से (अमुच्यत) छुटा, (सः) वह (मुच्युः) मुच्यु [छुटा
हुआ ईश्वर] (अभवत्) हुआ । (तम्) उस [दूरवर्ती] (वै) निश्चय करके
(एतम्) इस [समीपवर्ती] (मुच्यु सन्तम्) मुच्यु [छुटे हुये ईश्वर] होते

७—(वृणीमहे) स्वीकुर्मः (वरुणः) सुपुरुवृञो युच् । उ० २ । ७४ ।
वृञ् स्वीकारे—युच् । स्वीकरणीयः (वरुणः) कृवृदारिभ्य उनन् । उ० ३ । ५३ ।
वृञ् स्वीकारे—उनन् । वरणीयः स्वीकरणीयः (मुच्युः) भुजिमृङ्भ्याम्
युक्त्युक्तौ । उ० ३ । २१ । मुच्ल् मोक्षणे—युक् । मुकः । प्रातमोक्षः (मृत्यु)
भुजिमृङ्भ्याम् युक्त्युक्तौ । उ० ३ । २१ । मृङ् प्राणत्यागे—त्यक् । सर्वस्मात्

हुये को—(मृत्युः इति आचक्षते) यह मृत्यु [लुटा हुआ वा लुटाने वाला मारने वाला वा वियोग करने वाला ईश्वर] है—ऐसा वे कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट प्रलय में वर्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वर्तमान अवस्था] के द्वेषी (भवन्ति) होते हैं—[देखो कण्डिका १] । (तं वरुणम्) उस वरुण [स्वीकरणीय] (मृत्युम्) मृत्यु [लुटने वा लुटाने वाले स्वरूप] का (अभि अभाम्यत्) उस [परमात्मा] ने सब ओर से दबाया, (अभि अतपत्) सब ओर से तपाया (सम् अतपत्) भली भांति तपाया, (तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य) उस दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुये के (सर्वेभ्यः अङ्गेभ्यः) सब अङ्गों से (रसः अक्षरत्) रस बहा । (सः अङ्गरसः अभवत्) वह अङ्ग रस [सब के अङ्गों का रस] हुआ, (तम् वै एतम्) उस निश्चय करके समीप और दूरवर्ती (अङ्गरसं सन्तम्) अङ्गों का रस होते हुये को—(अङ्गिरा इति आचक्षते) यह अङ्गिरा [सर्वव्यापक] है—ऐसा वे कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट प्रलय में वर्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वर्तमान अवस्था] के द्वेषी (भवन्ति) होते हैं [देखो कण्डिका १] ॥ ७ ॥

भावार्थ—सब परमाणुओं का संयोग वियोग परमात्मा की शक्ति से होता है और परमात्मा के अलग अलग अङ्गों की कल्पना करने पर भी वह इतना बड़ा सर्वव्यापी है कि सब पदार्थों के बाहर भीतर वर्तमान रहने पर वह कुछ नहीं घटता । वेद में वर्णन है ।

(पूर्णात् पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते । उतो तदद्य विद्याम यतस्तत् परि सिच्यते) अथर्व० । १० । ८ । २६ । (पूर्णात्) पूर्ण [ब्रह्म] से (पूर्णम्) सम्पूर्ण [जगत्] (उत् अचति) उदय होता है । (पूर्णेन) पूर्ण [ब्रह्म] करके (पूर्णम्) सम्पूर्ण [जगत्] (सिच्यते) सींचा जाता है । (उतो)

त्यक्तः पृथग् भूतः । सर्वेषां त्याजयिता । मारयिता । वियोजकः (अक्षरत्) क्षर संचलने—लङ् । संचलितवान् (अङ्गरसः) सर्वभूतानामङ्गानां रसः सारो धीर्यं वा (अङ्गिराः) अङ्गतेरग्निरिहडागमश्च । उ० ४ । २३६ । अग्नि गतौ-असि, इहडागमश्च । सर्वव्यापकः । महाज्ञानी ॥

और भी (तत्) उस [कारण] को (अद्य) (आज विद्याम) हम जानें, (यतः) जिस [कारण] से (तत्) वह [सम्पूर्ण जगत्] (परिषिच्यते) सब प्रकार सींचा जाता है ॥ ७ ॥

कण्डिका ८ ॥

तमङ्गिरसमृषिमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छ्रान्तात्तप्तात्सन्तप्ताब्धि-
शिनोऽङ्गिरस ऋषीभिरमिमत्, तान् विंशिनोऽङ्गिरस ऋषीनभ्यश्राम्यदभ्यतपत्स-
मतपत्, तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो दशतयानाङ्गिरसानार्षेयाभिरमिमत्,
षोडशिनोऽष्टादशिनो द्वादशिन एकर्चांस्तृचांश्चतुर्चान् पञ्चर्चान् षड्चान्
द्व्यचान् सप्तर्चानिति । तानङ्गिरस ऋषीनाङ्गिरसांश्चार्षेयानभ्यश्राम्यदभ्यतपत्स-
मतपत्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो यान् मन्त्रानपश्यत्स आङ्गिरसो वेदोऽभवत्तमाङ्गिरसं वेद-
मभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छ्रान्तात्तप्तात् सन्तप्ताज्जनदिति द्वैतमक्षरं व्यभ-
वत् । स य इच्छेत्सर्वैरेतैरङ्गिरोभिश्चाङ्गिरसैश्च कुर्वीत्येतयैव तं महाव्याहृत्या
कुर्वीत सर्वैर्ह वा अस्यैतैरङ्गिरोभिश्चाङ्गिरसैश्च कृतं भवति य एवं वेद यश्चैषं
विद्वानेवमेतया महाव्याहृत्या कुरुते ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ । बीस अङ्गिरा, दश आङ्गिरस, वेद और जनत् महाव्याहृति ॥

(तम्) उस [अपने] (अङ्गिरसम्) अङ्गिरा [सर्वव्यापक] (ऋषिम्)
ऋषि [सन्मार्ग दर्शक स्वरूप] को (अभि अभ्राम्यत्) उस [ब्रह्म] ने सब
ओर से दबाया, (अभि अतपत् सम् अतपत्) सब ओर से तपाया, भली
भांति तपाया । (तस्मात् श्रान्तात् तप्तात् संतप्तात्) उस दबाये हुये, तपाये
हुये, भली भांति तपाये हुये से (विंशिनः) बीसवें [पृथिवी आदि पांच सूक्ष्म
भूत, पृथिवी आदि पांच स्थूल भूत, कान, आंख, नासिका, जिह्वा, त्वचा, पांच
ज्ञानेन्द्रिय, और वाक्, हाथ, पांव, वायु इन बीस के सहित बीसवें उपस्थे-
न्द्रिय] से सम्बन्ध वाले (अङ्गिरसः) अङ्गिरा [सर्वव्यापक] (ऋषीन्)
ऋषियों [सन्मार्ग दर्शक वेद ज्ञानों] को (निर्-अमिमत्) बनाया । (तान्

८—(विंशिनः) तस्य पूरणे डट् । पा० ५ । २ । ४८ । विंशति—डट् ।
अत इनिठनौ । पा० ५ । २ । ११५ । विंश—इनि । भाषांक्तपृथिव्याद्येकोन—
विंशतिपदार्थैः सहितस्य विंशस्य उपस्थेन्द्रियस्य सम्बद्धानि वेदज्ञानानि
(अङ्गिरसः) क० ७ । सर्वव्यापकानि (ऋषीन्) सन्मार्गदर्शकानि वेदज्ञानानि

किंशिनः) उन धासर्वे से सम्बन्ध वाले (अङ्गिरसः) अङ्गिरा [सर्वव्यापक] (ऋषीन्) ऋषियों [वेद ज्ञानों] को (अभि अश्राम्यत्) उस [ब्रह्म] ने सब ओर से दबाया, (अभि अतपत् सम् अतपत्) सब ओर से तपाया, भली भांति तपाया । (तेभ्यः भ्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यः) उन दबाये हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये हुये । [वीसें] से (दशतयान्) दस प्रकार वाले (आङ्गिरसान्) अङ्गिरा [व्यापक ब्रह्म] से आये हुये (आर्षेयान्) आर्षेयों [ऋषियों, वेद मन्त्रों में विख्यात सूक्ष्म विज्ञानों] को (निर् अमिमत्) उस [ब्रह्म] ने बनाया, [अर्थात्] (षोडशिनः) सोलहवें [प्राण, अद्धा, आकाश, वायु, प्रकाश, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, धीर्य, तप, मन्त्र कर्म, लोक इन पन्द्रह कलाओं के सहित सोलहवीं कला नाम] से संबन्ध वाले (अष्टादशिनः) अठारहवें [धैर्य, सहन, मन का रोकना, चोरी न करना, शुद्धता, जितेन्द्रियता, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, यह दस धर्म, तथा ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सुवर्ण, घृत, सूर्य, जल इन सात मंगलों के सहित अठारहवें राजा] से संबन्ध वाले, (द्वादशिनः) बारहवें (चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, इन ग्यारह महीनों के सहित फाल्गुन महीने] से संबन्ध वाले, (एक-ऋचान्) एक [ओम् परमात्मा] की स्तुति योग्य, (तृचान्) तीन [भूत, भविष्यत्, वर्तमान] की स्तुति योग्य विद्या वाले (चतुर्-ऋचान्) चार [धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष] की स्तुति योग्य विद्या वाले (पञ्च-ऋचान्) पांच [पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश] पांच तत्त्वों का स्तुति योग्य विद्या वाले, (षट्-ऋचान्) छह [वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त, शिशिर ऋतुओं] का स्तुति योग्य विद्या वाले, (द्वि-ऋचान्) दो [स्थावर और जङ्गम संसार] की स्तुति योग्य विद्या वाले, (सप्त-ऋचान्) सात [दो कान, दो नथने, दो आंख, एक मुख—अथर्व० १० । २ । ६] की स्तुति योग्य विद्या वाले [इन सूक्ष्म विज्ञानों को बनाया] । (तान्) उन (अङ्गिरसः) अङ्गिरा [सर्वव्यापक] (ऋषीन्) ऋषियों [सन्माग दर्शक वेद ज्ञानों]

(आङ्गिरसान्) तत आगतः । पा० ४ । ३ । ७४ । अङ्गिरस्-अण् । अङ्गिरसः सर्वव्यापकात् परमेश्वराद् आगतान् प्राप्तान् (आर्षेयान्) क० ७ । ऋषिषु वेद मन्त्रेषु विख्यातानि सूक्ष्मविज्ञानानि (षोडशिनः) षोडशन्—डट् पूरणे, तत इति । प्राणादिपंचदशरूपासहितस्य सप्तद्वान् (जनत्) वर्तमान पृषद् बृहन् महज् जगच्छुषश्च । उ० २ । ८४ । जन जनने—प्रति । रुषं जनयित् ब्रह्म

टिप्पणी—इस कण्डिका का मिलान कण्डिका ५ से करो । कण्डिका ५ में वर्णन किये हुये (ओम्) के समान यहां पर (जनत्) को महाव्याहृति माना है ॥ ८ ॥

कण्डिका ६ ॥

स ऊर्ध्वोऽतिष्ठत् स इमांल्लोकान् व्यष्टभ्नात्, तस्मादङ्गिरसेऽधीयान ऊर्ध्वस्तिष्ठति, तद् व्रतं स मनसा ध्यायेद्यद् वा अहं किञ्चन मनसा ध्यास्यामि तथैव तद् भविष्यति तद् स्म तथैव भवति ।

तदप्येतदुक्तम् । श्रेष्ठो ह वेदस्तपसोऽधिजाता ब्रह्मज्यानां क्षितये सम्बभूव ऋज्यद् भूतं यदसृज्यतेदं निवेशनमनृणं दूरमस्येति । ता वा एता अङ्गिरसां यामथो यन्मेनयः करोति मेनिभिर्वीर्यं य एवं वेद ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ । ब्रह्म और वेद की सर्वोत्तमता ॥

(सः) वह [परमात्मा] (ऊर्ध्वः) ऊंचा होकर (अतिष्ठत्) ठहरा, (सः) उस ने (इमान् लोकान्) इन लोकों [दीखते हुये पदार्थों] को (विष्टभ्नात्) विविध प्रकार थांभा । (तस्मात्) इसी से (अङ्गिरसः) अङ्गिराओं [सर्वव्यापक वेदज्ञानों] को (अधीयानः) पढ़ता हुआ मनुष्य (ऊर्ध्वः) ऊंचा होकर (तिष्ठति) ठहरता है । (तत् व्रतम्) इस व्रत [नियम] को (सः) वह मनुष्य (मनसा) मनन के साथ (ध्यायेत्) विचारे—(यत् किञ्चन वै) जो कुछ भी (अहम्) मैं (मनसा) मनन के साथ (ध्यास्यामि) विचारूंगा, (तथा एव तद् भविष्यति) वैसा ही वह होगा, (तद् ह स्म) वह ही अवश्य (तथा एव भवति) वैसा ही होता है ।

(तत् अपि) वह ही (एतत् ऋचा) ऋचा [इस स्तुति याग्य वाणी] करके (उक्तम्) कहा गया है—(श्रेष्ठः ह वेदः) श्रेष्ठ ही वेद (तपसः) तप [ऐश्वर्यवान् ब्रह्म] से (अधिजातः) प्रकट होकर (ब्रह्मज्यानाम्) ब्रह्मज्ञानियों की हानि करने वालों के (क्षितये) नाश के लिये (सम्बभूव) समर्थ

६—(लोकान्) लोक दर्शने—घञ् । दृश्यमानान् पदार्थान् (अधीयानः) अधि + इङ्, अध्ययने—शानच् । पठन् सन् (ऋचा) ऋक् = वाक्—निघ० । १ । ११ । स्तुत्यया वाण्या (तपसः) तप दाहे—ऐश्वर्ये च—असुन् । ऐश्वर्यवतो ब्रह्मणः संकोशात् (ब्रह्मज्यानाम्) कविधौ सर्वत्र प्रसारणिभ्यो डः । वा० पा० ।

हुआ । (ऋज्यत्) चलता हुआ (भूतम्) सत्तामात्र जगत् (यत्) जिस [ब्रह्म] ने (असृजत्) बनाया है, (इदम्) यह [जगत्] (अस्य) उस [ब्रह्म] का (अनृणम्) बिना उधार वाला [अर्थात् अपना निज का], (दूरम्) दूर तक (निवेशनम् इति) घर है [यह मन्त्र किसी वेद में नहीं है] । (ताः वै एताः) वे निश्चय करके यह (यत्) जो (अङ्गिरसाम्) वेद ज्ञानों की (यामयः) नियम शक्तियाँ हैं, (मेनयः) वे बज् [तुल्य दृढ] हैं । (मेनिभिः) बजों [दृढ नियमों] से (वीर्यम्) वीरता (करोति) वह करता है, (अः एवं वेद) जो ऐसा जानता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—सर्वोत्तम सर्वव्यापक परमात्मा के वेदोक्त नियमों पर चल कर सत्यकल्पी ब्रह्मज्ञानी पुरुष विघनों को हटाकर संसार में वीर होते हैं ॥ ६ ॥

कण्डिका १० ॥

स दिशोऽन्वैज्ञत प्राचीं दक्षिणां प्रतीचीमुदीचीं ध्रुवामूर्ध्वामिति । तास्त-
त्रैवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यः पञ्च वेदान्निर-
मिमत् सर्पवेदं पिशाचवेदमसुरवेदमितिहासवेदं पुराणवेदमिति । स खलु प्राच्या
एव दिशः सर्पवेदं निरमिमत्, दक्षिणस्याः पिशाचवेदं, प्रतीच्या असुरवेदमु-
दीच्या इतिहासवेदं ध्रुवायाश्चोर्ध्वामूर्ध्वामिति पुराणवेदम् । स तान् पञ्च वेदानभ्य-
श्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः पञ्च महाव्याहृतीर्निर-
मिमत् वृधत् करद् गुहन् महत् तदिति । वृधदिति सर्पवेदात्, करदिति पिशा-
चवेदात्, गुहदित्यसुरवेदात्, महदिति तिहासवेदात्, तदिति पुराणवेदात्,
स य इच्छेत्सर्वैरतैः पञ्चभिर्वेदैः कुर्वीयेत्येताभिरेव तं महाव्याहृतिभिः कुर्वीत
सर्वैर्ह वा अस्यैतैः पञ्चभिर्वेदैः कृतं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेताभि-
र्महाव्याहृतिभिः कुरुते ॥ १० ॥

३ । २ । ३ । ब्रह्म + ज्या वयोहानौ—उप्रत्ययः, अन्तर्गतार्थः । ब्रह्मणां ब्रह्म-
ज्ञानिनां हानिकराणाम् (क्षितये) नाशाय (ऋज्यत्) वर्तमाने पृषद्बृहन्महज्-
जगच्छ्रुत्वच्च । उ० २ । ८४ । ऋज गतिस्थानार्जनेोपार्जनेषु—अति युगामः । गति-
शीलम् (भूतम्) भू सीत्तायाम्—कः । सत्तामात्रं जगत् (निवेशनम्) नि +
विश प्रवेशे—आधारे ल्युट् । गृहम् (अनृणम्) ऋणशून्यं स्वकीयं निजम्
(यामयः) वसिष्ठपियञ्जि० । उ० ४ । १२५ । यम नियमने—इज् नियमशक्तयः
(मेनयः) वीज्याज्वरिभ्यो निः । उ० । ४ । ४८ । मिञ् हिंसायाम्—नि । मेनि-
र्बज्—निघ० २ । २० । वजाः । वजूतुल्यदृढाः ॥ ६ ॥

कण्डिका १० ॥ सर्पवेदादि ५ वेद, वृधत् आदि ५ महाध्याहृति ॥

(सः दिशः अनु ऐक्षत) वह [परमात्मा] दिशाओं को देखने लगा, (प्राचीम्) पूर्व वा सामने वाली, (दक्षिणाम्) दक्षिण वा दाहिनी, (प्रतीचीम्) पश्चिम वा पीछे वाली, (उदीचीम्) उत्तर वा वाई, (ध्रुवाम्) दृढ़ वा नीचे वाली, (ऊर्द्ध्वाम् इति) और ऊपर वाली । (ताः तत्र एव अभि अश्राम्भत्) उन को वहाँ ही उस ने सब ओर से दवाया, (अभि अतपत्) सब ओर से तपाया, (सम् अतपत्) भली भांति तपाया । (ताभ्यः श्रान्ताभ्यः तप्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यः) उन दबाई हुई, तपाई हुई, भली भांति तपाई हुई से (पञ्च वेदान्) पांच वेदों [विद्याओं] को (निर् अमिमत्) उसने बनाया—(सर्पवेदम्) सर्प वेद [चलते हुये लोकों की विद्या], (पिशाचवेदम्) पिशाच वेद [अवयवों की व्यापक विद्या वा मांस खाने वाले रोगों की विद्या], (असुरवेदम्) असुर वेद [प्राण वालों की विद्या], (इतिहासवेदम्) इतिहास वेद [बड़े लोगों वा कार्यों की वृत्तान्त विद्या], (पुराणवेदम् इति) और पुराणवेद (पुराने लोगों अथवा कारणों की वृत्तान्त विद्या] । (सः खलु) उसने निश्चय करके (प्राच्याः एव दिशः) पूर्व वा सामने वाली दिशा से (सर्पवेदम्) सर्प वेद को (निर् अमिमत्) बनाया—(दक्षिणस्याः) दक्षिण वा दाहिनी से (पिशाचवेदम्) पिशाच वेद को, (प्रतीच्याः) पश्चिम वा पीछे वाली से (असुरवेदम्) असुर वेद को, (उदीच्याः) उत्तर वा वाई से (इतिहासवेदम्) इतिहास वेद को, (ध्रुवायाः च ऊर्द्ध्वायाः च) नीचे वाली और ऊंची वाली से (पुराणवेदम्) पुराण वेद को । (सः) उस [परमात्मा] ने (तान् पञ्च वेदान्) उन पांच वेदों को (अभि अश्राम्भत् अभि अतपत् सम् अतपत्) सब ओर से दवाया, सब ओर से तपाया, भली भांति तपाया । (तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः) इन दवाये

१०—(सर्पवेदम्) सृष्टु गतौ—अच् । ये सर्पन्ति गच्छन्ति ते लोकाः, इमे वै लोकाः, सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति । श० ७ । ३ । १ । २५ । इति दयानन्दः । सर्पन्ति सर्पा लोकाः इति महीधरः । यजुर्वेदभाष्ये १३ । ६ । गमन-शीलानां लोकानां विद्याम् (पिशाचवेदम्) इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः । पा० ३ । १ । १३५ पिश अवयवे—क । कर्मण्यण् । पा० ३ । २ । १ । पिश + अश्चु गतौ—अण् । अवयवव्यापिकां विद्याम् । यद्वा पिशित + अश भक्षणे—अण्, पृषो-दरादिरूपम् । मांसभक्षकाणां रोगाणां विद्याम् (असुरवेदम्) सृष्टुस्तिहि

हुये, तपाये हुये, भली भांति तपाये-हुओं से (पञ्च महाव्याहतीः) पाँच महा-
व्याहतियों को (निर् अमिमत्) बनाया—(वृधत्) वृधत् [बढ़ती वाला परि-
पूर्ण ब्रह्म है], (करत्) करत् [कर्ता ब्रह्म], (गुहत्) गुहत् [सब में छिपा
अन्तर्यामी ब्रह्म], (महत्) महत् [पूजनीय ब्रह्म है], (तत् इति) तत् [फैला
हुआ ब्रह्म है], (वृधत् इति) वृधत् [महावाक्य को] (सर्पवेदात्) सर्प
वेद से, (करत् इति) करत् को (पिशाचवेदात्) पिशाच वेद से, (गुहत्
इति) गुहत् को (असुरवेदात्) असुर वेद से (महत् इति) महत् को (इति-
हास वेदात्) इतिहास वेद से और (तत् इति) तत् [वाक्य] को (पुराण
वेदात्) पुराण वेद से । (सः यः) वह पुरुष जो (इच्छेत्) चाहे—(एतैः
सर्वैः) इन सब (पञ्चभिः वेदैः) पाँच वेदों से (कुर्वीय इति) मैं [पुरुषार्थ]
करूँ, (तम्) उस [पुरुषार्थ] को (एताभिः एव महाव्याहृतिभिः) इन ही
महाव्याहृतियों से (कुर्वीत) करे । (अस्य) उस [पुरुष] का (एतैः सर्वैः
पञ्चभिः वेदैः) इन सब पाँच वेदों से (ह वै) ही अवश्य (कृतम्) कर्म
(भवति) होता है, (यः एवं वेद) जो व्यापक ब्रह्म को जानता है, (च यः)
और जो (एवं विद्वान्) व्यापक ब्रह्म को जानता हुआ (एवम्) इस प्रकार से
(एताभिः महाव्याहृतिभिः) इन महाव्याहृतियों से (कुरुते) कर्म करता है ॥१० ॥

भावार्थ—परब्रह्म सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् है, उस की सत्ता को ब्रह्म-
ज्ञानी लोग सर्वव्यापिनी दिशाओं में सब जगह देखते और पुरुषार्थ करके
उन्नति करते करते हैं ॥ १० ॥

त्रायसि० । उ० १ । १० । असु क्षेपणे, वा अस गतिदीप्त्यादानेषु—उ प्रत्ययः
रो मत्वर्थीयः । असुराः.....असुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति तेन तद्वन्तः—
निरु० । ३ । ८ । प्राणवतां विद्याम् (इतिहासवेदम्) इतिह पारम्पर्योपदेशः
आस्ते अस्मिन् । इतिह + आस उपवेशने विद्यमानतायांच—घञ् । महा-
पुरुषाणां वृत्तान्तविद्याम् (पुराणवेदम्) पुरा + णीञ् प्र.पणे—उ, एत्वं च ।
प्राचीनानां पुरुषाणां कारणानां वा वृत्तान्तविद्याम् (वृधत्) वर्तमाने पृषद्वु
वृहन्महज्जगच्छ्रुत्वच्च । उ० २ । ८४ । वृधु वृद्धौ—अति । वृद्धियुक्तं परिपूर्णं
ब्रह्म (करत्) पूर्वसूत्रेण, डुकृञ्करणे—अति । सर्व कर्तृ ब्रह्म (गुहत्) पूर्वसूत्रेण,
गुह संवरणे—अति । गुहम् । अन्तर्यामि ब्रह्म (महत्) पूर्वसूत्रेण, मह पूजायाम्
—अति । पूजनीयं ब्रह्म (तत्) त्यजितनिश्चिभ्यो ङित् । उ० १ । १३२ । लङ्
विस्तारे—अदि ङित् । विस्तृतं ब्रह्म ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका का मिलान अथर्ववेद काण्ड १५ सूक्त ६ मन्त्र १०, ११, १२ से करो, वहाँ ऐसा वर्णन है—वह [ब्राह्मण परमात्मा] बड़ी दिशा की ओर विचरा १० ॥ इतिहास [बड़े लोगों का वृत्तान्त] और पुराण [पुराने लोगों का वृत्तान्त] और गाथायें [गाने योग्य वेद मन्त्र शिक्षा-प्रद श्लोक आदि] और नाराशंसी [वीर नरों की गुणकथायें] उस [ब्राह्मण परमात्मा] के पीछे चलीं ॥ ११ ॥ वह [विद्वान्] पुरुष निश्चय करके इतिहास का और पुराण का और गाथाओं का और नाराशंसियों का प्रिय धाम [घर] होता है, जो ऐसे वा व्यापक [ब्राह्मण परमात्मा] को जानता है ॥१२॥

टिप्पणी २—[सर्प] शब्द का अर्थ लोक है—दयानन्द भाष्य और महीधर भाष्य यजुर्वेद अध्याय १३ मन्त्र ६, (असुराः) प्राण वाले—निरु० ३।८ ॥

कण्डिका ११ ॥

स आवतश्च परावतश्चान्वैक्षत, तास्तत्रैवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः सन्ताप्तभ्यः शमित्यर्द्धमक्षरमुदक्रामत् । स य इच्छेत्सर्वाभिरैताभिरावद्भिश्च परावद्भिश्च कुर्वीयेत्येतयैव तं महाव्याहृत्या कुर्वीत सर्वाभिर्ह वा अस्यैताभिरावद्भिश्च परावद्भिश्च कृतं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेतया महाव्याहृत्या कुरुते ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ महाव्याहृति शम् ॥

(सः) वह [परमात्मा] (आवतः) पास वाली [दिशाओं] को (च च) और भी (परावतः) दूर वाली [दिशाओं] को (अनु ऐक्षत) देखने लगा । (ताः तत्र एव अभि अश्राम्यत्) उनको वहाँ ही उसने सब ओर से दबाया, (अभि अतपत् सम् अतपत्) सब ओर से तपाया, भली भाँति तपाया । (ताभ्यः श्रान्ताभ्यः तप्ताभ्यः सन्ताप्तभ्यः) उन दबाई हुई, तपाई हुई, भली भाँति तपाई हुई से (शम्) शम् [शान्ति वाला वा शान्तिकारक ब्रह्म है] (इति ऊर्ध्वम्) यह ऊँचा [उत्कृष्ट] (अक्षरम्) अक्षर [अविनाशी ब्रह्म शब्द] (उद् अक्रामत्) निकल आया । (सः यः इच्छेत्) वह पुरुष जो चाहे—(एताभिः सर्वाभिः) इन सब (आवद्भिः) पास वाली (च च) और भी (परावद्भिः) दूर वाली [दिशाओं] से (कुर्वीय इति) मैं पुरुषार्थ करूँ—

११—(आवतः) उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे । पा० ५ । १ । ११८ । आङ् उपसर्गाद् धात्वर्थे वति । आगताः । समीपस्या दिशाः (परावतः) पूर्वसूत्रेण

(तम्) उस [पुरुषार्थ] को (एतया एव महाव्याहृत्या) इस ही महाव्याहृति [शम्] से (कुर्वीत) करे । (अस्य) उस [पुरुष] का (एताभिः आवद्भिः च च परावद्भिः) इन सब पास वाली और भी दूर वाली [दिशाओं] से (ह वै) अवश्य ही (कृतम्) कर्म (भवति) होता है, (यः एवं वेद) जो व्यापक ब्रह्म को जानता है, (च यः) और जो (एवं विद्वान्) व्यापक ब्रह्म को जानता हुआ (एवम्) इस प्रकार से (एतया महाव्याहृत्या) इस महाव्याहृति [शम्] से (कुरुते) कर्म करता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्य परब्रह्म को पास और दूर वर्तमान जानकर उसके शान्त स्वरूप का ध्यान करके अपने आत्मा को शान्त रखे ॥ ११ ॥

कण्डिका १२ ॥

स भूयोऽश्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत्स मनस एव चन्द्रमसश्चिरमिमत, नखेभ्यो नक्षत्राणि, लोमभ्य ओषधिवनस्पतीन्, क्षुद्रेभ्यः प्राणेभ्योऽन्यान् बहून् देवान् । स भूयोऽश्राम्यद् भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् स एतं त्रिवृतं सप्ततन्तुमेकविंशतिसंस्थं यज्ञमपश्यत् ।

तदप्येतदुक्तम् । अग्निर्यज्ञं त्रिवृतं सप्ततन्तुमिति । अथाप्येष प्राक्रोडितः श्लोकः प्रत्यभिवदति सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञा इति ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थ ॥

(सः भूयः आत्मानम् अश्राम्यत्) उस [परमात्मा] ने फिर अपने को दबाया, (भूयः अतप्यत्) फिर तपाया, (भूयः सम् अतपत्) फिर भली भाँति तपाया । (सः मनसः एव) उस ने मनन सामर्थ्य से ही (चन्द्रमसम्) आनन्द देने वाले चन्द्रलोक को (निर् अमिमत्) बनाया (नखेभ्यः) नखों अर्थात् बन्धन वा आकर्षण सामर्थ्यों से (नक्षत्राणि) चलने वाले ताराओं को, (लोमभ्यः) लोमों वा छेदन सामर्थ्यों से (ओषधिवनस्पतीन्) सोमलता आदि

परा—वति । परागताः दूरस्था दिशाः (शम्) अन्येभ्योपि दृश्यन्ते । पा० ३ । २ । ७५ । शमु उपशमने—विच् । शांतिकारकं ब्रह्म ॥

१२—(मनसः) मननसामर्थ्यात् (चन्द्रमसम्) स्फायितश्चि० । उ० २ । १३ । चदि आह्लादने—एक् चन्द्रश्चन्दतेः कान्तिकर्मणः—निरु० ११ । ५ । चन्द्रमानन्दं मिमीते । चन्द्रे मो डित् । उ० ४ । २२८ । चन्द्र + माङ् माने—असि डित् । आनन्दप्रदचन्द्रलोकम् (नखेभ्यः) नहेर्हलोपश्च । उ० ५ । २३ । एह बन्धने—अप्रत्ययः, हलोपः । यद्वा एख गतौ—अच् । बन्धनस्य आकर्षणस्य

श्रीषधियों और वनस्पतियों को, (लुद्रेभ्यः) सूक्ष्म (प्राणेभ्यः) प्राणों वा जीवन सामर्थ्यों से (अन्यान् बहून् देवान्) दूसरे बहुत से दिव्य पदार्थों को । (सः भूय आत्मानम् अश्राम्यत्) उसने फिर अपने को दबाया, (भूयः अतप्यत्) फिर तपाया, (भूयः सम् अतपत्) फिर भली भांति तपाया । (सः) उस [परमात्मा] ने (एतम्) इस (त्रिवृतम्) [सत्त्व, रज, तम् इन तीनों गुणों से प्रत्येक] तिगुने किये हुये (सप्ततन्तुम्) [तीन काल, तीन लोक अर्थात् सृष्टि, स्थिति, प्रलय और एक जीवात्मा इन) सात तन्तु [विस्तार] वाले (एक विंशतिसंस्थम्) [पांच सूक्ष्मभूत, पांच स्थूलभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और एक अन्तःकरण इन] इक्कीस के साथ यथावत् ठहरे हुये (यज्ञम्) यज्ञ [संयोग से बने संसार] को (अपश्यत्) देखा । (तत् अपि) वह भी (एतत् ऋचा) इस ऋग्द्वारा (उक्तम्) बोला जाता है—(अग्निर्यज्ञं त्रिवृतं सप्ततन्तुम् इति) ऋग्वेद १०। ५२। ४। (अथ अपि) और भी (षषः) यह [प्राक्रोडितः] क्रोड़पत्रीय [न्यूनतापूरक] (श्लोकः) श्लोक (प्रति अभिषदति) बोला जाता है—(सप्त स्तुत्याः सप्त च पाकयज्ञा इति) [यह श्लोक आगे है—मो० पू० ५। २५] १२ ॥

भावार्थ—परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से सब चन्द्र आदि लोक और सब संसार बनाया है ॥ १२ ॥

सामर्थ्येभ्यः (नक्षत्राणि) अमिनक्षियजि० । उ० ३। १०५ । एक्ष गतौ—
अत्रन् । गतिशीलान् तारागणान् (लोमभ्यः) नामन् सीमन् व्यामन् रोमन्
लोमन्० । उ० ४। १५१ । लून् छेदनं—मनिन् । गात्रकंशेभ्यः, छेदनसामर्थ्ये-
भ्योवा । (लुद्रेभ्यः) स्फायितञ्चिवञ्चि० । उ० २। १३ । लुदिर् सम्पेषणे—रक् ।
पिष्टेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः (प्राणेभ्यः) प्र+अन जीवने-अच्वञ्वा । कायस्थवायुभ्यो
जीवनसामर्थ्येभ्यो वा (देवान्) दिव्यपदार्थान् (त्रिवृतम्) सत्त्वरजतमाभिः
त्रिगुणीकृतम् (सप्ततन्तुम्) सितनिगमि० । उ० १। ६६ । तनु विस्तारे—
तुन् । कालत्रयेण, लोकत्रयेण अर्थात् सृष्टिस्थितिप्रलयेन जीवात्मनां च सह
विस्तारवन्तम् (एकविंशतिसंस्थम्) पञ्च सूक्ष्मभूतानि पञ्च स्थूलभूतानि
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, एकम् अन्तःकरणंचेति, एभिः सह
सम्यक् स्थितम् (यज्ञम्) यजयाचयत० । पा० ३। ३। ६० । यज देवपूजा सकृत्ति-
करणदानेषु-नङ् । संगत्या संयोगेन कृतं संसारम् (प्राक्रोडितः) प्र+आङ्+
क्कुड घमत्वे—क्तः । अङ्के गतः । क्रोड़पत्रीयः । न्यूनतापूरकः ॥

टिप्पणी १—पुरुष सूक्त अथर्व वेद का० १६ । ६ । ७ । ऋग्वेद १० । ६०
१३ । और यजुर्वेद ३१ । १२ । में ऐसा कहा है—(चन्द्रमा मनसा जातः)
[इस पुरुष के] मन [मनन सामर्थ्य] से चन्द्रलोक उत्पन्न हुआ, अर्थात्
चन्द्रमा से मनन शक्ति और पदार्थ पुष्टि होती है ॥

टिप्पणी २—(अग्निर्यज्ञं) यह ऋग्वेद १० । ५२ । ४ के उत्तरार्ध की
प्रतीक है जो इस प्रकार है (अग्निर्विद्वान् यज्ञं नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं
सप्ततन्तुम्) विद्वान् अग्नि [प्रकाशमान परमात्मा] हमारे लिये (पञ्चयामम्)
[प्राण, अपान, व्यान, उदान, और समान इन] पांच प्राणों से चलने वाले
(त्रिवृतम्) [सत्त्व रज और तमू इन तीन गुणों से प्रत्येक] तिगुने किये हुये
(सप्ततन्तुम्) [तीन काल, तीन लोक अर्थात् सृष्टि स्थिति प्रलय और एक
जीवात्मा इन] सात तन्तु [विस्तार] वाले (यज्ञम्) यज्ञ [संयोग से बने हुये
संसार] को (कल्पयाति) बनाता है ॥

टिप्पणी ३—पुरुष सूक्त अथर्व वेद का० १६ । ६ । १५, ऋग्वेद १० । ६०
१५ और यजुर्वेद ३१ । १५ । में इस प्रकार वर्णन है—(सप्तास्यासन् परिध-
यस्त्रिः सप्त समिधः कृताः) सात [तीन काल, तीन लोक अर्थात् सृष्टि स्थिति
प्रलय और एक जीवात्मा] इस [संसार रूप यज्ञ] के घेरे [के समान] थे,
और तीन बार सात [इक्कीस अर्थात् पांच सूतभूत, पांच स्थूलभूत, पांच
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और एक अन्तःकरण] समिधायें किये गये हैं ॥

टिप्पणी ४—(सप्त स्तुत्याः सप्त च.....) यह श्लोक आगे हैं गोपथ
पू० ५ । २५ । वहां इनका अर्थ किया जायगा ॥

कण्डिका १३ ॥

तमाहरत् येनायजत तस्याग्निर्होताऽऽसीत्, वायुरध्वर्युः, सूर्य उद्धाता,
चन्द्रमा ब्रह्मा, पर्जन्यः सदस्य, ओषधिवनस्पतयश्चमसा, अध्वर्युवो विश्वेदेवा
होत्रका, अथर्वाङ्गिरसो गोप्तारस्तं ह स्मैतमेवं विद्वांसः पूर्वं श्रोत्रिया यज्ञं ततं
सावसाय ह स्माहेत्यभिव्रजन्ति, मा नोऽयं घर्म उद्यतः, प्रिमत्तानाममृताः प्रजाः
प्रसाक्षीदिति, तान् वा एतान् परिरक्तान् सदःप्रसर्पकानित्याचक्षते दक्षिणा-
समृद्धांस्तदु ह स्माह प्रजापतिर्यद्वै यज्ञेऽकुशला ऋत्विजो भवन्त्यचरिति नो ब्रह्म-
चर्यमपराग्या वा तद्वै यज्ञस्य विरिष्टमित्याचक्षते । यज्ञस्य विरिष्टमनु यजमानो
विरिष्यते, यजमानस्य विरिष्टमनु ऋत्विजो विरिष्यन्त, ऋत्विजां विरिष्टमनु
दक्षिणा विरिष्यन्ते, दक्षिणानां विरिष्टमनु यजमानः पुत्रपशुभिर्विरिष्यते, पुत्रप-

शूनां विरिष्टमनु यजमानः स्वर्गेण लोकेन विरिष्यते, स्वर्गस्य लोकस्य विरिष्ट-
मनु तस्यार्द्धस्य योगक्षमो विरिष्यते, यस्मिन्नर्द्धे यजन्त इति ब्राह्मणम् ॥ १३ ॥

कांडिका १३ ॥ ब्रह्मयज्ञ और उसकी त्रुटि में अनिष्ट फल ॥

(तम् आहरत्) उस [पदार्थ] को वह [परमात्मा] लाया (येन अय-
जत) जिस से उस ने यज्ञ किया । (तस्य) उस [यज्ञ] का (अग्निः) अग्नि
[विजुली] (होता) होना [हवन करने वाला] (आसीत्) हुआ, (वायुः)
वायु [प्राण वा जीवन वायु] (अध्वर्युः) अध्वर्यु [अहिंसा चाहने वाला
याजक], (सूर्यः) सूर्य [प्रेरक प्रकाशमान लोक] (उद्गाता) उद्गाता
[वेदों का उत्तम गाने वाला], (चन्द्रमाः) चन्द्रलोक [आनन्द कारक लोक]
(ब्रह्मा) ब्रह्मा [बड़ा हुआ सब वेद जानने वाला याजक], (पर्जन्यः) सीचने
वाला मेघ (सदस्यः) सदस्य [भूल सुधारने वाला], (ओषधिवनस्पतयः)
सामलता आदि ओषधि और वनस्पतियां (चमसाः) चमचे [यज्ञ पात्र],
(अध्वर्यवः) अहिंसा चाहने वाले (विश्वे देवाः) विश्वे देवा [सब दिव्य
पदार्थ] (होत्रकाः) होत्रक लोग [सहायक होता जन], (अथर्वाङ्गिरसः)
अथर्वाङ्गिरा [निश्चल ब्रह्म के वेद मन्त्र] (गाप्तारः) गाप्ता [रक्षक हुये] ।
(तम्) उस [प्रलय में वर्तमान] (ह स्म) अवश्य ही (एतम्) इस [सृष्टि
में वर्तमान] (एवम्) व्यापक ब्रह्म को (विद्वांसः) जानने हारे (पूर्वे) पहिले
(श्रात्रियाः) वेद पढ़ने वाले लोग (ततम्) फैले हुये (यज्ञम्) यज्ञ को (माव-
साय = सह अवसाय) एक साथ पूरा करके (अभि व्रजन्ति) सब ओर
जाते हैं—(ह स्म आह) अवश्य ही वह [ब्रह्म ज्ञानी] कहता है—(अयम्
उद्यतः घर्मः) यह सिद्ध किया हुआ यज्ञ (नः) हम (अमृताः) न मरो हुई
[पुरुषार्थी] (प्रजाः) प्रजाओं को (प्रमत्तानाम्) प्रमादियों [चूकने वालों]
में (मा प्रसादीत् इति) न मिलावे । (तान्) उन [प्रलय में वर्तमान] (वै)

१३—(अध्वर्युः) अध्वानं सत्पथ रातीति । अध्वन् + रा दानादानयोः—क ।
यद्वा न ध्वरति कुटिलीकरोति हिनस्तीति वा । न + ध्वृ कुटिलीकरणे हिंसने च-
अच् । अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत् प्रतिषेधः—निह० १ । ८ ।
मृगध्वादयश्च । उ० १ । ३७ । अध्वर + या प्रापणे-कु । यद्वा सुप आत्मनः क्यच् ।
पा० ३ । १ । ८ । अध्वर—क्यच् । कयाच्च छन्दसि । पा० ३ । २ । १७० ।
उग्रत्ययः, अलोपः । अध्वर्यरध्वर्युरध्वरं युनक्त्यध्वरस्य नेताऽध्वरं कामयत

निश्चय करके (एतान्) इन [सृष्टिकाल में वर्तमान] (सदः प्रसर्पकान्) सभा [यज्ञ] में आने वाले (परिरक्षकान्) बड़े रक्षकों को (दक्षिणासमृद्धान्) दक्षिणा [प्रतिष्ठादान] से परिपूर्ण (आचक्षते इति) वे लोग बताते हैं— (तत् उ ह स्म) यह अवश्य ही (प्रजापतिः) प्रजापति [प्रजापालक परमात्मा] (आह) कहता है । [और यह भी वह कहता है]—(यत् वै) जब ही (यज्ञे) यज्ञ में (अकुशलाः) अयोग्य (ब्रह्मचर्यम्) ब्रह्मचर्य [इन्द्रियों को वश में रखना और वेदों का पढ़ना आदि तप] (अचरितिनः) न करने वाले (वा) अथवा (अपराग्याः) बड़े रागी (ऋत्विजः) ऋत्विज लोग (भवन्ति) होते हैं, (तत् वै) तब ही (यज्ञस्य विरिष्टम्) यज्ञ का नाश होता है—(इति आचक्षते) ऐसा लोग कहते हैं । (यज्ञस्य विरिष्टम् अनु) यज्ञ के नाश के साथ (यजमानः) यजमान (विरिष्यते) नष्ट हो जाता है । (यजमानस्य विरिष्टम् अनु) यजमान के नाश के साथ (ऋत्विजः) ऋत्विज [याजक लोग] (विरिष्यन्ते) नष्ट हो जाते हैं, (ऋत्विजां विरिष्टम् अनु) ऋत्विजों के नाश के साथ (दक्षिणाः) दक्षिणायें (विरिष्यन्ते) नष्ट हो जाती हैं, (दक्षिणानां विरिष्टम् अनु) दक्षिणाओं के नाश के साथ (यजमानः) यजमान (पुत्रपशुभिः) पुत्र और पशुओं सहित (विरिष्यते) नष्ट हो जाता है, (पुत्रपशूनां विरिष्टम्

इति—वा निरु० १ । ८ । अहिंसाकामः । याजकः (ब्रह्मा) बृहेर्नाऽच्च । उ० ४ । १४६ । वृहि वृद्धौ—मनिन्, नस्य अकारः । ब्रह्मैको जाते जाते विद्यां वदति ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति, ब्रह्मा परिवृढः श्रुततो ब्रह्म परिवृढं सर्वतः—निरु० १ । ८ । सर्ववेदवेत्ता । सर्वनायकयाजकः (होत्रकाः) हुयामाश्रुभसिभ्यस्त्रन् । उ० ४ । १६८ । हु दानादानादनेषु—त्रन्, ततः कन् । टाप् । होत्राभ्यश्छुः । पा० ५ । १ । १३५ । होत्रा—शब्द ऋत्विग्वाची स्त्रीलिङ्गः । बहुवचनाद् विशेषग्रहणम् । सहायकहोतारः । (अथर्वाङ्गिरसः) अथर्वणो निश्चलब्रह्मणो वेदमन्त्राः (गोतारः) रक्षकाः (विद्वांसः) जानन्तः (श्रोत्रियः) श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते । पा० ५ । २ । ८४ । छन्दस्—घन् । वेदाध्येतारः (सावसाय = सह + षो अन्तकर्मणि—ल्यप् । समाप्य (उद्यतः) उत् + यम्—क । सिद्धः । प्रस्तुतः (घर्मः) घर्मग्रीष्मौ । उ० १ । १४६ । घृ क्षरणदीप्तयोः—मक् । यज्ञः—निघ० ३ । १७ । (अमृताः) न मृताः । पुरुषार्थयुक्ताः (प्रमत्तानाम्) प्रमत्तानां मध्ये (मा) निषेधे (प्रसाक्षीत्) प्र + षच समवाये—लुङ् चक्ष्य क्षः । असाक्षीत् । संगमयेत् (ब्रह्मचर्यम्) ब्रह्म + चर गतौ—यत् । आत्मनिग्रहवेदाध्ययनादितपः

अनु) पुत्रों और पशुओं के नाश के साथ (यजमानः) यजमान (स्वर्गेण लोकेन) स्वर्ग लोक से (विरिष्यते) नष्ट हो जाता है, (स्वर्गस्य लोकस्य विरिष्टम् अनु) स्वर्ग लोक के नाश के साथ (तस्य) उस की (अर्द्धस्य) ऋद्धि [सम्पत्ति] का (योगक्षेमः) योगक्षेम [पाने योग्य का पाना और पाये हुये का बचाना] (विरिष्यते) नष्ट हो जाता है, (यस्मिन् अर्द्धे) जिस सम्पत्ति में (यजन्ते) लोग यज्ञ करते हैं—(इति ब्राह्मणम्) यह ब्राह्मण [वेद ज्ञान] है ॥ १३ ॥

भावार्थ—ब्रह्मज्ञानियों का विचार है कि ब्रह्म यज्ञ अर्थात् संसार की सृष्टि अवस्था में अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि याज्ञक माने हैं । यदि वे अपना अपना काम ठीक ठीक न करें तो सारी सृष्टि नष्ट हो जावे और यजमान अर्थात् ईश्वर भी कृतकृत्य न होवे ॥ १३ ॥

कण्डिका १४ ॥

तं ह स्मैतमेवं विष्ठांसं ब्रह्माणं यज्ञविरिष्टी वा यज्ञविरिष्टिनो वेत्युपाधावेरन् नमस्ते अस्तु भगवन् यज्ञस्य नो विरिष्टं सन्धेहीति, तद्यत्रैव विरिष्टं स्यात्तत्राग्नीनुपसमाधाय शान्त्युदकं कृत्वा पृथिव्यै श्रोत्रायेति त्रिरेवाग्नीन् सम्प्रोक्षति, त्रिः पर्युक्षति, त्रिः कारयमाणमाचामयति च, सम्प्रोक्षति च, यज्ञवास्तु च सम्प्रोक्षत्यथापि वेदानां रसेन यज्ञस्य विरिष्टं सन्धीयते, तद्यथा लवणेन सुवर्णं सन्ध्यात् सुवर्णेन, रजतं रजतेन, लोहं लोहेन, सीसं सीसेन, एष्वेवमेवास्य यज्ञस्य विरिष्टं सन्धीयते, यज्ञस्य सन्धितिमनु यजमानः सन्धीयते, यजमानस्य सन्धितिमन्वृत्विजः सन्धीयन्त, ऋत्विजां सन्धितिमनुदक्षिणाः सन्धीयन्ते दक्षिणानां सन्धितिमनु यजमानः पुत्रपशुभिः सन्धीयते, पुत्रपशूनां सन्धितिमनु यजमानः स्वर्गेण लोकेन सन्धीयते, स्वर्गस्य लोकस्य सन्धितिमनु तस्यार्द्धस्य योगक्षेमः सन्धीयते, यस्मिन्नर्द्धे यजन्त इति ब्राह्मणम् ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ यज्ञ के दोष निवारण से इष्टफल की प्राप्ति ॥

(तम्) उस (ह स्म) अवश्य ही (एतम्) इस (एवम्) ऐसे [अनबूझ]

(अचरितिनः) न + चरित—इति । अकुर्वाणः (अपराग्याः) अप + राग—यत् । अत्यन्तरागिनः । अतिलोभिनः (विरिष्टम्) वि + रिष हिंसायाम्—क्त । विनाशम् (अनु) अनुसृत्य (अर्द्धस्य) ऋधु वृद्धौ—घञ् । ऋद्धेः । सम्पत्तेः (योगक्षेमः) योगैत युक्तः क्षेमो योगक्षेमः । योगः प्राप्यस्य प्रापणं क्षेमः प्राप्तस्य रक्षणं तदुभयः (ब्राह्मणम्) ब्रह्म—अण् । ब्रह्मणो ज्ञानम् ॥

(विद्वांसम्) विद्वान् (ब्रह्माणम्) ब्रह्मा [यज्ञनायक] को—(यज्ञविरिष्टी) यज्ञ नाश करने वाला [ब्रह्मा] है (वा वा) अथवा (यज्ञविरिष्टिनः) यज्ञ नाश करने वाले [सब याजक] हैं—(इति उपाधौ) इस उपनाम में (एरन्) चलावें । (नमस्ते अस्तु भगवन् यज्ञस्य नो विरिष्टं सन्धेहि इति) हे भगवन् तेरे लिये नमस्कार हो, हमारे यज्ञ के दोष को सुधार दे [यह वाक्य बोले] । (तत् यत्र एव) सो जहां ही (विरिष्टं स्यात्) दोष होवे, (तत्र अग्नीन् उपसमाधाय) वहां अग्नि्यों को ठोक करके (शान्त्युदकं कृत्वा) शान्ति जल [शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्तु नः । अथर्व० १ । ६ । १ । इस मन्त्र के साथ आचमन आदि के लिये शान्ति जल] करके (पृथिव्यै श्रोत्रायेति) पृथिव्यै श्रोत्राय इत्यादि [अथर्ववेद ६ । १० । १ । मन्त्र से] (त्रिः एव) तीन बार ही (अग्नीन्) अग्नि्यों को (सम्प्रोक्षति) [घृत से] भले प्रकार सींचे, (त्रिः) तीन बार (पर्युक्षति) सब ओर से सींचे, (च) और (कारयमाणम्) कर्म कराने वाले को (आचामयति) आचमन करावें (च) और (सम्प्रोक्षति) [जल से] भले प्रकार सींचे, (च) और (यज्ञवास्तु) यज्ञशाला को (सम्प्रोक्षति) भले प्रकार सींचे । (अथ अपि) तब ही (वेदानां रसेन) वेदों के रस [ध्वनि] से (यज्ञस्य विरिष्टम्) यज्ञ का दोष (सन्धीयते) सुधर जाता है । (तत् यथा) सां जैसे (लवणेन) लवण [खार] के साथ, (सुवर्णं सुवर्णेन) सोने को सोने से, (रजतं रजतेन) चांदी को चांदी से, (लोहं लोहेन) लोहे को लोहे से, (सीलं सीसेन) सीसा [धातु विशेष] को सीसे से (सन्धीयते) जोड़े, (एषु) इन [कर्मों में] (एवम् एव) ऐसे ही (अस्य यज्ञस्य विरिष्टम्) इस यज्ञ का दोष (सन्धीयते) सुधर जाता है । (यज्ञस्य सन्धितिम् अनु) यज्ञ के सुधार के साथ (यजमानः सन्धीयते) यजमान सुधर जाता है । (यजमानस्य सन्धितिम् अनु) यजमान के सुधार के साथ (ऋत्विजः सन्धीयन्ते)

१४—(एवम्) पूर्वोक्तप्रकारम् । अज्ञानिनम् (यज्ञविरिष्टी) यज्ञ + विरिष्ट—इति । यज्ञदूषकः (उपाधौ) उप + आ + धा—कि । नामचिन्हे । उपनाम्नि (एरन्) ईर गतौ—लुङ्, आर्षं रूपं लोटर्थे । एरयन् । प्रेरयन्तु (उपसमाधाय) यथाविधि समाहितान् कृत्वा (त्रिः) द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् । पा० ५ । ४ । १८ । त्रि—सुच् । त्रिवारम् (सम्प्रोक्षति) उक्त सेचने वृद्धौ च । घृतेन यथाविधि सिंचति (कारयमाणम्) कारयतेः—शानच् । कर्मकारयितारम् (रसेन) रस शब्दे आस्वादाने च्—अच् । रसा नदी रसतेः शब्दकर्मणः—निरु०

ऋत्विज सुधर जाते हैं । (ऋत्विजां सन्धितिम् अनु) ऋत्विजों के सुधार के साथ (दक्षिणाःसन्धीयन्ते) दक्षिणायें सुधर जाती हैं । (दक्षिणानां सन्धितिम् अनु) दक्षिणाओं के सुधार के साथ (यजमानः) यजमान (पुत्रपशुभिः सन्धीयते) पुत्रों और पशुओं सहित सुधर जाता है । (पुत्रपशूनां सन्धितिम् अनु) पुत्रों और पशुओं के सुधार के साथ (यजमानः) यजमान (स्वर्गण लोकेन सन्धीयते) स्वर्ग लोक के साथ सुधर जाता है । (स्वर्गस्य लोकस्य सन्धितिम् अनु) स्वर्ग लोक के सुधार के साथ (तस्य) उस [यजमान] की (अर्द्धस्य) ऋद्धि [सम्पत्ति] का (योगक्षेमः) योगक्षेम [पाने योग्य का पाना और पाये हुये का बचाना] (सन्धीयते) सुधर जाता है, (यस्मिन् अर्द्धे) जिस सम्पत्ति में (यजन्ते) वे यज्ञ करते हैं, (इति ब्राह्मणम्) यह ब्राह्मण [वेद ज्ञान है] ॥ १४ ॥

भावार्थ—जहां ऋत्विज लोग विद्वान् क्रियाकुशल होते हैं, वहां यज्ञ की समाप्ति उत्तमता से होती है और सब यजमान और ऋत्विजों के आनन्द और सम्पत्ति बढ़ते हैं ॥ १४ ॥

कण्डिका १५ ॥

तदुह समाहाथर्वा देवो विजानन्यज्ञविरिष्टानन्दानीत्युपशमयेरन् यज्ञे प्रायश्चित्तिः क्रियतेऽपि च यदु बह्विव यज्ञे विलोमः क्रियते नचैवास्य काचना-र्त्तिर्भवति न च यज्ञविष्कन्धमुपयात्यपहन्ति पुनर्मृत्युमपात्येति पुनराजातिं कामचारोऽस्य सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद यश्चैवं विद्वान् ब्रह्मा भवति यस्य चैवं विद्वान् ब्रह्मा दक्षिणतः सदोऽध्यास्ते यस्य चैवं विद्वान् ब्रह्मा दक्षिणत उदङ्मुख आसीनो यज्ञ आज्याहुतीर्जुहोतीति ब्राह्मणम् ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ यज्ञ की सफलता का लाभ ॥

(तत् उ ह स्म) यह ही निश्चय करके (विजानन्) विज्ञानी, (देवः) देव [प्रकाशमान वा विजयी] (अथर्वा) अथर्वा [निश्चल ब्रह्म] (आह)

११ । २५ । रसो वाङ्नाम—निघ० १ । ११ । रसनेन ध्वनिना (लवणेन) लूञ् छेदने—ल्युट् । क्षारविशेषेण (सन्दध्यात्) संयोजयेत् (सन्धितिम्) सुधितव-सुधितनेमधितधिष्वधिषीय च । पा० ७ । ४ । ४५ । अत्र, क्तिन्पि दृश्यते—इति उक्तत्वात् सम् + दधातेः—क्तिन्, इत्वं च । संहितिम् । संयोगम् । मेलनम् ॥

कहता है—(यज्ञविरिष्टानन्दानि) यज्ञ के दोषों के विघनों को (उपशमयेरन् इति) शान्त करें । [इस लिये] (यज्ञे) यज्ञ में (प्रायश्चित्तिः) प्रायश्चित्त [पाप दूर करने के लिये तप आदि कर्म] (क्रियते) किया जाता है, (अपि च) और भी (यत् उ बहु इव) जो कुछ बहुत सा (विलोमः) उलट पुलट (क्रियते) किया जाता है, (अस्य च) उस की भी (एव) निश्चय कर के (काचन आर्तिः) कोई भी पीड़ा (न भवति) नहीं होती (च न) और न (यज्ञविष्कन्धम्) यज्ञ के पतन को (उपयाति) वह पाता है । (पुनः मृत्युम् अपहन्ति) फिर वह मृत्यु को हटा देता है, (पुनः आजातिम् अपात्येति) और फिर वह अल्प जीवन को लांघ जाता है [दीर्घ आयु कर लेता है] । (अस्य) उस [मनुष्य] का (कामचारः) अपनी इच्छा से विचरना (सर्वेषु लोकेषु) सब लोकों में (भाति) प्रकाशित होता है, (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है, (च यः) और जो (एवम्) ऐसा (विद्वान्) जानने वाला (ब्रह्मा) ब्रह्मा [सब वेद जानने वाला यज्ञनायक] (भवति) होता है, (यस्य च) और जिस [मनुष्य] का (एवं विद्वान्) ऐसा जानने वाला (ब्रह्मा) ब्रह्मा (दक्षिणतः) दाहिनी ओर को (सदः अध्यास्ते) शाला में बैठता है, (यस्य च) और जिस का (एवं विद्वान्) ऐसा जानने वाला (ब्रह्मा) ब्रह्मा (दक्षिणतः) दाहिनी ओर को (उदङ्मुख आसीनः) उत्तर मुख बैठा हुआ (यज्ञे) यज्ञ में (आज्याहुतीः) घो की आहुतियां (जुहोति) देता है, (इति ब्राह्मणम्) यह ब्राह्मण [ब्रह्म ज्ञान] है ॥ १५ ॥

१५—(यज्ञविरिष्टानन्दानि) यज्ञविरिष्ट + न + टुनदि समृद्धौ संतोषे च—
अच् । यज्ञस्य दोषाणाम् अनन्दानि विघनान् (उपशमयेरन्) शान्तानि कुर्वन्तु
(प्रायश्चित्तिम्) प्रायस्य चित्तिचित्तयोः । वा० पा० ६ । १ । १५७ । प्राय + चिती
संज्ञाने—क्तिन्, सुडागमः । प्रायः पापं विजानीयाच्चित्तं तस्य विशोधनम् ।
पापक्षयसाधनं तप आदिकम् (विलोमः) विपरीतव्यवहारः (आर्तिः) आङ् +
ऋ हिंसने गतौ च—क्तिन् । पीडा (यज्ञविष्कन्धम्) यज्ञ + वि + स्कन्ध शोषणे
गत्यां च—घञ्, धश्चान्तादेशः । यज्ञस्य शोषणं पतनम् (उपयाति) प्राप्नोति यज-
मानः (अपहन्ति) हन हिंसागत्योः । दूरे गमयति (अपात्येति) अप + अति +
इण् गतौ—लट् । उल्लङ्घ्य गच्छति (आजातिम्) आङ् ईषदर्थे । अल्पजीवनम्
(कामचारः) स्वेच्छागमनम् ॥

भावार्थ—जब ब्रह्मा सर्ववेदवेत्ता और कर्मकुशल होता है, तब यजमान का यज्ञ सुफल होता है ॥ १५ ॥

कण्डिका १६ ॥

ब्रह्म ह वै ब्रह्माणं पुष्करे ससृजे, स खलु ब्रह्मा सृष्टश्चिन्तामापेदे केनाहमेकेनाक्षरेण सर्वांश्च कामान् सर्वांश्च लोकान् सर्वांश्च देवान् सर्वांश्च वेदान् सर्वांश्च यज्ञान् सर्वांश्च शब्दान् सर्वांश्च व्युष्टीः सर्वाणि च भूतानि स्थावरजङ्गमान्यनुभवेयमिति स ब्रह्मचर्य्यमचरत् । स ओमित्येतदक्षरमपश्यद् द्विवर्णश्चतुर्मात्रं सर्वव्यापि सर्वविभवातयामब्रह्म ब्राह्मीं व्याहृतिं ब्रह्मदैवतं तथा सर्वांश्च कामान् सर्वांश्च लोकान् सर्वांश्च देवान् सर्वांश्च वेदान् सर्वांश्च यज्ञान् सर्वांश्च शब्दान् सर्वांश्च व्युष्टीः सर्वाणि च भूतानि स्थावरजङ्गमान्यन्वभवत्तस्य प्रथमेन वर्णेनापस्नेहश्चान्वभवत्तस्य द्वितीयेन वर्णेन तेजो ज्योतीष्यन्वभवत् ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ ब्रह्मा का ब्रह्मचर्य्य, ओम्, जगत् की सृष्टि ॥

(ब्रह्म ह वै) ब्रह्म ने निश्चय करके (ब्रह्माणम्) ब्रह्मा [अपने सामर्थ्य विशेष] का (पुष्करे) आकाश में (ससृजे) उत्पन्न किया । (सः खलु ब्रह्मा सृष्टः) वह भी ब्रह्मा उत्पन्न हाकर (चिन्ताम् आपेदे) चिन्ता को प्राप्त हुआ— (अहम्) मैं (केन एकेन अक्षरेण) कौन से एक अक्षर [अविनाशी ब्रह्म] से (सर्वान् च कामान्) सब ही कामनाओं, (सर्वान् च लोकान्) और सब लोकों, (सर्वान् च देवान्) और सब दिव्य पदार्थों, (सर्वान् च वेदान्) और सब वेदों, (सर्वान् च यज्ञान्) और सब यज्ञों [देव पूजा संगतिकरण और दान], (सर्वान् च शब्दान्) और सब शब्दों, (सर्वाः च व्युष्टीः) और सब विविध वसतियों, (सर्वाणि च स्थावरजङ्गमानि भूतानि) और सब स्थावर और जङ्गम सत्ताओं को (अनुभवेयम् इति) बनाऊं । (सः ब्रह्मचर्य्यम् अचरत्) उस ने

१६—(पुष्करे) पुषः कित् । उ० ४ । ४ । पुष्यतेः करन् कित् । पुष्करमन्तरिक्षं पोषति भूतानि—निरु० ५ । १४ । अन्तरिक्षे । अवकाशे (व्युष्टीः) वि + वस निवासे—कित् । विविधवसतीः (भूतानि) भू सत्तायां—क । सत्तामात्राणि (अनुभवेयम्) अनु—भू ज्ञाने करणे च । कुर्याम् । उत्पायेयम् (ब्रह्मचर्य्यम्) क० १३ (ओम्) क० ५ (अथातयामब्रह्म) न + या प्रापणे—क । अतिस्तुसुहु । उ० । १ । १४० । या प्रापणे—मन् । यद्वा यम नियमने—घञ् । न यातो गतो यामः समयो यस्मात् तेन तथाभूतेन ब्रह्मणा युक्तम् (ब्राह्मीम्)

ब्रह्मचर्य्य [इन्द्रियों को वश में रखना और वेदों को पढ़ना आदि तप] किया । (सः) उस ने (ओम् इति एतत् अक्षरम्) ओम् इस अक्षर [कण्डिका ५] (द्विवर्णम्) दो वर्ण वाले, (चतुर्मात्रम्) चार मात्रा वाले, (सर्वव्यापि) सर्व व्यापक, (सर्वविभु) सर्वशक्तिमान, (अयातयामब्रह्म) निर्विकार ब्रह्म वाले, (ब्राह्मीं व्याहृतिम्) ब्रह्म की व्याहृति, (ब्रह्मदैवतम्) ब्रह्म देवता वाले को (अपश्यत्) देखा । (तथा) उस [ओम् व्याहृति] से (सर्वान् च कामान्) सब कामनाओं, (सर्वान् च लोकान्) और सब लोकों, (सर्वान् च देवान्) और सब दिव्य पदार्थों, (सर्वान् च वेदान्) और सब वेदों, (सर्वान् च यज्ञान्) और सब यज्ञों [देव पूजा संगति करण दान], (सर्वान् च शब्दान्) और सब शब्दों (सर्वाः च व्युष्टीः) और सब विविध बसतियों, (सर्वाणि च स्थावरजङ्गमानि भूतानि) और सब स्थावर जङ्गम सत्ताओं को (अन्वभवत्) उस [ब्रह्मा] ने बनाया । (तस्य) उस [ओम्] के (प्रथमेन वर्णेन) पहिले वर्ण [अर्थात् ओकार] से (आपः स्नेहः च) व्यापक जल और चिकनाई को (अन्वभवत्) उस ने बनाया । (तस्य द्वितीयेन वर्णेन) उसके दूसरे वर्ण [अर्थात् मकार] से (तेजः) तेज [पराक्रम] और (ज्योतीषि) जोतियों [प्रकाशमान पदार्थों] को (अन्वभवत्) उस ने बनाया ॥ १६ ॥

भावार्थ—ब्रह्म, ब्रह्मा और ओम् परमात्मा के नाम हैं, उस ने अपने सामर्थ्य से सब सृष्टि को बनाया ॥ १६ ॥

कण्डिका १७ ॥

तस्य प्रथमया स्वरमात्रया पृथिवीमग्निमोषधिवनस्पतीन् ऋग्वेदं भूरिति व्याहृतिर्गायत्रं छन्दस्त्रिवृतं स्तोमं प्राचीं दिशं वसन्तमृतुं वाचमध्यात्मं जिह्वारसमितीन्द्रियाण्यन्वभवत् ॥ १७ ॥

ब्रह्मन्—अण्, डीप्, टिलोपः । ब्रह्मसम्बन्धिनीम् (ब्रह्मदैवतम्) स्वार्थे अण् । ब्रह्मदेवतायुक्तम् (अन्वभवत्) अनुभूतवान् । अकरोत् (आपः स्नेहः च) सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । द्वितीयार्थे प्रथमा । अपो व्याप्तानि जलानि स्नेहं च (तेजः) तिज निशाने वा तेज निशाने पालने च—असुन् । उष्णस्पर्शयुक्तं द्रव्यभेदम् । प्रभावम् । पराक्रमम् । वीर्य्यम् (ज्योतीषि) द्युतेरिसिन्नादेश्च जः । ३० । २ । ११० । द्युत दीप्तौ-इसिन् दस्य जः । दीप्यमानान् पदार्थान् ॥

कण्डिका १७ ॥ ओम् की पहिली स्वर मात्रा से पृथिवी आदि की उत्पत्ति ॥

(तस्य) उस [ओम्] की (प्रथमया स्वरमात्राया) पहिली स्वर मात्रा [अकार] से (पृथिवीम्, अग्निम् ओषधिवनस्पतीन्) पृथिवी, अग्नि, ओषधियों, वनस्पतियों, (ऋग्वेदम्) ऋग्वेद [पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या], (भूः इति) भूः [सर्वाधार परमात्मा है] (व्याहृतिः = व्याहृतिम्) व्याहृति, (गायत्रम्) गाने योग्य (छन्दः) आनन्द दायक वा पूजनीय कर्म, (त्रिवृतम्) [परमेश्वर के कर्म, उपासना और ज्ञान] तीन के साथ वर्तमान (स्तोमम्) स्तुति योग्य व्यवहार, (प्राचीं दिशम्) पूर्व वा सन्मुख वाली दिशा, (वसन्तम् ऋतुम्) वसन्त ऋतु, (अध्यात्मम्) आत्मा के जताने वाला यन्त्र [अर्थात्] (वाचम्) वाणी, (जिह्वाम्) जीभ, और (रसम् इति) रस (चखने का सामर्थ्य), (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों [ज्ञान और कर्म के साधनों] को (अन्वभवत्) उस [ब्रह्मा) ने बनाया ॥ १७ ॥

भावार्थ—परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से पृथिवी आदि को बनाया है ॥ १७ ॥

टिप्पणी १—कण्डिका १६ से २१ तक का मिलान कण्डिका ५, ६ से करने से ज्ञात होता है कि ब्रह्म ने ही सब को रचा है ॥

१७—(गायत्रम्) अमिनक्षियजि० । उ० ३ । १०५ । गै गाने—अत्रन्, स च णित् । आतोयुक् चिरकृतोः । पा० ७ । ३ । ३३ । इति युक् । गायत्रं गायते; स्तुतिकर्मणः—निरु० १ । ८ । गानयोग्यम् (छन्दः) चन्देरादेश्च छुः । उ० । ४ । १२६ । चदि आह्लादने—असुन्, चस्य छुः । यद्वा छुदि संवरणे स्तुतौ च—असुन् । छन्दति, अर्चतिकर्मा—निघ० ३ । १४ । छन्दांसि छ्वादनात्—निरु० । ७ । १२ । आह्लादकं पूजनीयं वा कर्म (त्रिवृतम्) त्रिभिः परमेश्वरस्य कर्मोपासनाज्ञानैः सह वर्तमानम् (स्तोमम्) अर्तिस्तुसुहु० । उ० । १ । १४ छुञ् स्तुतौ मन् । स्तुत्यव्यवहारम् (अध्यात्मम्) अव्ययम् । आत्मानमधिकृत्य ज्ञानमधिकरणं वा । आत्मनिरूपकं यन्त्रम् (इन्द्रियाणि) इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा । पा० ५ । २ । ६३ । इन्द्र—घच् । इन्द्रियं धननाभ—निघ० २ । १० । इन्द्रस्य ऐश्वर्ययुक्तस्य आत्मनो लिङ्गानि । ऐश्वर्याणि । ज्ञानकर्मसाधनानि चक्षुरादीनि ॥

कण्डिका १८ ॥

तस्य द्वितीयया स्वरमात्रयाऽन्तरिक्षं वायुं यजुर्वेदं भुव इति व्याहृतिस्त्रै-
ष्टुभं छन्दः पञ्चदशं स्तोमं प्रतीचीं दिशं ग्रीष्ममृतुं प्राणमध्यात्मनासिके गन्ध-
घ्राणमितीन्द्रियाण्यन्वभवत् ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ ओम् की दूसरी स्वरमात्रा से वायु आदि की उत्पत्ति ॥

(तस्य) उस [ओम्] की (द्वितीयया स्वरमात्रया) दूसरी स्वर मात्रा
[उकार] से (अन्तरिक्षं वायुम्) अन्तरिक्ष, वायु, (यजुर्वेदम्) यजुर्वेद [सत्कर्मों
की विद्या], (भुवः इति) भुवः [सर्वव्यापक ब्रह्म है] (व्याहृतिः = व्याहृतिम्)
व्याहृति, (त्रैष्टुभम्) तीन [सत्त्व रज और तम] के बन्धन वाले (छन्दः)
आनन्ददायक वा पूजनीय कर्म, (पञ्चदशम्) [पांच प्राण अर्थात् प्राण, अपान,
व्यान, समान, और उदान + पांच इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, और
घ्राण + पांच भूत अर्थात् भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश] इन पन्द्रह
पदार्थ वाले (स्तोमम्) स्तुति योग्य व्यवहार, (प्रतीचीं दिशम्) पश्चिम वा पीछे
वाली दिशा, (ग्रीष्मम् ऋतुम्) ग्रीष्म ऋतु, (अध्यात्मम्) आत्मा के जताने
वाले यन्त्र [अर्थात्] (प्राणम्) प्राण वा श्वास, (नासिके) दो नथने, (गन्ध-
घ्राणम् इति) गन्ध सूंघने के सामर्थ्य, (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों [ज्ञान और कर्म
के साधनों] को (अन्वभवत्) उस [ब्रह्मा] ने बनाया ॥ १८ ॥

भावार्थ—अन्तरिक्ष, वायु आदि को परमेश्वर ने बनाया है ॥ १८ ॥

कण्डिका १९ ॥

तस्य तृतीयया स्वरमात्रया दिवमादित्यं सामवेदं स्वरिति व्याहृतिर्जागतं
छन्दः सप्तदशं स्तोममुदीचीं दिशं वर्षाऋतुं ज्योतिरध्यात्मं चक्षुषी दर्शनमिती-
न्द्रियाण्यन्वभवत् ॥ १९ ॥

१९—(त्रैष्टुभम्) त्रि + ष्टुभ निरोधे—क्विप् । ततोऽण् । त्रयाणां सत्त्व-
रजस्तमसां स्तोमनं बन्धयस्मिन् तत् (पञ्चदशम्) संख्ययाऽव्ययासन्नादुराधिक-
संख्याः संख्येये । पा० । २ । २ । २५ । इति पञ्चाधिको दश यत्र स पञ्चदशः ।
बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात् । पा० ५ । ४ । ७३ । पञ्चदशन्—डच् । पञ्चप्राणे-
न्द्रियभूतानि यस्मिन् तत् तथाभूतम् (गन्धघ्राणम्) गन्धग्रहणसामर्थ्यम् ॥

कण्डिका १६ ॥ ओम् की तीसरी स्वरमात्रा से सूर्य आदि की रचना ॥

(तस्य) उस [ओम्] की (तृतीयया स्वरमात्रया) तीसरी स्वरमात्रा [ओकार] से (दिवम्) प्रकाश लोक (आदित्यम्) सूर्यमण्डल, (सामवेदम्) सामवेद [मोक्षविद्या], (स्वः इति) स्वः [सुखस्वरूप परमात्मा है] (व्याहृतिः = व्याहृतिम्) व्याहृति, (जागतम्) जगत् के हितकारक (छन्दः) आनन्ददायक कर्म, (सप्तदशम्) सत्रहवें [चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर की और एक नीचे की—दश दिशाएँ, सत्त्व, रज, और तम, ईश्वर, जीव और प्रकृति इन सोलह के सहित सत्रहवें संसार—का० ५] से संबन्ध वाले (स्तोमम्) स्तुति योग्य व्यवहार, (उदीचीं दिशम्) उत्तर वा बाई दिशा, (वर्षाः ऋतुम्) वर्षा ऋतु (अथात्मम्) आत्मा के जताने वाले यन्त्र [अर्थात्] (ज्योतिः) जोति, (चक्षुषी) दो आंख, (दर्शनम् इति) देखने के सामर्थ्य, (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों [ज्ञान और कर्म के साधनों] को (अन्वभवत्) उस [ब्रह्मा [ने बनाया ॥ १६ ॥

भावार्थ—सूर्य आदि लोक और अनेक व्यवहार के साधन परमेश्वर ने बनाये हैं ॥ १६ ॥

कण्डिका २० ॥

तस्य वकारमात्रयाऽपश्चन्द्रमसमथर्ववेदन्नक्षत्राण्योमिति स्वमात्मानं जनदित्यङ्गिरसामानुष्टुभं छन्दः एकविंशं स्तामं दक्षिणां दिशं शरदमृतुं मनाऽध्यात्मं ज्ञानं ज्ञेयमितीन्द्रियाण्यन्वभवत् ॥ २० ॥

कण्डिका २० ॥ ओम् की वकार मात्रा से जल आदि की रचना ॥

(तस्य) उस [ओम्] की (वकारमात्रया) वकार [संप्रसारण से उकार] मात्रा से (अपः) जल, (चन्द्रमसम्) चन्द्रमा, (नक्षत्राणि) नक्षत्रों [घूमते हुये तारागणों], (अथर्ववेदम्) अथर्ववेद [निश्चल ब्रह्म के ज्ञान], (ओम् इति स्वम् आत्मानम्) ओम् इस अपने आत्मा, (जनत् इति) जनत्

१६—(जागतम्) तस्मै हितम् । पा० ५ । १ । ५ । जगत्-अण् । संसार-हितकरम् । अन्यद्गतम् ॥

[उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है—कण्डिका ८] इस (अङ्गिरसाम्) अनेक ज्ञानों के (आनुष्टुभम्) निरन्तर स्तुति वाले (छन्दः) आनन्ददायक कर्म, (एकविंशम्) [पांच सूक्ष्मभूत, पांच स्थूलभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और एक अन्तःकरण—कण्डिका १२] इक्कीस से सम्बन्ध वाले (स्तोमम्) स्तुति योग्य व्यवहार, (दक्षिणां दिशम्) दाहिनी वा दक्षिण दिशा, (शरदम् ऋतुम्) शरद ऋतु, (अध्यात्मम्) आत्मा के जताने वाले यन्त्र, [अर्थात्] (मनः) मन, (ज्ञानम्) ज्ञान, (ज्ञेयम् इति) ज्ञेय [जानने योग्य वस्तु], (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों [ज्ञान और कर्म के साधनों] को (अन्वभवत्) उस ब्रह्म ने बनाया ॥ २० ॥

भावार्थ—परमात्मा ने ही जल आदि सब पदार्थ रचे हैं ॥ २० ॥

कण्डिका २१ ॥

तस्य मकारश्रुत्येतिहासपुराणं वाको वाक्यगाथानाराशंसीरुपनिषदोऽनुशासनानामिति वृधत् करद् गुहन् महत्तच्छमोमिति व्याहृतीः स्वरशम्भनाना-तन्त्रीः स्वरनृत्यगीतवादित्राण्यन्वभवच्चैत्ररथं दैवतं वैद्युतं ज्योतिर्बर्हत्तं छन्द-स्तृणवत्त्रयस्त्रिंशौ स्तोमौ ध्रुवामूर्ध्वां दिशं हेमन्तशिशिरावृत् श्रोत्रमध्यात्मं शब्दश्रवणमितीन्द्रियाण्यन्वभवत् ॥ २१ ॥

कण्डिका २१ ॥ ओम् से इतिहास पुराण आदि का ज्ञान ॥

(तस्य) उस [ओम्] की (मकारश्रुत्या) मकार के श्रवण से (इति-हासपुराणम्) इतिहास और पुराण [बड़े लोमों और पुराने लोमों की वृत्तान्त-विद्या—कण्डिका १०], (वाकः) वाक [बोलने के सामर्थ्य], (वाक्यगाथानाराशंसीः) वाक्य [पदों के मिलान], गाथा [गाने योग्य वेदमन्त्र आदि]

२०—(अपः) आपः कर्मख्यायां ह्रस्वो नुट् च । उ० ४ । २०८ । आप्लु-व्याप्तौ—असुन् । अप उदकनाम्—निघ० १ । १२ । जलम् (आनुष्टुभम्) अनु + षुभ पूजायाम्—क्लिप्, ततोऽण् । स्तोभतिरर्चतिकर्मा-निघ० ३ । १४ निरन्तर-स्तुतियुक्तम् (एकविंशम्) एकविंशतिर्यस्मिन् स एकविंशः । बहुब्रीहौ संख्ये-येडजबहुगणात् । पा० ५ । ४ । ७३ । पञ्चसूक्ष्मस्थूलज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियान्तःकरणैः सम्बद्धम् ॥

२१—(वाकः) सर्वधातुभ्योऽसुन् । उ० ४ । १८६ । वच व्यक्तायां वाचि—असुन्, दीर्घत्वं अथवा वच्—घञ् कुत्वं च । वचःसामर्थ्यम् । (वाक्यम्) वच-

और नाराशंसी [वीर नरों की गुण कथाओं—क० १० टिप्पणी १ देखो], (अनुशासनानाम्) अनुशासनों [शिक्षा वा उपदेशों] की (उपनिषदः इति) उपनिषदों [ब्रह्म विद्याओं, अर्थात्]—(वृधत्) वृधत् [बढ़ती वाला परिपूर्ण ब्रह्म है], (करत्) करत् [सृष्टिकर्ता ब्रह्म है], (गुहत्) गुहत् [छिपा हुआ, अन्तर्यामी ब्रह्म है], (महत्) महत् [पूजनीय ब्रह्म है], (तत्) तत् [फैला हुआ ब्रह्म है—पांच महाव्याहृति, क० १०], (शम्) शम् [शान्ति वाला वा शान्तिकारक ब्रह्म है महाव्याहृति—क० ११] और (ओम्) ओम् [सर्वरक्षक ब्रह्म है महाव्याहृति—क० ५] (इति व्याहृतीः) [इन सात] व्याहृतियों, (स्वरशम्यनानातन्त्रीः) स्वर से शान्त वा स्वस्थ करने वाली अनेक तन्त्रियों [वीणा आदि की विद्याओं], (स्वरनृत्यगीतवादित्राणि) स्वर सहित नाचने, गाने, बजाने [मृदङ्ग आदि बाजों] की विद्याओं को (अन्वभवत्) उस [ब्रह्मा] ने बनाया । (चैत्ररथम्) विचित्र रमणीय गुण वाले (दैवतम्) दिव्य पदार्थों के समूह, (वैद्युतम्) विविध प्रकाशवाली (ज्योतिः) जोति [सूर्य आदि], (वार्हतम्) वेद वाणियों से जताये गये (छन्दः) आनन्ददायक कर्म, (तृणवत् त्रयस्त्रिंशौ) तीन कालों में स्तुति किये गये तैंतीस देवता वाले [कथं गायत्री..... अथर्व० ८ । ६ । २०] (स्तोमौ) दो स्तुति योग्य व्यवहार [सृष्टि और प्रलय], (ध्रुवाम् उर्ध्वां दिशम्) नीचे और ऊपर की दिशा, (हेमन्तशिशिरौ ऋतू) हेमन्त और शिशिर दोनों ऋतुओं, (अध्यात्मम्) आत्मा के जताने वाले यन्त्र [अर्थात्] (श्रोत्रम्) कान, (शब्दश्रवणम् इति) शब्द और सुनने के सामर्थ्य, (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों [ज्ञान और कर्म के साधनों] को (अन्वभवत्) उस [ब्रह्मा] ने बनाया ॥ २१ ॥

एयत्, कुत्वम् । पदानां योजना (गाथा) उषिकुषिगा० । उ० २ । ४ । गौ गाने—थन् । गानयोग्यवेदमन्त्रादिः (नाराशंसी) नर + शंसु स्तुतौ-अण्, दीर्घश्च, नाराशंस—स्वार्थे अण् डीप् । येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रः—निरु० ६ । ६ । वीरनराणां कीर्तनानि (अनुशासनानाम्) शिक्षाणाम् । उपदेशानाम् (उपनिषदः) उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्म यया । उप + नि + षट् लृ विशरणगत्यवसादनेषु—क्विप् । ब्रह्मविद्याः (शम्य=शम्याः) शमो दर्शने, शम आलोचने, शमु शान्तिकरणे—यत् । स्वस्थकारिकाः (नानातन्त्रीः) अवितृस्तृतन्त्रिभ्य ईः । उ० ३ । १५८ । नाना + तन्त्रि कुटुम्बधारणे—ईप्रत्ययः । बहुविधवीणादि-विद्याः (वादित्राणि) भूवादिगृभ्यो णिन्नन् । उ० ४ । १७१ । वद वाचि-णिच्

भावार्थ—परमात्मा के सामर्थ्य से शब्द तथा बोलने और सुनने आदि के सामर्थ्य और साधन संसार में उत्पन्न हुये हैं ॥ २१ ॥

टिप्पणी १—तीस देवता यह हैं—= वसु अर्थात् अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौः वा प्रकाश, चन्द्रमा और नक्षत्र,—११ रुद्र अर्थात् प्राण अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय—यह दस प्राण और ग्यारहवां जीवात्मा,—१२ आदित्य अर्थात् महीने, १ इन्द्र अर्थात् विजुली, १ प्रजापति अर्थात् यज्ञ—महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य—भूमिका, वेद विषय पृष्ठ ६६-६८ ॥

कण्डिका २२ ॥

सैषैकाक्षरऋग् ब्रह्मणस्तपसाऽग्ने प्रादुर्वभूव ब्रह्म वेदस्यार्थवर्णं शुक्रमत एव मन्त्राः प्रादुर्वभूवुः स तु खलु मन्त्राणामतपसाशुश्रूपाऽनध्यायाध्ययनेन यदूनञ्च विरिष्टञ्च यातयामञ्च करोति तदर्थवर्णां तेजसा प्रत्याप्याययेन्मन्त्राश्च मामभिमुखीभवेयुर्गर्भा इव मातरमभिजिघांसुः पुरस्तादोङ्कारं प्रयुङ्क्त एतयैव तद्ब्रुवा प्रत्याप्याययेदेषैव यज्ञस्य पुरस्ताद्युज्यत एषा पश्चात् सर्वत एतया यज्ञस्तायते ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । या पुरस्ताद्युज्यत ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्निति ।

तदेतदक्षरं ब्राह्मणो यं काममिच्छेत् भिरात्रोपोषितः प्राङ्मुखो वाग्यतो वर्हिष्युपविश्य सहस्रकृत्वा आवर्त्तयेत् सिद्ध्यन्त्यस्यार्थाः सर्वकर्माणि चेति ब्राह्मणम् ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ ओम् को सहस्र बार जपने की महिमा ॥

(सा एषा एकाक्षरा ऋग्) वह यह एक अक्षर [अविनाशी ओम्] वाली ऋचा [स्तुति योग्य वाणी] (ब्रह्मणः) ब्रह्मा [परमात्मा—क० १६] के

—णित्रन् । मृदङ्गादीनां ताडनविद्याः (चैत्ररथम्) चित्ररथ—अण् । विचित्र-रमणीयगुणयुक्तम् (दैवतम्) देव एव देवता, समूहे—अण् । देवानां दिव्य-पदार्थानां समूहम् (वैद्युतम्) विद्युत्—अण् । विविधद्युतियुक्तम् (वार्हतम्) वृहती—अण् । वृहतीभिर्वेदवाणीभिर्विहितम् (तृणवत्त्रयस्त्रिंशो) नूयत इति नवत् । वर्तमाने पृषद् वृहन् मह० । उ० २ । ८४ । णु स्तुतौ—अति । तयस्त्रिंशत् यस्मिन् स त्रयस्त्रिंशः । बहुब्रीहौ संख्येये डजबहुगणात् । पा० ५ । ४ । ७३ । बहुब्रीहौ डच् । त्रिषु कालेषु नवद्भिः स्तूयमानैवसुरुद्रादित्येन्द्रप्रजाप-तिभिः त्रयस्त्रिंशद्वैर्युक्तम् (स्तोमौ) स्तुत्यव्यवहारौ सृष्टिप्रलयौ ॥

[ब्रह्म] को (विदुः) जानते हैं, (ते अमी) वे यही [पुरुष] (सम्) शोभा के साथ (आसते) रहते हैं ॥

कण्डिका २३ ॥

वसो धाराणामैन्द्रनगरन्तदसुराः पर्यवारयन्त, ते देवा भीता आसन् क इमानसुरानपहनिष्यतीति, त ओङ्कारं ब्राह्मणः पुत्रं ज्येष्ठं ददृशुस्ते तमब्रुवन् भवता मुखेनमानसुरान् जयेमेति । स होवाच किं मे प्रतीवाहो भविष्यतीति वरं वृणीष्वेति वृणा इति सा वरमवृणीत न मामनीरयित्वा ब्राह्मणाः ब्रह्म वदेयुर्यदि वदेयुरब्रह्म तत् स्यादिति तथेति ते देवा देवयजनस्योत्तरार्द्धेऽसुरैः संयता आसंस्तानोङ्कारेणाग्नीधीयाद्देवा असुरान् पराभावयन्त, तद्यत्पराभावयन्त तस्मादोङ्कारः पूर्वं उच्यते । यो ह वा एतमोङ्कारं न वेदावशः स्यादित्यथ य एवं वेद ब्रह्म वशः स्यादिति तस्मादोङ्कार ऋग्यजुः भवति यजुषि यजुः साम्नि साम सूत्रे सूत्रं ब्राह्मणे ब्राह्मणं श्लोके श्लोकः प्रणवे प्रणव इति ब्राह्मणम् ॥ २३ ॥

कण्डिका २३ ॥ आख्यायिका—ओम् द्वारा असुरों से देवताओं की रक्षा ।

(वसोः) श्रेष्ठ गुण के (धाराणाम्) प्रवाहों का (ऐन्द्रनगरम्) इन्द्र का नगर [जीवात्मा का घर अर्थात् मनुष्य शरीर] है । (तत् असुराः) उसको असुरों [कुविचारों] ने (पर्यवारयन्त) घेर लिया । (ते देवाः भीताः आसन्) वे देवता [इन्द्रियां वा विद्वान्] डरने लगे—(कः इमान् असुरान् अपहनिष्यति इति) कौन इन असुरों को मार डालेगा । (ते ओङ्कारं ब्राह्मणः ज्येष्ठं पुत्रं ददृशुः) उन्होंने ओङ्कार, ब्रह्मा के जेठे पुत्र [पुत्र अर्थात् नरक से बचानेवाले सन्तान वा मन्त्र] को देखा । (ते तम् अब्रुवन्) वे उससे बोले—(भवता मुखेन इमान् असुरान् जयेम इति) हम आप मुखिया के द्वारा इन असुरों को जीतें । (स ह उवाच) वह बोला—(किं मे प्रतीवाहः भविष्यति इति) मेरे लिये क्या प्रतिफल होगा । [वे बोले]--(वरं वृणीष्व इति) तू वर [अभीष्ट फल] मांग । [वह बोला]--(वृणौ इति) मैं मांगूँ ? (सः वरम् अवृणीत) उसने वर मांगा—

२३—(वसोः) श्रेष्ठगुणस्य (धाराणाम्) प्रवाहानाम् (ऐन्द्रनगरम्) इन्द्र—अण् । इन्द्रस्य जीवस्येदं नगरम् । इन्द्रियायतनं शरीरम् (पुत्रम्) क० २ । पुतो नरकात् त्रायकं सन्तानं वेदमन्त्रं वा (ज्येष्ठम्) सर्वश्रेष्ठम् । सर्ववृद्धम् (भवता) भगवता (मुखेन) डित्खनेमुद् चोदात्तः । उ० ५ । २० । खनेरलचौ,

(माम् अनीरयित्वा ब्राह्मणाः ब्रह्म न वदेयुः) मुझ को न बोल कर ब्राह्मण [ब्रह्म-
जानी] वेद को न बोलें, (यदि वदेयुः तत् अब्रह्म स्यात्) जो वे [मुझे न बोल-
कर] बोलें, वह वेद विरुद्ध होवे । [वे बोले]—(तथा इति) वैसा ही हो ।
(ते देवाः देवयजनस्य उत्तरार्द्धे असुरैः संयताः आसन्) वे देवता देवयज्ञ के
पिछले आधे भाग में असुरों से घेरे गये । (तान् असुरान् ओङ्कारेण आग्नी-
धीयात् देवाः पराभावयन्त) उन असुरों को ओङ्कार द्वारा अग्नि के प्रकाश
करने वाले याजक के स्थान [यज्ञ मंडप] से देवताओं ने हरा दिया । (तत् यत्
पराभावयन्त, तस्मात् ओङ्कारः पूर्वः उच्यते) सो जो उन्होंने ने हराया, उसी
से ओङ्कार पहिले बोला जाता है । (यः ह वै एतम् ओङ्कारं न वेद अवशः
स्यात् इति) जो मनुष्य निश्चय करके इस ओङ्कार को न जाने, वह अप्रिय
होवे । (अथ यः एवं ब्रह्म वेद, वशः स्यात् इति) और जो व्यापक ब्रह्म को
जाने, वह प्रिय होवे । (तस्मात् ओङ्कारः ऋग्नि ऋग्, यजुषि यजुः, साम्नि
साम, सूत्रे सूत्रं, ब्राह्मणे ब्राह्मणं, श्लोके श्लोकः, प्रणवे प्रणवः भवति इति ब्राह्म-
णम्) इस लिये ओङ्कार ऋग्वेद [पदार्थों की स्तुति विद्या] में ऋग्वेद,
यजुर्वेद [सत्कर्मों की विद्या] में यजुर्वेद, सामवेद [मोक्षविद्या] में सामवेद,
सूत्र [अथर्ववेद वा शास्त्र तत्त्व] में सूत्र, ब्राह्मण [ब्रह्म विद्या] में ब्राह्मण,
श्लोक [यश] में श्लोक, प्रणव [स्तुति योग्य ओङ्कार] में प्रणव होता है,
यह ब्राह्मण [ब्रह्म ज्ञान] है ॥ २३ ॥

तयोर्दित्वं धातोर्मुट् च । मुखमिव मुख्येन प्रधानेन (मे) मह्यम् (प्रतीवाहः)
पुरस्कारः (वरम्) अभीष्टफलम् (वृणीष्व) याचस्व (अनीरयित्वा) ईर
गतौ—क्त्वा । अनुदीर्य । अनुच्चार्य (अब्रह्म) ब्राह्मणा वेदेन विरुद्धम् (संयताः)
यम नियमने—क्त । निरुद्धाः (आग्नीधीयात्) अग्निमिन्धे दीपयति अग्नीत् ।
अग्नि + इन्धी दीप्तौ—क्विप् । तस्य शरणम् । अग्नीधः शरणे रण् भं च । वा०
पा० ४ । ३ । १२० । अग्नीध्—रण्, ततः स्वार्थे लृप्रत्ययः । अग्नीधः अग्नि-
प्रकाशकस्य याजकस्य शरणाद् गृहात् । यज्ञमंडपात् (पराभावयन्त) पराज-
यन्त (अवशः) वश् कान्तौ—अच् । अकमनीयः । अप्रियः (वशः) कमनीयः ।
प्रियः (ऋग्नि) चस्य गः । ऋचि । ऋग्वेदे (सूत्रे) शास्त्रतत्त्वे (ब्राह्मणे)
ब्रह्मज्ञाने (श्लोके) यशसि (प्रणवे) प्र + णु स्तुतौ—अप् । प्रकर्षेण स्तूयमाने ।
ओङ्कारे ॥

भावार्थ—ब्रह्मज्ञानी लोग वेदमन्त्रों में ओम् के जप से पापों से छूट कर आत्मोन्नति करते हैं ॥ २३ ॥

कण्डिका २४ ॥

ओङ्कारं पृच्छामः को धातुः किं प्रातिपदिकं किं नामाख्यातं किं लिङ्गं किं वचनं का विभक्तिः कः प्रत्ययः कः स्वर उपसर्गो निपातः किं वै व्याकरणं को विकारः को विकारी कतिमात्रः कतिवर्णः कत्यक्षरः कतिपदः कः संयोगः किं स्थानानुप्रदानकरणं शिक्षकाः किमुच्चारयन्ति किं छन्दः को वर्ण इति पूर्वे प्रश्ना, अथोत्तरे मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणमृग्यजुः साम कस्माद् ब्रह्मवादिन ओङ्कारमादितः कुर्वन्ति किं देवतं किं ज्योतिषं किं निरुक्तं किं स्थानं का प्रकृतिः किमध्यात्ममिति षट्त्रिंशत् प्रश्नाः पूर्वोत्तराणां त्रयो वर्गा द्वादशका एतैरोङ्कारं व्याख्यास्यामः ॥२४॥

कण्डिका २४ ॥ ओङ्कार के विषय में ३६ प्रश्न ॥

(ओङ्कारं पृच्छामः) ओङ्कार [के विषय] को हम पूछते हैं—(कः धातुः) कौन धातु है । १ । (किं प्रातिपदिकम्) क्या प्रातिपदिक है । २ । (किं नाम आख्यातम्) क्या नाम [संज्ञा] और आख्यात् [क्रिया पद है । ३, ४ । (किं लिङ्गम्) क्या लिङ्ग है । ५ । (किं वचनम्) क्या वचन है । ६ । (का विभक्तिः) क्या विभक्ति है । ७ । (कः प्रत्ययः) कौन प्रत्यय है । ८ । (कः स्वरः उपसर्गः निपातः) कौन स्वर, उपसर्ग, और निपात है । ९, १०, ११ । (किं वै व्याकरणम्) क्या ही व्याकरण है । १२ । (कः विकारः) कौन विकार है । १३ । (कः विकारी) क्या विकार वाला है । १४ । (कतिमात्रः) कितनी मात्रा वाला है । १५ । (कतिवर्णः) कितने वर्ण वाला है । १६ । (कत्यक्षरः) कितने अक्षर वाला है । १७ । (कतिपदः) कितने पद वा पाद वाला है । १८ । (कः संयोगः) कौन संयोग है । १९ । किं स्थानानुप्रदान—करणम्) कौन सा स्थान का अनुप्रदान और करण है २०, २१ । (शिक्षकाः किमुच्चारयन्ति) शिक्षक लोग क्या बोलते हैं । २२ । (किं छन्दः) क्या छन्द हैं । २३ । (कः वर्णः) कौन वर्ण [रङ्ग] है । २४ । (इति पूर्वे प्रश्नाः) यह पहिले प्रश्न हैं । (अथ उत्तरे) अब पिछले [प्रश्न] हैं—(मन्त्रः) मन्त्र [गूढ़ विचार] में । २५ ।

२४—(मन्त्रः) सप्तम्यर्थे प्रथमा । मन्त्रे (कल्पः) कल्पे । संस्कार-विधाने (ब्राह्मणम्) ब्रह्मज्ञाने (ऋग्नि) ऋचि । ऋग्वेदे (यजुः) यजुषि । यजुर्वेदे (साम) साम्नि । सामवेदे ॥

कण्डिका २५ ॥ आख्यायिका—ओङ्कार के विषय में इन्द्र के प्रश्न और प्रजापति के उत्तर ॥

(इन्द्रः) इन्द्र [जीवात्मा] ने (प्रजापतिम्) प्रजापति [इन्द्रिय आदि के पालनेवाले जीवात्मा अर्थात् अपने] से (अपृच्छन्) पूछा—(भगवन्) हे भगवन् ! [ऐश्वर्य वाले] (अभिसूय) [विद्या में] सत्र ओर से स्नान करके (पृच्छामि इति) मैं पूछता हूँ । [प्रजापति ने कहा]—(वत्स पृच्छ इति) बच्चा ! पूछ । (अब्रवीत्) वह [इन्द्र] बोला—(किम् अयम् ओङ्कारः) यह ओङ्कार क्या है—१, (कस्य पुत्रः) यह किस का पुत्र [नरक से बचाने वाला सन्तान] है—२, (किञ्च एतत् छन्दः) और यह क्या छन्द है [आनन्ददायक कर्म वा गायत्री आदि छन्द]—३, (किं च एतत् वर्णः) और यह क्या रङ्ग है—४, (किं च एतत् ब्रह्म ब्रह्मा सम्पद्यते) और कौन से इस ब्रह्म को ब्रह्मा [सब वेदों का जानने वाला] प्राप्त होता है, (तस्मात् वै तत् भद्रम् ओङ्कारं पूर्वम् आलेभे) और उस से ही वह [ब्रह्मा] उस भंगलकारी ओङ्कार को पहिले पाता है—५ ।

[यहां शंका होती है]—(स्वरितोदात्तः एकाक्षरः ओंकारः ऋग्वेदे) स्वरित और उदात्त स्वर वाला, एक अक्षर वाला, ओंकार ऋग्वेद में है । (त्रैस्वर्योदात्तः एकाक्षरः ओंकारः यजुर्वेदे) तीनों स्वर [ह्रस्व दीर्घ म्लुत] के सहित उदात्त एक अक्षर वाला ओंकार यजुर्वेद में है । (दीर्घप्लुतोदात्तः एकाक्षरः ओंकारः सामवेदे) दीर्घप्लुत के सहित उदात्त एक अक्षर वाला ओंकार सामवेद में है । (ह्रस्वोदात्तः एकाक्षरः ओंकारः अथर्ववेदे) ह्रस्व स्वर के साथ उदात्त एक अक्षर वाला ओंकार अथर्ववेद में है । (उदात्तोदात्तद्विपदः अ उ इति अर्धचतस्रः मात्राः, मकारे व्यञ्जनम् इति आहुः) उदात्त सहित उदात्त दो पद वाला अ उ यह साढ़े चार मात्राएँ हैं और मकार में व्यञ्जन है, ऐसा कहते हैं ।

२५—(इन्द्रः) जीवात्मा(प्रजापतिम्) प्रजानामिन्द्रियादीनां पालकमात्मानम् (अभिसूय) अभि + षूञ् अभिषवे—ह्यप् । विद्यायामभितः स्नात्वा । स्नातको भूत्वा (त्रैस्वर्योदात्तः) त्रिस्वर—ष्यञ् । त्रिस्वरेण ह्रस्वदीर्घप्लुतेनोदात्तः । (अर्धचतस्रः) अर्धेन सह चतस्रः ; (ध्यायते) चिन्तयते (गच्छेत्) प्राप्नुयात् (ब्रह्मम्) ब्रह्मन् + ष्यञ् । ब्रह्मसम्बन्धि । (अर्धचतुर्थी) अर्धेन सह चतुर्थी (व्यक्तीभूता) प्रकाशमाना सती (शुद्धस्फटिकसन्निभा) उज्ज्वलस्फटिक-

[शंका समाधान] (या प्रथमा मात्रा सा ब्रह्मदेवत्या वर्णेन रक्ता) जो पहिली मात्रा है वह ब्रह्म देवता वाली रङ्ग से लाल है, (यः तां नित्यं ध्यायते सः ब्राह्म्यं पदं गच्छेत्) जो पुरुष नित्य उस [मात्रा] का ध्यान करे, वह ब्राह्म्य पद, [ब्रह्म के स्थान] को प्राप्त हो । (या द्वितीया मात्रा सा विष्णुदेवत्या वर्णेन कृष्णा) जो दूसरी स्वर मात्रा है वह विष्णु देवता वाली रङ्ग से काली है, (यः तां नित्यं ध्यायते सः वैष्णवं पदं गच्छेत्) जो पुरुष उस का नित्य ध्यान करे वह वैष्णव पद [विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा के स्थान] को पावे । (या तृतीया मात्रा सा ऐशानदेवत्या वर्णेन कपिला) जो तीसरी स्वर मात्रा है वह ऐशान देवता वाली, रङ्ग से पाली है, (यः तां नित्यं ध्यायते सः ऐशानं पदं गच्छेत्) जो उस मात्रा का नित्य ध्यान करे, वह ऐशान पद [ईशान, सब के ईश्वर परमात्मा के स्थान] को पावे । (या अर्धचतुर्थी मात्रा, सा सर्वदेवत्या व्यक्तीभूता खं विचरति वर्णेन शुद्धस्फटिकसन्निभा) जो आधी के साथ चौथी [डेढ़] स्वर मात्रा है वह सब देवताओं वाली प्रकाशमान होकर आकाश में विचरती है, रङ्ग से उज्ज्वल विल्लौरमणि के समान है, (यः तां नित्यं ध्यायते सः अनामकं पदं गच्छेत्) जो पुरुष उस [स्वर मात्रा] का नित्य ध्यान करे, वह अनामक पद [नामशून्य परमात्मा के स्थान] को पावे । (ओंकारस्य च उत्पत्तिः यः विप्रः न जानाति तत् पुनः उपनयनम्) और ओंकार की उत्पत्ति को जो ब्राह्मण नहीं जानता उसका फिर उपनयन संस्कार होवे [अर्थात् वेद की विद्या फिर आरम्भ से पढ़े] ।

(तस्मात् ब्राह्मणवचनम् आदत्तव्यम्) इस लिये ब्राह्मण [ब्रह्म ज्ञानी] का वचन आदर योग्य है—[पांच प्रश्नों के यह उत्तर हैं] (यथा) जैसे [यह बात] (लातव्यः) ग्रहण योग्य (गोत्रः) पृथिवी का रक्षक १, (ब्रह्मणः पुत्रः) ब्रह्मा का पुत्र [करिडका १६] २, (गायत्रं छन्दः) गायत्री [दैवी गायत्री]

मणिसदृशा (अनामकम्) नामशून्यम् (उत्पत्तिः) द्वितीयार्थे प्रथमा । उत्पत्तिम् (उपनयनम्) विद्यारम्भसंस्कारः (ब्राह्मणवचनम्) ब्रह्मवादिनः कथनम् (लातव्यः) ला आदाने—तवप्रत् प्राह्यः (गोत्रः) गा + त्रेड् पालने—क । भूमिरक्षकः (पुंसः) पुंस अभिवर्धने—अच् । अभिवर्धकः (वत्सः) वृत्तवदिवचिवसि० । उ० ३ । ६२ । वस निवासे—स । निवासयिता (रुद्रः) रु गतौ—किप्, तुक् + रा दाने—क । ज्ञानदाता (देवता) प्रकाश्यविषयः । (ओंकारः) ओंकारस्य (वेदानाम्) वेदानां मध्ये ॥

छन्दः ३, (शुकुः वर्णः) शुकु वर्ण [आदित्य वर्ण] ४, और (पुंसः) बढाने वाला, (वत्सः) बसाने वाला, (रुद्रः) ज्ञान देने वाला, (वेदानां देवता) सब वेदों का देवता [प्रकाश्य विषय (ओंकारः) ओंकार है ५, ॥ २५ ॥

भावार्थ—मनुष्य को चाहिये कि ज्ञान पूर्वक ओंकार का विविध प्रकार ध्यान करके आत्म शक्ति बढाकर सदा उन्नति करे ॥ २५ ॥

कण्डिका २६ ॥

को धातुरित्यापूर्धातुरवतिमप्येके रूपसामान्यादर्थानामान्यन्नेदीयस्तस्मादापेरोङ्कारः सर्वमाप्नोतीत्यर्थः कृदन्तमर्थवत् प्रातिपदिकमदर्शनं प्रत्ययस्य नाम सम्पद्यते निपातेषु चैनं वैयाकरणा उदात्तं समामनन्ति तदव्ययीभूतमन्वर्थवाची शब्दो न वयेति कदाचनेति ।

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्येति तदव्ययम् ॥ को विकारी च्यवते प्रसारणमाप्नोति रावावपकारौ विकार्यवादिन ओङ्कारो विक्रियते द्वितीयो मकार एवं द्विवर्ण एकाक्षर आमित्याङ्कारो निवृत्तः ॥ २६ ॥

कण्डिका २६ ॥ कण्डिका २४ के ओम् विषयक प्रश्नों के उत्तर ॥

(कः धातुः इति) कौन धातु है—[इसका उत्तर] (आपृः धातुः अक्त्विम् अपि एके) आपृ [व्यापना] धातु है, अवति [रक्षा करना] को भी कोई कोई [कहते हैं] । (रूपसामान्यात् अर्थसामान्यं नेदीयः तस्मात् आपेः ओंकारः सर्वम् आप्नोति इति अर्थः) रूप की समानता [धातु आदि की आकृति] की अपेक्षा अर्थ की समानता अधिक निकट होती है, इस लिये आपृ [व्यापना] धातु से ओंकार सब में व्यापता है—यह अर्थ है १ । (कृदन्तम् अर्थवत् प्रातिपदिकम्) कृदन्त अर्थवान् शब्द प्रातिपदिक होता है, [अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् । पा० । १ । २ । ४५ । अर्थवान् शब्द धातु और प्रत्यय को छोड़ कर प्रातिपदिक होता है] २ । (अदर्शनं प्रत्ययस्य नाम सम्पद्यते) दर्शन का अभाव प्रत्यय के नाम को पाता है ३ । [प्रत्ययलोपे प्रत्ययत्वक्षणम् । पा० । १ । १ । ६२ । प्रत्यय के लोप करने पर भी प्रत्यय से होने

२६—(नेदीयः) अन्तिक-ईयसुन् । अन्तिकवाढयोर्नेदसाधौ । पा० ५ । ३ । ६३ । नेदादेशः । समीपतरम् (सम्पद्यते) प्राप्नोति (वैयाकरणाः) व्याकरण—अण् । न ष्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच् । पा० ७ । ३ । ३ । यकारत्

वाला कार्य होता है], (निपातेषु च एनं वैयाकरणः उदात्तं समामनन्ति) और निपातों में इस [ओंकार] को व्याकरण जानने वाले लोग उदात्त मानते हैं । (तत् अव्ययीभूतम् अव्यर्थवाची शब्दः कदाचन न व्येति इति) सो अव्यय होता हुआ पद, अनुकूल अर्थ बताने वाला शब्द कभी भी नहीं विकार पाता है । (सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् ॥) तीनों लिङ्गों में और सब विभक्तियों में जो सदृश हैं और जो सब वचनों में नहीं विकार पाता है, वह अव्यय [विकारशून्य निपात है—स्वरादि निपातमव्ययम् । पा० १ । १ । ३७ । स्वरादि निपात अव्यय है] (कः विकारी) कौन विकार वाला है—[इसका उत्तर] (आप्रोतिः प्रसारणं च्यवते) आप् धातु [व्यापना] सम्प्रसारण को पाता है । [इग्णः सम्प्रसारणम् । पा० १ । १ । ४५ । यण् के स्थान में इक् सम्प्रसारण कहाता है], (आत्रौ अपकारौ विकारौ) आकार और वकार तथा अकार और पकार दोनों विकार योग्य हैं । (आदितः ओंकारः विक्रियते द्वितीयः मकारः) आदि में ओंकाररूपान्तर वाला होता है और मकार दूसरा वर्ण है । (एवं द्विवर्णः एकाक्षरः ओम् इति ओंकारः निर्वृतः) इस प्रकार दो वर्ण [ओ + म्] वाला, एक अक्षर वाला ओम् अर्थात् ओंकार सिद्ध होता है ६, १०, ११ ॥ २६ ॥

भावार्थ—इस कण्डिका में यह विचारणीय है—(१) कौन धातु—उत्तर आप् बा आप्ल [व्यापना] और अब [रक्षा आदि करना] । (२) प्रातिपदिक क्या है—उत्तर, कृदन्त अर्थवान् शब्द प्रातिपदिक है । (३) स्वर क्या है—उत्तर, उदात्त । (४) निपात क्या है—उत्तर, अव्यय होकर निपात होता है । (५) विकारी क्या है—उत्तर, आप् धातु अर्थात् आप् और अब् दोनों धातु को सम्प्रसारण होता है, अर्थात् आप् के पकार को वकार, [वकार = वकार, बकार को वकार, और वकार को उकार हुआ, इसी प्रकार अब् के वकार को सम्प्रसारण उकार फिर आप् धातु के आ और उ को, और अब के अ उ को गुण ओ, मकार प्रत्यय होकर ओम् पद सिद्ध होता है । उणादि कोष में तो ओम् की सिद्धि इस प्रकार है—अवतेष्टिलोपश्च । उ० १ । १ । १४२ । अब रक्षणे—मन्, अन् भाग का लोप और अब को ऊठ् होकर और ऊठ् को गुण होकर ओम् शब्द सिद्ध हुआ । (६) कितने वर्ण वाला और (७) कितने अक्षर वाला

पूर्वमैच् । व्याकरणवेत्तारः (समामनन्ति) स्ना अभ्यासे । मन्यन्ते । (निर्वृतः) धृतु वर्तने-क्त । निष्पन्नः । साधितः ॥

है—इनके उत्तर, ओम् दो वर्ण वाला एक अक्षर वाला है । लिङ्ग, वचन, विभक्ति और निपात इन चार प्रश्नों के उत्तर (सदृशं त्रिषु.....) इस कारिका में हैं । ८, ९, १०, ११ ।

टिप्पणी—कण्डिका २४ के सब ३६ प्रश्नों के उत्तर कण्डिका २६ और २७ में हैं । हमारी समझ में ठीक ठीक नहीं बैठे, पाठक जन विचार लें ।

कण्डिका २७ ॥

कतिमात्र इत्यादेस्तिस्त्रो मात्रा अभ्यादाने हि स्रवते मकारश्चतुर्थीं किं स्थानमित्युभावांघटौ स्थान नादानुप्रदानकरणौ च द्वयस्थानं सन्ध्यक्षरमवर्णालेशः कण्ठ्यो यथोक्तशेषः पूर्वो विवृतकरणस्थितश्च द्वितीयस्पृष्टकरणस्थितश्च न सयोगो विधून आख्यातोपसर्गानुदात्तस्वरितलिङ्गविभक्तिवचनानि च संस्थानाध्यायिन आचार्याः पूर्वं बभूवुः श्रवणादेव प्रतिपद्यन्ते नकारणं पृच्छन्त्यथापरपक्षीयाणां कविः पञ्चालचण्डः परिपृच्छको बभूवां बु पृथगुद्गीथदाषान् भयन्तो ब्रुवन्त्विति तद्राप्युपलक्ष्येद्वर्णाक्षरपदांशो विभक्तयामृषानषेवितामिति वाचं स्तुवन्ति तस्मात् कारणं ब्रूमो वर्णानामयमिदं भविष्यतीति षडङ्गविदस्तत्तथाऽधीमहे । किञ्छन्द इति गायत्रं हि छन्दो गायत्री वै देवानामेकाक्षरा श्वेतवर्णा च व्याख्याता द्वौ द्वादशकौ वर्णितहू वै व्याकरणं धात्वर्थवचनं शैक्ष्यं छन्दो-वचनं चाथोत्तरौ द्वौ द्वादशकौ वर्णौ वेदरहसिकी व्याख्याता मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणमृग्यजुःसामाथर्वण्येषा व्याहृतिश्चतुर्णां वेदानामानुपूर्वेणोभूर्भुवस्वरिति व्याहृतयः ॥ २७ ॥

कण्डिका २७ ॥ कण्डिका २४ के ओम् विषयक शेष प्रश्नों के उत्तर ॥

(कतिमात्रः इति) वह [ओम्] कितनी मात्रा वाला है—[उत्तर] (आदेः तिस्रः मात्राः अभ्यादाने हि स्रवते मकारः चतुर्थीम्) आरम्भ से तीन मात्राओं को मन्त्र के आरम्भ में ही वह [ओम्] प्राप्त होता है [प्लुत होजाता है] और मकार चौथी मात्रा को [ओमभ्यादाने । पा० ८ । २ । ७८ । ओम् शब्द मन्त्र के आरम्भ में स्रुत होता है] १२ । (किं स्थानम् इति) क्या स्थान

२७—(विद्युते) विद् ज्ञाने कर्मणि लट्, ऊकार आर्षः । विद्यते । ज्ञायते (संस्थानाध्यायिनः) संस्थान + आ + ध्यै + चिन्तने-णिनि । संस्थाचिन्तनशीलाः (आचार्याः) आङ् + चर गतौ-ण्यत् । वेदव्याख्यातारः (पञ्चा लचण्डः) तमि-

है—[उत्तर], (उभौ ओष्ठौ स्थानं नादानुप्रदानकरणौ च) [उकार और मकार के] दोनों ओंठ स्थान हैं और दोनों नाद बढ़ाने वाले प्रयत्न हैं, (द्वयस्थानं सन्ध्यक्षरम्) दो स्थान वाला सन्धि-अक्षर होता है, (अवर्णलेशः कण्ठ्यः) अकार वर्णमात्र कण्ठ स्थान वाला है, (यथोक्तशेषः पूर्वः विवृतकरणस्थितः च) और ऊपर कहे हुये [उकार मकार] का शेष पहिला वर्ण [अकार] विवृति प्रयत्न में ऊहरा हुआ है, (द्वितीयः स्पृष्टकरणस्थितः च) और दूसरा [मकार] स्पृष्ट प्रयत्न में ठहरा हुआ है । ६, १०, १३, १४, १५, [कौन संयोग है, इसका उत्तर] (संयोगः न विद्यते) संयोग नहीं जान पड़ता [हलोऽनन्तराः संयोगः । पा० १।१।७। मध्य में अच् बिना हल् संयोग हो] १६, [कौन आख्यात है, कौन उपसर्ग है, कौन स्वर है, कौन लिङ्ग है, कौन विभक्ति है, कौन वचन है—इन छह प्रश्नों के उत्तर] (संस्थानाध्यायिनः पूर्वं आचार्याः बभूवुः आख्यातोपसर्गानुदात्तस्वरितलिङ्गविभक्तिवचनानि च श्रवणात् एव प्रतिपद्यन्ते कारणं न पृच्छन्ति) व्यवस्था विचारने वाले पहिले आचार्य हुये थे, आख्यात, उपसर्ग, अनुदात्त, स्वरित, लिङ्ग, विभक्ति, और वचन को सुनने से ही वे जान लेते हैं और कारण को नहीं पूछते । १७-२३ [देखो कण्डिका २६]

(अथ अपरपक्षीयाणां कविः पञ्चालचण्डः परिपृच्छकः बभूवाम् = बभूव)
फिर दूसरे पक्षवालों का कवि पञ्चाल देशवासियों में तीव्र मनुष्य पूछने वाला हुआ—(उद्गीथदोषान् वा पृथक् भवन्तः ब्रुवन्तु इति) उद्गीथ [उत्तम रीति से वेद गाने] के दोषों को निश्चय करके अलग अलग आप [आचार्य] लोग बतावें, (तद् वा अपि वर्ण—अक्षर—पद—अंकशः विभक्त्याम् उपलक्षयेत्) और वह भी वर्ण वर्ण, अक्षर अक्षर, पद पद, और अंक अंक, करके विभक्ति में बतावे—[इसका उत्तर] (ऋषिनिषेवितां वाचम् स्तुवन्ति इति तस्मात् कारणं ब्रूमः) ऋषियों की निरन्तर सेवित वाणी को लोग सराहते हैं—इस लिये हम कारण बतलाते हैं । (वर्णानाम् अयम् इदं भविष्यति इति षडङ्ग—विदः तत् तथा अधीमहे) वर्णों में यह वर्ण यह रूप हो जायगा, यह षडङ्ग

विशिविडि० । उ० १। ११८ । पचि विस्तारे व्यक्तीकरणे च—कालन् । अमन्ताड्डः । उ० १। ११४ । चण दाने हिंसने च—डप्रत्ययः, यद्वा, चडि कोपे—घञ् । पञ्चालेषु देशविशेषवासिषु चण्डः कोपनः (परिपृच्छकः) प्रच्छ जिज्ञासायां एबुल् ।

[शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, यह वेद के छह अङ्ग] जानने वाले [मानते हैं], उसको वैसा ही हम पढ़ते हैं ।

(किं छन्दः इति) क्या छन्द है—[उत्तर] (गायत्रं हि छन्दः) गायत्री ही छन्द है । (देवानां गायत्री वै एकाक्षरा श्वेतवर्णा च व्याख्याता) देवताओं की गायत्री [पिङ्गल शास्त्र की दैवी गायत्री] एक अक्षरवाली और श्वेतवर्ण कही गई है ॥ २४ ॥

(द्वौ द्वादशकौ वर्गौ एतत् वै व्याकरणम् धात्वर्थवचनं शैद्यं छन्दोवचनं च) दो द्वादशक [बारह बारह के] वर्ग हैं, यह धातु और अर्थ का बताने वाला, छन्द बताने वाला शिक्षा योग्य व्याकरण है [अर्थात् चौबीस भाग में व्याकरण विषय है] । (अथ उत्तरो द्वौ द्वादशकौ वर्गौ वेदरहसिकी व्याख्याता) और पिछले दो बारह बारह के वर्ग [द्विवचन=एक वचन, अर्थात् पिछला एक द्वादशक] है, [इन में] वेदरहसिकी [वेदों की निर्जन स्थान में विचारने योग्य विद्या] बतलायी गई है । (मन्त्रः कल्पः ब्राह्मणम् ऋग् यजुः साम अथर्वणि एषा व्याहृतिः) मन्त्र [गूढ़ विचार] में, कल्प में, ब्राह्मण ग्रन्थ में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद में यह [ओम्] व्याहृति है, १-८ । (चतुर्णां वेदानाम् आनुपूर्वेण ओम् भूः भुवः स्वः इति व्याहृतयः) चारों वेदों की क्रम से ओम्, भूः, भुवः, स्वः, व्याहृतियां हैं, ९—१२ [मिलान करो कण्डिका ६ तथा १७—२१] ॥ २७ ॥

भावार्थ—मनुष्य व्याकरण आदि से ओम् शब्द के अर्थों को एकान्त में विचार कर विघ्नों को हटाकर आनन्द भोगे ॥ २७ ॥

टिप्पणी—कण्डिका २४ के सब ३६ प्रश्नों के उत्तर कण्डिका २६ और २७ में हैं । हमारी समझ में ठीक ठीक नहीं बैठे, पाठक जन विचार लें ॥

कण्डिका २८ ॥

असमीक्षप्रवह्नितानि भ्रूयन्ते द्वापरादावृषीणामेकदेशो दोषपतिरिह चिन्तामापेदे त्रिभिः सोमः पातव्यः समाप्तमिव भवति तस्माद्ग्यजुःसामान्य-पक्रान्तेजास्यासंस्तत्र महर्षयः परिदेवयाञ्चक्रिरे महच्छोकभयं प्राप्तास्मो न चैतत् सर्वैः समभिहितं ते वयं भगवन्तमेवोपधावाम सर्वेषामेव शर्म भवानीति

सर्वतः प्रश्नकर्ता (बु) उ + उ । निश्चयेन (वेदरहसिकी) वेदानां रहस्या निर्ज-
नदेशे विचारणीया विद्या (शैद्यम्) शिक्षा—प्यञ् । शिक्षणीयम् ॥

ते तथेत्युक्त्वा तूष्णीमनिष्ठन्नानुपसन्नेभ्य इत्युपोपसीदामीति नीचैर्बभूवुः । स एभ्य उपनीय प्रोवाच मामिकामेव व्याहृतिमादितः आदितः कृणुध्वमित्येवं मामका आधीयन्ते ।

नर्त्तं भृग्वङ्गिरोविद्भ्यः सोमः पातव्य ऋत्विजः पराभवन्ति यजमानो रजसापध्वस्यति श्रुतिश्चापध्वस्ता तिष्ठतीत्येवमेवोत्तरोत्तराद्योगात्तोकं तोकम्प्रशाध्वमित्येवं प्रतापो न पराभविष्यतीति तथाह तथाह भगवन्निति प्रतिपेदिर आप्याययंस्ते तथा वीतशोकभया बभूवुः । तस्माद् ब्रह्मवादिन ओंकारमादितः कुर्वन्ति ॥ २८ ॥

कण्डिका २८ ॥ ओम् को आदि में बोलने का वर्णन ॥

(असमीक्षप्रवह्नितानि श्रूयन्ते) विचारशून्य उड़ाऊ बालें सुनी जातें हैं—(द्वापरादौ ऋषीणाम् एकदेशः दोषपतिः इह चिन्ताम् आपेदे त्रिभिः सोमः पातव्यः समाप्तम् इव भवति) द्वापर के आरम्भ में ऋषियों के बीच एक देश का रहने वाला दोषपति (घुराइयों का स्वामी) इस बात में चिन्ता करने लगा—तीन [वेदविशेषों] के साथ सोमरस पीना चाहिये—पूरे किया हुआ सा कर्म होता है । (तस्मात् ऋग्यजुःसामानि अपक्रान्ततेजांसि आसन्) उस से [चौथे वेद के छुट जाने से] ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद बिना तेज वाले हो गये । (तत्र महर्षयः परिदेवयाश्चक्रिरे) उस पर महर्षि लोग विलाप करने लगे—(महत् शोकभयं प्राप्ताः स्मः) हम को बड़ा शोक और भय प्राप्त हुआ है । (न च एतत्, सर्वैः समभिहितम्) और यही नहीं, [किन्तु] सब ने मिलकर कहा—(ते वयम् भगवन्तम् एव उपधावाम) सो हम पेश्वर्यवान् [ओम्] के ही पास दौड़ कर चलें । [वे गये और ओम् ने कहा]—(सर्वेषाम् एव शर्म भवानि इति) सब लोगों का ही शरण [रक्षा साधन] मैं हो जाऊँ । (तथा इति ते उक्त्वा तूष्णीम् अतिष्ठन्) वैसा ही हो—ऐसा कहकर वे चुपचाप बैठ गये । [फिर बोले] (न अनुपसन्नेभ्यः इति) पास न रहने वालों [नास्तिकों] के लिये [शरण] मत हो । [ओम् बोला] (उपोपसी-

२८—(असमीक्षप्रवह्नितानि) न + प्र + सम् + ईक्ष दर्शने-घञ् + हल चलने-क्त । समीक्षेण पर्यालोचनेन बिना प्रचलितानि वचांसि (दोषपतिः) निन्दितकर्तृणां पालकः (अपक्रान्ततेजांसि) विगतज्योतीषि (परिदेवयाम्) बलिमलितनिभ्यः कयन् । उ० ४ । ६६ । दिव परिक्रूजने-कयन् । परिदेवनाम् । अनु-

दामि इति) [लुम्हारे] अति समीप में बैठता हूं । (नीचैः वभूवुः) वे [ऋषि] नीचे को होगये । (सः उपनीय एभ्यः प्र उवाच) वह [ओम्]-पास जा कर इन से कहने लगा—(मामिकाम् एव व्याहृतिम् आदितः आदितः कृणुध्वम् इति एवं मामकाः आधीयन्ते) मेरो ही व्याहृति को प्रत्येक मन्त्र के आदि में करो, इस प्रकार मेरे लोग सब ओर से धारण किये जाते हैं ।

(भृग्वङ्गिरोविद्भ्यः ऋते सोमः न पातव्यः) भृगु अङ्गिराओं [प्रकाशमान परमात्मा के चारों वेदों] के जानने वाले के बिना सोम रस न पीना चाहिये । [जो दूसरे लोग सोम रस पीवें तो] (ऋत्विजः पराभवन्ति यजमानः रजसा अपध्वस्यति श्रुतिः च अपध्वस्ता तिष्ठति इति) ऋत्विज लोग हार जाते हैं, यजमान राग [मोह] से गिर पड़ता है और श्रुति नष्ट होकर रहती है— (एवम् एव उत्तरोत्तरात् योगात् तोकं तोकं प्रशाध्वम् इति) इस प्रकार से ही पिछले पिछले संयोग से संतान संतान को शासन करो, (एव प्रतापः न पराभविष्यति इति) इस प्रकार प्रताप न हार पावेगा । (तथा आह तथा आह) वैसा ही उसने कहा, वैसा ही उसने कहा । [ऋषि लोग बोले] (भगवन् इति) हे भगवन् ! [हम वैसा ही करेंगे], (प्रतिपेदिरे आप्याययन्) वे समीप गये और बढ़ने लगे । (ते तथा वीतशोकभयाः वभूवुः) वे इस प्रकार से बिना शोक और निर्भय हो गये । (तस्मात् ब्रह्मवादिनः ओङ्कारम् आदितःकुर्वन्ति) इसलिये ब्रह्मवादी लोग ओङ्कार को आदि में करते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थ—ब्रह्मवादी लोग ओङ्कार को प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में बोल कर निर्भय होकर आनन्द पाते हैं ॥ २८ ॥

करिडका २६ ॥

किं देवतमित्यूचामग्निर्देवतन्तदेव ज्योतिर्गायत्रं छन्दः पृथिवी स्थानम् ।
अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नघातममित्येवमादिं कृत्वा
ऋग्वेदमधीयते ।

यजुषां वायुर्देवतं तदेव ज्योतिः त्रैष्टुभं छन्दोऽन्तरिक्षं स्थानम् । इखे त्वोर्जे
त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु । श्रेष्ठतमाय कर्मण इत्येवमादिं कृत्वा
यजुर्वेदमधीयते ।

शोचनम् । विलापम् (न) निषेधे (अनुपसन्नेभ्यः) नञ्+उप+षट् लृ गतौ
—क्त । असमीपस्थेभ्यः । नास्तिकेभ्यः (मामिकाम्) मदीयाम् (ऋते) बिना
(योगात्) संयोगात् (प्रशाध्वम्) प्रशासनं कुरुत (भगवन्) हे पेश्वर्यवन् ॥

साम्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतं छन्दो द्यौ स्थानम् । अथ
आयाहि वीत्ये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि वर्हिषीत्येवमादिं कृत्वा
सामवेदमधीयते ।

अथर्वणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दांस्यापः स्थानम् ।
शत्रो देवीरभिष्टय इत्येवमादिं कृत्वा अथर्ववेदमधीयते । अद्भ्यः स्थावरजङ्गमो
भूतग्रामः सम्भवति, तस्मात् सर्वमापोमयं भूतं सर्वं भृग्वङ्गिरोमयम् । अन्तरैते
त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसः श्रिता इत्यबिति प्रकृतिरपामोङ्कारेण चैतस्माद् व्यासः
पुरोवाच भृग्वङ्गिरोविदा संस्कृतोऽन्यान् वेदानधीयीत नान्यत्र संस्कृतो भृग्वङ्गि-
रसोऽधीयीत अथ सामवेदे खिलश्रुतिः ब्रह्मचर्येण चैतस्मादधर्वाङ्गिरसो ह
यो वेदः स वेद सर्वमिति ब्राह्मणम् ॥ २६ ॥

कण्डिका २६ ॥ चारों वेद और देवता आदि ॥

(किं देवतम् इति) क्या देवता है, [और क्या ज्योति, क्या छन्द और
क्या स्थान है इनका उत्तर] (ऋचाम् अग्निः देवतं तत् एव ज्योतिः गायत्रं-
च्छन्दः पृथिवी स्थानम्) ऋग्वेद के मन्त्रों में [पहिले मन्त्र का] अग्नि
देवता, वही ज्योति, गायत्री छन्द, पृथिवी स्थान है । (अग्निमीले पुरोहितं
यज्ञस्य देवधृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम्—इति एवम् आदिं कृत्वा ऋग्वेदम्
अधीयते) अग्निमीले—इत्यादि ऋग्वेद के पहिले मन्त्र को इस प्रकार आरम्भ
करके ऋग्वेद पढ़ते हैं ।

(यजुषां वायु देवतं तत् एव ज्योतिः त्रैष्टुभं छन्दः अन्तरिक्षम् स्थानम्)
यजुर्वेद के मन्त्रों में [पहिले मन्त्र का] वायु देवता, वही ज्योति, त्रिष्टुप् छन्द
और अन्तरिक्ष [मध्यलोक] स्थान है । (इखे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः
सविता प्रार्पयतु । श्रेष्ठतमाय कर्मणे—इति एवम् आदिं कृत्वा यजुर्वेदम् अधी-
यते) इखे त्वा—इत्यादि यजुर्वेद के पहिले मन्त्र को इस प्रकार आरम्भ करके
यजुर्वेद पढ़ते हैं [इखे = इषे—यजुर्वेद १ । १] ।

२६—(ऋचाम्) ऋग्वेदमन्त्राणां मध्ये (गायत्रम्) स्वार्थे अण् । गायत्री
(अधीयते) अधि + इङ् अध्ययने लट् बहुवचनम् । पठन्ति (त्रैष्टुभम्) स्वार्थे
अण् । त्रिष्टुप् (जागतम्) स्वार्थे अण् । जगतो (आपः) व्यापकानि जलानि
(अद्भ्यः) जलेभ्यः (भूतग्रामः) प्राणिसमूहः (सम्भवति) उत्पद्यते (आपो-
मयम्) जलपरिपूर्णम् । (भूतम्) प्राणिसमूहः (भृग्वङ्गिरोमयम्) प्रकाश-

(साम्नाम् आदित्यः देवतं तत् एव ज्योतिः जागतं छन्दः द्यौः स्थानम्) सामवेद के मन्त्रों में [पहिले मन्त्र का] आदित्य देवता, वही ज्योति, जगती छन्द और प्रकाश लोक स्थान है । (अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि वहिषि—इति एवम् आदिं कृत्वा सामवेदम् अधीयते) अग्न आयाहि इत्यादि [सामवेद के पहिले मन्त्र को] इस प्रकार आरम्भ करके सामवेद पढ़ते हैं [इस मन्त्र का छन्द गायत्री है, यहां जागत वा जगती माना है] ।

(अथर्वणां चन्द्रमाः देवतं तत् एव ज्योतिः, सर्वाणि छन्दांसि, आपः स्थानम्) अथर्ववेद के मन्त्रों में [इस मन्त्र का] चन्द्रमा देवता, वही ज्योति, सब छन्द, आप् [व्यापक जल] स्थान है । (शन्नो देवीरभिष्टयः—इति एवम् आदिं कृत्वा अथर्ववेदम् अधीयते) शन्नो देवीः—इत्यादि अथर्ववेद के मन्त्र को इस प्रकार आरम्भ करके अथर्ववेद पढ़ते हैं । [यह मन्त्र अथर्ववेद काण्ड १ सूक्त ६ का पहिला मन्त्र है, अथर्ववेद का पहिला मन्त्र यह है—ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वा अद्य दधातु मे । शन्नो देवीः—इस मन्त्र का छन्द गायत्री है और यहां सब छन्द माने हैं ।] (अद्भ्यः स्थावरजङ्गमः भूतग्रमः सम्भवति, तस्मात् सर्वम् अपोमयम्, सर्वं भूतं भृग्वङ्गिरोमयम्) आप् [जल] से स्थावर और जङ्गम प्राणियों का समूह उत्पन्न होता है, इस लिये सब जगत् आपोमय [जल से परिपूर्ण] है और सब प्राणीमात्र भृग्वङ्गिरोमय [प्रकाशमान ज्ञानवाले परमात्मा से परिपूर्ण] है, (एते त्रयःवेदाः भृगून् अङ्गिरसः अन्तरा श्रिताः इति, आप् इति, अपां प्रकृतिः ओङ्कारेण च) औ यह तीनों वेद [अर्थात् कर्म उपासना ज्ञान] प्रकाशमान ज्ञानवाले [चारों वेदों] के भीतर आश्रित हैं, [अन्तर्गत हैं—दंखा

मानज्ञानस्वरूपपरममना परिपूर्णम् (अन्तरा) विना (त्रयः वेदाः) कर्मोपासनाज्ञानरूपाः (भृगून्) प्रकाशमानान् (अङ्गिरसः) ज्ञानयुक्ताश्चतुर्वेदान् (आप्) व्यापकजलरूपपरमात्मा (प्रकृतिः) रचना (अपाम्) जलानाम् (व्यासः) वि + असु लेषणे—घञ् । विशेषेण वेदार्थप्रकाशको विद्वान् (पुरा) अग्रे (भृग्वङ्गिरोविदा) प्रकाशमानज्ञानयुक्तचतुर्वेदज्ञेन (संस्कृतः) उपनयनादिसंस्कारं प्राप्तः (अन्यान् वेदान्) वेदभिन्नशास्त्राणि (अधीयीत) पठेत । (अन्यत्र) वेदभिन्नशास्त्रेषु (भृग्वङ्गिरसः) प्रकाशमानज्ञानयुक्तचतुर्वेदान् (विलश्रुतिः) खिल कणश आदाने—क । सारभूतमन्त्रः (वेदः) विद ज्ञाने—कर्तारि घञ् । वेत्ता ॥

कण्डिका २६], यही अप्, व्यापक जल रूप परमात्मा है और ओङ्कार द्वारा जलों की प्रकृति [रचना] है [कौन प्रकृति है—कण्डिका २४ के प्रश्न का यह उत्तर है] । (एतस्मात् व्यासः पुरा उवाच) इस लिये व्यास [वेदों के अर्थ प्रकाश करने वाले मुनि] ने पहिले कहा था—(भृग्वङ्गिराविदा संस्कृतः अन्यान् वेदान् अधीयीत) प्रकाशमान ज्ञानवाले [चारों वेदों] के जानने वाले करके सस्कार किया हुआ [पढ़ाया हुआ पुरुष] दूसरे, वेदों [शास्त्रों] को पढ़े, (अन्यत्र संस्कृतः भृग्वङ्गिरसः न अधीयीत) दूसरे [शास्त्रों] में संस्कार किया हुआ पुरुष प्रकाशमान ज्ञानवाले [चारों वेदों] को न पढ़े (?) । (अथ सामवेदं खिलध्रुतिः) और सामवेद में भी खिलध्रुति [सारभूत मन्त्र] है— (ब्रह्मचर्येण च एतस्मात् अथर्वाङ्गिरसः ह यः वेदः सः सर्वं वेद इति ब्राह्मणम्) और इस लिये ब्रह्मचर्य के साथ निश्चल ब्रह्म के ज्ञानों [चारोंवेदों] को निश्चय करके जा जानने वाला है वह सब जानता है, यह ब्राह्मण [ब्रह्म ज्ञान] है ॥ २६ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचर्य के साथ वेदों में देवता, ज्योति, और स्नान का विचार करके मनुष्य सब विद्याओं में निपुण होवे ॥ २६ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—अग्निमी ले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥ ऋ० १ । १ । १ ॥ (पुरोहिम्) सबके अगुआ, (यज्ञस्य) श्रेष्ठ कर्म के (देवम्) प्रकाशक, (ऋत्विजम्) सब ऋतुओं में पूजनीय, (होतारम्) दान करने वाले और (रत्नधातमम्) अत्यन्त रत्नों के धारण करने वाले (अग्निम्) अग्नि [ज्ञानमय परमेश्वर] की (ईडे) में बड़ाई करता हूँ ॥

२—इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्य देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमायु कर्मणु आर्ष्यायध्वमध्व्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयुत्तमा मा वस्तेन ईशतु मावशं थंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात वृहार्यजमनस्य पशून् पाहि ॥ यजु० १ । १ ॥ [हे प्रजागण !] मैं (त्वा) तुम्हें मैं (इषे) व्यापक हूँ, मैं (त्वा) तुम्हें को (ऊर्जे) बलवान् बनाता हूँ । [हे प्रजाओं !] (वायवः) तुम सब वायु [वेगवान्] (स्थ) हो, (देवः) प्रकाशमय, (सविता) सब का चलाने वाला परमेश्वर (वः) तुमको (श्रेष्ठतमायु) अत्यन्त श्रेष्ठ (कर्मणु) कर्म के लिये (प्र+अर्पयतु) आगे बढ़ावे । (अध्व्याः) हे अवध्य वा अहिंसक प्रजाओं ! (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के लिये (भागम्) अपने भाग को (आ) भली भाँति

(प्यायध्वम्) तुम बदाओ, (प्रजावतीः) हे उत्तम सन्तानवाली, (अनमीवाः) मानसिक पीड़ा से रहित और (अयद्धमाः) क्षय आदि शारीरिक रोग से रहित प्रजाओ ! (स्तेनः) चोर डाकू (वः) तुम पर (मा ईशत) राज्य न कर सके, और (मा अघशंसः) न कोई पाप चिन्तक [राज्य कर सके] । और तुम (ध्रुवाः) निश्चल चिन्त और (बह्वीः) बहुत सी होकर (अस्मिन्) इस (गोप-तौ) स्वर्ग वा पृथ्वी वा गौ आदि के रक्षक परमेश्वर में (स्यात्) वर्तमान रहे । [हे प्रजागण ।] (यजमानस्य) यज्ञकर्ता धर्मात्मा पुरुष के (पशून्) दो पाये और चौपाये जीवों की (पाहि) तू रक्षा कर ॥

२३१ २३१२ ३२ ३१२ १२२२ ३१२
३—अग्न्या याहि वीतये गृणानो हव्यदातवे । नि होता सत्सि वर्हिषि ॥

साम० पू० १ । १ । (अग्ने) हे अग्नि ! [ज्ञानस्वरूप परमेश्वर] (वीतये) ज्ञान के लिये और (हव्यदातये) भोजन की शुद्धि वा दान के लिये (गृणानः) उप-देश करता हुआ तू (आ याहि) आ । (होता) तू दानी होकर (वर्हिषि) यज्ञ में (नि सत्सि) सदा बैठता है ॥

४—शंभो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः ॥
अथ० १ । ६ । १, यजु० ३६ । १२ ॥ (देवीः) दिव्य गुण से युक्त (आपः) जल धारार्ये वा सर्वव्यापक परमेश्वर (नः) हमारे (अभिष्टये) पूर्ण यज्ञ वा अभि-लाषा के लिये (पीतये) पान वा रक्षा वा वृद्धि के लिये (शम्) सुखदायक (भवन्तु) होवे और (नः अभि) हमारे ऊपर (शम्) सुख की और (योः) अभय की (स्रवन्तु) वर्षा करे ॥

कण्डिका ३० ॥

अध्यात्ममात्मभैषज्यमात्मकैवल्यमोङ्कार, आत्मानं निरुद्ध्य सङ्गमयात्रीं भूतार्थचिन्तां चिन्तयेदतिक्रम्य वेदेभ्यः सर्वपरमाध्यात्मफलं प्राप्नोतीत्यर्थः, स्वचित्तकं ज्ञानमयमित्येतैः प्रश्नैः प्रतिवचनैश्च यथार्थं पदमनुविचिन्त्य प्रकरणज्ञो हि प्रबलो विषयी स्यात्, सर्वस्मिन्वाको वाक्य इति ब्राह्मणम् ॥ ३० ॥

कण्डिका ३० ओङ्कार का चिन्तन और उस का फल ॥

(अध्यात्मम्, आत्मभैषज्यम्, आत्मकैवल्यम् ओङ्कारः) [आत्मज्ञान का अधिकरण क्या है—कण्डिका २४, उत्तर] आत्मज्ञान का अधिकरण, आत्मा का औषध और आत्मा का मोक्ष सुख ओङ्कार है । (सङ्गमयात्रीं भूतार्थचिन्तां निरुद्ध्य आत्मानम् चिन्तयेत्) संगति का लेश रखने वाली प्राणियों की चिन्ता

को रोक कर आत्मा [परमात्मा] को विचारे । (अतिक्रम्य वेदेभ्यः सर्वपरम् आध्यात्मफलं प्राप्नोति इति अर्थः, सवितर्कं ज्ञानमयम् इति) [चिन्ता को] उल्लंघन करके वेदों के द्वारा अर्थात् सब से श्रेष्ठ आत्मज्ञान के फल को पाता है, यह अर्थ है, अर्थात् वितर्कों [विचारों] के सहित ज्ञान से परिपूर्ण [परमात्मा को] पाता है] । (एतैः प्रश्नैः प्रतिवचनैः च यथार्थं पदम् अनुविचिन्त्य प्रकरणज्ञः हि प्रचलः विषयी स्यात्) इन प्रश्नों और उत्तरों से [कण्डिका २४-२६] यथार्थ पद [सुबन्त और तिङन्त शब्द] का निरन्तर विचार कर प्रकरण जानने वाला, प्रचल और विषय समझने वाला मनुष्य होवे । (सर्वस्मिन् वाक्ये वाकः इति ब्राह्मणम्) प्रत्येक वाक्य [पदसमूह] में वाक [वचन सामर्थ्य] है यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ३० ॥

भावार्थ—मनुष्य को चाहिये कि ओम् को सर्वाधार जानकर उसका चिन्तन करता हुआ आत्म सामर्थ्य बढ़ावे और वाक्य का समास विन्यास भली भाँति समझ कर ठीक ठीक अर्थ का ग्रहण करे ॥ ३० ॥

कण्डिका ३१ ॥

एतद्ध स्मैतद्, विद्वांसमेकादशाक्षम्मौद्गल्यं ग्लावो मैत्रेयोऽभ्याजगाम ।
स तस्मिन् ब्रह्मचर्यं वसतीति विज्ञायोवाच, किं स्वित्स्मिन्मर्यादा अयंतं मौद्गल्ये
अध्येति यदस्मिन् ब्रह्मचर्यं वसतीति । तद्धि मौद्गल्यस्यान्तेवासी शुश्राव । सः
आचार्यायाब्रज्वाचचष्टे, दुरधीयानं वा अयं भवन्तमवोचद्योऽयमद्यातिथिर्भ-
वति । किं सौम्य विद्वानिति । त्रीन् वेदान् ब्रूते भोऽ इति तस्य सौम्य यो विस्पष्टी
विजिगीषोऽन्तेवासी तन्मे ह्वयेति, तमाजुहाव, तमभ्युवाचासाविति भोऽ इति
किं सौम्य त आचार्योऽध्येतीति, त्रीन् वेदान् ब्रूते भोऽ इति, यच्च खलु सौम्या-
स्माभिः सर्वे वेदा मुखतो गृहीताः कथन्त एवमाचार्यो भाषते कथं नु शिष्टाः

३०—(अध्यात्मम्) आत्मज्ञानाधिकरणम् । (आत्मभैषज्यम्) आत्मौ-
षधम् (आत्मकैवल्यम्) आत्ममोक्षसुखम् (आत्मानम्) परमात्मानम् (निरु-
ध्य) प्रतिरुध्य (सङ्गममात्रीम्) सङ्गतिशीलाम् (भूतार्थचिन्ताम्) प्राणिविषय-
कस्मृतिम् (अतिक्रम्य) तां चिन्तामुल्लंघ्य (सर्वपरम्) सर्वोत्कृष्टम् (अध्यात्म-
फलम्) आत्मज्ञानफलम् (पदम्) सुप् तिङन्तं पदम् । पा० । १ । ४ । १४ ।
(विषयी) विषयम्—इति । इन्द्रियगोचरज्ञानयुक्तः । (वाकः) वच-घञ् ।
वचनसामर्थ्यम् । (वाक्य) वच-ण्यत् । पदसमूहे ॥

शिष्टेभ्य एवं भाषेरन्, यं ह्येनमहं प्रश्नं प्रच्छामि न तं विवक्ष्यति न ह्येनमध्यै-
तीति । स ह मौद्गल्यः स्वमन्तेवासिनमुवाच, परेहि सौम्य ग्लाव मत्रेयमुप-
सौदाधीहि भोः सावित्रीं गायत्रीञ्चतुर्विंशतियोनि द्वादशमिथुनां यस्या भृग्वङ्गि-
रसश्चक्षुर्यस्यां सर्वमिदं श्रितं, तां भवान् प्रब्रवीत्विति स चेत्सौम्य दुग्धीयानो
भविष्यत्याचार्योवाच ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणे सावित्रीं प्राहेति वक्ष्यति, तत्त्वं
ब्रूयात् दुग्धीयानन्तं वै भवान् मौद्गल्यमवाचत् स त्वा यं प्रश्नमप्राक्षीन्न तं
व्यवोचः पुरा संघत्सरादार्षिमाकृष्यसीति ॥ ३१ ॥

कण्डिका ३१ ॥ मौद्गल्य और मत्रेय की कथा ॥

(एतत् ह स एतत्) यह बहुत प्रसिद्ध है—(विद्वांसम् एकादशाक्षम्
मौद्गल्यम् ग्लावः मत्रेयः अभ्याजगाम) विद्वान् [दो कान, दो आंख, दो नथने,
एक मुख, एक ब्रह्मरन्ध्र, एक नाभि, एक उपस्थ एक पायु] ग्यारह इन्द्रियों
से युक्त शरीर वाले [सर्वथा स्वस्थ] मौद्गल्य [मुद्गल ऋषि के सन्तान]
के पास ग्लाव [चन्द्रवंशीय] मत्रेय [मित्रयु का शिष्य] आया । (सः तस्मिन्
ब्रह्मचर्यं वसति इति विज्ञाय उवाच) वह [मौद्गल्य] उस [स्थान] पर ब्रह्म-
चर्य्य [वेदाभ्यास और इन्द्रियनिग्रह] में रहता है, यह जान कर वह [मत्रेय]
बोला—(किं स्वित् मर्यादाः अयं मौद्गल्यः तम् अध्येति यत् अस्मिन् ब्रह्मचर्य्ये
वसति इति) यह क्या मर्यादायें [रीतें] हैं यह मौद्गल्य उस [वेद] को पढ़ता है
। जिस के लिये इस ब्रह्मचर्य्य में मनुष्य रहता है [अर्थात् वेदाभ्यास के लिये इतना
ब्रह्मचर्य्य करना ठीक नहीं है] । (तत् हि मौद्गल्यस्य अन्तेवासी शुश्राव) यह बात
मौद्गल्य के शिष्य ने सुनी । (सः आचार्याय आब्रज्य आचचष्टे) वह आचार्य्य से
आकर बोला—(अयं भवन्तं वै दुग्धीयानं अवाचत् यः अयम् अद्य अतिथिः भवति)
इसने आप को निश्चय करके कुपट्ट बताया है जो यह आज अतिथि है । [मौद्गल्य

३१—(एकादशाक्षम्) अक्ष् व्याप्तौ—अच् । नासिकाश्रोत्रनेत्राणां द्वयं द्वयं
मुखमेकं ब्रह्मरन्ध्रमेकं नाभ्या सहाधःस्थानि त्रीणि, इत्थमेकादश अक्षणि इन्द्रि-
याणि अस्मिन् तच्छरीरम्, ततः अर्श आचच् । एकादशेन्द्रिययुक्तशरीरवन्तं
सर्वथास्वस्थम् (मौद्गल्यम्) मुदिग्रोगंगौ । उ० १ । १२८ । मुद् हर्षे—गक् ।
मुद्गं हर्षं लाति गृह्णातीति । मुद्ग+ला आदाने—क । मुद्गलो मुनिः । ततः
व्यञ् । मुद्गलस्य सन्तानम् (ग्लावः) ग्लानुदिभ्यां डौः । उ० २ । ६४ । ग्लौ हर्षक्षये
—डौ । ग्लौञ्चन्द्रः । ग्लौ—अण् । चन्द्रवंशीयः (मत्रेयः) मृगश्वाद्यश्च । उ०

ने कहा] (किं सौम्य विद्वान् इति) हे सौम्य ! [प्रियदर्शन] क्या वह विद्वान् है ? [शिष्य बोला] (त्रीन् वेदान् ब्रूते भो३ इति) महाराज ! वह तीनों वेदों को बोलता है । [मौद्गल्य ने कहा] (सौम्य विजिगीषो तस्य यः विस्पष्टः अन्ते-वासी तम् मे ह्य इति) हे प्रियदर्शन, जीतने की इच्छा करने वाले ! उस का जो विशेष करके स्पष्ट शिष्य है, उसे मेरे पास बुला । (तम् आजुहाव) वह [शिष्य] उसे बुला लाया, (तम् अभ्युवाच) और उस [मौद्गल्य] से बोला—(असौ इति भो३ इति) महाराज ! वह यह है । [मौद्गल्य ने कहा] (सौम्य तेषां आचार्यः किम् अभ्येति इति) हे प्रियदर्शन ! तेरा आचार्य क्या पढ़ता है । [वह बोला] (त्रीन् वेदान् ब्रूते भो३ इति) महाराज ! वह तीनों वेदों को बोलता है । [मौद्गल्य ने कहा] (सौम्य यत् नु खलु अस्माभिः सर्वे वेदाः मुखतः गृहीताः कथं ते आचार्यः एवं भाषते) हे सौम्य क्योंकि हमने सब वेद मुख से ग्रहण किये हैं, तेरा आचार्य कैसे ऐसा कहता है । (कथं नु शिष्टाः शिष्टेभ्यः एवं भाषेरन्) कैसे शिष्ट लोग शिष्टों से ऐसा बोलें । (यं हि एनं प्रश्नम् अहं प्रच्छामि न तं विवक्षति न हि एनम् अभ्येति इति) जिस इस प्रश्न को मैं पूछता हूँ [जो] उसको वह न बतावेगा, वह इस [वेद] को नहीं पढ़ता है । (सः ह मौद्गल्यः स्वम् अन्तेवासिनम् उवाच) फिर वह मौद्गल्य अपने शिष्य से बोला—(सौम्य परेहि म्त्वावं मैत्रेयम् उपसीद) हे प्रियदर्शन ! जा और चन्द्रवंशीय मैत्रेय से मिल, [और कह] (भोः चतुर्विंशतियानि द्वादशमिथुनां सावित्रीं गायत्रीम् अधीहि) महाराज ! चौबीस योनि [उत्पत्ति स्थान] वाली, बारह जोड़ा वाली ।

१ । ३७ । मित्र + या प्रापणे—कु । मित्रयुर्लोकव्यवहारवित् । मित्रयोः अपत्य-मिति । गृह्यादिभ्यश्च । पा० ४ । १ । १३६ । मित्रयु—ढञ् । दाण्डिनायन हास्ति-नायन० । पा० ६ । ४ । १७४ । यु शब्दलोपः । मैत्र—एय । यस्येति च । पा० ६ । ४ । १४८ । मैत्र इत्यस्य अकार लोपः । मित्रयोरपत्यं पुमान् (अन्तेवासी) अन्ते + वस निवासे—णिनि । शयवान्वासिष्वकालात् । पा० ६ । ३ । १८ । सप्तम्याः अलुक् । अन्ते विद्यामध्येतुमध्यापकसमोपे वसतीति । शिष्यः । (आचार्याय) । आङ् + चर गतौ—रयत् । वेदाध्यापकाय । उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते—मनुः २ । १४० (अतिथिः) । ऋत्तन्यञि० । उ० ४ । २ । अत्र सातत्यगमने—इथिन् । न विद्यते नियता तिथि-रस्येति वा । सदा भ्रमणशीलः । अभ्यागतः (सौम्य) सोमो देवता अस्य । सोमाद् द्यम् । पा० ४ । २ । ३० । सोम—द्व्यण् सोमवत् स्वभावयुक्त । प्रिय-

[देखो करिडका ३३], सविता देवता वाली गायत्री को पढ़, (यस्याः भृश्वङ्गि-
रसः चक्षुः यस्यां सर्वम् इदं श्रितम्, ताम् भवान् प्रब्रवं तु इति) जिस के भृगु—
अङ्गिरस [प्रकाशमान सब वेद] नेत्र हैं, और जिसमें यह सब ठहरा हुआ है,
आप उस गायत्री को समझावें । आचार्य्य = आचार्य्यः, उवाच) फिर आचार्य्य
[मौद्गल्य] ने कहा—(सौम्य सः चेत् दुरधीयानः भविष्यति, [भवान्]
वक्ष्यति, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणे सावित्रीं प्राह) हे सौम्य ! जो वह कुपड़ होवे,
[आप] कहें ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को सावित्री [सविता देवता वाली] गायत्री
बताता है । (तत्त्वं [भवान्] ब्रूयात्) [तब आप] ठीक ठीक कह दें—(भवान्
वै तं मौद्गल्यं दुरधीयानम् अब्रूवत्) आपने ही उम मौद्गल्य को कुपड़
कहा है, (सः त्वा यं प्रश्नम् अप्राप्तीत् त पुरा न व्यवोचः, संवत्सरात् आर्तिम्
आकृष्यसि इति) उसने तुझसे जो प्रश्न पूछा था, वह तू ने हमारे सामने नहीं
बताया है, एक वर्ष तक तुझे पीड़ा खींचनी होगी ॥ ३१ ॥

भावार्थ—मनुष्य परिश्रम से प्रश्नोत्तर के साथ धर्मों के विचार कर तत्त्व
का ग्रहण करे ॥ ३१ ॥

करिडका ३२ ॥

स तत्राजगाम यत्रेतरो बभूव, तं ह पप्रच्छ स ह न प्रनिपेदे, तं होवाच
दुरधीयानं तं वै भवान् मौद्गल्यमवोचत्, स त्वा यं प्रश्नमप्राप्तीत् तं व्यवोचः
पुरा संवत्सरादार्त्तिमाकृष्यसीति । स ह मैत्रेयः स्वानन्तेवासिन उवाच यथार्थं,

दर्शन, मनोज्ञ (विजिगीषो) हे जंतुमिच्छुक (शिष्टाः) शासु अनुशिष्टौ—क ।
सुबोधाः । धीराः (विवक्षयति) विविधं कथयिष्यति (परेहि) समीपे गच्छ
(उपसीद) प्राप्नुहि (अधीहि) अधीष्व । पठ (सावित्रीम्) सवितृ-अण् । सवितृ-
द्वयतावतीम् (गायत्रीम्) अमिनक्षियजि० । उ० ३ । १०५ । गौ गाने—अत्रन्,
स च णित् । आतो युक् चिण्कृतोः । पा० ७ । ३ । ३३ । इति युक्, स्त्रियां ङीष् ।
गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणस्त्रिगमना वा विपरीता । गायतो मुख्वादुदपतदिति
च ब्राह्मणम्—निरु० ७ । १२ । यद्वा, गायन्तं त्रायते । गौ गाने—शतृ + त्रैङ्
पालने—क । स्तुत्यं वेदमन्त्रविशेषम् । गायतां रक्षिकामृचम् (यानिम्) उत्पत्ति-
स्थानम् । (आचार्य्य) विभक्तेर्लुक् । आचार्य्यः (तत्त्वम्) यथार्थम् (पुरा) अत्रे
(आर्तिम्) आङ् + अ गतौ हिंसने च—क्तिन् । पीडाम् (आकृष्यसि) आकर्षणे
करिष्यसि ॥

भवन्तो यथागृहं यथामनो विप्रसृज्यन्तां दुरधीयानं वा अहं मौद्गल्यमवोचं स
मा यं प्रश्नमप्राक्षीन्न तं व्यवोचं, तमुपेष्यामि शान्तिं करिष्यामीति । स ह मैत्रेयः
प्रातः समित्पाणिर्मौद्गल्यमुपससादासावाग्रहं भो मैत्रेयः किमर्थमिति दुरधी-
यानं वा अहं भवन्तमवोचं त्वं मा यस्प्रश्नमप्राक्षीन्न तं व्यवोचं त्वामुपेष्यामि
शान्तिं करिष्यामीति, स होवाचात्र वा उपेतश्च सर्वश्च कृतं पापकेन त्वा यानेन
चरन्तमाहूरथोऽयं मम कल्याणस्त ते ददामि तं न याहीति । स होवाचैतदेवात्रा-
त्विषश्चानृशंस्यश्च यथा भवानाहोपायामित्येवं भवन्तमिति तं होपेयाय तं होपेत्य
पप्रच्छ किंस्विदाहुर्भोः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयः किमाहुर्धियो विच्छद्व
यदि ताः प्रविश्य प्रचोदयात्सविता याभिरेतीति ।

तस्मा एतत् प्रोवाच वेदाश्छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयो-
ऽन्नमाहुः । कर्माणि धियस्तदु ब्रवीमि प्रचोदयात्सविता याभिरेतीति ।

तमुपसङ्गृह्य पप्रच्छाधीहि भोः कः सविता का सावित्री ॥ ३२ ॥

कण्डिका ३२ ॥ मौद्गल्य और मैत्रेय का गायत्री मन्त्र पर वार्तालाप ॥

(सः तत्र आजगाम यत्र इतरः बभूव) वह वहां आया जहां दूसरा
[मैत्रेय] था । (तं ह पप्रच्छ सः ह न प्रतिपेदे) उस से उसने पूछा और वह
[मैत्रेय] न बता सका । (तं ह उवाच) उस [मैत्रेय] से वह बोला—(भवान्
तं मौद्गल्यं दुरधीयानम् अवोचत्) आप ने उस मौद्गल्य को कुपट्ट बताया है,
(सः त्वा यं प्रश्नम् अप्राक्षीत् तं पुरा न व्यवोचः संवत्ससरात् शान्तिम् आकृष्यन्ति
इति) उसने तुझसे जो प्रश्न पूछा था वह तू ने हमारे सामने नहीं बताया है,
एक वर्ष तक तुझे पीड़ा खींचनी होगी । (सः ह मैत्रेयः स्वान् अन्तेवासिनः
यथार्थम् उवाच) वह मैत्रेय अपने शिष्यों से ठीक ठीक बोला—(भवन्तः यथा-
गृहं यथामनः विप्रसृज्यन्ताम्) आप लोग अपने अपने घर को जैसा मन हो

३२—(प्रतिपेदे) प्रतिपादितवान् । बोधितवान् (यथगृहम्) गृहमन-
तिक्रम्य (यथामनः) यथेच्छम् (विप्रसृज्यन्ताम्) विविधं प्रकर्षणं गच्छन्ताम्
(शान्तिम्) सन्नोषम् । प्रसन्नताम् (समित्पाणिः) होमार्थं हस्तयोः समिधा-
युक्तः (आग्रहम्) आग्रह—अर्शद्वाद्घ् । अनुग्रहवन्तम् (कृतम्) करोतेः—
क्विप् । कर्तारम् (पापकेन) पापयुक्तेन । दुःखकरेण (आहुः) मनुष्याः कथ-
यन्ति (कल्याणः) मङ्गलकरः (अत्विषम्) नञ् + त्विष् दीप्तौ—क । त्वेषप्रतीका

चले जावें, (अहं वै मौद्गल्यं दुरधीयानम् अवोचम्) मैंने मौद्गल्य को कुपढ बताया है, (सः मा यं प्रश्नम् अप्राक्षीत् तं न व्यवोचम्) उसने मुझ से जो प्रश्न पूछा था वह मैंने न बताया, (तम् उपेक्षामि शान्तिं करिष्यामि इति) मैं उस के पास जाऊंगा और उसकी शान्ति [सन्तुष्टता] करूंगा । (सः ह समित्पाणिः मैत्रेयः प्रातः आग्रहं मौद्गल्यम् उपससाद) वह [यज्ञ के लिये] समिधा हाथ में लिये हुये प्रातःकाल अनुग्रहशील मौद्गल्य के पास पहुँचा [और बोला] — (भो असौ मैत्रेयः) महाराज ! वह मैं मैत्रेय हूँ । [मौद्गल्य ने कहा] — (किम् अर्थम् इति) किस लिये । [मैत्रेय बोला] — अहं वै भवन्तं दुरधीयानम् अवोचम्) मैंने आपको कुपढ बताया है, (त्वं मा यं प्रश्नम् अप्राक्षीः तं न व्यवोचम्) तू ने मुझ से जो प्रश्न पूछा था, वह मैंने नहीं बताया, (त्वाम् उपेक्षामि शान्तिं करिष्यामि इति) तेरे पास जाऊंगा और तेरी शान्ति करूंगा । (सः ह उवाच) वह [मौद्गल्य बोला] — (अत्र वै उपेतं च सर्वं च कृतं त्वा पापकेन यानेन चरन्तम् आहुः) यहाँ पर आये हुये सब काम करने वाले तुम्हको पापी रथ से चलता हुआ लोग बताते हैं, (अयम् मम रथः कल्याणः त ते ददामि तेन याहि इति) यह मेरा [शिखारूपी] रथ कल्याणकाक्षी है, वह मैं तुम्हें देता हूँ, उससे चल । (सः ह उवाच) वह [मैत्रेय] बोला — (एतत् एव अत्र अतिवच च अनृशंस्यं च) यही [आप का] कर्म यहाँ अभय और अक्रूर [अति दयालु] है । (यथा भवान् आह, एवं भवन्तम् उप—ग्रयाम् इति इति) जैसा आप कहते हैं वैसे ही आप के पास मैं आया हूँ । (तं ह उप—इयाय) वह उस [मौद्गल्य] के पास आया, (तं ह उपेत्य पप्रच्छ) और पास आकर उससे पूछा — (भोः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, कवय किस्वित् आहुः) हे महाराज ! सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य—इसका अर्थ कवि लोग क्या कहते हैं, (धियः किम् आहुः) और धियः, इस पद को वे क्या कहते हैं, (विचक्ष्व) सो बता,

भयप्रतीका—निरु० १० । २१ । अभयं कर्म (अनृशंस्यम्) नृन् शस्यति नृशंसम् । नञ् + शंलुर्हिंसायाम्—अण्, स्वार्थे, यत् । अक्रूरम् । अतिदयालु कर्म (उपायाम्) उप + या गतौ—लङ् । समीपे अगच्छम् । (उपेयाय) उप + इल् गतौ—लिट् । आजगाम (सवितुः) षू प्रसवे प्रेरणे च—टृच् । सविता सर्वस्य प्रसविता—निरु० १० । ३१ । सर्वप्रेरकस्य (वरेण्यम्) वृञ् एण्यः । उ० ३ । ६५ । वृञ् वरणे—एस्य । स्वीकरणीयम् । अतिश्रेष्ठम् (भर्गः) अञ्च्यञ्जियुजिभृजिभ्यः ङश्च । उ० ४ । २१६ । भृजी भर्जने = पाके—अलुन्, कुत्वञ्च । तेजः (कवयः)

(यदि सविता प्रविश्य ताः प्रचोदयात् याभिः एति इति) यदि सविता प्रवेश करके उन्हें [कर्मों वा बुद्धियों को] आगे बढ़ाता है जिनसे वह चलता है ।

(तस्मै एतत् प्र उवाच) उस [मैत्रेय] से वह यह बात बोला—(वेदाः छन्दांसि) वेद छन्द [आनन्द देने वाले कर्म] हैं, (कवयः देवस्य सवितुः वरेरयं भर्गः अन्नम् आहुः) कवि लोग प्रकाशमान् सविता [सब के चलाने वाले] के अति श्रेष्ठ भर्गः [तेज] को अन्न कहते हैं । (कर्माणि धियः तत् उ ते प्रवीमि) धियः कर्म हैं, यह भी तुझे बताता हूँ, (सविता प्रचोदयात्, याभिः एति इति) [जिनको] सविता [सब का चलाने वाला] आगे बढ़ाता है और जिन से चलता है ।

(तम् उपसंगृह्य पप्रच्छ) उसके पास आदर से जाकर उस [मैत्रेय] ने पूछा—(भोः अधीहि कः सविता का सावित्री) महाराज ! पढ़ाओ कौन सविता है कौन सावित्री है ॥ ३२ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को प्रश्नोत्तर करके गायत्री आदि वेद मन्त्रों के अर्थ समझने चाहिये ॥ ३२ ॥

द्विपद्या—त्रिपदा सावित्री वा गायत्री मन्त्र—

तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
ऋ० ३ । ६२ । १०, यजु० ३ । ३५; २२ । ६; ३० । २; ३६ । ३; साम० उ० ६ । ३ । १० । (तत्) उस (देवस्य) प्रकाशमय (सवितुः) सब के चलाने वाले जगदीश्वर के (वरेण्यम्) अति उत्तम (भर्गः) ज्योति को (धीमहि) हम धारण करें, (यः) जो परमेश्वर (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों वा कर्मों को (प्रचोदयात्) आगे बढ़ावे ॥

कण्डिका ३३ ॥

मन एव सविता, वाक् सावित्री, यत्र ह्येव मनस्तद् वाक्, यत्र वै वाक् शन्मनः, इत्यैते द्वे योनी एकं मिथुनम्, १ अग्निरेव सविता पृथिवी सावित्री, यत्र ह्येवाग्निस्तत् पृथिवी यत्र वै पृथिवी तदग्निरित्येते द्वे योनी एकं मिथुनं, २ वायुरेव सविताऽन्तरिक्षं सावित्री यत्र ह्येव वायुस्तदन्तरिक्षं, यत्र वा अन्तरिक्षं तद्वा-

विद्वांसः (विचक्ष्व) विविधं कथय (प्रचोदयात्) प्रेरयेत् (उपसंगृह्य) आदरेण प्राप्य (अधीहि) अन्तर्गतार्थः । अध्यापय (सविता) प्रेरकः (सावित्री) सवितुः—अण् । सवितु देवताका । सवितुः प्रेरकस्योपासिका ॥

युगित्येते द्वे योनी एकं मिथुनम् ३, आदित्य एव सविता द्यौः सावित्री यत्र ह्येवादित्यस्तद्यौर्यत्र वै द्यौस्तदादित्य इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनं ४, चन्द्रमा एव सविता, नक्षत्राणि सावित्री, यत्र ह्येव चन्द्रमास्तन्नक्षत्राणि यत्र वै नक्षत्राणि तच्चन्द्रमा, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम् ५, अहरेव सविता, रात्रिः सावित्री, यत्र ह्येवाहस्तद्रात्रिर्यत्र वै रात्रिस्तदहरित्येते द्वे योनी एकं मिथुनम् ६, उष्णमेव सविता, शीत सावित्री, यत्र ह्येवोष्णं, तच्छीतं, यत्र वै शीतं तदुष्णमित्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्, अब्धमेव सविता, वर्षं सावित्री, यत्र ह्येवाब्धन्तवर्षं यत्र वै वर्षं तदब्धमित्येते द्वे योनी एकं मिथुनं ८, विद्युदेव सविता स्तनयित्नुः सावित्री यत्र ह्येव विद्युत् तत् स्तनयित्नुः यत्र वै स्तनयित्नुस्तद्विद्युदित्येते द्वे योनी एकं मिथुनं ९, प्राण एव सविता अन्नं सावित्री, यत्र ह्येव प्राणस्तदन्नं यत्र वा अन्नं तत् प्राण इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनं १०, वेदा एव सविता छन्दांसि सावित्री, यत्र ह्येव वेदास्तच्छन्दांसि यत्र वै छन्दांसि तद् वेदा इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनं ११, यज्ञ एव सविता, दक्षिणा सावित्री, यत्र ह्येव यज्ञस्तत् दक्षिणा यत्र वै दक्षिणास्तद्यज्ञ इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम् १२, एतद्द्वस्मैतद्विद्वांसमोपाकारिमासस्तुब्रह्मचारी ते संस्थित इत्यथैत आसस्तुराचित इव चितो बभूवाथोस्थाय प्राब्राजीदित्येतद्वाऽहं वेदं नतासु योनिष्वित एतेभ्यो वा मिथुनेभ्यः सम्भूतो ब्रह्मचारी मम पुरायुषः प्रेयादति ॥ ३३ ॥

कण्डिका ३३ ॥ सावित्री वा गायत्री मन्त्र के चौबीस उत्पत्ति स्थान और बारह जोड़ा ॥

(मनः एव सविता वाक् सावित्री) [मौद्गल्य ने कहा]—मन ही सविता [चलानेवाला] और वाणी सावित्री [चलाने वाले की उपासिका वा सेविका] है, (यत्र हि एव मनः तत् वाक्, यत्र वै वाक् तत् मनः इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही मन है, वहां वाणी है जहां पर ही वाणी है वहां मन है, यह दो योनि [उत्पत्ति स्थान] और एक जोड़ा है । १ । (अग्निः एव सविता पृथिवी सावित्री) अग्नि ही सविता [चलाने वाला] और पृथिवी

३३—(योनी) वहिश्चिभ्रुयुद्दु० । उ० ४ । ५१ । यु मिश्रणामिश्रणयोः—नि । योनिरुदकनाम—निघ० । १ । १२ । गृहनाम—निघ० ३ । ४ । उत्पत्ति-स्थानम्, (मिथुनम्) चुधिपिशिमिथिभ्यः कित् । उ० ३ । ५५ । मिथ वधे मेधायां च—उनन् कित् । द्वयोः संयोगः (अब्धम्) अपोधिभर्ति, अप् + भृञ्

सावित्री [चलाने वाले की उपासिका] है, (यत्र हि एव अग्निः तत् पृथिवी यत्र वै पृथिवी तत् अग्निः इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही अग्नि है वहां पृथिवी है, जहां पर ही पृथिवी है वहां अग्नि है, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा है । २ । (वायुः एव सविता अन्तरिक्षम् सावित्री) वायु ही सविता और अन्तरिक्ष सावित्री है, (यत्र हि एव वायुः तत् अन्तरिक्षम् यत्र वै अन्तरिक्षं तत् वायुः इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही वायु है वहां अन्तरिक्ष है, और जहां पर ही अन्तरिक्ष है वहां वायु है, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा है । ३ । (आदित्यः एव सविता द्यौः सावित्री) सूर्य ही चलाने वाला और प्रकाश चलाने वाले की सेवा करने वाली है, (यत्र हि एव आदित्यः तत् द्यौः यत्र वै द्यौः तत् आदित्यः इति द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही सूर्य है वहां प्रकाश है, जहां पर ही प्रकाश है वहां सूर्य है, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा है । ४ । (चन्द्रमाः एव सविता नक्षत्राणि सावित्री) चन्द्रमा ही चलाने वाला और नक्षत्र चलाने वालों की सेवा करने वाली है, (यत्र हि एव चन्द्रमाः तत् नक्षत्राणि यत्र वै नक्षत्राणि तत् चन्द्रमाः इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही चन्द्रमा है, वहां नक्षत्र [तारागण] हैं, जहां पर ही नक्षत्र हैं वहां चन्द्रमा है, यह दो उत्पत्ति स्थान और एक जोड़ा है । ५ । (अहः एव सविता, रात्रिः सावित्री,) दिन ही सविता है और रात्रि सावित्री है, (यत्र हि एव अहः तत् रात्रिः यत्र वै रात्रिः तत् अहः इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही दिन है वहां रात्रि है, जहां पर ही रात्रि है वहां दिन है, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा है । ६ । (उष्णम् एव सविता, शीतं सावित्री) ताप ही चलाने वाला और ठण्ड चलाने वाले की सेवा करने वाली है, (यत्र हि एव उष्णं तत् शीतम्, यत्र वै शीतं तत् उष्णम् इति एते द्वे

भरणे—क । मेघः (विद्युत्) भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जि० । पा० ३ । २ । १७७ ।
 वि + घुत् दीप्तौ—किप् । तडित् । अशनिः (स्तनयिन्नुः) स्तनि हृषि पुषि गदि
 मदिभ्यो रोर्लुच् । उ० ३ । २६ । स्तन देव शब्दे—इत्तुच् । मेघशब्दः (प्राणः)
 प्र + अन् जीवने—घञ् । नासाग्रस्थानवर्ती वायुः, तस्य कर्म वहिर्गमनम् (अन्नम्)
 कृवृजृसिद्रुपन्यनिस्वपिभ्यो नित् । उ० ३ । १० । अन्न जीवने-न प्रत्ययः । यद्वा
 अद् भक्षणे—क्त । स्वाद्यपदार्थः (छन्दांसि) चन्दैरादेश्च छुः । उ० ४ । २६६ ।
 चदि आह्लादने—असुन् चस्य छुः । आनन्दप्रदानि कर्माणि । गायत्र्याहीनि वा
 (ओपाकारिम्) आ + उप + अकारिम् । केरातेः लुङि रूपमार्थम् । अकार्थम् ।

योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही ताप है वहां ठण्ड है, जहां पर ही ठण्ड है वहां ताप है, यह दो उत्पत्ति स्थान और एक जोड़ा है । ७ । (अग्निम् एव सविता वर्षम् सावित्री) मेघ ही सविता और वर्षा सावित्री है, (यत्र हि एव अग्निम् तत् वर्षम् यत्र वै वर्षं तत् अग्निम्, इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही मेघ है वहां वर्षा है, जहां पर ही वर्षा है वहां मेघ है, यह दो उत्पत्ति स्थान और एक जोड़ा है । ८ । (विद्युत् एव सविता स्तनयित्नुः सावित्री) बिजुली ही चलाने वाला और गर्जन चलाने वाले की सेवा करने वाली है, (यत्र हि एव विद्युत् तत् स्तनयित्नुः यत्र वै स्तनयित्नुः तत् विद्युत् इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही बिजुली है वहां गर्जन है, जहां पर ही गर्जन है वहां बिजुली है, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा है । ९ । (प्राणः एव सविता अन्नं सावित्री) प्राण ही सविता है, अन्न सावित्री है, (यत्र हि एव प्राणः तत् अन्नं यत्र वै अन्नं तत् प्राणः इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां ही प्राण है, वहां अन्न है, जहां ही अन्न है वहां प्राण है, यह दो उत्पत्ति स्थान और एक जोड़ा है । १० । (वेदाः एव सविता छन्दांसि सावित्री) सब वेद ही चलाने वाला है और छन्द [आनन्दकारक कर्म वा मायत्री आदि छन्द] चलाने वाले की सेवा करने वाली है, (यत्र हि एव वेदाः तत् छन्दांसि, यत्र वै छन्दांसि तत् वेदाः इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही वेद हैं वहां छन्द हैं, जहां पर छन्द हैं वहां वेद हैं, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा है । ११ । (यज्ञः एव सविता दक्षिणाः सावित्री) यज्ञ [देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान] ही सविता है और दक्षिणायें सावित्री है, (यत्र हि एव यज्ञः तत् दक्षिणाः, यत्र वै दक्षिणाः तत् यज्ञः, इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्) जहां पर ही यज्ञ है वहां दक्षिणायें हैं, जहां पर ही दक्षिणायें हैं वहां यज्ञ है, यह दो उत्पत्ति स्थान और एक जोड़ा है । १२ । [यह चौबीस उत्पत्ति स्थान और बारह जोड़ा हुये—देखो क० ३१] । (एतत् ह स

आसमन्तात् उपकृतवानसि (आसस्तुः) सितनिगमिमसि० । उ० १ । ६६ ।
 आङ् ईषदर्थे + षस् स्वप्ने—तुन् । अल्पशयनः (संस्थितः) सम्यक् स्थितः
 (एतः) हसिमृग्रण् वा० । उ० ३ । ८६ । इण् गतौ—तन् । गतिशीलः । पुरुषार्थी
 (आचिन्तः) आ + चिञ् चयने—क्त । शकटभारः (चितः) संगृहीतः (प्राब्रूजीत्)
 लडर्थे लुङ् । प्रकर्षेण ब्रजति (इतः) गतः (सम्भूतः) उत्पन्नः (प्रेयात्) प्र +
 इण् मरणे वि० लिङ् । म्रियेत ॥

एतत्) यह बहुत प्रसिद्ध है—(विद्वांसम्) विद्वान् को (ओपाकारिम् = आ उप अकारिम्) मैंने भली भांति उपकार किया है (आसस्तुः ब्रह्मचारी ते संस्थितः इति) थोड़ा सोने वाला ब्रह्मचारी तेरे लिये ठोक ठोक खड़ा है । (अथ एतः आसस्तुः आचितः इव चितः बभूर्वः = बभूव) और गतिशील [पुरुषार्थी] थोड़ा सोने वाला पुरुष छकड़े के भार के समान सगृहीत होता है । (अथ उत्थाय प्रात्राजीत् इति एतत् वै अहं वेद) और उठ कर वह भ्रमण करता है यही मैं जानता हूँ (एतासु योनिषु इतः एतेभ्यः वा मिथुनेभ्यः सम्भूतः मम ब्रह्मचारी आयुषः पुरा न प्रेषात् इति) इन उत्पत्ति स्थानों में गया हुआ अथवा इन जोड़ों से उत्पन्न हुआ मेरा ब्रह्मचारी आयु से पहिले न मरे ॥ ३३ ॥

भावार्थ—मनुष्य करिडका के अनुसार सविता और सावित्री का अर्थ विचार कर पूर्णायु भांगे ॥ ३३ ॥

करिडका ३४ ॥

ब्रह्म हेदं श्रियं प्रतिष्ठामायतनमैक्षत, तत्तपस्व यदि तद् व्रते ध्रियेत तत्सत्ये प्रत्यतिष्ठत्, स सविता सावित्र्या ब्राह्मणं सृष्ट्वा तत् सावित्रीं पर्य्यदधात्, तत् सवितुर्वरेण्यमिति सावित्र्याः प्रथमः पादः, पृथिव्यर्षे सम्पद्भाद्रुचाऽग्निमग्निना श्रियं, श्रिया स्त्रियं, स्त्रिया मिथुनं, मिथुनेन प्रजां, प्रजया कर्म, कर्मणा तपः, तपसा सत्यं, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणं, ब्राह्मणेन वृतं, वृतेन वै ब्राह्मणः संशितो भवत्यशूयो भवत्यविच्छिन्नो भवत्यविच्छिन्नोऽस्य तन्तुरविच्छिन्नं जीवनं भवनं भवति य एवं वेद यश्चैव विद्वानेवमेतं सावित्र्याः प्रथमं पादं व्याचष्टे ॥ ३४ ॥

करिडका ३४ ॥ सावित्री वा गायत्री मन्त्र के प्रथम पाद की व्याख्या ॥

(इदं ब्रह्म ह श्रियं प्रतिष्ठाम् आयतनम् ऐक्षत) [मौद्गल्य कहता है] इस ब्रह्म ने ही श्री [संपत्ति वा शोभा अर्थात् गायत्री] को प्रतिष्ठा [गौरव] और

३४—(श्रियम्) द्विब् वचिप्रच्छिप्रि० । ३० २ । ५७ । श्रिञ् सेवा-याम्—क्विप्, दीर्घश्च । ईश्वररचनाम् । शोभाम् । सम्पत्तिम् (प्रतिष्ठाम्), व्रतयागादेः समातिम् । गौरवम् (आयतनम्) अ+यती प्रयत्ने—त्युट् । आश्रयम् । यज्ञस्थानम् ब्राह्मणम् वेदज्ञानिनम् (तत्) तस्मै (पर्य्यदधात्) सर्वतः

आश्रय देखा । (तत् तपस्व, यदि तत् वृते [भवान्] ध्रियेत् तत् सत्ये प्रत्यतिष्ठत्) [हे मैत्रेय !] वह तप कर, यदि उस वृत्त में आप रक्खे जावें तो आप सत्य में जम जावें । (स सविता सावित्र्या ब्राह्मणं सृष्ट्वा तत् सावित्रीं पर्य्यदधात्) उस सविता [प्रेरक परमात्मा] ने सावित्री [मन्त्र] के साथ ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी पुरुष] को उत्पन्न करके उसके लिये सावित्री को ठहराया, (तत्सवितुः वरेण्यम् इति सावित्र्याः प्रथमः पादः) (तत् सवितुर्वरेण्यम्) उस सविता का अति श्रेष्ठ [तेज] है—यह सावित्री का पहिला पाद है । (पृथिव्या ऋचम् समदधात्, ऋचा अग्निम्, अग्निना श्रियम्, श्रिया स्त्रियम्, स्त्रियामिथुनम्, मिथुनेन प्रजाम्, प्रजया कर्म, कर्मणा तपः, तपसा सत्यम्, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणम्, ब्राह्मणेन वृतम्) पृथिवी के साथ ऋग् [स्तुति योग्य विद्या] को उस [पहिले पाद] ने ठहराया, ऋग् के साथ अग्नि को, अग्नि के साथ श्री [शोभा वा सम्पत्ति] को, श्री के साथ स्त्री को, स्त्री के साथ जोड़ [पुरुष संयोग] को, जोड़ के साथ प्रजा [सन्तान] को, प्रजा के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप [ब्रह्मचर्य आदि] को, तप के साथ सत्य [यथार्थता] को, सत्य के साथ ब्रह्म [वेदज्ञान] को, वेदज्ञान के साथ ब्राह्मण [वेदज्ञानी] को, ब्राह्मण के साथ वृत्त [जितेन्द्रियता आदि] को । (वृतेन वै ब्राह्मणः संशितः भवति, अशून्यः भवति, अविच्छिन्नः भवति, अविच्छिन्नः अस्य तन्तुः, अविच्छिन्न जीवनं भवनं भवति, यः एवं वेद यः च एवं विद्वान् एवम् एतं सावित्र्याः प्रथमं पादं व्याचष्टे) वृत्त [जितेन्द्रियता आदि] से ही वह ब्राह्मण [वेदज्ञानी] तीक्ष्ण बुद्धि वाला [वा यत्नवान्] होता है, शून्य बिना [परिपूर्ण] होता है, अनकट होता है, अनकट उसका तांता [वंश], अनकट जीवन और अस्तित्व [ठह-

स्थापितवान् (तत्) तस्य (सवितुः) प्रेरकस्य परमेश्वरस्य (वरेण्यम्) अतिश्रेष्ठं (ऋचम्) ऋग्वेदम् । स्तुत्यां विद्याम् (समदधात्) सम्यक् स्थापितवान् (मिथुनम्) द्वित्वविशिष्टं पुरुषम् । पुरुषसंयोगम् (तपः) ब्रह्मचर्याद्यनुष्ठानम् (वृतम्) वरणीयं जितेन्द्रियत्वादि कर्म (संशितः) सम् + शो तनूकरणे—क्त । तीक्ष्णबुद्धिः । सम्पादितवृत्तविषयकयत्नः (अशून्यः) अभावरहितः । परिपूर्णाः (अविच्छिन्नः) नञ् + वि + छिदिर् द्वैधीभावे—क्त । अविभक्तः । परंपरागतः (तन्तुः) सितनिगमिमासं० । उ० । १ । ६६ । तनुर्विस्तारे—तुन् । विस्तारः । वंशसन्ततिः (भवनम्) अस्तित्वम् (व्याचष्टे) चक्षिंङ् कथने दर्शने च—लट् । विविधं कथयति ॥

राव] होता है, जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा जानकार पुरुष इस प्रकार से सावित्री के इस पहिले पाद को बताता है ॥ ३४ ॥

भाषार्थ—मनुष्य सावित्री के प्रथम पाद के साथ ऋग्वेद, पृथिवी अग्नि आदि के विचार से अपने और सन्तान आदि के जीवन को सुदृढ़ करे ॥ ३४ ॥

करिडका ३५ ॥

भर्गो देवस्य धीमहीति सावित्र्या द्वितीयः पादोऽन्तरिक्षेण यजुः समदधात् यजुषा वायुं, वायुनाऽव्भ्रम्, अब्भ्रेण वर्षं, वर्षेणौषधिवनस्पतीनोषधिवनस्पतिभिः पशून् पशुभिः कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्यं, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणं, ब्राह्मणेन व्रतं, व्रतेन वै ब्राह्मणः संशितो भवत्यशून्यो भवत्यविच्छिन्नो भवत्यविच्छिन्नोऽस्य तन्तुरविच्छिन्नं जीवनं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेतं सावित्र्या द्वितीय पादं व्याचष्टे ॥ ३५ ॥

करिडका ३५ ॥ सावित्री वा गायत्री मन्त्र के दूसरे पाद की व्याख्या ॥

(भर्गो देवस्य धीमहि इति सावित्र्याः द्वितीयः पादः) (भर्गो देवस्य धीमहि) प्रकाशमान परमेश्वर के तेज को हम धारण करें—यह सावित्री का दूसरा पाद है । (अन्तरिक्षेण यजुः समदधात्, यजुषा वायुम्, वायुना अब्भ्रम्, अब्भ्रेण वर्षम्, वर्षेण औषधिवनस्पतीन्, औषधिवनस्पतिभिः पशून्, पशुभिः कर्म, कर्मणा तपः, तपसा सत्यम्, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणम्, ब्राह्मणेन व्रतम्) अन्तरिक्ष [आकाश] के साथ यजु [पूजनीय कर्म वा संगति कर्म] को उस [दूसरे पाद] ने ठहराया, यजु के साथ वायु को, वायु के साथ जल रखने वाले मेघ को, मेघ के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों [सोम-लता, यव आदि] और वनस्पतियों [पीपल आदि] को, औषधि और वनस्पतियों के साथ पशुओं [जीवों] को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप [ब्रह्मचर्य आदि] को, तप के साथ सत्य [यथार्थता] को, सत्य के साथ ब्रह्म [वेदज्ञान] को, वेदज्ञान के साथ ब्राह्मण [वेदज्ञानी] को, ब्राह्मण के साथ

३५—(भर्गः) तेजः (देवस्य) प्रकाशमयस्य । परमेश्वरस्य (धीमहि) बुधाञ् धारणपोषणयोः—विधिलिङि छान्दसं रूपम् । धीमहि । धरेमहि (यजुः) अतिं पृ वपि यजि० । उ० २ । ११७ । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु—उसि । यजुर्वेदम् । संगतिकरणम् । सत्कर्मविद्याम् (पशून्) जीवान् । अन्यद् गतम् ॥

वृत् [जितेन्द्रियता आदि] को । (वृत्तेन वै ब्राह्मणः संशितः भवति, अशून्यः भवति, अविच्छिन्नः भवति, अविच्छिन्नः अस्य तन्तुः, अविच्छिन्नं जीवनं भवति, यः एतं वेद, यः च एवं विद्वान् एवम् एतं सावित्र्याः द्वितीयं पादं व्याचष्टे) वृत् [जितेन्द्रियता आदि] से ही वह ब्राह्मण [वेदज्ञानी] तीसरे बुद्धि वाला [वा यत्नवान्] होता है, शून्य बिना [परिपूर्ण] होता है, अनकट होता है, अनकट उसका तांता [वंश], अनकट जीवन होता है, जो ऐसा जानता है और जो ऐसा जानकार पुरुष इस प्रकार से सावित्री के इस दूसरे पाद को बताता है ॥ ३५ ॥

भावार्थ—मनुष्य सावित्री के दूसरे पाद के साथ यजुर्वेद, अन्तरिक्ष वायु आदि के विचार से अपने और सन्तान आदि के जीवन को सुदृढ़ करे ॥ ३५ ॥

कण्डिका ३६ ॥

धियो ये नः प्रचोदयादिति सावित्र्यास्तृतीयः पादो दिवा साम समदधात् साम्नाऽऽदित्यमादित्येन रश्मीन् रश्मिभिर्वर्षं, वर्षेणौषधिवनस्पतीनोषधिवनस्पतिभिः पशून् पशुभिः कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्यं, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणं, ब्राह्मणेन वृत्, वृत्तेन वै ब्राह्मणः संशितो भवत्यशून्यो भवत्यविच्छिन्नो भवत्यविच्छिन्नोऽस्य तन्तुरविच्छिन्नं जीवनं भवति य एवं वेद यश्चेवं विद्वानेवमेतं सावित्र्यास्तृतीयं पादं व्याचष्टे ॥ ३६ ॥

कण्डिका ३६ ॥ सावित्री वा गायत्री मन्त्र के तीसरे पाद की

ध्याख्या ॥

(धियो ये नः प्रचोदयात्—इति सावित्र्याः तृतीयः पादः) (धियो ये नः प्रचोदयात्) जो हमारी बुद्धियों वा कर्मों को आगे बढ़ावे—यह सावित्री का तीसरा पाद है । (दिवा साम समदधात्, साम्ना आदित्यम्, आदित्येन रश्मीन्, रश्मिभिः वर्षम्, वर्षेण औषधिवनस्पतीन्, औषधिवनस्पतिभिः पशून्, पशुभिः कर्म, कर्मणा तपः, तपसा सत्यम्, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणम्, ब्राह्मणेन व्रतम्) प्रकाश के साथ साम [मोक्षज्ञान] को उस [तीसरे पाद] न ठहराया, साम

३६—(धियः) ध्यायतेः संप्रसारणं च । वा० पा० ३ । २ । १७८ । ध्यै चिन्तने—क्विप् संप्रसारणं च । धीः कर्मनाम्—निघ० २ । १ । प्रज्ञानाम—निघ० ३ । ६ । बुद्धीः । कर्माणि (आदित्यम्) आदिप्यमानम् । इत्यानामादातारम् ।

के साथ प्रकाशमान वा रस लेने वाले सूर्य को, सूर्य के साथ किरणों को, किरणों के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ ओषधियों [सोमलता यव आदि] और वनस्पतियों [पीपल आदि] को, ओषधि और वनस्पतियों के साथ पशुओं [जीवों] को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप [ब्रह्मचर्य आदि] को, तप के साथ सत्य [यथार्थता] को, सत्य के साथ ब्रह्म [वेदज्ञान] को, वेदज्ञान के साथ ब्राह्मण [वेदज्ञानी] को, ब्राह्मण के साथ व्रत [जितेन्द्रियता आदि] को । (व्रतेन वै ब्राह्मणः संशितः भवति, ऋशून्यः भवति, अविच्छिन्नः भवति, अविच्छिन्नः अस्य तत्तुः, अविच्छिन्नं जीवनं भवति, यः एवं वेद, यः च एवं विद्वान् एवम् एतम् सावित्र्याः तृतीयं पादं व्याचष्टे) व्रत [जितेन्द्रियता आदि] से ही वह ब्राह्मण [वेदज्ञानी] तीक्ष्ण बुद्धियाला [वा यत्नवान्] होता है, शून्य बिना [परिपूर्ण] होता है, अनकट होता है, अनकट उसका तांता— [वंश], अनकट जीवन होता है, जो ऐसा जानता है और जो ऐसा जानकार पुरुष इस प्रकार से सावित्री के इस तीसरे पाद को बताता है ॥ ३६ ॥

भावार्थ—मनुष्य सावित्री के तीसरे पाद के साथ सामवेद द्यौलोक आदित्य आदि के विचार से अपने और सन्तान आदि के जीवन को सुदृढ़ करे ॥ ३६ ॥

करिडका ३७ ॥

तेन ह वा एष विदुषा ब्रह्मणेन ब्रह्माभिपन्नं असितं परामृष्टं १, ब्रह्मणाऽऽकाशमभिपन्नं असितं परामृष्टमा २, काशेन वायुमभिपन्नो असितः परामृष्टो ३, वायुना ज्योतिरभिपन्न असितं परामृष्टं ४, ज्योतिषाऽपोऽभिपन्ना असिताः परामृष्टा ५, अग्निर्भूमिरभिपन्ना असिता परामृष्टा ६, भूम्याऽन्नमभिपन्नं असितं परामृष्टं ७, मन्नेन प्राणोऽभिपन्नो असितः परामृष्टः ८, प्राणेन मनोऽभिपन्नं असितं परामृष्टं ९, मनसा वागभिपन्ना असिता परामृष्टा १०, वाचा वेदा अभिपन्ना असिताः परामृष्टा ११, वेदैर्यज्ञोऽभिपन्नो असितः परामृष्ट १२, स्तानि ह वा एतानि द्वादशमहाभूतान्येव विधिप्रतिष्ठितानि तेषां यज्ञ एव परादूर्ध्यः ॥ ३७ ॥

सूर्यम् (रश्मीन्) अश्नोतेरश्च । उ० ४ । ४६ । अशूङ् व्याप्तौ—मि, धातो रशा देशः । किरणान् । अन्यद्गतम् ॥

वेद सब ओर से पाये गये, असे गये और प्रधानता से छूये गये हैं । ११ ।
(वेदैः यज्ञः अभिपन्नः असितः परामृष्टः) वेदों करके यज्ञ [देवपूजा, संगति-
करण और दान व्यवहार] सब ओर से घायी गया, असा गया और प्रधानता
से छूआ गया है । १२ । (तानि ह वै एतानि द्वादश महाभूतानि एवं विधि-
प्रतिष्ठितानि तेषां यज्ञः एव परादूर्ध्यः) यही बारह महातत्त्व इस प्रकार
विधान के साथ उहरे हुये हैं, उनमें यज्ञ ही अति श्रेष्ठ है ॥ ३७ ॥

भावार्थ—ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्म आदि बारह तत्त्वों के यथावत् ज्ञान से
परम गति पाता है ॥ ३७ ॥

कण्डिका ३८ ॥

तं ह स्मैतमेवं विद्वांसो मन्यन्ते विद्मन्नमिति याथातथ्यमविद्वांसोऽयं
यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितो १, वेदा वाचि प्रतिष्ठिता २, वाक् मनसि प्रतिष्ठिता ३,
मनः प्राणे प्रतिष्ठितं ४, प्राणोऽन्ने प्रतिष्ठितो ५, ऽन्नं भूमौ प्रतिष्ठितं ६, भूमिरप्सु
प्रतिष्ठिता ७, अपो ज्योतिषि प्रतिष्ठिता ८, ज्योतिर्वायौ प्रतिष्ठितं ९, वायुरा-
काशे प्रतिष्ठितः १०, आकाशं ब्रह्मणि प्रतिष्ठितं ११, ब्रह्म ब्राह्मणे ब्रह्मविदि प्रति-
ष्ठितं १२, यो ह वा एवं विन् स ब्रह्मवित्, पुण्यां च कीर्त्तिं लभते सुरभींश्च
गन्धान् सोऽपहतयाप्मानस्त्यश्रियमश्नुते य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेतां वेदानां
मातरं सावित्रीसम्पदमुपनिषदमुपास्त इति ब्राह्मणम् ॥ ३८ ॥

कण्डिका ३८ ॥ दूसरे प्रकार से पूर्वोक्त बारह तत्त्वों का विचार ॥

(तं ह स्म एतम् एवं विद्वांसः मन्यन्ते विद्मन्नमिति याथातथ्यम्
अविद्वांसः) उस ही [यज्ञ] को इस प्रकार जानने वाले मानते हैं—हम इस
[यज्ञ] को जानते हैं—सचमुच वे अज्ञानी हैं । (अयम् यज्ञः वेदेषु प्रतिष्ठितः)
यह यज्ञ [देवपूजा संगतिकरण दानव्यवहार] वेदों में उहारा हुआ है । १ ।
(वेदाः वाचि प्रतिष्ठिताः) वेद वाणी में उहरे हुये हैं । २ । (वाक् मनसि
प्रतिष्ठिता) वाणी मन में उहरी हुई है । ३ । (मनः प्राणे प्रतिष्ठितम्) मन
प्राण में उहारा हुआ है । ४ । (प्राणः अन्ने प्रतिष्ठितः) प्राण अन्न में उहारा हुआ

३८—(तम्) पूर्वोक्तं यज्ञम् (विद्वांसः) जानन्तः (मन्यन्ते) जानन्ति;
(विद्मन्नमिति) वयं जानीमः (एतम्) यज्ञम् (याथातथ्यम्) यथातथा—स्यञ् ।
वास्तविकं पदार्थम् (अविद्वांसः) अविदन्तः (पुण्याम्) पवित्राम् (सुरभीन्)

है । ५ । (अन्नं भूमौ प्रतिष्ठितम्) अन्न भूमि में ठहरा हुआ है । ६ । (भूमिः
अप्सु प्रतिष्ठिता) भूमि जल में ठहरी हुई है । ७ । (आपः ज्योतिषि प्रति-
ष्ठिताः) जल प्रकाश में ठहरा हुआ है । ८ । (ज्योतिः वायौ प्रतिष्ठितम्)
प्रकाश पवन में ठहरा हुआ है । ९ । (वायुः आकाशे प्रतिष्ठितः) पवन आकाश
में ठहरा हुआ है । १० । (आकाशम् ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्) आकाश ब्रह्म
[परमात्मा] में ठहरा हुआ है । ११ । (ब्रह्म ब्रह्मविदि ब्राह्मणे प्रतिष्ठितम्)
ब्रह्म वेद जानने वाले ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] में ठहरा हुआ है । १२ । (यः ह वै एष
वित् सः ब्रह्मवित्, पुण्यां च कीर्तिं सुरभीन् च गन्धान् लभते) जो ही ऐसा
जानने वाला है वह ब्रह्मज्ञानी है, और पवित्र कीर्ति और सुन्दर गन्धों [चन्द-
नादि] को पाता है । (सः अपहतपाप्मा अनन्त्यश्रियम् अश्नुते, यः एवं वेद,
यः च एवं विद्वान् एवम् एतां वेदानां मातरं सावित्रीसम्पदम् उपनिषदम्
उपास्ते इति ब्राह्मणम्) वह पाप से छूटा हुआ पुरुष अनन्त श्री [सेवनीय
सम्पत्ति] भोगता है जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा विद्वान् इस प्रकार से
इस वेदों की माता सावित्री रूप सम्पदा उपनिषद [ब्रह्मविद्या] को भजता
है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ३- ॥

भावार्थ—ईश्वर और उसके कर्मों को वेद द्वारा यथावत् जानकर ब्रह्म-
ज्ञानी बड़ा यश और आनन्द पाता है ॥ ३८ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका का कण्डिका ३७ से मिलान करके गायत्री
मन्त्र के अर्थों के साथ अपनी विचारशक्ति बढ़ाओ ॥

कण्डिका ३६ ॥

आपो गर्भं जनयन्तीरित्यपाङ्गर्भः पुरुषः स यज्ञोऽद्भिर्यज्ञः प्रणीयमानः
प्राङ्णायते, तस्मादाचमनीयं पूर्वमाहारयति स यदाचामति त्रिराचामति द्विः
परिशुम्भत्यायुरवरुह्य पाप्मानं निर्णुदत्युपसाद्य यजुषोद्धृत्य मन्त्रान् प्रयुज्यावसाय
प्राचीः शाखाः सन्धायां निरङ्गुष्ठे पाणावमृतमस्यमृतोपस्तरणमस्यमृताय त्वोप-
स्तरणामीति पाणाबुदकमानोय जीवास्थेति सूक्तेन त्रिराचामति । स यत्पूर्वमाचा-
मति सप्त प्राणांस्तानेतेनास्मिन्नप्याययति या ह्येमा वाह्याः शरीरान्मात्रास्तद्यथै-

मनोहरान् (अपहतपाप्मा) विनष्टपापः (अनन्त्यश्रियम्) अनन्तसेवनीयसम्प-
त्तिम् (अश्नुते) प्राप्नोति (सावित्रीसम्पदम्) गायत्रीरूपसम्पत्तिम् (उपनि-
षदम्) ब्रह्मविद्याम् (उपास्ते) भजते । सेवते ॥

तदग्निं वायुमादित्यं चन्द्रमसमपः पशूनन्यांश्च प्रजास्तानेतेनास्मिन्नाप्याययत्यापोऽमृतम् । स यद् द्वितीयमाचामति सतापानांस्तानेतेनास्मिन्नाप्याययति या ह्येमा वाह्याः शरीरान् मात्रा स्तद्यथैतत्पौरुमासीमष्टकाममावास्यां श्रद्धां दीक्षां यद्दक्षिणास्तानेतेनास्मिन्नाप्याययत्यापोऽमृतम् । स यत्तृतीयमाचामति सप्त ध्यानांस्तानेतेनास्मिन्नाप्याययति या ह्येमा वाह्याः शरीरान्मात्रा स्तद्यथैतत् पृथिवीमन्तरोक्षं दिव ब्रह्मवः एतूनात्सवान् संवत्सरांस्तानेतेनास्मिन्नाप्याययत्यापोऽमृतं पुरुषो ब्रह्माथः प्रियनिगमो भवति तस्माद् द्वै विद्वान् पुरुषमिदं पुण्डरीकमिति प्राण एष स पुरि शेते स पुरि शेते इति । पुरिशयं सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । स यत्पूर्वमाचामति पुरस्ताद्धोमांस्तेनास्मिन्नवरुन्धे स यद् द्वितीयमाचामत्याज्यभागौ तेनास्मिन्नवरुन्धे, स यत्तृतीयमाचामति संस्थितहोमांस्तेनास्मिन्नवरुन्धे, स यद् द्विः परिशुम्भति तत्समित्संघर्हिः, स यत्सर्वाणि खानि सर्वं देहमाप्याययति यच्चान्यदातारं मन्त्रकार्यं यज्ञे स्कन्दति सर्वन्तेनास्मिन्नवरुन्धे, स यदौ पूर्वान् मन्त्रान् प्रयुङ्क्त आसर्वमेधावेते क्रतव एत एवास्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु वेदेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु सत्त्वेषु कामचारः कामविमोचनं भवत्यर्द्धं च न प्रमीयते य एवं वेद ।

तदप्येतद्ब्रुवोक्तम् । आपो भृग्वङ्गिरो रूपमापो भृग्वङ्गिरोमयम् । सर्वमापोमयं भूतं सर्वं भृग्वङ्गिरोमयम् । अन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसोऽनुगाः ।

अपां पुष्पं मूर्तिराकाशं पवित्रमुत्तमित्याचम्याभ्युक्ष्यात्मानमनुमन्त्रयत् इन्द्रं जीवेति ब्राह्मणम् ॥ ३६ ॥

इति अथर्ववेदे गोपथब्राह्मणपूर्वभागे प्रथमः प्रपाठकः ॥ १ ॥

कण्डिका ३६ ॥ आचमन के विधान और लाभ ॥

(आपो गर्भं जनयन्तीः इति—अथ० ४ । २ । =) गर्भ [अर्थात् बालक रूप संसार] को उत्पन्न करते हुये जल [इस मन्त्र से सिद्ध होता है कि] (अपां गर्भः पुरुषः सः यज्ञः) जल का गर्भ [अन्तर्यामी] पुरुष [ब्रह्म] है वही यज्ञ है । (अङ्गिः प्रणीयमानः यज्ञः प्राङ्णायते = णीयते, तस्मात् आचमनीयम् पूर्वम् आहारयति) जल के साथ चलाया हुआ यज्ञ पहिले लाया जाता

३६—(जनयन्तीः) जनयतेः शतृ । जसि पूर्वसवर्णदीर्घः । जनयन्त्यः । उत्पादयन्त्यः (प्रणीयमानः) प्रवर्तमानः (प्राङ्णायते) लेखप्रमादः । प्राङ्णीयते । प्रा + अञ्च् गतिपूजनयोः—किन् + णीञ् प्रापणे कर्मणि लट् । प्राङ् पूर्व

है, इस लिये आचमन योग्य जल वह [वृन्धारी] पहिले विधि के साथ पीता है । (सः यत् आचामति त्रिः आचामति) वह जब आचमन करता है, तीन बार आचमन करता है, (द्विः परिशुम्भति) दो बार सजाता है [आगे देखा], (आयुः अवरुह्य पाप्मानं निर्गुदति) आयु पर चढ़ कर [नढ़ाकर] पाप को निकाल देता है । (यजुषा उपसाद्य मन्त्रान् उद्धृत्य प्रयुज्य अवसाय, प्राचीः शाखाः सन्धाय उ निरङ्गुष्टे पाणौ—अमृतम् अस्मि, अमृत उपस्तरणम् आस, अमृताय त्वा उप- स्तरणामि इति [ब्राह्मण वचनानि] पाणौ उदकम् आनीय—जीवाः स्थ इति सूक्तेन [अथ० १६ । ६६ । १—४], (त्रिः आचामति) देवपूजा के साथ पाम आकर, मन्त्रों को निकाल कर, प्रयोग में लाकर और निश्चय करके, और पुरानी शाखाओं [वेदव्याख्याओं] को मिला कर, अगूंठा छोड़ कर हाथ में— तू अमृत [मृत्यु से बचाने वाला जल] है, हे अमृत ! तू बहुत फैलाने वाला है, अमरपन के लिये तुझे फैलाता हूँ [पीता हूँ—इन तीन ब्राह्मण वचनों से] हाथ में जल लेकर—तुम जीव वाले हो—इस सूक्त से [चार मन्त्रों से] तीन बार आचमन करता है । (सः यत् पूर्वम् आचामति सप्त तान् प्राणान् एतेन अस्मिन् आप्याययति [ताः च अपि], यः हि शरीरात् वाह्याः एमाः मात्राः, तत् यथा एतत्, अग्निं वायुम् आदित्यं चन्द्रमसम् अपः अन्यान् पशून् च प्रजाः तान् एतेन अस्मिन् आप्याययति—आपः अमृतम्) वह जो पहिला आचमन करता है उन सात प्राणों [शरीर में भीतर जाने वाले जीवनवर्धक श्वासों] को इस [विधि] से इस [शरीर] में पुष्ट करता है [और उन मात्राओं को भी पुष्ट करता है] जो यह शरीर से बाहर चलती हुई मात्रायें हैं, सो जैसे यह हैं—अग्नि १ [अर्थात् शारीरिक, पार्थिव, समुद्रीय, गुप्त प्रकट विजुली आदि अग्नि विद्या] वायु २ [अर्थात् पवन विद्या, जैसे पवन क्या है और उसका

नीयते चाल्यते (आचमनीयम्) आचमनयोग्यं जलम् (आहारयति) विधि- पूर्वकं पिबति (परिशुम्भति) शुम्भ शोभायाम्—णिजर्थे । परिशुम्भयति । सर्वतः शोभयति (अवरुह्य) आरुह्य । दीर्घं कृत्वा (यजुषा) देवपूजनेन (उद्धृत्य) उत् + धृञ् धारणे वा हृञ् हरणे—ल्यप् । पृथक् कृत्वा (प्रयुज्य) प्रयोगे नीत्वा (अवसाय) अव + षा अन्तकर्मणि—ल्यप् । निश्चित्य (प्राचीः) पूर्वस्मिन्काले भवाः (शाखाः) वेदव्याख्याः (सन्धाय) सम + दधातेः—ल्यप् । संयुज्य (उ) चार्थे (अमृतम्) नास्ति मृतमरणयस्मात् तत् । जलम् (उपस्तरणम्) उप + हृष्यञ् विस्तारे आच्छादने च—ल्युट् । बहुविस्तारकम् (अमृताय) अमरणाय

प्रभाव सब जीवों, सब पृथिवी सूर्य आदि लोकों पर क्या है], सूर्य ३ [अर्थात् सूर्य विद्या, जैसे सूर्य का पृथिवी आदि लोकों और उनके पदार्थों से और उन सब का सूर्य लोक से क्या सम्बन्ध है], चन्द्रमा ४ [अर्थात् चन्द्र विद्या, जैसे उपग्रह चन्द्रमा अपने ग्रह पृथिवी पर किस सम्बन्ध से क्या प्रभाव करता है और अन्य चन्द्रमाओं का अन्य ग्रहों से क्या सम्बन्ध है], जल ५ [अर्थात् जल विद्या, जैसे जल क्या है और वह भूमण्डल, मेघमण्डल, सूर्यमण्डल आदि लोकों से क्या सम्बन्ध रखता है], जीव वाले पशु ६ [अर्थात् पशु विद्या, जैसे गौ घोड़ा आदि जीव पृथिवी लोक और दूसरे लोकों में कैसे उपकारी होते हैं], और प्रजाओं ७ [अर्थात् प्रजा की विद्या कि परमात्मा की सृष्टि में भूलोक, चन्द्रलोक, सूर्यलोक आदि के मनुष्य और जीवजन्तुओं का सम्बन्ध आपस में और दूसरे लोक वालों से क्या है]—इन सब को इस [विधि] से इस [शरीर] में पुष्ट करता है, [क्योंकि] जल अमृत है । (सः यत् द्वितीयम् आचामति सप्त तान् अपानान् एतेन अस्मिन् आप्यायति [ताः च अपि], याः हि शरीरात् बाह्याः एमाः मात्राः, तत् यथा एतत्, पौर्णमासीम् अष्टकाम् अमावास्यां श्रद्धां दीक्षां यज्ञं दक्षिणाः, तान् एतेन अस्मिन् आप्यायति—आपः अमृतम्) वह जो दूसरा आचमन करता है, उन सात अपानों [शरीर से बाहर निकलने वाले प्रवाहों] को इस [विधि] से इस [शरीर] में पुष्ट करता है [और उन मात्राओं को भी पुष्ट करता है] जो शरीर से बाहर चलती हुई मात्राये हैं, सो जैसे यह हैं—पौर्णमासी १, [अर्थात् पूर्णमासेष्टि, जिस में विचारा जाता है कि उस दिन चन्द्रमा पूरा क्यों दीखता है, पृथिवी, समुद्र आदि पर उसका क्या प्रभाव होता है], अष्टका २, [अष्टमी आदि तिथि का

(उपस्तृणामि) अधिकं विस्तारयामि । आचामामि । (एतेन) अनेन विधिना (अस्मिन्) दृश्यमाने शरीरे (एताः) अर्त्तिस्तुसुहु० । उ० १ । १४० । इण् गतौ—मन्, टाप् । गमनशीला (अग्निम्) अग्निविद्याप्रकाशम् (वायुम्) पवनविद्याम् (आदित्यम्) आदीप्यमानसूर्यविद्याम् (चन्द्रमसम्) आह्लादकचन्द्रविद्याम् (अपः) व्यापकजलविद्याम् (पशून्) गवाश्वादिजीवान् (अन्यान्) माछाससिसूम्यो यः । उ० ४ । १०६ । अन प्राणने—यप्रत्ययः । प्राणिनः (आप्यायति) आ + प्यैङ् वृद्धौ—णिच् । समन्तात् वर्धयति । पोषयति (अपानान्) प्रश्वासान् । शरीरबहिर्गामिनो दोषनाशकान् वायून् (पौर्णमासीम्) पौर्णमास—अण्, ङीप् । पूर्णमासेष्टिम् । पूर्णचन्द्रसम्बन्धिनीं विद्याम् (अष्ट-

यज्ञ, जिसमें विद्वान् पितर लोग विचारते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा से इन तिथियों में सूर्य और चन्द्र आदि लोकों का क्या प्रभाव पड़ता है], अमावास्या ३, [अर्थात् दर्शष्टि, जिस में विचार होता है कि अमावस को सूर्य और चन्द्रमा एक राशि में आकर क्या प्रभाव डालते हैं], श्रद्धा ४, [अर्थात् ईश्वर और वेदों में विश्वास], दीक्षा ५, [नियम और वृत पालन को शिक्षा], यज्ञ ६, [परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार, परस्पर संयोग और विद्या आदि का दान], और दक्षिणायं ७, [यज्ञ समाप्ति पर विद्वानों के सत्कार के लिये द्रव्य]— इन सब को इस [विधि] से इस [शरीर] में पुष्ट करता है, [क्योंकि] जल अमृत है । (सः यत् तृतीयम् आचामति सप्त तान् व्यानान् एतेन अस्मिन् आप्याययति [ताः च अपि] याः हि शरीरात् बाह्याः एमाः मात्राः, नत् यथा एतत्, पृथिवीम् अन्तरीक्षं दिवं नक्षत्राणि ऋतून् आर्त्तवान् संवत्सरान् तान् एतेन अस्मिन् आप्याययति—आपः अमृतम्) वह जो तीसरा आचमन करता है, उन सात व्यानों [शरीर में फैले हुये पवनों] को इस [विधि] से इस [शरीर] में पुष्ट करता है [और उन मात्राओं को भी पुष्ट करता है] जो शरीर से बाहर चलती हुई मात्रायें हैं, सो जैसे यह हैं—पृथिवी १, [भूगर्भ विद्या, राज्य पालनादि विद्या], अन्तरिक्ष २, [वायुमण्डल, मेघमण्डल आदि की विद्या], प्रकाश ३, [प्रकाश के ताप, आकर्षण और फैलाव आदि की विद्या], नक्षत्रों ४, [तारागणों के परस्पर आकर्षण रखने, अपने अपने मार्ग पर चलने उछलने डूबने आदि की विद्या], ऋतुओं ५, [वसन्त आदि ऋतुओं के क्रम और कारण

काम्) इष्यशिभ्यां तकन् । उ० ३ । १४८ । अशुङ् व्यातौ अश भोजने वा—तकन, टाप् । अष्टका पितृदेवत्ये । वा० पा० ७ । ३ । ४५ । इत्वाभावः । अष्टम्यादितिथौ पितृणां समागमेन ज्योतिषविद्याविचारम् (अमावास्याम्) अमा सह वसतः चन्द्राकौ यत्र । अमावस्यदन्यतरस्याम् । पा० ३ । १ । १२२ । अमा + यस निवासे—एयत्, टाप् । कृष्णपक्षशेषतिथिम्, तदिनेचन्द्राकविकराशिस्थौ भवतः । दर्शष्टिम् (श्रद्धाम्) ईश्वरवेदयानिश्चयम् (दीक्षाम्) नियमव्रतयोः शिक्षाम् (यज्ञम्) यज्ञदेवपूजासंगतिकरणदानेषु—नङ् । परमेश्वरविद्वत्सत्कार—परस्परसंयोग—विद्यादिदानव्यवहारम् (दक्षिणाः) यज्ञसमाप्तौ विद्वद्भ्यः सत्कारद्रव्याणि (व्यानान्) सर्वशरीरव्यापकान् वायून् (पृथिवीम्) भूगर्भविद्यां राज्यपालनादिविद्यां च (अन्तरीक्षम्) मध्यलोकस्थवायुमण्डलमेघमण्डलादिविद्याम् (दिवम्) सूर्यतापाकर्षणविस्तारादिविद्याम् (नक्ष-

आदि की विद्या], आर्त्तवों ६, [ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थों, फूल फल आदि की उत्पत्ति और उपहार की विद्या], और संबत्सरो ७, [वर्ष में ऋतु महीने आदि कैसे बसते हैं और सब मनुष्य आदि प्राणी कैसे उसका उपभोग करते हैं, इसकी विद्या]—इन सब को इस [विधि] से इस [शरीर] में पुष्ट करता है, [क्योंकि] जल अमृत है । (पुरुषः ब्रह्म, अथ आप्रियनिगमः भवति) पुरुष ब्रह्म है और यह सब प्रकार प्रिय निगम [वैदिक सिद्धान्त] है, (तस्मात् वै विद्वान् पुरुषम् इदम् पुण्डरीकम् इति [आचष्टे] इस लिये ही विद्वान् मनुष्य पुरुष-को ऐश्वर्यवान् शुद्धस्वरूप ब्रह्म [कहता है], (एषः सः प्राणः पुरि शेते सः पुरि शेते इति) यही प्राण शरीर में रहता है, यही शरीर में रहता है । (पुरिशयं सन्तं प्राणं पुरुषः इति आचक्षते) शरीर में वर्तमान रहते हुये प्राण [जीवन साधन] को पुरुष [आत्मा वा परमात्मा] कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट प्रलय में वर्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वर्तमान अवस्था] के द्वेषी (भवन्ति) होते हैं [देखो करिडका १ तथा ७] ।

[वही प्रकरण दूसरे प्रकार कहा जाता है] (सः यत् पूर्वं आचामति पुरस्ताद्धोमान् तेन अस्मिन् अवरुन्धे, वह जो पहिला आचमन करता है पुरस्तात् हमों [पहिले होम विशेषों के फलों] को उस [विधि] से इस [शरीर] में

प्राणि) एतन् गतो—अत्रन् । गतिशीलानां तारागणानां परस्पराकर्षणादिज्ञानम् (ऋतून्) वसन्तादानां क्रमकारणादिविधानम् (आर्त्तवान्) ऋतु—अण् । ऋतु-भवानां पुष्पफलादिपदार्थाणां ज्ञानम् (संबत्सरान्) संपूर्वाच्चित् । उ० ३ । ७२ सम् + वस निवासे—सरन् । संवसन्ति वसन्तादयो यत्र । कालापभोगविद्याः (पुरुषः) पुरः कृषन् । उ० ४ । ७४ पुर अग्रगमने—कृषन् । पुरुषः पुष्पादः पुरिशयः पूरयतेर्वा पूरयत्यन्तरित्यन्तरंपुरुषमभिप्रेत्य—निरु० । २ । ३ । अग्रगामी प-मात्मा (इदम्) इन्दः कमिन्नलोपश्च । उ० ४ । १५७ । इदि परमैश्वर्य—कमिन्, नलोपः । परमैश्वर्ययुक्तम् (पुण्डरीकम्) फर्फरीकादयश्च । उ० ४ । २० । पुण शब्दो धर्मकृत्यकरणे च—ईकन्, पृषोदरादित्वात् साधुः । शुद्धस्वरूपं ब्रह्म । (पुरिशयम्) पुरि + शीङ् शयने—अच् पुरि शरीरे वर्तमानम् (पुरस्ताद्धोमान्) होमविशेषान्, तेषां फलम् (अवरुन्धे) प्राप्नोति (आज्यभागौ) अग्नेश्चत्त-दक्षिणभागयोर्घृताहुतिद्वयम् (संस्थितहोमान्) यज्ञ विशेषान् (समित्संवर्हिः)

पाता है। (सः यत् द्वितीयम् आचामति आज्यभागौ तेन अस्मिन् अवरुन्धे) वह जो दूसरा आचमन करना है दो आज्य भागों [अग्नि के उत्तर और दक्षिण भाग में घी की दो आहुति विशेष के फल] को उस [विधि] से इस [शरीर] में पाता है। (सः यत् तृतीयम् आचमति संस्थित होमान् तेन अस्मिन् अवरुन्धे) वह जो तीसरा आचमन करता है संस्थितहोमों [अन्तिम होम विशेषों के फल] को उस [विधि] से इस [शरीर] में पाता है। (सः यत् द्विः परिशुम्भति तत् समित्संवर्हिः) वह जो दो बार सजाता है वह समिधा [काष्ठ] और विधिपूर्वक अग्नि है, (सः यत् सर्वाणि खानि सर्वं देहम् आप्याययति, यत् च अन्यत् आतारं मन्त्रकार्यं यज्ञे स्कन्दति सर्वं तेन अस्मिन् अवरुन्धे) वह जो सब इन्द्रियों और सब देह को पुष्ट करता है और जो कोई दूसरा सब प्रकार तराने वाला मन्त्र कार्य यज्ञ में आ जाता है, उस सब को उस [विधि] से इस [शरीर] में पाता है। (सः यत् ओं पूर्वान् मन्त्रान् प्रयुङ्क्ते आसर्वमेधात् अस्य एते एते क्रतवः) वह जो ओम् को पहिले कह के मन्त्रों को प्रयोग में लाता है सर्वमेध यज्ञ [सब पदार्थों पर धारणावती बुद्धि वाले यज्ञ] तक उस के यही यही सब कर्म हाते हैं, (सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु वेदेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु सत्त्वेषु [अस्य] कामचारः कामविमोचनं भवति अर्द्धे च न प्रमीयते, यः एवं वेद) और सब लोकों में, सब देवों [दिव्य पदार्थों] में, सब वेदों में, सब तत्त्वों में, और सब जीवों में [इसका] सुकामना से विचरना और कुकामना का परित्याग होता है, और वह खण्डित आयु में नहीं मरता है, जो ऐसा जानता है।

यज्ञकाष्ठं विधानपूर्वकोऽग्निश्च (खानि) इन्द्रियाणि (आतारम्) आ + तृ
तारणे—घञ् । समन्तात् तारकमुपकारकम् (स्कन्दति) स्कदिर् गतिशोष-
शयोः । गच्छति (आसर्वमेधात्) आङ् मर्यादायाम् । सर्वपदार्थेषु मेधा धार-
णावती बुद्धिर्यस्मिन् स सर्वमेधो यज्ञः । तस्य समाप्तिपर्यन्तम् (क्रतवः) कृजः
कतुः । उ० १ । ७६ । करोतः—कतुः । क्रतुः कर्मनाम—निघ० २ । १ । प्रज्ञानाम
निघ० ३ । ६ । कर्माणि (एते एते) अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते—निघ० १० ।
४२ । इति द्वित्वम् (देवेषु) दिव्यपदार्थेषु (भूतेषु) तत्त्वेषु (सत्त्वेषु)
जावेषु (कामचारः) स्वकामेन विचरणम् (कामविमोचनम्) कुकामपरि-
त्यागः (अर्द्धे) ऋधु वृद्धौ—घञ् । खण्डिते जीवने (प्रमीयते) मीङ् प्राण-
वियोगे = मरणे म्रियते (पुष्यम्) पुष्य विकसने = फुल्लने—अच् । विकाशः ।
विशिष्टप्रकाशः (मूर्तिः) मुच्छा मोहवृद्धयोः—क्तिन् । न ध्याख्यापृमूर्च्छिमदाम् ।

(तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम्) यह भी इस ऋचा [ब्राह्मण वचन] करके कहा गया है । (आपः भृग्वङ्गिरोरूपम् आपः भृग्वङ्गिरोमयम् । सर्वम् आपोमयं सर्वं भूतं भृग्वङ्गिरोमयम् एते त्रयः वेदाः भृगून् अङ्गिरसः अन्तरा अनुगाः) व्यापक जल प्रकाशमान ज्ञानवाले परमात्मा का रूप है, व्यापक जल प्रकाशमान परमात्मा से परिपूर्ण है । सब जगत् जलमय [जल से परिपूर्ण] है और सब प्राणीमात्र प्रकाशमान ज्ञानवाले परमात्मा से परिपूर्ण है । और यह तीनों वेद [अर्थात् कर्म उपासना ज्ञान] प्रकाशमान ज्ञानवाले [चारों वेदों] के भीतर साथ साथ चलने वाले हैं । [यह षट्पदा अनुष्टुप् छन्द ब्राह्मण है, इस के पिछले चार पाद कण्डिका २६ में आये हैं, (अनुगाः) के स्थान पर वहां (श्रिताः) पद है ॥

(अपां पुष्पं मूर्तिः आकाशम् पवित्रम् उत्तमम् इति आचम्य अभ्युक्ष्य— इन्द्र जीव—आत्मानम् अनुमन्त्रयते इति (ब्राह्मणम्) व्यापक जल का विकाश और वृद्धि, आकाश [के समान व्यापक] पवित्र और उत्तम [ब्रह्म] है—इस [ब्राह्मण वचन] से आचमन करके और मार्जन करके—इन्द्रजीव—अथर्व० १६ । ७० । १ । इस मन्त्र से अपने को मन्त्र के अनुकूल बनाता है, यह ब्राह्मण है ॥३६॥

भावार्थ—वृत्तधारी पुरुष आचमनादि क्रिया से स्वस्थचित्त होकर अपने शिर के सात छिद्रों से संबन्ध वाले सात प्राण, सात अपान और सात व्यान वायु को वश में करके अग्नि, वायु आदि इस सप्तक, पौर्णमासी, अष्टका आदि इस सप्तक, तथा पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि इस सप्तक और दूसरी पदार्थ विद्याओं से उपकार लेकर संसार की भलाई करता है । अथर्व० १० । २ । ६ में वर्णन है—(कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कणाविमौ नासिके चक्षणी मुखम् । येषां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्) कर्ता प्रजापति ने [प्राणी के] मस्तक में सात गोलक खादे, यह दोनों कान, दो नथने, दोनों आंखें और एक मुख । जिन के विजय की महिमा में चौपाये और दोपाये जीव अनेक प्रकार से सन्मार्ग चलते हैं ॥ ३६ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका का मिलान अथर्ववेद का० १५ सूक्त १५, १६ और १७ से करो वहां मन्त्रों और भाष्य में प्राण, अपान और व्यान तथा अग्नि आदि पदार्थों का सविस्तार वर्णन है ॥

पा० ८ । २ । ५७ । तकारस्य नत्वाभावः । वृद्धिः । आकारः । प्रतिमा (अभ्युक्ष्य) मार्जनं कृत्वा (अनुमन्त्रयते) मन्त्रानुकूलं करोति ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।

१—आपो वत्सं जनयन्ती गर्भं मग्ने समैरयन् । तस्योत् जायमानस्योत्सव
आसीद्विरग्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ अथ० ४ । २ । ८ । ऋ० १० ।
१२१ । ७ । यजु० २७ । २५ । (अग्ने) पहिले ही पहले (वत्सम्) निवास स्थान
संसार को वा बालक रूप संसार को (जनयन्तीः) उत्पन्न करते हुये (आपः)
जलधाराओं [वा तन्मात्राओं] ने (गर्भम्) बालक [रूप संसार] को (समैर-
यन्) यथावत् प्रकट किया, (उत) और (तस्य) उस (जायमानस्य) उत्पन्न
होते हुये [बालक, संसार] का (उत्सवः) जरायु [गर्भ की भिल्ली] (हिरग्ययः)
तेजोमय परमात्मा (आसीत्) था, उस (कस्मै) सुखदायक प्रजापति परमे-
श्वर की (देवाय) दिव्य गुण के लिये (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम)
हम सेवा किया करें ॥ [ब्राह्मण के (गर्भ) के स्थान पर वेद में (वत्सं) है,
दोनों पदों का अर्थ “बालक” है] ॥

२—जीवा स्थं जीव्यासुं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥ १ ॥ उपजीवा स्थोप
जीव्यासुं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥ २ ॥ संजीवा स्थ संजीव्यासुं सर्वमायुर्जी-
व्यासम् ॥ ३ ॥ जीवला स्थं जीव्यासुं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥ ४ ॥ अथ० क०
१६ । सू० ६६ । [हे विद्वानो !] तुम (जीवाः) जीने वाले (स्थ) हो, (जी-
व्यासम्) मैं जीता रहूँ, (सर्वम्) सम्पूर्ण (आयुः) आयु (जीव्यासम्)
मैं जीता रहूँ ॥ १ ॥ (हे विद्वानो !) तुम (उपजीवाः) आश्रय से जीने वाले
(स्थ) हो, (उपजीव्यासम्) मैं सहारे से जीता रहूँ, (सर्वम्) सम्पूर्ण (आयुः)
आयु (जीव्यासम्) मैं जीता रहूँ ॥ २ ॥ [हे विद्वानो !] तुम (संजीवाः)
मिलकर जीने वाले (स्थ) हो, (संजीव्यासम्) मैं मिलकर जीता रहूँ, (सर्वम्)
सम्पूर्ण (आयुः) आयु (जीव्यासम्) मैं जीता रहूँ ॥ ३ ॥ [हे विद्वानो !] तुम
(जीवलाः) जीवनदाता (स्थ) हो (जीव्यासम्) मैं जीता रहूँ, (सर्वम्)
सम्पूर्ण (आयुः) आयु (जीव्यासम्) मैं जीता रहूँ ॥ ४ ॥

३—इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहम् । सर्वमायुर्जीव्यासम्
॥ १ ॥ अथ० क० १६ सू० ७० । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम पेश्वर्य वाले मनुष्य]
(जीव) तु जीता रहे, (सूर्य) हे सूर्य ! [सूर्य समान तेजस्वी] (जीव) तू
जीता रहे, (देवाः) हे विद्वानो ! तुम (जीवाः) जीने वाले [हो], (अहम्)

मैं (जीव्यासम्) जीता रहूं, (सर्वम्) संपूर्ण (आयुः) आयु (जीव्यासम्) मैं जीता रहूं ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीस्याजीराव गायक-
घाड़ाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्व-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्रीपण्डित छेमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेद भाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्ये पूर्वभागे प्रथमप्रपाठकः समाप्तः ।

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे चैत्रभासे शुक्लचतुर्दश्यां तिथौ १९८० [अशी-
त्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-बीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि
श्री राजराजेश्वर पञ्चमजार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात् ॥

मुद्रितम्—अष्टकृष्ण १२ संवत् १९८१ वि० ता० ३० मई १९२४ ई० ॥

अथ द्वितीयः प्रपाठकः ॥

कण्डिका १ ॥

श्री ब्रह्मचारीणां चरति रोदसी उभे इत्याचार्य्यमाह । तस्मिन् देवाः
सम्मनसा भवन्तीति वायुमाह स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तर समुद्रमित्यादित्यमाह
दीक्षता दीर्घश्मश्रुषेण दीक्षित एष दीर्घश्मश्रुषेण एवाचार्य्यस्थाने तिष्ठन्नाचार्य्य
इति स्तूयते, वैद्युनस्थाने तिष्ठन् वायुरिति स्तूयते, द्यौस्थाने तिष्ठन्नादित्य इति
स्तूयते ।

तदप्येतद्ब्रह्मं ब्रह्मचारीणां चरति ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ ब्रह्मचारी की महिमा ॥

(ओम् ब्रह्मचारी उभे रोदसी इषान् चरति [अथ० ११ । ५ । १ पाद
१]—इति आचार्य्यमाह) ओम् [रक्षक परमात्मा है], ब्रह्मचारी [वेद-
पाठी वीर्यनिग्राही पुरुष] दोनों सूर्य और पृथिवी को लगातार खोजता हुआ
विचरता है—यह आचार्य्य को वह [ईश्वर] कहता है । (तस्मिन् देवाः सम्मनसा
भवन्ति [उक्त मन्त्र पाद २]—इति वायुम् आह) उस [ब्रह्मचारी]

१—(ब्रह्मचारी) ब्रह्म + चर गतिभक्षणयोः— गिनि । ब्रह्मणे वेदाद्य
वीर्यनिग्रहाय च चरणशीलः पुरुषः (इषान्) इष आमीक्षणे—शतृ । पुनः

में देवता [विजय चाहने वाले पुरुष] एकमन होते हैं—यह पवन [के समान पुरुष] को वह कहता है । (सः सद्यः पूर्वस्मात् उत्तरं समुद्रम् एति [अथ० ११ । ५ । ६ पाद ३)—इति आदित्यम् आह) वह अभी पहिले [समुद्र अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम] से पिछले समुद्र [गृहाश्रम] को प्राप्त होता है—यह आदित्य [सूर्यसमान ब्रह्मचारी] को वह कहता है । (दीक्षितः दीर्घश्मश्रुः [अथ० ११ । ५ । ६ पाद २]—एषः दीक्षितः एषः दीर्घश्मश्रुः, एषः एव (आचार्यस्थाने तिष्ठन् आचार्यः इति स्तूयते), वह दीक्षा पाये हुये [नियम बत करता हुआ] बड़ी बड़ी डाढ़ी मूछ वाला है—यह दीक्षा पाये हुये, यह बड़ी बड़ी डाढ़ी मूछ वाला, यही [ब्रह्मचारी] आचार्य के पद पर ठहरा हुआ, यह आचार्य है—ऐसा स्तुति किया जाता है, (वैद्युतस्थाने तिष्ठन् वायुः इति स्तूयते) बिजुली के स्थान [अति वेग] में ठहरा हुआ वह वायु [पवन के समान शीघ्रगामी] है—ऐसा स्तुति किया जाता है, (द्यौस्थाने तिष्ठन् आदित्यः इति स्तूयते ।) प्रकाश के स्थान [ज्ञान के प्रकाश] में ठहरा हुआ वह आदित्य [सूर्य समान तेजस्वी] है—ऐसा स्तुति किया जाता है ।

(तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम्—ब्रह्मचारी इत्यन् [अथ० ११ । ५ । १ पाद १]—इति ब्राह्मणम्) यह भी इस ऋचा करके कहा गया है—ब्रह्मचारी लगातार खोजता हुआ—यह ब्राह्मण है ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी वेदाध्ययन और इन्द्रिय दमनरूप तपोबल से सब सूर्य, पृथिवी आदि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों का जानकर और उनसे उपकार लेकर संसार को सुखी करता है ॥ १ ॥

टिप्पणी १—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थसहित लिखे जाते हैं ।

१—ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति । स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यांश्च तर्पसा पिपति ॥ अथ० ११ । ५ । १ ।

पुनरन्विच्छन् (चरति) विचरति । प्रवर्तते (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (आह) ईश्वरो ब्रवीति । (देवाः) विजगीषवः (सम्मनसः) समानमनस्काः (वायुम्) वायुतुल्यस्वभावयुक्तम् (सद्यः) तत्क्षणम् (पूर्वस्मात्) प्रथमसमुद्ररूपाद् ब्रह्मचर्याश्रमात् (उत्तरम्) अनन्तरम् (समुद्रम्) गृहाश्रमरूपं समुद्रम् (आदित्यम्) सूर्यतुल्यतेजस्विनम् (दीक्षितः) प्राप्तदीक्षः । धृतनियमः (दीर्घश्मश्रुः) लम्बमानमुखस्थलोमा (वैद्युतस्थाने) वायुतुल्यवेगस्थाने (द्यौस्थाने) द्युस्थाने । ज्ञानप्रकाशपदे (स्तूयते) प्रशस्यते ॥

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी [वेदपाठी और वीर्यनिग्राही पुरुष] (उभे) दोनों (रोदसी) सूर्य और प्रथवी को (इष्णुन्) लगातार खोजता हुआ (चरति) विचरता है, (तस्मिन्) उस [ब्रह्मचारी] में (देवाः) विजय चाहने वाले पुरुष (संमनसः) एक मन (भवन्ति) होते हैं । (सः) उस ने (पृथिवीम्) पृथिवी (च) और (दिवम्) सूर्य लोक को (दाधार) धारण किया है [उपयोगी बनाया है], (सः) वह (आचार्यम्) आचार्य [साङ्गोपाङ्ग वेदों के पढ़ाने वाले पुरुष] को (तपसा) अपने तप से (पिपति) परिपूर्ण करता है ॥

२—ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः काष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घशमश्रुः ।
स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्तसंगृभ्य मुहुंराचरिक्तत् ॥ अथ० ११
। ५ । ६ ॥ (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (समिधा) [विद्या के] प्रकाश से (समिद्धः) प्रकाशित, (काष्णम्) कृष्ण मृग का चर्म (वसानः) धारण किये हुये (दीक्षितः) दीक्षित होकर [वृत्त धारण करके] (दीर्घशमश्रुः) बड़े बड़े डाढ़ी मूछ रखाये हुये (एति) चलता है । (सः) वह (सद्यः) अभी (पूर्वस्मात्) पहिले [समुद्र] से [अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम से] (उत्तरम् समुद्रम्) पिछले समुद्र [गृहाश्रम] को (एति) प्राप्त होता है और (लोकान्) लोगों को (संगृभ्य) संग्रह करके (मुहुः) बारंबार (आचरिक्तत्) अतिशय करके पुकारता है ॥

टिप्पणी २—भगवान् पतञ्जलि कहते हैं—[ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्य-
लाभः—योगदर्शन, पाद २ सूत्र ३८] ब्रह्मचर्य [वेदों के विचार और जिते-
न्द्रियता] के अभ्यास में वीर्य [वीरता अर्थात् धैर्य और शरीर, इन्द्रिय और
मन के निरतिशय सामर्थ्य] का लाभ होता है ॥

टिप्पणी ३—भगवान् मनु ने आचार्य का लक्षण किया है—[उपनीय
तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते—
मनु० अध्याय २ श्लोक १४०] जो द्विज [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,] शिष्य का
उपनयन करके कल्प [यज्ञ आदि के विधान] और रहस्य [उपनिषद् आदि
ब्रह्मविद्या] के साथ वेद पढ़ावे, उसको आचार्य कहते हैं ॥

करिडका २ ॥

जायमानो ह वै ब्राह्मणः सप्तोन्द्रियारण्यभिजायन्ते, ब्रह्मवर्चसञ्च १, यशश्च
२, स्वप्नश्च ३, क्रोधश्च ४, श्लाघाश्च ५, रूपश्च ६, पुण्यमेव गन्धं सप्तमम् ७, । तानि
ह वा अस्यैतानि ब्रह्मचर्यमुपेतोऽपकामन्ति, मृगानस्य ब्रह्मवर्चसं १, गच्छत्या-

चार्यं यशो २, ऽजगरं स्वप्नो ३, वराहं क्रोधो ४, ऽपःश्लाघं ५, कुमारी रूप ६, श्रो-
षधिवनस्पतीन् पुण्यो गन्धः ७ । स यन्मृगाजिनानि वस्ते तेन तद् ब्रह्मवर्चसमव-
रुन्धे, यदस्य मृगेषु भवति स ह स्नातो ब्रह्मवर्चसी भवति । स यदहरहराचार्याय
कर्म करोति तेन तद्यशोऽवरुन्धे यदस्यांचार्यं भवति सह स्नातो यशस्वी
भवति । स यत्पुष्पु निद्रान्नियति तेन तं स्वप्नमवरुन्धे योऽयस्याजगरे भवति
त स्नातं स्वपन्तमाहुः स्वपितु मैत्रं बोबुधथेति । स क्रुद्धो वाचा न कञ्चन दिनस्ति
पुरुषात् पुरुषात् पापीयानिव मन्यमानस्तेन तं क्रोधमवरुन्धे योऽस्य वराहे
भवति तस्य ह स्नातस्य क्रोधा श्लाघीयसं विशन्ते । अथाद्भिः श्लाघ्यमानो न
स्नायात्तेन तं श्लाघामवरुन्धे, योऽस्याप्सु भवति स ह स्नातः श्लाघीयोऽग्नेभ्यः
श्लाघ्यते । अथैतद्ब्रह्मचारिणो रूपं यत्कुमार्यास्ताग्नाग्ना दीक्षेदेति धेति मुखं
त्रिपरिधापयेत्तेन तद्रूपमवरुन्धे, यदस्य कुमार्या भवति तं ह स्नातं कुमारीमिव
निरीक्षन्ते । अथैद्ब्रह्मचारिणः पुण्यो गन्धो य श्रोषधिवनस्पतीनां तासां पुण्यं
गन्धं प्रच्छिद्य नोपजिघ्रेत्तेन तं पुण्यं गन्धमवरुन्धे, योऽस्यौषधिवनस्पतीषु
भवति स ह स्नातः पुण्यगन्धिर्भवति ॥ २ ॥

कण्डिका २ ॥ ब्रह्मचारी के सात मनोरागों का दमन आदि कर्तव्य ॥

(जायमानः ह वै ब्राह्मणः सप्त इन्द्रियाणि अभिजायन्ते [अभिजनयति]
ब्रह्मवर्चसं च यशः च स्वप्नं च क्रोधं च श्लाघां च रूपं च पुण्यम् एव गन्धं
सप्तमम्) उत्पन्न होता हुआ [उपनयन आदि संस्कार किये हुये] ही ब्राह्मण
[ब्रह्मचारी] सात इन्द्रियों [मनोरागों] को वश में करता है, ब्रह्मवर्चस
[वेद पढ़ने का तेज] १, यश २, स्वप्न [नींद] ३, क्रोध ४, घमण्ड ५, रूप
६, और सातवें पवित्र गन्ध को भी ७ । (तानि ह वै एतानि अस्य ब्रह्मचर्यम्
पेतः अपक्रामन्ति) वे सब ही इस ब्रह्मचर्य पाये हुये के दूर चले जाते हैं,
मृगान् अस्य ब्रह्मवर्चसं गच्छति, आचार्यं यशः, अजगरं स्वप्नः, वराहं क्रोधः,
पः श्लाघम्, कुमारी रूपम्, श्रोषधि वनस्पतीन् पुण्यः गन्धः) मृगों [सिंहों

२--(जायमानः) उत्पद्यमानः । उपनयनादिसंस्कारं प्राप्यमाणाः (इन्द्रि-
याणि) इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा । पा०
। ३ । ६३ । इन्द्र—घप्रत्ययः । इन्द्रियं धननाम—निघ० २ । १० । मनोरागान्
प्रभिजायन्ते) आत्मनेपदत्वं बहुवचनं चार्थम् । अभिजनयति । अभिभवति (ब्रह्म-

वा हरिणों] को इसके वेद पढ़ने का तेज जाता है १, आचार्य को यश २, अजगर [बड़े साँप विशेष] को नींद ३, सूअर को क्रोध ४, जल को घमण्ड ५, कुमारी [कन्या] को रूप [सुन्दरता] ६, और औषधि वनस्पतियों को पवित्र गन्ध ७ । (सः यत् मृगाजिनानि वस्ते तेन तत् ब्रह्मवर्चसम् अवरुन्धे, यत् अस्य मृगेषु भवति, सः ह स्नातः ब्रह्मवर्चसा भवति,) वह जो मृगछालायें पहिरता है उससे उस ब्रह्मतेज को पाता है जो उस का मृगों [तिंहों वा हरिणों] में होता है, वही स्नातक [विद्या में स्नान किया हुआ] ब्रह्मवर्चसी [वेद पढ़ने से तेज बाला] होता है । १ । (सः यत् अहरहः आचार्य्याय कर्म करोति तेन तत् यशः अवरुन्धे यत् अस्य आचार्ये भवति, सः ह स्नातः यशस्वी भवति) वह जो दिन दिन आचार्य के लिये कर्म [वेदाध्ययन और अन्य सेवा] करता है, उससे वह उस यश को पाता है जो उस का आचार्य में होता है, वही स्नातक यशस्वी होता है । २ । (सः यत् सुषुप्तुः निद्रां निनयति तेन तं स्वप्नम् अवरुन्धे यः अस्य अजगरे भवति तं ह स्नातं स्वपन्तं आहुः—स्वपितु मा पनं बोधुध इति) वह जो सोने की इच्छा करता हुआ निद्रा को हटा देता है, उससे उस स्वप्न [निद्रा] को पाता है जो इसका अजगर में होता है, उस ही सोते हुए स्नातक को लोग कहते हैं—यह सोता रहै इसे तुम मत जगाओ । ३ ॥ (सः क्रुद्धः वाचा कञ्चन न हिनस्ति, [यतः] पुरुषात् पुरुषात् पापीयान् इव मन्यमानः, तेन तं क्रोधम् अवरुन्धे, यः अस्य वराहे भवति, तस्य ह स्नातस्य क्रोधाः श्लाघीयसं विशन्ते) वह क्रुद्ध होकर वाणी से किसी को नहीं सताता

वर्चसम्) वेदाध्ययनतेजः (श्लाघाम्) श्लाघ कथने—अङ्, टाप् । आत्मस्तुतिम् । दम्भम् (रूपम्) सौन्दर्यम् (उपेतः) प्रथमा षष्ठ्यर्थे । उपेतस्य । प्राप्तस्य (अपक्रामन्ति) दूरे गच्छन्ति (अजगरम्) बृहत्सर्पविशेषम् (वराहम्) वराय अभीष्टाय मुस्तादिलाभाय आहन्ति खनति भूमिम् । घर+आ+हन हिंसागत्योः—डप्रत्ययः । वराहो मेघो भवति.....अयमपीतरो वराह एतस्मादेव बृहति मूलानि वरं वरं मूलं बृहतीति वा—निरु० ५ । ४ । शूरम् (अपः) जलम् (श्लाघम्) आर्षं नपुंसकत्वम् । श्लाघा (कुमारीम्) अनूढां कन्याम् (मृगाजिनानि) हरिणवर्माणि (वस्ते) आच्छादयति (स्नातः) स्नातकः । वेदाध्ययनानन्तरं कृतसमावर्तनाङ्गस्नानः (कर्म) वेदाध्ययनम् । अन्यशुश्रुषां च (सुषुप्तुः) अिष्वप शये—सन्, उ । शयनेच्छुकः (निनयीत) दूरीकरोति (मा बोधुध) मा बोधयत (पापीयान्) पापवत्—ईयसुन् । विन्मतालुक् ।

है, [क्योंकि अपने को] पुरुष पुरुष से अधिक पापी के समान वह मानता हुआ है, उससे वह उस क्रोध को पाता है जो इसका सूत्र में होना है, उस ही स्नातक के क्रोध अधिक घमण्ड में प्रवेश करते हैं । ४ । (अथ अग्निः श्लाघ्यमानः न स्नायात् तेन तम् [=ताम्] श्लाघाम् अवरुन्धे या अस्य अप्सु भवति, सः ह स्नातः श्लाघायः अग्नेभ्यः श्लाघ्यते) और वह जल से घमण्ड करता हुआ न स्नान करे, उस से वह उस घमण्ड को पाता है जो इस का जल में होता है, वही प्रशंसनीय स्नातक अत्रों के लिये बड़ाई किया जाता है । ५ । (अथ एतत् ब्रह्मचारिणां रूपम् यत् कुमार्याः तां नग्नां न उदीक्षेत् पति वेति मुखं विपरिधापयेत्, तेन तत् रूपम् अवरुन्धे यत् अस्य कुमार्यां भवति, तं ह स्नातं कुमारीम् इव निरीक्षन्ते) और यही ब्रह्मचारी का रूप है जो कुमारी का है, उस से वह नङ्गा न देखे, चलते फिरते मुख ढक लेवे, उस से वह उस रूप को पाता है जो इसका कुमारी में है, उस ही स्नातक को कुमारी के समान [रूप-वान्] देखते हैं । ६ । (अथ एतत् ब्रह्मचारिणः पुण्यः गन्धः यः श्रोषधिवनस्पतीनां तासां पुण्यं गन्धं प्रच्छिद्य न उपजिग्रतेत्, तेन तं पुण्यं गन्धम् अवरुन्धे, यः अस्य श्रोषधिवनस्पतीषु भवति, सः ह स्नातः पुण्यगन्धिः भवति) और यह ब्रह्मचारी का पवित्र गन्ध है जो श्रोषधि वनस्पतियों का है, उनके पवित्र गन्ध को तोड़कर न सूँघे, उससे वह उस पवित्र गन्ध को पाता है जो इसका श्रोषधि वनस्पतियों में है, वही स्नातक पवित्र गन्ध वाला होता है ॥ २ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी राग द्वेष आदि दोषों को छोड़ कर वेदाध्ययन करके ब्रह्मवर्चसी होता है ॥ २ ॥

कारिडका ३ ॥

स वा एष उपयंश्चतुर्द्वौपैत्यग्निं पादेनाचार्यं पादेन ग्रामं पादेन मृत्युं पादेन, स यदहरहः समिध आहृत्य सार्यं प्रातरग्निं परिचरेत्तेन तं पादमवरुन्धे, योऽस्याग्नौ भवति । स यदहरहराचार्य्याय कर्म करोति, तेन तं पादमवरुन्धे, यो

पा० ५ । ३ । ६५ । मतुपो लुक् । पापितरः (श्लाघीयसम्) श्लाघावत्—ईयसुन् । पूर्ववत्-मत्तुपो लुक् । प्रशंसनीयतरम् (श्लाघ्यमानः) स्तूयमानः (श्लाघीयः) शुद्धच्छिद्यः । पा० ४ । २ । १०६ । श्लाघा—छ । प्रशंसनीयः (पति) गच्छति (वेति) वी गतौ—लट् । चलति (विपरिधापयेत्) आच्छादयेत् (प्रच्छिद्य) प्र+च्छिदिद् द्वैधीकरणे—ल्यप् । विभिद्य ॥

ऽस्याचार्ये भवति । स यदहरहर्ग्रामं प्रविश्य भिक्षामेव परीप्सति न मैथुनन्तेन तं पादमवरुन्धे, योऽस्य ग्रामे भवति, स यत् क्रुद्धो वाचा न कञ्चन हिनस्ति पुरुषात् पुरुषात् पापीयानि व मन्यमानस्तेनैव तं पादमवरुन्धे, योऽस्य मृत्यौ भवति ॥३॥

करिडका ३ ॥ ब्रह्मचारी के कर्तव्य, आचार्य की सेवा आदि कर्म ॥

(सः वै एषः उपयन् चतुर्धा उपैति, पादेन अग्निम्—१, पादेन आचार्यम्—२, पादेन ग्रामम्—३, पादेन मृत्युम्—४,) वही यह [ब्रह्मचारी] पास आता हुआ चार प्रकार से सेवता है, चौथाई से अग्नि को—१, चौथाई से आचार्य को—२, चौथाई से गाम को—३, और चौथाई से मृत्यु को—४ । (सः यत् अहरहः सभिधः आहत्य सायं प्रातः अग्निं परिचरेत्, तेन तं पादम् अवरुन्धे यः अस्य अग्नौ भवति—१) वह जो सभिधायें लाकर सायं प्रातः अग्नि को सेवे, उससे वह उस पद को पाता है जो इस का अग्नि में होता है [अर्थात् अग्निहोत्र करने से वह अग्नि समान तेजस्वी होता है] १ । (सः यत् अहरहः आचार्याय कर्म करोति, तेन तं पादम् अवरुन्धे यः अस्य आचार्ये भवति—२) वह जो दिन दिन आचार्य के लिये कर्म करता है, उस से वह उस पद को पाता है जो इसका आचार्य में होता है [अर्थात् आचार्य की सेवा से वह आचार्य के समान प्रतिष्ठा पाता है]—२ । (सः यत् अहरहः ग्रामं प्रविश्य भिक्षाम् एव परीप्सति न मैथुनम्, तेन तं पादम् अवरुन्धे यः अस्य ग्रामे भवति—३) वह जो दिन दिन गाम में जाकर भिक्षा ही पाना चाहता है और न मैथुन [स्त्री समागम], उस से वह उस पद को पाता है जो इस का गाम में होता है [अर्थात् शुद्ध आचरण रखने से वह गाम में प्रतिष्ठा पाता है]—३ । (सः यत् क्रुद्धः वाचा कञ्चन न हिनस्ति [यतः] पुरुषात् पुरुषात् पापीयान् इव मन्यमानः, तेन एव तं पादम् अवरुन्धे यः अस्य मृत्यौ भवति—४) वह जो क्रुद्ध होकर वाणी से किसी को नहीं सताता है, [क्योंकि अपने को] पुरुष पुरुष से अधिक पापी के समान वह मानता हुआ है, उस से वह उस पद

३—(उपयन्) समीपे गच्छन् (चतुर्धा) चतुष्कारेण (उपैति) सेवते (पादेन) चतुर्थांशेन (पादम्) पदम् । स्थैर्यम् (परीप्सति परि + आप्रोतेः—सन् । परितः प्राप्तुमिच्छति (मैथुनम्) मिथुन—अण् । स्त्रीपुरुषसंगमम् ॥

को पाता है जो इनका मृत्यु में होता है [अर्थात् कोय छोड़ने से वह मृत्यु को वश में करता है]—४ ॥ ३ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी नित्य अग्निहोत्र, आचार्य सेवा, भिला से निर्वाह, और सब पर दया करने से संसार में ऐश्वर्यमान होता है ॥ ३ ॥

कण्डिका ४ ॥

पञ्च ह वा एते ब्रह्मचारिण्यग्नयो धीयन्ते, द्वौ पृथग्द्वस्तयोर्मुखे हृदय उपस्थ एव पञ्चमः । स यदक्षिणेन पाणिना स्त्रियन्न स्पृशति तेनाहरहर्याजिनां लोकमवरुन्धे, यत्नव्येन तेन प्रत्राजिनां, यन्मुखेन तेनाग्निप्रस्कन्दिनां, यद् धृदयेन तेन शूराणां यदुपस्थेन तेन गृहमेधिनां, तैश्चेत् स्त्रियं पराहरत्यनग्निरिव शिष्यते । स यदहरहराचार्याय कुलेऽनुतिष्ठते सोऽनुष्ठाय ब्रह्माद्धर्मगुप्तो मा गोपायेति धर्मो हैनं गुप्तो गोपायेति, तस्य ह प्रजा श्वः श्वः श्रेयसी श्रेयसी ह भवति, धार्यैव प्रतिधीयते, स्वर्गे लोके पितृन्निदधाति, तान्तवं न वसीत, यस्तान्तवं धस्ते क्षत्रं वर्द्धते न ब्रह्म, तस्मात्तान्तवं न वसीत ब्रह्म वर्द्धतां मा क्षत्रमिति, नोपर्यासीत यदुपर्यास्ते प्राणमेव तदात्मनोऽधरं कुरुते यद्वातो वहति, अध एवासीत, अधः शयीत, अधस्तिष्ठेद्दधो वृजेदेवं ह स वैतत् पूर्वं ब्राह्मणा ब्रह्मचर्यं चरन्ति तं ह स तत्पुत्रं भ्रातरं वोपतापिनमाहुरुपनयेतैनमित्यासमिद्धारात् स्वरेष्यन्तोऽन्नमद्यादथाह जघनमाहुः, स्नापयेतैनमित्यासमिद्धारात्न ह्येतानि वृतानि भवन्ति, तं चेच्छ्रयानमाचार्योऽभिवदेत्, स प्रतिसंहाय प्रतिश्रुणुयात्तं चेच्छ्रयानमुत्थाय तश्चैदुत्थितमभिप्रक्रम्य तं चेदभिप्रक्रान्तमभिपलायमानमेवं ह स वैतत् पूर्वं ब्राह्मणा ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तेषां ह स्म वैषा पुण्या कीर्त्तिर्गच्छत्याह वा अयं सोऽद्य गमिष्यतीति ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ ॥ ब्रह्मचारी का अपने पांच अग्नियों का

वशीकरण और दूसरा विनीत कर्तव्य ॥

(पञ्च ह वै एते अग्नयः ब्रह्मचारिणि धीयन्ते, द्वौ पृथक् हस्तयोः—१, २, मुखे—३, हृदये—४, उपस्थे एव पञ्चमः—५ ।) यही पांच अग्नियां [उत्तेजक व्यवहार] ब्रह्मचारी में धरे होते हैं, दो अलग अलग दोनों हाथों में—१, २, मुख में—३, हृदय में—४, और उपस्थ में ही पांचवां है—५ । (सः यत् दक्षिणेन पाणिना स्त्रियं न स्पृशति तेन याजिनां लोकम् अहरहः अवरुन्धे—१) वह जो दाहिने हाथ से स्त्री को नहीं छूता, उस से वह सत्कर्मियों के लोक

को दिन दिन पाता है—१ । (यत् सव्येन तेन प्रब्राजिनाम्—२) वह जो बांये हाथ से [स्त्री को नहीं छूता], उससे वह संन्यासियों के [लोक को दिन दिन पाता है]—२ । (यत् मुखेन तेन अग्निप्रस्कन्दिनाम्—३) वह जो मुख से [स्त्री को नहीं छूता], उससे वह अग्नि को प्राप्त होने वालों के [अर्थात् अग्निहोत्रादि विद्या जानने वालों के लोक को दिन दिन पाता है]—३ । (यत् हृदयेन तेन शूणाम्—४) वह जो हृदय से [स्त्री को नहीं छूता], उससे वह शूणों के [लोक को दिन दिन पाता है]—४ । (यत् उपरथेन तेन गृहमेधिनाम्—५) वह जो उपरथ इन्द्रिय से [स्त्री को नहीं छूता], उससे वह गृहस्थों के [लोक को दिन दिन पाता है]—५ । (तैः चेत् स्त्रियं पराहरति अनग्निः इव शिष्यते ।) उन [कर्मों] से जो स्त्री को वह त्यागता है, अनग्नि [आहवनीय गार्हपत्य और दक्षिणात्य यज्ञ की अग्नियों को छोड़े हुये संन्यासी] के समान वह उपदेश किया जाता है । (सः यत् अहरहः आचार्याय कुले अनुतिष्ठते, सो अनुठाय ब्रूयात्—धर्मगुप्तः मा गोपाय इति, गुप्तः धर्मः ह एनं गोपायेति=गोपायति) वह जो दिन दिन आचार्य के लिये गुरुकुल में कर्म करता है, वह कर्म करके कहे—धर्म से रक्षा किया गया तू मुझे बचा, रक्षा किया गया धर्म ही इस [पुरुष] को बचाता है, (तस्य ह प्रजा श्वः श्वः श्रेयसी श्रेयसी ह भवति, धाय्या एव प्रतिधीयते, स्वर्गे लोके पितॄन् निदधाति) उस की संतान कल्ल कल्ल [अगले अगले दिन] धार्मिक धार्मिक ही होती है, धाय्या [होम में अग्नि प्रज्वलित करने का सामिधेनी मन्त्र] भी रक्खा जाता है और वह स्वर्गलोक में पितरों [पालने वाले विद्वानों] को धरता है । (तान्तवं न वसीत, यः तान्तवं वस्ते क्षत्रं वर्धते न ब्रह्म, तस्मात् तान्तवं न वसीत,

४—(धीयन्ते) धियन्ते (याजिनाम्) अज देवपूजासंगतिकरणदानेषु—
 णिनि । सत्कर्मिणाम् (लोकम्) स्थानम् (प्रब्राजिनाम्) प्र+वृज गतौ—
 णिनि । परिव्राजकानाम् । संन्यासिनाम् (अग्निप्रस्कन्दिनाम्) अग्नि+प्र+स्क-
 दिर् गतिशोषणयोः—णिनि । अग्निप्रायकाराम् । अग्निहोत्रिणाम् (गृहमेधि-
 नाम्) गृह+मेधृ मेवर्हिंसनयोः संगमे च—णिनि । गृहान् गृहव्यवहारान्
 मेधन्ति निश्चयेन जानन्ति ते गृहमेधितः । गृहस्थानाम् (पराहरति) त्यजति
 (अनग्निः) नास्ति अग्निदेश्य । अग्निहोत्रादिकर्मशून्यः । संन्यासी—यथा मनुः
 ६ । ३८, ४३ (शिष्यते) शासु अनुशासने-कर्मणि लट् । अनुशासने क्रियते ।
 उपदिश्यते (कुले) गुरुकुले । ब्रह्मचारिणां गृहे (धर्मगुप्तः) धर्मण रक्षितः

ब्रह्म वर्धतां मा क्षत्रम् इति) वह [ब्रह्मचारी] मून का वस्त्र न पहिरे, जो सूत का वस्त्र पहिरता है राज्य को बढ़ाता है न वेदज्ञान को, इस लिये सूत का वस्त्र न पहिरे, [जिस से] वेदज्ञान बढ़े न राज्य । (उपरि न आसीत्, यत् उपरि आस्ते तत् आत्मनः प्राणम् एव अधरं कुरुते यत् वातः बहति) वह ऊपर न बैठे, जब ऊपर बैठता है तब अपने प्राणवायु को नीचा करता है जिस को पवन चलाता है । (अधः एव आसीत्, अवः शीत, अधः निष्ठेत्, अधः वृजेत्) वह नीचे बैठे, नीचे सोवे, नीचे खड़ा हो, नीचे चले, (एवं ह स्म वै तत् ब्रह्मचर्यं पूर्वं ब्राह्मणाः वरन्ति, तं ह स्म तत् पुत्रं भ्रातरं वा उपतार्पितम् आहुः) इस प्रकार से निश्चय करके उस ब्रह्मचर्य को पहिले ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] करते थे, उस पुरुष को ही और उस के पुत्र और भाई को प्रतापी कहते हैं [अर्थात् पूरा ब्रह्मचारी कुटुम्ब सहित ऐश्वर्यवान् होता है] । (उपनयेत एनम् इति) वह [आचार्य] इस [ब्रह्मचारी] का उपनयन संस्कार करावे । (आसमिद्धारात् स्वरेष्यन्तः अन्नम् अद्यात् अथ अह जघनम् आहुः) समिधाओं [हवन के लिये काष्ठ] लाने से निवृत्त होकर सुख चाहने वाला वह [ब्रह्मचारी] अन्न खावे, फिर प्रसन्न होकर [उसके] गतिशील [पुरुषार्थी] कहते हैं । (स्नापयेत एनम् इति) वह इस [ब्रह्मचारी] को [विद्या में] स्नान करावे । (आसमिद्धारात् न हि ष्टानि व्रतानि भवन्ति) [केवल] समिधा लाने से निवृत्त होकर ही यह व्रत नहीं होते हैं । (तं चेत् शयानम् आचार्यः अभिवदेत्, सः प्रतिसंहाय प्रतिशृणुयात्) उस सोते हुये को जो आचार्य बुलावे, वह सामने जाकर आदर से सुने, (तं शयानं चेत् उत्थाय)

(गोपायेति = गोपायति) रक्षति (धारया) पाठ्य सांनाय्य निकाय्य धारया० । पा० ३ । १ । १२६ । दधातेः—एयत् । आतो युक् चिण्कृतोः । पा० ७ । ३ । ३३ । इति युक् । धीयते अनया समिद्धिति धारया सामिधेनीनां मध्ये ऋग्विशेषः । अग्निप्रज्वालनमन्त्रः । (प्रतिधीयते) निश्चयेन स्थाप्यते (तान्तवम्) तन्तु-अण् । सूत्रेण सिद्धं वस्त्रम् (उपतार्पितम्) प्रतार्पितम् (उपनयेत) उपनयनेन संस्कुर्यात् (आसमिद्धारात्) समिध् + हरतेः—घञ् । समिधां होमकाष्ठानामानयतान्निवृत्तो भूत्वा (स्वरेष्यन्तः) स्वः—एष्यन्तः । जृविशिभ्यां भृच् । उ० ३ । १२६ । स्वः + इष इच्छायाम्—भृच्, आर्षो यकारः । सुखैच्छुक्कः (जघनम्) हन्तेः शरीरावयवे द्वे च । उ० ५ । ३२ । हन हिंसागत्योः—अच् । गतिशीलम् (स्नापयेत्) विद्या स्नानं कारयेत् (अभिवदेत्) आवाहनं कुर्यात् (प्रतिसं-

उस सोते हुये को जो [वह बुलावे], उठकर [वह आदर से सुने], (तम् उपस्थितं चेत् अभिक्रम्य) उस उठे हुये को जो [वह बुलावे] परिक्रमा करके [वह आदर से सुने], (चेत् तम् अभिक्रान्तम् अभिग्लायमानम्) जो उस परिक्रमा करते हुये, भागते हुये को [वह बुलावे, वैसा ही व्यवहार ब्रह्मचारी करे] । (एवं ह स्म वै तत् ब्रह्मचर्यम् पूर्वं ब्राह्मणाः चरन्ति तेषां ह स्म वा एषा पुण्या कीर्तिः गच्छति, आह, वै अयं सो अद्य गमिष्यति इति) ऐसे ही निश्चय करके इस ब्रह्मचर्य को पहिले ब्राह्मण करते थे, उनकी ही निश्चय करके यह पुण्य कीर्ति चली जाती है, ऐसा यह कहता है, [वैसाही] निश्चय करके यह [ब्रह्मचारी] भी आज चलेगा ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो ब्रह्मचारी यिनय पूर्वक आचार्य से विद्या ग्रहण करते हैं वे कीर्ति पाते हैं ॥ ४ ॥

कण्डिका ५ ॥

जनमेजयो ह वै पारीक्षितो मृगयाञ्चरिष्यन् हंसाभ्यामशिक्षन्नुपाव्रतस्थ इति, तावूचतुर्जनमेजयं पारीक्षितमभ्याजगाम, स होवाच नमो वां भगवन्तौ, कौ नु भगवन्ताविति, तावूचतुर्दक्षिणाशिश्राहवनीधश्चेति, स होवाच नमो वां भगवन्तौ, तदाकीयतामिति होपाराममित्यपि किल देवा न रमन्ते न हि देवा श रमन्तेऽपि चैकोपारामादेवा आराममुपसंक्रामन्तीति, स होवाच नमो वां भगवन्तौ, किं पुण्यमिति ब्रह्मचर्यमिति किं लौक्यमिति ब्रह्मचर्यमेवेति, तत् को वेद इति, दन्ताबलो धौम्रोऽथ खलु दन्ताबलो धौम्रो यावति तावति काले पारीक्षितं जनमेजयमभ्याजगाम, तस्मा उत्थाय स्वयमेव विष्टरं निदधौ, तमुपसंगृह्य पप्रच्छाधीहि भो किं पुण्यमिति ब्रह्मचर्यमिति, किं लौक्यमिति ब्रह्मचर्यमेवेति, तस्मा एतत् प्रोवाचाष्टाचत्वारिंशद्वर्षं सर्ववेदब्रह्मचर्यं, तच्चतुर्दा वेदेषु व्यूह्य द्वादशवर्षं ब्रह्मचर्यं द्वादशवर्षाण्यवराद्धमपि स्तायं श्ररेद्यथाशक्त्यवरम् । तस्मा उहस्युषभौ सहस्रन्ददावप्यपि कीर्त्तितमाचार्यो ब्रह्मचारीत्येक आहुगकाशमधिदैवतमथाध्यात्मं ब्राह्मणो व्रतवांश्चरणवान् ब्रह्मचारी ॥ ५ ॥

हाय) प्रति + सम + ओहाङ् गतौ—त्यप् । प्रत्यक्षं संगत्य (प्रतिशृणुयात्) प्रतीत्या भ्रवणं कुर्यात् (अभिक्रम्य) परिक्रमेण प्रदक्षिणीकरणेन प्राप्य ॥

करिडका ५ ॥ जनमेजय का दो हंसों और दन्तावल से ब्रह्मचर्य की महिमा और अड़तालीस वर्ष आदि समय पर वार्तालाप ॥

(जनमेजयः ह वै पारीक्षितः मृगयां चरिष्यन् हंसाभ्याम् अशिक्षन् उपावतस्थे इति) जनमेजय [शत्रुओं का कंपाने वाला] ही परीक्षित का पुत्र आखेट को जाते हुये दो हंसों से दृढ़ मेल चाहता हुआ ठहर गया । (तौ जनमेजय पारीक्षितम् ऊचतुः) वे दोनों जनमेजय परीक्षित के पुत्र से बोले [उसे बुलाया], (अभ्याजगाम्) वह पास आया । (सः ह उवाच—नमः वां भगवन्तौ, कौ नु भगवन्तौ इति) वह बोला—हे भगवन् ! तुम दोनों को नमस्कार, हे भगवन् आप दोनों कौन हैं । (तौ ऊचतुः—दक्षिणाग्निः च आहवनीयः च इति) वे दोनों बोले—हम दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि हैं । (सः ह उवाच—नमः वां भगवन्तौ, तत् आकीयताम् ह उपारामम् इति इति) वह बोला—हे भगवन् ! तुम दोनों को नमस्कार, सो [आप का] उपवन जाना जावे । (अपि किल देवाः न रमन्ते, नहि, देवाः न रमन्ते, अपि च एकोपारामात् आरामं देवाः उपसंक्रामन्ति इति) [हंस बोले] यह प्रसिद्ध है—देवता नहीं क्रीड़ा करते हैं, सो यह बात नहीं है कि देवता नहीं क्रीड़ा करते हैं, किन्तु एक उपवन से दूनरे उपवन को देवता चले जाते हैं । (सः ह उवाच—नमः वां भगवन्तौ किं पुण्यम् इति) वह फिर बोला—हे भगवन् ! तुम दोनों को नमस्कार, पुण्य [पवित्र धर्म] क्या है । (ब्रह्मचर्यम् इति) [वे दोनों बोले] ब्रह्मचर्य्य है । (किं लौक्यम् इति) [वह बोला] लौक्य [देखने वा विचारने योग्य] क्या है । (ब्रह्मचर्य्यम् एव इति) [वे दोनों बोले] ब्रह्मचर्य्य ही है । (तत् कः वेद

५—(जनमेजयः) जनान् पामरात् शत्रून् एजयति कम्पयतीति । एजेः खश् । पा० ३ । २ । २८ । एजू कम्पने—शुब्—खश् । अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् । पा० ६ । ३ । ६७ । इति मुम् । राजर्षिविशेषः (पारीक्षितः) परीक्षितपुत्रः (अशिक्षन्) अशु व्याप्तौ संघाते च—स्यत्, यलोपः । अशिक्षयन् । संघातं दृढ-संयोगमिच्छन् (आकीयताम्) आ + कि ज्ञाने—कर्मणि लोट् । ज्ञायताम् (उपारामम्) प्रथमार्थे द्वितीया । उपारामः । उपवनम् । (किल) प्रसिद्धां (लौक्यम्) लोक—प्यञ् स्वार्थे । दर्शनीयम् । विचारणीयम् (वेदः) वेत्ता (दन्तावलः) दन्तशिखात् संज्ञायाम् । पा० ५ । २ । ११३ । दन्त—वलच् मत्वर्थे । वले । पा० ६ । ३ । ११८ । पूर्वस्य दीर्घः । वृहद्दन्तवान् । ऋषिविशेषः (धौन्नः) धून्न—अण् । कृष्णलोहि-

इति) [वह बोला] उस का कौन जानने वाला है । (दन्तावलः धौम्रः) [वे दोनों बोले] दन्तावल [बड़े बड़े दांतों वाला, ऋषि विशेष] धौम्र [धुयेँ कासा धौम्र वाला अथवा धूम्र ऋषि को शिष्य] है । (अथ खलु दन्तावलः धौम्रः यावति तावति काले पारीक्षितं जनमेजयम् अभ्याजगाम्) फिर प्रसिद्ध है कि दन्तावल धौम्र किसी ही काल में परीक्षित के पुत्र जनमेजय के पास आ गया । (तस्मै उत्थाय स्वयम् एव विष्टरं निदधौ) उस को उठ कर अपना ही बिस्तर उसने दिया । (तम् उपसंगृह्य पप्रच्छ अधीहि भो किं पुण्यम् इति) और उस से आदर के साथ मिल कर पूछा—महाराज ! बताओ पुण्य क्या है । (ब्रह्मचर्यम् इति) [दन्तावल बोला] ब्रह्मचर्य है । (किं लौक्यम् इति) [जनमेजय बोला] लौक्य [देखने वा विचारने योग्य] क्या है । (ब्रह्मचर्यम् एव इति) [दन्तावल बोला] ब्रह्मचर्य ही है । (तस्मै एतत् प्रोवाच) और उस से यह भी वह बोला—(अष्टाचत्वारिंशद्वर्षं सर्ववेदब्रह्मचर्यम्, तत् वेदेषु व्यूह्य चतुर्धा द्वादशवर्षाणि अवराद्धं ब्रह्मचर्यम्, अपरम् अपि यथाशक्ति स्तायन् चरेत्) अड़तालीस वर्ष वाला सब वेदों के लिये ब्रह्मचर्य है, वह वेदों [चार वेदों] में बँट कर चार बार बारह बारह वर्ष वाला है, बारह वर्ष अति न्यून भाग वाला ब्रह्मचर्य है, दूसरे [शेष ब्रह्मचर्य] को यथाशक्ति घेरता हुआ करे । (तस्मै उहसि ऋषभौ सहस्रं ददौ) उस को [जनमेजय ने] विज्ञान विषय में दो बैल और सहस्र [मुद्रा] दान किये । (अपि अपि कीर्तितम्—आचार्यः ब्रह्मचारी इति एके आहुः, आकाशम्, अधिदैवतम्, अथ अध्यात्मम्, ब्राह्मणः व्रतवान् चरणवान् ब्रह्मचारी) यह भी अति प्रसिद्ध है—आचार्य ब्रह्मचारी होता है [अथ० ११ । ५ । १६]—इस के विषय में कोई कोई कहते हैं, आकाश [आकाश समान व्यापक] सब से बड़े परमात्मा का विषय है, किन्तु आत्म-

तवर्णवान् । धूम्रस्य ऋषिविशेषस्य शिष्यः (खलु) प्रसिद्धौ (अधीहि) शिष्यार्थे । अध्यापय (चतुर्धा) चतुःप्रकारेण (व्यूह्य) वि+ऊह वितर्क—ल्यप् । विभज्य (द्वादशवर्षम्) द्वादशद्वादशवर्षापितम् (अवराद्धम्) अ+वृञ् वरणे—अप्+ऋधु वृद्धौ—घञ् । अवरेण अवरणीयेन अतिन्यूनान् अर्धेन भागेन युक्तम् (स्तायन्) ष्टै वेष्टने—शतृ । वेष्टमानः (चरेत्) कुर्यात् (अपरम्) भिन्नम् । शेषभागम् (उहसि) श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः क्त्विच् । उ० ४ । १६४ । ऊह वितर्क—असुन् कित्, आर्षो ह्रस्वः । वितर्क । विज्ञानविषये (ऋषभौ) वृषभौ (कीर्तितम्) कृत संशब्देने—क्त । कथितम् । व्यातम् (चरणवान्) सदाचारी ॥

पुण्यकर्म और धन नष्ट होता है । (सप्तमीं न अतिनयेत्, सप्तमीम् अतिनयम् ब्रह्मचारी न भवति) सप्तमी [तिथि] को न त्यागे, सप्तमी को त्यागता हुआ ब्रह्मचारी नहीं होता है, (समिद्धभैक्षे सप्तरात्रम् अचरितवान् ब्रह्मचारी पुनः उपनेयः भवति) समिधा और भिक्षा को सात रात्रि न करने वाला ब्रह्मचारी फिर उपनयन योग्य होता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी कष्ट उठाकर ब्रह्मचर्य का पालन करे और गृहपति उसको भिक्षा दान करता रहे, उस से वे दोनों दीर्घजीवी और पुण्यात्मा हों ॥ ६ ॥

कण्डिका ७ ॥

नापरि शायी स्यान्न गायनो न नर्त्तनो न सरणो न निष्ठीवेत् यदुपरि शायी भवत्यभीक्षणं निवासा जायन्ते, यद् गायनो भवत्यभीक्ष्णश आक्रन्दान्धावन्ते, यन्नर्त्तनो भवत्यभीक्ष्णशः प्रेताग्निर्हरन्ते, यत्सरणो भवत्यभीक्ष्णशः प्रजाः संविशन्ते, यन्निष्ठीवति मध्य एव तदात्मनो निष्ठीवति, स चेन्निष्ठीवेद्विवो नु मां यदत्रापि मधोरहं यदत्रापि रसस्य म इत्यात्मानमनुमन्त्रयते । यदत्रापि मधोरहं निरिष्ट-विषमस्मृतम् । अग्निश्च तत्सविता च पुनर्मं जठरे धत्ताम् । यदत्रापि रसस्य मे परापपातास्स तम् । तदिहोपह्वयामहे तन्म आप्यायतां पुनरिति । न श्मशान-मातिष्ठेत्, स चेदभितिष्ठेदुदकं हस्ते कृत्वा यदीदमृतुकाम्येत्यभिमन्त्र्य जपन्तु-सम्प्रोक्ष्य परिक्रामेत् समयायोपरि धृजेत् यदीदमृतुकाम्याद्यं रिप्रमुपेयिम बन्धः श्लोण इव हीयताम् । मा नाऽन्वागादद्यं यत् इति । अथ हैतद्देवानां परिषृतं यद् ब्रह्मचारी ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । देवानामेतत्परिषृतमनभ्यारूढं चरति रोचमानं तस्मिन् सर्वे पशवस्तत्र यज्ञास्तस्मिन्नन्नं सह देवताभिरिति ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ ब्रह्मचारी के दोषों का प्रायश्चित्त विधान ॥

(न उपरि शायी स्यात् न गायनः न नर्त्तनः न सरणः न निष्ठीवेत्) वह [ब्रह्मचारी] ऊपर [खाट आदि पर] न सुवैया होवे १, न नवैया २, न नचकैया ३, न घुमकड़ ४, और न थूके ५ । (यत् उपरि शायी भवति अभीक्षणं निवासाः जायन्ते) जो वह ऊपर सुवैया होता है बारम्बार [उसके] घर होते हैं १ । (यत् गायनः भवति अभीक्ष्णशः आक्रन्दान् धावन्ते) जो वह नवैया होता है बारम्बार विलापों को पाता है २ । (यत् नर्त्तनो भवति अभी-

तत्त्व [का विषय] है—ब्राह्मण [ब्रह्मजानी] ब्रह्मचर्य आदि वृत धाला और सुन्दर आचरण वाला ब्रह्मचारी होता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्य उपनयन संस्कार वा वेदारम्भ संस्कार से ब्रह्मचर्य के साथ वेदों को क्रिया सहित अड़तालीस वर्ष में पढ़े और न्यून से न्यून बारह वर्ष में एक ही वेद पढ़े और आगे यथाशक्ति पढ़ता रहे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है—

१—आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिर्विराजति विरा-
डिन्द्रोऽभवद्दुशी—अथ० ११ । ५ । १६ । (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (आचार्यः)
आचार्य, और (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी [ही] (प्रजापतिः) प्रजापति [प्रजापालक
मनुष्य, होता है] । और (प्रजापतिः) प्रजापति [प्रजापालक होकर] (वि)
विविध प्रकार (राजति) राज्य करता है, (विराट्) विराट् [बड़ा राजा]
(वशी) वश में करने वाला [शासक], (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला]
(अभवत्) हुआ है ॥

कण्डिका ६ ॥

ब्रह्म ह वै प्रजा मृत्यवे सम्प्रयच्छत्, ब्रह्मचारिणमेव न सम्प्रददौ, स
होवाचास्यामस्मिन्निति किमिति यां रात्रीं समिधमनाहृत्य वसेत्तामायुषोऽव-
न्धीयेति, तस्माद् ब्रह्मचार्य्यहरहः समिध आहृत्य सायं प्रातरग्निं परिचरेत्,
नोपथ्युपसादयेत्, अथ प्रथिष्ठापयेत् यदुपथ्युपसादयेज्जीमूतवर्षी तदहः, पञ्जन्यो
भवति, ते देवा अब्रुवन् ब्राह्मणो वा अयं ब्रह्मचार्य्यश्चरिष्यति ब्रूतास्मै भिक्षा इति,
गृहपतिर्भूत बहुचारी गृहपत्या इति किमस्या वृक्षीताददत्या इति, इष्टापूर्त्त-
सुकृतद्रविणमवरुन्ध्यादिति, तस्माद् ब्रह्मचारिणोऽहरहर्भिक्षां दद्याद्गृहिणीमा-
मेयुष्ठापूर्त्तसुकृतद्रविणमवरुन्ध्यादिति । सप्तमीं नातिनयेत्सप्तमीमतिनयन्नं
ब्रह्मचारी भवति, समिद्धैक्षे सप्तरात्रमचरितवान् ब्रह्मचारी पुनरुपनेयो भवति ॥६॥

कण्डिका ६ ॥ ब्रह्म ने ब्रह्मचारी को और उसे भिक्षा देने वाले
गृहपति को छोड़ कर सब प्रजाओं को मृत्यु को दिया ॥

(ब्रह्म ह वै प्रजाः मृत्यवे सम्प्रयच्छत्, ब्रह्मचारिणम् एव न सम्प्रददौ)
ब्रह्म ने निश्चय करके सब प्रजाओं [उत्पन्न पदार्थों] को मृत्यु को सौंप दिया,
ब्रह्मचारी को ही न सौंपा । (सः ह उवाच अस्याम् अस्मिन् इति किम् इति,
यां रात्रीं समिधम् अनाहृत्य वसेत् ताम् आयुषः अवरुन्धीय इति) वह [मृत्यु]

बोला—इस [नीति] में और इस [कर्म] में क्या है, जिस रात्रि को समिधा न लाकर वह [ब्रह्मचारी] बसै, उस [रात्रि] को उसका जीवन मैं नष्ट करूँ । (तस्मात् ब्रह्मचारी अहरहः समिधः आहत्य सायं प्रातः अग्निं परिचरेत्) इस लिये ब्रह्मचारी समिधायें लाकर सायंकाल और प्रातःकाल अग्नि को सेवे । (न उपरि उपसादयेत्, अथ प्रतिष्ठापयेत्) वह [समिधाओं को] ऊपर न गिरावे, और संभाल कर धरे । (यत् उपरि उपसादयेत्, तत् अहः जीमूतवर्षी पज्जन्यः भवति) जो वह ऊपर से गिरावे, उस दिन जल बरसाने वाला मेघ होजावे । (ते देवाः अब्रुवन् अयम् ब्राह्मणः वै ब्रह्मचर्यं चरिष्यति, अस्मै भिक्षाः ब्रूत इति) देवता [विद्वान् ब्रह्म से] बोले—यह ब्राह्मण ब्रह्मचर्य करेगा, इसको भिक्षायें [भिक्षा विधान] बताओ । (ब्रूत गृहपतिः बहुचारी इति, अस्याः अदत्याः गृहपत्याः किम् वृञ्जीत इति) [ब्रह्म बोला]—कहो—गृहपति बहुत कर्म करनेवाला है [वह भिक्षा देगा], [देवता बोले]—इस न देने वाली गृहपती का क्या नष्ट होवे । (इष्टापूर्तसुकृतद्रविणम् अवरुन्ध्यात् इति) [ब्रह्म बोला] इष्टापूर्त [यज्ञ, वेदाध्ययन, तथा अन्नदानादि], पुण्य कर्म और धन [उसका] नष्ट होजावे, (तस्मात् ब्रह्मचारिणे अहरहः भिक्षा दद्यात्, गृहिणीम् आमेयुः इष्टापूर्तसुकृतद्रविणम् अवरुन्ध्यात् इति) इसलिये ब्रह्मचारी को वह दिन दिन भिक्षा देवे, और गृहपती से [विद्वान्] कहें—[भिक्षा न देने वाले का] इष्टापूर्त [यज्ञ, वेदाध्ययन, तथा अन्नदानादि],

६—(सम्प्रयच्छत्) सम्प्रायच्छत् । समर्पितवान् (अस्याम्) वर्तमानार्थं नीतौ (अस्मिन्) प्रवृत्ते कर्मणि (आयुषः) जीवनस्य (अवरुन्धीय) अहं निरोधं नाशं कुर्वीय (उपसादयेत्) प्रस्थापयेत् (जीमूतवर्षी) जेर्मूट् ओदात्तः । उ० ३ । ६१ जि जये—क्त, मूडागमश्च + वृषु सेचने—णिनि । जीमूतस्य मेघ-जलस्य वर्षकः (पज्जन्यः) पज्जन्यः । उ० ३ । १०३ । पृषु सेचने—अन्यप्रत्ययः, षस्य जः । सेचकः । मेघः (ब्रूत) आदराय बहुवचनम् । ब्रूहि । कथय (बहुचारी) बहुकर्मा (वृञ्जीत) वृजी वृजि वर्जने—वि० लि० । वर्जयेत् (अदत्याः) ददातेः—शतृ । दानम् अकुर्वत्याः (इष्टापूर्तम्) यज्ञ देवपूजा-संगतिकरणदानेषु, इष्टु वाञ्छे वा—क्त, पूर्वपददीर्घः । यज्ञवेदाध्ययनान्नप्रदानादि पुण्यकर्म (द्रविणम्) धनम् (अवरुन्ध्यात्) नश्येत् (आमेयुः) आ + आम गतिशब्दसंभक्तिषु—वि० लि० । समन्तात् कथयेयुः (उपनेयः) उप + णीञ् प्रापणे—यत् । उपनयनयोग्यः ॥

पुण्यकर्म और धन नष्ट होता है । (सप्तमीं न अतिनयेत्, सप्तमीम् अतिनयम् ब्रह्मचारी न भवति) सप्तमी [तिथि] को न त्यागे, सप्तमी को त्यागना हुआ ब्रह्मचारी नहीं होता है, (समिद्धभैक्षे सतरात्रम् अचरितवान् ब्रह्मचारी पुनः उपनेयः भवति) समिधा और भिक्षा को सात रात्रि न करने वाला ब्रह्मचारी फिर उपनयन योग्य होता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी कष्ट उठाकर ब्रह्मचर्य का पालन करे और गृहपति उसको भिक्षा दान करता रहे, उस से वे दोनों दीर्घजीवी और पुण्यात्मा हों ॥ ६ ॥

कण्डिका ७ ॥

नापरि शायी स्यान्न गायनो न नर्त्तनो न सरणो न निष्ठीवेत् यदुपरि शायी भवत्यभीक्ष्णं निवासा जायन्ते, यद् गायनो भवत्यभीक्ष्णश आक्रन्दान्धावन्ते, यन्नर्त्तनो भवत्यभीक्ष्णशः प्रेतान्निर्हरन्ते, यत्सरणो भवत्यभीक्ष्णशः प्रजाः संविशन्ते, यन्निष्ठीवति मध्य एव तदात्मनो निष्ठीवति, स चेन्निष्ठीवेद्विवो नु मां यदत्रापि मधोरहं यदत्रापि रसस्य म इत्यात्मानमनुमन्त्रयते । यदत्रापि मधोरहं निरिष्ट-विषमस्मृतम् । अग्निश्च तत्सविता च पुनर्मे जठरे धत्ताम् । यदत्रापि रसस्य मे परापपातास तम् । तदिहोपह्वयामहे तन्म आप्यायतां पुनरिति । न श्मशान-मातिष्ठेत्, स चेदभितिष्ठेदुदकं हस्ते कृत्वा यदीदमृतुकाम्येत्यभिमन्त्र्य जपन्तु-सम्प्रोक्ष्य परिक्रामेत् समयायोपरि वृजेत् यदीदमृतुकाम्याद्यं रिप्रमुपेयिम अन्धः श्रोण इव हीयताम् । मा नाऽन्वागादधं यत इति । अथ हैतद्देवानां परिषूतं यद् ब्रह्मचारी ।

तदप्येतद्वचोकम् । देवानामेतत्परिषूतमनभ्यारूढं चरति रोचमानं तस्मिन् सर्वे पशवस्तत्र यज्ञास्तस्मिन्नन्नं सह देवताभिरिति ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ ब्रह्मचारी के दोषों का प्रायश्चित्त विधान ॥

(न उपरि शायी स्यात् न गायनः न नर्त्तनः न सरणः न निष्ठीवेत्) वह [ब्रह्मचारी] ऊपर [खाट आदि पर] न सुवैया होवे १, न गवैया २, न नचकैया ३, न घुमकड़ ४, और न थूके ५ । (यत् उपरि शायी भवति अभीक्ष्णं निवासाः जायन्ते) जो वह ऊपर सुवैया होता है बारम्बार [उसके] घर होते हैं १ । (यत् गायनः भवति अभीक्ष्णशः आक्रन्दान् धावन्ते) जो वह गवैया होता है बारम्बार विलापों को पाता है २ । (यत् नर्त्तनो भवति अभी-

क्षणशः प्रेतान् निर्हरन्ते) जो वह नचकैया होता है बारंबार प्रेतों [मृतकों] को ले जाता है ३ । (यत् सरणः भवति अभीक्ष्णशः प्रजाः संविशन्ते) जो वह घुमकड़ होता है, बारंबार लोगों में घुसता रहता है—४ । (यत् निष्ठीवति तत् आत्मनः मध्ये एव निष्ठीवति) जो वह थूकता है वह अपने भीतर ही थूकता है [मन को मलीन करता है], (स चेत् निष्ठीवेत् दिवः नु मां—यत् अत्र अपि—मधोः अहं, यत् अत्र अपि—रसस्य मे—इति आत्मनम् अनुमन्त्रयते) जो वह थूके—दिवो न मांअथ ६ । १२४ । १—इस मन्त्र से, जो इस पर भी [वह थूके]—मधोरहं इस ब्राह्मण वचन से, जो इस पर भी [थूके]—रसस्य मे इस ब्राह्मण वचन से अपने को मन्त्र के अनुकूल करे । (यत् अत्रापि—मधोरहं , निरिष्ट—विषमस्मृतम् , अग्निश्च तत् सविता च पुनर्मे जठरे धत्ताम्) जो इस पर भी [वह थूके]—मधोरहं १, निरिष्टं विषमस्मृतम् २, अग्निश्च तत् सविता च पुनर्मे जठरे धत्ताम् [इन तीन ब्राह्मण वचनों से अपने को मन्त्र के अनुकूल करे] । (यत् अत्रापि—रसस्य मे परापपातास्म तं तदिहोपह्वयामहे तन्म आप्यायतां पुनः—इति) जो इस पर भी [वह थूके]—रसस्य मे १, परापपातास्म तं २, तदिहोपह्वयामहे ३, तन्म आप्यायतां पुनः ४, [इन चार ब्राह्मण वचनों से वह अपने को मन्त्र के अनुकूल करे], ५ । श्मशानम् न आतिष्ठेत्) वह मरघट में न ठहरे, ६ । (सः चेत् अभितिष्ठेत् उदकं हस्ते कृत्वा—यदीदमृतुकाम्या इति अभिमन्त्र्य जपन् सप्रोक्ष्य परिक्रमेत्, समयाय उपरि वृजेत्—यदीदमृतुकाम्या १, अर्घं रिप्रमुपेयिम अन्धः श्लोण इव हीयतां २, मा नोऽन्वागादघं यतः—इति) जो वह [मरघट में] ठहरे, जल हाथ में करके—यदीदमृतुकाम्या इस

७—(शायी) शीङ् शयने—णिनि । शयनशीलः (गायनः) गै गाने—रघु । गानोपजीवी (नर्तनः) नर्तकः । नटः (सरणः) सरणशीलः । गमनशीलः (निष्ठीवेत्) नि+ष्ठिबु निरासे । मुखेन श्लेष्मादिवमनं कुर्यात् । (अभीक्ष्णम्, अभीक्ष्णशः) बारंबारम् (निवासाः) गृहाणि (आक्रन्दान्) रोदनकर्मणि (धावन्ते) गच्छति । प्राप्नोति (प्रेतान्) मृतान् (संविशन्ते) सम्यक् प्रविशति (श्मशानम्) श्मन्+शानम् । शीङ् । स्वप्ने—मनिन् द्विष । श्मशानः शवाः शोते यत्र । शीङ्-शानच्, द्विष । श्मशानं श्म श्मर्त्तं श्म शरीरम्—निद० ३ । ५ । श्वदाहस्थानम् (समयाय) सम्+इण् मतो-पचायच् । आचाराश्च

[ब्राह्मण वचन] को पढ़ करके जप करता हुआ मार्जन करके घूमे और समय [आचार] के लिये ऊपर जावे, यदीदमृतुकाम्या.....१, अघं रिप्रमुपेयिम अन्धः श्लोण इव हीयताम्.....२, मा नोऽन्वागादघं यतः.....इति ३, [इन तीन ब्राह्मण वचनों से वह अपने को मन्त्र के अनुकूल करे] ६ । (अथ ह एतत् देवानां परिषृतं यत् ब्रह्मचारी) और भी यह दिव्य लोकों का चलाने वाला है जो ब्रह्मचारी है ।

(तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम्—देवानामेतत्परिषृतमनभ्यारूढं चरति रोचमानं, तस्मिन् सर्वे पशवस्तत्र यज्ञास्तस्मिन्नघ्नं सह देवताभिः—इति ब्राह्मणम्) वह भी इस ऋचा से कहा गया है—देवानामेतत्रोचमानं—अथ०—११ । ५ । २३ पाद १, २, तस्मिन् सर्वे... देवताभिः—ब्राह्मण वचन, दिव्य लोकों का सर्वथा चलाने वाला, कभी न हराया गया, प्रकाशमान यह [व्यापक ब्रह्म] विचरता है, उसमें सब पशु [जीव], उस में यज्ञ, उस में अन्न सब दिव्य पदार्थों के साथ हैं—यह ब्राह्मण है ॥ ७ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी दोष करने पर अनेक प्रकार प्रार्थन करके परमात्मा में ध्यान लगाने से शुद्ध होवे ॥ ७ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले वेद मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।

१—दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादृपां स्तोको अभ्यपतद् रसेन । समिन्द्रियेण पर्यसाहर्मग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन ॥ अथ० ६ । १२४ । १ ॥
(दिवः) प्रकाशमान सूर्य से, (नु) अथवा (बृहतः) [सूर्य से] बड़े (अन्तरिक्षात्) आकाश से (अपाम्) जल का (स्तोकः) बिन्दु (माम् अभि) मेरे ऊपर (रसेन) रस के साथ (अपतत्) गिरा है । (सुकृताम्) सुकर्मियों के (कृतेन) कर्म से, (अग्ने) हे सर्वव्यापी परमेश्वर ! (इन्द्रियेण) इन्द्रपन अर्थात् सम्पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, (पर्यसा) अन्न के साथ, (छन्दोभिः) आनन्ददायक कर्मों के साथ, (यज्ञैः) विद्यादि दानों के साथ (अहम्) मैं (सम् = संगच्छेय) मिला रहूँ ॥

२—देवानामे तत् परिषृतमनभ्यारूढं चरति रोचमानम् । तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्मज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अन्नतेन साकम् ॥ अथ० ११ । ५ । २३ ॥
(देवानाम्) प्रकाशमान लोकों का (परिषृतम्) सर्वथा चलाने वाला, (अम-

(अघम्) पापम् (रिप्रम्) लारीडोर्ह्रस्वः पुट् च तरौ० । उ० ५ । ५५ । रीड् खवणे-रप्रत्ययः पुडागमो ह्रस्वश्च । रिप्रं पापनाम-निरु० ४ । २१ । पापम् । (उपेयिम) उप + इण् गतौ—लिट् । वयं प्रातवन्तः (श्लोणः) रस्य लः । श्लोणः । पङ्गुः (परिषृतम्) षू लोपे प्रेरणे—क । परितः सूतम् । सर्वतः प्रेरकम् ॥

भ्यारूढम्) कभी न हराया गया, (रोचमानम्) प्रकाशमान (एतत्) यह [व्यापक ब्रह्म] (चरति) विचरता है, (तस्मात्) उस [ब्रह्मचारी] से (ज्येष्ठम्) सर्वोत्कृष्ट (ब्राह्मणम्) ब्रह्म ज्ञान और (ब्रह्म) बुद्धिकारक धन (जातम्) प्रकट [होता है], (च) और (सर्वे देवाः) सब विद्वान् (अमृतेन साकम्) अमरपन [मोक्ष सुख] के साथ [होते हैं] ॥

कण्डिका ८ ॥

प्राणापानौ जनयन्निति शङ्खस्य मूले महच्छपेर्वसिष्ठस्य पुत्रः एतां वाचं ससृजे, शीतोष्णाविहोत्सौ प्रादुर्भवेयातामिति तथा तच्छ्वदनुवर्तते, अथ खलु विषाणमध्ये वशिष्ठशिला नाम प्रथम आश्रमो, द्वितीयः कृष्णशिलास्तस्मिन् वशिष्ठः क्षमतपद्विश्वामित्रजमदग्नी जामदग्ने तपतः, गौतमभरद्वाजो सिंहो प्रभवे तपतः गुंगुर्गुर्वासे तपत्यृषिर्ऋषिद्राणेऽभ्यतपदगस्त्योऽगस्त्यतीर्थे तपति दिव्य-प्रिहं तपति स्वयम्भूः कश्यपः कश्यपतुङ्गेऽभ्यतपदुलवृकर्तुतरक्षुः श्वा वराह-चिल्वटिबभ्रुकाः सर्पदंष्ट्रनः संहनुकृणवानाः कश्यपतुङ्गदर्शनात्सरणवाटात् सिद्धि-र्भवति ब्राह्म्यं वर्षसहस्रमृषिवनं ब्रह्मचार्यैकपादेनातिष्ठद् द्वितीयं वर्षसहस्रं मूर्द्धन्येवामृतस्य धारामधारयद्, ब्राह्मण्यष्टाचत्वारिंशतं वर्षसहस्राणि सलिलस्य पृष्ठे शिवोऽभ्यतपत्तस्मात्तत्तात्तपसो भूय एवाभ्यतपत् ।

तदप्येता ऋवोऽभिवदन्ति प्राणापानौ जनयन्निति ब्राह्मणम् ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ ॥ ब्रह्मचारी के आश्रम वा तपोवन ॥

(प्राणापानौ जनयन् इति—शङ्खस्य मूले महच्छपेः वसिष्ठस्य पुत्रः एतां वाचं ससृजे, शीतोष्णौ उत्सौ इह प्रादुर्भवेयाताम् इति—तथा तत् शश्वत् अनु-वर्तते) [प्राणापानौ जनयन्—अथ० ११ । ५ । म० २४ पाद ३, ४, मन्त्र २५, २६] प्राण और अपान [बल वर्धक श्वास और दोषनाशक प्रश्वास] को प्रकट करता हुआ.....इन मन्त्रों से शङ्ख के मूल में [मुख लगाने के स्थान पर] महर्षि वसिष्ठ के पुत्र ने इस वाणी को उत्पन्न किया—शीत और उष्ण दो भरने यहां प्रकट हो जावें—वह वैसा ही सदा लगातार होता रहता है [अर्थात् पदार्थों में प्राण और अपान द्वारा शीत और उष्णता का प्रवाह होता है] । (अथ खलु विषाणमध्ये

८—(उत्सौ) उन्दिगुधिकृषिभ्यश्च । उ० ३ । ६८ । उन्दी क्लेदने—स-प्रत्ययः । जलस्रवणस्थाने (विषाद्) वि + पट गतौ, यद्वा । पश वाधनस्पर्शनयोः संयन्तौ—किप् । विषाद् विपाटनाद्वा विपाशनाद्वा विप्रापणाद्वा—निरु० ६ ।

वशिष्ठशिला नाम प्रथमः आश्रमः, द्वितीयः कृष्णशिलाः तस्मिन् वशिष्ठः समतपत्) और कहा जाता है कि विपाद् [विविध प्रकार चलने वाली वा बोकने वाली नदी] के बीच में वशिष्ठ शिला नाम पहिला आश्रम है, [जिस के समीप] दूसरा कृष्णशिला है, उस [वशिष्ठ शिला आश्रम] में वशिष्ठ ने यथा-विधि तप किया । (विश्वामित्रजमदग्नी आमदग्ने तपतः) विश्वामित्र और जमदग्नि दोनों आमदग्नि में तप करते हैं । (गौतमभरद्वाजौ सिंहौ प्रभवे तपतः) गौतम और भरद्वाज दोनों सिंह [बलवान्] प्रभव [आश्रम] में तप करते हैं । (गुड्गुः गुगुर्वासे तपति) गुड्गु गुगुर्वास में तप करता है । (ऋषिः ऋषिद्रोणे अभ्यतपत्) ऋषि ने ऋषि द्रोण [ऋषिवन] में सब ओर से तप किया । (अगस्त्यः अगस्त्यतीर्थे तपति) अगस्त्य अगस्त्यतीर्थ में तप करता है । (दिवि अत्रिः ह तपति) दिव [स्वर्ग, सुखस्थान] में अत्रि तप करता है । (स्वयम्भूः कश्यपः कश्यपतुङ्गे अभ्यतपत्) स्वयम्भू कश्यप ने कश्यप तुङ्ग [कश्यप पहाड़] पर सब प्रकार तप किया । [यह दस ऋषि दस इन्द्रियां हैं] (उलवृक—ऋत्तु—तरत्तुः श्वा वराह चिल्वटि—बभ्रुकाः सर्पदंष्ट्रनः संहनु कृण्वानाः) उलवृक [भेड़िया], ऋत्तु [ऋत्त, रीछ], तरत्तु (लकड़-बग्घा], श्वा [कुत्ता], वराह [सूअर], चिल्वटि, बभ्रुक [बभ्रु, नेवला], सर्पदंष्ट्रन [साँप के समान डाढ़ों वाला जन्तु, यह आठ बनैले जीव] संगति करते हुये वा परस्पर हिंसा का नाश करते हुये [तप करते हैं] । (कश्यपतुङ्ग-दर्शनात् सरणवाटात् सिद्धिः भवति) कश्यप तुङ्ग के दर्शन से और चलने के मार्ग से सिद्धि [ऐश्वर्य प्राप्ति] होती है । ब्राह्म्यं वर्षसहस्रम् ऋषिवने ब्रह्म-चारी एकपादेन अतिष्ठत्, द्वितीयं वर्षसहस्रं मूर्द्धनि एव अमृतस्य धाराम् अधारयत्) ब्रह्मा के सहस्र वर्ष [द्वीप समान नाड़ियों में] ऋषिवन में [इन्द्रिय गणों के बीच] ब्रह्मचारी एक पग से खड़ा रहा, दूसरे सहस्र वर्ष [नाड़ियों में] मस्तक पर ही अमृत [जल] की धारा को धारण किया (ब्राह्मणि शष्ठा-

२६ । विपाद्, या विविधं पटति गच्छति विपाटयति वा सा—दयातन्दभाष्ये, ऋग्वेद ३ । ३३ । १ । विविधं गमनशीला नदी (वशिष्ठः) वसुमत्—इष्टन्, मतु-पो लुक् । वसुमत्तमः । अतिशयेन धनवान् । यद्वा वसु-इष्टन् । सर्वश्रेष्ठः (विश्वामित्रः) मित्रे चर्षौ । पा० ६ । ३ । १३० । इति दीर्घः । विश्वामित्रः सर्वामित्रः—नि० २ । २४ । सर्वहितः (जमदग्निः) जमु भक्षणे दीप्तौ च --शतृ+अग्निः । जमदग्निः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा । नि० ७ । २४ । जमन्तः

चैत्वारिंशत् वर्षसहस्राणि सलिलस्य पृष्ठे शिवः अभ्यतपत्) ब्रह्मा के अङ्ग-
तालीस सहस्र वर्ष [सलिलस्य पृष्ठे—अथ० ११ । ५ । २६] जल के ऊपर
[विद्या रूप जल में स्नान करने के लिये] शिव [मंगलदायक ब्रह्मचारी] ने
सब ओर से तप किया, (तस्मात् तप्तात् तपसः भूयः एव अभ्यतपत्) उस तप
किये हुये तप से अधिक भी उस ने तप किया । (तत् अपि एताः ऋचः अभि-
वदन्ति—प्राणापानौ जनयन्—इति ब्राह्मणम्) वह भी यह ऋचायें बतलाती
हैं [प्राणापानौ जनयन्—अथ० ११ । ५ । म० २४ पाद ३, ४, मन्त्र २५, २६]
प्राण और अपान [बलवर्धक श्वास और दोषनाशक प्रश्वास] को प्रकट
करता हुआ.....—यह मन्त्र हैं, यह ब्राह्मण है ॥ ८ ॥

प्रज्वलन्तोऽग्नेयो यज्ञे शिल्पसिद्धौ वा यस्य स महर्षिः (गौतमः) गौतमस्यापत्यं
शिष्यो वा (भरद्वाजः) भृञ् धारणापोषणयोः—शतृ + वज्र गतौ घञ् । अन्नस्य
बलस्य विज्ञानस्य वा भर्त्ता धारकः पोषको वा (गुङ्गुः) गुङ् ध्वनौ—डु + गङ्गु
गतौ—डु । अलुक्समासः । गुङ् ध्वनिं गच्छति प्राप्नोति यः सः वेदपाठकः
(गुगुर्वासे) गुगुलवने (ऋषिद्रुणे) ऋषिवने (अगस्त्यः) अग वक्रगतौ—
अच् । वसेस्तिः । उ० ४ । १८० अग + असु क्षेपणे—ति प्रत्ययः । तत्र साधुः । पा०
४ । ४ । ६८ यत्, दीर्घाभावः । अगस्य कुटिलगतः पापस्य असने क्षेपणे समर्थः
(दिवि) स्वर्गे । सुखस्थाने (अत्रिः) अदेस्त्रिनिश्च । उ० ४ । ६८ । अद् भक्षणे,
अत सातत्यगमने वा—त्रिप् । दोषस्य पापस्य भक्षको नाशकः । सदा ज्ञानशीलः
(कश्यपः) कश् शब्दे—यत् + पा पाने—क । सोमपानशीलः । यद्वा, हरिर्
प्रेक्षणे—बुन् । बुन्दसि अशिति प्रत्ययेऽपि दृशेः पश्य् इत्यादेशः । आद्यन्त विपर्य-
येन रूपलिङ्गिः । पश्यकः । यथार्थद्रष्टा (उल्लूकः) वृकभेदः (ऋक्षुः) ऋक्षः ।
भल्लूकः (तरक्षुः) तर + क्षि हिंसायाम्—डु । तरं गतिं मार्गं वा क्षिणोतीति ।
क्षुद्रव्याघ्रः (चित्तवटिः) जाङ्गलपशुभेदः (बभ्रुकः) बभ्रुः । नकुलः (संहनु)
भृश्वृस्निहित्रयसि० । उ० १ । १० । सम् + हन हिंसागत्योः—उप्रत्ययः । संगतिम्
परस्परहिंसनम् (कृशवानाः) कृषि हिंसाकरणयोः गतौ च—शानच्, उप्रत्ययः,
घस्य अकारः । हिंसन्तः । कुर्वाणाः (सरणवाटात्) गमनमार्गात् (सिद्धिः)
पेश्वर्यप्राप्तिः (ब्राह्म्यम्) ब्रह्मन्—प्यञ् । ब्रह्मसम्बन्धि (वर्षम्) वृषु सेचने—
अच्, यद्वा, वृत्वदिवचि० । उ० ३ । ६२ । वृञ् वरणे—स प्रत्ययः । संवत्सरः ।
क्षीपं यथा भारतवर्ष, हरिवर्षम् । नाडीसमूहः (ब्राह्मणि) ब्रह्मन्—अण् । ब्रह्म
सम्बन्धीनि ॥

भावार्थ—यह कण्डिका [प्राणापानौ जनयन्] इन अट्ठाई मन्त्रों से आरम्भ होकर इन ही मन्त्रों पर समाप्त होती है, इस से इस कण्डिका का इन मन्त्रों से दृढ़ सम्बन्ध है, वे मन्त्र यह हैं ।

प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मे धाम् ॥ २४ ॥ चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धे ह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम् ॥ २५ ॥ तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे । स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ २६ ॥ अथ० ११ । ५ म० २४ पा० ३, ४, म० २५, २६ ॥ वह [ब्रह्मचारी] (प्राणापानौ) प्राण और अपान [श्वास प्रश्वास विद्या] को, (आत्) और (व्यानम्) व्यान [सर्वशरीर व्यापक वायु विद्या] को, (वाचम्) प्राणी [भाषण विद्या] को, (मनः) मन [मनन विद्या] को, (हृदयम्) हृदय [के ज्ञान] को, (ब्रह्म) ब्रह्म [परमेश्वर ज्ञान] को और (मेधाम्) धारणावती बुद्धि को (जनयन्) प्रकट करता हुआ [वर्तमान होता है] ॥ २४ पाद ३, ४ ॥ [हे ब्रह्मचारी !] (अस्मासु) हम लोगों में (चक्षुः) नेत्र, (श्रोत्रम्) कान (यशः) यश, (अन्नम्) अन्न, (रेतः) वीर्य, (लोहितम्) रुधिर और (उदरम्) उदर [की स्वस्थता], (धेहि) धारण कर ॥ २५ ॥ (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (तानि) उन [कर्मों] को (कल्पत्) करता हुआ (समुद्रे) समुद्र [के समान गम्भीर ब्रह्मचर्य] में (तपः तप्यमानः) तप तपता हुआ [वीर्य निग्रह आदि तप करता हुआ] (सलिलस्य पृष्ठे) जल के ऊपर [विद्या रूप जल में स्नान करने के लिये] (अतिष्ठत्) स्थित हुआ है । (सः) वह (स्नातः) स्नान किये हुये [स्नातक ब्रह्मचारी] (बभ्रुः) पोषण करने वाला और (पिङ्गलः) बलवान् होकर (पृथिव्याम्) पृथिवी पर (बहु) बहुत (रोचते) प्रकाशमान होता है ॥ २६ ॥

ऐसे बहुत से मन्त्र हैं जैसे (जीवेम शरदः शतम् ॥ भूयसीः शरदः शतात् ॥ अथ० १६ । ६७ । २, ८) अर्थ—सौ वर्षों तक हम जीते रहें ॥ और सौ से भी अधिक वर्षों तक ॥ ८ ॥ इस से जाना जाता है कि इस कण्डिका का सम्बन्ध शरीर से, और ब्रह्मा के सहस्र वर्ष, दूसरे सहस्र वर्ष और अड़तालीस सहस्र वर्ष और उस से अधिक सहस्र वर्ष, शरीर की नाड़ियों से तात्पर्य है, वर्ष द्वीप को भी कहते हैं, जैसे भारतवर्ष, हरिवर्ष, यहां नाड़ी समूहों को वर्ष माना है । और ऋषि आदि इन्द्रियों के भी नाम हैं, और प्राण और अपान के सम्बन्ध से इन्द्रियां बलवर्धक और दोषनाशक हैं ॥ विद्वान् लोग पदों के साथ अर्थ की संगति विचार कर लगा लें ॥ ८ ॥

कण्डिका ६ ॥

एकपाद् द्विपद इति वायुरेकपात्तस्याकाशं पादश्चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूर्व-
पक्षापरपक्षौ पादावादित्यस्त्रिपात्तस्येमे लोकाः पादा अग्निः षट्पादस्तस्य पृथि-
व्यन्तरिक्षं द्यौराप ओषधिवनस्पतय इमानि भूतानि पादास्तेषां सर्वेषां वेदा
गतिरात्मा प्रतिष्ठिताश्चतस्रो ब्रह्मणः शाखा, अथो आहुः षडिति मूर्तिराकाश-
श्चेत्युक्त्वा मूर्तिर्याजुषो गतिः साममयन्तेजो भृग्वङ्गिरसामापैतद् ब्रह्मैव यज्ञश्चतु-
षष्पाद् द्विः संस्थित इति । तस्य भृग्वङ्गिरसः संस्थे अथो आहुरेकसंस्थित इति,
यद्बोतर्चा मण्डलैः करोति पृथिवीं तेनाप्याययति एतस्यां ह्यग्निश्चरति ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । अग्निवासाः पृथिव्यसितज्ञूरिति ।

यदध्वर्युर्यजुषा करोत्यन्तरिक्षं तेनाप्याययति तस्मिन् वायुर्न निविशते
कतमन्नं नाह इति ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । अन्तरिक्षे पथिभिर्हीयमाणो न निविशते कतमन्नं
नाहः । अपां यानिः प्रथमजा ऋतस्य क्व स्वज्जातः कुत आवभूवेति ।

यदुद्गाता साम्ना करोति दिवं तेनाप्याययति तत्र ह्यादित्यः शुक्रश्च-
रति ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । उच्चा पतंतमरुणं सुपर्णमिति । यद् ब्रह्मर्चा कारुडैः
करोत्यपस्तेनाप्याययति चन्द्रमा ह्यप्सु चरति ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । चन्द्रमा अप्स्वन्तरिति । तासामोषधिवनस्पतयः
कारुडानि, ततो मूलकारुडपर्णपुष्पफलप्ररोहरसगन्धैर्यज्ञो वर्त्ततेऽद्भिः कर्माणि
प्रवर्त्तन्तेऽद्भिः सोमो विषूयते, तद् यद् ब्रह्माणं कर्माणि कर्मण्यामन्त्रयत्यपस्ते-
नानुजानात्येषो ह्यस्य भागस्तद्यथा भीक्ष्यमाणोऽप एव प्रथममाचामयेदप उष-
रिष्ठादेवं यज्ञोऽद्भिरेव प्रवर्त्ततेऽप्सु संस्थाप्यते तस्माद् ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसंस्थित-
होमैर्यज्ञो वर्त्ततेऽन्तरा हि पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमैर्यज्ञं परिगृह्णात्यन्तरा हि
भृग्वङ्गिरसः वेदानोदुह्य भृग्वङ्गिरसः सोमपानं मन्यन्ते सोमात्मको ह्ययं वेद ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । सोमं मन्यते पपिवानिति ।

तद्यथेमां पृथिवीमुदीर्णां ज्योतिषा धूमायमानां वर्षं शमयस्येवम् ब्रह्मा
भृग्वङ्गिरोभिर्व्याहृतिभिर्यज्ञस्य विरिष्टं शमयत्यग्निरादित्याय म इत्येतेऽङ्गिरस
एत इदं सर्वं समाप्नुवन्ति, वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भृगव एत इदं सर्वं समा-
प्याययन्त्येकमेव संस्थं भवतीति ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा का वर्णन ।

(एकपाद् द्विपदः इति वायुः एकपात् तस्य आकाशं पादः) एकपाद् द्विपदः—इति—अथ० १३ । २ । २७, इस मन्त्र में पवन एक पग वाला है, उसका आकाश पग है, (चन्द्रमाः द्विपात् तस्य पूर्वपक्षापरपक्षौ पादौ) चन्द्रमा दो पग वाला है उस के पहिला पाख और दूसरा पाख दो पग है, (आदित्यः त्रिपात् तस्य इमे लोकाः पादाः) सूर्य तीन पग वाला है, उस के यह [ऊँचे नीचे और मध्य] लोक पग हैं, (अग्निः षट्पादः तस्य पृथिवी अन्तरिक्षं द्यौः आपः ओषधिवनस्पतयः इमानि भूतानि पादाः) अग्नि छह पग वाला है, उसके पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रकाश, जल, ओषधि और वनस्पतिये यह सब सत्ताये पग हैं । (तेषां सर्वेषां वेदाः गतिः आत्मा प्रतिष्ठिताः) इन सब में वेद [वेद ज्ञान], गति [प्रवृत्ति] और आत्मा ठहरे हुये हैं । (ब्रह्मणः चतस्रः शाखाः, अथो आहुः षट् इति मूर्तिः आकाशः च इति) ब्रह्म [यज्ञ] की चार शाखायें [वायु, चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि] हैं, कोई कहते हैं छह हैं मूर्ति और आकाश [मिलाकर] । [ऋचा मूर्तिः याजुषी गतिः साममयं तेजः भृग्वङ्गिरसाम् आप = आपः, एतत् ब्रह्म एव चतुष्पात् यज्ञः द्विः संस्थितः इति) ऋचा [ऋग्वेद विद्या] मूर्ति, याजुषी [यजुर्वेद विद्या] गति, साममय [सामवेद ज्ञान] तेज, और भृगु अङ्गिरसाओं [प्रकाशमान ज्ञानवाले चारो वेदों] का जल है, यह ब्रह्म ही चार पग वाला यज्ञ और दो बार संस्था [ठीक ठीक ठहराव] वाला है । (तस्य भृग्वङ्गिरसः संस्थे अथो आहुः एकसंस्थितः इति) उस के भृगु अङ्गिरा [चारों वेद] दो संस्थायें हैं, कोई कहते हैं एक संस्था वाला है ।

(यत् होता ऋचां मण्डलैः करोति, पृथिवीं तेन आप्याययति एतस्यां हि अग्निः चरति) जो होता ऋचाओं [ऋग्वेद मन्त्रों] के समूहों से कर्म करता है पृथिवी को उसके पुष्ट करता है, इस [पृथिवी] में ही अग्नि विचरता है । (तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम् । अग्निवासाः पृथिवी असितज्ञूः इति)

६—(भूतानि) सत्तामात्राणि (गतिः) प्रवृत्तिः (आत्मा) प्राणः (प्रतिष्ठिताः) स्थापिताः (ब्रह्मणः) यज्ञस्य (मूर्तिः) आकारः (ऋचा) ऋग्मन्त्रेण (याजुषी) यजुः—अण्, ङीप् । संगतिकरणयुक्ता । यजुर्वेदमन्त्रसम्बन्धिनी (साममयम्) सामवेदमन्त्रसंबद्धम् (भृग्वङ्गिरसाम्) प्रकाशमानज्ञानानां चतुर्वेदानाम् (आप) विभक्तिलोपः । (आपः) जलानि (संस्थितः) सम्यक्स्थितः । समाप्तियुक्तः (भृग्वङ्गिरसः) चतुर्वेदाः (संस्थे) समाप्ति यज्ञ-

यह भी इस ऋचा करके कहा गया है—अग्निवासाः पृथिव्यसितज्ञः—अथ०
१२ । १ । २१ ॥

(यत् अध्वर्युः यजुषा करोति अन्तरिक्षं तेन आप्याययति तस्मिन् वायुः
कतमत् चन अहः न निविशते इति) जो अध्वर्यु यजुर्वेद से कर्म करता है
अन्तरिक्ष को उस से वह पुष्ट करता है, उसमें वायु किसी दिन भी नहीं बैठता
[रुकता] है । (तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम् । अन्तरिक्षे पथिमिः ह्ययमाणः
न निविशते कतमत्चन अहः । अपां योनिः प्रथमजाः ऋतस्य क स्वित् जावः
कुतः आबभूव इति) यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है—१० । १६२ । ३ ।
यह भी इस ऋचा करके कहा गया है—अन्तरिक्षे । अर्थ—अन्तरिक्ष में
अनेक मार्गों से ले जाया गया [वायु] किसी दिन भी नहीं बैठता है । जल
का कारण और सत्य नियम से पहिले पदार्थों में उत्पन्न होने वाला वह कहां
उत्पन्न हुआ और कहां से प्राप्त हुआ है ।

(यत् उद्गाता साम्ना करोति दिवं तेन आप्याययति तत्र हि शुक्रः
आदित्यः चरति) जो उद्गाता सामवेद से कर्म करता है, सूर्य के प्रकाश को
उससे वह पुष्ट करता है, उस [प्रकाश] में ही वीर्यवान् सूर्य विचरता है ।
(तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम् । उच्चा पतन्तम अरुणं सुपर्णम् इति—अथ० १३ ।
२ । ३६) यह भी इन ऋचा करके कहा गया है—उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्णम् इति ॥

(यत् ब्रह्मा ऋचां कारणैः करोति अपः तेन आप्याययति, चन्द्रमाः हि
अप्यु चरति) जो ब्रह्मा [चारों वेद जानने वाला] ऋचाओं [चारों वेदों] के
कारणों [भागों] से कर्म करता है, जल को उस से वह पुष्ट करता है, चन्द्रमा
हो जल में विचरता है । (तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम् । चन्द्रमा अपवन्तः
इति) वह भी इस ऋचा करके कहा गया है—चन्द्रमा अपव १ न्तः—इति अ०
१२ । ४ । २६ । (तालाम् श्रोषधिवनस्पतयः कारणानि, ततः मूलकारणदर्पण-
पुष्पफलप्ररोहरसगन्धैः यज्ञः वर्तते) उन [जलों] की श्रोषधिवनस्पतियों

विशेषद्वयम् (ऋचाम्) ऋग्मन्त्राणाम् (मण्डलैः) समूहैः (करोति) यज्ञकर्म
करोति (अग्निवासाः) वसेरित् । उ० ४ । २१२ । वस निवासे आच्छादने च—
असुन् । अग्निना तापेन सह निवासे यस्याः सा । यद्वा तापो वस यस्याः सा
(असि तन्युः) लेखप्रमादः । असितज्ञः, इति वेदे । अ + षिञ् वधने—क ।
अन्दू इम्फू जम्बू० । उ० । १ । ६३ । ज्ञा विज्ञापने कू । अवद्धं कर्म ज्ञापयति
बोधयति नियोजयति वा सा (निविशते) उपविशते (ह्ययमाणः) नीयमानः

शाखायें हैं, उससे जड़ शाखा पत्ता फूल फल अङ्कुर रस और गन्ध के साथ यज्ञ होता है, (अद्भिः कर्माणि प्रवर्तन्ते, अद्भिः सोमः विषूयते) जल से कर्म होते रहते हैं, जल से सोम [अमृत रस] निचोड़ा जाता है । (तत् यत् ब्रह्माणम् कर्मणि कर्मणि आमन्त्रयति, अपः तेन अनुजानानि) वह जब ब्रह्मा को काम काम में बुलाता है जल की उस से वह आज्ञा देता है । (एषः हि अस्य भागः तत् यथा भोक्ष्यमाणः अपः एव प्रथमम् आचापयेत् अपः उपरिष्ठात्, एवं यज्ञः अद्भिः एव प्रवर्तते अप्सु संस्थाप्यते) यही इस [ब्रह्मा] का भाग है, सो जैसे भोजन चाहता हुआ-पुरुष जल को ही पहिले आचमन करे और जल को ही उपरान्त में, इसी प्रकार यज्ञ जल से ही चलता रहता है और जल में समाप्त होता है । (तस्मात् पुरस्तात्—होम संस्थितहोमैः अन्तरा यज्ञः वर्तते, ब्रह्मा ही पुरस्तात्—होम संस्थितहोमैः अन्तरा यज्ञं परिगृह्णाति) इस कारण पुरस्तात्-होम और संस्थित-होमों के बीच में यज्ञ होता है, ब्रह्मा ही पुरस्तात्-होम और संस्थित-होमों के बीच में यज्ञ को धरता है । (भृश्वङ्गिरसः वेदान् हि ओदुह्य भृश्वङ्गिरसः सोमपानं मन्यन्ते, सोमात्मकः हि अयं वेद = वेदः) प्रकाशमान ज्ञान वाले वेदों को ही भले प्रकार प्राप्त करके प्रकाशमान ज्ञान-वाले मनुष्य सोम पान को जानते हैं, सोमात्मक [अमृतमय] यह वर है । (तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम् । सोमं मन्यते पपिवान् इति) वह भी इस ऋचा से कहा गया है—सोमं मन्यते पपिवान् ... अथ० १४ । १ । ३ ।

(तत् यथा इमाम् उदीर्णां ज्योतिषा धूमायमानां पृथिवीं वर्षं शमयति एवं ब्रह्मा भृश्वङ्गिराभिः व्याहृतिभिः यज्ञस्य विरिष्टं शमयति) सो जैसे इस उदार, तेज से धुआं उठती हुई पृथिवी को वर्षा शान्त करती है, वैसे ही ब्रह्मा

(प्रथमजाः) प्रथमेषु जातः (ऋतस्य) सत्यनियमस्य (उच्चायतं तम्) उच्चा पतन्तम्—इति वेदे । उच्चैः ऐश्वर्यं प्राप्नुवन्तम् (ब्रह्मा) चतुर्वेदवेत्ता (काण्डैः) कृत्वादिभ्यः कित् । उ० १ । ११५ । कमु कान्तौ—उप्रत्ययो दीर्घत्वञ्च । ग्रन्थ-भानैः (अप्सु अन्तः) जलेषु मध्ये (आमन्त्रयति) संबोधयति (अपः) जलानि (अनुजानाति) आज्ञापयति (भोक्ष्यमाणः) भोक्तुम् इष्यमाणः (उपरिष्ठात्) उर्ध्वम् (संस्थाप्यते) समाप्यते (ओदुह्य) आ+उत्+वह प्रापणे—ल्यप् । समन्तात् प्राप्य (भृश्वङ्गिरसः) प्रकाशमानज्ञानयुक्ता विद्वांसः (वेद) वेदः । चतुर्वेदसमूहः (उदीर्णाम्) उत+ऋ गतौ—क्त । उदाराम् । महतीम् (वर्षम्) वृष्टिः (विरिष्टम्) दोषम् ॥

प्रकाशमान ज्ञानवाले वेदों और व्याहृतियों से यज्ञ के उपद्रव को शान्त करता है । (अग्निः आदित्याय मे इति—एते एते अङ्गिरसः इदं सर्वं समाप्नुवन्ति, वायुः आपः चन्द्रमाः इति एते एते भृगवः इदं सर्वं समाप्याययन्ति, एकम् एव संस्थं भवति इति ब्राह्मणम्) अग्निः आदित्याय मे [यह ब्राह्मण वचन है, इस से] यह सब विद्वान् लोग इस सब कर्म को पूरा करते हैं । वायुः आपः चन्द्रमाः [यह ब्राह्मण वचन है इस-से] यह सब भृगु [प्रकाशमान लोग] इस सब [जगत्] को यथावत् पुष्ट करते हैं, एक ही संस्थ होता है—यह ब्राह्मण है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि वे ऋग्वेदी को होता, यजुर्वेदी को अध्वर्यु, सामवेदी को उद्गाता और चारों वेद जानने वाले को ब्रह्मा बरण करके यज्ञ की सिद्धि करें ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—नीचे लिखे शब्द शुद्ध किये हैं ।

असि तन्युः=असितञ्जूः—अथ० १२ । १ । २१, उच्चायतं तम्=उच्चा पतन्तम्—अथ० १२ । २ । ३६, अप्सन्तर्=अपस्वन्तर्—अथ० १८ । ४ । ८६ ।

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मंत्र अर्थ सहित नीचे दिए जाते हैं ।

१—एकं पाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्यन्ति पश्चात् ।
द्विपाद् षट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकं पदस्तन्व १ समासते—अथ० १३ ।
२ । २७ । (एकपात्) एक रस व्यापक परमेश्वर (द्विपदः) दो प्रकार की स्थिति वाले [जङ्गम स्थावर जगत्] से (भूयः) अधिक आगे (वि) फैल कर (चक्रमे) घूला गया, (द्विपात्) दो [भूत भविष्यत्] में गति वाला परमात्मा (पश्चात्) फिर (त्रिपादम्) तीन [प्रकाशमान, अप्रकाशमान और मध्य लोकों] में व्याप्ति वाले संसार में (अभि) सब ओर से (एति) प्राप्त होता है, (द्विपात्) दो [जङ्गम और स्थावर जगत्] में व्यापक ईश्वर (ह) निश्चय करके (षट्पदः) छह [पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऊंची और नीची दिशाओं] में स्थिति वाले ब्रह्माण्ड से (भूयः) अधिक आगे (वि चक्रमे) निकल गया, (ते) वे [योगी जन] (एकपदः) एक रस व्यापक परमेश्वर की (तन्वम्) उपकार क्रिया को (सम्) निरन्तर (आसते) सेवते हैं ।

२—अग्निवास्मः पृथिव्यं सितञ्जूस्त्वर्षीमन्तं संशितं मा कृणोतु—अथ० १२ । १ । २१ । (अग्निवासाः) अग्नि के साथ निवास करवे वाली [अथवा अग्नि के बख्त वाली], (असितञ्जूः) बन्धन रहित कर्म को जताने वाली (पृथिवी)

पृथिवी (मा) मुझ को (त्विषिमन्तम्) तेजस्वी और (संशितम्) तीव्र [फुरतीला] (कृणोतु) करे ।

३—अन्तरिक्षे पृथिभिरीयमानो न निविशते कतमश्नता इः । अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क' सिवज्जातः कुत आ बभूव—ऋग० १०। १६८। ३ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (पृथिभिः) अनेक मार्गों से (ईयमानः) चलता हुआ [वायु] (कतमत् चन अहः) किसी दिन भी (न) नहीं (नि विशते) बैठता है । (अपाम्) जल का (सखा) सखा [वायु] (प्रथमजाः) पहले पदार्थों में उत्पन्न होने वाला (ऋतावा) सत्य नियम वाला वह (कस्वित्) कहां पर (जातः) उत्पन्न हुआ और (कुतः) कहां से (आ बभूव) प्राप्त हुआ है ॥

४—उच्चा पतन्तमरुणं सु'पर्णं मध्ये दिव स्तरणिं भ्रिजिमानम् । पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजस्रं जोतिर्यद विन्द दत्तिः । अथ० १३। २। ३६। (उच्चा) ऊंचे (पतन्तम्) ऐश्वर्यवान् हाते हुये, (अरुणम्) सर्वव्यापक, (सुपर्णम्) बड़े पालने वाले, (दिवः) व्यवहार के (मध्ये) मध्य (तरणिम्) पार करने वाले, (भ्रिजिमानम्) प्रकाशमान, (सवितारम्) सर्व प्रेरक (त्वा) तुझ [परमेश्वर] को (पश्याम) हम देखें, (यम्) जिस को (अजस्रम्) निरन्तर (ज्योतिः) ज्योति (आहुः) वे [विद्वान् लाग] बताने हे, (यत्) जिस [ज्योति] को (अत्तिः) निरन्तर जानी [योगी पुरुष] ने (अविन्दत्) पाया है ॥

५—चन्द्रमा अस्व १ न्तरा सु'पर्णो धावते दिवि । न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे' अस्य रोदसी । अथ० १८। ४। ८६, ऋग० १। १०५। १, साम० पू० ५। ३। ६। (सुपर्णः) सुन्दर पूर्ति करने वाला (चन्द्रमाः) चन्द्रलोक (अस्तु अन्तः) [अपने] जलों के भीतर (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (आ धावते) दौड़ता रहता है । (हिरण्यनेमयः) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मा में सीमा रखने वाले (विद्युतः) विविध प्रकाशमान [सब लोको !] (वः) तुम्हारे (पदम्) ठहराव को (न विन्दन्ति) नहीं पाते हैं, (रोदसी) हे सूर्य के समान स्त्री पुरुषो ! (मे) मेरे (अस्य) इस [वचन] का (वित्तम्) तुम दोनों ज्ञान करो ॥

६—सोमं मन्यते पपिवान् यत् संपिषन्त्योषधिम् । सोमं यं ब्रह्मार्थो विदुर्न तरयाश्नाति पार्थिवः—अथ० १४। १। ३, ऋग० १०। ८५। ३। (सोमम्) चन्द्रमा [के अमृत] को (पपिवान्) मैं ने पी लिया [यह बात मनुष्य]

(मन्यते) मानना है, (यत्) जब (औषधिम्) औषधि [अन्न सोमलता आदि] को (संपिबन्ति) वे [मनुष्य] पीसते हैं । (यम्) जिस (सोमम्) जगत् स्रष्टा परमात्मा को (ब्रह्मणाः) ब्रह्मज्ञानी लोग (विदुः) जानते हैं, (तस्य) उस का [अनुभव] (पृथिवः) पृथिवी [के विषय] में आसक्त पुरुष (न) नहीं (अश्नाति) भांगता है ॥

कण्डिका १० ॥

विचारी ह वै काबन्धिः कबन्धस्याथर्वणस्य पुत्रो मेधावी मीमांसकोऽनू-
चान आस, स इ स्वेनातिमानेन मानुषं वित्तं नेयाय, तं मातोवाच, त एवैतद-
न्नमवाचंस्त इममेषु कुरुपञ्चालेषु अङ्गमगधेषु काशिकौशल्येषु शाल्वमत्स्येषु
शवसउशीनरेषु उदीच्येष्वन्नमदन्तीत्यथ वयं तवैवातिमानेनानाद्यास्मो वत्स
वाहनमन्विच्छेति स मान्धातुर्यौवनाश्वस्य सार्वभौमस्य राज्ञः सोमं प्रसूतमा-
जगान, स सदोऽनुप्रविश्यत्विजश्च यजमानश्चामन्त्रयामास, तथाः प्राच्यो नद्यो
धहन्ति याश्च दक्षिणाच्यो याश्च प्रतीच्यो याश्च उदीच्यस्ताः सर्वाः पृथङ्नाम-
धेर्यारित्याचक्षते, तासां समुद्रमभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं समुद्र इत्याच-
क्षते, एवमिमे सव वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः स ब्राह्मणाः सोपनिष-
त्काः सेतिहासाः सान्वाख्याताः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः
सानुशालनाः सानुमार्जनाः सवाकोवाक्यास्तेषां यज्ञमभिपद्यमानानां छिद्यते नाम-
धेयं यज्ञ इत्येवाचक्षते ॥ १० ॥

कण्डिका १० ॥ काबन्धि की मान्धाता के यज्ञ में यज्ञविषयक वार्ता ॥

(विचारी ह वै काबन्धिः आथर्वणस्य कबन्धस्य पुत्रः मेधावी मीमांसकः
अनूचानः आस) तत्त्व निर्णय करने वाला काबन्धि, आथर्वण [निश्चल ब्रह्मज्ञान
में श्रद्धा वाले] कबन्ध [ब्रह्म में संयम करने वाले ऋषि] का पुत्र अटल बुद्धि-
शाली, मीमांसा शास्त्र जानने वाला, साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ा हुआ था । (सः ह
स्वेन अतिमानेन मानुषं वित्तं न इयाय) उसने अपने अति धमण्ड से मनुष्य योग्य
धन न पाया । (तं माता उवाच—ते एव एतत् अन्नम् अवोचन्) उस से माता
बोली—उन्होंने ही इस अन्न के विषय में कहा है । (ते इमम् = इदम् अन्नम्
पेषु कुरुपञ्चालेषु अङ्गमगधेषु काशिकौशल्येषु शाल्वमत्स्येषु शवसउशीनरेषु
उदीच्येषु अदन्ति इति) वे लोग इस अन्न को इन कुरुपञ्चालों में, अङ्गमगधों

में, काशिकौस्तिल्यों में, शाल्वमत्स्यों में, शवसउशीनरों में, उत्तरदेशवासियों में खाते हैं । (अथ वयं तव एव अतिमानेन अनाद्याः स्मः वत्स वाहनम् अन्विच्छ इति) सो हम तेरे ही अति घमण्ड से बिना अन्न हैं, हे बच्चा ! रथ ढूँढ़कर ला । (सः यौवनाश्वस्य सार्वभौमस्य राज्ञः मान्धातुः प्रसूतं सोमम् आजगाम) वह युवनाश्व के पुत्र, चक्रवर्ती राजा मान्धाता के निचोड़े हुये सोम [सोमयज्ञ] में आया । (स सदः अनुप्रविश्य ऋत्विजः च यजमानं च आमन्त्रयामास) वह यज्ञशाला में प्रवेश करके ऋत्विजों और यजमान [मान्धाता] से बोला—(तत् याः प्राच्यः याः च दक्षिणाच्यः याः च प्रतीच्यः याः च उदीच्यः नद्यः वहन्ति ताः सर्वाः पृथङ्नामधेयीः इति आचक्षते, तासां समुद्रम् अभिपद्यमानानां नामधेयं छिद्यते समुद्रः इति आचक्षते) सो जो पूर्व ओर वाली, और जो दक्षिण ओर वाली, और जो पश्चिम ओर वाली, और जो उत्तर ओर वाली नदियां बहती हैं, वे सब अलग अलग नामवाली हैं, ऐसा कहते हैं, उन समुद्र में पहुंचने वालीयों का नाम मिट जाता है, यह समुद्र है-ऐसा कहते हैं, (एवम् इमे सर्वे वेदाः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्याख्याताः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः सवाकोवाक्याः निर्मिताः तेषां यज्ञम् अभिपद्यमानानां नामधेयं छिद्यते यज्ञः इति एव आचक्षते) ऐसे ही यह सब वेद कल्पों सहित रहस्यों सहित, ब्राह्मण ग्रन्थों सहित, उपनिषदों सहित, इतिहासों सहित, व्याख्यानों सहित, पुराणों सहित, स्वरों सहित, संस्कारों सहित, निरुक्तों [निर्वाचनों] सहित, अनुशासनों [धर्मशास्त्रों] सहित, अनुमार्जनों [संशोधनों] सहित, वाकोवाक्यों [पू० १ । २१] सहित बने हुये हैं, उन यज्ञ में पहुंचते हुआ का नाम मिट जाता है, यह यज्ञ है ऐसाही कहते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ स्पष्ट है ॥ १० ॥

१०—(विचारीं) तत्त्वनिर्णयता (काबन्धिः) अत इञ् । पा० ४ । १ । ६५ । कबन्ध—इञ् । कबन्धमुत्रः । ऋषिविशेषः (कबन्धस्य) के ब्रह्मणि बन्धः संयमो यस्य तस्य । ऋषिविशेषस्य (आथर्वणस्य) निश्चलब्रह्मज्ञाननिष्ठस्य (मीमांसकः) मीमांसाशास्त्रनिपुणः (अनूचानः) उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च । पा० ३ । २ । १०६ । अनु + वच् कथने—कानच् । साङ्गवेदविचक्षणः (वित्तम्) धनम् (इयाय) इण् गतौ—लिट् । प्राप (उदीच्येषु) द्युप्रागपागुक्क प्रतीच्यो यत् । पा० ४ । २ । १०१ । उदच्—यत् उत्तरदेशभवेषु (अनाद्याः) खाद्यवस्तु-

कण्डिका ११ ॥

भूमेर्ह वै एतच्छिच्छन्नं देवयजनं यदप्राक्प्रवणं यदनुदक्प्रवणं यत् कृत्रिमं यत्समविषममिदं ह त्वेव देवयजनं यत्समं समूलमविदग्धं प्रतिष्ठितं प्रागुदक्प्रवणं समं समास्तीर्णमिव भवति, यत्र ब्राह्मणस्य ब्राह्मणतां विद्याद् ब्रह्मा ब्रह्मत्वं करोतीति वोचे छन्दस्तन्न विन्दामो येनोत्तरमेमहीति । तान् ह पप्रच्छ किं विद्वान् होता हौत्रं करोति, किं विद्वानध्वर्युराध्वर्यवं करोति, किं विद्वानुद्गातौद्गात्रं करोति, किं विद्वान् ब्रह्मा ब्रह्मत्वं करोतीति वोचे छन्दस्तन्न विन्दामो येनोत्तरमेमहीति । ते ब्रूमो वागेव होता हौत्रं करोति वाचो हि स्तोमाश्च घषट्काराश्चाभिसम्पद्यन्ते, ते ब्रूमो वागेव होता वाग् ब्रह्म वाक् देव इति । प्राणापानाभ्यामेवाध्वर्युराध्वर्यवं करोति, प्राणः प्रणीतानि ह भूतानि प्राणः प्रणीताः प्रणीतास्ते ब्रूमः प्राणापानावेवाध्वर्यु प्राणापानौ ब्रह्म प्राणापानौ देव इति । चक्षुषैवोद्गाता औद्गात्रं करोति चक्षुषा हीमानि भूतानि पश्यन्त्यथो चक्षुरेवोद्गाता चक्षुर्ब्रह्म चक्षुर्देव इति । मनसैव ब्रह्मा ब्रह्मत्वं करोति मनसा हि तिर्यक् च दिश उर्ध्वं च यश्च किञ्च मनसैव करोति तद् ब्रह्म ते ब्रूमो मन एव ब्रह्मा मनो ब्रह्म मनो देव इति ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ काबन्धि के देवयजन और ऋत्विजों के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(भूमेः ह वै एतत् विच्छिन्नं देवयजनं यत् अप्राक्प्रवणं यत् अनुदक्प्रवणं यत् कृत्रिमं यत् समविषमम्) यह भूमि से बांटा गया देवयजन [विद्वानों का पूजास्थान] है, जो पूर्व की ओर न झुका हुआ और न उत्तर की ओर झुका हुआ है, जो घना हुआ है, और जो चौरस और ऊंचा नीचा है । (इदं ह तु एव देवयजनं यत् समं समूलम् अविदग्धं प्रतिष्ठितं प्रागुदक्प्रवणं समं समास्तीर्णम् इव भवति, यत्र ब्राह्मणस्य ब्राह्मणतां विद्यात् ब्रह्मा ब्रह्मत्वं करोति इति)

रहिताः (मान्धातुः) मान पूजायाम्—क्विप् + दधातेः—तृष् । सत्कारधारकस्य राजविशेषस्य (यौवनाश्वस्य) युवनाश्वपुत्रस्य (सार्वभौमस्य) चक्रवर्तिनृपस्य । राजराजेश्वरस्य (प्रसूतम्) षड् प्रसवे—क्त । निष्पन्नम् । निष्पीडितम् (सदः) यज्ञशालाम् (आमन्त्रयामास) संबोधितवान् (अभिपद्यमानानाम्) प्राप्यमाणानाम् (सान्वाख्याताः) सव्याख्याताः (सानुमार्जनाः) संशोधनाः ॥

११—(विच्छिन्नम्) विभक्तम् (देवयजनम्) विदुषां पूजास्थानम् (अप्राक्प्रवणम्) षुड् सर्पणे—ल्युट् । अपूर्वदिक्क्रमनिक्रमम् (अनुदक्प्रवणम्) अनुत्त-

यह तो देवयजन है जो चौरस, नेव [नीव] वाला, बिना जला हुआ, प्रतिष्ठा-
वाला, पूर्व और उत्तर को झुका हुआ, चौरस, और एक सा फैला हुआ सा है,
और जिसमें ब्राह्मण की ब्राह्मणता जानी जावे, ब्रह्मा ब्रह्मत्व [ब्रह्मा का काम]
करता है । (छन्दः वोचे तत् न विन्दामः येन उत्तरम् एमहि इति) मैं ने वेदज्ञान
कहा है, उस को हम [वैसा] नहीं पाते हैं जिस से हम उत्तर पावें । (तान् ह
पप्रच्छ किं विद्वान् होता हौत्रं करोति, किं विद्वान् अध्वर्युः आध्वर्युर्वं करोति,
किं विद्वान् उद्गाता उद्गात्रं करोति, किं विद्वान् ब्रह्मा ब्रह्मत्व करोति इति)
उन से उस ने पूछा—कौन विद्वान् होता हातृकर्म करना है, कौन विद्वान् अध्वर्यु
अध्वर्यु कर्म करता है, कौन विद्वान् उद्गाता उद्गातृ कर्म करता है, कौन विद्वान्
ब्रह्मा ब्रह्मा का कर्म करता है । (छन्दः वोचे तत् न विन्दामः येन उत्तरम् एमहि
इति) मैं ने वेदज्ञान कहा है, उस को हम [वैसा] नहीं पाते हैं जिससे हम
उत्तर पावें । [उन्होंने उत्तर दिया]—(ते ब्रूमः वाक् एव होता हौत्रं करोति
वाचः हि स्तोमाः च वषट्काराः च अभिसम्पद्यन्ते, ते ब्रूमः वाक् एव होता
वाक् ब्रह्म वाक् देवः इति) तुझसे हम कहते हैं—वाणी ही होता [होकर]
हातृ कर्म करती है, वाणियों को ही स्तोम [स्तुति के मन्त्र और वषट्कार
[आहुतियां] प्राप्त होती हैं, तुझ से हम कहते हैं—वाणी ही होता, वाणी ब्रह्म
[वेदज्ञान], और वाणी देवता है । (प्राणापानाभ्याम् एव अध्वर्युः आध्व-
र्युर्वं करोति, प्राणः प्राणीतानि ह भूतानि, प्राणः प्रणीताः प्रणीताः—ते ब्रूमः
प्राणापानौ एव अध्वर्युः, प्राणापानौ ब्रह्म, प्राणापानौ देवः इति) दोनों प्राण
और अपान [श्वास और प्रश्वास] से ही अध्वर्यु अध्वर्यु का काम करता है,
प्राण ही अच्छे प्रकार लाये गये जीव है, प्राण ही अच्छे प्रकार लाये गये प्रणीता
[यज्ञपात्रविशेष] हैं—तुझ से हम कहते हैं—दोनों प्राण और अपान ही
दो अध्वर्यु हैं, प्राण और अपान ब्रह्म [वेदज्ञान], प्राण और अपान देवता हैं ।

रदिक्रमनिष्क्रमम् (कृत्रिमम्) ड्वितः क्तिः । पा० ३ । ३ । ८८ । डुकृञ् करणे—
क्त्रि । त्रेर्ममन्तित्यम् । पा० ४ । ४ । २० । इतिमप् । करणाज्ञातम् । रचितम्
(समविषमम्) समं समानं च विषमम् असमानम् । उच्चनीचं च (अविद-
ग्धम्) वि+दह भस्मीकरणे—क । अविशेषेण दग्धम् । अभस्मीकृतम् (विद्यात्)
जानीयात् (वोचे) अवोचे । अहं कथितवान् (छन्दः) वेदज्ञानम् (विन्दामः)
प्राप्नुमः (एमहि) आ+ईङ् गती—वि० लि० । वयं प्राप्नुयाम (हौत्रम्) हातृ—
अण् । हेतुः कर्म (वषट्काराः) वह प्राण्ये—डषटि । आहुतयः देवयज्ञाः

(चक्षुषा एव उद्गाता औद्गात्रं करोति, चक्षुषा हि इमानि भूतानि पश्यन्ति, अथा चक्षुः एव उद्गाता, चक्षुः ब्रह्म, चक्षुः देवः इति) आंख से ही उद्गाता उद्गाता का काम करता है, आंख से ही यह सब जीव देखते हैं, इस लिये आंख ही उद्गाता, आंख ही ब्रह्म [वेदज्ञान] और आंख ही देवता है । (मनसा एव ब्रह्मा ब्रह्मत्वं करोति, मनसा हि दिशः तिर्यक् च ऊर्ध्वं च यत् च किं च मनसा एव करोति तत् ब्रह्म, ते ब्रूमः मनः एव ब्रह्मा मनः ब्रह्म मनः देवः इति) मन से ही ब्रह्मा ब्रह्मा का काम करता है, मन से ही दिशा के तिरछे काम और ऊंचे काम को आंर भी जो कुछ है [उसको भी] मन से ही करता है, वह ब्रह्म [वेदज्ञान] है, तुम से हम कहते हैं—मन ही ब्रह्मा, मन ब्रह्म [वेदज्ञान] और मन देवता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस कण्डिका में भौतिक क्रिया के साथ आदिमक यज्ञ का वर्णन है । और इसका सम्बन्ध अगली कण्डिका से है ॥ ११ ॥

कण्डिका १२ ॥

तद्यथा ह वा इदं यजमानश्च याजयितारश्च दिवं ब्रूयुः पृथिवीति, पृथिवी वाक् द्यौरिति ब्रूयुस्तदन्यो नानुजानात्येतामेवं नानुजानाति यदेतद्-ब्रूयादथ नु कथमिति होतेत्येव होतारं ब्रूयाद्वागिति वाचं, ब्रह्मेति ब्रह्म, देव इति देवमध्वर्युरित्येवाध्वर्युं ब्रूयात्, प्राणापानाविति प्राणापानौ, ब्रह्मेति ब्रह्म, देव इति देवमुद्गातातेत्येवोद्गातारं ब्रूयाच्चक्षुरिति चक्षुर्वक्षेति ब्रह्म, देव इति देवं ब्रह्मेत्येव ब्रह्माणं ब्रूयान्मन इति मनो ब्रह्मेति ब्रह्म देव इति देवम् ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ काबन्धि का अधिक यज्ञ विषयक विचार ॥

(तत् यथा ह वै इदम् यजमानः च याजयितारः च दिवं ब्रूयुः पृथिवी इति, पृथिवी, ब्रूयुः वाक् द्यौः इति) [काबन्धि बोला] सो जैसे यह बात है कि यजमान और याजक लोग प्रकाश को कहें यह पृथिवी है, और पृथिवी को कहें यह वाणी [वा] प्रकाश है । (तत् अन्यः न अनुजानाति एताम् पृथं न अनुजानाति यत् एतत् ब्रूयत् अथ नु कथम् इति) उसको दूसरा पुरुष नहीं जान लेता है, इस

(वाचः) वाणीः (सम्पद्यन्ते) प्राप्नुवन्ति (ते) तुभ्यम् (प्रणीतानि) प्रा + णाञ् प्रापणे—क्त । प्रकर्षेण प्रापितानि (प्रणीताः) यज्ञ रात्रविशेषाः ॥

१२—(दिवम्) प्रकाशम् (ब्रूयुः) कथयेयुः (अनुजानाति) निरन्तरम् अनुभवति ॥

[वार्ता] को ऐसा नहीं जान लेता है कि इस को [वैसा ही] वह कहे, फिर यह कैसे हो सकता है । (होता इति एव होतारं ब्रूयात्, वाक् इति वाचम्, ब्रह्म इति ब्रह्म, देवः इति देवम्, अध्वर्युः इति एव अध्वर्युं ब्रूयात्) यह होता [होम करने वाला] ही है, होता को कहे, यह वाणी है वाणी को, यह ब्रह्म [वेदज्ञान] है ब्रह्म [वेदज्ञान] को, यह देवता है देवता को, और यह अध्वर्यु ही है अध्वर्यु को बतावे । (प्राणापानौ इति प्राणापानौ, ब्रह्म इति ब्रह्म देवः इति देवं, उद्गाता इति एव उद्गातारं ब्रूयात्) यह प्राण और अपान हैं प्राण और अपान को, यह ब्रह्म है ब्रह्म को, यह देवता है देवता को, और यह उद्गाता ही है उद्गाता को ही बतावे । (चक्षुः इति चक्षुः, ब्रह्म इति ब्रह्म, देवः इति देवम्, ब्रह्मा इति एव ब्रह्माणम् ब्रूयात्) यह आंख है आंख को, यह ब्रह्म है ब्रह्म को, यह देवता है देवता को, और यह ब्रह्मा ही है ब्रह्मा को बतावे । (मनः इति मनः, ब्रह्म इति ब्रह्म, देवः इति देवम् [ब्रूयात्]) यह मन है मन को, यह ब्रह्म [वेदज्ञान] है ब्रह्म [वेदज्ञान] को, यह देवता है देवता को [बतावे] ॥१२॥
 भावार्थ—मनुष्य को यथार्थ और स्पष्ट बोलना चाहिये ॥ १२ ॥

कण्डिका १३ ॥

नाना प्रवचनानि ह वा एतानि भूतानि भवन्ति ये चैवासोमपं याजयन्ति ये च सुरापं ये च ब्राह्मणं विच्छिन्नं सोमयाजिनं तं प्रातः समित्पाणय उपोदेयु-
 कपायामो भवन्तमिति, किमर्थमिति यानेव नो भवन्स्तां ह्यप्रश्नामपृच्छुद्यानेव
 नो भवान् व्याचक्षीयेति, तथेति तेभ्य एतान् प्रश्नान् व्याचष्टे, तद्येन ह वा इदं
 विद्यमानञ्चाविद्यमानञ्चाभिनिदधाति तद् ब्रह्म तद्यो वेद स ब्राह्मणोऽधीयामो
 ऽधीत्याचक्षत इति ब्राह्मणम् ॥ १३ ॥

कण्डिका १३ ॥ कावन्धि का आगे यज्ञ विषयक विचार ॥

(नाना प्रवचनानि ह वै एतानि भूतानि भवन्ति ये च एव असोमपं ये च सुरापं ये च विच्छिन्नं ब्राह्मणं सोमयाजिनं याजयन्ति) अनेक प्रकार से प्रसिद्ध बातें और यह सब जीव होते हैं, जो [जीव] सोम रस को न पीने वाले से, और जो सुरा [मद्य] पीने वाले से, और जो वेद मार्ग से अलग किये हुये सोम-
 यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से यज्ञ कराते हैं, (तं प्रातः समित् पाणयः उपोदेयुः, भव-
 न्तम् उपयामः इति) उस [प्रसिद्ध विद्वान्] के पास प्रातः काल [यज्ञ के लिये]
 समिधा हाथ में लिये हुये जावे [और कहें] हम आप के पास आये हैं । (किम-

र्थम् इति) [वह कहे] किस लिये (यान् एव अप्रश्नान् नः भवान् हि अपृच्छन् यान् एव नः भवान् , तान् व्याचक्षीय इति) जिन ही विरुद्ध प्रश्नों को हम से आप ने पूछा है, जिन को ही हम से आपने [पूछा है], उन को मैं बताऊं । (तथा इति) [वे कहें] ऐसा ही हो । (तेभ्यः एतान् प्रश्नान् व्याचष्टे) उन को यह स्रव प्रश्न वह बतावे । (तत् येन ह वै इदं विद्यमानं च अविद्यमानं च अभिनिदधाति तत् ब्रह्म) सो जिस करके ही यह वर्तमान और अवर्तमान [भूत और भविष्य] सब ओर से धारण किया जाता है वह ब्रह्म है । (तत् यः वेद सः अधीयानः ब्राह्मणः अधीत्य आचक्षते इति ब्राह्मणम्) उस को जो जानता है वह पढ़ा हुआ ब्राह्मण है. [ऐसा] पढ़ करके ही वे लोग कहते हैं—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ १३ ॥

भावार्थ—अश्लील कुमार्गी पुरुष से यज्ञ न कराना चाहिये किन्तु वेद-ज्ञानी सुशील विद्वान् से यज्ञ कराया जावे ॥ १३ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका में बहुवचन और एक वचन पदों की और वाक्यों की संगति आर्ष शैली है ॥

कण्डिका १४ ॥

अथातो देवयजनान्यात्मा देवयजनं श्रद्धा देवयजनमृत्विजो देवयजनं भौमं देवयजनं तद्वा एतद्वात्मा देवयजनं यदुपव्यायच्छमानो वाऽनुपव्यायच्छमानो वा शरीरमधिवसत्येष यज्ञ एष यजत एतं यजन्त एतद्देवयजनमथैतत् श्रद्धा देवयजनं यदैव कदाचिदाद्यात् श्रद्धा त्वेवैनं नातोयात्तद्देवयजनमथैतद्देवयजनं यत्र क्वचिद् ब्राह्मणो विद्यावान् मन्त्रेण करोति तद्देवयजनमथैतद्भौमं देवयजनं यत्रापस्तिष्ठन्ति यत्र स्यन्दन्ति प्रतद्वहन्त्युद्धहन्ति तद्देवयजनं यत्समं समूलमविदग्धं प्रतिष्ठितं प्रागुदक्प्रवणं समंसमास्तीर्णमिव भवति यस्य श्वभ्रकूर्मो वृक्षः पर्वतो

१३—(प्रवचनानि) प्रकृष्टवाक्यानि (असोमपम्) न सोमरसपान-कर्तारम् (सुरापम्) मद्यपानकर्तारम् (विच्छिन्नम्) वेदमार्गेण वियुक्तम् (तम्) प्रसिद्धं विद्वांसम् (उपोदेयुः) उप + उत् + आ + इयुः, इण् गतौ—वि० लि० । प्राप्नुयुः । (अप्रश्नान्) विरुद्धप्रश्नान् (व्याचक्षीय) अहं विवृणीय (विद्यमानम्) वर्तमानम् (अविद्यमानम्) अवर्तमानं भूतं भविष्यं च (अभिनिदधाति) अभिनिधीयते (अधीत्य) पठित्वा ॥

नदी पन्था वा पुरस्तात्स्यान्न देवयजनमात्रं पुरस्तात्पर्यवशिष्येन्नोत्तरतोऽग्नेः
पर्युप त्रीदेरक्षिति ब्राह्मणम् ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ काबन्धि का देवयजनों के विषय में बर्णन ॥

(अथ अतः देवयजनानि आत्मा देवयजनं श्रद्धा देवयजनम् ऋत्विजः
देवयजनं भौमं देवयजनम्) अब यहां से देवयजन [विद्वानों के पूजा स्थान]
कहे जाते हैं—देखो कण्डिका ११]—आत्मा देवयजन है, श्रद्धा [पूरा विश्वास]
देवयजन है, ऋत्विज [सब ऋतुओं में यज्ञ कराने वाले] देवयजन हैं, जल
[जो भूमि से भाग होकर फिर मेह बनकर बरसता है] देव यजन है । (तत्
वै एतत् आत्मा देवयजनं यत् उपव्यायच्छुमानः वा अनुषव्यायच्छुमानः वा शरीरम्
अधिवसति, एषः यज्ञः, एषः यजतः, एतं यजन्ते, एतत् देवयजनम्) से ही यह
आत्मा देवयजन है जो [आत्मा] फैलता हुआ अथवा न फैलता हुआ [बड़ा वा
छोटा होकर] शरीर में बसता है, यह यज्ञ है, यह यजमान है, इसको पूजते हैं,
यह देवयजन है । (अथ एतत् श्रद्धा देवयजनं यदा एव कदाचित् आदद्यात् श्रद्धा तु
एष एनं न अतीयात्, तत् देवयजनम्) फिर यह श्रद्धा देवयजन है, जब कभी
भी वह [ब्रह्मचारी] लेवे श्रद्धा तो इस [लेने वाले] को न उल्लङ्घन करे, यह देव-
यजन है । (अथ एतत् ऋत्विजः देवयजनं यत्र क्वचित् विद्यावान् ब्राह्मणः मन्त्रेण
करोति तत् देवयजनम्) फिर वह ऋत्विज लोग देवयजन हैं, जहां कहीं
विद्वान् ब्रह्मण मन्त्र से कर्म करतब है वह देवयजन है । (अथ एतत् भौमं देव-
यजनं यत्र आपः तिष्ठन्ति यत्र स्यन्दन्ति तत् प्रवहन्ति उद्वहन्ति, तत् देवयज-
नम्) फिर यह भौम [भूमि से निकला हुआ जल] देवयजन है, जहां जल
ठहरता है, जहां चूता है, वहां बहता है और चढ़ता है, वह देवयजन है, (यत्
समं समूलम् अविदग्ध प्रतिष्ठितं प्रागुदक्प्रवणं समं समास्तीर्णम् इव भवति)

१४—(श्रद्धा) पूर्णविश्वासः (ऋत्विजः) सर्वेषु ऋतुषु यज्ञकर्तारः
(भौमम्) भूमि—अण् । वाऽपगोघरूपेण भूमेर्जातं जलम् (उपव्यायच्छुमानः)
उप + वि + श्वा + यम नियमने—शानच् । दीर्घीभवन् (अनुषव्यायच्छुमानः) अदी-
र्घीभवन् । अल्पीभवन् (यजतः) भृ ष्टृ द्विशियजि० । उ० ३ । ११० । यजदेवपूजा
संगतिकरणदानेषु—अतच् । यजमानः (यजन्ते) पूजयन्ति (आदद्यात्) गृह्णी-
यात् (अतीयात्) अति + इण् गतौ—विधि लिङ् । उल्लंघयेत् (आपः) जलानि
(तत्) तत्र (प्रवहन्ति) प्रकर्षेण गच्छन्ति (श्वभ्रकूर्मः) श्वभ्र गतौ—घञ् ।
अर्तैरुच्च । उ० ४ । ४४ । अत्र गतौ—मि, ऊत्, ततः अर्शाआद्यच् । के देहे जले वा

जो [स्थान] चौरस नीच वाला, बिना जला हुआ, प्रतिष्ठा वाला, पूर्व ओर उत्तर की ओर खुला हुआ, चारस और एकना फैला हुआ होवे (यस्य पुरस्तात् श्वभ्रकूर्मः वृक्षः पर्वतः नदी पन्थाः वा स्यात्) जिस के आगे चलते हुये पथम वाला वृक्ष, पहाड़, नदी, अथवा मार्ग हो, (देवयजनमात्रम् पुरस्तात् न पर्यवशिष्येत्) देवयजन का परिमाण सामने को न बचा रहे, (न अग्निः उत्तरतः पर्युपसीदेरन् इति ब्राह्मणम्) और न अग्नि के उत्तर ओर को बैठ—यह ब्राह्मण है ॥ १४ ॥

भावार्थ—पन० को चाहिये कि भौतिक यज्ञ के साथ आत्मिक यज्ञ का विचार करते रहें ॥ १४ ॥

कण्डिका १५ ॥

अदितिर्वै प्रजाकामौदनमपन्नत् तत उच्छिष्टमश्नात् सा गर्भमधत्त, तत आदित्या अजायन्त, य एष ओदनः पच्यत आरम्भणमेधैतत् क्रियते आक्रमणमेव प्रादेशमात्राः समिधो भवन्त्यतावां ह्यात्मा प्रजापतना समितौ ऽग्नेर्वै या यज्ञिया तनूरश्वत्थे तथा समगच्छत एषा स्वधृत्या तनूर्यद् घृतं, यद् घृतं समिधा अनक्ति ताभ्यामेवैनं तन्तनूर्यां समर्द्धयति यज्ञिमार्गस्यादधात्यवकूत्या वे वीर्यं क्रियते यज्ञिमागस्यादधात्यवकूत्या एव संवत्सरो वै प्रजननमग्निः प्रजननमेतत् प्रजननं यत्संवत्सर ऋचाऽग्नेौ समिधमादधाति, प्रजननादेवैतन्तत् प्रजनयिता प्रजनयत्यवत्त्वत्तुर्वै पुरुषो न हि तद्धेद यदत्तुमभिजायते, यन्नक्षत्रं त्वदामोति, य एष ओदनः पच्यते, यानिरेवेषा क्रियते, यत्समिध आधीयन्ते रतस्तत् प्रीयते संवत्सरो वै रेतो हितं प्रजायते, ये संवत्सरं पच्येत् ऽग्निमात्रत्ते प्रजापतिस्वभ्रमाधत्ते, द्वादशसु रात्रीषु पुरा संवत्सरस्य धेयात्ता हि संवत्सरस्य प्रतिमा अथो तिस्रश्चथो द्वयार्थो पूर्वधुराधेयात्, ते वा अग्निमादधात्तादित्या वा इत उत्तरमेष मेऽमुग्निक्षोक आयन्ते पथि गन्त इयन्तद्गु गह्यमाणं प्रतिबुद्धन्त उच्छिष्टमजा वा आदित्या यदुच्छिष्टं यदुच्छिष्टे समिधो अनक्ति तेष एव प्रोवाच तेष एव प्रोच्य स्वर्गलोकं यन्ति ॥ १५ ॥

ऊर्मिर्वैगो यस्य सः कूर्मः शरीरस्थो वायुः कच्छपो वा । श्वभ्रो गमनशीलः कूर्मो वायुर्यस्य स तथाभूतः (मात्रम्) परिमाणम् (पर्यवशिष्येत्) परि + अव + शिष असर्वोपयोगे—वि० लि० । अवशिष्टं भवेत् (पर्युपसीदेरन्) परि + उप + षट्छ गतौ—वि० लि० । उपविशेयुः ॥

कण्डिका १५ ॥ अदिति की सृष्टि रचना के दृष्टान्त से भौतिक यज्ञ की रचना ॥

(प्रजाकामा अदितिः वै ओदनम् अपचत्) सन्तान चाहने वाली अदिति [अदीना और अखण्ड परमेश्वर शक्ति] ने सींचने वाला भात वा अन्न पकाया [परमाणुओं को चलाया], (ततः उच्छिष्टम् अश्नात्) फिर बचे हुये को खाया [प्रलय से पीछे बचे संयोग वियोग सामर्थ्य को काम में लाया]। (सा गर्भम् अधत्) उसने गर्भ धारण किया। [गर्भ वा पिंड के रूप में पदार्थ बनाये]। (ततः आदित्याः अजायन्त) उस [कर्म] से आदित्य [अखण्ड परमात्मा से उत्पन्न पदार्थ] उत्पन्न हुये। (यः एषः ओदनः पच्यते पतत् आरम्भणम् एव, आक्रमणम् एव क्रियते) [इसी प्रकार यज्ञ में] जो यह भात पकाया जाता है वह आरम्भ कर्म ही और आगे बढ़ने का कर्म ही किया जाता है, (प्रादेशमात्रीः समिधः भवन्ति, एतावान् हि आत्मा प्रजापतिना सम्मितः) प्रादेशमात्री [अङ्गूठे से तर्जनी तक परिमाण वाली] समिधायें होती हैं, इतना ही आत्मा प्रजापति [परमेश्वर] कर के नापा गया है। (अश्वत्थे अग्नेः वै या यज्ञिया तनूः तथा समगच्छत) पीपल [आदि काष्ठ] में अग्नि का जो निश्चय कर के पूजनीय शरीर है, उसके साथ वह [अग्नि] मिला है, (एषा स्वधृत्या तनूः यत् घृतम्) यह अपने आप [अग्नि को] पुष्ट करने वाला शरीर है जो घृत है, (यत् घृतेन समिधः अनक्ति ताभ्यां तनूभ्याम् एव एन तं समर्धयति) वह जो घी से समिधाओं को सींचता है, उन दोनों शरीरों [घी और समिधा] से ही इस प्रसिद्ध [अग्नि] को बढ़ाता है। (यत् निर्मर्गस्य अवकृत्या आदधाति धीर्य्यं वै क्रियते) जो निश्चित मार्ग के संकल्प

१५—(अदितिः) कृत्यल्युटो बहुलम् । पा० ३ । ३ । ११३ । दीङ् लये, दो अखण्डने, दाप् लवने—क्तिन् । धति स्यतिमास्थामिति किति । पा० ७ । ४ । ४० । इति इत्वम् । दीङ्प्ले ह्रस्वत्वं नञ् समासः । अदितिः पृथिवी—निघ० १ । १ । षाक्—निघ० १ । ११ । गौः—निघ० २ । ११ । अदीना देवमाता—निरु० ४ । २२ । अदीना अक्षीणा अखण्डिता वा परमेश्वरशक्तिः (ओदनम्) उन्देर्नलोपश्च । उ० २ । ७६ । उन्दी क्लेदने—युच् । ओदना मेघः—निघ० १ । १० । ओदनमुदकदानं मेथम्—निरु० ६ । ३४ । सेचकं भक्तम् । अन्नम् (उच्छिष्टम्) उत + शिष्य असर्वोपयोगे—क्त । यः प्रलयात् शिष्यते शेषो भवति तं शेष पदार्थम् (अश्नात्) अश भोजने लङ् । अभक्षत् । अगृह्णात् (आदित्याः) दित्यदित्याः-

से अग्न्याधान करता है, [उस से] वीर्य्य [सामर्थ्य] ही किया जाता है, (यत् निर्मार्गस्य अवकृत्या एव आदधाति संवत्सरः वै प्रजननम्, अग्निः प्रजननम्, एतत् प्रजननम् यत् संवत्सरः) जो निश्चित मार्ग के संकल्प से ही अग्न्याधान करता है वह संवत्सर ही उत्पादन सामर्थ्य है, अग्नि उत्पादन सामर्थ्य है, यह उत्पादन सामर्थ्य है जो संवत्सर है, (ऋचा अग्नौ समिधम् आदधाति) मन्त्र के साथ अग्नि में समिधा का रखता है । (प्रजननात् एव एनं तत् प्रजनयिता प्रजनयति अत्तुः वै अवति) उत्पादन सामर्थ्य से ही इस अग्नि को तब उत्पन्न करने वाला [यजमान] उत्पन्न करता है और खाने वाले [विघ्न] से बचाता है, (पुरुषः नहि तत् वेद यत् अत्तुम् अभिजायते) पुरुष उस [विघ्न] को नहीं जातता है जो खाने को प्रकट होता है । (यत् नक्षत्रं तत् आप्राति) जो नक्षत्र [नक्षत्र का वृष्टि आकर्षणादि प्रभाव] है । उसको वह पाता है । (यः एषः ओदनः पच्यते, एषा एव यानिः क्रियते) जो यह भात [यज्ञ में] पकाया जाता है यही गर्भाशय किया जाता है, (यत् समिधः आधीयन्ते तत् रेतः ध्रियते) जो समिधायें यथावत् रक्खी जाती हैं उस से वीर्य्य धरा जाता है, (संवत्सरः वै हितं रेतः प्रजायते) संवत्सर [समय] ही हितकारी वीर्य्य होजाता है । (ये एते संवत्सरे, परि अग्निम् आधत्ते प्रजापतिः एव एनम् आधत्ते) यह जो [नियम हैं उनसे] संवत्सर तक अग्न्याधान करता है, प्रजापति [यजमान] ही इस [अग्नि] को यथावत् रखता है । (द्वादशसु रात्रौषु संवत्सरस्य पुरा आधेयात् ताः हि संवत्सरस्य प्रतिमाः, अथो तिसृषु अथा द्वयोः अथा पूर्वद्युः आधेयात्) बारह रात्रियों में संवत्सर के पहिले [अग्नि को] यथावत् रक्खे वे ही [बारह रातें] संवत्सर की प्रतिमायें [स्थाना-पन्न] हैं, फिर तीन [रातों] में फिर दो में फिर पहिले दिन में [अग्नि को] यथावत् रक्खे । (ते वै आदित्याः अग्निम् आदधानेन इतः वै उत्तरम्, एष (= एव) मे अमुष्मिन् लोके आयन्) वे ही आदित्य [परमेश्वर के उत्पन्न पदार्थ] निश्चय

दित्य० पा० । ४ । १ । ५५ । अदिति—एयप्रत्ययः, अपत्यार्थे । अदितिपुत्राः । सर्वे परमेश्वरजनितपदार्थाः (प्रादेशमात्रीः) हलश्च । पा० ३ । ३ । १२१ । प्र+दिश दाने—घञ् । उपसर्गस्य घञ् यमनुष्ये बहुलम् । पा० ६ । ३ । १२२ । इति दीर्घः । मात्रच्प्रत्ययः । अङ्गुष्ठतर्जनीपरिमिताः (सम्मितः) परिमितः (स्वधृत्या) स्व+धृञ् धारणे—क्यप् । स्वपोषिका (अनक्ति) संयोजयति (निर्मार्गस्य) निश्चितमार्गस्य (अवकृत्या) अव+कूञ् शब्दे—क्तिन् । आकृत्या ।

करके अग्न्याधान से इस से पीछे भी मेरे लिये उस लोक [सुख स्थान] में प्राप्त होंगे । (ते पथि रक्षन्तः इयम् [= इदम्] तत् उ यद्यमाणां प्रतिनुदन्ते उच्छेषणभाजाः वै आदित्याः) वे मार्ग में रक्षा करते हुये इस और उस दातव्य पदार्थ को भेजते रहते हैं, विशेष सामर्थ्य के बाँटने वाले ही आदित्य [ईश्वर के उत्पन्न पदार्थ] हैं, (यत् उच्छिष्टम्) जो बचा हुआ पदार्थ है, (यत् उच्छिष्टेन समिधः अनक्ति तेभ्यः एव प्रोवाच तेभ्यः एव प्रोच्य स्वर्गलोकं यन्ति) जो वह बचे हुये पदार्थ से समिधायें सींचता है [पूर्ण आहुति देता है], उस ने उन [ईश्वर के उत्पन्न पदार्थों] के लिये ही कहा है, उन [ईश्वर के उत्पन्न पदार्थों] के लिये ही व्याख्या करके वे पुरुष स्वर्गलोक पाते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को भौतिक यज्ञ के साथ परमात्मा और जीवात्मा का भी विचार करना चाहिये ॥ १५ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को मिलाओ—अथ० ११ । १ ॥

कण्डिका १६ ॥

प्रजापतिरथर्वा देवः स तपस्तप्त्वैतश्चातुष्पाशं ब्रह्मौदनं निरमिमत्, चतुर्लोकं चतुर्देवं चतुर्वेदं चतुर्होत्रमिति, चत्वारो वा इमे लोकाः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौराप इति, चत्वारो वा इमे देवा अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमाः, चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति, चतस्रो वा इमे होत्रा होत्रमाध्वर्यवमौद्गात्रं ब्रह्मत्वमिति ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । चत्वारि शृङ्गास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महद्देवो मर्त्याम् आविवेश इति ।

चत्वारि शृङ्गेति वेदा वा एत उक्ताः, त्रयो अस्य पादा इति सवनान्येव, द्वे शीर्षे इति ब्रह्मौदनप्रवर्ग्याविवे, सप्त हस्तासो अस्येति छन्दांस्येव, त्रिधा बद्ध इति मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं, वृषभो रोरवीत्येष ह वै वृषभ एष तद्रोरवीति यद्यज्ञेषु शस्त्राणि शंसत्यृग्भिर्यजुर्भिः सामभिर्ब्रह्मभिरिति, महद्देवो मर्त्याम् आविवेशेत्येष ह वै महान् देवो यद्यज्ञ एषु मर्त्याम् आविवेश । यो विद्यात्सप्त प्रवत इति प्राणानाह सप्त विद्यात्परावत इत्यापानानाह । शिरो यज्ञस्य यो विद्यादित्ये-

संकल्पेन (यद्यमाणम्) यज दाने स्य, शानच् । दातव्यपदार्थम् (प्रतिनुदन्ते) प्रत्यक्षेण प्रेरयन्ति (उच्छेषणभाजाः) उत + शिष् असर्वोपयोगे—ल्युट् + भाज पृथक्कर्मणि—अण् । विशेषसामर्थ्यस्य विभक्तारः (यन्ति) प्राप्नुवन्ति ॥

तद्वै यज्ञस्य शिरो यन्मन्त्रवान् ब्रह्मोदनो यो ह वा एतममन्त्रवन्तं ब्रह्मोदनमुपेया-
दपशिरसा ह वा अस्य यज्ञमुपेतो भवति तस्मान्मन्त्रवन्तमेव ब्रह्मोदनमुपेयाज्ञा-
मन्त्रवन्तमिति ब्राह्मणम् ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ ब्रह्मज्ञानियों को चार चार प्रकार से ब्रह्मप्राप्ति ॥

(प्रजापतिः अथर्वा देवः) प्रजापति अथर्वा [प्रजापालक निश्चल] प्रका-
शमान परमात्मा है । (सः तपः तपत्वा एतं चातुष्प्राश्यं ब्रह्मोदनं निरमिमत्, चतु-
र्लोकं चतुर्देवं चतुर्वेदं चतुर्होत्रम् इति) उस ने तप करके इस चार प्रकार से
फैले हुये ब्रह्मोदन [ब्रह्मज्ञानियों के अन्न] को बनाया, चार लोक, चार देव,
चार वेद, और चार ऋत्विजों के कर्म । (चत्वारः वै इमे लोकाः पृथिवी अन्त-
रिक्षं द्यौः आपः इति) चार लोक यह हैं—पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रकाश और जल ।
(चत्वारः वै इमे देवाः अग्निः वायुः आदित्यः चन्द्रमाः) चार देव यह हैं अग्नि,
पवन, सूर्य, और चन्द्रमा । (चत्वारः वै इमे वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः
ब्रह्मवेदः इति) चार वेद यह हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ब्रह्मवेद [अथर्व-
वेद] । (चतस्रः वै इमे [= इमाः] होत्राः होत्रम्, अध्वर्युवम् औद्गात्रं ब्रह्म-
त्वम् इति) चार ऋत्विजों की क्रियायें यह हैं—होता का कर्म, अध्वर्यु का कर्म,
उद्गाता का कर्म और ब्रह्मा का कर्म ।

(तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम्) यह भी इस ऋचा करके कहा गया है ।
(चत्वारि शृङ्गाः त्रयः अस्य पादाः द्वे शीर्षे अस्य सप्तहस्तासः त्रिधा बद्धः वृषभः
रोरवीति महः देवः मर्त्यान् आ विवश इति)—ऋग्वेद ४ । ५८ । ३, आदि । तथा
निरुक्ति १३ । ७ । (चत्वारि अस्य शृङ्गा इति एते वै वेदाः उक्ताः, त्रयः पादाः इति
सवनानि एव द्वे शीर्षे इति ब्रह्मोदनप्रवर्ग्यौ एव, सप्तहस्तासः अस्य इति छन्दस्त्रि
एव) इस [यज्ञ] के चार सींग [के समान] यह वेद कहे गये हैं, तीन पग [के समान]
सवन [प्रातः सवन, मध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन अथवा कर्म उपासना ज्ञान],
दो सिर [के समान] ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य [ब्रह्मज्ञानियों का अन्न और यज्ञाग्नि,

१६—(अथर्वा) गो० पू० १ । ४ । निश्चलः परमेश्वरः (चातुष्प्राश्यम्)
चतुर् + प्र + अशू व्याप्तौ-एयत्, स्वार्थे ष्यञ् । हलो यमां यमि लोपः । पा० ८ । ४ ।
६४ । यलोपः । चतुर्धा व्याप्यम् (ब्रह्मोदनम्) ब्रह्मभ्यो ब्रह्मज्ञानिभ्यः ओदनम् अन्नम्
(चतुर्लोकम्) चतुर्णां लोकानां समाहारम् (द्यौः) प्रकाशलोकः (ब्रह्मवेदः)
अथर्ववेदः (होत्राः) हुयामाश्रुभसिभ्यस्त्र । उ० ४ । १६८ । हु दानादानादनेषु
—त्रन्, टाप् । होत्रा वाक्—निघ० १ । ११; यज्ञः—निघ० ३ । १७ । होत्रा शब्दः

अथवा अभ्युदय और निश्रेयस सुख] हैं, सात हाथ [के समान [गायत्री आदि प्रधान] छन्द ही हैं । (त्रिधा बद्धः इति मन्त्रः कल्पः ब्राह्मणम्) वह तीन प्रकार से बंधा है, यह मन्त्र [वेदमन्त्र], कल्प [यज्ञपद्धति] और ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] हैं (एषः वृषभः रोरवीति एषः वृषभः ह वै तत् रोरवीति यत् यज्ञेषु शस्त्राणि ऋग्भिः यजुर्भिः सामभिः ब्रह्मभिः शंसति इति) यह वृषभ [वैल समान यज्ञ] बड़ा शब्द करता है, यही वृषभ [यज्ञ] वह बड़ा शब्द करता है जो यज्ञों में शस्त्रों [स्तोत्रों] को ऋग्वेद के मन्त्रों, यजुर्वेद के मन्त्रों, सामवेद के मन्त्रों और ब्रह्मवेद के मन्त्रों से बालता है । (महः देवः मर्त्यान् आविवेश इति एषः ह वै महान् देवः यत् यज्ञः एषु मर्त्यान् आविवेश) बड़ा देव मनुष्यों में प्रवेश करता है , यही बड़ा देव है जो यज्ञ है वह इन [भूतों] के बीच मनुष्यों में प्रवेश करता है ।

(यः सप्त प्रवतः विद्यात् इति) [अथ० १० । १० । २ ।] प्राणान् आह, सप्त परावतः विद्यात् इति [दूसरा पाद] अपानान् आह) जो सात [२ हाथ, २ पांव, १ पायु, १ उपस्थ, १ उदर] उत्तम गति वालों को जाने यह प्राणों को कहता है, सात [२ कान, २ नथने, २ आंखें, १ मुख] दूर गति वालों को जाने यह अपानों को कहा है । (यः यज्ञस्य शिरो विद्यात् इति [तीसरा पाद] एतत् वै यज्ञस्य शिरः यत् मन्त्रवान् ब्रह्मौदनः) जो यज्ञ के शिर को जाने यही यज्ञ का शिर है जो मन्त्रों सहित ब्रह्मौदन [ब्रह्मज्ञानियों का अन्न] है । (यः ह वै एतम् अमन्त्रवन्तम् ब्रह्मौदनम् उपेयात् अस्य [व्यवहारः] ह वै अपशिरसा यज्ञम् उपेतः भवति) जो कोई भी इस बिना मन्त्र वाले ब्रह्म ओदन को प्राप्त करे उस का [व्यवहार] बिना शिर वाले यज्ञ युक्त होता है । (तस्मात् मन्त्रवन्तम् एव

ऋत्विग्वाची स्त्रीलिङ्गः । होत्राभ्यश्छुः । पा० ५ । १ । १३५, इति निर्देशात् । ततः अर्शआद्यच्च, टाप् । ऋत्विजीयाः क्रियाः (हौत्रम्) होतुः कर्म (अस्य) वृषभस्य (वृषभः) ऋषिवृषिभ्यां कित् । उ० ३ । १२३ । वृषु सेचने—अभच्, कित् । सुखवर्षको यज्ञः (रोरवीति) रु शब्दे यङ्लुकि रूपम् । भृशं रौति शब्दयति (महः) मह पूजायाम्—घञर्थे कः । महान् (प्रवर्ग्यः) प्रवर्ग—यत् स्वार्थे । यज्ञाग्निः (शस्त्राणि) स्तोत्राणि (शंसति) कथयति (एषु) उक्तपदार्थेषु (प्रवतः) उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे । पा० ५ । १ । ११८ । प्र-वति धात्वर्थे साधने । प्रकृष्टगतीन् लोकान् (परावतः) परावति प्रत्ययः पूर्ववत् । दूरगतीन् देशान् (अपशिरसा) सुपां सुलुक० । पा० ७ । १ । ३६ । अपशिरस्—आ प्रत्ययो द्वितीयार्थे । अपशिरसम् । शिरोरहितम् ॥

ब्रह्मौदनम् उपेयात् न अमन्त्रवन्तम् इति ब्राह्मणम्) इस लिये मन्त्र वाले ही ब्रह्मौदन को प्राप्त करे, न बिना मन्त्र वाले को यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान है] ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य चारों वेदों को विचार कर श्रेष्ठ कर्म करता है वही सिद्धि पाता है ॥ १६ ॥

टिप्पणी—ऊपर दिये हुये मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।

१—चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभे रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश ।—ऋ० ४ । ५८ । ३, यजु० १७ । ६१, निरुक्त १३ । ७ । [शृङ्गाः पद के स्थान पर वहाँ शृङ्गा पद है] (अस्य) इस [वृषभरूप यज्ञ] के (चत्वारि) चार [वेद] (शृङ्गा) सींग, (त्रय) तीन [कर्म, उपासना ज्ञान] (पादाः) पैर, (द्वे) दो [प्रायणीय और उदयनीय अर्थात् अस्तकाल और उदयकाल] (शीर्षे) सिर और (अस्य) इसके (सप्त) सात [गायत्री आदि छन्द] (हस्तासः) हाथ [समान] हैं । (त्रिधा) तीन प्रकार [मन्त्र, कल्प वा यज्ञ पद्धति और ब्राह्मण वा ब्रह्मज्ञान से] (बद्धः) बन्धा हुआ (वृषभः) वह बैल [समान यज्ञ] (रोरवीति) बड़ा शब्द करता है, (महः देवः) उस महान् देव [कामना योग्य यज्ञ] ने (मर्त्यान्) मनुष्यों में (आ विवेश) प्रवेश किया है ॥

२—यो विद्यात् सप्त प्रवतः सप्त विद्यात् परावतः । शिरो यज्ञस्य यो विद्यात् स वशां प्रतिगृह्णीयात् ॥ अथ १० । १० । २ । (यः) जो [विद्वान्] (सप्त) सात [२ हाथ, २ पाँव, १ पयु, १ उपस्थ, १ उदर] (प्रवतः) उत्तम गति वाले [लोकों] को (विद्यात्) जाने और (सप्त) सात [२ कान, २ नथने, २ आँखें, १ मुख] (परावतः) दूर गति वाले [लोकों] को (विद्यात्) जान जावे । (यः) जो (यज्ञस्य) यज्ञ [श्रेष्ठ कर्म] के (शिरः) शिर [प्रधान अपने आत्मा] को (विद्यात्) जान लेवे, (सः) वह [पुरुष] (वशाम्) वशा [कामना योग्य परमेश्वर शक्ति] को (प्रति) प्रतीति से (गृह्णीयात्) ग्रहण करे ॥

कण्डिका १७ ॥

किमुपयज्ञ आत्रेयो भवतीत्यादित्यं हि तमो जग्राह, तदत्रिरपनुनोद तदत्रिरन्वपश्यत् ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । स्रुताद्यमत्रिर्दिवमुन्निनाय दिवि त्वाऽत्रिरधारयत् सूर्यामासाय कर्त्तव इति ।

तं होवाच वरं वृणीष्वेति, स होवाच दक्षिणीया मे प्रजा स्यादिति, तस्मादात्रेयाय प्रथमदक्षिणा यज्ञे दीयन्त इति ब्राह्मणम् ॥ १७ ॥

कण्डिका १७ ॥ ईश्वर मानने वाले की महिमा ॥

(उपयज्ञः आत्रेयः किं भवति) यज्ञ में आया हुआ आत्रेय [अत्रि, नित्य ज्ञानी परमेश्वर का मानने वाला ब्राह्मण] क्या होता है । [उत्तर] (आदित्यं हि तमः जग्राह, तत् अत्रिः अपनुनोद, तत् अत्रिः अनु अपश्यत्) सूर्य को अन्धकार [प्रलय के अन्धरे] ने पकड़ लिया था, उसको अत्रि [नित्य ज्ञानी परमेश्वर] ने हटा दिया, उसको अत्रि ने [नित्य ज्ञानी परमेश्वर ने वेद में] दिखा दिया है । (तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम्) वही इस ऋचा करके कहा गया है—(स्रुतात् यम् अत्रिः दिवम् उन्निनाय, सूर्य ! अत्रिः मासाय कर्तवे त्वा दिवि अधारयत् इति अथर्व० १३ । २ । ४ पाद ३ और अथ० १३ । १२ पाद १, २) जिस [सूर्य] को अत्रि [नित्य ज्ञानी परमात्मा] ने बहते हुये [प्रकृति रूख समुद्र] से आकाश में ऊंचा किया है, हे सूर्य ! [लोकों के चलाने वाले रवि मण्डल] अत्रि [सदा ज्ञानी परमात्मा] ने महीना [काल विभाग] करने के लिये उस तुम्ह को आकाश में धारण किया है । (तं ह उवाच वरं वृणीष्व इति) उस [ब्राह्मण] से वह [यजमान] बोला—वर मांग । (सः ह उवाच मे प्रजा दक्षिणीया स्यात् इति) वह [ब्राह्मण] बोला—मेरी प्रजा [मेरे समान ब्रह्मज्ञानी] दक्षिणा योग्य होवे । (तस्मात् आत्रेयाय प्रथमदक्षिणाः यज्ञे दीयन्ते इति ब्राह्मणम्) इस लिये आत्रेय [अत्रि, नित्य ज्ञानी परमेश्वर के मानने वाले ब्राह्मण] को पहिली दक्षिणा यज्ञ में दी जाती है—यह ब्राह्मण है ॥ १७ ॥

१७—(उपयज्ञः) उपगतयज्ञः । प्राप्तयज्ञः (आत्रेयः) अद्विनिश्च । उ० ४ । ६८ । अत सातत्यगमने—त्रिप् । अत्रिः सदा ज्ञानवान् परमात्मा । इतश्चा-
नित्यः । पा० ४ । १ । १२२ अत्रि—ढक्, सास्य देवता इति । अस्मिन् विषये
यथा । अग्नेर्ढक् पा० ४ । २ । ३३ अत्रेः सदा ज्ञानवतः परमेश्वरस्य सेवकः
(तमः) प्रलयान्धकारः (अत्रिः) उपरि द्रष्टव्यम् । निरन्तर्ज्ञानी परमेश्वरः
(अपनुनोद) दूरीकृतवान् (अन्वपश्यत्) निरन्तरं दर्शितवान् वेदे (स्रुतात्)
स्रवणशीलात् प्रकृतिरूपसमुद्रात् (दिवम्) आकाशम् (उन्निनाय) उन्नीतवान्
(सूर्या) सांहितको दीर्घः । हे सूर्य (कर्तवे) तुमर्थे सेसेनसे० पा० ३ । ४ ।
६ । करोतेः—तवेन । कर्तुम् । (दक्षिणीयाः) कडङ्करदक्षिणाच्छ च । पा० ५ ।
१ । ६६ । दक्षिणा—छ प्रत्ययः । दक्षिणायोग्याः ।

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि चारों वेद जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का आदर सब से अधिक करे ॥ १७ ॥

टिप्पणी १—स्तुताद् = स्त्रुताद्—अथ० १३ । २ । ४ ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है ॥

स्त्रुताद् यमत्त्रिदिवमुन्निनाय—अथ० १३ । २ । ४, पाद ३, दिवि त्वात्त्रि-
रधारयत् सूर्या मासाय कर्तवे—अथ० १३ । २ । १२, पाद १, २—(यम्) जिस
[सूर्य] को (अत्तिः) नित्य ज्ञानी [परमात्मा] ने (स्त्रुतात्) बहते हुये
[प्रकृति रूप समुद्र] से (दिवम्) आकाश में (उन्निनाय) ऊंचा किया है,
(सूर्य) हे सूर्य ! [लोकों के चलाने वाले रवि मण्डल (अत्तिः) सदा ज्ञानवान्
[परमात्मा] ने (मासाय) महीना [काल विभाग] (कर्त वे) करने के लिये
(त्वा) [उस] तुझ को (दिवि) आकाश में (अधारयत्) धारण किया है ॥

करिडका १८ ॥

प्रजापतिर्वेदानुवाच अग्नीनादधीयेति, तान्वागभ्युवाचाश्वो वै सम्भाराणामिति, तद्धोरात् क्रूरात्सलिलात्सरस उदानिन्युस्तान् वागभ्युवाचाश्वः शम्येतेति, तथेति तमृग्वेद एत्योवाचाहमश्वं शमेयमिति तस्मा अविस्मृताय महद्भयं ससृजे, स एतां प्राचीं दिशम्भेजे स हेवाचाशान्तो न्वयमश्व इति । तं यजुर्वेद एत्योवाचाहमश्वं शमेयमिति तस्मा अविस्मृताय महद्भयं ससृजे, सा एतां प्रतीचीन्दिशं भेजे स हेवाचाशान्तो न्वयमश्व इति । तं सामवेद एत्योवाचाहमश्वं शमेयमिति, केन नु त्वं शमयिष्यसीति, रथन्तरं नाम मे सामाघोरश्चाक्रूरश्च तेनाश्वमभिष्टूयते तस्मा अविस्मृताय तदेव महद्भयं ससृजे, स एतामुदीचीन्दिशम्भेजे, स हेवाचाशान्तो न्वयमश्व इति । तान्वागभ्युवाच शंयुमाथर्वणं गच्छथेति, ते शंयुमाथर्वणमासीनं प्राप्योच्चुर्नमस्ते अस्तु भगवन्नश्वं शम्येतेति । तथेति स खलु कबन्धस्याथर्वणस्य पुत्रमामन्त्रयामास विचारिन्निति, भगो इति हास्मै प्रतिश्रुत प्रतिशुश्रावाश्वं शम्येतेति, तथेति स खलु शान्त्युदकं चकाराथर्वणीभिश्चाङ्गिरसाभिश्चातनैर्मातृनामभिर्वास्तोस्पत्यैरिति शमयति तस्य ह स्नातस्याश्वस्याभ्युक्षितस्य सर्वेभ्यो रोमशमरेभ्योऽङ्गारा आशीर्यन्त सोऽश्वस्तुष्टो नमस्कारं चकार नमः शंयुमाथर्वणाय यो मा यज्ञमचीकृपदिति, भविष्यन्ति ह वा अतोऽन्ये ब्राह्मणा लघुसम्भारतमास्त आदित्यस्य पद आधास्यन्त्यनडुहो वत्सस्याजस्य श्रवणस्य ब्रह्मचारिणो वा एतद्वा आदित्यस्य पदं यद्भूमिस्त्यैव पद आहितं भविष्यतीति सोऽग्नौ प्रणीयमानेऽश्वेऽन्वारब्धं ब्रह्मा यजमानं वाच-

यति यदक्रन्दः प्रथमं जायमान इति पञ्च, त ब्राह्मणा उपवहन्ति तद्ब्रह्मोपाकुरुते
एष ह वै विद्वांसर्वविद् ब्रह्मा यद्भृग्वङ्गिरोविदिति ब्राह्मणाम् ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ विघ्नो को हटाकर अश्व नामक अग्नि की स्थापना ॥

(प्रजापतिः वेदान् उवाच अग्नीन् आ-दधीय इति) प्रजापति [परमे-
श्वर] ने वेदों से कहा—अग्नियों [आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि—क० २२]
को मैं स्थापित करूँ । (तान् वाक् अभ्युवाच) उन [वेदों] से वाणी ने स्पष्ट
कहा—(अश्वः वै सम्भाराणाम् इति) अश्व [व्यापक वा घोड़ा रूप अग्नि]
ही संग्रहों का [ले जानेवाला है, यह ब्राह्मण वचन है] । (तं घोरात् कूरात्
सलिलात् सरसः उत्—आ—निन्युः) उस [अश्व अग्नि] को भयंकर, हिंसक,
और जल से भरे हुये सरोवर से उन्हीं [वेदों] ने ऊंचा किया । (तान् वाक्
अभि-उवाच अश्वः शम्येत इति) उन से वाणी ने स्पष्ट कहा—अश्व [अग्नि]
शान्त किया जावे । [वे बोले] (तथा इति) वैसा ही होगा (तम् ऋग्वेदः
पत्य उवाच अहम् अश्वं शमेयम् इति) उस से ऋग्वेद आकर बोला—मैं
अश्व को शान्त करूँ । (तस्मै अविस्मृताय महत् भयं ससृजे) उस न सरकते
हुये [ठहरे हुये अहंकारी] को बड़ा भय उत्पन्न हुआ । (सः एतां प्राचीं दिशं
भेजे) उस ने इस पूर्व दिशा को सेया [ऋग्वेदी होता अग्नि के पूर्व में बैठा] ।
(सः उवाच अशान्तः नु अयम् अश्वः) उस ने कहा—यह अश्व [अग्नि]
अशान्त ही है । (तं यजुर्वेदः पत्य उवाच अहम् अश्वं शमेयम् इति) उस से
यजुर्वेद आकर बोला—मैं अश्व [अग्नि] को शान्त करूँ । (तस्मै अवि-
स्मृताय महत् भयं ससृजे) उस न सरकते हुये [ठहरे हुये, अहंकारी] को बड़ा
भय उत्पन्न हुआ । (सा [सः] एतां प्रतीचीं दिशं भेजे) उस ने इस पश्चिमी दिशा

१८—(प्रजापतिः) प्रजापालकः परमात्मा (अग्नीन्) आहवनीयगार्ह-
पत्य दक्षिणाग्नीन्—क० २२ (आदधीय) आ+दधातेः वि० लि० । अहं यथा-
विधि धरेय (अश्वः) अशुप्रुषि लटि० । उ० १ । १५१ । अशू व्याप्तौ—कन् ।
व्यापको घोटकरूपो वा अग्निः (वाक्) वेदवाणी (सम्भाराणाम्) संग्रहाणां
घोड़ा, इत्यध्याहारः (घोरात्) हन्तेरच् घुर च । उ० ५ । ६४ । हन् हिंसागत्योः
—अच्, धातो घुरादेशश्च । भयानकात् (कूरात्) कृतेश्छः कू च । उ० २ । २१ ।
कृती छेदने—रक्, धातोः कू इत्यादेशः । हिंसकात् । कठिनात् (सलिलात्)
सलिल—अर्श आद्यच् । जलपूर्णात् (सरसः) सरोवरात् । जलोपद्रवादित्यर्थः
(उदानिन्युः) उन्नीतवन्तः (अविस्मृताय) अविगताय । स्थिताय । अहङ्कार-

को सेया [यजुर्वेदी अध्वर्यु वेदी के पश्चिम में बैठा] । (सः उवाच अशान्तः नु
 अयम् अश्वः इति) वह बोला—यह अश्व [अग्नि] अशान्त ही है । (तं साम-
 वेदः एतय उवाच अहम् अश्वं शमेयम् इति) उस से सामवेद आकर बोला—मैं
 अश्व [अग्नि] को शान्त करूँ । [वाणी ने कहा] (केन नु त्वं शमयिष्यसि
 इति) किस से तू शान्त करेगा । [सामवेद बोला] (रथन्तरं नाम अघोरं च
 अक्रूरं च मैं साम तेन अश्वम् अभि—स्तूयते) रमणीय पदार्थों के साथ पार-
 लगाने वाला प्रसिद्ध अभयानक और अहिंसक मेरा सामवेद सूक्त है, उस से
 अश्व [अग्नि] स्तुति किया जावे । (तस्मै अविस्मृत्य तत् एव महत् भयं
 ससृजे) उस न सरकते हुये [ठहरे हुये अहंकारी] को वैसा ही बड़ा भय
 उत्पन्न हुआ । (सः एताम् उदीचीं दिशं भेजे) उस ने उत्तर वाली दिशा को
 सेया [सामवेदी उद्गाता वेदी के उत्तर में बैठा] । (सः ह उवाच अशान्तः नु
 अयम् अश्वः इति) वह बोला—यह अश्व [अग्नि] अशान्त ही है । (तान्
 वाक् अभि—उवाच आथर्वणं शंयुं गच्छथ इति) उन से वाणी ने स्पष्ट कहा—
 निश्चल ब्रह्म को जानने वाले शंयु [शान्तिवाले मुनि] के पास जाओ । (ते
 आथर्वणं शंयुम् आसीनं प्राप्य ऊचुः भगवन् ते नमः अस्तु अश्वं शम्येत इति)
 वे निश्चल ब्रह्म के जाननेवाले शंयु [शान्तिवाले मुनि] को बैठा हुआ पाकर
 बोले—हे भगवन् तेरे लिये नमस्कार होवे, आप अश्व [अग्नि] को शान्त करें ।
 [शंयु ने कहा] (तथा इति) वैसा ही होवे । (सः खलु आथर्वणस्य कबन्धस्य
 पुत्रम् आमन्त्रयामास) प्रसिद्ध है उसने निश्चल ब्रह्म को जानने वाले कबन्ध के
 पुत्र [काबन्धि—क० १० ।] को बुलाया—(विचारिन् इति, भगोः इति, ह
 अस्मै प्रतिश्रुत) हे विचारवान् ! हे भगवन् ! इस के लिये तुम प्रतिज्ञा करो ।
 (प्रतिशुश्राव) उस ने प्रतिज्ञा की । [शंयु बोला] (अश्वं शम्येत इति) अश्व
 [अग्नि] को आप शान्त करें । (तथा इति) [काबन्धि बोला] ऐसा ही हो ।
 (सः खलु शान्त्युदकम् आथर्वणीभिः च आङ्गिरसोभिः च आतनैः मातृनामभिः

युक्ताय । (रथन्तरम्) रमु क्रीडायां-कथन् + तृ ष्वनतरणयोः—खच् मुम् च ।
 रथै रमणीयापदार्थैस्तरति येन तत् (अश्वम्) अश्वः (शंयुम्) कंशंभ्यां
 बभयुस्तितुतयसः । पा० ५ । २ । १३८ । शं—युस् मत्वर्थे, सकारः पदत्वार्थः ।
 शान्तिमन्तम् (आथर्वणम्) निश्चलब्रह्मवेत्तारम् (गच्छथ) गच्छत । लोट्—
 लट् (कबन्धस्य) गो० पू० । २ । १० । मुनिविशेषस्य (प्रतिश्रुत) प्रतिश्रुत ।
 प्रतिज्ञानीत (रोमशमलेभ्यः) लस्य रः । रोमशमलेभ्यः । रोममलकूपेभ्यः ।

वास्तोष्यत्यैः चकार इति) उस ने तब निश्चल ब्रह्म वाली और पूर्ण ज्ञान वाली ऋचाओं के साथ विस्तार वाले प्रमाणकर्ताओं के नाम वाले और गृहपति वाले व्यवहारों से शान्ति के जल को बनाया, (शमयति) और [उसे] शान्त किया । (तस्य ह स्नानस्य अभि—उत्तितस्य अश्वस्य सर्वेभ्यः रोमशमरेभ्यः अङ्गाराः आ—अशीर्यन्त) उस शुद्ध किये हुये और भले प्रकार सींचे हुये अश्व [अग्नि] के सब रोम कूपों से अङ्गारे निकल पड़े । (सः अश्वः तुष्टः नमस्कारं चकार आथर्वणाय शंयुं नमः यः मा यज्ञम् अचीकृपत् इति) उन् अश्व [अग्नि] ने संतुष्ट होकर नमस्कार किया—निश्चल ब्रह्म को जाननेवाले शंयु [शांतिमान मुनि] को नमस्कार हो, जिस ने मुझे यज्ञ के लिये समर्थ बनवाया है । (अतः अन्ये ब्राह्मणाः ह वै लघुसम्भारतमाः भविष्यन्ति) इस [कर्म] से दूसरे ब्रह्मज्ञानी लोग हलके बोझ वाले होंगे, (ते आदित्यस्य पदे अनडुहः वत्सस्य अजस्य श्रवणस्य ब्रह्मचारिणः [पदम्] वै आ—धास्यन्ति) वे सूर्य के पद में जीवन पहुँचाने वाले, निवास कराने वाले, प्रेरणा कराने वाले, सुनने वाले ब्रह्मचारी के [पद को] स्थापित करेंगे । (एतत् वै आदित्यस्य पदम् यत् भूमिः तथा एव पदे [पदम्] आहितं भविष्यति इति) यही सूर्य का पद है जो भूमि है, उस के साथ ही पद में [पद] स्थापित होगा [अग्नि को भूमि पर हवन कुंड में रक्खे] । (अश्वे अग्नौ प्रणीयमाने स ब्रह्म अन्वारब्धं यजमानं वाचयति—यत् अक्रवः प्रथमं जायमानः इति पंच) अश्व अर्थात् अग्नि के संस्कार होते हुये पर वह ब्रह्मा अनुष्ठान करते हुये यजमान से बुलवाता है—[हे अश्व !] जो तूने उत्पन्न होते हुये पहिले शुद्ध किया है

(अङ्गाराः) अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन् । उ० ३ । १३४ । अग्नि गतौ—आरन् । निर्धूमाग्नयः (आशीर्यन्त) आङ् + शृ हिसायां - कर्मणि लङ् । विशीर्णा अभवन् (शंयुम्) शंयवे (अचीकृपत्) कूप सामर्थ्ये—लुङि चाङ् रूपम् । समर्थं कारितवान् (अनडुहः) सर्वधातुभ्योऽसुन् । उ० ४ । १८६ । अत प्राणने—असुन् । क्तिप् च । पा० ३ । २ । ७६ । अनस् + वह प्रापणे—क्तिप्, अनसो डश्च । अनसः प्राणस्य जीवनस्य वा वाहकस्य प्रापकस्य (वत्सस्य) वृत्तवदिवच्चि-वसि० । उ० ३ । ६२ । वस निवासे—स प्रत्ययः । निवासकस्य (अजस्य) अज गतिक्षेपणयोः—अच् । प्रेरकस्य (श्रवणस्य) श्रवणशीलस्य (आहितम्) स्थापितम् (प्रणीयमाने) संस्क्रियमाणे (अन्वारब्धम्) कृतानुष्ठानम् (उपाकुरुते) संस्करोति ॥

इन पांच को [यह प्रतीक ऋग्वेद १ । १६३ । १-५ की है—देखो क० २१] ।
(तं ब्राह्मणाः उपवहन्ति तत् ब्रह्मा उपाकुरुते) उस [यजमान] को ब्राह्मण
समीप लाते हैं और तब ब्रह्मा [उस का] संस्कार करता है । (एषः ह वै
विद्वान् सर्वत्रित् ब्रह्मा यत् भृग्वङ्गिरोपित् इति ब्राह्मणम्) यही विद्वान् सब
जानने वाला ब्रह्मा है जो प्रकाशमान ज्ञानों का जानने वाला [अर्थान् चतुर्वेदी
पुरुष] है, यह ब्राह्मण है ॥ १८ ॥

भावार्थ—यज्ञ में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, और सामवेदी अलग अलग अपना
काम करे और चतुर्वेदी आस विद्वान् पुरुष ब्रह्मा का आसन ग्रहण करके सब
कार्य करावे । देखो गो० पू० ५ । ११ । निरुक्त १ । ८ में लिखा है (ब्रह्मैको
जातं जाते विधां वदति ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदतुमर्हति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः)
एक ब्रह्मा उत्पन्न हुये उत्पन्न हुये कर्म में विद्या बताता है, ब्रह्मा सब विद्याओं
वाला और सब जानने योग्य हाता है, ब्रह्मा वेद से बड़ा हुआ हाता है ॥ १८ ॥

कण्डिका १६ ॥

देवाश्च ह वा असुराश्चासृद्धन्त ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमन्नस्तावद्यज्ञं गोपाय,
यावदसुरैः संयतामहा इति, स वै नस्तेन रूपेण गोपाय येन नो रूपेण भूयिष्ठं
छादयसि येन शक्यसि गोप्तुमिति, स ऋग्वेदो भूत्वा पुरस्तात्परीत्योपातिष्ठन्तं
देवा अब्रुवन्नन्यत्तद्रूपं कुरुष्व नैतेन नो रूपेण भूयिष्ठं छादयसि नैतेन शक्यसि
गोप्तुमिति, स यजुर्वेदा भूत्वा पश्चात्परीत्योपातिष्ठत्तं देवा अब्रुवन्नन्यत्तद्रूपं
कुरुष्व नैतेन नो रूपेण भूयिष्ठं छादयसि नैतेन शक्यसि गोप्तुमिति, स सामवेदो
भूत्वा उत्तरतः परीत्योपातिष्ठत्तं देवा अब्रुवन्नन्यदेवत्तद्रूपं कुरुष्व नैतेन नो
रूपेण भूयिष्ठं छादयसि नैतेन शक्यसि गोप्तुमिति, स इन्द्र उष्णीषी ब्रह्मवेदो
भूत्वा दक्षिणतः परीत्योपातिष्ठत्तं देवा अब्रुवन्नेतत्तद्रूपं कुरुष्वैतेन नो रूपेण
भूयिष्ठं छादयस्येतेन शक्यसि गोप्तुमिति, तद्यदिन्द्र उष्णीषी ब्रह्मवेदो भूत्वा दक्षि-
णतः परीत्योपातिष्ठत्तद् ब्रह्माऽभवत्तद्ब्रह्मणो ब्रह्मत्वं तद्वा एतदथर्वणो रूपं यदु-
ष्णीषी ब्रह्मा, तं दक्षिणतो विश्वेदेवा उपासीरंस्तं यदक्षिणतो विश्वेदेवा उपा-
सीरंस्तत्सदस्योऽभवत्तत्सदस्यस्य सदस्यत्वं बलेर्ह वा एतद् बलमुपजायते यत्स-
दस्य आमयो व ब्रजस्य बहुलतरं ब्रज विन्वन्ति, धारा वा एषा दिग्दक्षिणा
शान्ता इतरास्तद्यानि स्तुतानि ब्रह्माऽनुमन्त्रयते मतसैव तानि सदस्यो जनदि-
त्येतां व्याहृतिं जपं चेत्यात्मानं जनयति नित्यात्मानमपित्वे दधाति, तं देवा
अब्रुवन्वरं वृ णीष्वेति वृणा ३ इति, स वरमवृणीताद्यामेव मां होत्रायामिन्द्रभूत

पुनन्तस्तुवन्तः शंसन्तः तिष्ठेयुरिति तं तस्यामेव होत्रायामिन्द्रभूतं पुनन्तस्तुवन्तः
 शंसन्तोऽतिष्ठन्तं यत्तस्यामेव होत्रायामिन्द्रभूतं पुनन्तस्तुवन्तः संशन्तस्तिष्ठन्तस्तद्
 ब्राह्मणाच्छंस्यभवत्तद्ब्राह्मणाच्छंसिनो ब्राह्मणाच्छंसित्वं सैषैन्द्री होत्रा यद्
 ब्राह्मणाच्छंसिया, द्वितीयं वरं वृणीष्वेति वृणा३ इति स वरमवृणीतास्यामेव मां
 होत्रायां वायुभूतं पुनन्तस्तुवन्तः शंसन्तस्तिष्ठेयुरिति त तस्यामेव होत्रायां वायु-
 भूतं पुनन्तस्तुवन्तः शंसन्तोऽतिष्ठन्तं यत्तस्यामेव होत्रायां वायुभूतं पुनन्तस्तु-
 वन्तः शंसन्तस्तिष्ठन्तस्तत् पोताऽभवत्तत् पोतुः पोतृत्वं सैषा वायव्या होत्रा यत्
 पोत्रिया, तृतीयं वरं वृणीष्वेति वृणा३ इति स वरमवृणीतास्यामेव मां होत्राया-
 मग्निभूतमिन्धानाः पुनन्तस्तुवन्तः शंसन्तस्तिष्ठेयुरिति तन्तस्यामेव होत्राया-
 मग्निभूतमिन्धानाः पुनन्तस्तुवन्तः शंसन्तोऽतिष्ठन्तं यत्तस्यामेव होत्रायामग्नि-
 भूतमिन्धानाः पुनन्तस्तुवन्तः शंसन्तस्तिष्ठन्तस्तदाग्नीध्रोऽभवत्तदाग्नीधस्याग्नीध्रत्वं
 सैषाग्नेयी होत्रा यदाग्नीध्रीयेति ब्राह्मणम् ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ आख्यायिका—असुरों से इन्द्र द्वारा देवताओं
 की रक्षा और अग्न्याधान ॥

(देवाः च ह वै असुराः च अस्पर्धन्त) देवता और असुर लड़ने लगे ।
 (ते देवाः इन्द्रम् अब्रुवन् इमं नः यज्ञं तावत् गोपाय, यावत् असुरैः संयतामहै
 इति) वे देवता इन्द्र से बोले—इस हमारे यज्ञ की तब तक रक्षा कर, जब तक हम
 असुरों से लड़ें । (सः वै नः तेन रूपेण गोपाय येन रूपेण नः भूयिष्ठं छाद-
 यसि येन गोप्तुं शक्यसि इति) सो तू हमें उस रूप से बचा जिस रूप से तू हमें
 बहुत बहुत छिपाता है और जिस से तू रक्षा कर सकता है । (सः ऋग्वेदो
 भूत्वा पुरस्तात् परीत्य उपातिष्ठत्) वह [इन्द्र] ऋग्वेद होकर पूर्व ओर से
 घूम कर पास बैठ गया [देखो कण्डिका १८] । (तं देवाः अब्रुवन् अन्यत् तत्
 रूपं कुरुष्व एतेन रूपेण नः भूयिष्ठं न छादयसि न एतेन गोप्तुं शक्यसि इति)
 उस से देवता बोले— दूसरा वह रूप कर, इस रूप से तू हमें बहुत बहुत नहीं

१६—(गोपाय) रक्ष (संयतामहै) यती प्रयत्ने—लोट् । संग्रामं कुरवमहै
 (छादयसि) वेष्टयसि, रक्षसि (उष्णीषी) उष्णीष—इति । शिरोवेष्टनवान्
 (ब्रह्मवेदः) चतुर्वेदसमूहः (ब्रह्मा) चतुर्वेदवेत्ता (अथर्वणः) निश्चलब्रह्मणः
 (विश्वेदेवाः) सर्वे याजकाः (उपासीरन्) आस उपवेशने—वि० लि० लङ् ।
 उपातिष्ठन् (सदस्यः) सदस्—यत् । सभायां साधुः (बलेः) उपहारात् । पूजन-
 द्रव्यात् (आमयतः) अम गतौ चुरादिः—शट् । गच्छतः (ब्रजस्य) मार्गस्य

छिपाता है और न इससे तू बचा सकता है ।

(सः यजुर्वेदः भूत्वा पश्चात् परीत्य उपातिष्ठत) वह यजुर्वेद हो कर पश्चिम ओर से घूम कर पास बैठ गया । (तं देवाः अब्रुवन् अन्यत् तत् रूपं कुरुष्व एतेन रूपेण नः भूयिष्ठं न छादयसि न एतेन गोप्तुं शक्यसि इति) उस से देवता बोले—दूसरा वह रूप कर, इस रूप से तू हमें बहुत बहुत नहीं छिपाता है और न इससे तू बचा सकता है । (स सामवेदः भूत्वा उत्तरतः परीत्य उपातिष्ठत) वह सामवेद होकर उत्तर की ओर से घूम कर पास बैठ गया । (तं देवाः अब्रुवन् अन्यत् एव तत् रूपं कुरुष्व एतेन रूपेण नः भूयिष्ठं न छादयसि न एतेन गोप्तुं शक्यसि इति) उस से देवता बोले—दूसरा ही वह रूप कर, इस रूप से तू हमें बहुत बहुत नहीं छिपाता है और न इससे तू बचा सकता है । (सः उष्णीषी इन्द्रः ब्रह्मवेदः भूत्वा दक्षिणतः परीत्य उपातिष्ठत्) वह पगड़ी वाला इन्द्र ब्रह्मवेद [चारों वेदों का समूह] होकर दक्षिण की ओर से घूम कर पास बैठ गया । (तं देवाः अब्रुवन् एतत् तत् रूपं कुरुष्व एतेन रूपेण नः भूयिष्ठं छादयसि एतेन गोप्तुं शक्यसि इति) उससे देवता बोले—इस से वह रूप कर, इस रूप से तू हमें बहुत बहुत छिपाता है और इस से बचा सकता है । (तत् यत् उष्णीषी इन्द्रः ब्रह्मवेदः भूत्वा दक्षिणतः परीत्य उपातिष्ठत्, तत् ब्रह्मा अभवत् तत् ब्रह्मणः ब्रह्मत्वम्, तत् वै एतत् अथर्वणः रूपम् यत् उष्णीषी ब्रह्मा) वह जा पगड़ी वाला इन्द्र ब्रह्मवेद [चारों वेदों का समूह] हो कर दक्षिण की ओर से घूम कर पास बैठ गया वह ब्रह्मा हो गया, वह ब्रह्मा का ब्रह्मापन् है, वही यह अथर्वा [निश्चल ब्रह्म] का रूप है जो पगड़ी वाला ब्रह्मा है [अर्थात् सब वेद जानने वाला ब्रह्मा होता है —क० १८] ।

(तं दक्षिणतः विश्वे देवाः उपासीरन्) उस के दक्षिण ओर सब देवता बैठ गये । (तं दक्षिणतः यत् विश्वेदेवाः उपासीरन् तत् सदस्यः अभवत् तत् सदस्यस्य सदस्यत्वं, बलेः ह वै एतत् बलम् उपजायते यत् सदस्यः आमयतः व वृजस्य बहुलतरं वृजं विन्वन्ति) उसके दक्षिण ओर जो सब देवता बैठ गये, उससे वह

(वृजम्) देशम् (विन्वन्ति) णु स्तुतौ—लट्, आर्षरूपम् । विविधं नुवन्ति स्तुवन्ति (स्तुतानि) स्तोत्राणि (जपं च) जपश्च = जपन् च (जित्या) जयेन (अपित्वे) अ + पिगतौ—त्वन् । अभिपित्वं = अभिप्राप्तिम्—निरु० ३ । १५ । अप्रातौ (होत्रायाम्) क० १६ । स्तुतौ । वाचि (स्तुवन्तः) स्तौति = अर्चति—निरु० ३ । १४ । पूजयन्तः (शंसन्तः) प्रशंसन्तः (ब्राह्मणाच्छुभ्री) ब्राह्मणात्—

सदस्य [सभा में चतुर] हुआ, वह सभा में चतुर पुरुष का सभा में चतुर्पत है। बलि [भेंट] से ही यह बल [सामर्थ्य] उत्पन्न होता है जो सभामें चतुर है, चलते हुये मार्ग के देश को बहुत कर के बढ़ाई करते हैं। (एषा दक्षिणा दिक् वै घोरा इतराः शान्ताः) यह दक्षिण दिशा भयानक है और दूसरी शान्त है। [क्योंकि दक्षिण में यज्ञ का द्वार होता है]। (तत् यानि स्तुतानि ब्रह्मा अनुमन्त्रते मनसा एव सदस्यः तानि जनत् इति एतां व्याहृतिं जपन् च इति आत्मानं जनयति, जिन्या आत्मानम् अपित्वे न दधाति) सो जिन स्तोत्रों को ब्रह्मा मन्त्र के अनुकूल करता है, मन से ही सदस्य उन [स्तोत्रों] को और जनत् [गो० पू० १ । ८] इस व्याहृति को जपता हुआ [यज्ञ के] आत्मा को प्रकट करता है और जीत से आत्मा को अप्राप्ति [वस्तुओं को अभाव] में नहीं रखता है [अर्थात् सब पदार्थ पालेता है]। (तं देवाः अब्रुवन् वरं वृणीष्व इति) उस से देवना बाले—वर मांग। (वृणौ इति) [इन्द्र बोला] मैं मांगूं। (स वरम् अब्रुणीत अस्याम् एव होत्रायां माम् इन्द्रभूतं पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः तिष्ठेयुः इति) उस ने वर मांगा—इस ही स्तुति में मुझ इन्द्र [सूर्य समान] होते हुये को पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बढ़ाई करते हुये आप लोग ठहरें। (तस्याम् एव होत्रायां तम् इन्द्रभूतं पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः अतिष्ठन्) उस ही स्तुति में उस इन्द्र होते हुये को पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बढ़ाई करते हुये वे ठहरे। (यत् तस्याम् एव होत्रायां तम् इन्द्रभूतं पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः तिष्ठन् [= अतिष्ठन्] तत् ब्राह्मणच्छंसी अभवत्) जो उसी ही स्तुति में उस इन्द्र [सूर्य] होते हुये को पवित्र करते हुये, पूजते हुये, और बढ़ाई करते हुये वे ठहरे, उस से वह ब्राह्मणच्छंसी [ब्रह्मज्ञान से स्तुति वाला] हुआ, (तत् ब्राह्मणच्छंसिनः ब्राह्मणच्छंसित्वम्) वही ब्राह्मणच्छंसी का ब्राह्मणच्छंसीपन है। (सा एषा ऐन्द्री होत्रा यत् ब्राह्मणच्छंसीया) वही इन्द्र की स्तुति है जो ब्राह्मणच्छंसी की है।

शंसी—इनि प्रत्ययान्तः। ब्राह्मणात् ब्रह्मज्ञानात् शंसा प्रशंसा यस्य सः। इन्द्रस्य विशेषणम् (ऐन्द्री) इन्द्र—अण्, डीप्। इन्द्रसम्बन्धिनी (ब्राह्मणच्छंसीया) वृद्धाच्छः। पा० ४ । २ । ११४ । ब्राह्मणच्छंस—छ। ब्रह्मज्ञानात् प्रशंसासबद्धा (तिष्ठन्) अतिष्ठन् (पोता) नमृनेष्टृत्वष्टृहोतृपोतृ० । उ० २ । ६५ । पुनातेः—तृन्। शोधकः। ऋत्विक् (वायव्या) वायवृतुपित्रुषोयत्। पा० ४ । २ । ३१ । वायु—यत्। पवनसंबन्धिनी (पोत्रियाः) पोतृ—घप्रत्ययः। पोतृसंबन्धिनी (इन्धानाः) प्रदीपयन्तः (आग्नीध्रः) पू० १ । २३ । अग्नीध्रः। ऋत्विग्विशेषः।

(द्वितीयं वरं वृणीष्व इति) [देवता बोले] दूसरा वर मांग । (वृणौ इति) [इन्द्र बोला] मैं मांगूँ । (सः वरम् अवृणीत अस्याम् एव होत्रायां मां वायु-भूतं पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः तिष्ठेयुः इति) उसने वर मांगा—उस ही स्तुति में मुझ पवन होते हुये को पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बड़ाई करते हुये आप ठहरे । (तस्याम् एव होत्रायां तं वायुभूतं पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः अतिष्ठन्) उस ही स्तुति में उस पवन होते हुये को पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बड़ाई करते हुये वे ठहरे । (यत् तस्याम् एव होत्रायां तं वायुभूतं पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः तिष्ठन् तत् पोता अभवत् तत् पोतुः पोतृत्वम्) जो उस ही स्तुति में उस पवन रूप होते हुये को पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बड़ाई करते हुये वे ठहरे, उस से वह पोता [शोधने वाला] हुआ, वही पोता का पोतपन है । (सा एषा वायव्या होत्रा यत् पोत्रिया) वही पवन की स्तुति है जो पोता की है ।

(तृतीयं वरं वृणीष्व) [देवता बोले] तीसरा वर मांग । (वृणौ इति) [इन्द्र बोला] मैं मांगूँ । (सः वरम् अवृणीत अस्याम् एव होत्रायां माम् अग्नि-भूतम् इन्धानाः पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः तिष्ठेयुः इति) उसने वर मांगा—इस ही स्तुति में मुझ अग्नि [समान] होते हुये को प्रकाश करते हुये, पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बड़ाई करते हुये आप ठहरे । (तस्याम् एव होत्रायां तम् अग्नि-भूतम् इन्धानाः पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः अतिष्ठन्) उस ही स्तुति में उस अग्नि होते हुये को प्रकाश करते पवित्र करते हुये पूजते हुये और बड़ाई करते हुये वे ठहरे । (यत् तस्याम् एव होत्रायां तम् अग्निभूतम् इन्धानाः पुनन्तः स्तुवन्तः शंसन्तः तिष्ठन् तत् आग्नीध्रः अभवत् तत् आग्नीध्रस्य आग्नीध्रत्वम्) जो उस ही स्तुति में उस अग्नि होते हुये को प्रकाश करते हुये, पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बड़ाई करते हुये वे ठहरे, वह अग्नीध्र [अग्नि प्रकाशक] हुआ, यही आग्नीध्र का आग्नीध्रपन है, (सा एषा आग्नेयी होत्रा यत् आग्नीधीया इति ब्राह्मणम्) और वही अग्नि की स्तुति है जो आग्नीध्र की है—यह ब्राह्मण है ॥१६॥

भावार्थ—जो मनुष्य चारों वेदों में निपुण है वही निर्विघ्न होकर सब सामग्री यथावत् एकत्र करके अग्न्याधान करावे ॥ १६ ॥

अग्निरक्षकः । अग्निप्रदीपकः । (आग्नेयी) अग्नेर्दक् । पा० ४ । २ । ३३ । अग्नि—दक्, डीप् । अग्निसम्बन्धिनी (आग्नीधीया) लुप्रत्ययान्तः । अग्निप्रदीपक-संबन्धिनी ॥

कण्डिका २० ॥

ब्राह्मणो ह वा इममग्निं वैश्वानरं बभार । सोऽयमग्निर्वैश्वानरो ब्राह्मणेन
 भ्रियमाण इमांल्लोकान् जनयतेऽथायमाक्षतेऽग्निर्जातवेदा ब्राह्मणद्वितीयो ह वा
 अयमिदमग्निर्वैश्वानरो ज्वलति हन्ताहं यन्मयि तेज इन्द्रिय वीर्य्यन्तर्श्याम्युत
 वै मा बिभ्रियादिति, स आत्मानमाप्याययेत्तं पयोधाक्तमिमं ब्राह्मणं दर्शयित्वा-
 ऽऽत्मन्यजुहोत् स द्वितीयमात्मानमाप्याययेत्तं घृतमधोक्तमिमं ब्राह्मणं दर्शयित्वा
 आत्मन्यजुहोत्, स तृतीयमात्मानमाप्याययेत्तदिदं विश्वं विकृतमन्नाद्यमधोक्तमिमं
 ब्राह्मणं दर्शयित्वाऽऽत्मन्यजुहोत्, स चतुर्थमात्मानमाप्याययेत्तेन ब्राह्मणस्य जायां
 विराजमपश्यत् तामस्मै प्रायच्छत् स आत्मा अपित्वमभवत्तत इममग्निं वैश्वानरं
 परास्युर्ब्राह्मणोऽग्निं जातवेदसमधत्त, सोऽयमब्रवीत् अग्ने जातवेदो अभिनिधेहि
 मेहीति तस्य द्वैतं नामाधत्ताघोरं चाक्रूरश्च, सोऽश्वोऽभवत्तस्मादश्वो बहेत रथं
 न भवति पृष्ठेन सादिन, स देवानागच्छत्स देवेभ्योऽन्वातिष्ठत् तस्माद्देवा अबि-
 भयुस्तं ब्रह्मणे प्रायच्छत्तमेतयर्चाऽशमयत् ॥ २० ॥

कण्डिका २० ॥ वैश्वानर, जातवेदा और अश्व नामक अग्नि ॥

(ब्राह्मणः ह वै इमं वैश्वानरं अग्निं बभार) ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] ने ही
 इस वैश्वानर [सब नरों के हित करने वाले] अग्नि को धारण किया । (सः
 अयं वैश्वानरः अग्निः ब्राह्मणेन भ्रियमाणः इमान् लोकान् जनयते) सो यह
 वैश्वानर अग्नि ब्राह्मण से धारण किया हुआ होकर इन लोकों को उत्पन्न करता
 है । (अथ ब्राह्मणद्वितीयः अयम् जातवेदाः अग्निः ह वै [इदम्] ईक्षते,
 अयम् वैश्वानरः अग्निः इदम् ज्वलति) फिर ब्राह्मण को सहायक रखने वाला
 यह जातवेदा [उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान] अग्नि [इस जगत् को] देखता
 है, और यह वैश्वानर [सब नरों का हितकारी] अग्नि इस [जगत्] को
 प्रकाशित करता है । (हन्त यत् मयि तेजः इन्द्रियं वीर्य्यं तत् अहम् दर्शयामि,
 उत् वै मा बिभ्रियात् इति) [अग्नि बोला] हर्ष हो ! जो मुझ में तेज, ईश्वरत्व
 और वीरपन है उस को मैं दिखाऊं । और वह निश्चय करके मुझ को धारण

२०—(वैश्वानरम्) नृ प्रापणे—अच् । नृणाति । नयतीति नरः । पुरुषः ।
 नरे संज्ञायाम् । पा० ६ । ३ । १२६ । विश्वस्य दीर्घः । तस्मै हितम् । प० ५ ।
 १ । ५ । इत्यण् । वैश्वानरः कस्माद् विश्वान् नरान् नयति विश्व एनं नरा
 नयन्ति—निरु० ७ । २१ । सर्वनरहितम् (जातवेदाः) गतिकारकोपपदयोः० ।

करे । (सः आत्मानम् आप्याययेत् तं पयः अधोक्) वह [ब्राह्मण, अग्नि के] स्वरूप को पुष्ट करे, और उस [ब्राह्मण] को उस [अग्नि] ने दूध दुहा है, (इमं ब्राह्मणं दर्शयित्वा आत्मनि अजुहोत्) और [वह दूध] इस ब्राह्मण को दिखा कर उस [अग्नि] ने अपने में ले लिया । (सः द्वितीयम् आत्मानम् आप्याययेत् तं घृतम् अधोक्, तम् इमम् ब्राह्मणं दर्शयित्वा आत्मनि अजुहोत्) वह [ब्राह्मण, अग्नि के] दूसरे स्वरूप को पुष्ट करे, और उस ब्राह्मण को उस [अग्नि] ने घृत दुहा है और [वह घृत] इस ब्राह्मण को दिखाकर उस [अग्नि] ने अपने में ले लिया । (सः तृतीयम् आत्मानम् आप्याययेत्, तत् इदं विश्वं विकृतम् अन्नाद्यम् अधोक्, तम् इमं ब्राह्मणं दर्शयित्वा आत्मनि अजुहोत्) वह [ब्राह्मण, अग्नि के] तीसरे स्वरूप को पुष्ट करे, और इस सब विविध प्रकार किये हुये अन्न को उस [अग्नि] ने दुहा है और इस ब्राह्मण को दिखाकर उस ने अपने में ले लिया है । (सः चतुर्थम् आत्मानम् आप्याययेत् तेन ब्राह्मणस्य विराजं जायाम् अपश्यत्) वह [ब्राह्मण, अग्नि के] चौथे स्वरूप को पुष्ट करे, उस से उस [अग्नि] ने ब्राह्मण की विविध ऐश्वर्यवाली जनयित्री शक्ति को देखा । (ताम् अस्मै प्रापच्छत्) उस ने उस [जनयित्री शक्ति] को उस [ब्राह्मण] को दे दिया । (सः आत्मा अपित्वम् अभवत्) उस [ब्राह्मण] ने अपने में [अग्नि की] अप्राप्ति को पाया । (ततः परास्युः ब्राह्मणः इमं वैश्वानरम् अग्निं जातवेदसम् अग्निम् अधत्) तब श्रेष्ठ व्यवहारों के ग्रहण करने वाले ब्राह्मण ने वैश्वानर [सब नरों के हितकारक] अग्नि और जातवेदा [सब प्राणियों में वर्तमान] अग्नि को धारण किया । (सः अयम् अब्रवीत् जादवेदः अग्ने मा अभिनिधेहि इहि इति) सो यह [ब्राह्मण] बोला—हे जातवेदा

उ० ४ । २२७ । जात + विद् ज्ञाने विद्वत् लाभे, विद् सत्तायां वा—असिप्रत्ययः । जातवेदाः कस्मात् जातानि वेद जातानि वैनं विदुर्जाते जाते विद्यत इति वा—निरु० ७ । १६ । जातेषु उत्पन्नपदार्थेषु विद्यमानः (ब्राह्मणद्वितीयः) ब्राह्मणो द्वितीयः सहायो यस्य सः (इदम्) दृश्यमानं जगत् (ज्वलति) ज्वलयति (हन्त) हर्षे (आत्मानम्) स्वरूपम् । देहम् (पयः) दुग्धम् (अधोक्) दुह प्रपूरणे—लङ् । दुग्धवान् । पूरितवान् (अजुहोत्) हु दानादानादनेषु—लङ् । गृहीतवान् (विकृतम्) विविधं कृतम् । उत्पादितम् (अन्नाद्यम्) भक्षणीयमन्नम् । (जायाम्) जनेर्यक् । उ० ४ । १११ । जन जनने—यक्, आत्वम्, टाप् । जनयत्री शक्तिम् (विराजम्) सत् सुद्विषदुह० । पा० ३ । २ । ६१ । बि + राज् दीप्तौ ऐश्वर्ये

[उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान] अग्नि ! मुझे सब ओर से पुष्ट कर, तू आ । (तस्य द्वैतं नाम अघोरं च अक्रूरं च अधत्त) और उस का दो प्रकार वाला नाम अभयानक और अहिंसक रक्खा । (सः अश्वः अभवत्) वह [अग्नि] अश्व [व्यापक घोड़े के समान] हो गया । (तस्मात् अश्वः रथं वहेत न पृष्ठेन सादिनम् भवति) इस लिये अश्व रथ [देह] को ले चलता है जैसे वह पीठ से अश्ववार को पाता है । (सः देवान् आगच्छत् स देवेभ्यः अन्वातिष्ठत्) वह [अग्नि] देवों [इन्द्रियों] में आया । और वह देवों के लिये अनुष्ठान करने लगा । (तस्मात् देवाः अबिभयुः, तं ब्रह्मणे प्रायच्छत् = प्रायच्छन्) उस से देव डर गये, उसे उन्होंने ने ब्राह्मण को दे दिया । (तम् एतया ऋचा अशमयत्) उस [ब्राह्मण] ने उस को इस ऋचा से शान्त किया [कण्डिका २१ देखो] ॥२०॥

भावार्थ—देव इन्द्रियां और असुर रोगादि विघ्न हैं, ब्राह्मण जीव है, अश्व, वैश्वानर और जातवेदा अग्नि के नाम हैं । भावार्थ यह है कि जीवात्मा अग्नि को रोगादि विघनों से बचाकर, शरीर को स्वस्थ रखकर कार्यकुशल होवे—मिलाओ क० १८, १९, और २० को ॥ २० ॥

कण्डिका २१ ॥

अग्निं त्वाहुर्वैश्वानरं सदनान् प्रदहन्वगाः । स नो देवत्राधिब्रुहि मारिषामा वयन्तवेति ।

तमेताभिः पञ्चभिर्ऋग्भिरुपाकुरुते यदक्रन्दः प्रथमं जायमान इति ।

सेऽशाम्यत्तस्मादश्वः पशूनां जिघत्सुगतमो भवति वैश्वानरो ह्येष तस्मादग्निः पदमश्वं ब्रह्मणे ददाति ब्रह्मणे हि प्रत्तन्तस्य रसमपीडयत् स रसोऽभवद्द्रसो ह वा एष तं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । स देवानागच्छत् स देवेभ्योऽन्वातिष्ठत्तस्माद्देवा

च—किप् । विविधदीप्यमानाम् । विविधैश्वर्याम् (आत्मा) आत्मनि (अपित्वम्) क० १९ । अप्राप्तिम् (अभवत्) भू प्राप्तौ चिन्तने च—लङ् । प्राप्नोत् । अचिन्तयत् (परास्युः) परान् श्रेष्ठव्यवहारान् असति गृह्णातीति । यजिमचिशुन्धि० । उ० ३ । २० । पर + अस गतिर्दीप्तिग्रहणेषु—युच्, बाहुलकात् । श्रेष्ठव्यवहाराणां ग्रहीता (द्वैतम्) द्विधाभेदयुक्तम् (वहेत) गमयेत् (रथम्) यानम् । शरीरम् (न) उपमायाम् । यथा (सादिनम्) अश्ववारम् ॥

अविभयुस्तं ब्रह्मणे प्रायच्छत्तमेतयर्चाऽऽज्याहुत्याऽभ्यजुहोदिन्द्रस्यौजो मरुतामनी-
कमिति ।

रथमभिहुत्वा तमेतयर्चाऽतिष्ठद् वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया इति ।

तस्मादाग्न्याधेयिक रथं ब्रह्मणे ददाति, ब्रह्मणे हि प्रत्तं तस्य तक्षाणस्तनू-
ज्येष्ठां दक्षिणां निरमिमत् । तां पञ्चस्वपश्यद्वृचि यजुषि साम्नि शान्तेऽथ घोरे ।

तासां द्वे ब्रह्मणे प्रायच्छद्वाचं च ज्योतिश्च, वाग्वै धेनुज्योतिर्हरणं तस्मा-
दाग्न्याधेयिकां चातुष्प्राश्यां धेनुं ब्रह्मणे ददाति, ब्रह्मणे हि प्रत्ता पशुषु शाम्यमा-
नेषु चक्षुर्हापर्यन्त चक्षुरेव तदात्मनि धत्ते यद्वं चक्षुस्तद्विरणं तस्मादाग्न्याधे-
यिकं हिरण्यं ब्रह्मणे ददाति, ब्रह्मणे हि प्रत्त तस्यात्मन्नधत्त तेन प्राज्वलयद् यन्ना-
धत्त तदाग्लाऽभवत्तदाग्ला भूत्वा सा समुद्रं प्राविशत्सा समुद्रमदहत्तस्मात्समुद्रो
दुर्गिरपि वैश्वानरेण हि दग्धः सा पृथिवीमुदैत्सा पृथिवीं व्यदहत्सा देवानाग-
च्छत्सा देवानहिडत्ते देवा ब्रह्माणमुपाधावन् स नैवागायन्नानृत्यत् सैषाग्लैषा
कारुविदा नाम तं वा एतमाग्लाहतं सन्तमाग्लागृध इत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्ष-
प्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । य एष ब्राह्मणो गायनो वा नर्त्तनो वा
भवति तमाग्लागृध इत्याचक्षते, तस्माद् ब्राह्मणो नैव गायेन्नानृत्येन्माग्लागृधः
स्यात्तस्माद् ब्राह्म्यं पूर्वं हविरपरं प्राजापत्यं प्राजापत्यात् ब्राह्मणमेवोत्तममिति
ब्राह्मणम् ॥ २१ ॥

**कण्डिका २१ ॥ वैश्वानर, जातवेदा और अश्व नामक अग्नि
का वही विषय ॥**

(त्वा वैश्वानरम् अग्निम् आहुः सदनान् प्रदहन् उ अगाः, सः नः देवत्रा
अधिब्रूहि, वयं तव मा रिषाम इति) [क० देखो २०] तुम्हें को वैश्वानर [सब
नरों का हितकारी] अग्नि लोग कहते हैं, [शत्रुओं के] घर वालों को जलाता
हुआ तू चला है, सो तू हम से विद्वानों के बीच अधिकार पूर्वक बोल, हम
तेरे होकर दुखी न पोंच [यह ब्राह्मण वचन है] ।

२१—(आहुः) कथयन्ति (सदनान्) सदन—अर्शन्नाद्यच् । शत्रुगृहवतः
पुरुषान् (उ) वितर्के (अगाः) प्राप्तवान् (नः) अस्मान् (मा रिषाम) हिंसिता
मा भूम् (जिघत्सुरतमः) अद् भक्षणे—सन्, घल्लु आदेशः । असेरुर्न । उ० १ ।
४२ । जिघत्स—उरन्, तमप् । अतिशयं भक्षणेच्छुः । महाशनः—नि० २ ।
२७ (पदम्) प्रायणीयम् (प्रत्तम्) अच उपसर्गात्तः । पा० । ७ । ४ । ४७ ।

(तम् एताभिः पंचभिः ऋग्भिः उषाकुरुते, यत् प्रथमं जायमानः अक्रन्दः इति) उस [अश्व] को इन पांच ऋचाओं से वह [ब्राह्मण] संस्कार करता है—जो तू ने उत्पन्न होते हुये पहिले शब्द किया है, [यह प्रतीक ऋग्वेद १ । १६३ । १—५ की, है देखो क० १८] ।

(सः अशाभ्यत्) वह [अश्व अग्नि] शान्त हो गया, (तस्मात् अश्वः पशूनां जिघत्सुरतमः भवति) इसलिये अश्व पशुओं में अधिक खानेवाला होता है [वैसा ही अग्नि है] । (एषः हि वैश्वानरः) यही [अश्व] वैश्वानर [अग्नि] है, (तस्मात् अग्निः पदम् अश्वं ब्रह्मणे ददाति) इस जिये अग्नि पाने योग्य अश्व को ब्रह्मा [विद्वान्] के लिये देता है । (ब्रह्मणे हि प्रत्तं तस्य रसम् अपीडयत्) ब्रह्मा के लिये उस दिये हुये के रस को उस [प्रजापति] ने निचोड़ा । (सः रसः अभवत्) वह रस हो गया । (रसः ह वै एषः, तं वै एतं रसं सन्तं रथः इति आचक्षते) रस ही यह है उस रस हेते हुये को ही—यह रथ है—ऐसा लोग कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट प्रलय में वर्त्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वर्त्तमान अवस्था] के द्वेषी [विरोधी] (भवन्ति) होते हैं [देखो गो० पू० १ । १] । (सः देवान् आगच्छत्) वह [रथ वा रस] देवों [इन्द्रियों] में आया । (सः देवेभ्यः अन्वातिष्ठत्) और वह देवों के लिये अनुष्ठान करने लगा । (तस्मात् देवाः अविभयुः, तं ब्रह्मणे प्रायच्छत् = प्रायच्छन्) उस से देव डर गये, उसे उन्होंने ने ब्रह्मा को दे दिया (तम् एतया ऋचा आज्याहुत्या अभ्यजुहेत्) उस को इस ऋचा द्वारा घृत की आहुति से उस ने ग्रहण किया—(इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकम् इति) इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकम्—अथ० ६ । १२५ । ३ ॥

प्र+ददातेः—क्त । प्रकर्षेण दत्तम् । दत्तस्य वा (आग्न्याधेयिकम्) रक्षति । पा० ४ । ४ । ३३ । अग्न्याधेय—ठक् । अग्निरूपस्याधेयस्य रक्षकम् (तक्षाणः) कनिन् युवृषितक्षि० । उ० १ । १५६ । तक्ष् तनूकरणे—कनिन् । सूक्ष्मीकर्तारः (तनुज्येष्ठाम्) तनूः सूक्ष्मक्रिया ज्येष्ठा महाप्रधाना यस्यां ताम् (धेनुः) धेट इच्च । उ० ३ । ३४ । धेट पाने—नु । धेनुर्वाक्—निघ० १ । ११ । धेनुर्धयतेर्वा धिनोतेर्वा—निरु० । ११ । ४२ । दोग्धी वाक् । नवप्रसूता गौः (चातुष्प्राश्याम्) गो० पू० २ । १६ । चतुर्धा व्याप्याम् (हापयन्ति) ओहाङ् गतौ—णिच्, आर्ष बहुवचनम् । हापयति गम-

(रथम् अभिहुत्वा तम् एतया ऋचा अतिष्ठत्) रथ को ग्रहण करके उस पर इस ऋचा द्वारा वह बैठा—(वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूयाः । इति) वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया । इति अथ ० ६ । १२५ । १ ।

(तस्मात् आग्न्याधेयिकं रथं ब्रह्मणे ददाति) इस लिये अग्नि रूप आधेय के रक्षक रथ को ब्रह्मा के लिये देता है । (ब्रह्मणे हि प्रत्तं तस्य तक्षाणः तनूज्येष्ठां दक्षिणां निरमिमत्) ब्रह्मा के लिये दिये हुये उसके सूक्ष्म बनाने वालों ने सूक्ष्मता को महाप्रधान रखने वाली दक्षिणा को बनाया है । (तां पंचसु अपश्यत् ऋचि यजुषि साम्नि शान्ते अथ घोरे) उस [दक्षिणा] को पांच में देखा—ऋग् [स्तुति योग्य विद्या] में, यजु [सत्कर्म विद्या] में, साम [मोक्ष विद्या] में, शान्त [शान्त व्यवहार] में और घोरे [भयानक व्यवहार] में ।

(तासां द्वे ब्रह्मणे प्रायच्छत् वाचं च ज्योतिः च) उन [विद्याओं] में से दो ब्रह्मा को दीं—वाणी और ज्योति । (वाक् वै धेनुः, ज्योतिः हिरण्यम्) वाणी ही दुधैल गौ [के समाने] और ज्योति तेज है । (तस्मात् आग्न्याधेयिकां चातुष्पाश्यां धेनुं ब्रह्मणे ददाति) इस लिये अग्नि रूप आधेय की रक्षक चार प्रकार से फैलने योग्य [क० १६] दुधैल गाय ब्रह्मा को देता है । (ब्रह्मणे हि प्रत्ता पशुषु शाम्यमानेषु चक्षुः हापयन्ति = हापयति) ब्रह्मा को ही दी हुई गौ पशुओं के शान्त होने पर आंख पहुंचाती है । (चक्षुः एव तत् आत्मनि धत्ते) आंख को ही तब वह अपने में धारण करता है । (यत् वै चक्षुः तत् हिरण्यम्) जो आंख है वही तेज है (तस्मात् आग्न्याधेयिकं हिरण्यं ब्रह्मणे ददाति) इस लिये अग्नि रूप आधेय का रक्षक तेज ब्रह्मा को वह देता है । (ब्रह्मणे हि प्रत्तं तस्य आत्मन् अधत्त तेन प्राज्वलयत्) ब्रह्मा को दिया हुआ [तेज] उस के आत्मा में उस ने धारण किया है, उस से उस ने [जगत् को] प्रकाशित किया है । (यत् न अधत्त तत् आग्ला अभवत्) जो [तेज को] उस ने न धारण किया, उस से आग्ला [बड़ी ग्लानि वा थक्कावट] हुई । (तत् आग्ला भूत्वा सा समुद्रं प्राविशत्) बड़ी ग्लानि हो कर उस [ग्लानि] ने समुद्र में प्रवेश किया । (सा समुद्रम्

यति प्रापयति (आग्ला) आ + ग्लै हर्षक्षये क्लमे च—ड, टाप् । समन्ताद् ग्लानिः । श्रमार्तिः (दुर्गिः) खनिकृष्यज्यसिवसि० । उ० ४ । १४० । गम्स्तु गतौ—इप्रत्ययः, स च डित् । दुःखेन गमनीयः (अर्हिडत्) हिड हिडि गत्यानादरयोः—लड् । तिरस्कृतवती (कारुविदा) कृवापार्जिमि० । उ० १ । १ करोतेः—उण् + विद् वेदनायाम्—अड्, टाप् । कारुणां कर्मकृतां पीडा (आग्लाहतम्) आग्लया ताडि-

अदहत्) उस ने समुद्र को जला दिया । (तस्मात् दुर्गिः अपि समुद्रः
 वैश्वानरेण हि दग्धः) इस लिये दुर्गम भी समुद्र वैश्वानर [अग्नि] करके
 जलाया गया । (सा पृथिवीम् उदैत्, सा पृथिवीं व्यदहत्) वह पृथिवी में
 उदय हुई, उस ने पृथिवी को जला दिया । (सा देवान् आगच्छत् सा देवान्
 अहिडत्) वह देवों में आई, उस ने देवों का अनादर किया । (ते देवाः ब्रह्मा-
 णम् उपाधावन्) वे देव ब्रह्मा के पास दौड़े गये । (सः न एव अगायत् न अनृ-
 त्यत्) उस [ब्रह्मा] ने न तो गाया न नाचा । (सा एषा आग्ला एषा कारुविदा
 नाम) सो यही आग्ला है, यही कर्म करने वालों की वेदना [पीड़ा] नाम है ।
 (तं वै एतम् आग्लाहतं सन्तम् आग्लागृधः इति आचक्षते) उस बड़ी ग्लानि
 करके ताड़े गये होते हुये [ब्राह्मण] को—यह बड़ी ग्लानि का लालची है—
 ऐसा लोग कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट प्रलय में वर्तमान ब्रह्म]
 के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों
 के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वक्त-
 भान् अवस्था] के द्वेषी [विरोधी] (भवन्ति) होते हैं [ऊपर देखो] । (यः
 एषः ब्राह्मणः गायनः वा नर्तनः वा भवति तम् आग्लागृधः इति आचक्षते) जो
 यह ब्राह्मण गवैया वा नचकैया होता है, उस को—यह आग्लागृध [बड़ी
 ग्लानि का लालची] है—ऐसा लोग कहते हैं । (तस्मात् ब्राह्मणः न एव गायेत्
 न अनृत्येत् आग्लागृधः मा स्यात्) इस लिये ब्राह्मण न गावै न नाचै और
 आग्लागृध [बड़ी ग्लानि का लालची] न होवे । (तस्मात् ब्राह्म्यं हविः पूर्वम्
 प्राजापत्यम् अपरम्) इस लिये ब्राह्म्य [वेद विचार की] हवि पहिले हे और
 प्राजापत्य [वृत् विशेष की हवि] पीछे है । (प्राजापत्यात् ब्राह्मणम् एव उत्तमम्
 इति ब्राह्मणम्) प्राजापत्य वृत् की हवि से ब्राह्मण [वेद विचार की] हवि
 उत्तम है । [प्राजापत्य वृत् का लक्षण मनु ११ । २११ में इस प्रकार है—अथं
 प्रातः अथं सायं अथमद्यादयाचितम् । अथं परं च नाशनीयात् प्राजापत्यं चरन्
 द्विजः ॥ अर्थ—प्राजापत्य वृत् का आचरण करने वाला द्विज तीन दिन प्रातःकाल,
 तीन दिन सायंकाल और तीन दिन बिना मंगा अन्न खावे और फिर तीन
 दिन न खावे । यह १२ दिन का एक प्राजापत्य वृत् होता है] ॥ २१ ॥

तम् (आग्लागृधः) गृधु अभिकांक्षायाम्—क । आग्लायां लुब्धः (ब्राह्म्यम्)
 ब्राह्मणः इदम्, ब्रह्मन्-व्यञ् । ब्रह्मसम्बन्धि (प्राजापत्यम्) प्राजापति-एव, ततः
 अर्शआद्यच् । द्वादशाहसाध्यवृत्विशेषसंबन्धि हविः—मनुः । ११ । २११ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अग्नि विद्या का सुप्रयोग करके कर्मकुशल होते हैं, वे आनन्द पाते हैं ॥ २१ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।

१—यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्राद्गत वा पुरीषात् । श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यः महिं जातं ते अर्वन् ॥ १ ॥ यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अर्धयतिष्ठत् । गन्धर्वो अस्य रशुनामगृभ्णात्सुदाश्वं वसवो निरतष्ट ॥ २ ॥ असिं यमो अस्यादित्यो अर्बन्सिं त्रितो गुह्येन व्रतेन । असिं सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ ३ ॥ त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यंतः समुद्रे । उतेव मे वरुणश्छन्त्यर्वन्वरा त आहुः परमं जनित्रम् ॥ ४ ॥ इमा ते वाजिञ्जव मार्जनानीमा शफानां सन्तुनिधाना । अत्रा ते भद्रा रशुना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥५॥ ऋग० १ । १६३ । १—५ । अर्थ—(अर्वन्) हे विज्ञानी पुरुष ! (यत्) जिस कारण (समुद्रात्) अन्तरिक्ष से (उत वा) अथवा (पुरीषात्) पूर्ण कारण से (उद्यन्) उदय होते हुये [सूर्य के तुल्य] (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ तू (प्रथमम्) पहिले (अक्रन्दः) शब्द करता है, (श्येनस्य) वाज के (पक्षा) दो पंखों के समान और (हरिणस्य) हरिण के (बाहू) दो भुजाओं के तुल्य (ते) तेरा (उपस्तुत्यम्) बहुत प्रशंसनीय और (महि) बड़ा (जातम्) उत्पन्न हुआ कर्म है ॥ १ ॥ [शेष मन्त्रों का अर्थ भाष्य में देखो ।]

२—इन्द्रस्यौ जो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः । स इमां ने हव्यदातिं जुषाणो देव रथं प्रति हव्या गृभाय ॥ अथ० ६ । १२५ । ३, ऋ० ६ । ४७ । २८, यजु० २६ । ५४ । [हे राजन ! यहां पर] (मरुताम्) शूनों का (अनीकम्) सेना दल, (इन्द्रस्य) विजुली का (आजः) बल, (मित्रस्य) प्राण [चढ़ने वाले वायु] का (गर्भः) गर्भ [अधिष्ठान] और (वरुणस्य) अपान [उतरने वाले वायु] का (नाभि [मध्यस्थान] है । (सः) सो तू (देव) हे प्रकाशमान ! (रथ) रमणीय स्वरूप विद्वान् ! (नः) हमारे लिये (इमान्) इस (हव्यदातिम्) देव योग्य पदार्थों की दान क्रिया को (जुषाणः) सेवता हुआ (हव्या) ग्राह्य वस्तुओं को (प्रति) प्रतीति के साथ (गृभाय) ग्रहण कर ॥३॥

३—वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । गोभिः सन्नद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयन्तु जैत्वानि ॥ १ ॥ अथ० ६ । १२५ । १, ऋग० ६ । ४७ । २६, यजु० २६ । ५२ । (वनस्पते) हे किरणों के पालन करने वाले सूर्य के समान राजन ! (वीड्वङ्गः) बलिष्ठ अङ्गों वाला तू (हि) ही

(प्रतरणः) बढ़ाने वाला (सुवीरः) अच्छे अच्छे वीरों से युक्त (अस्पत्सखा) हमारा मित्र (भूयाः) हो । तू (गोभिः) वारों और बज्रों से (सज्जदः) अच्छे प्रकार सजा हुआ (अग्नि) है, [हनें] (वीडयस्य) बूढ़ बना, (ते) तेरा (आस्थाता) श्रद्धावान् सेनापति (जेत्वानि) जीतने योग्य शत्रुओं की सेनाओं को (जयतु) जीते ॥

कण्डिका २२ ॥

अथर्वाणश्च ह वा आङ्गिरसश्च भृगुचक्षुषी तद् ब्रह्माभिव्यपश्यंस्तद्-
जानन्वय वा इदं सर्वं यद्भृग्वङ्गिरस इति । ते देवा ब्राह्म्यं हविर्यत्सान्तपनेऽग्ना-
वजुहवुरेतद्वै ब्राह्म्यं हविर्यत्सान्तपनेऽग्नौ ह्वयते, एष ह वै सान्तपनेऽग्निर्यद् ब्राह्म-
णस्तस्योर्जा योर्जा देवा अभजन्त सुमनस एव स्वधां पितरः श्रद्धया स्वर्गं लोकं
ब्राह्मणास्तेन सुन्वन्त्युपयोऽन्ततः द्वियः केवल आत्मन्यवारुन्धत वाह्या उभयेन
सुन्वन्ति, यद्वै यज्ञे ब्राह्म्यं हविर्न निरूप्येतानृजवः प्राजापत्यहविषा मनुष्या जाये-
रन्नसो यांज्ञोकान् शृण्वति पिता ह्येष आहवनीयस्य गार्हपत्यस्य दक्षिणाग्नेर्योऽ-
ग्निहांत्रं जुहोतीति, देवा प्रिये धामनि मदन्ति तेषामेषांऽग्निः सान्तपनश्रेष्ठा
भवत्येतस्य वाचि तृतायामग्निस्तृप्यति, प्राणे तृप्ते वायुस्तृप्यति, चक्षुषी तृप्त
आदित्यस्तृप्यति, मनसि तृप्ते चन्द्रमास्तृप्यति, श्रोत्रे तृप्ते विश्वान्तर्दशाश्च
तृप्यन्ति, स्नेहेषु तृप्तेष्वपस्तृप्यन्ति, लोमेषु तृप्तेष्वोषधिवनस्पतयस्तृप्यन्ति,
शरीरे तृप्ते पृथिवी तृप्यत्येवमेवोऽग्निः सान्तपनः श्रेष्ठस्तृप्तः सर्वास्तृप्तांस्तर्पय-
तीति ब्राह्मणम् ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ सान्तपन अग्नि में प्राजापत्य हवि के साथ

ब्राह्म्य हवि की आवश्यकता ॥

२२—(अथर्वाणः = अथर्वाणाः) निश्चल ब्रह्म के वेद (च च) और
(आङ्गिरसः) पूर्णज्ञान युक्त व्यवहार (ह व) निश्चय कर के (भृगुचक्षुषी)
परिपक्व ज्ञान वाले मुनि के दो नेत्र हैं, (तत् ब्रह्म अभिव्यपश्यन् तत् अजानन्)
उस ब्रह्म को उन्होंने ने [ऋषियों ने] सब ओर से देख लिया और जाना—(वयं
वै इदं सर्वम् [जानीम] यत् भृग्वङ्गिरसः) हम इस सब को [जाने] जो परि-

२२—(अथर्वाणः) अथर्वन्—अण्, आर्षो ह्रस्वः । निश्चलब्रह्मवेदाः (आङ्गिरसः) अङ्गिरस्—अण् । पूर्णज्ञानयुक्तव्यवहाराः (भृगुचक्षुषी) भृगोः परिपक्व-
ज्ञानस्य मुनेर्नेत्रद्वयम् (सर्वम्) सर्वं जानीम—इत्यर्थः । (भृग्वङ्गिरसः) परिप-

पक्कज्ञान हैं । (यत् ब्राह्म्यं हविः ते देवाः सान्तपने अग्नौ अजुहवुः) जो ब्राह्म्य हवि है [उस को] उन देवों ने सान्तपन [पूरे ताप वाले वा ऐश्वर्य वाले] अग्नि में छोड़ा, अथवा सान्तपन वृत्त में अग्नि पर छोड़ा । [सान्तपन व्रत का लक्षण मनु ११ । २१२ में इस प्रकार है । गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् । एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम् ॥ अर्थ—गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशा का जल एक दिन खावे और एक रात्रि दिन उपवास करे, यह कृच्छ्र सान्तपन कहा गया है] । (एतत् वै ब्राह्म्यं हविः यत् सान्तपने अग्नौ ह्वयते) यह ब्राह्म्य हवि है जो सान्तपन अग्नि में छोड़ा जाता है । (एषः वै सान्तपनः अग्निः यत् ब्राह्मणः) यही सान्तपन अग्नि है, जो ब्राह्मण है । (तस्य ऊर्जया देवाः ऊर्जा, सुमनसः पितरः स्वधां स्वर्गं लोकं श्रद्धया एव अभजन्त) उस [ब्राह्मण] के पराक्रम से देवों ने पराक्रम को, प्रसन्न मन वाले पितरों [पालने वाले विद्वानों] ने स्वधा [अपनी धारण शक्ति वा अन्न वा अमृत] और स्वर्ग लोग को सेया है । (ब्राह्मणाः ऋषयः तेन अन्ततः सुन्वन्ति) ब्रह्म ज्ञानी ऋषि लोग उस [कर्म] से अन्त में [सोम रस] निचोड़ते हैं । (स्त्रियः केवले आत्मनि अवारुन्धत) स्त्रियों ने सेवनीय परमात्मा में [स्वर्ग आदि] पाया है । (वाह्याः उभयेन सुन्वन्ति) ले चलने योग्य पुरुष दोनों [ब्राह्म्य और प्राजापत्य हवि] से [सोम रस] निचोड़ते हैं । (यत् वै यज्ञे ब्राह्म्यं हविः न निरूय्येत प्राजापत्यहविषः मनुष्याः अनृजवः जायेरन्) जो यज्ञ में ब्राह्म्य हवि न बनाया जावे, प्राजापत्य हवि वाले मनुष्य कुटिल हो जावें । (असौ हि एषः पिता यान् लोकान् शृण्वति) वह पिता [पालन करने वाला पुरुष] भी [उन बुरे लोकों में कुटिल होता है] जिन लोकों को वह सुनता है, (आहवनीयस्य गार्हपत्यस्य दक्षिणाग्नेः यः अग्निहोत्रं जुहोति इति) [वह पुरुष भी कुटिल होता है] जो आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि के अग्नि

कज्ञानानि (सान्तपने) सम्+तप दाहे ऐश्वर्यं च—ल्युट् । तत्रभवः । पा० । ४ । ३ । ५३ । अण् । संतपने सम्यक्तपनयुक्ते पूर्वैश्वर्ययुक्ते वा । अथवा वृत्तविशेषे—मनुः ११ । २१२ (ऊर्जया) ऊर्ज बलप्राणनयोः—पवाद्यच् । पराक्रमेण । शक्त्या (सुमनसः) शोभनमनस्काः । (स्वधाम्) आः समिण्णिकषिभ्याम् । उ० ४ । १७५ । स्वद स्वादे—आ, दस्य धः । स्वादयति रसान् उत्पादयतीति स्वधा । यद्वा । आतोऽनुपसर्गे कः । पा० ३ । २ । ३ । स्व+डुधाञ् धारणपोषणदानेषु—क, टाप् । अथवा क्तिप् । स्वधा=उदकम्—निघ० १ । १२ । अन्नम्

होत्र को ही करता है । (देवाः प्रिये धामनि मदन्ति तेषाम् एषः अग्निः सान्त-
पनश्रेष्ठः भवति) देव [विद्वान् लोग] प्रिय स्थान में सुख पाते हैं, उनका
यह अग्नि सान्तपन [पूरे ऐश्वर्य वाला] श्रेष्ठ होता है । (एतस्य वाचि तृप्ता-
याम् अग्निः तृप्यति) इस [ब्रह्मा] की वाणी तृप्त होने पर अग्नि तृप्त होता है,
(प्राणे तृप्ते वायुः तृप्यति) प्राण तृप्त होने पर पवन तृप्त होता है, (चक्षुषी
[=चक्षुषि] तृप्ते आदित्यः तृप्यति) नेत्र तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है, (मनसि
तृप्ते चन्द्रमाः तृप्यति) मन तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है, (श्रोत्रे तृप्ते दिशः
च अन्तर्देशाः च तृप्यन्ति) कान तृप्त होने पर दिशाएँ और बीच की दिशाएँ
तृप्त होती हैं । (स्नेहेषु तृप्तेषु आपः तृप्यन्ति) रसों वा चिकने पदार्थों के तृप्त
होने पर जल तृप्त होते हैं, (लोमेषु तृप्तेषु ओषधिवनस्पतयः तृप्यन्ति) लोमों
के तृप्त होने पर ओषधि और वनस्पतियाँ तृप्त होती हैं, (शरीरे तृप्ते पृथिवी
तृप्यति) शरीर तृप्त होने पर पृथिवी तृप्त होती है । (एवं एषः सान्तपनः श्रेष्ठः
तृप्तः सर्वान् तृप्तान् तर्पयति इति ब्राह्मणम्) इस प्रकार से यह श्रेष्ठ तृप्त सान्त-
पन [बड़े ऐश्वर्य वाला] अग्नि सब तृप्त [पदार्थों] को तृप्त करता है, यह ब्राह्मण
है ॥ २२ ॥

भावार्थ—मनुष्य सान्तपन अग्नि में ब्राह्म्य हवि और प्राजापत्य हवि
छोड़े । प्राजापत्य और स्त्री आदि शब्दों से शास्त्र रीति पर सन्तानोत्पादन की
ओर संकेत जान पड़ता है । इस विषय के लिये देखो बृहदारण्यकोपनिषद्,
अध्याय ६ ब्राह्मण ५ ॥

कण्डिका २३ ॥

सान्तपना इदं हविरित्येष ह वै सान्तपनोऽग्निर्यद् ब्राह्मणो यस्य गर्भा-
धानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणानिष्क्रमणान्नप्राशनगोदानचूडाकरणो-
पनयनस्नावनाग्निहोत्रवृत्तचर्यादीनि कृतानि भवन्ति, स सान्तपनोऽथ योऽयम-

निघ० २ । ७ । पितृणाम् अन्नम् । अमृतम् । आत्मधारणसामर्थ्यम् (सुन्वन्ति)
सोमरसम् निष्पीडयन्ति (केवलै) केवृ सेवने—कलच् । सेवनीये । निश्चिते
(आत्मनि) परमात्मनि (वाह्यः) वह प्रापणे—एयत् । प्रापणीयाः पुरुषाः
(उभयेन) ब्राह्म्येन प्राजापत्येन च हविषा (शृण्वति) आर्षप्रयोगः । शृणोति ।
(धामनि) स्थाने (मदन्ति) हर्षन्ति (चक्षुषी) आर्षो दीर्घः । चक्षुषि (स्नेहेषु)
रसयुक्तपदार्थेषु ॥

नग्निकः स कुम्भे लोष्टः, तद्यथा कुम्भे लोष्टः प्रक्षिप्तो नैव शौचार्थाय कल्पते नैव शस्यं निर्वर्तयत्येवमेवायं ब्राह्मणोऽनग्निकस्तस्य ब्राह्मणस्यानग्निकस्य नैव दैवं दद्यान्न पित्र्यं न चास्य स्वाध्यायाशिषो न यज्ञ आशिषः स्वर्गङ्गमा भवन्ति ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । अग्निं द्रुतं वृणीमहे हेतारं विश्ववेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुक्रनुमिति ब्राह्मणम् ॥ २३ ॥

कण्डिका २३ ॥ विना यज्ञ अग्नि वाला ब्राह्मण स्वर्ग नहीं पाता ॥

(सान्तपनाः इदं हविः इति) सान्तपन अग्नियां यह हवि है । (एषः ह वै सान्तपनः अग्निः यत् ब्राह्मणः) यही सान्तपन [बड़े पेशवर्य वाला] अग्नि है जो ब्राह्मण है । (यस्य गर्भाधान—पुंसवन—सोमन्तोन्नयन—जातकर्म—नामकरण—निष्क्रमण—अन्नप्राशन—गोदान—चूडाकरण—उपनयन—स्नावन—अग्निहोत्र—वृतचर्य—आदीनि कृतानि भवन्ति सः सान्तपनः) जिस [ब्राह्मण] के गर्भाधान १, पुंसवन २, सोमन्तोन्नयन ३, जातकर्म ४, नामकरण ५, निष्क्रमण [बाहर निकालना] ६, अन्नप्राशन [अन्नचटाना] ७, गोदान [केशकाटना] ८, चूडाकरण [चांटी रखना] ९, उपनयन [जनेऊ ओर वेदारम्भ] १०, स्नावन [विद्यास्नान वा समावर्तन] ११, अग्निहोत्र [नित्यहवन] १२, वृतचर्य [ब्रह्मचर्य] १३, आदि कर्म किये हुये होते हैं, वह [ब्राह्मण] सान्तपन [अग्नि] है । (अथ यः अयम् अनग्निकः सः कुम्भे लोष्टः) और जो यह [ब्राह्मण] विना यज्ञ अग्निवाला है, वह घड़े में डेला है । (तत् यथा कुम्भे प्रक्षिप्तः लोष्टः न एव शौचार्थाय कल्पते न एव शस्यं निर्वर्तयति, एवम् एव अयम् ब्राह्मणः अनग्निकः) सो जैसे घड़े में गिराया हुआ डेला न तो शौच के ही योग्य उपकारी होता है और न धान्य को ही सिद्ध करता है, ऐसेही यह विना यज्ञ अग्नि वाला ब्राह्मण है । (तस्य अनग्निकस्य ब्राह्मणस्य नैव दैवं न पित्र्यं [सुफलम्] दद्यात्) उस विना यज्ञ अग्नि वाले ब्राह्मण का दैव [पहिले जन्म का कर्म] और न पिता का धन [उत्तमफल] देता है । (न च अस्य स्वाध्या-

२३—(सान्तपनाः) अग्नयः (हविः) दातव्यं द्रव्यम् (गोदानम्) गावः केशाः दीयन्ते छिद्यन्ते अत्र । गा + दा अवखण्डने—ल्युट् । केशच्छेदनसंस्कारः (चूडाकरणम्) मस्तके शिखाधारणसंस्कारः (स्नावनम्) मूङ् गतौ—णिच्—ल्युट् । मज्जनम् । विद्यान्तस्नानम् । समावर्तनसंस्कारः (अनग्निकः) यज्ञाग्नि-रहितः । (लोष्टः) लोष्टपलितौ । उ० ३ । ६२ । लू छेदने—क्त, सुडागमः धातो-गुणश्च । यद्वा लोष्ट संघाते—घञ् । मृत्तिकाखण्डः (निर्वर्तयति) निष्पादयति

याशिषः न यज्ञे आशिषः स्वर्गङ्गमाः भवन्ति) और न इसके स्वाध्याय [वेदों के पढ़ने] के आशीर्वाद और न यज्ञ में पाये आशीर्वाद स्वर्ग में पहुंचाने वाले होते हैं ।

(तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम्) वह भी इस ऋचा करके कहा गया है— (अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्) । अथ० २० । १०१ । १, ऋ० १ । १२ । १, साम० उ० २ । १ । तृच ६, तथा पू १ । १ । ३ । (दूतम्) पदार्थों के पहुंचाने वाले, (होतारम्) वेग आदि देने वाले, (विश्व-वेदसम्) सब धनों के प्राप्त कराने वाले (अस्य) इस [प्रसिद्ध] (यज्ञस्य) यज्ञ [संयोग वियोग व्यवहार] के (सुक्रतुम्) सुधारने वाले (अग्निम्) अग्नि [आग, विजुली, सूर्य] को (वृणीमहे) हम स्वीकार करते हैं—(इति ब्राह्मणम्) यह ब्राह्मण मत है ॥ २३ ॥

भावार्थ—ब्रह्मज्ञानी पुरुष गर्भाधान आदि संस्कारों को अग्निहोत्र के साथ करके जीवन सुफल करें ॥ २३ ॥

कण्डिका २४ ॥

अथ ह प्रजापतिः सोमेन यद्यमाणो वेदानुवाच, कं वो होतारं वृणीयां, कमध्वर्युं, कमुद्गातारं, कं ब्रह्माणमिति । त ऊचुर्ऋग्विदमेव होतारं वृणीष्व, यजुर्विदमध्वर्युं, सामविदमुद्गातारमथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणं, तथा हास्य यज्ञ-ध्वतुर्षु लोकेषु चतुर्षु देवेषु चतुर्षु वेदेषु चतसृषु होत्राषु चतुष्पाद् यज्ञः प्रति-ष्ठति, प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिर्य एवं वेद, तस्मादृग्विदमेव होतारं वृणीष्व, स हि होत्रं वेदाग्निर्वै होता, पृथिवी वा ऋचामायतनमग्निर्देवता गायत्रं छन्दः भूरिति शुक्रं तस्मात्तमेव होतारं वृणीष्वेत्येतस्य लोकस्य जितय एतस्य लोकस्य विजितय एतस्य लोकस्य सञ्जितय एतस्य लोकस्यावृद्धय एतस्य लोकस्य व्यृद्धय एतस्य लोकस्य समृद्धय एतस्य लोकस्योदात्तय एतस्य लोकस्य व्याप्तय एतस्य लोकस्य पर्याप्तय एतस्य लोकस्य समाप्तये, अथ चेन्नैवंविदं होतारं

(दैवम्) पूर्वजन्मकृतकर्म (दद्यात्) सुफलं प्रयच्छेत् (पित्र्यम्) पितुर्यच्च । पा० ४ । ३ । ७६ । पितृ—यत् । रीड् ऋतः । पा० ७ । ४ । २७ । रीडादेशः । पितुरागतं धर्मम् (स्वर्गङ्गमाः) स्वर्गप्रापिकाः (दूतम्) पदार्थानां प्रापकं तापकं वा (वृणीमहे) स्वीकुर्मः (होतारम्) वेगादिदातारम् (विश्ववेदसम्) वेदः धनं—निघ० २ । १० । सर्वधन प्रापकम् (सुक्रतुम्) शोभनकर्तारम् ॥

वृणुते, पुरस्तादं वैषां यज्ञो रिच्यते । यजुर्विदमेवाध्वर्युं वृणीष्व स ह्याध्वर्युवं वेद, वायुर्वा अध्वर्युरन्तरिक्षं वै यजुषामायतनं वायुर्देवता त्रैष्टुभं छन्दो भुव इति शुक्रं तस्मात्तमेवाध्वर्युं वृणीष्वेत्येतस्य लोकस्येत्येवाथ चेन्नैवंविदमध्वर्युं वृणुते, पश्चादेवैषां यज्ञो रिच्यते । सामविदमेवोद्गातारं वृणीष्व स ह्यौद्गातारं वेदादित्यो वा उद्गाता द्यौर्वै साम्नामायतनमादित्यो देवता जागतं छन्दः स्वरिति शुक्रं तस्मात्तमेवोद्गातारं वृणीष्वेत्येतस्य लोकस्येत्येवाथ चेन्नैवंविदमुद्गातारं वृणुते, उत्तर एवैषां यज्ञो रिच्यते । अथर्वाङ्गिरोविदमेव ब्रह्माणं वृणीष्व स हि ब्रह्मत्वं वेद चन्द्रमा वै ब्रह्मा आपो वै भृग्वङ्गिरसामायतनं चन्द्रमा देवता वैद्युतश्चोष्णिक्काकुभे छन्दसी ओमित्यथर्वणां शुक्र जनदित्यङ्गिरसां, तस्मात्तमेव ब्रह्माणं वृणीष्वेत्येतस्य लोकस्य जितय एतस्य लोकस्य विजितय एतस्य लोकस्य सञ्जितय एतस्य लोकस्यावरुद्धय एतस्य लोकस्य व्यृद्धय एतस्य लोकस्य समृद्धय एतस्य लोकस्योदात्तय एतस्य लोकस्य व्याप्तय एतस्य लोकस्य पर्याप्तय एतस्य लोकस्य समाप्तयेऽथ चेन्नैवंविदं ब्रह्माणं वृणुते, दक्षिणत एवैषां यज्ञो रिच्यते ॥ २४ ॥

इति अथर्ववेदे गोपथब्राह्मणपूर्वभागे द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ।

कण्डिका २४ ॥ ऋत्विजों के चुनाव में ऋग्वेदी होता, यजुर्वेदी अध्वर्युं, सामवेदी उद्गाता, चतुर्वेदी ब्रह्मा होवे ॥

(अथ ह प्रजापतिः सोमेन यद्यमाणः वेदान् उवाच) फिर प्रजापति [प्रजापालक परमेश्वर] सोम से [सोम याग समान पेश्वर्य वा उत्पन्न संसार से] यज्ञ करने की इच्छा करता हुआ वेदों से बोला—(कं वः होतारं वृणीयाम्, कम् अध्वर्युम्, कम् उद्गातारम् कं ब्रह्माणम् इति) तुम में से किस को होता चुनूँ किस को अध्वर्युं, किस को उद्गाता और किस को ब्रह्मा । (ते ऊचुः ऋग्विदम् एव होतारं वृणीष्व, यजुर्विदम् अध्वर्युम्, सामविदम् उद्गातारम् अथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणम्) वे बोले—ऋग्वेद जानने वाले को ही होता चुन, यजुर्वेद जानने वाले को अध्वर्युं, सामवेद जानने वाले को उद्गाता और अथर्वाङ्गिराओं

२४—(प्रजापतिः) प्रजापालकः परमेश्वरः (सोमेन) पेश्वर्येण । उत्पन्नेन संसारेण । सोमरसयागेन (यद्यमाणः) यष्टुमेप्यमाणः (वः) युष्माकं-मध्ये (अथर्वाङ्गिरोविदम्) चतुर्वेदवेत्तारम् (अस्य) प्रजापतेः (प्रतितिष्ठति) प्रतिष्ठितो भवति (आयतनम्) आश्रयः (भूः) सर्वाधारः परमेश्वरः

[चारो वेद] जानने वाले को ब्रह्मा । (तथा ह अस्य यज्ञः चतुर्षु लोकेषु चतुर्षु देवेषु चतुर्षु वेदेषु चतुष्टुषु होत्राषु चतुष्पात् यज्ञः प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभिः प्रतिष्ठति यः एवं वेद) वैसे ही इस [प्रजापति] का यज्ञ चार लोकों में, चार देवों में, चार वेदों में, और चार ऋत्विजों की क्रियाओं में [देखो गो० पू० २ । १६] चार पाँव वाला यज्ञ ठहरता है, वह पुरुष प्रजा से और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है । (तस्मात् ऋग्वेदम् एव होतारं वृणीष्व) इस लिये ऋग्वेद जानने वाले को ही होता चुन । (सः हि होत्रं वेद, पृथिवी वै ऋचाम् आयतनम् अग्निः देवता गायत्रं छन्दः भूः इति शुक्रम्) वही होता का कर्म जानता है, अग्नि ही होता है, पृथिवी ही ऋग्वेद मन्त्रों का स्थान है, अग्नि देवता है, गायत्री छन्द है, भूः [यह व्याहृति = सर्वाधार परमेश्वर] वीर्य है । (तस्मात् तम् एव होतारं वृणीष्व इति एतस्य लोकस्य जितये १, एतस्य लोकस्य विजितये २, एतस्य लोकस्य संजितये ३, एतस्य लोकस्य अवरुद्धये ४, एतस्य लोकस्य व्यृद्धये ५, एतस्य लोकस्य समृद्धये ६, एतस्य लोकस्य उदात्तये ७, एतस्य लोकस्य व्याप्तये ८, एतस्य लोकस्य पर्याप्तये ९, एतस्य लोकस्य समाप्तये १०) इस लिये उस को ही होता चुन, इस संसार के जय के लिये १, इस संसार के विविध जय के लिये २, इस संसार के पूरे जय के लिये ३, इस संसार की रक्षा [रक्षा] के लिये ४, इस संसार की विविध बढ़ती के लिये ५, इस संसार की पूरी बढ़ती के लिये ६, इस संसार के उठान के लिये ७, इस संसार के फैलाव के लिये ८, इस संसार की पूर्णता के लिये ९, और इस संसार की सिद्धि के लिये १० । (अथ चेत् एवंविद होतारं न वृणुते, पुरस्तात् एव पर्पां यज्ञः रिच्यते) और जो ऐसे विद्वान् को होता नहीं चुनता, पूर्व दिशा में ही इन [ऋत्विजों] का यज्ञ बिछुड़ जाता है । (यजुर्वेदम् एव अध्वर्युं वृणीष्व) यजुर्वेद जानने वाले को ही अध्वर्यु चुन । (सः हि अध्वर्युं वेद वायुः वै अध्वर्युः अन्तरिक्षं वै यजुषाम् आयतनम् वायुः देवता त्रैष्टुभं छन्दः, भुवः इति शुक्रम्) वही अध्वर्यु का कर्म जानता है, पवन ही अध्वर्यु है, अन्तरिक्ष ही यजुर्वेद मन्त्रों का स्थान है, पवन देवता है, त्रिष्टुप् छन्द है, भुवः [यह व्याहृति

(शुक्रम्) ध्वर्यम् (लोकस्य) संसारस्य (जितये) जयाय (विजितये) विविधजयाय (संजितये) सम्यग् जयाय (अवरुद्धये) निरोधाय । रक्षणाय (व्यृद्धये) विविधवृद्धये (समृद्धये) पूर्णवृद्धये (उदात्तये) उत् + आ + ददातेः —क्तिन् । उत्थानाय (व्याप्तये) विस्ताराय (पर्याप्तये) पूर्तये (समाप्तये)

=सर्वव्यापक परमेश्वर] वीर्य है । (तस्मात् तम् एव अध्वर्युं वृणीष्व इति एतस्य लोकस्य इति एव) इस लिये उस को ही अध्वर्यु चुन, इस लोक के इत्यादि । (अथ चेत् एवंविदम् अध्वर्युं न वृणुते, पश्चात् एव पर्षा यज्ञः रिच्यते) और जो ऐसे विद्वान् को अध्वर्यु नहीं चुनता, पश्चिम दिशा में ही इन [ऋत्विजा] का यज्ञ बिछुड़ जाता है । (सामविदम् एव उद्गातारं वृणीष्व) सामवेद जानने वाले को ही उद्गाता चुन । (सः हि औद्गात्रं वेद, आदित्यः वै उद्गाता, द्यौः वै साम्नाम् आयतनम् आदित्यः देवता जागतं छन्दः स्वः इति शुक्रम्) वही उद्गाता के कर्म को जानता है, सूर्य ही उद्गाता है, प्रकाश ही सामवेद मन्त्रों का स्थान है, सूर्य देवता है, जगती छन्द है, स्वः [यह व्याहृति =सुख स्वरूप परमात्मा] वीर्य है । (तस्मात् तम् एव उद्गातारं वृणीष्व इति एतस्य लोकस्य इति एव) इस लिये उस को ही उद्गाता चुन, इस लोक के इत्यादि..... । (अथ चेत् एवं विदम् उद्गातारं न वृणुते, उत्तरं एव पर्षा यज्ञः रिच्यते) जो ऐसे जानकार को उद्गाता नहीं चुनता है, उत्तर दिशा में ही इन [ऋत्विजों] का यज्ञ बिछुड़ जाता है । (अथर्वाङ्गिरोविदम् एव ब्रह्माणं वृणीष्व) अथर्वाङ्गिराओं [चारों वेद] जानने वाले को ही ब्रह्मा चुन । (सः हि ब्रह्मत्वं वेद, चन्द्रमाः वै ब्रह्मा, आपः वै भृग्वङ्गिरसाम् आयतनम् वैद्युतः चन्द्रमाः च देवता, उष्णिक्काकुभे छन्दसी ओम् इति अथर्वणां, जनत् इति अङ्गिरसां शुक्रम्) वही ब्रह्मा का काम जानता है, चन्द्रमा ही ब्रह्मा है, जल ही चारों वेदों का स्थान है, और विविध प्रकाश वाला चन्द्रमा देवता है, उष्णिक् काकुभ दो छन्द हैं, ओम् [यह व्याहृति =सर्वरक्षक परमात्मा] निश्चल ज्ञान वालों का और जनत् [यह व्याहृति =सर्वजनक परमेश्वर] पूर्ण ज्ञान वालों का वीर्य है । (तस्मात् तम् एव ब्रह्माणम् वृणीष्व इति एतस्य लोकस्य जितये १, एतस्य लोकस्य विजितये २, एतस्य लोकस्य संजितये ३, एतस्य लोकस्य अवरुद्धये ४, एतस्य लोकस्य व्यूद्धये ५, एतस्य लोकस्य समृद्धये ६, एतस्य लोक-

संसिद्धये (पुरस्तात्) पूर्वस्यां दिशि (एषाम्) ऋत्विजां मध्ये (रिच्यते) रिच वियोजनसंपर्चनयोः—कर्मणि लट् । वियुज्यते (भुवः) सर्व व्यापक; परमेश्वरः (पश्चात्) पश्चिमायां दिशि (स्वः) सुखस्वरूपः (उत्तरे) उत्तरस्यां दिशि (भृग्वङ्गिरसाम्) परिपक्वज्ञानवतां चतुर्वेदानाम् (वैद्युतः) विद्युत्—अण् । विविधप्रकाशयुक्तः (ओम्) सर्वरक्षकः (जनत्) सर्वजनकः (दक्षिणतः) दक्षिणस्यां दिशि ॥

स्य उदात्तये ७, एतस्य लोकरय व्यातये ८, एतस्य लोकस्य पर्याप्तये ९, एतस्य लोकस्य समाप्तये १०) इस लिये उस को ही ब्रह्मा चुने, इस संसार के जय के लिये १, इस संसार के विविध जय के लिये २, इस संसार के पूरे जय के लिये ३, इस संसार की रोक [रक्षा] के लिये ४, इस संसार की विविध बढ़ती के लिये ५, इस संसार की पूर्णता के लिये ६, इस संसार के उठान के लिये ७, इस संसार के फैलाव के लिये ८, इस संसार की पूर्णता के लिये ९, इस संसार के सिद्धि के लिये १० । (अथ चेत्—एवंविदं ब्रह्माणं न वृणुते दक्षिणतः एव एषां यज्ञः रिच्यते,) जो ऐसे जानकार को ब्रह्मा नहीं चुनता है, दक्षिण दिशा इन में [ऋत्विजों] का यज्ञ विछुड़ जाता है ॥ २४ ॥

भावार्थ—परमेश्वर आप ही यज्ञ रूप संसार में सब ऋत्विजों का काम करके संसार का उपकार करता है ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्राजधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक
वाडाधिष्ठत बडोदे पुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक् सामाथर्व
वेदभाव्येषु लब्धदक्षिणेन श्री परिडत दोमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेद भाव्यकारेण कृते गोपथब्राह्मण भाष्ये पूर्वभागे द्वितीयप्रपाठकः समाप्तः ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे श्रावणमासे कृष्णचतुर्थ्यां तिथौ १९८० [अशी-
त्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिर प्रतापिमहायशस्वि
श्री राजराजेश्वर पंचमजार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात् ।

मुद्रितम्—आषाढ कृष्णा ४ संवत् १९८१ वि० ता० २० जून १९२४ ई० ॥

अथ तृतीयः प्रपाठकः ॥

करिडका १ ॥

ओं दक्षिणाप्रवणा भूमिर्दक्षिणत आपो वहन्ति तस्माद्यज्ञास्तद्भूमेरुन्नत-
तरमिव भवति यत्र भृग्वङ्गिरसो विष्ठास्तद्यथा आप इमांल्लोकानभिवहन्त्येवमेव
भृग्वङ्गिरसः सर्वान् देवानभिवहन्त्येवमेवैषा व्याहृतिः सर्वान् वेदानभिवहन्त्योऽ-
मिति हर्चामोऽमिति यजुषामोऽमिति साम्नामोऽमिति सर्वस्याहाभिवादस्तं
ह स्मैतदुत्तरं यज्ञे विद्वांसः कुर्वन्ति देवा ब्रह्माण आगच्छत आगच्छतेत्येते वै
देवा ब्रह्माणो यद्भृग्वङ्गिरसस्तानेवैतद् गृणानांस्तान् वृणानां ह्यन्तो मन्यन्ते
नान्यो भृग्वङ्गिरोविद् वृतो यज्ञमागच्छन् यज्ञस्य तेजसा तेज आप्नोत्यूर्जयोऽर्जो
यशसा यशो नान्यो भृग्वङ्गिरोविद्वृतो यज्ञमागच्छेन्नेद्यज्ञं परिमुष्णीयादिति,
तद्यथापूर्वं वत्सोऽधीत्य गां धयेदेवं ब्रह्मा भृग्वङ्गिरोविद्वृतो यज्ञमागच्छेन्नेद्यज्ञं
परिमुष्णीयादिति, तद्यथा गौर्वाऽश्वो वाऽश्वतरो वैकपात् द्विपात् त्रिपादिति
स्यात्, किमभिवहेत् किमभ्यश्नुयादिति, तस्माद्भृग्विदमेव होतारं वृणीष्व. यजु-
र्विदमध्वर्युं, सामविदमुद्गातारमथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणं, तथा हास्य यज्ञश्च-
तुर्षु लोकेषु चतुर्षु देवेषु चतुर्षु वेदेषु चतसृषु होत्रासु चतुष्पाद्यज्ञः प्रतिष्ठति,
प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिर्य एवं वेद यश्चैवमृत्विजामात्विर्ज्य वेद यश्च यज्ञे
यजनीयं वेदेति ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

करिडका १ ॥ ऋत्विज चुने हुये वेद वेत्ता पुरुष होवे ॥

(ओम्) सर्वरक्षक परमेश्वर ! (दक्षिणाप्रवणा भूमिः, दक्षिणतः आपः
वहन्ति) दक्षिण की ओर झुकी हुई भूमि है, दक्षिण को जल वहते हैं ।
(तस्मात् यज्ञाः भूमेः तत् उन्नततरम् इव भवति, यत्र भृग्वङ्गिरसो विष्ठाः)
इस लिये यज्ञ भूमि के उस अधिक ऊंचे स्थान को ही पाते हैं, जहां पर भृग्व-
ङ्गिराः [परिपक्व ज्ञानवाले चारो वेद] विशेष करके ठहरे होते हैं । (तत् यथा
आपः इमान् लोकान् अभिवहन्ति, एवम् एव भृग्वङ्गिरसः सर्वान् देवान् अभि-
वहन्ति) सो जैसे जल इन लोकों को ले चलते हैं वैसे ही भृग्वङ्गिरा [परिपक्व

१—(दक्षिणाप्रवणा) दक्षिणस्यां दिशि नम्रा (उन्नततरम्) उच्चतरं स्था-
नम् (इव) एव (भवति=भवन्ति) प्राप्नुवन्ति (भृग्वङ्गिरसः) परिपक्वज्ञान-
शुक्ताः चत्वारो वेदाः (विष्ठाः) विशेषेण स्थिताः (देवान्) विदुषः पुरुषान् ।

ज्ञानवाले चारों वेद] सब दिव्य विद्वानों और पदार्थों को ले चलते हैं । (एवम् एष एषा व्याहृतिः सर्वान् वेदान् अभिवहन्ति [=अभिवहति], ओ३म् इति ऋचाम्, ओ३म् इति यजुषाम्, ओ३म् इति साम्नाम् ओ३म् इति सर्वस्य अभिवादः आह) और इसी प्रकार से ही यह व्याहृति [ओम्] सब वेदों को ले चलती है, ओ३म् यह ऋग्वेद मन्त्रों का, ओ३म् यह यजुर्वेद मन्त्रों का, ओ३म् यह सामवेद मन्त्रों का, ओ३म् यह सब प्रणाम योग्य कहा जाता है, (तं ह स्म एतत् उत्तरं यज्ञे विद्वांसः कुर्वन्ति) और उस ही [ओङ्कार] को यज्ञ में विद्वान् लोग अधिक उत्कृष्ट करते हैं । (देवाः ब्रह्माणः आगच्छत आगच्छत, इति एते वै देवाः ब्रह्माणः, यत् भृग्वङ्गिरसः, एतत् गृणानान् तान् एव वृणानान् तान् ह्वयन्तः मन्यन्ते न अन्यः [मन्यते]) हे विद्वान् ! ब्रह्मज्ञानियो ! आओ आओ, यही विद्वान् ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, जो भृग्वङ्गिरा [परिपक्व ज्ञानवाले चारों वेद] हैं, स्तुति किये जाते उन को ही और स्वीकार किये जाते हुये उन को इस प्रकार बुलाते हुये माने जाते हैं, और दूसरा नहीं [माना जाता है] । (भृग्वङ्गिरोवित् वृतः यज्ञम् आगच्छन् यज्ञस्य तेजसा तेजः आप्नोति, ऊर्जया ऊर्जां, यशसा यशः न अन्यः) चारों वेद जानने वाला चुना हुआ पुरुष यज्ञ में आता हुआ यज्ञ के तेज से तेज, बल से बल, यश से यश पाता है, और दूसरा [बिना चुना हुआ] नहीं । (भृग्वङ्गिरोवित् अवृतः यज्ञम् आगच्छेत्, यज्ञं नत् परिमुष्णीयात् इति) चारों वेद जानने वाला बिना चुना हुआ पुरुष यज्ञ में आवे वह यज्ञ को कभी न चुरावे । (तत् यथा वत्सः पूर्वम् अधीत्य गां धयेत्, एवं ब्रह्मा भृग्वङ्गिरोवित् अवृतः यज्ञम् आगच्छेत् यज्ञं नत् परिमुष्णीयात् इति) सो जैसे बछड़ा [दोहने से] पहिले आकर गाय को पी लेवे, ऐसे ही ब्रह्मा चारों वेद जाननेवाला यज्ञ में आवे वह कभी यज्ञ को न चुरावे । (तत्—यथा गौः वा,

वायुसूर्यादिदिव्यपदार्थान् (आह) कर्मण्यर्थे । कथ्यते (अभिवादः) अर्श आद्यच् । प्रणामयोग्यः (उत्तरम्) उन्नततरम् (गृणानान्) कर्मण्यर्थे । त्रियमाणान् । स्तूयमानान् (तान्) वेदान् (वृणानान्) कर्मण्यर्थे । त्रियमाणान् । स्वीकरणीयान् (ह्वयन्तः) आह्वयन्तः । उच्चारयन्तः (मन्यन्ते) ज्ञायन्ते (अन्यः) भिन्नः (वृतः) स्वीकृतः (ऊर्जया) पराक्रमेण (अवृतः) अस्वीकृतः (नेत्) नैव (परिमुष्णीयात्) अपहरेत् । नाशयेत् (पूर्वम्) दोहनात् पूर्वम् (वत्सः) गोशिशुः (अधीत्य) आगत्य (धयेत्) धेत् पाने । पिबेत् (अभ्यश्नुयात्) प्राप्नुयात् ॥

अश्वः वा, अश्वतरः वा एकपात् द्विपात् त्रिपात् इति स्यात् किम् अभिवहेत् किम् अभ्यशुयात् इति) सो जैसे बैल वा घोड़ा वा खच्चर एक पांव वाला, दो पांववाला, वा तीन पांव वाला होवे, वह क्या ले जावे और किस स्थान पर पहुंचे। (तस्मात् ऋग्विदम् एव होतारं वृणीष्व, यजुर्विदम् अध्वर्युं, सामविदम् उद्गातारम्, अथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणम्) इस लिये ऋग्वेद जानने वाले को ही होता चुन, यजुर्वेद जानने वाले को अध्वर्युं, सामवेद जानने वाले को उद्गाता और अथर्वाङ्गिग [चारों वेद] जानने वाले को ब्रह्मा। (तथा ह अस्य यज्ञः चतुर्षु लोकेषु चतुर्षु देवेषु चतुर्षु वेदेषु चतसृषु होत्राषु चतुष्पात् यज्ञः प्रतिष्ठति) उस प्रकार से ही इस [यजमान] का यज्ञ चार लोकों में, चार देवों में, चार वेदों में, चार ऋत्विजों की क्रियाओं में ठहरता है [देखो गो० पू० २ । १६ और २४] । (प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद, यः च एवम् ऋत्विजाम् आर्त्विज्यं वेद यः च यज्ञं यजनीयं वेद इति ब्राह्मणम्) वह प्रजा से और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐसा जानता है और जो ऋत्विजों के ऋत्विज कर्म को जानता है और जो यज्ञ में पूजनीय व्यवहार जानता है, यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ १ ॥

भायार्थ—वेदवेत्ता यज्ञकुशल पुरुष ही आदरणीय होवे ॥ १ ॥

कण्डिका २ ॥

प्रजापतिर्यज्ञमतनुत, स ऋचैव हौत्रमकरोत्, यजुषाध्वर्यवं, साम्नौद्गात्रमथर्वाङ्गिरोभिर्ब्रह्मत्वं, तं वा एतं महावाद्यं कुरुते, यदृचैव हौत्रमकरोद्यजुषाध्वर्यवं साम्नौद्गात्रमथर्वाङ्गिरोभिर्ब्रह्मत्वं स वा एष त्रिभिर्वेदैर्यज्ञस्यान्यतरः पक्षः संस्क्रियते मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्षं संस्करोत्ययमु वै यः पवते स यज्ञस्तस्य मनश्च वाक् च वर्त्तनिर्मनसा चैव हि वाचा च यज्ञे वहत्यत एव मन इयमेव वाक् स यद्वदन्नास्ति विद्यादद्धं मेऽस्य यज्ञस्यान्तरगादिति, तद्यथैकपात् पुरुषो यज्ञेकचक्रो वा रथो वर्त्तमानो भेषं न्येत्येवमेवास्य यज्ञो भेषं न्येति, यज्ञस्य भेषमनु यजमानो भेषं न्येति, यजमानस्य भेषमःवृत्विजो भेषं नियन्ति, ऋत्विजां भेषमनु दक्षिणा भेषं नियन्ति, दक्षिणानां भेषमनु यजमानः पुत्रपशुभिर्भेषं न्येति, पुत्रपशूनां भेषमनु यजमानः स्वर्गेण लोकेन भेषं न्येति स्वर्गस्य लोकस्य भेषमनु तस्यार्द्धस्य योगक्षेमो भेषं न्येति, यस्मिन्नर्द्धे यजन्त इति ब्राह्मणम् ॥ २ ॥

कारिडका २ ॥ चतुर्वेदी चार ऋत्विजों के बिना यज्ञ गिर जाता है ॥

(प्रजापतिः यज्ञम् अतनुत) प्रजापति [प्रजापालक परमेश्वर वा यजमान] ने यज्ञ फैलाया । (सः ऋचा एव हौत्रम् अकरोत्, यजुषा आध्वर्यवं, साक्षा औद्गात्रम्, अथर्वोङ्गिरोभिः ब्रह्मत्वम्) उस [प्रजापति] ने ऋग्वेद से ही होता का कर्म किया, यजुर्वेद से अध्वर्यु का कर्म, सामवेद से उद्गाता का कर्म और अथर्वोङ्गिराओं [निश्चल ज्ञान वाले चारों वेदों] से ब्रह्मा का काम । (तं वै एतं महावाद्यं कुरुते यत् ऋचा एव हौत्रम् अकरोत्, यजुषा आध्वर्यवं, साक्षा औद्गात्रम् अथर्वोङ्गिरोभिः ब्रह्मत्वम्) उस ही इस [यज्ञ] को उस ने अति प्रशंसनीय किया है, जिसने ऋग्वेद से होता का कर्म किया है, यजुर्वेद से अध्वर्यु का कर्म, सामवेद से उद्गाता का कर्म और निश्चल ज्ञान वाले चारों वेदों से ब्रह्मा का कर्म । (त्रिभिः वेदैः यज्ञस्य सः वै एषः अन्यतरः पक्षः संस्क्रियते, मनसा एव ब्रह्मा यज्ञस्य अन्यतरं पक्षं संस्करोति) तीनों वेदों [त्रयी विद्या] से यज्ञ का वही कोई सा पक्ष [भाग] सिद्ध किया जाता है, मन से ही ब्रह्मा किसी ही पक्ष को सिद्ध करता है । (अयम् उ वै यः पवते सः यज्ञः) और यह जो चलता है, वह यज्ञ है । (तस्य मनः च वाक् च वर्तनिः) उस [ब्रह्मा] का मन और वाणी प्रवृत्ति मार्ग है । (मनसा च एव हि वाचा च यज्ञे वहति, शतः एव मनः इयम् एव वाक्) मन से और वाणी से ही वह यज्ञ में चलता है, इस से ही मन यही वाणी है । (सः यत् वदन् न अस्ति विद्यात् मे अस्य यज्ञस्य अर्द्धम् अन्तः अगात् इति) जो वह [ब्रह्मा] बताता हुआ नहीं रहता है, वह जाने कि मेरे इस यज्ञ की ऋद्धि [सम्पत्ति] छिप गई । (तत् यथा एकपात् पुरुषः यन्, एकचक्रः रथः वा वर्तमानः भ्रेषं न्येति एवम् एव अस्य यज्ञः भ्रेषं न्येति) और जैसे एक पांशु वाला पुरुष जाता हुआ अथवा एक पहिये वाला रथ चलता हुआ गिर जाता है, वैसे ही इस का यज्ञ गिर जाता है । (यज्ञस्य भ्रेषम् अनु यजमानः भ्रेषं न्येति) यज्ञ के गिराव के साथ यजमान गिर जाता है । (यजमानस्य भ्रेषम् अनु ऋत्विजः भ्रेषं नियन्ति) यजमान के गिराव के समय

२—(अतनुत) व्यस्तारयत् (महावाद्यम्) अतिशयेन कथनीयम् । प्रशंसनीयम् (अन्यतरः) अन्यतमः । बहूनां मध्ये निर्धारित एकः (पक्षः) भागः (संस्क्रियते) सम्पाद्यते (संस्करोति) सम्यक् सम्पादयति (पवते) गच्छति—निरु० २ । ४ (वर्तनिः) प्रवृत्तिमार्गः (वदन्) कथयन् (अर्द्धम्) पू० १ । १३ । ऋद्धिम् । संपत्तिम् (अन्तः) मध्ये (यन्) इण गतौ—शतृ । गच्छन् (भ्रेषम्)

ऋत्विज लोग गिर जाते हैं । (ऋत्विजां भ्रेषम् अनु दक्षिणाः भ्रेषं नियन्ति) ऋत्विजों के गिराव के साथ दक्षिणायें गिर जाती हैं । (दक्षिणानाम् भ्रेषम् अनु यजमानः पुत्रपशुभिः भ्रेषं न्येति) दक्षिणाओं के गिराव के साथ यजमान पुत्र और पशुओं सहित गिर जाता है । (पुत्रपशुतां भ्रेषम् अनु यजमानः स्वर्गेण लोकेन भ्रेषं न्येति) पुत्र और पशुओं के गिराव के साथ यजमान स्वर्गलोक से गिर जाता है । (स्वर्गस्य लोकस्य भ्रेषम् अनु तस्य अर्द्धस्य योगक्षेमः भ्रेषं न्येति, यस्मिन् अर्द्धे यजन्ते इति ब्राह्मणम्) स्वर्गलोक के गिराव के साथ उस की सम्पत्ति का योगक्षेम [पाने योग्य का पाना और पाये हुये का बचाना] गिर जाता है, जिस सम्पत्ति में लोग यज्ञ करते हैं—यह ब्राह्मण [वेदज्ञान] है [इस कण्डिका का मिलान करो—गोपथ पू० १ । १३] ॥ २ ॥

भावाथ—कर्मकुशल ऋत्विजों के न हाने से यज्ञ में विघ्न पड़ता है ॥२॥

कण्डिका ३ ॥

तदु ह स्माह श्वेतकेतुरारुणेयो ब्रह्मणां दृष्ट्वा भाषमाणमर्द्धं मेऽस्य यज्ञस्यान्तरगादिति, तस्माद्ब्रह्मा स्तुते वहिःपवमाने वाचोयम्यमुपांश्वन्तर्यामाभ्यामथ ये पवमान उदूचुस्तेष्वथ यानि च स्तोत्राणि च शस्त्राण्यावषट्कारात्तेषु स यदूको भ्रेषन्नियच्छेदो भूर्जनदिति गार्हपत्ये जुहुयात्, यदि यजुष्ट्रं ओं भुवो जनदिति दक्षिणाओं जुहुयात्, यदि सामत ओं स्वर्जनदित्याहवनीये जुहुयात्, यद्यनाज्ञाता ब्रह्मता ओं भूर्भुवः स्वर्जनदोमित्याहवनीय एव जुहुयात्, तद्वाकोवाक्यस्यर्द्धां यजुषां साम्नामथर्वाङ्गिरसामथापि वेदानां रसेन यज्ञस्य विरिष्टं सन्धीयते, तद्यथा लवणेनैत्युक्तं, तद्यथा उभयपात्पुरुषो यन्नुभयचक्रौ वा रथो वर्त्तमानोऽभ्रेषं न्येत्येवमेवास्य यज्ञाऽभ्रेषं न्येति, यज्ञस्याभ्रेषमनु यजमानोऽभ्रेषं न्येति, यजमानस्याभ्रेषमन्वृत्विजांऽभ्रेषं नियन्ति, ऋत्विजामभ्रेषमनु दक्षिणा अभ्रेषं नियन्ति, दक्षिणानामभ्रेषमनु यजमानः पुत्रपशुभिरभ्रेषं न्येति, पुत्रपशुतामभ्रेषमनु यजमानः स्वर्गेण लोकेनाभ्रेषं न्येति, स्वर्गस्य लोकस्याभ्रेषमनु तस्यार्द्धस्य योगक्षेमोऽभ्रेषं न्येति, यस्मिन्नर्द्धे यजन्ते इति ब्राह्मणम् ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ यज्ञ में त्रुटि होने पर प्रायश्चित्त ॥

(आरुणेयः श्वेतकेतुः तत् उ स्म ब्रह्मणां भाषमाणं दृष्ट्वा आह मे अस्य

भ्रेष चलने—अर्द्धं । अधःपतनम् (न्येति) निश्चयेन प्राप्नोति (अर्द्धस्य) सम्पत्तेः (योगक्षेमः) गो० पू० १ । १३ । प्राप्ययस्य प्रापणं प्राप्तस्य रक्षणम् ॥

यज्ञस्य अर्द्धम् अन्तर् अगात् इति) अरुण का पुत्र श्वेतकेतु तब ही ब्रह्मा को बोलते हुये देख कर कहने लगा—मेरे इस यज्ञ का आधा भाग छिप गया । (तस्मात् ब्रह्मा वहिःपवमाने वाचोयम्यम् उपांशु अमाभ्याम् अन्तर् स्तुते) इस लिये ब्रह्मा दो वहिःपवमान स्तोत्र को वाणी रोक कर चुपचाप दो पहर तक बोलता है । (अथ ये पवमाने उदूचुः तेषु, अथ यानि च स्तोत्राणि च शस्त्राणि आवषट्कारात् तेषु सः यत् ऋक्तः भ्रेषं नियच्छेत् औं भूः जनत् इति गार्हपत्ये जुहुयात्) और जो पुरुष दो पवमान स्तोत्रों को बोलें उनमें, और जो स्तोत्र और शस्त्र वषट्कार के साथ यज्ञ समाप्त तक होते हैं उन में, वह [ब्रह्मा] जो ऋग्वेद से गिराव [ऋटि] को रोके, ओम् भूः जनत्—इन [व्याहृतियों] से गार्हपत्य अग्नि में हवन करे । (यदि यजुष्टः औं भुवः जनत् इति दक्षिणाग्नौ जुहुयात्) जो यजुर्वेद से [ऋटि को रोके]—ओम् भुवः जनत्—इन से दक्षिणाग्नि में हवन करे । (यदि सामतः, ओ स्वः जनत् इति आहवनीये जुहुयात्) जो सामवेद से [ऋटि को रोके]—ओं स्वः जनत्—इन से आहवनीय अग्नि में हवन करे । (यदि अनाज्ञाताः ब्रह्मताः, औं भूः भुवः स्वः जनत् ओम् इति आहवनीये एव जुहुयात्) जो न जानी हुई ब्रह्मा की क्रियाओं को [रोके]—ओम् भूः भुवः स्वः जनत्—इन [व्याहृतियों] से आहवनीय अग्नि में ही हवन करे । (तत् ऋचां, यजुषां, साम्नाम्, अथर्वाङ्गिरसां वाक्पस्य वाक्ः) वह ऋग्वेद मन्त्रों के, यजुर्वेद मन्त्रों के, सामवेद मन्त्रों के और चारों वेद मन्त्रों के वाक्य [पदसमूह] का वाक्य [उच्चारण सामर्थ्य] है । (अथ अपि वेदानां रसेन यज्ञस्य विरिष्टम् सन्धीयते, तत् यथा लवणेन इति उक्तम्) तब ही वेदों के रस [ध्वनि] से यज्ञ का दोष सुधर जाता है । सो जैसे लवण [खार] के साथ यह कहा गया है [गोपथ पू० १ । १४], (तत् यथा उभयपात् पुरुषः यन्, उभयचक्रः रथः वा वर्तमानः अभ्रेषं न्येति एवम् एव अस्य यज्ञः अभ्रेषं न्येति) सो जैसे दो पांव वाला पुरुष चलता हुआ, अथवा दो पहिये वाला रथ वर्तमान [जाता हुआ] अचलता [स्थिरता] पाता है, वैसे ही इस [यज्ञमान] का यज्ञ निश्चलता पाता है । (यज्ञस्य अभ्रेषम् अनु यज्ञमानः अभ्रेषं न्येति) यज्ञ

३—(आरुणोयः) अरुण - ढक् । अरुणय्य पुत्रः (अन्तर्) अदर्शनम् । मध्ये (स्तुते) स्तोति (वहिः पवमाने) स्तोत्रविशेषद्वयम् (वाचोयम्यम्) यम् नियमने—यत् । वाचः वाण्याः यम्यं यमनं निरोधं कृत्वा (उपांशु) अप्रकाशे गुप्ते (अमाभ्याम्) प्रहराभ्याम् (उदूचुः) उच्चारितवन्तः (आवषट्कारात्) वषट्

की निश्चलता के साथ यजमान निश्चलता पाता है । (यजमानस्य अघ्रेषम् अनु ऋत्विजः अघ्रेषं नियन्ति) यजमान की निश्चलता के साथ ऋत्विज लोग निश्चलता पाते हैं । (ऋत्विजाम् अघ्रेषम् अनु दक्षिणाः अघ्रेषं नियन्ति) ऋत्विजों की निश्चलता के साथ दक्षिणायें निश्चलता पाती हैं । (दक्षिणानाम् अघ्रेषम् अनु यजमानः पुत्रपशुभिः अघ्रेषं न्येति) दक्षिणाओं की निश्चलता के साथ यजमान पुत्रों और पशुओं सहित निश्चलता पाता है । (पुत्रपशूनाम् अघ्रेषम् अनु यजमानः स्वर्गेण लोकेन अघ्रेषं न्येति) पुत्रों और पशुओं की निश्चलता के साथ यजमान स्वर्ग लोक के सहित निश्चलता पाता है । (स्वर्गस्य लोकस्य अघ्रेषम् अनु तस्य अर्द्धस्य योगक्षेमः अघ्रेषं न्येति, यस्मिन् अर्द्धे यजन्ते इति ब्राह्मणम्) स्वर्ग लोक की निश्चलता के साथ उस [यजमान] की ऋद्धि [सम्पत्ति] का योगक्षेम [पाने योग्य का पाना और पाये हुये का बचाना] निश्चलता पाता है, जिस सम्पत्ति में वे यज्ञ करते हैं, यह ब्राह्मण [वेदज्ञान] है ॥ ३ ॥

भावार्थ—यज्ञ में वृद्धि का प्रायश्चित्त कर देने से यज्ञ की सिद्धि और यजमान की वृद्धि होती है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को मिलाओ—गो० पू० १ । १४ और ऐतरेय ब्राह्मण ५ । ३४ ॥

कण्डिका ४ ॥

तद्यदौदुस्वर्यान्म आसिष्ट, हिङ्कृणोत् मे प्रास्तावीन्म उदके आसीत् मे सुब्रह्मण्यमाह्वासीदित्युद्गात्रे दक्षिणा नीयन्ते, अहान् मेऽग्रहीत् प्राचारीन्मेऽशु-
श्रुवन् मे समनसस्कार्षीदयाक्षीन्मेऽशांसीन्मेऽवषट्कार्षीन्म इत्यध्वर्यवे, होतृ-
षदन आसिष्ट, अयाक्षीन्मेऽशांसीन्मेऽवषट्कार्षीन्म इति होत्रे, देवयजनं मेऽची-
कृपद् ब्रह्मा सादं मेऽचीसृपद् ब्रह्म जपान्मेऽजपीत् पुरस्ताद्धोम-संस्थित होमान्मे-
ऽहौषादयाक्षीन्मेऽशांसीन्मेऽवषट् कार्षीन् म इति ब्रह्मणे भूयिष्टेन मा ब्रह्मणाका-
र्षीदित्येतद्वै भूयिष्टं ब्रह्म यद्भृश्वरिः, येऽङ्गिरसो येऽङ्गिरसः स रसः, येऽथ-

कारेण यज्ञसमाप्तिपर्यन्तम् (अघ्रेषम्) अधःपतनम् (नियच्छेत्) यम निय-
मने—वि० लि० । नियमे कुर्यात् । अवरुन्धेत (वाकः) गो० पू० १ । ३० ।
वचनसामर्थ्यम् (वाक्यस्य) गो० पू० १ । ३० । पदसमूहस्य (यन्) गच्छन्
(अघ्रेषम्) अचलनम् । दृढत्वम् । स्थिरताम् ।

र्वाणो येऽथर्वाणस्तद्भेषजं, यद्भेषजं तदमृतं, यदमृतं तद् ब्रह्म, स वा एष पूर्वेषा-
मृत्विजामर्द्धभागस्यार्द्धमितरेषामर्द्धं ब्रह्मण इति ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ ॥ ऋत्विजों के कर्म जिन में वे दक्षिणा पाते हैं ॥

(तत् यत् औदुम्बर्यां मे आसिष्ट, हिङ्कृणोत् मे, प्रास्तावीत् मे, उदके
आसीत् मे, सुब्रह्मण्याम् आह्वासीत् इति उद्गात्रे दक्षिणाः नीयन्ते) वह जो
[उद्गाता] औदुम्बरी [गूलर के मचान] पर मेरे [यजमान के] लिये बैठा,
मेरे लिये हिङ् शब्द किया, मेरे लिये स्तुति की, मेरे लिये जल में हुआ, सुब्रह्म-
ण्या [भली भांति ब्रह्म को बताने वाली ऋचा] बोला, इस लिये उद्गाता को
दक्षिणायें दी जाती हैं । (ग्रहान् मे अग्रहीत्, प्राचारीत् मे, अशुश्रुवत् मे, संम-
नसः कार्षीत्, अयाक्षीत् मे, अशांसीत् मे, अवषट्कार्षीत् मे, इति अध्वर्यवे)
[जिस लिये अध्वर्यु ने] ग्रहों [सोमपात्रों] को मेरे लिये ग्रहण किया, मेरे
लिये प्रचार किया, मेरे लिये [वेदमन्त्र] सुनवाये, [लोगों को] समान मन
वाला किया, मेरे लिये यज्ञ किया, मेरे लिये स्तुति की, मेरे लिये वषट् [समाप्ति
का शब्द] किया, इस लिये अध्वर्यु को [दक्षिणायें लायी जाती हैं] । (हेतृ-
षदने आसिष्ट, अयाक्षीत् मे, अशांसीत् मे, अवषट्कार्षीत् मे, इति होत्रे)
[जिस लिये होता] हेतृसदन में बैठा, मेरे लिये यज्ञ किया, मेरे लिये स्तुति की,
मेरे लिये वषट्कार किया, इस लिये होता को [दक्षिणायें लायी जाती हैं] ।
(ब्रह्मा देवयजनं मे अचीकृपत्, सादं मे असीसृपत् ब्रह्मजपान् मे अजपीत्,
पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमान् मे अहौषीत्, अयाक्षीत् मे, अशांसीत् मे, अवषट्-
कार्षीत् मे, इति ब्रह्मणे) [जिस लिये] ब्रह्मा ने देवयजन मेरे लिये ठीक बनाया,

४—(औदुम्बर्याम्) पृभिदिव्यधि० । उ० १ । २३ । उड संहतौ संहनने
समूहे वा, सौत्रो धातुः—कु । संज्ञायां भृत् वृ० । पा० ३ । २ । ४६ । उडु +
वृञ् वरणे—खच् । मुम् च डस्य दः, वस्य बः । तनः अण् डीप् । उदुम्बरकाष्ठ-
निर्मितायां खट्वायाम् (मे) मदर्थम् (आसिष्ट) आसु उपवेशने—लुङ् ।
उपविष्टवान् (अस्तावीत्) स्तुतवान् (आसीत्) अभवत् (सुब्रह्मण्याम्) तत्र
साधुः । पा० ४ । ४ । ६८ । सुब्रह्मन्—यत्, टाप् । सुब्रह्मणि सुष्ठु वेदज्ञाने प्रवृ-
ताम् स्तुतिम् ऋचं वा (आह्वासीत्) आ + ह्वेञ् शब्दे—लुङ् । आहूतवान्
(नीयन्ते) प्राप्यन्ते । दीयन्ते (ग्रहान्) सोमपात्राणि (अशुश्रुवन्) धु श्रवणे—
णिच्, लुङ् । आवितवान् (समनसः) समानहृदयान् (अशांसीत्) शंसु स्तुतौ—

मेरे लिये स्थान पहुंचाया, मेरे लिये वेद के जप जपे, मेरे लिये पुरस्तात्होम और संस्थितहोमों को हवन किया, मेरे लिये यज्ञ किया, मेरे लिये स्तुति की, मेरे लिये वषट् [यज्ञ समाप्ति का शब्द] किया, इस लिये ब्रह्मा को [दक्षिणायें दी जाती हैं] । (भूयिष्ठेन ब्रह्मणा मा अकार्षीत् इति एतत् वै भूयिष्ठं ब्रह्म यत् भृग्वङ्गिरसः) [ब्रह्मा ने] बहुत अधिक ब्रह्मज्ञान के साथ मुझे किया है, यही बहुत अधिक ब्रह्मज्ञान है, जो भृगु अङ्गिरा [परिपक्व ज्ञान वाले चारो वेद] हैं । (ये अङ्गिरसः ये अङ्गिरसः सः रसः,) जो अङ्गिरस [ज्ञान वाले चारो वेद] हैं, जो अङ्गिरस [ज्ञान वाले चारो वेद] हैं, वह रस है । (ये अथर्वाणः ये अथर्वाणः तद् भेषजम्) जो अथर्वा [निश्चल ज्ञान वाले चारो वेद] हैं, जो अथर्वा [निश्चल ज्ञान वाले चारो वेद] हैं; वह औषध है । (यत् भेषजं तत् अमृतं यत् अमृतं तत् ब्रह्म, सः वै एषः) जो औषध है वही अमृत है, जो अमृत है वह ब्रह्म [वेद ज्ञान] है, वही [ज्ञान स्वरूप] यह [ब्रह्मा] है । (पूर्वेषाम् ऋत्विजाम् अर्द्धभागस्य अर्द्धम् इतरेषाम् ब्रह्मणः अर्द्धम् इति ब्राह्मणम्) पहिले ऋत्विजों की सम्पत्ति के भाग का आधा दूसरों [उद्गाता, अध्वर्यु और होता] का है और आधा ब्रह्मा का है; यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ४ ॥

भावार्थ—चार ऋत्विजों में ब्रह्मा चतुर्वेदी और यज्ञविधान दर्शक होता है और शेष तीन एक एक वेद वाले हाते हैं, इस लिये यजमान ब्रह्मा का औरों से उच्च पद जाने और उस का अधिक सत्कार करे ॥ ४ ॥

कण्डिका ५ ॥

देवाश्च ह वा असुराश्च संग्रामं समयतन्त, तत्रैतास्तिष्ठो होत्रका जिह्वं प्रतिपेदिरे, तासामिन्द्र उच्छानि सामानि लुलोप, तानि होत्रे प्रायच्छदाज्यं ह वै होतुर्बभूव, प्रउगं पोतुर्वैश्वदेवं ह वै होतुर्बभूव, निष्केचल्यं नेष्टुर्मरुत्वतीयं ह वै होतुर्बभूव, आग्निमारुतमाग्नीध्रस्य, तस्मादेतदभ्यस्ततरमिव शस्यते यदाग्निमारुतं यस्मादेते संशंसुका इव भवन्ति यद्धाता पोता नेष्टाग्नीध्रो मुमीहे वसीत

लुङ् । स्तुतवान् (अवषट्कार्षीत्) वषट्कार, नामधातुः—लुङ् । वषट् शब्दम् अकार्षीत् (अचीकृपत्) समर्थं योग्यं कृतवान् (सादम्) स्थानम् (असीसृपत्) सृष्ट्वा गतौ—णिच्—लुङ् । अगमयत् । प्रापितवान् (भूयिष्ठेन) बहुतमेन (ब्रह्मणा) वेदज्ञानेन (भेषजम्) औषधम् (अर्द्धम्) ऋधु वृद्धौ—घञ् । द्वयोर्मध्ये समभागः । समृद्धिः ॥

तद् ब्रह्मेयसामिवास तासामर्द्धं प्रतिलुलोप प्रथमार्हणश्च प्रथमपदञ्चैतद्वक्षिणाञ्चै-
तत्परिशिषेदेदिति ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ तीन ऋत्विजों से यज्ञ करना ॥

(देवाः च ह वै असुराः च संग्रामं समयतन्त) देवता और असुर लोग संग्राम में जुटे [विद्वान् और अविद्वान् ऋत्विज लड़ने लगे] । (तत्र एताः तिस्रः होत्रकाः जिह्मं प्रतिपेदिरे) उस [संग्राम] में इन तीन होताओं ने कुटिलता विचारी । (तासाम् इन्द्रः उच्छानि सामानि लुलोप) इन्द्र ने उन [ऋत्विजों] के एकत्र किये हुये साम स्तोत्रों को तोड़ डाला । (तानि होत्रे प्रायच्छत्) उस [इन्द्र] ने उन [स्तोत्रों] को होता को दे दिया । (आज्यं ह वै हेतुः बभूव) वही [स्तोत्र] आज्य [घृत स्तोत्र] होता का हुआ, (पोतुः प्रउगं हेतुः यैश्व- देवं ह वै बभूव) वही [स्तोत्र] पोता [शोधने वाले ऋत्विज] का प्रउग [प्रयोजनीय स्तोत्र] होता का ही वैश्वदेव [स्तोत्र] हुआ, (नेष्टुः निष्केवल्यं ह वै हेतुः मरुत्वतीयं बभूव आग्नीध्रस्य आग्निमारुतम्) वही [स्तोत्र] नेष्टा [नायक ऋत्विज] का निष्केवल्य स्तोत्र ही होता का मरुत्वतीय [स्तोत्र] हुआ, और आग्नीध्र [अग्नि प्रकाशक ऋत्विज] का आग्निमारुत [स्तोत्र हुआ], (तस्मात् एतत् अभ्यस्ततरम् इव शस्यते यत् आग्निमारुतम्) इस लिये यह [स्तोत्र] अधिक बार बार ही बोला जाता है, जो आग्निमारुत है । (यस्मात् एते संशंसुकाः इव भवन्ति यत् होता पोता नेष्टा आग्नीध्रः सुमोहे [=सुमोहे] वसीत) जिस कारण यह सब लोग संशंसुक [मिल कर स्तुति करने वाले] ही होते हैं, जो होता पोता, नेष्टा और आग्नीध्र बड़े मोह में घिर जावें, (तत्

५—(होत्रकाः) होत्रा-कन्, टाप् स्त्रीलिङ्गः । होत्राः-गो० पू० २ । १६ । ऋत्विजः (जिह्मम्) जहातेः सन्वदाकारलोपश्च । उ० १ । १४१ । ओहाक् त्यागे- मन् । कुटिलभावम् । मन्दत्वम् (प्रतिपेदिरे) प्रतिपादितवन्तः । आचरितवन्तः (उच्छानि) उच्छि कणशआदाने—घञ् । संगृहीतानि (सामानि) सामवेद- स्तोत्राणि (लुलोप) लुप्ल् छेदने—लिट् । छिन्नवान् (प्रउगम्) उच्छादीनां च । पा० ६ । १ । ६० । प्र+युजिर् योगे-घञ्, अगुणः, कुत्वं यलोपः । प्रयोगार्हं स्तोत्रम् (निष्केवल्यम्) इन्द्रस्य शस्त्रं स्तोत्रम् (नेष्टुः) नप्तृनेष्टत्वष्ट० । उ० २ । १ । ६५ । णीञ् प्रापणे—तृन्, षुक् च । नयनकर्तुः । ऋत्विग्विशेषस्य (मरुत्व- स्तीयम्) मध्वादिभ्यश्च । पा० ४ । २ । ६६ । मरुत्—मनुप्, मस्य वः । मरुत्वत्-

ब्रह्मा इयसाम् आस इव) और तब ब्रह्मा उदासीन ? सा हुआ । (तासाम् अर्धं प्रतिलुलाप) उन [होत्रक लोगों का आधा भाग उस [इन्द्र यजमान] ने काट दिया । (एतत् प्रथमार्हणं च प्रथमपदं च एतत् दक्षिणां च परिशिषेदेत् इति ब्राह्मणम्) इस कारण प्रथम पूजन और प्रथम पद [ब्रह्मा पद] को और इस कारण दक्षिणा को प्रतिषेध करे [रोक देवे]—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस कण्डिका का शब्दार्थ समझ में नहीं आया, विद्वान् लोग विचार लेवें । भाव यह जान पड़ता है कि ब्रह्मा के अभाव में यज्ञ पूरा पूरा सिद्ध नहीं होता, इस लिये सहायक ऋत्विजों को आधी दक्षिणा दी जावे और आधा बचा ली जावे ॥ ५ ॥

कण्डिका ६ ॥

उद्दालको ह वा आरुणिकृदीव्यान् वृतो धावयाञ्चकार, तस्य ह निष्क उपाहिता यभूव, उपवादाद् विभ्यतो, यो मा ब्राह्मणोऽनूचानउपवदिष्यति तस्मा एतं प्रदास्यामीति, तद्धोदाच्यान् ब्राह्मणान् भयं विभेद उद्दालको ह वा अयमायाति, कौरुपाञ्चाला ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रः स ऊर्ध्वं वृतो न पर्यादधीत केनेमं वीरेण प्रतिसंयतामहा इति, तं यत एव प्रपन्नं दध्ने तत एवमनुप्रतिपेदिरे, तं ह स्वैदायनं शौनकमूचुः, स्वैदायन त्वं वै नो ब्रह्मिष्ठोऽसीति त्वयेमं वीरेण प्रतिसंयतामहा इति, तं यत एव प्रपन्नं दध्ने तत एवमनुप्रतिपेदिरे, तं ह स्वैदायना इत्यामन्त्रयामास, स हो गोतमस्य पुत्रेतीतिहास्मा असूयात्, प्रतिश्रुतं प्रतिशुश्राव, स वै गोतमस्य पुत्र ऊर्ध्वं वृतोऽधावीत् ॥ ६ ॥

छुप्रत्ययः । मरुत्वान् इन्द्रः, तस्य स्तोत्रम् (आग्नीध्रस्य) अग्निमिन्धे अग्नीत्, अग्नि + इन्धी दीतौ—किप् । अग्नीधः शरणे रण् भञ्च । वा० पा० ४ । ३ । १२० ॥ अग्नीध्—रण् । अग्निप्रदीपकस्य ऋत्विग्विशेषस्य (संशंसुकाः) समि कस्त उकन् । उ० २ । २६ । सम् + शंसु स्तुतौ—उकन् । संयोगेन स्तोतारः (सुमोहे) प्रमादपाठः । सुमोहे । सु + मुह वैचित्ये—घञ् । महत्यज्ञाने (वसीत) वस आच्छादनं । आच्छाद्यते (इयसाम् + आस) ? इयस उदासीनतायां—लिट् ? आर्षप्रयोगः । उदासीनो यभूव (इव) यथा (प्रतिलुलाप) प्रत्यक्षेण लुप्तवान् (प्रथमार्हणम्) अर्धं पूजने योग्यत्वे च—ल्युट् । प्रथमपूजनम् (एतत्) अनेन प्रकारेण (परिशिषेदेत्) विध मत्याम्, अस्यार्षरूपम् । निषेधेत् । वर्जयेत् ॥

कण्डिका ६ ॥ उद्दालक ऋषि का उत्तर वालों से शास्त्रार्थ करने
का प्रयत्न ॥

(वृतः आरुणिः उद्दालकः ह वै उदीच्यान् धावयांचकार) चुने हुये आरुणि
[अरुण के पुत्र] उद्दालक [अज्ञान दलने वाले ऋषि] ने उत्तर निवासियों
पर धावा किया । (उपवादात् बिभ्यतः तस्य ह निष्कः उपाहितः बभूव) शास्त्रार्थ
से डरते हुये उस [उद्दालक] का हार पण में रक्खा गया था । (यः अनूचामः
ब्राह्मणः मा उपवदिष्यति तस्मै एतं प्रदास्यामि इति) [उद्दालक ने कहा] जो
अनूचान [अङ्ग उपाङ्ग सहित वेद जानने वाला] ब्राह्मण मुझ से शास्त्रार्थ करेगा
उस को यह [हार] दूंगा । (तत् ह उदीच्यान् ब्राह्मणान् भयं बिभेद) उस से
उत्तर निवासी ब्राह्मणों को भय ने छेद डाला । (अयम् उद्दालकः ह वै आयाति,
कौरुपाञ्चालः ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रः, सः वृतः ऊर्ध्वं न पर्यादधीत इमं केन वीरेण
प्रतिसंयतामहै) यह उद्दालक ही आता है, यह कुरु पञ्चाल का रहने वाला ब्रह्मा
[चारो वेद जानने वाला], ब्रह्मा का पुत्र है, वह चुना हुआ [हार को] ऊपर
न धारण करे, [इस लिये] इस को किस वीर के साथ हम जुटावें । (यतः एष
तं प्रपन्नं दध्ने ततः एवम् अनुप्रतिपेदिरे) जो कि उस [उद्दालक] ने उस [हार]
को सामने रख दिया था, इस लिये उन्होंने ने ऐसा विचार किया । (तं ह स्वैदा-
यनं शौनकम् ऊचुः) उस के विषय में स्वैदायन शौनक से वे बोले—(स्वैदायन
त्वं वै नः ब्रह्मिष्ठः असि इति इमं त्वया वीरेण प्रतिसंयतामहै इति) हे स्वैदायन !
तू ही हम में बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, इस को तुझ वीर के साथ हम जुटावें । (यतः

६—(उद्दालकः) उत्+दल भेदने—वञ्, स्वार्थे कन् । उत्कर्षेण दलति
भिनत्ति अज्ञानानि यः । मुनिभेदः (आरुणिः) अरुण—इञ् । अरुणस्य पुत्रः
(उदीच्यान्) द्युप्रागपागुदक् प्रतीचो यत् । पा० ४ । २ । १०१ । उदच्—यत् ।
उत्तरदेशनिवासिनः (निष्कः) वक्तोभूषणम् । हारः (उपाहितः) उप+
आ+दधातेः—क । पणे आरोपितः (उपवादात्) शास्त्रार्थात् (बिभ्यतः)
बिभेतेः—शतृ । भयं गच्छतः पुरुषस्य (अनूचानः) साङ्गोपाङ्गवेदवेत्ता (उप-
वदिष्यति) उपेत्य कथयिष्यति । शास्त्रार्थं करिष्यति (कौरुपाञ्चालः) तस्य
निवासः । पा० ४ । २ । ६६ । कुरुपञ्चाल—अण् । अनुशतिकादीनां च ।
पा० ७ । ३ । २० । उभयपदादिवृद्धिः । कुरुपञ्चालदेशनिवासी । उद्दालकः
(ऊर्ध्वम्) उच्चम् (वृतः) स्वीकृतः (दध्ने) दवार (स्वैदायनम्) स्वैदायन

एव तं प्रपन्नं दध्ने ततः एवं तं ह स्वदायताः अनुप्रतिपेदिरे इति) जो कि उस [उदालक] ने उस [हार] को सामने रख दिया था, इस लिये ऐसा उस के विषय में ही स्वदायन लोगों ने विचार किया । (सः आमन्त्रयामास हे गोतमस्य पुत्र इति इति ह अस्मै असूयात्) वह [स्वदायन] बोला—हे गोतम के पुत्र ! आप इस [मुझ] से युद्ध करें । (प्रतिश्रुतं प्रतिशुश्राव) उस [उदालक] ने अङ्गीकृत वचन का अङ्गीकार किया । (सः वै गोतमस्य वृतः पुत्रः ऊर्ध्वम् अधावीत्) वही गोतम का चुना हुआ पुत्र ऊंचे स्थान को शीघ्र गया ॥ ६ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग परस्पर प्रश्नोत्तर करके ब्रह्मज्ञान की उन्नति करें ॥ ६ ॥

टिप्पणी—विभ्रतः = विभ्यतः—पशियाटिक सांसेटी पुस्तक ॥

कण्डिका ७ ॥

यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादिमाः प्रजाः शिरस्तः प्रथमं लोमशा जायन्ते १, कस्मादासामपरमिव श्मश्रुण्युपकक्षाण्यन्यानि लोमानि जायन्ते २, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादिमाः प्रजाः शिरस्तः प्रथमं पलिता भवन्ति ३, कस्मादन्ततः सर्वा एव पलिता भवन्ति ४, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादिमाः प्रजा अदन्तिका जायन्ते ५, कस्मादासामपरमिव जायन्ते ६, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादासां सप्तवर्षाष्टवर्षाणां प्रभिद्यन्ते ७, कस्मादासां पुनरेव जायन्ते ८, कस्मादन्ततः सर्व एव प्रभिद्यन्ते ९, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादधरे दन्ताः पूर्वे जायन्ते १०, पर उत्तरे ११, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादधरे दन्ताः अणीयांसो ह्सीयांसः १२, प्रधीयांसो वर्षीयांस उत्तरे १३, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादिमौ दंप्रौ दीर्घतरौ १४, कस्मात्समे इव जन्मे १५, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादिमे श्रात्रेऽन्ततः समे इव दीर्णे १६, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मात् पुमांसः श्मश्रुवन्तो १७, ऽश्मश्रुवः स्त्रियः १८, यस्तद्दर्शपूर्णमासयोरूपं विद्यात् कस्मादासां सन्ततमिव

—अण् । स्वदायनस्य पुत्रम् । (शौनकम्) शून गतौ—क. ततः कन्, अण् च । ज्ञानवान् । मुनिविशेषः (ब्रह्मिष्ठः) ब्रह्म—इष्टम् । अतिशयेन ब्रह्मज्ञानी (अस्मै) क्रुधद्गुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः । पा० १ । ४ । ३७ । असूयात् इति क्रियया सह चतुर्थी (असूयात्) असूञ् उपतापे—वि० लि० । विवादयेत् (प्रतिश्रुतम्) स्वीकृतम् (प्रतिशुश्राव) स्वीकृतवान् ॥

शरीरं भवति १६, कस्मादासामस्थीनि दृढतराणीव भवन्ति २०, यस्तदर्शपूर्ण-
मासयो रूपं विद्यात् कस्मादासां प्रथमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति २१,
कस्मादासां मध्यमे वयसि रेतः सिक्तं सम्भवति २२, कस्मादासामुत्तमे वयसि
रेतः सिक्तं न सम्भवति २३, यस्तदर्शपूर्णमासयो रूपं विद्यात् कस्मादिदं शिशुमु-
ष्यश एति २४, नीचीपद्यते २५, कस्मात्सकृदपानम् २६ ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ के सम्बन्ध
से उद्दालक के शरीर सम्बन्धी प्रश्न ॥

(तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) [उद्दालक ने कहा] सो जो
पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—
(कस्मात् इमाः प्रजाः प्रथमं शिरस्तः लोमशाः जायन्ते १, कस्मात् आसाम्
अपरम् इव श्मश्रूणि उपकक्षाणि अन्यानि लोमानि जायन्ते २) कैसे यह सब
प्रजायें पहिले शिर पर लोम वाले उत्पन्न होते हैं १, कैसे पीछे से इन के दाढ़ी
मूँछ और काँख के और दूसरे लोम उत्पन्न होते हैं २ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः
रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को
जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् इमाः प्रजाः प्रथमं शिरस्तः पलिताः भवन्ति ३,
कस्मात् अन्ततः सर्वाः एव पलिताः भवन्ति ४) क्यों यह प्रजायें पहिले शिर
पर श्वेत हो जाते हैं ३, क्यों अन्त में सब ही श्वेत हो जाते हैं ४ । (यः तत् दर्श-
पूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के]
रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् इमाः प्रजाः अदन्तिकाः जायन्ते ५,
कस्मात् आसाम् अपरम् इव जायन्ते ६) क्यों यह प्रजायें बिना दाँत वाले उत्पन्न
होते हैं ५, क्यों इन के [दाँत] पीछे निकलते ह ६ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः
रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप
को जाने [वह उत्तर देवे]—कस्मात् आसां सप्तवर्षाष्टवर्षाणां प्रभिद्यन्ते ७,
कस्मात् आसां पुनः एव जायन्ते ८, कस्मात् अन्ततः सर्वे एव प्रभिद्यन्ते ९) क्यों
इन सात वर्ष आठ वर्ष वाले के [दाँत] उखड़ जाते हैं ७, क्यों इन के [दाँत]
फिर भी निकल आते हैं ८, क्यों अन्त में सभी उखड़ जाते हैं ९ । (तत् यः दर्श-

७—(उपकक्षाणि) कक्षसमीपस्थानि (पलिताः) श्वेताः (अदन्तिकाः)
दन्तरहिताः (अणीयांसः) अणु—ईयसुन् । अतिसूक्ष्माः (हर्षायांसः) ह्रस्व-
ईयसुन् । निर्वलतराः । कोमलतराः (प्रथीयांसः) पृथु—ईयसुन् । स्थूलतराः
(वर्षीयांसः) वृद्ध—ईयसुन् । वृद्धतराः । सबलतराः (उत्तरे) उपरिस्थाः

पूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् अधरे दन्ताः पूर्वे जायन्ते १०, परे उत्तरे ११) क्यों नीचे वाले दांत पहिले निकलते हैं १०, और पीछे ऊपर वाले ११ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् अधरे दन्ताः अणीयांसः, हनीयांसः १२, उत्तरे प्रथीयांसः वर्षीयांसः १३) क्यों नीचे वाले दांत अधिक सूक्ष्म और निर्बल होते हैं १२, और ऊपर वाले अधिक चौड़े और सबल होते हैं १३ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् इमौ दंष्ट्रो दीर्घतरौ १४, कस्मात् समे इव जम्भे १५) क्यों यह दोनों [सामने के] बड़े दांत अधिक लम्बे होते हैं १४, क्यों दोनों डाढ़ें चौकोर सी हैं १५ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् इमे श्रोत्रे अन्ततः समे इव दीर्घे १६) क्यों यह दोनों कान अन्त में समान से फटे होते हैं १६ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् पुमांसः श्मश्रुवन्तः १७, स्त्रियः अश्मश्रवः १८) क्यों पुरुष दाढ़ी मूछ वाले होते हैं १७, और स्त्रियां बिना दाढ़ी मूछवाली १८ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह उत्तर देवे]—(कस्मात् आसां शरीरं सन्ततम् इव भवति १९, कस्मात् आसाम् अस्थोनि दृढतराणि इव भवन्ति २०) क्यों इन [प्रजाओं] का शरीर फैला हुआ सा होता है १९, क्यों इन की हड्डियां अधिक दृढ़ होती हैं २० । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह बतावे]—(कस्मात् आसां प्रथमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति २१, कस्मात् आसां मध्यमे वयसि रेतः सिक्तं सम्भवति २२, कस्मात्

(समे) समाने (सन्ततम् विस्तृतम् (सिक्तम्) सिंचितम् (सम्भवति) उत्पद्यते (शिशनम्) मेढम् (सकृत्) शके ऋतिन् । ३० ४ । ५८ । शक्नु शक्तौ-ऋतिन् । वा शस्य सः । पुरीषम् । वीर्यम् (अपानम्) अप+अन प्राणने-अच् । अधःपतनशीलम् । अथवा अप+आ+णीञ् प्रापणे—डप्रत्ययः । अधोगमन-शीलम् ॥

आसाम् उत्तमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति २३) क्योः इन [प्रजाओं] की पहिली अवस्था में वीर्य सींचा हुआ नहीं निकलता है २१, क्योः इन की मध्यम अवस्था में वीर्य सींचा हुआ निकलता है २२, क्योः इन की पिछली अवस्था में वीर्य सींचा हुआ नहीं निकलता है २३ । (तत् यः दर्शपूर्णमासयोः रूपं विद्यात्) सो जो पुरुष अमावस्या और पूर्णमासी के [यज्ञ के] रूप को जाने [वह बतावे]—(कस्मात् इदं शिशनम् उच्चशः एति २४, नीचीपद्यते २५, कस्मात् सकृत् अपानम् २६) क्योः यह मनुष्य लिङ्ग ऊँचा जाता है २४, और नीचा होता है २५, क्योः सकृत् [मल वा वीर्य] नीचे जाने वाला होता है २६ ॥७॥

भावार्थ—अमावस्या और पूर्णमासी का चन्द्रमा की गति का प्रभाव शरीर पर क्या होता है, इस का विचार विद्वान् करते रहें । उत्तरों के लिये कण्डिका ६ देखो ॥ ७ ॥

कण्डिका ८ ॥

अथ यः पुरस्तादष्टावाज्यभागान् विद्यात् मध्यतः पञ्चहविर्भागाः, षट् प्राजापत्याः उपरिष्ठादष्टावाज्यभागान् विद्यात् १ अथ यो गायत्रीं हरिणीं ज्योतिष्पत्तां सर्वैर्यज्ञैर्यजमानं स्वर्गं लोकमभिवहन्तीं विद्यात् २, अथ यः पङ्क्तिं पञ्चपदां सप्तदशाक्षरां सर्वैर्यज्ञैर्यजमानं स्वर्गं लोकमभिवहन्तीं विद्यात् ३ अस्मै ह निष्कं प्रयच्छन्नु वाचानूचानो ह वै स्वैदायना स सुवर्णा वै सुवर्णाविदे ददामीति तदुपयस्य निश्चक्राम, तत्रापत्राज यत्रेतेरो बभूव, तं ह पप्रच्छ किमेष गोतमस्य पुत्र इत्येष ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र इति होवाच, यदेनं कश्चिदुपवदेतात मीमांसेत ह वा मूढध्वा वा अस्य विपत्तेत्, प्राणा वैनं ऊह्युरिति, ते मिथ एव चिक्रन्देयुर्विप्रापब्राज यत्रेतेरो बभूवुस्ते प्रातः समित्प्राणय उपोऽयुरुपायामो भवन्तमिति, किमर्थमिति घानेव ना भवांस्तां ह्य प्रज्ञानपृच्छघानेव ना भवान् व्याचक्षीयेति, तथेति तेभ्य एतान् प्रश्नान् व्याचक्षे ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ ॥ पूर्वोक्त प्रश्नों के विषय में उद्दालक और स्वैदायन वा शौनक का वार्तालाप ॥

(अथ यः पुरस्तात् अष्टौ आज्यभागान् विद्यात् मध्यतः पञ्चहविर्भागाः, षट् प्राजापत्याः, उपरिष्ठात् अष्टौ आज्यभागान् विद्यात् १) फिर जो पहिले आठ आज्य भागों [घी को आहुति विशेषों] को जाने, मध्य में पांच हविर्भाग [हवि की आहुतियां] और छह प्राजापत्य [प्रजापति की आहुतियां] हैं उनको

और] पीछे से आठ आज्य भागों को जाने १, (अथ यः हरिणीं ज्योतिष्पक्षां सर्वैः यज्ञैः यजमानं स्वर्गं लोकम् अभिवहन्तीं गायत्रीं विद्यात् २) फिर जो सुवर्ण मूर्ति, ज्योति के पंख वाली, सब यज्ञों के द्वारा यजमान को स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाली गायत्री को [कण्डिका १०] जाने २, (अथ यः पंचपदां सप्तदशाक्षरां सर्वैः यज्ञैः यजमानं स्वर्गं लोकम् अभिवहन्तीं पङ्क्तिं विद्यात् ३) फिर जो पांच पाद वाली, सत्रह अक्षर वाली, सब यज्ञों के द्वारा यजमान को स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाली पङ्क्ति को [क० १०] जाने ३, (अस्मै निष्कं प्रयच्छन् सः ह वै अनूचानः उवाच, स्वैदायनाः सुवर्णं वै सुवर्णविदे ददामि इति) उस [जानकर] पुरुष को हार देता हुआ वही अनूचान [अङ्ग उपाङ्ग सहित वेदों का जानने वाला उद्दालक] बोला—हे स्वैदायन के लोगो ! सुवर्ण [सोने का हार] सुवर्ण [सुन्दर वरणीय स्वीकरणीय व्यवहार] जानने वाले को दूंगा । (तत् उपयम्य निश्चक्राम) यह निश्चित करके वह बाहिर गया, (तत्र अपव्राज यत्र इतरः बभूव) और वहां पहुंचा जहां दूसरा [स्वैदायन] था । (तं ह पप्रच्छ किम् एषः गोतमस्य पुत्रः इति) उस से उस [स्वैदायन] ने पूछा—क्या यह गोतम का पुत्र है ? (ह उवाच एषः ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रः इति) वह [उद्दालक] बोला—यह [मैं] ब्रह्मा [चारो वेद जानने वाला] और ब्रह्मा [चारो वेद जानने वाले] का पुत्र है, (यत् एनं कश्चित् उपवदेत उत मीमांसेत ह वा अस्य मूर्द्धा विपतेत् वा प्राणाः एनं जह्युः इति) जो कोई इसके साथ शास्त्रार्थ करे और अथवा विचार करे अथवा इसका मस्तक गिर पड़े अथवा इसको प्राण छोड़ देवे—(ते मिथः एव चिक्रन्देयुः = विक्रन्देयुः) वे आपस में चिल्लाने लगे । (विप्रापव्राज यत्र इतरः बभूवुः = बभूव) वह [स्वै-

८—(हरिणीम्) श्यास्त्याहजविभ्य इनच् । उ० २ । ४६ । हृञ् हरणे—
इनच्, डीप् । दुःखहरणशीलाम् । सुवर्णप्रतिमाम् (सुवर्णविदे) कवृजृस्ति० ।
उ० ३ । १० । वृञ् वरणे—नप्रत्ययः + विद् ज्ञाने—क्विप् । सुष्ठु वरणीयस्य
स्वीकरणीयस्य व्यवहारस्य ज्ञाने (उपयम्य) निश्चित्य (निश्चक्राम) वहिर्जगाम
(अपव्राज) वलोपः । अपवव्राज । अपजगाम (मीमांसेत) विचारयेत् (जह्युः)
ओहाक् त्यागे—वि० लि० । त्यजेयुः (चिक्रन्देयुः) क्रन्द आह्वाने वैकृत्ये च,
आर्षरूपम् । आक्रोशं कृतवन्तः (विप्रापव्राज) वि + प्र + अप + वव्राज । (बभूवुः)
आर्षं बहुवचनम् । बभूव (उपोदेयुः) उप + उत् + आ + ईयुः । समीपे आजग्मुः
(व्याचक्षीय) व्याख्यानं कुर्याम् (व्याचक्षे) व्याख्यातवान् ॥

दायन वहां पहुंचा जहां दूसरा [उद्दालक] था । (प्रातः ते समित्पाणयः उपो-
 देयुः, भवन्तम् उपयामः इति) वे [स्वैदायन] प्रातःकाल समिधायें हांथ में
 लिये हुये पहुंचे [और बोले]—हम आपके पास आये हैं । (किमर्थम् इति)
 [उद्दालक बोला] किस लिये । (यान् एव प्रश्नान् भवान् नः ह्य [=ह्यः]
 अपृच्छत्, यान् एव नः भवान्, तान् व्याचक्षीय इति) [स्वैदायन बोला] जिन
 प्रश्नों को हमसे आप ने कल्याण पूछा था, जिन को हम से आप ने [पूछा था],
 उन को मैं बताऊं । (तथा इति) [उद्दालक बोला] वैसा ही हो । (तेभ्यः एतान्
 प्रश्नान् व्याचक्षे) उन [उद्दालक] को उस [स्वैदायन] ने यह प्रश्न बताये ॥८॥

भावार्थ—विद्वान् लोग विद्वानों से सत्कार पूर्वक प्रश्नोत्तर करके सत्य
 का निर्णय करें ॥ ८ ॥

कण्डिका ६ ॥

यत्पुरस्तात् वेदेः प्रथमं वर्हिस्तृणाति तस्मादिमाः प्रजाः शिरस्तः प्रथमं
 लोमशा जायन्ते १, यदपरमिव प्रस्तरमनुस्तृणाति तस्मादासामपरमिव श्मश्रुण्यु-
 पकक्षाण्यन्यानि लोमानि जायन्ते २, यत् प्राग्वर्हिषः प्रस्तरमनुप्रहरति तस्मादिमाः
 प्रजाः शिरस्तः प्रथमं पलिता भवन्ति ३, यदन्ततः सर्वमेवानुप्रहरति तस्माद-
 न्ततः सर्वा एव पलिता भवन्ति ४, यत्प्रयाजा अपुरोऽनुवाक्यावन्तो भवन्ति
 तस्मादिमाः प्रजा अदन्तिका जायन्ते ५, यद्वर्षीणि पुरोऽनुवाक्यावन्ति भवन्ति
 तस्मादासामपरमिव जायन्ते ६, यदनुयाजा अपुरोऽनुवाक्यावन्तो भवन्ति तस्मा-
 दासां सप्तवर्षाष्टवर्षाणां प्रभिद्यन्ते ७, यत्पत्नीसंयाजाः पुरोऽनुवाक्यावन्तो भवन्ति
 तस्मादासां पुनरेव जायन्ते ८, यत्समिष्टयजुरपुरोऽनुवाक्यावद्भवति तस्मादन्ततः
 सर्व एव प्रभिद्यन्ते ९, यद्गायत्र्याऽनूच्य त्रिष्टुभा यजति तस्मादधरे दन्ताः पूर्वे
 जायन्ते १०, पर उत्तरे ११, यद्वाऽनूच्य यजुषा यजति तस्मादधरे दन्ता अणीयांसः
 हसीयांसः १२, प्रथीयांसो वर्षीयांस उत्तरे १३, यदाधारौ दीर्घतरौ प्राश्वावाधार-
 यति तस्मादिमौ दंष्ट्रौ दीर्घतरौ १४, यत् संयाज्ये सञ्छन्दसी तस्मात् समे इव
 जम्भे १५, यच्चतुर्थे प्रयाजे समानयति तस्मादिमे श्रोत्र अन्ततः समे इव दीर्घे १६,
 यज्जपं जपित्वाऽभिहिङ्करोति तस्मात् पुमांसः श्मश्रुवन्तो १७, ऽश्मश्रुव स्त्रियः
 १८, यत् सामिधेनीः सत्तर्चनाह तस्मादासां सन्ततमिव शरीरं भवति १९, यत्
 सामिधेन्यः काष्ठहविषो भवन्ति तस्मादासामस्थीनि दृढतराणीव भवन्ति २०,
 यत् प्रयाजा आज्यहविषो भवन्ति तस्मादासां प्रथमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भ-
 वति २१, मन्मध्ये हविषां दध्ना च पुरोडाशेन च प्रचरन्ति तस्मादासां मध्यमे

वयसि रेतः सिकं सम्भवति २२, यदनुयाजा आज्यहविषो भवन्ति तस्मादासा-
मुत्तमे वयसि रेतः सिकं न सम्भवति २३, यदुत्तमेऽनुयाजे सकृदपानिति तस्मा-
दिदं शिशनमुच्चश एति २४, नीचीपद्यते २५, यन्नापानेत् सकृच्छूनं स्याद्यन्मुहुर-
पानेत् सकृत्यन्नं स्यात् तस्मात् सकृदपानिति नेत् सकृच्छूनं स्यात् सकृत्यन्नं
वेति २६ ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ अभावस्या और पूर्णमासी के यज्ञविधान से शरीर की अवस्था का वर्णन ॥

(यत् वेदेः पुरस्तात् प्रथमं बर्हिः स्तृणाति तस्मात् इमाः प्रजाः शिरस्तः
प्रथमं लोमशाः जायन्ते १) [स्वैदायन के उत्तर । प्रश्नों के लिये कण्डिका ७
देखो] जो वेदी के पूर्व में पहिले कुशासन वह बिछाता है, इस लिये यह प्रजायें
शिर पर पहिले लोम वाले होते हैं १ । (यत् अपरम् इव प्रस्तरम् अनुस्तृणाति
तस्मात् आसाम् अपरम् इव श्मश्रूणि उपकक्षाणि अन्यानि लोमानि जायन्ते २)
जो कि पीछे से प्रस्तर [कुशा का मुट्टा] बिछाता है, इस लिये पीछे से इनके
दाढ़ी मूँछ और कांख के और दूसरे लोम उत्पन्न होते हैं २ । (यत् प्राक् बर्हिषः
प्रस्तरम् अनुप्रहरति तस्मात् इमाः प्रजाः शिरस्तः प्रथमं पलिताः भवन्ति ३) जो
पूर्व दिशा में कुशा के मुट्टे को समेट लेता है, इस लिये यह प्रजायें शिर पर पहिले
श्वेत हो जाते हैं ३ । (यत् अन्ततः सर्वम् एव अनुप्रहरति तस्मात् अन्ततः सर्वाः
एव पलिताः भवन्ति ४) जो कि अन्त में सब को ही समेट लेता है, इस लिये
अन्त में सभी श्वेत हो जाते हैं ४ । (यत् प्रयाजाः अपुरोऽनुवाक्यावन्तः भवन्ति
तस्मात् इमाः प्रजाः अदन्तिकाः जायन्ते ५) जो कि प्रयाज [यज्ञाङ्ग विशेष]
पुरोऽनुवाक्या बिना होते हैं, इस लिये यह प्रजायें बिना दांत वाले होते हैं ५ ।
(यत् हवींषि पुरोऽनुवाक्यावन्ति भवन्ति तस्मात् आसाम् अपरम् इव जायन्ते
६) जो कि हवि पुरोऽनुवाक्या वाले होते हैं, इस लिये इन के [दान्त] पीछे
निकलते हैं ६ । (यत् अनुयाजाः अपुरोऽनुवाक्यावन्तः भवन्ति तस्मात् आसाम्

६—(स्तृणाति) आच्छादयति (लोमशाः) लोमवन्तः (प्रस्तरम्) दर्भ-
मुष्टिम् (अनुप्रहरति) संगृह्णाति (पत्नीसंयाजाः) देवपत्नीनां स्तुतियुक्त-
यज्ञाङ्गविशेषाः । देवपत्नयः यथा इन्द्राणी, अश्यायी, वरुणानी, इत्यादयः (आघारौ)
आ+घृ क्षरणे—घञ् । घृतदानहोमविशेषौ (प्राञ्चौ) प्रकर्षेण पूजनीयौ
(आघारयति) समन्तात् सिञ्चति (सामिधेनी) समिधामाधाने षेययण् । वा०
पा० ४ । ३ । १२० । समिधू—षेययण्, षित्वात् ङीष्, यलोपः । अग्निप्रज्वलने

सप्तवर्षाष्टवर्षाणां प्रभिद्यन्ते ७) जो कि अनुयाज [यज्ञविशेष] पुरोऽनुवाक्या बिना होते हैं, इस लिये सात वर्ष आठ वर्ष वालों के [दांत] उखड़ जाते हैं ७ । (यत् पत्नीसंयाजाः पुरोऽनुवाक्यावन्तः भवन्ति तस्मात् आसाम् पुनः एव जायन्ते ८) जो कि देवपत्नियों के यज्ञ पुरोऽनुवाक्या वाले होते हैं, इस लिये इनके [दांत] फिर भी निकल आते हैं ८ । (यत् समिष्टयजुः अपुरोऽनुवाक्यावत् भवति तस्मात् अन्ततः सर्वे एव प्रभिद्यन्ते ९) जो कि समिष्टयजु [यज्ञविशेष] पुरोऽनुवाक्या बिना होता है, इस लिये अन्त में सब ही [दांत] उखड़ जाते हैं ९ । (यत् अनूच्य गायत्र्या त्रिष्टुभा यजति तस्मात् अधरे दन्ताः पूर्वे जायन्ते १० परे उत्तरे ११) जो कि [मन्त्रों को] पढ़ कर गायत्री के साथ और त्रिष्टुप् के साथ यज्ञ करता है, इस लिये नीचे वाले दांत पहिले निकलते हैं १०, और पीछे ऊपर वाले ११ । (यत् अनूच्य ऋचा यजुषा यजति तस्मात् अधरे दन्ताः अणीयांसः, हलीयांसः १२, उत्तरे प्रथीयांसः वर्षीयांसः १३) जो कि [मन्त्रों को] पढ़कर ऋग्वेद के साथ और यजुर्वेद के साथ यज्ञ करता है, इस लिये नीचे वाले दांत अधिक सूक्ष्म और निर्बल होते हैं १२, और ऊपर वाले अधिक चौड़े और सबल होते हैं १३ । (यत् दीर्घतरौ प्राञ्चौ आघारौ आघारयति तस्मात् इमौ दंष्ट्रौ दीर्घतरौ १४) जो कि अधिक लम्बे और अधिक पूजनीय दोनों आघार [घृतदान के होमविशेष] को सींचता है, इस लिये यह [सामने के] दोनों बड़े दांत अधिक लम्बे होते हैं १४ । (यत् संयाज्ये सञ्छन्दसी तस्मात् समे इव जम्भे १५) जो कि दोनों संयाज्य समान छन्द वाले होते हैं, इस लिये दोनों दाढ़ें चौकोर सी हैं १५ । (यत् चतुर्थे प्रयाजे समानयति तस्मात् इमे श्रोत्रे अन्ततः समे इव दीर्घे १६) जो कि चौथे प्रयाज [यज्ञ] में [हवि] समान लाता है, इस लिये यह दोनों कान अन्त में समान से फटे हुये हैं १६ । (यत् जपं जपित्वा अभिहिङ्करोति तस्मात् पुमांसः श्मश्रुवन्तः १७ स्त्रियः अश्मश्रुवः १८) जो जप को जप कर हिङ्कार शब्द करता है, इस लिये पुरुष दाढ़ी मूँछ वाले हाते हैं १७, और स्त्रियां बिना दाढ़ी मूँछ वाली १८ । (यत् सामिधेनीः सतत्त्वं [= संतन्वन्] आह तस्मात् आसां सन्ततम् इव शरीरं भवति १९) जो

अचः (सतत्त्वं = संतन्वन्) सभ्यन् विस्तारयन् (सकृत्) क० ७ । एकवारम् मलम् । वीर्यम् (अपानिति) अपानयति । अश्रौ हविःशेषं क्षिपति (सकृच्छूनम्) सकृत् । वीर्येण शून्यम् (अपानेत्) प्रक्षिपेत् (सकृत्) वीर्ये (अन्नम्) अन्नरसः (वेति) वी गत्यादिषु । गच्छति ॥

कि सामिधेनी ऋचाओं [अग्नि जलाने के मन्त्रों] को फैलाता हुआ बोलता है, इस लिये इन [प्रजाओं] का फैला हुआ सा शरीर होता है १६ । (यत् सामिधेन्यः काष्ठहविषः भवन्ति तस्मात् आसात् अस्थोनि दृढतराणि इव भवन्ति २०) जोकि सामिधेनी ऋचायें काष्ठ के हवि वाली होती हैं, इस लिये इनकी हड्डियां अधिक दृढ़ होती हैं २० । (यत् प्रयाजाः आज्यहविषः भवन्ति, तस्मात् आसां प्रथमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति २१) जो कि प्रयाज [यज्ञ] जमे हुये घी के हवि वाले होते हैं, इस लिये इन [प्रजाओं] की पहिली अवस्था में वीर्य सींचा हुआ नहीं निकलता है २१ । (यत् हविषां मध्ये दध्ना च पुरोडाशेन च प्रचरन्ति तस्मात् आसां मध्यमे वयसि रेतः सिक्तं सम्भवति २२,) जो हवियों के मध्य में दही से और पुरोडाश [मालपूये] से हवन करते हैं, इस लिये इनकी मध्यम अवस्था में वीर्य सींचा हुआ निकलता है २२ । (यत् अनुयाजाः आज्यहविषः भवन्ति तस्मात् आसाम् उत्तमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति २३,) जो अनुयाज [पिछले यज्ञ] जमे हुये घी वाले होते हैं, इस लिये इनकी पिछली अवस्था में वीर्य सींचा हुआ नहीं निकलता है २३ । (यत् उत्तमे अनुयाजे सकृत् अपानिति तस्मात् इदं शिशनम् उच्चशः एति २४, नीची-पद्यते २५) जो कि सब से पिछले अनुयाज में सकृत् [एक बार, शेष हवि उठा कर] गिराता है, इस लिये यह मनुष्य लिङ्ग ऊंचा जाता है २४, और नीचा होता है २५ । (यत् न अपानेत् सकृच्छूनं स्यात्) जो [हवि] न गिरावे, [लिङ्ग] सकृच्छून [वीर्य शून्य] हो जावे, (यत् मुहुः अपानेत् सकृत् अन्नं स्यात्) और जो बार बार [हवि को] गिरावे, सकृत् [वीर्य] में अन्न [का रस] होवे, (तस्मात् सकृत् अपानिति सकृच्छूनं नेत् स्यात्) इस लिये सकृत् एक बार, [हवि को उठ कर] गिरावे और वह सकृच्छून [वीर्यशून्य] न होवे, (सकृत् अन्नं वेति) सकृत् [वीर्य] में अन्न [का रस] पहुंचता है २६ ॥ ६ ॥

भावार्थ—करिडका ७ के प्रश्न देखो ॥ ६ ॥

करिडका १० ॥

अथ ये पुरस्तादष्टावाज्यभागाः पञ्च प्रयाजा द्वावाघारौ द्वावाज्यभागावाग्नेया आज्यभागानां प्रथमः सौम्यो द्वितीयो हविर्भागानां हविर्होव सौम्यमाग्नेयः पुरोडाशोऽग्निषोमीय उपांशुयाजोऽग्नीषोमीयः पुरोडाशोऽग्निः स्विष्टकृदित्येते मध्यतः पञ्च हविर्भागाः । अथ ये षट् प्राजापत्या इडा च प्राशित्रश्च यच्चाग्नीध्रीयावद्यति, ब्रह्मभागो यजमानभागोऽन्वाहार्य एव षष्ठोऽथ य उपरिष्ठादष्टावाज्य-

भागारुयोऽनुयाजाश्चत्वारः पत्नीसंयाजाः समिष्टयजुरष्टममथ या गायत्री हरिणी
ज्योतिष्पत्न्या सर्वैर्यज्ञैर्यजमानं स्वर्गं लोकमभिवहति, वेदिरेव सा, तस्य ये पुरस्ता-
दष्टावाज्यभागाः स दक्षिणः पक्षेऽथ ये उपरिष्टादष्टावाज्यभागाः स उत्तरः पक्षः,
हवीष्यात्मा, गार्हपत्यो जघनमाहवनीयः शिरः, सौवर्णराजतौ पक्षौ, तद्यदादित्यं
पुरस्तात् पर्यन्तं न पश्यन्ति तस्मादज्योतिष्क उत्तरो भवति । अथ या पङ्क्तिः
पञ्चपदा सप्तदशाक्षरा सर्वैर्यज्ञैर्यजमानं स्वर्गं लोकमभिवहति याज्येव सा, तस्या
आं श्रावयेति चतुरक्षरम्, अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरं, यजेति द्रव्यक्षरं, ये यजा-
मह इति पञ्चाक्षरं, द्रव्यक्षरो वै वषट्कारः, सैषा पङ्क्तिः पञ्चपदा सप्तदशाक्षरा
सर्वैर्यज्ञैर्यजमानं स्वर्गं लोकमभिवहति, तद्यत्रास्यैश्वर्यं स्याद्यत्र वैनमभिवहेयुरे-
वंविदमेव तत्र ब्रह्माणं वृणीयान्मानेवंविदमिति ब्राह्मणम् ॥ १० ॥

करिडका १० ॥ करिडका ८ के यज्ञ सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर ॥

(अथ ये पुरस्तात् अष्टौ आज्यभागाः, आज्यभागानां पंचप्रयाजाः, द्वौ
आज्यभागौ द्वौ आधारी आग्नेयौ, प्रथमः द्वितीयः सौम्यः) [सौदायन ने उत्तर
दिये—करिडका ८ देखो] फिर जो पहिले आठ आज्य भाग [घी की आहु-
तियां] हैं, उन आज्य भागों में पांच प्रयाज [पांच प्राण देवता वाली आहुतियां
—प्राणाः वै प्रयाजाः—ऐतरेय ब्राह्मण १ । ११] ५, दो आज्य भाग दो आधार
[नामक आहुति] दोनों आग्नेय [अग्नि देवता वाली] और पहिली और दूसरी
सौम्य [एक सोम देवता की] है । (हविर्भागानां हविः हि एव सौम्यम्,
आग्नेयः पुरोडाशः, अग्निषोमीयः उपांशुयाजः, अग्निषोमीयः पुरोडाशः,
अग्निः स्विष्टकृत् इति एते मध्यतः पंचहविर्भागाः) हविर्भागों में हवि ही
सोम देवता का है १, अग्नि का पुरोडाश २, अग्नि और सोम का उपांशु याज
[मौन आहुति] ३, अग्नि और सोम का पुरोडाश ४, अग्नि का स्विष्टकृत्
[आहुति] है ५, यह मध्य के पांच हविर्भाग हैं । (अथ ये षट् प्राजापत्याः,
इडा च प्राशिन्नं च यत् च आग्निधीयौ अद्यति, ब्रह्मभागः, अन्वाहार्यः यजमान-

१०—(सौम्यः) सोमदेवताकः (उपांशुयाजः) अप्रकाशमन्त्रयज्ञः (प्राशि-
न्नम्) प्र+अश भोजने—इत्रन् । प्राशनम् (इडा) इल गतौ क्षेपे च—क, टाप् ।
पृथिवी । गौः । वाक्, (अद्यति) आर्षं दिवादित्वम् । अत्ति भक्षति (अन्वाहार्यः)
अनु+आ+हृञ् हरणे—एयत् । प्रतिमासकर्तव्याऽमवास्याविहितश्राद्धापेतः
(पुरस्तात्) पूर्वस्यां दिशि (पर्यन्तम्) परिगतौ अन्तो येन तम् । (याज्या)
यजते—एयत् । याजनीया । इष्टिः (श्रौषट् श्रु श्रवणे—डौषटि । यज्ञादौ हविर्दा-

भागः, एव षष्ठः) और जो छह प्राजापत्य] प्रजापति देवता की आहुति हैं उनमें] इडा भूमि नामक] १, और प्राशित्र [प्राशन वा ओदन नामक] २, और जो दो आग्नीध्रीय [आग्नीध्र वाली दो आहुति को अग्नि] खाता है ३, ४, ब्रह्मा का भाग ५, और प्रति मास अमावस को करने योग्य आद्ध वाला यजमान का भाग छठा है ६ । (अथ ये उपरिष्ठात् अष्टौ आज्यभागाः, अथः अनुयाजाः, चत्वारः पत्नीसंयाजाः अष्टमं समिष्टयजुः) और जो पिछले आठ आज्य भाग हैं, [उन में] तीन अनुयाज, चार पत्नी संयाज और आठवां समिष्टयजु है । (अथ या गायत्री हरिणी ज्योतिष्पत्ता सर्वैः यज्ञैः यजमानं स्वर्गं लोकं अभिवहति सा वेदिः एव) और जो गायत्री सुवर्ण मृत्ति, ज्योति के पंख वाली होकर सब यज्ञों के द्वारा यजमान को स्वर्ग लोक में पहुंचाती हैं, वह वेदी [यज्ञ कुण्ड] ही है । (तस्य ये पुरस्तात् अष्टौ आज्यभागाः स दक्षिणः पक्षः, अथ ये उपरिष्ठात् अष्टौ आज्यभागाः स उत्तरः पक्षः, हवींषि आत्मा, गार्हपत्यः जघनम्, आहवनीयः शिरः, सौवर्णराजतौ पत्नी) उस [यजमान] के जो पहिले आठ आज्य भाग हैं वह [वेदी का] दाहिना पंख है, और जो पीछे वाले आठ आज्य भाग हैं वह बायां पंख है, सब हवि आत्मा हैं, गार्हपत्य [अग्नि] जंघा है, आहवनीय शिर है, खेले और चांदी वाले दोनों पंख हैं, (तत् यत् आदित्यं पुरस्तात् पर्यन्तं न पश्यन्ति तस्मात् अज्योतिष्कः उत्तरः भवति) सो जो सूर्य को पूर्व से पश्चिम में जाता हुआ नहीं देखते हैं इस लिये बिना ज्योति वाला पिछला [यज्ञ वा पक्ष] होता है । [अर्थात् सूर्य को अवश्य देखे जिस से ज्योति बढ़े] । (अथ या पङ्क्तिः पंचपदा सप्तदशाक्षरा सर्वैः यज्ञैः यजमानं स्वर्गं लोकम् अभिवहति सा याज्या इव) और जो पङ्क्ति पांच पाद वाली सत्रह अक्षर वाली होकर सब यज्ञों के द्वारा यजमान को स्वर्ग लोक में पहुंचाती है वह याज्या [नाम वाली इष्टि] ही है । (तस्याः ओं आवय इति चतुरक्षरम्, अस्तु श्रौषट् इति चतुरक्षरम्, यज इति द्व्यक्षरं, ये यजामहे इति पंचाक्षरं, द्व्यक्षरः वै वषट्कारः) उस [याज्या] के ओं आवय [ओं को तू सुना] यह चार अक्षर वाला है, अस्तु श्रौषट् [श्रौषट् होवे] यह चार अक्षर वाला है, यज [यज्ञ कर] यह दो अक्षर वाला है, ये यजामहे [जो हम यज्ञ करते हैं] यह पांच अक्षर वाला है, वषट् [यह शब्द] दो अक्षर वाला ही है । (सा एषा पङ्क्तिः

नम् (वषट्कारः) वह प्रापणे—डषटि+कृञ्+घञ् । देवोद्देश्यकहविस्त्यागः (वृषीवात्) स्त्रीकुर्यात् (अनेवंविद्म्) अनेवंविधक्वात्तारम् ॥

पंचपदा सप्तदशाक्षरा सर्वैः यज्ञैः यजमानं स्वर्गं लोकम् अभिवहति) सो यही पङ्क्ति पांच पाद वाली और सत्रह अक्षर वाली होकर सब यज्ञों के द्वारा यजमान को स्वर्ग लोक में पहुंचाती है (तत् यत्र अस्य ऐश्वर्यं स्यात्, वा यत्र एनम् अभिभवेयुः एवंविदम् एव तत्र ब्रह्माणं वृणीयात् न अनेवंविदम् इति ब्राह्मणम्) सो जहां [यज्ञ में] इस [यजमान] का ऐश्वर्य होवे, अथवा जहां इस को [शत्रु लोग] हरावें, वहां ऐसे जानकार को ही ब्रह्मा चुने, ऐसे न जानने वाले को नहीं, यह ब्राह्मण है ॥ १० ॥

भावार्थ—यथाविधि यज्ञ करने से मनुष्य कार्यसिद्धि करें ॥ १० ॥

कण्डिका ११ ॥

अथ ह प्राचीनयोग्य आजगामाग्निहोत्रं भवन्तं पृच्छेद् गोतम इति, पृच्छु प्राचीनयोग्येते । किन्देवत्यं ते गर्वाङ्गायां १, किन्देवत्यमुपहृतायां २, किन्देवत्यमुपसृष्टायां ३, किन्देवत्यं वत्समुन्नीयमानं ४, किन्देवत्यं वत्समुन्नीतं ५, किन्देवत्यं दुह्यमानं ६, किन्देवत्यं दुग्धं ७, किन्देवत्यं प्रक्रम्यमाणां ८, किन्देवत्यं ह्रियमाणां ९, किन्देवत्यमधिशीयमाणां १०, किन्देवत्यमधिश्चितं ११, किन्देवत्यमभ्यवज्ज्वाल्यमानं १२, किन्देवत्यमभ्यवज्ज्वालितं १३, किन्देवत्यं समुद्रान्तं १४, किन्देवत्यं विष्यन्नं १५, किन्देवत्यमद्भिः प्रत्यानीतं १६, किन्देवत्यमुद्रास्यमानं १७, किन्देवत्यमुद्रासितं १८, किन्देवत्यमुन्नीयमानं १९, किन्देवत्यमुन्नीतं २०, किन्देवत्यं प्रक्रम्यमाणां २१, किन्देवत्यं ह्रियमाणां २२, किन्देवत्यमुपसाद्यमानं २३, किन्देवत्यमुपसादितं २४, किन्देवत्यासमित् २५, किन्देवत्यां प्रथमामाहुतिमहौषीः २६, किन्देवत्यं गार्हपत्यमवेक्षिष्ठाः २७, किन्देवत्योत्तराहुतिः २८, किन्देवत्यं हुत्वा स्रुचं त्रिरुदञ्चमुन्नैषीः २९, किन्देवत्यं वहिषि स्रुचन्निधायोन्मृज्योत्तरतः पाणी निर्मात्सीः ३०, किन्देवत्यं द्वितीयमुन्मृज्य पित्र्युपवीतं कृत्वा दक्षिणतः पितृभ्यः स्वधामकार्षीः ३१, किन्देवत्यं प्रथमं प्राशीः ३२, किन्देवत्यं द्वितीयं ३३, किन्देवत्यमन्ततः सर्वमेवाप्राशीः ३४, किन्देवत्यमप्रक्षालितयोदकं स्रुचा न्यनैषीः ३५, किन्देवत्यं प्रक्षालितया ३६, किन्देवत्यमपरेणाहवनीयमुदकं स्रुचा न्यनैषीः ३७, किन्देवत्यं स्रुचं श्रुचञ्च प्रत्यताप्सीः ३८, किन्देवत्यं रात्रौ स्रुग्दण्डमवमार्शीः ३९, किन्देवत्यं प्रातरुन्मार्शीरित्येतच्चेद्वेत्य ४०, गोतम हुतं, चेद्यद्यु न वेत्थाहुतं त इति ब्राह्मणम् ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ प्राचीनयोग्य मुनि के उद्दालक से
अग्निहोत्र विषयक चालीस प्रश्न ॥

(अथ ह प्राचीनयोग्यः आजगाम) फिर प्राचीनयोग्य [सनातन वेदों में समर्थ मुनि विशेष] आया । (अग्निहोत्रं भवन्तं पृच्छेत् गोतम इति) [उस ने कहा] अग्निहोत्र को आप से यह पूछेगा, हे गोतम!! (पृच्छ प्राचीनयोग्य इति) [उद्दालक ने कहा—क० ६] पूछ, हे प्राचीनयोग्य । [प्राचीनयोग्य बोला] (किंदेवत्यं ते इडायां गवि १) तेरी इडा [पाने योग्य] गौ [यज्ञ के लिये दूध देने वाली कामधेनु] में कौन देवता वाला कर्म है १, (किंदेवत्यम् उपहृतायाम् २) उस बुलाई हुई में कौन देवता वाला कर्म है २, (किंदेवत्यम् उपसृष्टायाम् ३) उस पास आयी हुई में कौन देवता वाला कर्म है ३, (वत्सम् उन्नीयमानम् किंदेवत्यम् ४) बछड़े को लाया जाता हुआ कर्म कौन देवता वाला है ४, (वत्सम् उन्नतं किंदेवत्यम् ५) बछड़ा लाया गया कर्म कौन देवता वाला है ५, (दुह्यमानं किंदेवत्यम् ६) दुहता हुआ कर्म क्या देवता है ६, (दुग्धं किंदेवत्यम् ७) दूध क्या देवता है ७, (प्रक्रम्यमाणं किंदेवत्यम् ८) घुमाया जाता हुआ [दूध] क्या देवता है ८, (हियमाणं किंदेवत्यम् ९) लिया जाता हुआ [दूध] क्या देवता है ९, (अधिभ्रीयमाणं किंदेवत्यम् १०) रक्खा जाता हुआ दूध क्या देवता है १०, (अधिश्रितं किंदेवत्यम् ११) रक्खा गया दूध क्या देवता है ११, (अभ्यवज्वालयमानं किंदेवत्यम् १२) औटता हुआ दूध क्या देवता है १२, (अभ्यवज्वालितं किंदेवत्यम् १३) औटा हुआ दूध क्या देवता है १३, (समुद्धान्तं किंदेवत्यम् १४) उफनता हुआ दूध क्या देवता है १४, (विष्यन्नं किंदेवत्यम् १५) बहता हुआ दूध क्या देवता है १५, (अद्भिः प्रत्यानीतं किंदेवत्यम् १६) जल से लौटा दिया गया दूध क्या देवता है १६, (उद्वास्यमानं

११—(प्राचीनयोग्यः) प्राचीनेषु सनातनेषु वेदेषु योग्यः समर्थः । मुनि-विशेषः (किन्देवत्यम्) किम् + देवता—यत् । किंदेवताविषयकं कर्म (गवि) यज्ञार्थं दुग्धदात्र्यां धेनौ (इडायाम्) इल गतौ—क, टाप् लस्य डः । प्रापणीयायां गवि (उपसृष्टायाम्) संगतायाम् (वत्सम्) गोशिशुम् (प्रक्रम्यमाणम्) मथ्यमानम् (हियमाणम्) निःस्त्रियमाणम् (समुद्धान्तम्) सम् + उत् + टुवम् उद्गिरणे—क्त । उद्गीर्णम् । उद्गतम् (विष्यन्नम्) वि + स्यन्दू प्रस्रवणे—क्त । प्रस्रुतम् (उद्वास्यमानम्) विसृज्यमानम् (उद्वासितम्) विसृष्टम् (उपसा-

किंदेवत्यम् १७) छोड़ा जाता हुआ दूध क्या देवता है १७, (उद्वासितं किं-
 वत्यम् १८) छोड़ा हुआ दूध क्या देवता है १८, (उन्नीयमानं किंदेवत्यम् १९
 ऊपर लाया जाता हुआ [नवनीत माखन] क्या देवता है १९, (उन्नीतं किंदे-
 वत्यम् २०) ऊपर लाया गया नवनीत क्या देवता है २०, (प्रक्रम्यमाणं किंदेव-
 त्यम् २१) घुमाया जाता हुआ नवनीत क्या देवता है २१, (ह्वियमाणं किंदेव-
 त्यम् २२) लिया जाता हुआ नवनीत क्या देवता है २२, (उपसाद्यमानं किंदे-
 वत्यम् २३) पास लाया जाता हुआ नवनीत क्या देवता है २३, (उपसादितं
 किंदेवत्यम् २४) पास रक्खा गया नवनीत क्या देवता है २४, (समित् किंदे-
 वत्या २५) समिधा कौन देवता वाली है २५, (किंदेवत्यां प्रथमाम् आहुतिम्
 अहौषीः २६) कौन देवता वाली पहिली आहुति को तूने दिया है २६, (किंदे-
 वत्यं गार्हपत्यम् अवेक्षिष्ठाः २७) कौन देवता वाली गार्हपत्य अग्नि वाली हवि
 को तूने विचारा है २७, (किंदेवत्या उत्तरा आहुतिः २८) कौन देवता वाली
 पिछली आहुति है २८, (किंदेवत्यं हुत्वा उदञ्चं स्रुचं त्रिः उन्नैषीः २९) कौन
 देवता वाली हवि को देकर उत्तर ओर रक्खी हुई स्रुचा [वट के पत्ते के
 समान रूप वाला विकडूट काठ का बना हुआ भुजा तुल्य चमचा] को तीन बार
 तूने उठाया है २९, (किंदेवत्यं स्रुचं वहिषि निधाय उन्मृज्य उत्तरतः पाणौ
 निर्माक्षीः = निर्माक्षीः ३०) कौन देवता वाली स्रुचा को कुशासन पर धर के और
 धोकें उत्तर की ओर दोनों हाथों को तूने धोया है ३०, (किंदेवत्यं द्वितीयम्
 उन्मृज्य पित्र्युपवीतं कृत्वा दक्षिणतः पितृभ्यः स्वधाम् अकार्षीः ३१) कौन
 देवता वाली दूसरी [स्रुचा] को धाकर पित्र्य [पितृतीर्थ अर्थात् तर्जनी
 और अंगूठे के बीच] में यज्ञोपवीत करके दक्षिण ओर में पितरों [बड़े बूढ़े
 विद्वानों] के लिये तूने स्वधा [अन्न] किया है ३१, (किंदेवत्यं प्रथमं प्राशीः
 ३२) कौन देवता वाली पहिली [हवि] को तूने खाया है ३२, (किंदेवत्यं
 द्वितीयम् ३३) कौन देवता वाली दूसरी [हवि को तूने खाया है] ३३, (किंदे-
 वत्यं सर्वम् एव अन्ततः आप्राशीः ३४) कौन देवता वाली सब ही [हवि] को

दितम्) समीपे स्थापितम् (अहौषीः) हु होमे—लुङ् । हुतवान् असि (अवे-
 क्षिष्ठाः) अव + ईक्ष् दर्शने—लुङ्, अडभावः । दृष्टवानसि (स्रुचम्) यज्ञपा-
 त्रम् (उदञ्चम्) उदङ्मुखं कृत्वा (उत्तरतः) उत्तरस्यां दिशि (निर्माक्षीः =
 निर्माक्षीः) निर + मृजू शोधने—लुङ् । नितरां शोधितवानसि (पित्र्युपवीतम् =
 पित्र्योपवीतम्) पित्र्यं पितृतीर्थे तर्जन्यङ्गुष्ठयोर्मध्ये स्थितं यज्ञोपवीतम् ।

तू ने खा लिया है ३४, (किंदेवत्यम् उदकम् अप्रक्षालितया स्नुचा न्यनैषीः ३५) कौन देवता वाले जल को बिना धुली हुई स्नुचा से तू ने गिराया है ३५, (किंदेवत्यं प्रक्षालितया ३६) कौन देवता वाले [जल] को धुली हुई [स्नुचा] से [गिराया है] ३६, (किंदेवत्यं उदकम् अपरेण स्नुचा आहवनीयम् न्यनैषीः ३७) कौन देवता वाले जल को दूसरे स्नुचा से आहवनीय अग्नि पर तू ने गिराया है ३७, (किंदेवत्य स्नुचं श्रुचं च प्रत्यताप्सीः ३८) कौन देवता वाले स्नुचा [खैर की लकड़ी का बना हुआ हाथ भर का यज्ञ पात्र] और श्रुचा को तू ने तपाया है ३८, (किंदेवत्यं स्नुग्दण्डं रात्रौ अवमार्त्तीः ३९) कौन देवता वाले स्नुचा के दण्ड को रात्रि में तू ने धोकर रख दिया है ३९, (किंदेवत्यं प्रातः उन्मार्त्तीः इति ४०) कौन देवता वाले [स्नुचा के दण्ड को] प्रातःकाल तू ने धोकर उठाया है ४०, (एतत् चेत् वेत्थ, गोतम, हुतम्, चेत् यदि उ न वेत्थ ते अहुतम् इति ब्राह्मणम्) इस को जो तू जानता है, हे गोतम ! [उहालक ! तेरा] अग्निहोत्र है और जो तू नहीं जानता है, तेरा निषिद्ध अग्निहोत्र है, यह ब्राह्मण है ॥ ११ ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ११ ॥

कण्डिका १२ ॥

स होवाच, रौद्रं मे गवीडायां १, मानव्यमुपहृतायां २, वायव्यमुपसृष्टायां ३, वैराजं वत्समुन्नीयमानं ४, जागतमुन्नीतम् ५, आश्विनं दुह्यमानं ६, सौम्यं दुग्धं ७, वार्हस्पत्यं प्रक्रम्यमाणं ८, द्यावापृथिव्यं हियमाणम् ९, आग्नेयमधिशीयमाणं १०, वैश्वानरीयमधिश्चितं ११, वैष्णवमभ्यवज्वाल्यमानं १२, मारुतमभ्यवज्वालितं १३, पौष्णं समुद्रान्तं १४, वारुणं विष्यन्नं १५, सारस्वतमद्भिः प्रत्यानीतं १६, त्वाष्ट्रमुद्रास्यमान १७, धात्रमुद्रासितं १८, वैश्वदेवमुन्नीयमानं १९, सावित्रमुन्नीतं २०, वार्हस्पत्यं प्रक्रम्यमाणं २१, द्यावापृथिव्यं हियमाणम् २२, ऐन्द्रमुपसाद्यमानं २३, बलायोपसन्नम् २४, आग्नेयी समिद् २५, यां प्रथमामाहुतिमहोषं मामेव तत् स्वर्गे लोकेऽधां २६, यद्गार्हपत्यमवेत्तिषमस्य लोकस्य

(दक्षिणतः) दक्षिणस्यां दिशि (पितृभ्यः) पितृतुल्यमाननीयेभ्यो विद्वद्भ्यः (प्राशीः) अश भोजने—लुङ् । भक्षितवानसि (अप्रक्षालितया) अशोधितया (प्रत्यताप्सीः) प्रत्यक्षेण तप्तवानसि (वेत्थ) विद ज्ञाने—लट् । जानासि (हुतम्) अग्निहोत्रम् (अहुतम्) निषिद्धाग्निहोत्रम् ॥

सन्तत्यै २७, प्राजापत्योत्तरा हुतिः, तस्मात् पूर्णतरा मनसैव सा २८, यद्बधुत्वा
 स्रुचं त्रिरुदञ्चमुन्नैषं रुद्रांस्तेनाप्रैषं २९, यद्बर्हिर्षिं स्रुचं निधायोन्मृज्योत्तरतः
 पाणी निर्माद्विमोषधिवनस्पतौस्तेनाप्रैषं ३०, यद् द्वितीयमुन्मृज्य पित्र्युपवीतं
 कृत्वा दक्षिणतः पितृभ्यः स्वधामकार्षं पितृंस्तेनाप्रैषं ३१, यत्प्रथमम्प्राशिषं प्राणां-
 स्तेनाप्रैषं ३२, यद् द्वितीयं गर्भांस्तेन, तस्मादनश्नन्तो गर्भा जीवन्ति ३३, यदन्ततः
 सर्वमेवाप्राशिषं विश्वान्देवांस्तेनाप्रैषं ३४, यदप्रक्षालितयोदकं स्रुचा न्यनैषं
 सर्पैतरजनांस्तेनाप्रैषं ३५, यत् प्रक्षालितया सर्पपुण्यजनांस्तेन ३६, यदपरेणाह-
 वनीयमुदकं स्रुचा न्यनैषं गन्धर्वाप्सरसस्तेनाप्रैषं ३७, यत् श्रुचं स्रुचञ्च प्रत्य-
 ताप्सं सप्तऋषींस्तेनाप्रैषं ३८, यद्रात्रौ स्रुग्दण्डमवमादर्यं ये रात्रौ संविशन्ति
 दक्षिणांस्तमुन्नैषं ३९, यत् प्रातरुन्मादर्यं ये प्रातः प्रव्रजन्ति दक्षिणांस्तामुन्नैष-
 मिति ४०, ब्राह्मणम् ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ प्राचीनयोग्य के ४० प्रश्नों के उद्दालक के
 दिये उत्तर ॥

(सः इ उवाच) वह [उद्दालक] बोला—(रौद्रं मे इडायां गवि १)
 रुद्र [शत्रुओं का रुलाने वाला शूरवीर] देवता वाला कर्म मेरी प्राप्ति योग्य गौ
 में है १, (मानव्यम् उपहूतायाम् २) मानव [मननशील मनुष्य] देवता वाला
 कर्म उस बुलाई हुई में है २, (वायव्यम् उपसृष्टायाम् ३) वायु [गति वाला
 पवन] देवता वाला कर्म उस पास आयी हुई में है ३, (वैराजं वत्सम् उन्नीय-
 मानम् ४) विराट् [विविध प्रकाशवाले] देवता वाला कर्म बछड़े को लाया
 जाता हुआ कर्म है ४, (जागतम् उन्नीतम् ५) जगत् [संसार] देवता वाला
 कर्म लाया गया [बछड़ा] है ५, (आश्विनं दुह्यमानम् ६) दोनों अश्वी [स्त्री
 पुरुष] देवता वाला दुहा जाता हुआ कर्म है ६, (सोम्यं दुग्धम् ७) सोम [सोम-
 लता ओषधि] देवता वाला दूध है ७, (वार्हस्पत्यं प्रक्रम्यमाणम् ८) बृहस्पति
 [बड़ी विद्याओं का स्वामी] देवता वाला घुमाया जाता हुआ दूध है ८,
 (द्यावापृथिव्यं ह्रियमाणम् ९) द्यावापृथिवी [सूर्य और भूमि] देवता वाला
 लिया जाता हुआ दूध है ९, (आग्नेयम् अधिश्रीयमाणम् १०) अग्निदेवता

१२—(रौद्रम्) रुद्रदेवत्यम्, रुद्रः शत्रुरोदकः शूरवीरः (मानव्यम्)
 ब्राह्मणमाणववाडवाद् यन् । पा० ४ । २ । ४२ । मानव—यन् । मानवसमूह-
 देवताकम् । मानवो मननशीलो मनुष्यः (वायव्यम्) वाय्वृतुपित्रुषसो यत् ।
 पा० ४ । २ । ३१ । वायु—यत् । वायुदेवताकम् (वैराजम्) विराज्—अण् ।

वाला रक्खा जाता हुआ दूध है १०, (वैश्वानरीयम् अधिश्रितम् ११) वैश्वानर [सब नरों का हितकारक] देवता वाला रक्खा गया दूध है ११, (वैष्णवम् अभ्यवज्वालयमानम् १२) विष्णु [व्यापक अग्नि] देवता वाला ओटता हुआ दूध है १२, (मारुतम् अभ्यवज्वालितम् १३) मरुत् [वायु] देवता वाला ओटा हुआ दूध है १३, (पौष्णं समुद्रान्तम् १४) पूषा [पुष्ट करने वाला सूर्य] देवता वाला उफनता हुआ दूध है १४, (वारुणं विष्यन्नम् १५) वरुण [जल] देवता वाला बहता हुआ दूध है १५, (सारस्वतम् अद्भिः प्रत्यानीतम् १६) सरस्वती [जल वाली नदी] देवता वाला जल से लौटा दिया गया दूध है १६, (त्वाष्ट्रम् उद्वास्यमानम् १७) त्वष्ट्रा [सूक्ष्म बनाने वाला विद्वान्] देवता वाला छोड़ा जाता हुआ दूध है १७, (धात्रम् उद्वासितम् १८) धाता [सब का धारण करने वाला] देवता वाला छोड़ा हुआ दूध है १८, (वैश्वदेवम् उन्नीयमानम् १९) विश्वे देवा [सब दिव्य गुण] देवता वाला ऊपर लाया जाता हुआ [नवनीत माखन] है १९, (सावित्रम् उन्नीतम् २०) सविता [सर्वधरेक] देवता वाला ऊपर लाया गया नवनीत है २०, (वार्हस्पत्यं प्रक्रम्यमाणम् २१) बृहस्पति [बड़ी विद्याओं का स्वामी] देवता वाला घुमाया जाता हुआ नवनीत है २१, (द्यावापृथिव्यं ह्रियमाणम् २२) द्यावापृथिवी [सूर्य और भूमि] देवता वाला लिया जाता हुआ नवनीत है २२, (ऐन्द्रम् उपसाद्यमानम् २३) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले] देवता वाला पास लाया जाता हुआ नवनीत है २३, (वलाय उपसन्नम् २४) बल के लिये पास रक्खा गया नवनीत है २४, (आग्नेयी समित् २५) अग्नि देवता वाली समिधा है २५, (थां प्रथमाम् आहुतिम् अहौषम् माम् एव तत् स्वर्गलोके अधाम् २६) जिस पहिली आहुति को मैं ने दिया है, उस से अपने को मैं ने स्वर्गलोक में रक्खा है २६, (यत् गार्हपत्यम् अवेक्षिषम् अस्य लोकस्य संतत्यै २७) जो मैं ने गार्हपत्य अग्नि

विराड्देवताकम् । विराड् विविधैश्वर्यवान् (जागतम्) जगत्—अण् । जगद्देवताकम् (आश्विनम्) अश्विन्—अण् । अश्विदेवताकम् । अश्विनौ स्त्री-पुरुषौ । कुहस्विद् दोषा कुह वस्तोरश्विना—ऋ० १० । ४० । २ (सौम्यम्) सोम—ड्यण् । सोमदेवताकम् । ओषधिः सोमः सुनोते—निरु० ११ । २ (वार्हस्पत्यम्) बृहस्पति—एय । बृहस्पतिदेवताकम् । बृहस्पतिः । बृहतोनां विद्यानां पतिः । वाचस्पतिः (वैश्वानरीयम्) वैश्वानर—छु । वैश्वानरदेवताकम् । वैश्वानरः सर्वनरहितः (वैष्णवम्) विष्णुदेवताकम् । विष्णुः व्यापको-

वाली हवि को विचारा है, वह इस लोक के विस्तार के लिये है २७, (प्राजापत्या उत्तरा आहुतिः, तस्मात् सा पूर्णतरा मनसा एव २८) प्रजापति [प्रजापालक ईश्वर वा गृहस्थ] देवता वाली पिछली आहुति है, इस कारण वह मनस के साथही अधिक पूर्ण है २८, (यत् हुत्वा उदञ्चम् स्रुचं त्रिः उन्नैषं रुद्रान् तंज अप्रैषम् २६) जो हवि देकर उत्तर ओर रक्खी हुई स्रुचा [वट के पत्ते के समान रूप वाला विकङ्कट काष्ठ का बना हुआ भुजा तुल्य चमचा] को तीन बार मैंने उठाया है, रुद्रों [शत्रुनाशक शूरवीरों] को मैंने तृप्त किया है २६, (यत् वहिषि स्रुचं निधाय उन्मृज्य उत्तरतः पाणी निर्माद्यं=निर्माद्यं, तेन ओषधिवनस्पतान् अप्रैषम् ३०) जो कुशासन पर स्रुचा को धर के और धोके उत्तर की ओर दोनों हाथों को मैंने धोया है, उस से ओषधि वनस्पतियों को मैंने तृप्त किया है ३०, (यत् द्वितीयम् उन्मृज्य पित्र्युपवीतं कृत्वा दक्षिणतः पितृभ्यः स्वधाम् अकार्षम् तेन पितृन् अप्रैषम् ३१) जो दूसरी [स्रुचा] को धोकर पित्र्य [पितृतीर्थ अर्थात् तर्जनी और अंगूठे के बीच] में यज्ञोपवीत करके दक्षिण ओर में पितरों [बड़े बूढ़े विद्वानों] के लिये स्वधा [अन्न] मैंने किया है, उस से पितरों [बड़े बूढ़े विद्वानों] को मैंने तृप्त किया है ३१, (यत् प्रथम प्राशिषं तेन प्राणान् अप्रैषम् ३२) जो पहिली [हवि] को मैंने खाया है, उस से प्राणों को मैंने तृप्त किया है ३२, (यत् द्वितीयं तेन गर्भान्, तस्मात् अनन्तः गर्भाः जीवन्ति ३३) जो दूसरी [हवि] को [मैंने खाया है] उस से गर्भों को [मैंने तृप्त किया है], इस कारण बिना खाते हुये [अर्थात् नाभि की नाड़ी से रस खींचते हुये] गर्भ जीते हैं ३३, (यत् अन्ततः सर्वम् एव आप्राशिषं तेन विश्वान् देवान् अप्रैषम् ३४) जो अन्त में सब ही [हवि] को मैंने खालिया है, उस से सब दिव्य गुणों को मैंने तृप्त किया है ३४, (यत् उदकम्

ऽग्निः (मारुतम्) मरुत्—स्वार्थे अण् । वायुदेवताकम् (पाँषणम्) पूषन्—अण् । पूषदेवताकम् । पूषा पाँषकः सूर्यः (वारुणम्) वरुणदेवताकम् । वरुणो जलम् (सारस्वतम्) सरस्वतीदेवताकम् । सरस्वती जलवती नदी (त्वाष्ट्रम्) त्वष्टृदेवताकम् । त्वष्टा सूक्ष्मीकर्ता । विश्वकर्मा (वैश्वदेवम्) सर्व दिव्यगुणदेवताकम् (सावित्रम्) सर्वप्रेरकदेवताकम् (ऐन्द्रम्) ऐश्वर्यवदेवताकम् (अहौषम्) हुनवानस्मि (माम्) आत्मानम् (अधाम्) धारितवानस्मि (प्राजापत्या) प्रजापतिः ईश्वरो गृहस्थो वा, तद्देवताका (रुद्रान्) शत्रुरोदकान् (अप्रैषम्) प्रीब् तर्पणे—लुङ् । तर्पितवानस्मि (प्राशिषम्) प्रक-

अप्रक्षालितया स्त्रुचा न्यनैषं तेन सर्पेतरजनान् अप्रषैम् ३५) जो जल को बिना धुली स्त्रुचा से मैं ने गिराया है, उस से गतिशीलों से भिन्न पामरजनों को मैं ने तृप्त किया है ३५, (यत् प्रक्षालितया तेन सर्पपुण्यजनान् ३६) जो धुली हुई [स्त्रुचा] से [मैं ने जल गिराया है], उस से गतिशील पवित्र आचरण वाले लोगों को [मैं ने तृप्त किया है] ३६, (यत् अपरेण स्त्रुचा उदकम् आहवनीयं न्यनैषं तेन गन्धर्वाप्सरसः अप्रैषम् ३७) जो दूसरी स्त्रुचा से जल को आहवनीय अग्नि पर मैं ने गिराया है, उस से गन्धर्व अप्सरसों [पृथिवी के धारण करने वालों और आकाश में चलने वालों] को मैं ने तृप्त किया है ३७, (यत् श्रुवं स्त्रुचं च प्रत्यताप्सं तेन सप्तऋषीन् अप्रैषम् ३८) जो स्त्रुचा [खैर की लकड़ी का बना हुआ हाथ भर का यज्ञपात्र] और श्रुचा को मैं ने तपाया है, उस से सात ऋषियों [त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि] को मैं ने तृप्त किया है ३८, (यत् रात्रौ स्त्रुग्दण्डम् अवमादर्यं ये रात्रौ संविशन्ति ताम् = तान् दक्षिणान् उन्नैषम् ३९) जो रात्रि में स्त्रुचा के दण्डे को मैं ने धोकर रख दिया है, जो रात्रि में सोते हैं उन चतुर लोगों को मैं ने उठाया है ३९, (यत् प्रातः उन्मादर्यम्, ये प्रातः प्रवृजन्ति ताम् = तान् दक्षिणान् उन्नैषम् ४० इति ब्राह्मणम्) जो प्रातःकाल [स्त्रुचा के दण्डे को मैं ने धोकर उठाया है, जो प्रातःकाल चलते फिरते हैं उन चतुर लोगों को मैं ने उठाया है ४०, यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है १२॥

भावार्थ—दूध वी आदि पदार्थों का उपयोग विचारपूर्वक करना चाहिये ॥ १२ ॥

र्षेण भक्षितवानस्मि (अनशनन्तः) न भक्षन्तः (सर्पेतरजनान्) सर्पन्ति गच्छन्ति सर्पाः गतिशीलाः । इतरः भिन्नः जनः पामरलोकः । गतिशीलेभ्यो भिन्नान् पामरजनान् (सर्पपुण्यजनान्) गतिशीलान् पवित्राचरणान् (गन्धर्वाप्सरसः) गां वाणीं पृथिवीं गति वा धरति धारयति वा स गन्धर्वः । कृगशुद्धेभ्यो वः । उ० १ । १५५ । गो + धृञ् धारणे—वप्रत्ययः, गो शब्दस्य गम् । सत्तरपूर्वादसिः । उ० ४ । २३७ । अप् + सृ गतौ—असि । अप्सरसः अप्सु आकाशे सरणशीलाः । पृथिवीधारकान् आकाशे गमनशीलां च (सप्तऋषीन्) इगुपधात् कित् । उ० ४ । १२० । ऋष गतौ दर्शने च—इन् । ऋत्यकः । पा० ६ । १ । १२८ । इति प्रकृतिभावः । सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे—यजु० ३४ । ५५ । त्वक्चक्षुः श्रवणरसानाग्राणमनोबुद्धीः (संविशन्ति) शेरते (दक्षिणान्) कुशलान् (ताम् = तान्) (प्रवृजन्ति) प्रकर्षेण गच्छन्ति ॥

करिडका १३ ॥

एवमेवैतद्भो यथा भवानाह पृच्छामि त्वेव भवन्तमिति, पृच्छ प्राचीन-
योग्येति । यस्य सायमग्नय उपसमाहिता स्युः सर्वे ज्वलयेयुः प्रक्षालितानि यज्ञ-
पात्राण्युपसन्नानि स्युरथ चेद् दक्षिणाग्निरुद्धायात् किं वा ततो भयमागच्छेदिति,
क्षिप्रमस्य पत्नी प्रैति, यो विद्वान् जुहोति विद्यया त्वेवाहमभिजुहोमीति, का ते
विद्या का प्रायश्चित्तिरिति १, गार्हपत्यादधि दक्षिणाग्निं प्रणीय प्राचोऽङ्गारानु-
द्धृत्य प्राणापानाभ्यां स्वाहेति जुहुयादथ प्रातर्यथास्थानमग्नीनुपसमाधाय यथा-
पुरं जुहुयात्सा मे विद्या सा प्रायश्चित्तिरिति २, अथ चेदाहवनीय उद्धायात् किं
वा ततो भयमागच्छेदिति क्षिप्रमस्य पुत्रः प्रैति, यो विद्वां जुहोति विद्यया त्वेवा-
हमभिजुहोमीति, का ते विद्या का प्रायश्चित्तिरिति २, गार्हपत्यादध्याहवनीयं
प्रणीय प्रतीचोऽङ्गारानुद्धृत्य समानव्यानाभ्यां स्वाहेति जुहुयादथ प्रातर्यथास्थान-
मग्नीनुपसमाधाय यथापुरञ्जुहुयात् सा मे विद्या सा प्रायश्चित्तिरिति २ । अथ
चेद्गार्हपत्य उद्धायात् किं वा ततो भयमागच्छेदिति, क्षिप्रं गृहपतिः प्रैति, यो
विद्वां जुहोति विद्यया त्वेवाहमभिजुहोमि इति का ते विद्या का प्रायश्चित्तिरिति ३,
सभस्सकमाहवनीयं दक्षिणेन दक्षिणाग्निं परिहृत्य गार्हपत्यस्यायतने प्रतिष्ठाप्य
ततः आहवनीयं प्रणीय उदीचोऽङ्गारानुद्धृत्योदानरूपाभ्यां स्वाहेति जुहुयादथ
प्रातर्यथास्थानमग्नीनुपसमाधाय यथापुरं जुहुयात् सा मे विद्या सा प्रायश्चित्ति-
रिति ३, अथ चेत्सर्वेऽग्नय उद्धायेयुः किं वा ततो भयमागच्छेदिति, क्षिप्रं गृहपतिः
सर्वज्यानिज्जीयते, यो विद्वां जुहोति विद्यया त्वेवाहमभिजुहोमीति, का ते विद्या
का प्रायश्चित्तिरिति ४, आनडुहेन शकृत्पिण्डेनाग्न्यायतानि परिलिप्य होम्यमुप-
साद्याग्निं निर्मथ्य प्राणापानाभ्यां स्वाहा समानव्यानाभ्यां स्वाहा उदानरूपाभ्यां
स्वाहेति जुहुयादथ प्रातर्यथास्थानमग्नीनुपसमाधाय यथापुरञ्जुहुयात् सा मे विद्या
सा प्रायश्चित्तिरिति ४, अथ चेन्नाग्निं जनयितुं शक्युर्न कुतश्चन वातो वायात् किं
वा ततो भयमागच्छेदिति मोघमस्येष्टं च हुतश्च भवति, यो विद्वां जुहोति विद्यया
त्वेवाहमभिजुहोमीति, का ते विद्या का प्रायश्चित्तिरित्यानडुहेनैव शकृत्पिण्डे-
नाग्न्यायतानि परिलिप्य होम्यमुपसाद्य वात आवातु भेषजमिति सूक्तेनात्मन्येव
जुहुयादथ प्रातरग्निं निर्मथ्य यथास्थानमग्नीनुपसमाधाय यथापुरं जुहुयात् सा मे
विद्या सा प्रायश्चित्तिरिति ५ ब्राह्मणम् ॥ १३ ॥

कण्डिका १३ ॥ तीनों अग्नियों में विघ्न पड़ने पर उपाय
और प्रायश्चित्त ॥

(भो एवम् एव एतत् यथा भवान् आह, तु एव भवन्तं पृच्छामि इति)
[प्राचीनयोग्य बोला] महाराज ! ऐसा ही यह है जैसा आप कहते हैं, फिर
भी आप से मैं पूछता हूँ । (प्राचीनयोग्य पृच्छ इति) [उद्दालक बोला] हे प्राचीन-
योग्य ! पूछ । (यस्य सायम् अग्नयः उपसमाहिताः स्युः सर्वे ज्वलयेयुः प्रक्षालि-
तानि यज्ञपात्राणि उपसन्नानि स्युः) [प्राचीनयोग्य बोला] जिस की सायंकाल
को सब अग्नियां यथाविधि ठीक की गयी हों, और सब जलती हों और धुले
हुये यज्ञपात्र समीप हों, (अथ चेत् दक्षिणाग्निः उद्वायात् किं वा ततः भयम्
आगच्छेत् इति, क्षिप्रम् अस्य पत्नी प्रैति, यः विद्वान् जुहोति विद्यया तु एव
अहम् अभिजुहोमि इति, का ते विद्या का प्रायश्चित्तिः इति १) फिर जो दक्षि-
णाग्नि भड़क उठे [अधिक बढ़ जावे] अथवा उस से कुछ भय आवे, [जिस
से उसकी पत्नी शीघ्र चली जावे, और जो विद्वान् पुरुष होम करता है—
(विद्यया.....) विद्या के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होम करूँ [सह कहे,
उस में] तेरी क्या विद्या है और क्या प्रायश्चित्त [पापशोधन विधि] है १ ।
(गार्हपत्यात् अधि दक्षिणाग्निं प्रणीय प्राचः अङ्गारान् उद्धृत्य प्राणापानाभ्यां
स्वाहा इति जुहुयात्, अथ प्रातः यथास्थानम् अग्नीन् उपसमाधाय यथापुरं
जुहुयात् सा मे विद्या सा प्रायश्चित्तिः इति) [उद्दालक बोला] गार्हपत्य अग्नि
से दक्षिणाग्नि लेकर पूर्व दिशा वाले अङ्गारों को निकाल कर—(प्राणापानाभ्यां
स्वाहा) भीतर जाने वाले और बाहर आने वाले श्वास के लिये सुन्दर आहुति
है—[इस मन्त्र से] होम करे, फिर प्रातःकाल अपने अपने स्थान में अग्नियों
को ठीक कर के पहिले के समान होम करे, यह मेरी विद्या और यह प्रायश्चित्त
है १ । (अथ चेत् आहवनीयः उद्वायात् किं वा ततः भयम् आगच्छेत् इति
क्षिप्रम् अस्य पुत्रः प्रैति, यः विद्वान् जुहोति, विद्यया तु एव अहम् अभिजुहोमि

१३—(तु) पुनः (उपसमाहिताः) यथाविधिसंस्कृताः (प्रक्षालितानि)
क्षल शोधने—क्त । संशाधितानि (उपसन्नानि) उप + षद गतौ—क्त । समीप-
स्थानि (उद्वायात्) उद्गच्छेत् (प्रैति) प्र + इण् गतौ—लट् । प्रकर्षेण गच्छति
(प्रायश्चित्तिः) प्र + इण् गतौ—घञ् + चिती संज्ञाने—क्तिन् । प्रायस्य चित्ति-
चित्तयोः । वा० पा० ६ । १ । १५७ इति सुट् । पापशोधनविधिः (प्राचः) पूर्व-
दिक्षितान् (समाधाय) यथाविधि संस्कृत्य (यथापुरम्) पुर अग्रगमने—का ।

इति, का ते विद्या का प्रायश्चित्तिः इति २) [प्राचीनयोग्य बोला] फिर जो आहवनीय अग्नि भड़क उठे अथवा उस से कुछ भय आवे, [जिस से] उस का पुत्र शीघ्र चला जावे और जो विद्वान् होम करता है—(विद्यया ……) विद्या के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होम करूँ [यह कहे, इस में] तेरी क्या विद्या है और क्या प्रायश्चित्त है २ । (गार्हपत्यात् अग्नि आहवनीयं प्रणीय प्रतीचः अङ्गारान् उद्धृत्य समानव्यानाभ्यां स्वाहा इति जुहुयात्) [उद्दालक बोला] गार्हपत्य अग्नि से आहवनीय अग्नि को लेकर पश्चिम ओर वाले अङ्गारों को निकाल कर—(समानव्यानाभ्यां स्वाहा) नाभि वाले और सब शरीर में फैलने वाले श्वास के लिये सुन्दर आहुति है—इस मन्त्र से होम करे, (अथ प्रातः यथास्थानम् अग्नीन् उपसमाधाय यथापुरं जुहुयात् सा मे विद्या सा प्रायश्चित्तिः इति) फिर प्रातःकाल अपने अपने स्थान पर अग्नियों को ठोक कर के पहिले के समान होम करे, यह मेरी विद्या और यह प्रायश्चित्त है २ । (अथ चेत् गार्हपत्यः उद्वायात् किं वा ततः भयम् आगाच्छेत् इति, क्षिप्रं गृहपतिः प्रैति, यः विद्वान् जुहोति विद्यया तु एव अहम् अभिजुहोमि इति, का ते विद्या का प्रायश्चित्तिः इति ३) [प्राचीनयोग्य बोला] फिर जो गार्हपत्य अग्नि भड़क उठे अथवा उस से कुछ भय आवे, [जिस से] गृहपति शीघ्र चला जावे, और जो विद्वान् होम करता है [विद्यया ……) विद्या के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होम करूँ [यह कहे, उस में] तेरी क्या विद्या है और क्या प्रायश्चित्त है ३ । (दक्षिणेन दक्षिणाग्निं परिहृत्य सभस्मकम् आहवनीयं गार्हपत्यस्य आयतने प्रतिष्ठाप्य ततः आहवनीयं प्रणीय उदीचः अङ्गारान् उद्धृत्य उदानरूपाभ्यां स्वाहा इति जुहुयात्, अथ प्रातः यथास्थानम् अग्नीन् उपासमाधाय यथापुरं जुहुयात् सा मे विद्या सा प्रायश्चित्तिः इति ३) [उद्दालक बोला] दाहिने हाथ से दक्षिणाग्नि को छोड़ कर, भस्म सहित आहवनीय अग्नि को गार्हपत्य के स्थान में रख कर फिर आहवनीय अग्नि को लेकर उत्तर ओर वाले अङ्गारों को निकाल कर—

यथापूर्वम् (प्रतीचः) पश्चिमदिशि स्थितान् (परिहृत्य) परित्यज्य (आयतने) यज्ञस्थाने (उद्धृत्य) उत + हृञ् हरणे—ल्यप् । वहिष्कृत्य (सर्वज्यानिम्) वीज्याञ्वरिभ्यो निः । उ० ४ । ४८ । ज्या वयोहानौ—नि । सर्वक्षतिः । (जीयते) कर्मणि प्रयोग आर्षः । जयति प्राप्नोति (आनडुहेन) अनुडुही—अण् । धेनुसंबन्धिनी (शकृत्पिण्डेन) विष्ठासंचयेन (होम्यम्) होम—यत् । होमाय हितं हविः । (मोघम्) निष्फलम् (इष्टम्) अभीष्टम् (आत्मनि) मनसि ॥

(उदानरूपाभ्यां स्वाहा) कण्ठ से ऊपर वाले वायु और रूप के लिये सुन्दर आहुति है—इस मन्त्र से हवन करे, फिर प्रातःकाल अपने अपने स्थान में अग्नियों को ठीक कर के पहिले के समान होम करे, यह मेरी विद्या और यह प्रायश्चित्त है ३ । (अथ चेत् सर्वे अग्नयः उद्वायेयुः किं वा ततः भयम् आगच्छेत् इति, क्षिप्रं गृहपतिः सर्वज्यानिं जीयते, यः विद्वान् जुहोति विद्यया तु एव अहम् अभि जुहोमि इति, का ते विद्या का प्रायश्चित्तिः इति ४) [प्राचीनयोग्य बोला] फिर जो सब अग्नियों भड़क उठें, अथवा उस से कुछ भय आवे [जिस से] गृहपति शीघ्र सब हानि प्राप्त करे, और जो विद्वान् होम करता है— [विद्यया.....] विद्या के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होम करूँ [यह कहे, इस में तेरी क्या विद्या है और क्या प्रायश्चित्त है ४ । (आनडुहेन शकृत्पिण्डेन अग्न्यायतनानि परिलिप्य होम्यम् उपसाद्य अग्निं निर्मथ्य प्राणापानाभ्यां स्वाहा, समानव्यानाभ्यां स्वाहा, उदानरूपाभ्यां स्वाहा इति जुहुयात् अथ प्रातः यथास्थानम् अग्नीन् उपसमाधाय यथापुरं जुहुयात् सा मे विद्या सा प्रायश्चित्तिः इति ४) [उद्दालक बोला] गौ के गोबर से अग्नि के स्थानों को लीपकर, होम योग्य द्रव्य को पास लाकर, अग्नि को मथकर (प्राणापानाभ्यां स्वाहा, समानव्यानाभ्यां स्वाहा, उदानरूपाभ्यां स्वाहा) [ऊपर वाले इन तीन मन्त्रों से] होम करे, फिर प्रातःकाल अपने अपने स्थान में अग्नियों को ठीक करके पहिले के समान होम करे, यह मेरी विद्या और यह प्रायश्चित्त है ४ । (अथ चेत् अग्निं जनयितुं न शक्त्युः न कुतश्चन वातः वायात् किं वा ततः भयम् आगच्छेत् इति अस्य इष्टं च हुतं च मोघं भवति, यः विद्वान् जुहोति विद्यया तु एव अहम् अभिजुहोमि इति, का ते विद्या का प्रायश्चित्तिः इति ५) [प्राचीनयोग्य बोला] फिर जो अग्नि को लोग न उत्पन्न कर सकें और जो कहीं से वायु न चले अथवा उस से कुछ भय आवे [जिस से] उस का अभीष्ट और होम निष्फल होवे, और जो विद्वान्— होम करता है—(विद्यया.....) विद्या के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होम करूँ [यह कहे, इस में] तेरी क्या विद्या है और क्या प्रायश्चित्त है ५ । (आनडुहेन एव शकृत्पिण्डेन अग्न्यायतनानि परिलिप्य होम्यम् उपसाद्य, वातः आवातु भेषजम् इति सूक्तेन आत्मनि एव जुहुयात् अथ प्रातः अग्निं निर्मथ्य यथास्थानम् अग्नीन् उपसमाधाय यथापुरं जुहुयात्, सा मे विद्या सा प्रायश्चित्तिः ५ इति ब्राह्मणम्) [उद्दालक बोला] गौ के ही गोबर से अग्नि के स्थानों को लीप कर, होमयोग्य पदार्थ को पास लाकर, (वातः

आवातु भेषजम्) वायु औषध लावे—[इस मन्त्र का मिलान करो अथर्व ४ । १३ । ३] इस सूक्त से आत्मा [अपने] में ही [मानसिक] होम करे, फिर प्रातःकाल अग्नि को मथ कर अपने अपने स्थान में अग्नियों को ठोक कर के पहिले के समान होम करे, यह मेरी विद्या और यह प्रायश्चित्त है ५ । यह ब्राह्मण है ॥ १३ ॥

भावार्थ—अग्नियों के अभाव में मनुष्य मानसिक हवन ही करे ॥ १३ ॥

टिप्पणी—पूर्वोक्त मन्त्र यहाँ लिखा जाता है ।

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्दूरपः । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे ॥ अथ० ४ । १३ । ३, ऋ० १० । १३७ । ३ । (वात) हे वायु (भेषजम्) स्वास्थ्य को (आ वाहि) बहकर ला, और (वात) हे वायु ! (यत् रूपः = यत् रूपः तत्) जो दोष है उसे (वि वाहि) बह कर निकाल दे, (हि) क्योंकि (विश्वभेषज) हे सर्वरोगनाशक [वायु] ! (त्वम्) तू (देवानाम्) इन्द्रियों, विद्वानों और सूर्यादि लोकों के बीच (दूतः) चलने वाला वा दूत [समान सन्देश पहुंचाने वाला] होकर (ईयसे) फिरता रहता है ॥

कण्डिका १४ ॥

एवमेवैतद् भो भगवन् यथा भवानाहोपायामित्येव भवन्तमित्येवं चेन्नावद्यो मूद्धर्वा ते व्यपतिष्यतीति हन्त तु ते तद्भक्ष्यामि यथा ते न व्यपतिष्यतीति, यो ह वा एवंविद्वानश्नाति च पिबति च वाक् तेन तृप्यति, वाचि तृप्तायामग्निस्तृप्यत्यग्नौ तृप्ते पृथिवी तृप्यति, पृथिव्यां तृप्तायां यानि पृथिव्यां भूतान्यन्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति १, यो ह वा एवंविद्वानश्नाति च पिबति च प्राणस्तेन तृप्यति, प्राणे तृप्ते वायुस्तृप्यति, वायौ तृप्तेऽन्तरिक्षं तृप्यति अन्तरिक्षे तृप्ते यान्यन्तरिक्षे भूतान्यन्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति २, यो ह वा एवं विद्वानश्नाति च पिबति च चक्षुस्तेन तृप्यति, चक्षुषी तृप्ते आदित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्ते द्यौस्तृप्यति, दिवि तृप्तायां यानि दिवि भूतान्यन्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति ३, यो ह वा एवं विद्वानश्नाति च पिबति च मनस्तेन तृप्यति, मनसि तृप्ते चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्ते आपस्तृप्यन्त्यप्सु तृप्तासु यान्यप्सु भूतान्यन्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति ४, यो ह वा एवं विद्वानश्नाति च पिबति च श्रोत्रं तेन तृप्यति, श्रोत्रे तृप्ते दिशश्चान्तर्देशश्च तृप्यन्ति, दिक्षु चान्तर्देशेषु च तृप्तेषु च यानि दिक्षु चान्तर्देशेषु च भूतान्यन्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति ५, यो ह वा एवं विद्वानश्नाति च पिबति च तस्यायमेव दक्षिणः पाणिर्जुहुः सव्य उपभृत् कण्ठो ध्रुवाऽभं हविः

प्राणा ज्योतीषि सदेष्टं सदा हुतं सदाशितं पायितमग्निहोत्रं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोतीति ब्राह्मणम् ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ खान पान के लाभ ॥

(भो भगवन् एवम् एव एतत् यथा भवान् आह, उपायाम् इति एव भवन्तम् इति) [प्राचीनयोग्य बोला] हे भगवन् यह वैसा ही है जैसा आप ने कहा कि मैं आप के पास ही आया हूँ । (एवं चेत् न अवक्ष्यः ते मूर्द्धा व्यपतिष्यति इति) जो तू ऐसा [यथार्थ] न कहे तौ तेरा मस्तक गिर जायगा [देखो क० ८], (तु हन्त ते तत् वक्ष्यामि यथा ते न व्यपतिष्यति इति) किन्तु, हे भाई ! तुझ से वह कहूँगा जिस से तेरे लिये [मेरा मस्तक] न गिरेगा । (यः ह वै एवं विद्वान् अश्नाति च पिबति च वाक् तेन तृप्यति) जो ही ऐसा [सत्यवादी] विद्वान् खाता और पीता है, वाणी उस से तृप्त होती है १, (वाचि तृप्तायाम् अग्निः तृप्यति) वाणी के तृप्त होने पर अग्नि तृप्त होता है २, (अग्नौ तृप्ते पृथिवी तृप्यति) अग्नि के तृप्त होने पर पृथिवी तृप्त होती है ३, (पृथिव्यां तृप्तायां पृथिव्यां यानि अन्वायत्तानि भूतानि तानि तृप्यन्ति) पृथिवी के तृप्त होने पर पृथिवी पर जो एक दूसरे के वशीभूत प्राणी आदि हैं वे तृप्त होते हैं । ४, १ । (यः ह वै एवं विद्वान् अश्नाति च पिबति च प्राणः तेन तृप्यति) जो ही ऐसा विद्वान् खाता और पीता है प्राण उस से तृप्त होता है १, (प्राणे तृप्ते वायुः तृप्यति) प्राण के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है २, (वायौ तृप्ते अन्तरिक्षं तृप्यति) वायु के तृप्त होने पर अन्तरिक्ष [मध्यलोक] तृप्त होता है ३, (अन्तरिक्षे तृप्ते अन्तरिक्षे यानि अन्वायत्तानि भूतानि तानि तृप्यन्ति) अन्तरिक्ष के तृप्त होने पर अन्तरिक्ष में जो एक दूसरे के आधीन प्राणी आदि हैं वे तृप्त होबे हैं ४, २ । (यः ह वै एवं विद्वान् अश्नाति च पिबति च चक्षुः तेन तृप्यति) जो ही ऐसा विद्वान् खाता और पीता है आंख उस से तृप्त होती है १, (चक्षुषी [=चक्षुषि] तृप्ते आदित्यः तृप्यति) आंख तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है २, (आदित्ये तृप्ते द्यौः तृप्यति) सूर्य के तृप्त होने पर प्रकाशलोक [जहाँ पर सूर्य

१४—(उपायाम्) उप+या गतौ—लङ् । आगतवानस्मि (अवक्ष्यः) वच परिभाषणो—लृङ् । अकथयिष्यः (व्यपतिष्यति) वि+पत्लृ पतने—लृट्, अडागम आर्षः । विविधं पतिष्यन्ति । अधांगमिष्यति (वक्ष्यामि) कथयिष्यामि (अश्नाति) भक्षति (पिबति) पानं करोति (तृप्यति) हृष्यति (भूतानि) सत्तामात्रवस्तूनि (अन्वायत्तानि) परस्परवशीभूतानि (अन्तरिक्षम्) मध्य-

का प्रकाश है] तृप्त होता है ३, (दिवि तृतायां दिवि यानि अन्वायत्तानि भूतानि तानि तृप्यन्ति) प्रकाशलोक तृप्त होने पर प्रकाशलोक में जो एक दूसरे के आधीन प्राणी आदि हैं वे तृप्त होते हैं ४, ३ । (यः ह वै एवं विद्वान् अश्नाति च पिबति च मनः तेन तृप्यति) जो ही ऐसा विद्वान् खाता और पीता है, मन उस से तृप्त होता है १, (मनसि तृप्ते चन्द्रमाः तृप्यति) मन तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है २, (चन्द्रमसि तृप्ते आपः तृप्यन्ति) चन्द्रमा तृप्त होने पर जल तृप्त होता है ३, (अप्सु तृप्तासु अप्सु यानि अन्वायत्तानि भूतानि तानि तृप्यन्ति) जल तृप्त होने पर जल में जो एक दूसरे के आधीन प्राणी आदि हैं, वे तृप्त होते हैं ४, ४ । (यः ह वै एवं विद्वान् अश्नाति च पिबति च श्रोत्रं तेन तृप्यति) जो ही ऐसा विद्वान् खाता और पीता है, कान उस से तृप्त होता है १, (श्रोत्रे तृप्ते दिशः च अन्तर्देशाः च तृप्यन्ति) कान तृप्त होने पर दिशाएँ और बीच वाले देश तृप्त होते हैं २, (दिक्षु च अन्तर्देशेषु च तृप्तेषु च दिक्षु च अन्तर्देशेषु च यानि अन्वायत्तानि भूतानि तानि तृप्यन्ति) दिशाओं और बीच वाले देशों के तृप्त होने पर दिशाओं और बीच वाले देशों में जो एक दूसरे के आधीन प्राणी आदि हैं, वे तृप्त होते हैं ३, ५ । (यः ह वै एवं विद्वान् अश्नाति च पिबति च, तस्य अयम् दक्षिणः पाणिः जुह्वः, सव्यः उपभृत्, कण्ठः ध्रुवा, अन्नं हविः, प्राणाः ज्योतीषि, सदेष्टं सदाहुतं सदाशितं पायितम् अग्निहोत्रं भवति, यः एवं वेद यः च एवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति इति ब्राह्मणम्) जो ही ऐसा विद्वान् खाता और पीता है, उसका यही दाहिना हाथ जुह्व [पलाश की लकड़ी का बना हुआ चन्द्राकार यज्ञपात्र], बायाँ हाथ उपभृत् [चक्राकार यज्ञपात्र], कण्ठ ध्रुवा [बट के पत्राकार यज्ञपात्र] है, अन्न हवि है, प्राण ज्योति हैं, सदा अभीष्ट, सदा हवन और सदा खाया पिया अग्निहोत्र है, जो ऐसा जानता है और जो ऐसा विद्वान् अग्निहोत्र करता है, यह ब्राह्मण है ॥ १४ ॥

लोकः (चक्षुषी) इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम् । वा० पा० ७ । १ । ३६ । इति सप्तम्या ईकारादेशः । चक्षुषि नेत्रे (द्यौः) सूर्यप्रकाशस्थानम् (जुह्वः) हु दानादानादनेषु—क्विप् । पलाशकाष्ठनिर्मितार्धचन्द्राकृतियज्ञपात्रभेदः (उपभृत्) उप+भृत् भरणे—क्विप् । चक्राकारयज्ञपात्रम् (ध्रुवा) ध्रुवैर्यै—क, टाप् । बटपत्राकृतियज्ञपात्रम् (ज्योतीषि) सूर्यादीनि (सदा—अशितम्) नित्यभक्षितम् (पायितम्) पा पाने स्वार्थे—णिच्, क । पीतम् ॥

भावार्थ—मनुष्य खान पान के उपयोग से स्वस्थ रहकर संसार का उपकार करे ॥ १४ ॥

कण्डिका १५ ॥

प्रियमेधा ह वै भरद्वाजा यज्ञविदो मन्यमानास्ते ह स्म न कञ्चना वेदविदमुपयन्ति, ते सर्वमविदुस्ते सहैवाविदुस्तेऽग्निहोत्रमेव न समवादयन्त, तेषामेकः सकृदग्निहोत्रमजुहोत् द्विरेकस्त्रिरेकस्तेषां यः सकृदग्निहोत्रमजुहोत्तमितरावपृच्छतां कस्मै त्वं जुहोषीति एकधा वा, इदं सर्वं प्रजापतिः प्रजापतय एवाहं सायं जुहामीति प्रजापतये प्रातरिति । तेषां यो द्विरजुहोत् तमितरावपृच्छतां काभ्यां त्वं जुहोषीति, अग्नये प्रजापतय इति सायं, सूर्याय प्रजापतय इति प्रातः । तेषां यस्त्रिरजुहोत्तमितरावपृच्छतां केभ्यस्त्वं जुहोषीत्यग्नये प्रजापतयेऽनुमतय इति सायं, सूर्याय प्रजापतये अग्नये स्विष्टकृत इति प्रातः । तेषां यो द्विरजुहोत्स आर्धोत्स भूयिष्ठोऽभवत्प्रजया चेतरो श्रिया चेतरावत्याक्रामत्तस्य ह प्रजामितरयोः प्रजासु या तत्त्वमुपेयातां तस्माद् द्विर्होतव्यं, यजुषा चैव मनसा च यामेव ऋद्धिमाधोति तामृधोति य एवं वेद, यश्चैवंविद्वानग्निहोत्रं जुहोतीति ब्राह्मणम् ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ क्रियात्मक और मानसिक यज्ञ करना चाहिये ॥

(प्रियमेधाः ह वै भरद्वाजाः यज्ञविदः मन्यमानाः) भरद्वाज गोत्र वाले बुद्धि को प्रिय रखने वाले [अपने को] यज्ञ जानने वाले समझते थे । (ते ह स्म कञ्चना वेदविदं न उपयन्ति) वे किसी वेदज्ञाता के पास नहीं जाते थे । (ते सर्वम् अविदुः ते सह एव अविदुः) [वे मानते थे] वे सब जानते हैं, वे मिलकर ही जानते थे । (ते अग्निहोत्रम् एव न समवादयन्त) वे अग्निहोत्र का ही अब संवाद करने लगे । (तेषाम् एकः सकृत् अग्निहोत्रम् अजुहोत् द्विः एकः त्रिः एकः) उन में एक एक बार [एक देवता के लिये] अग्निहोत्र करता था, दो बार [दो देवता के लिये] एक और तीन बार [तीन देवता के लिये] एक ।

१५—(प्रियमेधाः) प्रियामेधा धारणावती बुद्धिर्येषां ते ऋषयः (भरद्वाजाः) भरद्वाजवंशीयाः (यज्ञविदः) यज्ञवेत्तारः (मन्यमानाः) जानन्तः (कञ्चना) शार्षो दीर्घः । कञ्चन । कमपि (उपयन्ति) समीपे गच्छन्ति (अविदुः) अजानन् (न) सम्प्रति—निरु० ७ । ३१ (समवादयन्त) परस्परम् अकथयन्त

(तेषां यः सकृत् अग्निहोत्रम् अजुहोत् तम् इतरौ अपृच्छताम् कस्मै त्वम् एकधा वै जुहोषि इति) उन में जो एक बार अग्निहोत्र करता था, उस से अन्य दोनों ने पूछा—तू किस देवता के लिये एक प्रकार ही यज्ञ करता है । (इदं सर्वं प्रजापतिः प्रजापतये एव अहं सायं जुहोमि इति, प्रजापतये प्रातः इति) [वह बोला] यह सब प्रजापति है, प्रजापति के लिये ही मैं सायंकाल होम करता हूँ, और प्रजापति के लिये प्रातःकाल । (तेषां यः द्विः अजुहोत् तम् इतरौ अपृच्छताम्, काभ्यां त्वं जुहोषि इति) उन में से जो दो बार होम करता था, उस से अन्य दोनों ने पूछा—कौन दो देवताओं के लिये तू होम करता है । (अग्नये प्रजापतये इति सायं, सूर्याय प्रजापतये इति प्रातः) [वह बोला] अग्नि प्रजापति के लिये सायंकाल, [तथा] सूर्य प्रजापति के लिये प्रातःकाल [अग्नि और सूर्य एक ही देवता हैं] (तेषां यः त्रिः अजुहोत् तम् इतरौ अपृच्छताम् केभ्यः त्वं जुहोषि इति) उन में जो तीन बार [तीन देवताओं के लिये] होम करता था, उस से अन्य दोनों ने पूछा—किन देवताओं के लिये तू होम करता है । (अग्नये प्रजापतये अनुमतये इति सायं, सूर्याय प्रजापतये स्विष्टकृते अग्नये इति प्रातः) [वह बोला] अग्नि, प्रजापति और अनुमति [अनुकूल बुद्धि वाले] के लिये सायंकाल और सूर्य, प्रजापति और स्विष्टकृत् [उत्तम मनोरथ सिद्ध करने वाले] अग्नि के लिये प्रातःकाल [होम करता हूँ] ।

(तेषां यः द्विः अजुहोत् सः आर्ध्नात्, सः भूयिष्ठः अभवत्, प्रजया च इतरौ श्रिया च इतरौ अत्याक्रामत्) उन में जो दो बार [दो देवता के लिये] होम करता था वह समृद्ध हुआ और बहुत अधिक हुआ और प्रजा [बाल बच्चों] के साथ अन्य दूसरों से और लक्ष्मी के साथ अन्य दूसरों से बढ़ गया । (तस्य ह प्रजां या तत्त्वम्, इतरयोः [आत्मनोः] प्रजासु उपेयाताम्) उस की

(सकृत्) एकबारम् । एकस्मै देवाय (द्विः) द्विबारम् । द्वाभ्यां देवाभ्याम् (त्रिः) त्रिवारम् । त्रिभ्यो देवेभ्यः (एकधा) एकप्रकारेण (अनुमतये) अनुकूलबुद्धियुक्ताय (स्विष्टकृते) उत्तममनोरथसाधकाय (आर्ध्नात्) अवर्धत (भूयिष्ठः) बहु—इष्टन् । अतिशयेन बहुः (अत्याक्रामत्) अति + आ + अक्रामत् । अत्यगच्छत् (उपेयाताम्) उप + इण् गतौ—वि० लि० । उपगच्छेताम् (यजुषा) हविरादिसंगतिकरणेन । भौतिकयज्ञेन (मनसा) अन्तःकरणेन । मानसिकयज्ञेन (ऋद्धिम्) सिद्धिम् । ऐश्वर्यम् (आर्ध्नाति) पूजयति (ऋध्नोति) वर्धयति ॥

प्रजा को, जो तत्त्व [यथार्थ है] अपनी प्रजाओं में वे दोनों प्राप्त करें । (तस्मात् द्विः होतव्यम्) इस लिये दो बाग [दो देवता के लिये] हवन करना चाहिये । (यजुषा च एव मनसा च याम् एव ऋद्धिं सः आध्नोति ताम् ऋध्नोति यः एवं वेद यः च एवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति इति ब्राह्मणम्) यजु [हवि आदि सामग्री के संगतिकरण] से और मन [मानसिक यज्ञ] से जिस ऋद्धि को वह पूजता है उसको वह बढ़ाता है जो ऐसा जानता है जो ऐसा विद्वान् अग्निहोत्र करता है —यह ब्राह्मण है ॥ १५ ॥

कण्डिका १६ ॥

स्वाहा वै कुतः सम्भूता, केन प्रकृता, किं वाऽस्या गोत्रं, कत्यक्षरा, कतिपदा, किंपूर्वावसाना, क्वचित् स्थिता, किमधिष्ठाना, ब्रूहि स्वाहाया यद्देवतं रूपञ्च । स्वाहा वै सत्यसम्भूता, ब्रह्मणा प्रकृता, लामगायनसगोत्रा, द्वे अक्षरे, एकं पदं, त्रयश्च वर्णाः शुक्लः पद्मः सुवर्ण इति, सर्वच्छन्दसां वेदेषु समासभूतैकोच्छ्वासा वर्णान्ते चत्वारो वेदाः शरीरे, षडङ्गान्याषधिवनस्पतयो लोमानि चक्षुषी सूर्याचन्द्रमसौ, सा स्वाहा सा स्वधा सैषा यज्ञेषु वषट्कारभूता प्रयुज्यते, तस्या अग्निर्देवतं ब्राह्मणो रूपमिति ब्राह्मणम् ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ स्वाहा शब्द के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(स्वाहा वै कुतः सम्भूता १, केन प्रकृता २, किं वै अस्याः गोत्रम् ३, कत्यक्षरा ४, कतिपदा ५, किंपूर्वावसाना ६, क्वचित् स्थिता ७, किमधिष्ठाना ८, ब्रूहि स्वाहायाः यत् देवतम् ९, रूपं च १० ।) स्वाहा [सुवाणी, आशीर्वाद, सुदान] कहां से उत्पन्न हुई १, किस करके बनाई गई २, क्या इसका गोत्र है ३, कितने अक्षर वाली है ४, कितने पाद वाली है ५, कौन आदि अन्त वाली है ६, कहां ठहरी हुई है ७, कौन अधिष्ठान [आश्रय] वाली है ८, तू बता स्वाहा का जो देवता ९, और रूप है १० । (स्वाहा वै सत्यसम्भूता) [उत्तर] स्वाहा सत्य से उत्पन्न है १, (ब्रह्मणा प्रकृता) ब्रह्म करके बनाई गई है २, (लामगायनसगोत्रा)

१६—(स्वाहा) सु+आङ्+ह्वेञ् आह्वाने—डा । वाङ् नाम—निघ० १ । ११ । स्वाहेत्येतत् सु आहेति स्वा वागाहेति वा स्वं प्रहेति वा स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा—निघ० ८ । २० सुवाणी । आशीर्वादः । सुदानम् । (सम्भूता) उत्पन्ना (प्रकृता) सृष्टा (कतिपदा) कतिपादयुक्ता (किंपूर्वावसाना) किमाद्यन्ता (लामगायनसगोत्रा) रमु क्रीडायाम्—घञ्, रस्य लः, गै गाने—ल्युट् ।

लामगायन [मनोहर वेदों के गाने वाले] के साथ एक गोत्र वाली है ३, (द्वे अक्षरे) दो अक्षर हैं ४, (एकं पदम्) एक पाद है ५, (त्रयः च वर्णाः शुक्लः पद्मः सुवर्णः इति) और तीन वर्ण हैं शुक्ल [श्वेत], पद्म [कमलवर्ण] और सुवर्ण [सोना] ६, (वेदेषु सर्वच्छन्दसां समासभूता वर्णान्ते एकोच्छ्वासा) वेदों में सब छन्दों की संग्रह रूप और वर्णों के अन्त में एक श्वास वाली है ७, (चत्वारः वेदाः षट् अङ्गानि शरीरे, ओषधिवनस्पतयः लोमानि चक्षुषो सूर्या-चन्द्रमसौ) चारो वेद और छह अङ्ग [शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष] दो शरीर, ओषधि वनस्पति लोम और दोनों आंखें सूर्य चन्द्रमा हैं ८, (सा स्वाहा सा स्वधा सा एषा यज्ञेषु वषट्कारभूता प्रयुज्यते, तस्याः अग्निः दैवतम् ब्राह्मणः रूपम् इति ब्राह्मणम्) वह स्वाहा, वह स्वधा और वही वषट्कार रूप होकर यज्ञों में प्रयुक्त की जाती है, उस का अग्नि देवता ९, और ब्राह्मण [वेदज्ञाता] रूप है १०—यह ब्राह्मण है ॥ १६ ॥

कण्डिका १७ ॥

अथापि कारवो ह नाम ऋषयो अल्पस्वा आसंस्त इममेकगुमग्निष्टोमं ददशुस्तमाहरंस्तेनायजन्त ते स्वय्य्युः, स य इच्छेत् स्वय्यायीति स एतेनैकगु-नाऽग्निष्टोमेन यजेतेति ब्राह्मणम् ॥ १७ ॥

कण्डिका १७ ॥ अग्निष्टोम विषय ॥

(अथ अपि कारवः ह नाम ऋषयः अल्पस्वाः आसन्) फिर स्तुति करने वाले प्रसिद्ध ऋषि थोड़े धन वाले थे । (ते इमम् एकगुम् अग्निष्टोमं ददशुः) उन्होंने ने इस एक वाणी [पाद] वाले अग्निष्टोम [स्वाहाकार] को देखा । (तम् आहरन्, तेन अयजन्त, ते स्वः ययुः) व उसे ले आये, उस से यज्ञ किया और उन्होंने ने स्वर्ग पाया । (सः यः इच्छेत् स्वय्यायी इति सः एतेन एकगुना

लामगायनेन रामगायनेन मनोहरवेदगायकेन समानगोत्रा (समासभूता) संग्रह-भूता (एकोच्छ्वासा) एकश्वासयुक्ता । एकविरामा (वर्णान्ते) मन्त्राणां वर्णान्ते (शरीरे) शरीरद्वयम् ॥

१७—(कारवः) कृवापाजिमि० । उ० १ । १ । करोतेः—उण् । कारुः कर्ता स्तोमानाम्—निरु० ६ । ६ । स्तोतारः (नाम) प्रसिद्धौ (ऋषयः) सूदमदर्शिनः (अल्पस्वाः) अल्पधनाः (इमम्) पूर्वोक्तं स्वाहाकारम् (एकगुम्) गोस्त्रियो-रुपसर्जनस्य । पा० १ । २ । ४८ । गो शब्दस्य ह्रस्वः । गौर्वाङ्नाम—निघ० १ ।

अग्निष्टोमेन यजेत इति ब्राह्मणम्) जो चाहे कि मैं स्वर्ग पाने वाला होऊं—यह इस एक वाणी [पाद] वाले अग्निष्टोम [स्वाहाकार] से यज्ञ करे—यह ब्राह्मण है ॥ १७ ॥

कण्डिका १८ ॥

अथातः सवनीयस्य पशोर्विभागं व्याख्यस्यामः उद्धृत्यावदानानि, हनू सजिह्वे प्रस्तोतुः, कण्ठः सकाकुदः प्रतिहर्तुः, श्येनं पक्ष उद्गातुर्दक्षिणं पार्श्वं सांसमध्वर्य्याः, सव्यमुपगातृणां, सव्योऽसः प्रतिप्रस्थातुर्दक्षिणा श्रोणिरथ्यास्त्री ब्रह्मणोऽवरसकथं ब्राह्मणाच्छंसिनः, ऊरुः पोतुः, सव्या श्रोणिर्हानुर्वरसकथं मैत्रावरुणस्योरुरच्छावाकस्य, दक्षिणा दोर्नेष्टुः, सव्या सदस्यस्य, सदञ्चानूकञ्च गृहपतेर्जाधनी पत्न्यास्तां सा ब्राह्मणेन प्रतिग्राहयति, वनिष्टुर्हृदयं वृकौ चाङ्गुल्यानि दक्षिणां बाहुगम्भीधस्य, सव्य आत्रेयस्य, दक्षिणौ पादौ गृहपतेर्ब्रतप्रदस्य, सव्यौ पादौ गृहपत्या ब्रतप्रदायाः, सहैवैनयोरोष्ठस्तं गृहपतिरेवानुशास्ति मणिर्जाश्च स्कन्धास्तिस्त्रश्च कीकसा ग्रावस्तुतस्तिस्त्रश्चैव कीकसा अर्द्धश्चापानश्चान्तुरत उद्ध्वं चमसाध्वर्यूणां क्लोमाः श्मयितुः, शिरः सुब्रह्मण्यस्य, यश्च सुत्यामभ्ययते तस्य चर्म तथा खलु षट्त्रिंशत्सम्पद्यन्ते षट्त्रिंशद्वदाना गौः षट्त्रिंशदक्षरा वृहती, बार्हतो वै स्वर्गो लोकः वृहत्या वै देवाः स्वर्गं लोके यजन्ते, वृहत्या स्वर्गं लोके प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिर्य एवं विभजन्ते । अथ यदतोऽन्यथाशीलिको वा पापकृतो वा हुतादो वाऽन्यजना वाऽपि मथनीरन्नेवमेवैषां पशुर्विमथितो भवत्यस्वर्गादेवता यो ह वा इमां श्रुतः पशोर्विभागं विदाश्चकार, तामु ह गिरिजाय बाभ्रव्यायान्यो मनुष्येभ्यः प्रोवाच, तत् इयमर्वाङ् मनुष्येष्वसीदिति ब्राह्मणम् ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ पशुरूप वेदवाणी की सूक्ष्मता का विचार ॥

(अथ अतः सवनीयस्य पशोः अवदानानि उद्धृत्य विभागं व्याख्यास्यामः) अब यहां यज्ञ योग्य पशु के खण्डों को निकाल कर विभाग की हम व्याख्या करेंगे । (सजिह्वे हनू प्रस्तोतुः) जिह्वा सहित दोनों जाबड़े प्रस्तोता [ऋत्विज] के हैं १, (सकाकुदः कण्ठः प्रतिहर्तुः) तालु सहित कण्ठ प्रति-

११ । एकवाचम् । एकपाद्युक्तम् (आहरन्) आनीतवन्तः (स्वः) स्वर्गलोकम् (ययुः) जग्मुः । प्रापुः (स्वर्ग्यायी) आङ्गि णित् । उ० ४ । ७ । स्वः + या गतौ—इति णित् । स्वर्गगामी, स्याम् इति अध्याहार्यः ॥

हर्ता का है २, (श्येनं पक्षः [= वक्षः] उद्गातुः) श्येन पक्षी के आकार वाली छाती उद्गाता की है ३, (सांसं दक्षिणं पार्श्वम् अध्वर्योः) कन्धे सहित दाहिना पांजर अध्वर्यु का है ४, (सव्यम् उपगातृणाम्) बायां [पांजर] उपगाताओं का है ५, (सव्यः अंसः प्रतिप्रस्थातुः) बायां कन्धा प्रतिप्रस्थाता का है ६, (दक्षिणा श्रोणिः अथ्यास्त्री ब्रह्मणः) दाहिना कूल्हा अथ्यास्त्री [? ?] ब्रह्मा का है ७, (अवरसक्थं ब्राह्मणाच्छंसिनः) [दाहिनी] नीचे वाली पिंडली ब्राह्मणाच्छंसी की है ८, (ऊरुः पोतुः) जांघ पोता [ऋत्विज] की है ९, (सव्याश्रोणिः होतुः) बायां कूल्हा होता का है १०, (अवरसक्थं मैत्रावरुणस्य) [बायीं] नीचे वाली पिंडली मैत्रावरुण [प्राण और अपान वायु के जानने वाले ऋत्विज] की है ११, (ऊरुः अच्छावाकस्य) [बायीं] जांघ अच्छावाक की है १२, (दक्षिणा दोः नेष्टुः) दाहिना भुजदण्ड नेष्टा का है १३, (सव्या सदस्यस्य) बायां [भुजदण्ड] सदस्य का है १४, (सदं च अनूकं च गृहपतेः) पीठ का बांस [रीढ] और मूत्र की थैली गृहपति की है १५, १६, (जाघनी पत्न्याः तां सा ब्राह्मणेन प्रतिग्राहयति) पूंछ पत्नी की है, उस को वह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] से स्वीकार कराती है १७, (वनिष्टुः हृदयं वृक्को च आङ्गुल्यानि दक्षिणः बाहुः आग्नीध्रस्य) वनिष्टु [भीतरली मल की मोटी आंत], हृदय, दो अण्डकोश, अंगुलियों के जोड़ और दाहिनी भुजा आग्नीध्र की है १८, १९, २०, २१, २२, (सव्यः आत्रेयस्य) बायीं [भुजा] आत्रेय [सदा ज्ञानी परमेश्वर के उपासक ऋत्विज] की है २३, (दक्षिणौ पादौ गृहपतेः व्रतप्रदस्य) दोनों दाहिने पांव गृहपति के भोजन देने वाले के हैं २४, (सव्यौ पादौ गृहपत्न्याः व्रतप्रदायाः) दोनों बायें पांव गृहपत्नी के भोजन देने वाली की हैं २५, (ओष्ठः सह एव एनयोः तं गृहपतिः एव अनुशास्ति) ओंठ मिल करके ही इन दोनों

१८—(सवनीयस्य) यज्ञीयस्य (उद्घृत्य) उत्+हृञ् हरणे—त्यप् । उत्क्षिप्य (अवदानानि) खण्डनानि (श्येनम्) श्येनाकारम् (पक्षः) पक्षिवचिभ्यां सुट् च । उ० ४ । २२० । डुपचप् पाके, अथवा वच व्यक्तायां वाचि—असुन्, सुट् च । पक्ष एव वक्षः—एतरेय ब्राह्मणे ७ । १ । उरः (पार्श्वम्) स्पृशेः श्वश्रुनौ पृ च । उ० ५ । २७ । स्पृश संपर्शे—श्वण् पृ इत्यादेशः । कक्षाधोभागः (श्रोणिः) वहि श्रि श्रु यु द्रु० । उ० ४ । ५१ । श्रु गतो श्रुतौ च—नि । कटिपश्चाद्भागः । नितम्बः । (अथ्यास्त्री) ? ? (अवरसक्थम्) असिसञ्जिभ्यां क्थिन् । उ० ३ । १५४ । सञ्ज संगे—क्थिन् । बहुव्रीहौ सक्थ्यदणो स्वाङ्गात् षच् । पा०

[भोजन देने वाले भोजन देने वाली] का है, उस को गृहपति ही बांटता है २६, (मणिर्जाः [=मणिकाः] च स्कन्धाः तिस्रः कीकसाः च ग्रावस्तुतः) मणिर्जा [मणिका अर्थात् मणि समान मांसखण्ड] और स्कन्धों के अवयव और तीन कीकसाये [हंसली की हड्डियां] ग्रावस्तोता [शास्त्र जताने वालों की रतुति करने वाले] के हैं २७, २८, २९, (तिस्रः च एव कीकसाः अर्धं च अपानः च उन्नेतुः) तीनों ही कीकसायें और डेढ़ अपान [गुह्यस्थान उपस्थेन्द्रिय] उन्नेता के हैं ३०, ३१ १/२ (अतः ऊर्ध्वं चमसा अध्वर्यूणाम्) उस से ऊपर वाला [आधा अपान और चमसा [अङ्गविशेष] सब अध्वर्यू का है [३१ + १/२] ३२, ३३, (क्लोमाः शमयितुः) क्लोम [फेफड़ों के अवयव] शमयिता [शान्तिकर्ता] के हैं ३४, (शिरः सुब्रह्मण्यस्य) शिर सुब्रह्मण्य का है ३५, (यः च सुत्याम् आह्वयते तस्य चर्म) और जो [ऋत्विज] सुत्या [सोम निचोड़ने की क्रिया] को बुलाता है उस का चर्म है ३६ । (तथा खलु षट्त्रिंशत् सम्पद्यन्ते) इस प्रकार से ही छत्तीस [भाग] वनते हैं । (षट्त्रिंशदवदाना गौः षट्त्रिंशदक्षरा वृहती) छत्तीस खण्ड वाली गौ है [और गौ के समान] छत्तीस अक्षर वाला वृहती छन्द [अर्थात् समस्त वेदवाणी] है । (वार्हतः वै स्वर्गलोकः) वृहती [वेदवाणी] वाला ही स्वर्गलोक है । (वृहत्या वै देवाः स्वर्गे लोके यजन्ते) वृहती [वेदवाणी] के द्वारा देवता [विद्वान् लोग] स्वर्गलोक में पूजे जाते हैं । (वृहत्या स्वर्गे लोके प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं विभजन्ते) वृहती [वेदवाणी] के द्वारा स्वर्गलोक में वह ठहरता है और प्रजा के साथ और पशुओं के साथ प्रतिष्ठा पाता है जो इस प्रकार बांट करता

५ । ४ । ११३ । सक्थि शब्दस्य षच् । तत्पुरुषेऽपि बाहुलकात् । दक्षिणजंघाधो-
भागः (मंत्रावर्णस्य) प्राणापानयोर्वेत्तुः । ऋत्विग्विशेषस्य (अच्छ्वावाकस्य)
वच परिभाषणे—घञ् । ऋत्विग्विशेषस्य (दोः) भुजदण्डः (सदम्) पृष्ठ-
वंशः (अनूकम्) मूत्रवस्तिः (जाघनी) जघन—अण्, डीप् । पुच्छम् । लाङ्गु-
लम् (प्रतिग्राहयति) स्वीकारयति (वनिष्ठुः) वन् संभक्तौ—इष्टुप् । वनिष्ठुः ।
स्थूलान्तरम् (वृकौ) सृ वृ भू शुषि मुषिभ्यः कक् । उ० २ । ४१ । वृक आदाने
कक् । अण्डकेशौ (आत्रेयस्य) गो० पू० २ । १७ सदाज्ञानवतः परमेश्वरस्य
सेवकस्य । ऋत्विग्विशेषस्य (व्रतप्रदस्य) भोजनदायिनः (व्रतप्रदायाः)
भोजनदाय्याः (अनुशास्ति) विभज्य ददाति (मणिर्जाः) मणिकाः, इति पाठ
पेत० ब्रा० ७ । १ । मणिसदृशमांसखण्डाः (ग्रावस्तुतः) अन्येभ्योपि दृश्यन्ते ।

है । (अथ यत् अतः अन्यथाशीलिकः वा पापकृतः वा हुतादः वा अन्यजनाः वा अपि मथनीरन् एवम् एव एषां पशुः विमथितः अस्वर्गः भवति) फिर जो इस से विरुद्ध शीलवाले, अथवा पाप करने वाले, अथवा हवि खाने वाले, अथवा दूसरे मनुष्य ही मथेँ [सूक्ष्म विचार करें], इस प्रकार से इन सब का पशु [पशुरूप वेदज्ञान] विरुद्ध मथा हुआ और अस्वर्ग [नरक समान] होता है । (देवता यः ह वै श्रुतः ऋषिः पशोः इमां विभागं विदाञ्चकार, ताम् उ ह बाभ्रव्याय गिरिजाय, अन्यः मनुष्येभ्यः प्रोवाच, ततः इयम् अर्वाङ् मनुष्येषु आसीत् इति ब्राह्मणम्) उस देवता [विद्वान्] ने जिस श्रुत [वेदशास्त्र जानने वाले] ऋषि ने पशु के इस विभाग को जाना था, उस [विभाग] को बभ्रु [पालनकर्ता] के सन्तान गिरिज [ऋषि] को [बताया] और दूसरे [गिरिज ऋषि] ने मनुष्यों को बताया, उस से यह [विभाग] अर्वाचीन मनुष्यों में हुआ है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है १८ ॥

भावार्थ—यहां उपकारी गौ के ३६ अवयव मान कर ३६ अक्षर वाले बृहती छन्द से उपमा दिखाई है, बृहती वाणी को भी कहते हैं, इस लिये बृहती छन्द समस्त वेदवाणी का उपलक्षण है—अर्थात् मनुष्यों को चाहिये कि वेदवाणी के सब अक्षरों और उपाक्षरों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर आनन्द पावें ॥ १८ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका का मिलान ऐतरेय ब्राह्मण ७ । १ से करो ॥

पा ३ । २ । ७५ । ग्रह उपादाने, गृ विज्ञापने, शब्दे, निगरणे वा—कनिप्, पृषो-
दरादिक्रमम् । ष्टुञ् स्तुतौ—किप् । आवर्णां शास्त्रविज्ञापकानां स्तुतुः (अपानः)
गुह्यस्थानम् । उपस्थेन्द्रियम् (कीकसाः) अत्यविचमि० । उ० ३ । ११७ । कक
लोल्ये—असच्, धातोः कीकादेशः । जत्रुवक्षोगतास्थीनि (चमसा) अङ्ग-
विशेषः (जामाः) क्लुङ् गतौ—मन् । फुफ्फुसावयवाः । हृदयपार्श्वस्थं मांस-
कण्डाः (शमयितुः) शमु शान्तीकरणे—तृन् । शान्तीकरस्य (सुत्याम) सोमा-
मिपवन्निधाम् (बृहती) षट्त्रिंशदक्षरच्छन्दोभेदः । वाक् । वेदवाणी (यजन्ते)
इज्यन्ते । पूज्यन्ते । (विमजन्ते) आर्षं बहुवचनम् । विमज्ति (अन्यथाशीलिकः)
शीलम् । पा० ४ । ४ । ६१ । अन्यथाशील—उक् । विरुद्धस्वभावयुक्ताः । एक-
वचनमार्षम् (पापकृतः) पापकर्मकर्तारः (हुतादः) अदोऽनन्ते । पा० ३ । २ ।
६८ । हुत + अद् भक्षणे—विट् । हुतभक्षकाः (मथनीरन्) मन्थ विलोडने—
लिङ् । विलोडयेयुः (विमथितः) विरुद्धविलोडितः (श्रुतः) तत्त्वज्ञः । ऋषि-
विशेषः (विभागम्) पुलिङ्गेपि स्त्रियां प्रयोगः । विभक्तिम् (बाभ्रव्याय)
बभ्रुसंतानाय (अर्वाङ्) अर्वाचीनेषु ॥

कण्डिका १६ ॥

अथातो दीक्षाः । कस्यस्विद्धेतोर्दीक्षित इत्याचक्षते, श्रेष्ठां धियं क्षियतीति, तं वा एतं दीक्षितं सन्तं दीक्षित इत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विपः । १ । कस्यस्विद्धेतोर्दीक्षितोऽप्रत्युत्थायिको भवत्यनभिवा-
दुकः प्रत्युत्थेयोऽभिवाधो ये प्रत्युत्थेयाभिवाद्यास्त एनमाविष्ट भवन्ति २, अथर्वाङ्गि-
रसस्तस्य किमाथर्वणमिति, यदात्मन्येव जुह्वति न परस्मिन्नेवं हाथर्वणानामोदन-
समानामात्मन्येव जुह्वति न परस्मिन् ३, अथास्य किमाङ्गिरसमिति, यदात्मनश्च
परेषां च नामानि न गृह्णात्येवं ह तस्मिन्नासादात्मनश्चैव परेषां च नामानि न
गृह्यन्ते, विचक्षणवतीं वाचम्भाषन्ते चनसितवतीं विचक्षयन्ति, ब्राह्मणं चन-
सयन्ति प्राजापत्यं, सैषा वृतधुगथर्वाङ्गिरसस्तां ह्यन्वायत्ताः ४, कस्यस्विद्धेतोर्दी-
क्षितो नाश्यन्नो भवति नास्य नाम गृह्णान्त्यन्नस्थो नामस्थो भवतीत्याहुस्तस्य येऽन्न-
मदन्ति तेऽस्य पाप्मानमदन्त्यथास्य ये नाम गृह्णान्ति तेऽस्य नाम्नः पाप्मानमपा-
धते ५ । अथापि वेदानां गर्भभूतो भवतीत्याहुस्तस्याजातस्याविज्ञातस्याक्रीतसोम-
स्याभोजनीयं भवतीत्याहुः । स दीक्षाणां प्रातर्जायते सोमं क्रीणन्ति तस्य जातस्य
विज्ञातस्य क्रीतसोमस्य भोजनीयं भवतीत्याहुः ६ । कस्यस्विद्धेतोः संसवा परि-
जिहीर्षिता भवन्ति यतरो वीर्यवत्तमो भवति स परस्य यज्ञं परिमुष्णाति ७ ।
कस्यस्विद्धेतोर्द्वैवे न ध्यायेत् संस्थिते नाधीयेतेति संसवस्यैव हेतोरिति विद्योत-
माने स्तनयत्यथो धर्षति वायव्यमभिषुण्वन्ति वै देवाः सोमञ्च भक्षयन्ति तदभि-
षुण्वन्ति ब्राह्मणाः शुभ्रवांसोऽनूचानास्तेषां सर्वरसभक्षाः पितृपितामहा भवन्ति,
स द्वैवे न ध्यायेत् संस्थितेनाधीयेतेति ब्राह्मणम् । ८ ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ दीक्षित पुरुष के कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म ॥

(अथ अतः दीक्षाः) अब यहां दीक्षाये [कही जाती हैं] । (कस्यस्वित्
हेतोः दीक्षितः इति आचक्षते) किस हेतु से यह दीक्षित [नियम धारण करने
वाला] है, ऐसा कहते हैं । (श्रेष्ठां धियं क्षियति इति, तं वा एतं दीक्षितं सन्तं
दीक्षित इति आचक्षते) [उत्तर] श्रेष्ठ [धी] बुद्धि को [क्षियति] प्राप्त होता
है, उस ही दीक्षित [धीक्षित] होते हुये का दीक्षित ऐसा कहते हैं । (परोक्षेण)
परोक्ष [आंख ओट प्रलय में वर्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि)

१६—(दीक्षाः) दीक्ष माँण्ड्ये, यागे, उपनयने नियमवृत्तयोरान्देशे च—
अ, टाप् । अभीष्टप्रदमन्त्र ग्रहणानि (कस्य स्वित् हेतोः) सर्वनाम्नस्तृतीया च
पा० २ । ३ । २७ । इति षष्ठी । कस्मादेव कारणात् (दीक्षितः) दीक्ष माँण्डा-

परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष [वर्तमान अवस्था] के द्वेषी [विरोधी] (भवन्ति) होते हैं [गो० ब्रा० पू० १ । १] । १ । (कस्य स्वित् हेतोः दीक्षितः अप्रत्युत्थायिकः अनभिवादुकः प्रत्युत्थेयः अभिवाद्यः भवति) किस कारण से दीक्षित पुरुष बड़ों के लिये न उठने वाला और न नमस्कार करने वाला, [किन्तु] बड़ों से उठ कर आदर योग्य और नमस्कार योग्य होता है । (ये प्रत्युत्थे याभिवाद्याः ते ह्यनम् आविष्टाः भवन्ति २) [उत्तर] जो पुरुष उठ कर आदर योग्य और नमस्कार योग्य होते हैं । वे [उन के गुण] इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं २ । (अथर्वाङ्गिरसः तस्य किम् आथर्वणाम् इति) निश्चल ब्रह्म के जानने वाले और वेद विज्ञान रखने वाले उस [दीक्षित] का क्या अथर्वपन [निश्चल ब्रह्म का ज्ञान] है । (यत् आत्मनि एव जुहति न परस्मिन्, एवं ह ओदनसमानाम् आथर्वणानाम् आत्मनि एव जुहति [जुहोति] न परस्मिन् ३) [उत्तर] क्योंकि आत्मा में ही वे [विद्वान्] होम करते हैं, न दूसरे [अग्नि] में, ऐसे ही एकसे हवि रखने वाले निश्चल ब्रह्मज्ञानियों के मध्य वह [दीक्षित] आत्मा में ही होम करता है न दूसरे [अग्नि] में [यह अथर्वपन है] ३ । (अथ अस्य किम् आङ्गिरसम् इति) फिर इस [दीक्षित] का क्या आङ्गिरस [वेदज्ञान का भाव] है । (यत् आत्मनः च परेषां च नामानि न गृह्णाति [गृह्णन्ति], एवं ह तस्मिन् आसात् आत्मनः च एव परेषां च नामानि न गृह्यन्ते) [उत्तर] क्योंकि वे [विद्वान्] अपने और दूसरों के नाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही उस [यज्ञ] में आसन पर से अपने और दूसरों के नाम [उस दीक्षित करके] नहीं लिये जाते हैं, (विचक्षणवती वाचं भाषन्ते [भाषते] चन-

दिषु—क । अथवा । तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् । पा० ५ । २ । ३६ ।
दीक्षा—इतच् । अथवा । धी+क्षि गतिनिवासयोः—क, धस्य दः । प्राप्तदीक्षः ।
सामयागादौ संकल्पं विधाय धृतनियमः (धियम्) बुद्धिम् (क्षियति) गच्छति
प्राप्नोति (दीक्षितम्) धीक्षितम्, धस्य दः । प्राप्तबुद्धिम् (अप्रत्युत्थायिकः)
अप्रति+उत्+ष्ठा गतिनिवृत्तौ । जनैर्यक् । उ० ४ । १११ । इति यक्, ततः ठक् ।
सम्मानार्थम् आसनात् अनुत्थितः (अनभिवादुकः) अनभिवादनकर्ता (आविष्टाः)
प्रविष्टाः (अथर्वाङ्गिरसः) अथर्वणः निश्चलब्रह्मविदस्य, अङ्गिरसो वेदविज्ञान-
युक्तस्य (आथर्वणम्) अथर्वभावः (जुहति) होमं कुर्वन्ति (आथर्वणानाम्)
निश्चलब्रह्मज्ञानिनाम् (ओदनसमानाम्) समानहविष्कानाम् (आङ्गिरसम्) अङ्गि-

सितवती विचक्षयन्ति [विचक्षयति], प्राजापत्यं ब्राह्मणं च नसयन्ति [चनस-
यति] वह [दीक्षित] विचक्षण [विविधदर्शी] शब्दवाली वाणी बोलता है,
और चनसित [पूजनीय] शब्द वाली कहता है, और प्रजापति देवता वाले
ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] को चनसित [पूजनीय] शब्द वाली वाणी बोलता है
[और क्षत्रिय और वैश्य को विचक्षण वाली वाणी बोलता है, जैसे देवदत्त
चनसित ! बीरेन्द्र विचक्षण ! धनपाल विचक्षण—गो० ब्रा० उ० २ । २३] ।
(सा एषा व्रतधुक्, अथर्वाङ्गिरसः तां हि अन्वायत्ताः ४) यह [वाणी] व्रत
पूर्ण करने वाली होती है, निश्चल ब्रह्मज्ञानी और वेदज्ञान वाले पुरुष उस के
आधीन होते हैं । ४ । (कस्यस्वित् हेतोः दीक्षितः आशयन्नः न भवति, अस्य
नाम न गृह्णन्ति अन्नस्यः नामस्यः भवति इति आहुः) किस कारण से ही दीक्षित
पुरुष अन्न खिलाने वाला नहीं होता है और न इसका नाम लोग लेते हैं, वह
[दीक्षित] अन्न वाला और नाम वाला होता है, ऐसा कहते हैं । (ये तस्य
अन्नम् अदन्ति ते अस्य पाप्मानम् अदन्ति, अथ ये अस्य नाम गृह्णन्ति ते अस्य
नामः पाप्मानम् अपाप्नते ५) जो पुरुष उसका अन्न खाते हैं वे उस का पाप [न
खाने योग्य भोजन] खाते हैं और जो इस का नाम लेते हैं वे इस के नाम का
पाप मिटाते हैं [उस के नाम को निष्पाप और बड़ा समझते हैं] । ५ । (अथ
अपि चेशानां गर्भभूतः भवति इति आहुः, तस्य अजातस्य अविज्ञातस्य अक्रीत-
सोमस्य अभोजनीयं भवति इति आहुः) फिर वह [दीक्षित] वेदों का गर्भभूत
[आधार] होता है ऐसा कहते हैं, उस न उत्पन्न हुये, न जाने गये, और सोम
न भोल लेने वाले [दीक्षित] का अभोजनीय [अन्न] होता है । (सः दीक्षाणां
प्रातः जायते सोमं क्रीणन्ति [क्रीणाति] तस्य जातस्य विज्ञातस्य क्रीतसोमस्य

रोभावम् (विचक्षणवतीम्) विचक्षणशब्दयुक्ताम् । विचक्षणः । वि+चक्षिङ्
कथने दर्शने च—युच् । विविधं द्रष्टा (चनसितवतीम्) चनसितशब्दयुक्ताम् ।
चायतेरन्ने ह्रस्वश्च । उ० ४ । २०० । चायृ पूजादौ—असुन्, नुद् च । इति
चनस् । चनस् शब्दे नामधातौ कृते—क्त । इति चनसितशब्दः (चनसयन्ति)
चनसितशब्दयुक्तां वाचं कथयति (व्रतधुक्) व्रतस्य नियमस्य दोग्धी पूरयित्री
(न) निषेधे (आशयन्नः) अश भोजने—एयत्, आर्षो ह्रस्वः । आशयन्नः । आशयं
भोजनीयमन्नं यस्मात् सः । अन्नस्य भोजयिता यद्वा अश भोजने—णिनि । वाहिता-
ग्न्यादिषु । पा० २ । २ । ३७ । इति आशीशब्दस्य पूर्वप्रयोगः । अन्नाशी । अन्न-
भक्षकः (संसवाः) द्वयोर्बहूनां वा यजमानानां सम्भूय सोमाभिषवाः, ते च

भोजनीयं भवति इति आहुः ६) [उत्तर] वह दीक्षाओं के मध्य प्रातःकाल उत्पन्न होता है, सोम मोल लेता है, उस उत्पन्न हुये, जाने हुये, सोम मोल ले चुके हुये [दीक्षित] का भोजनीय [अन्न] होता है, ऐसा कहते हैं । ६ । (कस्य स्वित् हेतोः संसवाः परिजिहीर्षिताः भवन्ति)—किस कारण से ही संसव [दो वा बहुत यजमानों के मिलकर सोम निचोड़ने के यज्ञ] छोड़ने योग्य होते हैं । (यतरः वीर्यवत्तमः भवति सः परस्य यज्ञं परिमुष्णति ७) [उत्तर] उन में जो कोई अधिक बलवान् होता है वह दूसरे के यज्ञ को लूट लेता है [इस से यज्ञों के बीच में नदी वा पहाड़ का अन्तर रहे] । ७ । (कस्य स्वित् हेतोः देवे न ध्यायेत् संस्थिते न अधीयेत् इति संसवस्य एव हेतोः इति) किस कारण से ही देव [मेघ] सम्बंधी कर्म में न चिन्ता करे, और संसव दोष [दो यज्ञों में गड़बड़ पड़ जाने] के कारण से संस्थित [समाप्त यज्ञ] में न मन्त्र पढ़े । (विद्योतमाने स्तनयति अथो वर्षति वायव्यं सोमं च वै देवाः अभिषुण्वन्ति भक्षयन्ति, तत् शुश्रुवांसः अनूचानाः ब्राह्मणाः [सोमं अभिषुण्वन्ति] तेषां पितृपितामहाः सर्वरसभक्षाः भवन्ति, सः दैवे न ध्यायेत् संस्थिते न अधीयेत् इति ब्राह्मणम् ८)—[उत्तर] बिजुली चमकते हुये, गरजते हुये और बरसते हुये पर वायु देवता वाले सोम [जल] को देव [मेघ] निचाड़ते हैं और खाते हैं इन लिये वेद सुने हुये और अज्ञों सहित वेद विचारने वाले ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी सोम को] निचाड़ते हैं, उन के मध्य पितर और पितामह [बाप और दादे के समान आदर योग्य विद्वान्] सम्पूर्ण रस खाने वाले होते हैं, [इस लिये] वह दैव [मेघ सम्बंधी कर्म] में न चिन्ता करे और न संस्थित [समाप्त यज्ञ] में मन्त्र पढ़े, यह ब्राह्मण [ब्राह्मज्ञान] है । ८ ॥ १६ ॥

भावार्थ—दीक्षित यजमान ऐसा प्रयत्न करे कि सब विघ्नों को हटा कर उस का यज्ञ निर्विघ्न पूरा होवे ॥ १६ ॥

महान्तो दोषाः (परिजिहीर्षिताः) परिहतुंमभिकांक्षिताः (यतरः) अनयोर्मध्ये यः (परिमुष्णाति) परिलुण्ठति (दैवे) दैवो मेघः । मेघसंबन्धिनि कर्मणि (संस्थिते) समाप्तयज्ञे (विद्योतमाने) विद्युत्प्रकाशमानेमेघे (स्तनयति) स्तन मेघशब्दे— शतृ । मेघशब्दं कुर्वन्ति (वायव्यम्) वायुदेवताकं सोमम् (देवाः) मेघाः । विद्वांसः (सोमम्) जलरन्म । सोमलतारसम् (शुश्रुवांसः) थ्रु श्रवणे-कसु । वेदं श्रुतवन्तः (अनूचानाः) अनु + वच परिभाषणे—कानच् । साङ्गवेदविचक्षणः (पितृपितामहाः) पितरश्च पितामहाश्च । तत्समानपूज्याः विद्वांसः ॥

टिप्पणी—विचक्षणवती वाणी और चनसितवती वाणी के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण १। ६ और उस पर सायण भाष्य और आगे गा० ब्रा० उ० २। २३ देखा ॥

कण्डिका २० ॥

समावृत्त आचार्या निषेदुस्तान् ह यज्ञो दीक्षिष्यमाणानां ब्राह्मणरूपं कृत्वोपोदेयायेत्यञ्चेद्गोपसमवत्सुर्हन्त वाऽहं मध्ये दीक्षा इति, त ऊचुर्नैव त्वा विद्मः न जानीमः को हीदविज्ञायमानेन सह दीक्षिष्यसीति, यन्निवदं दीक्षिष्यध्वे भूयो न दीक्षिष्यन्वेऽथ वा उ एकं दीक्षयिष्यथ सं वै तर्हि माहिष्यथ माहिष्यति वो यज्ञः सर्वे ते दीक्षयिष्यतेत्यथ वा उ एक दीक्षयिष्यथ ते वा अहीनत्विजो गृहपतयो भविष्यथ, ते तूष्णीं ध्यायन्त आसाञ्चकिरे, सहांवाच किन्तु तूष्णीमाध्वे भूयो वः पृच्छामः पृच्छतेति यन्निवदं दीक्षिष्यध्व उपयेम एतस्मिन् संवत्सरे मिथुनं चरिष्यथ नेपेप्यथेति धिमिति हांचुः, कथं नु दीक्षिता उपेप्यामो नेपेप्यामहा इति, ते वै ब्राह्मणानामभिमन्दारा भविष्यथ रेतो ह वो य एतस्मिन् संवत्सरे ब्राह्मणास्तद्भविष्यंस्तं वाधिमता भविष्यथेत्यथ वा उपेप्यामो नेपेप्यामहा इति, ते वै दीक्षिता अवकाणिनाम विष्यथ, न ह वै देवयानः पन्थाः प्रादुर्भविष्यति तिरो वो देवयानः पन्था भविष्यतीति, ते वयं भगवन्तमेवापधावाम यथा स्वस्ति संवत्सरस्योद्वचं समश्नवामहा इति ब्राह्मणम् ॥ २० ॥

कण्डिका २० ॥ दीक्षा विषयक प्रश्नोत्तर ॥

(समावृत्तः [समावृत्ताः] आचार्याः निषेदुः) समावर्त्तन संस्कार किये हुये आचार्य लोग बैठे । (दीक्षिष्यमाणानां यज्ञः ब्राह्मणरूपं कृत्वा तान् ह उपोदेयाय, इत्थं च इत् ह उपसमवत्सुः) उन दीक्षा चाहने वालों में यज्ञ ब्राह्मण रूप करके, उन के पास आया और इस प्रकार स ही यथाविधि ठहरा (हन्त अहं मध्ये वः दाक्षे इति) हे पुरुषों ! मैं मध्य में [बैठ कर] तुम्हें दीक्षा

२०—, समावृत्तः) कृतसमावर्त्तनसंस्काराः (आचार्याः) वेदाध्यापयितारः (दीक्षिष्यमाणानाम्) दीक्षितुमिच्छतां मध्ये (उपोदेयाय) उप+उत्+आ+इण् गतौ—लिट् । समीपे आजगाम (इत्थम्) अनेन प्रकारेण (इत् ह) अवश्यमेव (उपसमवत्सुः) उप+सम्+वस निवासे—लुङ्, बहुवचनं ह्रस्वत्वं चार्षम् । अवात्सुः । अवात्सात् । सम्यक् निवसितवान् (वः) युष्मान् (दीक्षे) दीक्षितान् कर्वाण (दीक्षिष्यसि) दीक्षा प्राप्स्यति (दीक्षयिष्यथ) दीक्षितं कुरुत

संवत्सरे वः रेतः ह तत् भविष्यन् ते बोधिमताः भविष्यथ इति) जो ब्राह्मण तुम्हारे बीच इस वर्ष उस प्रकार से सामर्थ्य पावेंगे, वे ज्ञान से सम्मानित होंगे । (अथ वै उपेष्यामः, न उपेष्याममहै इति) [आचार्य बोले] अब हम पास आवें, क्या हम पास न आवें, (ते वै दीक्षिताः अवकीर्णिनः भविष्यथ [भविष्यन्ति], देवयानः पन्थाः न ह वै प्रादुर्भविष्यति, वः देवयानः पन्थाः तिरः भविष्यति इति) [ब्राह्मण बोला] सो तुम [अन्यथा] दीक्षित होकर धर्म भ्रष्ट हो जाओगे, विद्वानों के चलने योग्य मार्ग कभी प्रकट न होगा, तुम्हारे लिये विद्वानों के चलने योग्य मार्ग गुप्त हो जायगा । (ते वयं भगवन्तम् एव उपधावाम, यथा स्वस्ति संवत्सरस्य उद्वचं समश्नवामहै, इति ब्राह्मणम्) [आचार्य बोले] सो हम आप भगवान् [श्रीमान्] के ही पास आवें, जिस से कल्याण के साथ संवत्सर [यज्ञ] की समाप्ति वाली ऋचा को हम प्राप्त करें, यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ २० ॥

भावार्थ—सब ऋत्विज लोग दीक्षा लीकर अपना अपना कर्तव्य कर्मह करें जिस से यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होवे ॥ २० ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका के पदों में बहुत आर्ष प्रयोग हैं, विद्वान् विचार लें ॥

कण्डिका २१ ॥

स होवाच, द्वादश ह वै वसूनि दीक्षितादुत्क्रामन्ति, न ह वै दीक्षितोऽग्निहोत्रं जुहुयात्, न पौर्णमासेन यज्ञेन यजेत, नामावास्येनास्मिन्वसीत, न पितृ-यज्ञेन यजेत, न तत्र गच्छेद्यत्र मनसा जिगमिषेन्नेष्ट्या यजेत, न वाचा यथाकंथा-च्चिदभिभाषेत, न मिथुनं चरेत् नान्यस्य यथाकाममु युञ्जीत, न पशुबन्धेन यज्ञेन यजेत, न तत्र गच्छेद्यत्र चक्षुषा परापश्येत्, कृष्णाजिनं वसीत, कुरीरन्धारयेन्मु-ष्टीकुय्यादङ्गुष्ठप्रभृतयस्तिस्त्र उच्छेयेत्, मृगशृङ्गं गृह्णीयात्तेन कषेताथ यस्य दीक्षितस्य वाग्वायता स्यान् मुष्टी वा विसृष्टौ स एतानि जपेत् ॥ २१ ॥

कण्डिका २१ ॥ दीक्षित पुरुष के कर्तव्य कर्म और भूल में प्रायश्चित्त ॥

(सः ह उवाच) वह [ब्राह्मण—क० २०] बोला—(द्वादश ह वै वसूनि दीक्षितात् उत्क्रामन्ति) बारह उत्तम कर्म [क० २२] दीक्षित [संकल्प करके नियम धार करने वाले] से उन्नति पाते हैं । (दीक्षितः अग्निहोत्रं न ह वै

जुहुयात्) दीक्षित पुरुष अग्निहोत्र को अब अवश्य ही करे १, (न पौर्णमासेन यज्ञेन यजेत्) अब पौर्णमासी के यज्ञ से होम करे २, (न अमावास्येन अस्मिन् वसांत) अब अमावस्या के यज्ञ से इस [यज्ञशाला] में निवास करे ३, (न पितृयज्ञेन यजेत्) अब पितृ यज्ञ से होम करे ४, (न तत्र गच्छेत् यत्र मनसा जिगमिषेत्) अब वहां जावे जहां मन से जाना चाहे ५, (न इष्ट्या यजेत्) अब इष्टि [जैसे पुत्रेष्टि, नवशस्येष्टि, संवत्सरेष्टि] से यज्ञ करे ६, (न वाचा यथाकथाचित् अभिभाषेत) अब वाणी के किसी ही [उचित] प्रकार बातचीत करे, (न मिथुनं चरेत्) अब मिथुन [मेघा, धारणावनी बुद्धि] का अनुष्ठान करे ७, (न अन्यस्य यथा कामम् उ युञ्जीत) अब दूसरे से अपनी इच्छा के अनुसार ही मिले ८, (न पशुगन्धेन यज्ञेन यजेत्) अब पशु के बन्धन वाले यज्ञ से यज्ञ करे १०, (न तत्र गच्छेत् यत्र चक्षुषा परापश्येत्) अब वहां जावे जहां नेत्र से दूर तक देखे ११ । (कृष्णाजिनं वसीत) काली मृगछाला पहिने ११, (कुरीरं धारयेत्) केश रखावे १२, (मुष्ठी कुर्यात्) दोनों मुठ्ठी बांधे १३, (अङ्गुष्ठप्रभृतयः तिस्रः उच्छ्रयेत्) अंगूठा आदि तीन [अंगुलियों] को ऊंचा रखे १४, (मृगशृङ्गं गृह्णीयात् तेन कषेत) हरिण के सींग को लिये रहे, उस से खुजावे १५ । (अथ यस्य दीक्षितस्य वाक् वा अयता स्यात् मुष्ठी वा विसृष्टौ, सः एतानि जषेत्) जिस दीक्षित पुरुष की वाणी बेनियम हो जावे अथवा दोनों मुठ्ठी खुल जावें, वह इन [वाक्यों] को जपे [कण्डिका २२] ॥ २१ ॥

२१—(द्वादश) द्वादशसंख्यायुक्तानि—क० २२ (वसूनि) उत्तमानि कर्माणि (दीक्षितात्) संकल्पं विधाय धृतनियमात् (उत्क्रामन्ति) उन्नतानि गच्छन्ति (न) सम्प्रति—निरु० ७ । ३१ (वसीत) वसेत (जिगमिषेत्) गन्तुमिच्छेत् (इष्ट्या) यज्ञविशेषेण । यथा पुत्रेष्ट्या नवशस्येष्ट्या, संवत्सरेष्ट्या (यथाकथाचित्) येन केन प्रकारेणापि (मिथुनम्) क० २० । मेधाम् । संयोगम् (चरेत्) प्राप्नुयात् (यथाकामम्) स्वेच्छाचारंण परापश्येत्) दूरमवलोकयेत् (कृष्णाजिनम्) कृष्णसारमृगचर्म (वसीत) आच्छादयेत् (कुरीरम्) कृञ् उच्च । उ० ४ । ३३ । डुकृञ् करणे—ईरन्, ऋकारस्य उर् । केशम् (उच्छ्रयेत्) ऊर्ध्वं धारयेत् (अयता) नञ्+यम निश्चमने—क । अनियमिता । अवशीभूता (विसृष्टौ) वियुक्तौ (एतानि) वक्ष्यमाणानि वाक्यानि ॥

कण्डिका २२ ॥

अग्निहोत्रश्च मापौर्णमासश्च यज्ञः पुरस्तात् प्रत्यञ्चमुभौ कामप्रौ भूत्वा क्षित्या सहाविशतां, वसतिश्च माऽमावास्यश्च यज्ञः पश्चात् प्राञ्चमुभाविति समानं, मनश्च मा पितृयज्ञश्च यज्ञो दक्षिणत उदञ्चमुभाविति समानं, वाक् च मेषिश्चात्तरतो दक्षिणाञ्चमुभाविति समानं, रेतश्च माऽन्नं चेत ऊर्ध्वञ्चमुभाविति समानम् । चक्षुश्च मा पशुबन्धश्च यज्ञोऽमुतोर्वाञ्चमुभौ कामप्रौ भूत्वा क्षित्या सहाविशतमिति । खलु ह वै दीक्षितो य आत्मनि वसूनि धत्ते न चैवास्य काचनार्त्तिर्भवति, न च यज्ञविस्कन्धमुपयात्यापहन्ति पुनर्मृत्युमपात्यति पुनराजातिं, कामचारोऽस्य सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद, यश्चैवं विद्वान् दीक्षा-मुपैतीति ब्राह्मणम् ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ दीक्षित की भूल के प्रायश्चित्त ॥

(अग्निहोत्रं च पौर्णमासः च यज्ञः पुरस्तात् प्रत्यञ्चं मा उभौ कामप्रौ भूत्वा क्षित्या सह आविशताम्) [प्रायश्चित्त के जपने योग्य वाक्य यह हैं— क० २१] अग्निहोत्र १ और पौर्णमासी का यज्ञ २ पूर्व से पश्चिम को जाते हुये मुझ में दोनों कामनापूरक होकर ऐश्वर्य्य के साथ प्रवेश करें १, (वसतिः च अमावास्यः च यज्ञः पश्चात् प्राञ्चं मा उभौ—इति समानम्) रात्रि ३ और अमा-वास्य का यज्ञ ४ पश्चिम से पूर्व को जाते हुये मुझ में दोनों—आगे वैसेही २, (मनः च पितृयज्ञः च यज्ञः दक्षिणतः उदञ्चं मा उभौ—इति समानम्) मन ५ और पितृयज्ञ वाला यज्ञ ६ दक्षिण ये उत्तर जाते हुये मुझ में दोनों—आगे वैसे ही ३, (वाक् च इष्टिः च उत्तरतः दक्षिणाञ्चं मा उभौ—इति समानम्) वाणी ७ और इष्टि [पुत्रेष्टि इत्यादि] = उत्तर से दक्षिण जाते हुये मुझ में दोनों—आगे वैसे ही ४, (रेतः च अन्नं च इतः ऊर्ध्वञ्चं मा उभौ—इति समानम्) वार्य ८ और अन्न १० यहां से ऊपर जाते हुये [विमान आदि से जाते हुये] मुझ में दोनों—आगे वैसे ही ५, (चक्षुः च पशुबन्धः च यज्ञः अमुतः अर्वाञ्चं

२२--(पुरस्तात्) पूर्वदिशात् (प्रत्यञ्चम्) पश्चिमदेशं गच्छन्तम् (काम-प्रौ) इष्टपूरकौ (क्षित्या) क्षि क्षये हिंसामतिनिवासेषु ऐश्वर्य्ये च—किन्, क्षयति ऐश्वर्य्यकर्मा—निघ० २ । २१ । विभूत्या । ऐश्वर्य्येण (आविशताम्) प्रविशताम् । प्राप्नुताम् (वसतिः) वहिवस्यर्तिभ्यश्चित् । उ० ४ । ६० । वस निवासे—अति । रात्रिः । गृहम् (पश्चात्) पश्चिमदेशात् (प्राञ्चम्) पूर्व-

मा उभौ कामप्रौ भूत्वा क्षित्या सह आविशताम् इति) नेत्र ११ और पशुओं के बन्धन वाला यज्ञ १२ यहां से [नौका आदि द्वारा] नीचे जाते हुये मुझ में दोनों कामनापूरक होकर ऐश्वर्य के साथ प्रवेश करें ६ । (खलु ह वै यः दीक्षितः आत्मनि वसूनि धत्ते अस्य काचन आर्तिः न च एव भवति न च यज्ञविस्कन्धम् उपयाति पुनः मृत्युम् अपहन्ति पुनः आज्ञातिम् अपात्येति) निश्चय करके जो दीक्षित पुरुष अपने में [इन बारह] उत्तम कर्मों को धारण करता है, उस को निश्चय करके कोई पीड़ा नहीं होती और न यज्ञ के पतन को वह पाता है, फिर वह मृत्यु को हटा देता है और फिर वह अल्प जीवन को लांघ जाता है । (अस्य कामचारः सर्वेषु लोकेषु भाति यः एवं वेद यः स एव विद्वान् दीक्षाम् उपैति इति ब्राह्मणम्) उस [मनुष्य] का अपनी इच्छा से विचरना सब लोकों में प्रकाशित होता है, जो व्यापक ब्रह्म को जानता है और जो व्यापक ब्रह्म को जानने वाला दीक्षा पाता है [देखो गो० पू० १ । १५]—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ २२ ॥

भावार्थ—सत्यसंकल्पी दीक्षित के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥२२ ॥

कण्डिका २३ ॥

अथ यस्य दीक्षितस्य ऋतुमती जाया स्यात् प्रतिस्नावा प्रतिस्नावा सारूपवत्साया गोः पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वाऽभिघार्योद्वास्योद्दूधृत्याभिहिङ्कृत्य गर्भवेदनपुंसवनैः सम्पातवन्तं कृत्वा तं परैव प्राशनीयाद्रेतो वा अन्नं वृषा हिङ्कार एवं हीश्वराय दीक्षिताय दीक्षिती जाया पुत्रं लभेतेत्येतेनैव प्रक्रमेण यजेतेति ब्राह्मणम् ॥ २३ ॥

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणपूर्वभागे तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ।

कण्डिका २३ ॥ पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान ॥

(अथ यस्य दीक्षितस्य ऋतुमती प्रतिस्नावा जाया स्यात् प्रतिस्नावा सारूपवत्सायाः गोः पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा अभिघार्य उद्वास्य उद्दूधृत्य अभिहिङ्कृत्य गर्भवेदनपुंसवनैः सम्पातवन्तं कृत्वा तं परा एव प्राशनीयात्) फिर जिस

देशं गच्छन्तम् (इतः) अस्मात् स्थानात् (अमुतः) अदस्—तसिल । अस्मात् स्थानात् (अर्वाञ्चम्) अधोगच्छन्तम् (आर्तिः) पीडा । अन्यद् गतम्—गो० पू० १ । १५ ॥

दीक्षित पुरुष की ऋतुमती [मासिक धर्म वाली होकर] स्नान किये हुये पत्नी होवे, स्नान किया हुआ पुरुष समान रूप बच्चे वाली गौ के दूध में स्थालीपाक [कड़ाही में पके हुये अन्न विशेष] को पकवाकर, घी से सींचकर, [कस्तूरी आदि से] सुगन्धित करके, बाहर निकाल कर, मन्त्र विशेष पढ़कर, गर्भज्ञान के सूचक पुंसवन आदि संस्कारों से सब ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले मन्त्रों से युक्त करके उस [स्थालीपाक] को दूसरी [अर्थात् पत्नी] के साथ ही भोजन करे । (रेतः वै अन्नम्, वृषा हिङ्गारः) वीर्य ही अन्न है और ऐश्वर्यवान् हिंकार [मन्त्र विशेष] है । (एवं हि ईश्वराय दीक्षिताय दीक्षिती जाया पुत्रं लभेत इति एतेन एव प्रक्रमेण यजेत इति ब्राह्मणम्) इस प्रकार से ही समर्थ दीक्षा पाये हुये पुरुष के लिये दीक्षा पायी हुई पत्नी पुत्र प्राप्त करे, इसी ही प्रक्रम [क्रम] से यज्ञ करे—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ २३ ॥

भावार्थ—दीक्षित पुरुष दीक्षिती पत्नी के साथ यथाविधि स्थालीपाक भोजन करके संतान उत्पन्न करे ॥ २३ ॥

टिप्पणी—स्थालीपाक मिश्री के मोहनभोग में कस्तूरी, केशर, जायफल,

२३—(ऋतुमती) रजस्वला । स्त्रीधर्मवती (प्रतिस्नावा) आतो मनिन् कनिप् वनिपश्च । पा० ३ । २ । ७४ । प्रति+ष्णा शौचे—वनिप् । सम्यक्कृत-स्नाना (प्रतिस्नावा) सम्यक् कृतस्नानः पुरुषः (स्थालीपाकम्) स्थाल्यां पाको यस्य तम् । गव्यदुग्धेन स्थाल्यां कृतं पाकभेदम् (श्रपयित्वा) आ पाके—णिच्—क्त्वा । पाचयित्वा (अभिघार्य्य) अभि+घृ क्षरणे—णिच्—ल्यप् । आभि-मुख्येन घृतादिन संसिच्य (उद्वास्य) कस्तूर्यादिना सुरभीकृत्य (उद्घृत्य) उत्+हृ—ल्यप् । निःसार्य्य (अभिहिङ्कृत्य) मन्त्रविशेषैः अभिमन्त्र्य (गर्भ-वेदन्पुंसवनैः) गर्भसूचकपुंसवनादिसंस्कारैः (संपातवन्तम्) सम्+पत्त्व गतौ ऐश्वर्ये च—घञ्—, मतुप् । सर्वैश्वर्य्यप्राप्तिमन्त्रविशिष्टम् । (तम्) स्थालीपाकम् (परा) परया । जायया सह (वृषा) कनिन् युवृषितक्षि० । उ० । १ । १५६ । वृषु सेचने, प्रजननैश्वर्योः—कनिन् । वर्षकः । प्रजनयिता । ऐश्वर्य्यवान् (हिङ्गारः) हिं इति अव्यक्तं शब्दं करोति । कृ—अण् । हिं शब्दकारकः (दीक्षिती) दीक्षा—इतच्, डीप् । प्राप्तदीक्षा (प्रक्रमेण) उपायज्ञानपूर्वकारभेदेण ॥

जावित्री यथाविधि मिला कर बनाया जाता है—देखो श्रीमद्भ्यानन्द कृत संस्कारविधि सामान्य प्रकरण ॥

इति श्री मद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
वाडाधिष्ठित बड़ोदे पुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथव-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री परिडत क्षेमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्ये पूर्वभागे तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे भाद्रपदमासे कृष्णैकादश्यां तिथौ १६८०
[अशीत्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-
महायशस्वि श्री राजराजेश्वर पञ्चम जार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये
सुसमाप्तिमगात् ।

मुद्रितम्—आषाढ शुक्ला १२ संवत् १९८१ वि० ता० १३ जूलाई सन् १९२४ ई० ॥

अथ चतुर्थः प्रपाठकः

करिडका १ ॥

ओं अयं वै यज्ञो योऽयं पवते, तमेत इप्सन्ति ये संवत्सराय दीक्षन्ते । तेषां
गृहपतिः प्रथमो दीक्षते, ऽयं वै लोको गृहपतिरस्मिन् वा इदं सर्वं लोके प्रतिष्ठितं,
गृहपता उ एव सर्वे सन्निः प्रतिष्ठिताः प्रतिष्ठाया एवैनं तत् प्रतिष्ठित्यै
दीक्षन्ते ॥ १ ॥

करिडका १ ॥ गृहपति की दीक्षा ॥

(ओं अयं वै यज्ञः यः अयं पवते) ओं, यही यज्ञ है जो यह चलता है,
(तम् एते इप्सन्ति ये संवत्सराय दीक्षन्ते) उस [यज्ञ] को वे पाना चाहते हैं
जो संवत्सर के लिये दीक्षा लेते हैं । (तेषां गृहपतिः प्रथमः दीक्षते) उन
[लोकों] में पहिले गृहपति दीक्षा पाता है । (अयं वै लोकः गृहपतिः) यही
लोक [संसार] गृहपति है । (अस्मिन् लोके वै इदं सर्वं प्रतिष्ठितं गृहपतौ
उ एव सर्वे सन्निः प्रतिष्ठिताः) इस लोक में ही सब [सत्तामात्र] ठहरा हुआ

१—(पवते) गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । संचरति (इप्सन्ति) ईप्सन्ति ।
प्राप्तुमिच्छन्ति (दीक्षन्ते) दीक्षां प्राप्नुवन्ति (प्रतिष्ठितम्) प्रतीत्या स्थितम्
(सन्निः) याजकाः (प्रतिष्ठायाः) गौरवस्य (प्रतिष्ठित्यै) स्थिरतायै ॥

है, गृहपति में भी सब यज्ञ कराने वाले ठहरे हुये हैं। (तत् प्रतिष्ठायाः एव प्रतिष्ठित्यै एनं दीक्षन्ते) इस लिये प्रतिष्ठा [गौरव] के ही ठहराव के लिये [गृहपति] को दीक्षा देते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—यज्ञ में गृहपति इस लिये पहिले दीक्षा लेता है कि वह ज्येष्ठा-धर्मी है—देखो मनु अ० ३ श्लो० ७८ ॥

करिडका २ ॥

अथ ब्रह्माणं दीक्षयति, चन्द्रमा वै ब्रह्माऽधिदैवं, मनोऽध्यात्मं, मनसैव तदोषधीः सन्दधाति, तथा ओषधीर्वेद स एव ब्रह्मोषधीस्तदनेन लोकेन सन्दधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत, स यदेतावन्तरेणान्यो दीक्षेतेमं तं लोक-मोषधिभिर्व्यापादयेदुच्छ्रोषुका ह स्युस्तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत ॥ २ ॥

करिडका २ ॥ ब्रह्मा की दीक्षा ॥

(अथ ब्रह्माणं दीक्षयति) फिर ब्रह्मा को वह दीक्षा देता है। (चन्द्रमाः वै ब्रह्मा अधिदैवं, मनः अध्यात्मम्) चन्द्रमा [के समान] ही ब्रह्मा मुख्य देवता है और मन आत्मा के अधिकार वाला है। (तत् मनसा एव ओषधीः सन्दधाति) इस लिये मन से ही ओषधियों [अन्न सोमलता आदिकों] को वह [ब्रह्मा] ठीक ठीक रखता है। (तत् याः ओषधीः वेद, सः एव ब्रह्मा ओषधीः तत् अनेन लोकेन सन्दधाति) सो जिन ओषधियों को जानता है वही ब्रह्मा उन ओषधियों को तब इस लोक के साथ ठीक ठीक धरता है। (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों [गृहपति और ब्रह्मा] के बीच में दूसरा न दीक्षा लेवे। (यत् एतौ अन्तरेण अन्यः दीक्षेत, सः इमम् तं लोकम् ओषधिभिः व्यापादयेत्) यदि इन दोनों के बीच में दूसरा [अयोग्य] दीक्षा लेवे। वह [कुप्रयोग करके] इस उस लोक को ओषधियों से नष्ट कर देवे। (उच्छ्रोषुकाः ह स्युः) वे [लोक] सूखे हो जावें, (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों के बीच में कोई [अयोग्य पुरुष] न दीक्षा लेवे ॥ २ ॥

२—(अधिदैवम्) मुख्यदेवः (अध्यात्मम्) आत्मानं शरीरम् अधिकृत्य वर्तमानम् (ओषधीः) अन्नसोमलतादिपदार्थान् (सन्दधाति) सम्यक् स्थापयति (याः) यः (अन्तरेण) मध्ये (व्यापादयेत्) नाशयेत् (उच्छ्रोषुकाः) लषपतपदस्थाभू० । पा० ३ । २ । १५४ । उत् + शुष शोषणे—उकञ् वाहुलकात् । अतिशयेन शुष्काः ॥

भावार्थ—योग्य ब्रह्मा पदार्थों के सुप्रयोग से यज्ञ को सिद्ध करता और अयोग्य पुरुष उन के कुप्रयोग से यज्ञ को नष्ट कर देता है, इस लिये ब्रह्मा योग्य होना चाहिये ॥ २ ॥

कण्डिका ३ ॥

अथोद्गातारं दीक्षयत्यादित्यो वा उद्गाताऽधिदैवं, चक्षुरध्यात्मं, पर्जन्यः आदित्यः, पर्जन्यादधिवृष्टिर्जायते, वृष्टिरेव तदोषधीः सन्दधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत, स यदेतावन्तरेणान्यो दीक्षेतेमं तं लोकं वर्षेण व्यापादयेदवर्षका ह स्युस्तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ उद्गाता की दीक्षा ॥

(अथ उद्गातारं दीक्षयति) फिर उद्गाता को दीक्षा देता है । (आदित्यः वै उद्गाता अधिदैवं, चक्षुः अध्यात्मम्) सूर्य [के समान] ही उद्गाता मुख्य देवता है, आंख आत्मा के अधिकार वाली है, (पर्जन्यः आदित्यः) मेघ सूर्य है । (पर्जन्यात् अधि वृष्टिः जायते, वृष्टिः एव तत् ओषधीः सन्दधाति) मेघ से वर्षा होती है, वर्षा ही तब ओषधियों को ठीक २ रखती है । (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों [ब्रह्मा और उद्गाता] के बीच में कोई [अयोग्य] न दीक्षा लेवे । (यत् एतौ अन्तरेण अन्यः दीक्षेत सः इमं तं लोकं वर्षेण व्यापादयेत्) यदि इन दोनों के बीच में कोई दीक्षा लेवे, वह इस उस लोक को वर्षा से नष्ट कर देवे । (अवर्षकाः ह स्युः) वे [लोक] बिना वर्षा वाले हो जावें । (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों के बीच में कोई [अयोग्य] न दीक्षा लेवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—योग्य होता होने से यज्ञ सिद्ध होता है ॥ ३ ॥

कण्डिका ४ ॥

अथ होतारं दीक्षयत्यग्निर्वैहोताऽधिदैवं, वाग्ध्यात्ममन्नं वृष्टिः, वाचं चैव तदग्निं चान्नेन सन्दधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत, स यदेतावन्तरेणान्यो दीक्षेतेमं तं लोकमन्नेन व्यापादयेदशनायुका ह स्युस्तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ ॥ होता की दीक्षा ॥

(अथ होतारं दीक्षयति) फिर होता को दीक्षा देता है । (अग्निः वै

३—(वर्षेण) वृष्ट्या (अवर्षकाः) वर्ष—स्वार्थे कन् । अनावृष्टियुक्ताः ॥

होता अधिदैवं, वाक् अध्यात्मम् अन्नं वृष्टिः) अग्नि [के समान] ही होता मुख्य देवता है, वाणी आत्मा के अधिकार वाली है, अन्न वृष्टि है । (तत् वाचं च एव अग्निं च अन्नेन सन्धधाति) इस लिये वाणी को और अग्नि को भी अन्न के साथ वह [होता] ठीक ठीक धरता है, (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों [उद्गाता, और होता] के बीच में कोई न दीक्षा लेवे । (यत् एतौ अन्तरेण अन्यः दीक्षेत सः इमं तं लोकम् अन्नेन व्यापादयेत्) यदि इन दोनों के बीच में कोई [अयोग्य] दीक्षा लेवे वह इस उस लोक को अन्न के बिना नष्ट कर देवे । (अशनायुकाः ह स्युः) वे [लोक] भुखमरे हो जावें । (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों के बीच में कोई न दीक्षा लेवे ॥४॥

भावार्थ—करिडका ३ के समान ॥ ४ ॥

करिडका ५ ॥

अथाध्वर्युं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयति, वायुर्वा अध्वर्युरधिदैवं, प्राणोऽध्यात्ममन्नं वृष्टिर्वायुं चैव तत्प्राणं चान्नेन सन्धधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत, यदेतावन्तरेणान्यो दीक्षतेमं तं लोकं प्राणेन व्यापादयेत्, प्रमायुका ह स्युस्तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत ॥ ५ ॥

करिडका ५ ॥ अध्वर्यु की दीक्षा ॥

(अथ अध्वर्युं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयति) फिर अध्वर्यु के प्रतिप्रस्थाता [ऋत्विज] दीक्षा देता है । (वायुः वै अध्वर्युः अधिदैवं, प्राणः अध्यात्मम्, अन्नं वृष्टिः) वायु [के समान] ही अध्वर्यु मुख्य देवता है, प्राण आत्मा के अधिकार वाला है और अन्न वृष्टि है । (तत् वायुं च एव प्राणं च अन्नेन सन्धधाति) इस लिये वायु को और प्राण को अन्न के साथ वह [अध्वर्यु] ठीक ठीक धरता है । (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों [होता और अध्वर्यु] के बीच में कोई [अयोग्य] न दीक्षा लेवे । (यत् एतौ अन्तरेण अन्यः दीक्षेत सः इमं तं लोकं प्राणेन व्यापादयेत्) यदि इन दोनों के बीच में कोई दीक्षा लेवे वह इस उस लोक को प्राण से नष्ट कर देवे । (प्रमायुकाः ह स्युः)

४—(अशनायुजा) अशनादन्यो धनाया बुभुक्षा० । पा० ७ । ४ । ३४
अशन—क्यच् इच्छार्थ, इत्यशनाय । लषपत पदस्था भू० । पा० ३ । २ । १५४ ।
अशनाय—उकञ् । बुभुक्षिताः ॥

५—(प्रमायुका) लषपतपदस्थाभू० । पा० ३ । २ । १५४ । प्र+मीञ्-
हिंसायाम्—उकञ् । प्रमीताः । सर्वथामृताः ॥

धे [लोक] मृतक होजावें, (तस्मात् एतौ अन्तरेण अन्यः न दीक्षेत) इस लिये इन दोनों के बीच में कोई न दीक्षा लेवे ॥ ५ ॥

भावार्थ—कण्डिका ३ के समान ॥

कण्डिका ६ ॥

अथ ब्रह्मणे ब्राह्मणाच्छंसिनं दीक्षयति । अथोद्गात्रे प्रस्तोतारं दीक्षयति । अथ होत्रे मैत्रावरुणं दीक्षयति । अथाध्वर्यवे प्रतिप्रस्थातारं नेष्टा दीक्षयति । स हैनमन्वितरेषां वै नवानां क्लृप्तिरन्यतरे कल्पन्ते, नव वै प्राणाः, प्राणैर्यज्ञस्तायते । अथ ब्रह्मणे पोतारं दीक्षयति । अथोद्गात्रे प्रतिहर्तारं दीक्षयति । अथ होत्रेऽच्छावाकं दीक्षयति । अथाध्वर्यवे नेष्टारमुञ्जेता दीक्षयति । स हैनमन्वथ ब्रह्मण आग्नीध्रं दीक्षयति । अथोद्गात्रे सुब्रह्मण्यं दीक्षयति । अथ होत्रे ग्रावस्तुतं दीक्षयति । अथ तमन्यस्नातको वा ब्रह्मचारी वा दीक्षयति, न पूतः पावयेदित्याहुः । सैषानुपूर्वं दीक्षा, तद्य एवं दीक्षन्ते दीक्षिष्यमाणा, एव ते सत्रिणां प्रायश्चित्तं न विन्दन्ते, सत्रिणां प्रायश्चित्तमनु तस्यार्द्धस्थ योगक्षेमः कल्पते, यस्मिन्नर्द्धं दीक्षन्त इति ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ सहायक ऋत्विजों की दीक्षा ॥

(अथ ब्रह्मणे ब्राह्मणाच्छंसिनं दीक्षयति) फिर ब्रह्मा [चारो वेद जानने वाले] के लिये ब्राह्मणाच्छंसी [वेद ज्ञान से स्तुति करने वाले] को वह [ब्रह्मा आदि] दीक्षा देता है । (अथ उद्गात्रे प्रस्तोतारं दीक्षयति) फिर उद्गाता [वेद गाने वाले] के लिये प्रस्तोता [प्रकृष्ट स्तुति करने वाले] को दीक्षा देता है । (अथ होत्रे मैत्रावरुणं दीक्षयति) फिर होता [हवन करने वाले] के लिये मैत्रावरुण [प्राण और अपान विद्या जानने वाले] को दीक्षा देता है । (अथ अध्वर्यवे प्रतिप्रस्थातारं नेष्टा दीक्षयति) फिर अध्वर्य [हिंसा रहित यज्ञ करने वाले] के लिये प्रतिप्रस्थाता [सामने खड़े रहने वाले] को नेष्टा [नायक याजक] दीक्षा देता है । (सः ह एनम् अनु + दीक्षते) वह भी इस के पीछे [दीक्षा लेता है] । (इतरेषां वै नवानां क्लृप्तिः अन्यतरे कल्पन्ते)

६—(ब्राह्मणाच्छंसिनम्) ब्रह्मज्ञानात् स्तोतारम् (मैत्रावरुणम्) प्राणापानवेत्तारम् (नेष्टा) नायको याजकः (क्लृप्तिः) कृपू सामर्थ्ये—क्तिन् । व्यवस्थाम् (कल्पन्ते) कुर्वन्ति (नव प्राणः) सप्तशीर्षन्येन्द्रियाणि द्वे पायूपस्थे (पोतारम्) शोधयितारम् (प्रतिहर्तारम्) द्रव्याणामानेतारम् (आग्नीध्रम्) अग्निदीपयि-

दूसरे नौ [ऋत्विजों] की व्यवस्था दूसरे कोई [इस प्रकार] करते हैं । (नव वै प्राणाः प्राणैः यज्ञः तायते) नौ [दो कान, दो नथने, दो आंखें एक मुख, एक पायु और एक उपस्थ इन्द्रिय] ही प्राण हैं, प्राणों के साथ यज्ञ फैलता है । (अथ ब्रह्मणे पोतारं दीक्षयति) फिर ब्रह्मा के लिये पोता [शोधने वाले] को दीक्षा देता है १ । (अथ उद्गात्रे प्रतिहर्तारं दीक्षयति) फिर उद्गाता के लिये प्रतिहर्ता [द्रव्य लाने वाले] को दीक्षा देता है । २ । (अथ होत्रे अच्छावाकं दीक्षयति) फिर होता के लिये अच्छा वाक् [शुद्ध बोलने वाले] को दीक्षा देता है । ३ । (अथ अध्वर्युवे नेष्टारम् उन्नेता दीक्षयति) फिर अध्वर्यु के लिये नेष्टा को उन्नेता [ऊपर उठाने वाला] दीक्षा देता है । ४ । (सः ह एनम् अनु + दीक्षते) वह [उन्नेता] भी इस [नेष्टा] के पीछे [दीक्षा पाता है] ५ । (अथ ब्रह्मणे आग्नीध्रं दीक्षयति) फिर ब्रह्मा के लिये आग्नीध्र [अग्नि प्रदीप्त करने वाले] को दीक्षा देता है । ६ । (अथ उद्गात्रे सुब्रह्मण्यं दीक्षयति) फिर उद्गाता के लिये सुब्रह्मण्य [अच्छे वेद में निपुण] को दीक्षा देता है । ७ । (अथ होत्रे प्रावस्तुतं दीक्षयति) फिर होता के लिये प्रावस्तुत् [सूक्ष्म विचारों की स्तुति करने वाले] को दीक्षा देता है । ८ । (अथ तम् + अनु, अन्यस्नातकः वा ब्रह्मचारी वा दीक्षयति) फिर उस के [पीछे] स्नातक [वेद विद्या समाप्त कर चुकने वाला] अथवा ब्रह्मचारी [वेद विद्या पढ़ने वाला] दीक्षा पाता है । ९ । (पूतः न पावयेत् इति आहुः) अशुद्ध न शुद्ध करे [न संस्कार करावे]—ऐसा कहते हैं । (सा एषा अनुपूर्वं दीक्षा) यही क्रमानुसार दीक्षा है । (तत् ये दीक्षिष्यमाणाः एवं दीक्षन्ते, ते एव सत्रिणां प्रायश्चित्तं न विन्दन्ते) जो दीक्षा चाहने वाले पुरुष इस प्रकार दीक्षा पाते हैं, वे ही याजकों के प्रायश्चित्त को नहीं पाते [अर्थात् ठीक ठीक यज्ञ करते हैं] । (सत्रिणां प्रायश्चित्तम् अनु तस्य अर्द्धस्य योगक्षेमः कल्पते यस्मिन् अर्द्धे दीक्षन्ते इति ब्राह्मणम्) याजकों के प्रायश्चित्त के साथ उस ऋद्धि [सम्पत्ति] का योगक्षेम [पाने योग्य का पाना और पाये हुये का बचाना] सिद्ध होता है, जिस सम्पत्ति में वे दीक्षा पाते हैं—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ६ ॥

तारम् (सुब्रह्मण्यम्) सुब्रह्मन्—यत् साध्वर्थे । सुब्रह्मणि वेदज्ञाने साधुम् (वा) विकल्पे (पूतः) पूय दुग्न्धे विशरणे च—क्तः । अशुद्धः (पावयेत्) शोधयेत् । संस्कारयेत् (अर्द्धस्य) गो० पू० १ । १३ । ऋद्धेः । संपत्तेः (योगक्षेमः) गो० पू० १ । १३ । प्रायस्य प्रापणं प्राप्तस्य रक्षणं च (अर्द्धे) सम्पत्तौ ॥

भावार्थ—विद्वानों के हाथ से काम होने पर प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं होती, और जो कुछ त्रुटि हो जाय, तो प्रायश्चित्त करके कार्य सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ २ ॥

करिडका ७ ॥

श्रद्धाया वै देवा दीक्षणीयान्निरमिमत् १, अदितेः प्रायणीयां २, सोमात् क्रयं ३, विष्णोरानिथ्यम् ४, आदित्यात् प्रवर्ग्यं ५, स्वधाया उपसदोऽश्रग्नीषोमाभ्यामौपवसथ्यमहः ७, प्रातर्य्यावद्भ्यो देवेभ्यः प्रातरनुवाकं ८, वसुभ्यः प्रातःसवनं ९, रुद्रेभ्यो माध्यन्दिनं सवनम् १०, आदित्येभ्यस्तृतीपसवनं ११, वरुणदवभृथम् १२, अदितेरुदयनीयां १३, मित्रावरुणाभ्यामनृबन्धां १४, त्वष्टुस्त्वाष्ट्रं १५, देवीभ्यो दिविकाभ्यो देवताहवींषि १६, कामाद् दशानिरात्रं १७, स्वर्गलोकादुदवसानीयां १८, तद्वा एतदग्निष्टोमस्य जन्म स य एवमेतदग्निष्टोमस्य जन्म वेदाग्निष्टोमेन स आत्मा सलोको भूत्वा देवान् अप्येतीति ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

करिडका ७ ॥ अग्निष्टोम, और अठारह प्रकार के यज्ञों के देवी देवता ॥

(श्रद्धायाः वै देवाः दीक्षणीयां निरमिमत्) श्रद्धा [ईश्वर और वेद में विश्वास] से ही विद्वानों ने दीक्षणीया [दीक्षा योग्य इष्टि] को बनाया है १, (अदितेः प्रायणीयाम्) अदिति [अखण्ड वेदवाणी] से प्रायणीया [पाने योग्य इष्टि] को २, (सोमात् क्रयम्) सोम [ऐश्वर्य्य] से क्रय [मोल लेने के यज्ञ] को ३, (विष्णोः आतिथ्यम्) विष्णु [व्यापक परमेश्वर] से आतिथ्य [अतिथिसत्कार को ४, (आदित्यात् प्रवर्ग्यम्) सूर्य से प्रवर्ग्य [होमाग्नि] को ५, (स्वधायाः उपसदः) स्वधा [अन्न] से उपसद [पास बैठने] को ६, (अग्नीषोमाभ्याम् औपवसथ्यम् अहः) अग्नि और सोम [जल] से उपवसथ [ग्राम] सम्बन्ध वाले दिन [यज्ञ] को ७, (प्रातर्य्यावद्भ्यः देवेभ्यः प्रातरनु-

७—(दीक्षणीयाम्) दीक्ष माण्ड्येज्योपनयननियमव्रतादेशेषु—अनीयर् । दीक्षायोग्यामिष्टिम् (निरमिमत्) निर्मितवन्तः (अदितेः) कृत्यत्युटो बहुलम् । पा० ३ । ३ । ११३ । दीङ् क्षये, दो अखण्डने, दाप् लवनेवा—क्तिन् । अतिथ्य-तिमास्थामिति किति । पा० ७ । ४ । ४० । इति इत्वम् । दीङ् पक्षे ह्रस्वत्व, नञ् समासः । अदितिः पृथिवी—निघ० १ । १ । वाक्—निघ० १ । ११ । अदीना देवमाता—निरु० ४ । २२ । अदीनायाः वेदवाण्याः । (प्रायणीयाम्) प्रायणीया-

वाकम्) प्रातःकाल चलने वाले देवों से प्रातरनुवाक [यज्ञ] को ८, (वसुभ्यः प्रातःसवनम्) वसुओं [अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, प्रकाश, चन्द्रमा, और नक्षत्र—= वसुओं] से प्रातःसवन [यज्ञ] को ९, (रुद्रेभ्यः माध्यन्दिनं सवनम्) रुद्रों [प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इन दश प्राणों और ग्यारहवें जीवात्मा] से माध्यन्दिन सवन को १०, (आदित्येभ्यः तृतीयसवनम्) आदित्यों [बारह महीनों] से तृतीय सवन को ११, (वरुणाद् अवभृथम्) वरुण [उत्तम जल] से अवभृथ [यज्ञान्त स्नान] को १२, (अदितेः [= दितेः] उदयनीयाम्) अदिति अर्थात् दिति से [दोषनाशक शक्ति से—यहां अदिति पद दिति के लिये है—देखो ऊपर अंक २ तथा क० ८ अंक १३] उदयनीया [उत्तमता से पाने योग्य इष्टि] को १३, (मित्रावरुणाभ्याम् अनूबन्धाम्) मित्र और वरुण [प्राण और अपान] से अनूबन्धा [निरन्तर सम्बन्ध वाली इष्टि] को १४, (त्वष्टुः त्वाष्ट्रम्) त्वष्टा [सूक्ष्म बनाने वाले] से त्वाष्ट्र [त्वष्टा के कर्म] को १५, (देवीभ्यः दिविकाभ्यः देवताहवींषि) देवियों [दिव्य गुण वाली] और देविकाओं [व्यवहार-कुशल क्रियाओं] से देवताओं के अनेक हवि को १६, (कामात् दशातिरात्रम्) काम [श्रेष्ठ इच्छा] से दशातिरात्र [यज्ञ] को १७, (स्वर्गलोकात् उदवसानीयाम्) स्वर्गलोक से उदवसानीया [उत्तम समाप्ति वाली इष्टि] को [विद्वानों ने बनाया] १८ । (तत् वै एतत् अग्निष्टोमस्य जन्म) सो यही अग्निष्टोम यज्ञ का जन्म है । (यः एवम् एतत् अग्निष्टोमस्य जन्म वेद, सः अग्निष्टोमेन स आत्मा सलोकः भूत्वा देवान् अप्येति इति ब्राह्मणम्) जो इस प्रकार अग्निष्टोम के जन्म को जानता है, वही अग्निष्टोम से समान आत्मा वाला और समान लोक वाला होकर दिव्य गुणों को पाता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ७ ॥

मिष्टिम् (प्रातर्यावद्भ्यः) आर्षो दकारः । प्रातर्यावभ्यः । प्रातर्गच्छद्भ्यः (वसुभ्यः) अष्टवसुभ्यः (रुद्रेभ्यः) एकादशप्राणेभ्यः (वरुणात्) वरणीयात् श्रेष्ठात् जलात् (अवभृथम्) अवे भृजः । उ० २ । ३ । अव + भृज् भरणे-कथन् । यज्ञान्त-स्नानम् (अदितेः) अदितेःपूर्वनिर्देशात् अत्र दितेः इत्यनुभूयते । दितेः दोषस्र-एडनशक्तिः सकाशात् (उदयनीयाम्) उद् + इण् गतौ-अनीयर् । उत्तमतया प्रापणीयामिष्टिम् (दिविकाभ्यः) दिवु क्रीडादिषु—ण्वुल् । देविकाभ्यः—क० ८ । व्यवहारकुशलाभ्यः (स आत्मा) संध्यभावः । समानात्मा (सलोकः) समानलोकः ॥

भावार्थ—मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ के ठीक ठीक ज्ञान के साथ अनुष्ठान के मनोरथ सिद्ध करता है ॥ ७ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका का मिलान कण्डिका ८ से करो ॥

कण्डिका ८ ॥

अथ यत् दीक्षणीयया यजन्ते श्रद्धामेव तद् देवी देवतां यजन्ते, श्रद्धादेवी देवता भवति, श्रद्धाया देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति १, अथ यत् प्रायणीयया यजन्तेऽदितिमेव तद् देवीं देवतां यजन्तेऽदितिर्देवी देवता भवत्यदित्या देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति २, अथ यत् क्रय-मुपयन्ति सोममेव तद् देवं देवतां यजन्ते, सोमो देवो देवता भवति सोमस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति ३ । अथ यदातिथ्यया यजन्ते विष्णुमेव तद् देवं देवतां यजन्ते, विष्णुर्देवो देवता भवति विष्णोर्देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति [य] तदुपयन्ति ४ । अथ यत्प्रवर्ग्यमुपयन्त्यादित्यामेव तद् देवं देवतां यजन्ते, आदित्यो देवो देवता भवत्यादित्यस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति ५ । अथ यदुपसदमुपयन्ति स्वधामेव तद् देवीं देवतां यजन्ते, स्वधा देवी देवता भवति स्वधाया देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति ६ । अथ यदौपचसश्रमहरुपयन्त्यग्नीषोमावेव तद् देवौ देवते यजतोऽग्नीषोमौ देवौ देवते भवतोऽग्नीषोमयोर्देवयोः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति ७ । अथ यत् प्रातरनुवाकमुपयन्ति प्रातर्याव्ण एव तद् देवां देवतां यजन्ते प्रातर्य्याव्णो देवा देवता भवन्ति, प्रातर्य्याव्णां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति ८ । अथ यत् प्रातः सवनमुपयन्ति वसू-नेव तद् देवां देवतां यजन्ते, वसवो देवा देवता भवन्ति वसूनां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति ९ । अथ यन्माध्यन्दिनं सवनमुपयन्ति रुद्रानेव तद् देवां देवतां यजन्ते, रुद्रा देवा देवता भवन्ति रुद्राणां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति १० । अथ यत्तृतीयसवनमुपयन्त्यादित्यानेव तद् देवां देवतां यजन्ते, आदित्या देवा देवता भवन्त्यादित्यानां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति ११ । अथ यद्वभृथमुपयन्ति वरुणमेव तद् देवं देवतां यजन्ते, वरुणो देवो देवता भवति वरुणस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति १२ । अथ यदुदयनीयया यजन्ते दितिमेव तद् देवीं देवतां यजन्ते, दितिर्देवी देवता भवत्यदित्या देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति १३ । अथ तदनूबन्धया यजन्ते मित्रावरुणावेव तद् देवौ देवते यजतो मित्रावरुणौ देवौ देवते भवतो मित्रावरुणयोर्देवयोः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुप-

यन्ति १४ । अथ यत् त्वाष्ट्रेण पशुना यजन्ते त्वष्टारमेव तद् देवं देवतां यजन्ते, त्वष्टा देवो देवता भवति त्वष्टुर्देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति १५ । अथ यद् देविका हविर्भिश्चरन्ति या एता उपसत्सुर्भवन्त्यग्निः सोमो विष्णु-रिति देव्यां देविका देवता भवन्ति देवीनां देविकानां देवतानां सायुज्यं सलो-कतां यन्ति य एतदुपयन्ति १६ । अथ यद् दशातिररात्रमुपयन्ति काममेव तद् देवं देवतां यजन्ते, कामो देवो देवता भवति कामस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति १७ । अथ यदुद्वसानीयया यजन्ते स्वर्गमेव तं लोकं देवं देवतां यजन्ते स्वर्गो लोको देवो देवता भवति स्वर्गस्य लोकस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति १८ । तद्वा एतदग्निष्टोमस्य जन्म स य एवमे-तदग्निष्टोमस्य जन्म वेदाप्तवैव तदग्निष्टोमं स्वर्गं लोके प्रतिष्ठति, प्रतिति-ष्ठति प्रजया पशुभिर्य एवं वेदा अग्निष्टोमेन स आत्मा सलोको भूत्वा देवान् अप्येतीति ब्राह्मणम् ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ ॥ अठारह प्रकार के यज्ञ और उन के फल,
और अग्निष्टोम ॥

(अथ यत् दीक्षणीयया यजन्ते, तत् श्रद्धाम् एव देवीं देवतां यजन्ते, श्रद्धा देवी देवता भवति, श्रद्धायाः देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब दीक्षणीया [इष्टि] [क० ७] से यज्ञ करते हैं, तब श्रद्धा देवी ही देवता को पूजते हैं, श्रद्धा देवी देवता [प्रधान विषय] होती है, श्रद्धा देवी के सहयोग [दृढ संयोग, पक्के मेल] और सलोकता [सहवास] को वे पाते हैं, जो इस [कर्म] को स्वीकार करते हैं । १ । (अथ यत् प्रायणीयया यजन्ते, तत् अदितिम् एव देवीं देवतां यजन्ते, अदितिः देवी देवता भवति, अदित्याः देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब प्रायणीया [इष्टि] से यज्ञ करते हैं, तब अदिति (अखण्ड शक्ति) देवी ही देवता को पूजते हैं, अदिति देवी

८—(यत्) यदा (तत्) तदा (सायुज्यम्) सह + युजिर् योगे—द्विप्, ततो भावे—ष्यञ् । सहयोगम् । दृढसंसर्गम् (सलोकताम्) सह एकस्मिन् लोके वासम् (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (उपयन्ति) स्वीकुर्वन्ति (अदितिम्) अखण्ड-शक्तिम् (यजतः) इज्येते । पूज्येते (प्रातर्याव्णः) क० ७ । प्रातर्गन्तून् (उप-सत्सुः) इषेः क्सुः । उ० ३ । १५७ । उप + पद्लृ गतौ—क्सु, बहुवचनस्यैक-वचनम् । उपमत्सवः । समीपेस्थितिशीलाः (आप्तवा) प्राप्य (तत्) तेन कर्मणा (वेदा) आर्षो दीर्घः । वेद जानाति । अन्यद्गतम्—क० ७ ॥

देवी देवता होती है, अदिति देवी के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं जो इस को स्वीकार करते हैं । २ । (अथ यत् क्रयम् उपयन्ति, तत् सोमम् एव देवं देवतां यजन्ते, सोमः देवः देवता भवति, सोमस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब क्रय [मोल लेना] स्वीकार करते हैं, तब सोम [ऐश्वर्यवान्] ही देव देवता को पूजते हैं, सोम देव देवता होता है, सोम देव के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं जो इस को स्वीकार करते हैं । ३ । (अथ यत् आतिथ्या यजन्ते, तत् विष्णुम् एव देवं देवतां यजन्ते, विष्णुः देवः देवता भवति, विष्णोः देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति [ये] एतत् उपयन्ति) फिर जब आतिथ्या [इष्टि] से यज्ञ करते हैं, तब विष्णु [व्यापक] ही देव देवता को पूजते हैं, विष्णु देव देवता होता है, विष्णु देवता के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं [जो] इस को स्वीकार करते हैं । ४ । (अथ यत् प्रवर्ग्यम् उपयन्ति तत् आदित्यम् एव देवं देवतां यजन्ते, आदित्यः देवः देवता भवति आदित्यस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब प्रवर्ग्य [होमाग्नि] को स्वीकार करते हैं, तब सूर्य ही देव देवता को पूजते हैं, सूर्य देव देवता होता है, सूर्य देव के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । ५ । (अथ यत् उपसदम् उपयन्ति, तत् स्वधाम् एव देवीं देवतां यजन्ते, स्वधा देवी देवता भवति, स्वधायाः देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब उपसद [पास बैठने, उपासना] को स्वीकार करते हैं, तब स्वधा [अन्न वा स्वधारण शक्ति] ही देवी देवता को पूजते हैं, स्वधा देवी देवता होती है, स्वधा देवी के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं जो इस को स्वीकार करते हैं । ६ । (अथ यत् औपवसथ्यम् अहः उपयन्ति तत् अग्नीषोमौ एव देवौ देवते यजतः अग्नीषोमौ देवौ देवते भवतः, अग्नीषोमयोः देवयोः सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब औपवसथ्य अहः [उपवसथ अर्थात् ग्राम सम्बन्धी दिन के यज्ञ] को स्वीकार करते हैं, तब अग्नि और सोम [जल] ही दोनों देव देवता पूजे जाते हैं, अग्नि और सोम दोनों देव देवता होते हैं, अग्नि और सोम देवता के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं जो इसको स्वीकार करते हैं । ७ । (अथ यत् प्रातरनुवाकम् उपयन्ति, तत् प्रातर्यावृणः एव देवान् देवतां यजन्ते, प्रातर्यावृणः देवाः देवताः भवन्ति, प्रातर्यावृणां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब प्रातरनुवाक [यज्ञ] को वे स्वीकार करते हैं, तब प्रातःकाल चलने

वाले ही देवों देवताओं को पूजते हैं, प्रातःकाल चलने वाले देव देवता होते हैं प्रातःकाल चलने वाले देवों के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं जो इस को स्वीकार करते हैं । ८ । (अथ यत् प्रातःसवनम् उपयन्ति तत् वसून् एव देवान् देवतां यजन्ते, वसवः देवाः देवताः भवन्ति, वसूनां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब प्रातःसवन [प्रातःकालीन यज्ञ] को स्वीकार करते हैं, तब वसु देवों ही [आठ वसु— क० ७] देवता को पूजते हैं, वसु देव देवता होते हैं, वसु देवताओं के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । ९ । (अथ यत् माध्यन्दिनं सवनम् उपयन्ति, तत् रुद्रान् एव देवान् देवतां यजन्ते, रुद्राः देवाः देवताः भवन्ति रुद्राणां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब माध्यन्दिन सवन [दो-पहर के यज्ञ] को स्वीकार करते हैं, तब रुद्र देवों ही [ग्यारह रुद्रों—क० ७] देवता को पूजते हैं, रुद्र देव देवता होते हैं, रुद्र देवों के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । १० । (अथ यत् तृतीयं सवनम् उपयन्ति, तत् आदित्यान् एव देवान् देवतां यजन्ते, आदित्याः देवाः देवताः भवन्ति, आदित्यानां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब तृतीय सवन [तीसरे पहर के यज्ञ] को स्वीकार करते हैं, तब आदित्यों ही [बारह महीनों—क० ७] देवों देवता को ही पूजते हैं, आदित्य देव देवता हैं, आदित्य देवों के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं जो इस को स्वीकार करते हैं । ११ । (अथ यत् अवभृथम् उपयन्ति, तत् वरुणम् एव देवं देवतां यजन्ते, वरुणः देवः देवता भवति, वरुणस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब अवभृथ [यज्ञान्त स्नान] को वे स्वीकार करते हैं, तब वरुण [जल] ही देव देवता को पूजते हैं, वरुण देव देवता होता है, वरुण देव के ही सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । १२ । (अथ यत् उदयनीयया यजन्ते तत् दितिम् एव देवीं देवतां यजन्ते, दितिः देवी देवता भवति आदित्याः [दित्याः] देव्याः सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब उदयनीया [इष्टि] से यज्ञ करते हैं । तब दिति ही [दोषखण्डक शक्ति] देवी देवता को पूजते हैं, दिति देवी देवता होती है, अदिति [दिति] के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इसको स्वीकार करते हैं । १३ । (अथ यत् अनून्वया यजन्ते तत् मित्रावरुणौ एव देवौ देवते यजतः, मित्रावरुणौ देवौ देवते भवतः, मित्रावरुणयोः देवयोः सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब अनून्वया [इष्टि] से यज्ञ करते हैं तब

मित्र और वरुण ही [प्राण और अपान] देव देवता पूजे जाते हैं, मित्र और वरुण दोनों देव देवता होते हैं, मित्र और वरुण देव के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । १४ । (अथ यत् त्वाष्ट्रेण पशुना यजन्ते, तत् त्वाष्टारम् एव देवं देवतां यजन्ते, त्वष्टा देवः देवता भवति, त्वष्टुः देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब त्वष्टा [सूक्ष्म बनाने वाले] को देवता माननेवाले पशु [प्राणी अर्थात् आत्मा] के साथ यज्ञ करते हैं, तब त्वष्टा ही [सूक्ष्म बनाने वाले] देव देवता को ही पूजते हैं, त्वष्टा देव देवता होता है, त्वष्टा देव के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । १५ । (अथ यत् देविकाः हविर्भिः चरन्ति याः एताः उपसत्सुः भवन्ति, अग्निः, सोमः, विष्णुः इति देव्यः देविकाः देवताः भवन्ति, देवीनां देविकानां देवतानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जो देविकार्ये [व्यवहार कुशल देवियां] हवियों [ग्राह्य पदार्थों] से काम करती हैं, जो समीप बैठने वाली होती हैं, अग्नि, सोम [पेश्वर्यवान्] विष्णु व्यापक यह देवी देविकार्ये देवता होती हैं, देवियों, देविकाओं, और देवताओं के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । १६ । (अथ यत् दशातिरात्रम् उपयन्ति, तत् कामम् एव देवं देवतां यजन्ते कामः देवः देवता भवति, कामस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब दशातिरात्र [यज्ञ] को वे स्वीकार करते हैं, तब काम [श्रेष्ठ इच्छा] ही देव देवता को पूजते हैं, काम देव देवता होता है, काम देव के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस को स्वीकार करते हैं । १७ । (अथ यत् उद्वसानीयया यजन्ते, तं स्वर्गम् एव लोकं देवं देवतां यजन्ते, स्वर्गः लोकः देवः देवता भवति, स्वर्गस्य लोकस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब जब उद्वसानीया [उत्तम समाप्ति योग्य इष्टि] से यज्ञ करते हैं, उस स्वर्ग लोक ही देव देवता को पूजते हैं, स्वर्ग लोक देव देवता [प्रधान विषय] होता है, स्वर्ग लोक देव के सहयोग [पक्के मेल] और सहवास [एक स्थान में निवास] को वे पाते हैं जो इस को स्वीकार करते हैं । १८ ॥

(तत् वै एतत् अग्निष्टोमस्य जन्म) सो यही अग्निष्टोम यज्ञ का जन्म है । (यः एवम् एतत् अग्निष्टोमस्य जन्म वेद, सः तत् अग्निष्टोमम् आप्त्वा एव स्वर्गं लोकं प्रतिष्ठति) जो इस प्रकार इस अग्निष्टोम के जन्म को जानता है, वह उस से अग्निष्टोम को पाकर ही स्वर्ग लोक में ठहरता है । (प्रजया पशुभिः

प्रतितिष्ठति षः एवं वेदा, अग्निष्टामेन स आत्मा सलोकः भूत्वा देवान्
अप्येति इति ब्राह्मणम्) वह प्रजा [संतान आदि] से और पशुओं से प्रतिष्ठा
पाता है और वही अग्निष्टोम के साथ एक आत्मा वाला और एक निवास
वाला होकर उत्तम गुणों को पाता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ८ ॥

भावार्थ—कण्डिका ७ के समान है ॥ ८ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका का मिलान कण्डिका ७ से करो ।

टिप्पणी २—प्रकरण मिलान से जान पड़ता है कि [विश्वेभ्यो देवेभ्यः
दशरात्रं दिग्भ्यो दशरात्रिकं पृष्ठ्यं षडहमेभ्यो लोकेभ्यः छन्दोमत् श्यहं संवत्सरात्
दशममहः प्रजा—] इतना विषय कण्डिका ६ के [गवायुषी] पद के पीछे का
कण्डिका आठ में छुप गया है । यह भूल एशियाटिक सुसैटी के पुस्तक सन्
१८७२ ई० और जीवानन्द विद्यासागर के पुस्तक सन् १८६१ ई० दोनों में है ।
हम ने पुस्तक का मूल और अपना भाष्य प्रकरण के अनुसार ठीक कर दिया है ॥

कण्डिका ६ ॥

अहोरात्राभ्यां वै देवाः प्रायणीयमतिरात्रं निरमिमत् १, अर्द्धमासेभ्यश्च-
तुर्विंशमहः २, ब्रह्मणोऽभिस्रवं ३, क्षत्रात् पृष्ठ्यम् ४, अग्नेरभिजितम् ५, अद्भ्यः
स्वरसामानः ६, सूर्याद्विषुवन्तम् ७, उक्ता आवृत्ताः स्वरसामान इन्द्राद्विश्व-
जितम् ८, उक्तौ पृष्ठ्याभिस्रवौ मित्रावरुणाभ्यां गवायुषी ९, विश्वेभ्यो देवेभ्यः
दशरात्रं १०, दिग्भ्यो दशरात्रिकं पृष्ठ्यं षडहम् ११, एभ्यो लोकेभ्यः छन्दोमत्
श्यहं १२, संवत्सरात् दशममहः १४, प्रजापतेर्महाव्रतं १४, स्वर्गाहोकादुदयनीय-
मतिरात्रं १५, तद्वा एतत् संवत्सरस्य जन्म, स य एवमेतत् संवत्सरस्य जन्म
षेद संवत्सरेण स आत्मा सलोको भूत्वा देवमप्येतीति ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ प्रायणीय अतिरात्रादि पन्द्रह प्रकार के यज्ञ और संवत्सर ॥

(अहोरात्राभ्यां वै देवाः प्रायणीयम् अतिरात्रं निरमिमत्) दिन और रात
से ही विद्वानों ने प्रायणीय [पाने योग्य] अतिरात्र [रात्रि में पूरा होने वाले
यज्ञ] को बनाया । १ । (अर्द्धमासेभ्यः चतुर्विंशम् अहः) आधे महीनों से चतु-

६—(अतिरात्रम्) अतिक्रान्तो रात्रिम्, अच् समासान्तः । यन्नविशेषम्
(क्षत्रात्) क्षत्रियात् (पृष्ठ्यम्) तिथपृष्ठगूथ० । ३० २ । १२ । पृषु सेचने—
थक । पृष्ठादुपसङ्ख्यानम् । षा० पा० ४ । २ । ४२ । पृष्ठ—यन् । सेचनम् ।

विंशमहः [चौशीस अवयव वाले दिन अर्थात् यज्ञ] को । २ । (ब्रह्मणः अभि-
 स्रवम्) ब्रह्मा से अभिस्रव [उछल जाना, यज्ञ] को । ३ । (क्षत्रात् पृष्ठ्यम्)
 क्षत्रिय से पृष्ठ्य [सेचन यज्ञ] को । ४ । (अग्नेः अभिजितम्) अग्नि [परा-
 क्रम] से अभिजित् [विजय यज्ञ] को । ५ । (अद्भ्यः स्वरसामानः) जल से
 स्वरसामो [स्वर सहित साम वाले यज्ञों] को । ६ । (सूर्यात् विषुवन्तम्)
 सूर्य से विषुवत् [तुल्य रात्रि दिन के काल, अर्थात् ग्रीष्म विषुवत् और हेमन्त
 विषुवत् वाले यज्ञ] को । ७ । (आवृत्ताः स्वरसामानः उक्ताः) बार बार आने
 वाले स्वरसाम यज्ञ कहे गये । (इन्द्रात् विश्वजितम्) इन्द्र [पेश्वर्यवान्] से
 विश्वजित् [दिग्विजय यज्ञ] को । ८ । (पृष्ठ्याभिस्रवौ उक्तौ) पृष्ठ्य और अभिस्रव
 यज्ञ कहे गये । (मित्रावरुणाभ्यां गवायुषी) मित्र और वरुण [प्राण और
 अपान] से गवायुषी [गौ विद्या वा पृथिवी और आयु अर्थात् जीवन दो यज्ञों]
 को । ९ । (विश्वेभ्यः देवेभ्यः दशरात्रम्) विश्वे देवाओं [सब दिव्य गुणों] से
 दशरात्र [दशरात्रि यज्ञ] को । १० । (दिग्भ्यः दशरात्रिकं पृष्ठ्यं षडहम्)
 दिशाओं से दशरात्रिक पृष्ठ्य षडह को । ११ । (एभ्यः लोकेभ्यः छन्दोमत् अ-
 हम्) इन लोकों से छन्दोमत् अह [छन्दयुक्त तीन दिन वाले यज्ञ] को । १२ ।
 संवत्सरात् दशम् अहः) संवत्सर [वर्ष] से दशम अहः [दसवें दिन वाले
 यज्ञ] को । १३ । (प्रजापतेः महावृतम्) प्रजापति [पुरुष] से महावृत [उत्तम
 नियम] को । १४ । (स्वर्गात् लोकात् उदयनीयम् अतिरात्रम्) स्वर्ग लोक से
 उदयनीय अतिरात्र [उत्तमता से पाने योग्य रात्रि में पूरे होने वाले यज्ञ] को
 [बनाया] । १५ । (तत् वै एतत् संवत्सरस्य जन्म) सो यही संवत्सर यज्ञ का
 जन्म है । (यः एवम् एतत् संवत्सरस्य जन्म वेद सः संवत्सरेण स आत्मा
 सलोकः भूत्वा देवम् अप्येति इति ब्राह्मणम्) जो इस प्रकार संवत्सर के जन्म
 को जानता है, वह संवत्सर से समान आत्मा वाला और सामान लोक वाला
 होकर उत्तम गुण पाता है—यह ब्राह्मण [ब्राह्मज्ञान] है ॥ ६ ॥

(स्वरसामानः) आर्षी प्रथमा द्वितीयार्थे । स्वरसाम्नः । स्वरसहितसामवतो
 यज्ञान् (विषुवन्तम्) तुल्यरात्रिदिनकालवन्तं यज्ञम् (आवृत्ताः) अभ्यस्ताः
 (मित्रावरुणाभ्याम्) प्राणापानाभ्याम् (गवायुषी) गौश्च आयुश्च । यज्ञविशेषम्
 (संवत्सरात्) सम्पूर्वाञ्चित् । ३० ३ । ७२ । सम् + वस निवासे-सरन् चित् ।
 संवत्सरः संवसन्तेऽस्मिन् भूतानि-निरु० ४ । २७ । द्वादशमासात्मकात् कालात् ।
 षमयात् ॥

भावार्थ—जो मनुष्य संवत्सर [काल] यज्ञ के विविध अङ्गों को जान कर उन का ठीक प्रयोग करता है, वह संवत्सर [काल] के समान विजयी होता है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका के संशोधन के विषय में क० प टि० २ देखो ॥

कण्डिका १० ॥

अथ यत् प्रायणीयमतिरात्रमुपयन्त्यहोरात्रावेव तद्देवौ देवते यजतोऽहो-
रात्रौ देवौ देवते भवतोऽहोरात्रयोर्देवयोः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुप-
यन्ति । १ । अथ यच्चतुर्विंशमहुरुपयन्त्यर्द्धमासानेव तद्देवां देवतां यजन्तेऽर्द्ध-
मासा देवा देवता भवन्त्यर्द्धमासानां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एत-
दुपयन्ति । २ । अथ यदभिस्रवमुपयन्ति ब्रह्माणमेव तत् देवं देवतां यजन्ते ब्रह्मा
देवो देवता भवति ब्रह्मणो देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । ३ ।
अथ यत् पृष्यमुपयन्ति क्षत्रमेव तत् देवं देवतां यजन्ते क्षत्रं देवो देवता भवति
क्षत्रस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । ४ । अथ यदभिजित-
मुपयन्त्यग्निमेव तत् देवं देवतां यजन्तेऽग्निर्देवो देवता भवत्यग्नेर्देवस्य सायुज्यं
सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । ५ । अथ यत् स्वरसाम्न उपयन्त्यप एव तत्
देवीर्देवता यजन्ते आपो देव्यो देवता भवन्त्यपान्देवीनां सायुज्यं सलोकतां
यन्ति य एतदुपयन्ति । ६ । अथ यद्विषुवन्तमुपयन्ति सूर्यमेव तत् देवं देवतां
यजन्ते सूर्यो देवो देवता भवति सूर्यस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य
एतदुपयन्ति । ७ । उक्ता आबृत्ताः स्वरसामानः । अथ यद्विश्वजितमुपयन्तीन्द्र-
मेव तत् देवं देवतां यजन्ते इन्द्रो देवो देवता भवतीन्द्रस्य देवस्य सायुज्यं सलो-
कतां यन्ति य एतदुपयन्ति । ८ । उक्तौ पृष्याभिस्रवौ । अथ यद्दशरात्रमुप-
यन्ति मित्रावरुणावेव तत् देवौ देवते यजतो मित्रावरुणौ देवौ देवते भवतो
मित्रावरुणयोर्देवयोः सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । ९ । अथ यद्द
दशरात्रमुपयन्ति विश्वानेव तद् देवान् देवतां यजन्ते विश्वेदेवा देवता भवन्ति
विश्वेषां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । १० । अथ यद्द दशरात्रिकं
पृष्यं पङ्कमुपयन्ति दिश एव तत् देवीर्देवता यजन्ते दिशो देव्यो देवता भवन्ति
दिशान्देवीनां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । ११ । अथ यच्छन्दोऽनत्
स्यहमुपयन्तीमानेव तल्लोकां देवान् देवतां यजन्त इमे लोका देवा देवता भवन्ति
एषां लोकानां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । १२ । अथ यद्द
दशममहुरुपयन्ति संवत्सरमेव तत् देवं देवतां यजन्ते संवत्सरो देवो देवता

भवति संवत्सरस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । १३ ।
 अथ यन्महावृतमुपयन्ति प्रजापतिमेव तद् देवं देवतां यजन्ते प्रजापतिर्देवो देवता
 भवति प्रजापतेर्देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुपयन्ति । १४ । अथ यदु-
 दयनीयमतिरात्रमुपयन्ति स्वर्गमेव तल्लोकं देव देवतां यजन्ते स्वर्गो लोको देवो
 देवता भवति स्वर्गस्य लोकस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति य एतदुप-
 यन्ति । १५ । तद् वा एतत्संवत्सरस्य जन्म, स य एवमेतत्संवत्सरस्य जन्म
 वेदाप्सवैतत्सवत्सरं स्वर्गं लोके प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिर्य एव वेद
 संवत्सरेण स आत्मा सलोको भूत्वा देवाँ अप्येतीति ब्राह्मणम् ॥ १० ॥

**काण्डिका १० ॥ प्रायणीय अतिरात्र आदि पन्द्रह प्रकार के यज्ञ
 और उनके फल और संवत्सर का जन्म ॥**

(अथ यत् प्रायणीयम् अतिरात्रम् उपयन्ति तत् अहोरात्रौ एव देवौ
 देवते यजतः अहोरात्रौ देवौ देवते भवतः अहोरात्रयोः देवयोः सायुज्यं सलोकतां
 यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब प्रायणीय अतिरात्र [यज्ञ क० ६] को
 स्वीकार करते हैं तब दिन और रात ही दोनों देव देवता पूजे जाते हैं, दिन
 और रात दोनों देव देवता [मुख्य विषय] होते हैं, दिन और रात दोनों देवों के
 सहयोग और सहवास वे पाते हैं, जो इसको स्वीकार करते हैं । १ । (अथ यत्
 चतुर्विंशम् अहः उपयन्ति तत् अर्द्धमासान् एव देवान् देवतां यजन्ते, अर्द्धमासाः
 देवाः देवताः भवन्ति, अर्द्धमासानां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत्
 उपयन्ति) फिर जब चतुर्विंश अहः [यज्ञ] को स्वीकार करते हैं, तब आधे
 आधे महीने देव देवता को ही पूजते हैं, आधे आधे महीने देव देवता होते हैं,
 आधे आधे महीने देवों के सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसको
 स्वीकार करते हैं । २ । (अथ यत् अभिषवम् उपयन्ति तत् ब्रह्माणम् एव देवं
 देवतां यजन्ते, ब्रह्मा देवः देवता भवति ब्रह्माणः देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति
 ये एतत् उपयन्ति) फिर जब अभिषव को स्वीकार करते हैं, तब ब्रह्मा ही देव
 देवता को पूजते हैं, ब्रह्मा देव देवता होता है, ब्रह्मा देव का सहयोग और सह-
 वास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । ३ । (अथ यत् पृष्ठ्यम् उपयन्ति
 तत् क्षत्रम् एव देवं देवतां यजन्ते क्षत्रं देवः देवता भवति, क्षत्रस्य देवस्य सायुज्यं
 सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब पृष्ठ्य यज्ञ को स्वीकार करते
 हैं, तब क्षत्रिय ही देव देवता को पूजते हैं, क्षत्रिय देव देवता होता है, क्षत्रिय

१०—(यजतः) इज्येते पूज्येते । अन्यद् व्याख्यातम् क० ८, ६ ॥

देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । ४ ।
 (अथ यत् अभिजितम् उपयन्ति तत् अग्निम् एव देवं देवतां यजन्ते अग्निः देवः
 देवता भवति अग्नेः देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर
 जब अभिजित् यज्ञ को स्वीकार करते हैं, तब अग्नि ही देव देवता को पूजते
 हैं, अग्नि देव देवता होता है, अग्नि देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं
 जो इसे पूजते हैं । ५ । (अथ यत् स्वरसाम्नः उपयन्ति, तत् आपः एव देवीः
 देवताः यजन्ते, आपः देव्यः देवताः भवन्ति अपां देवीनां सायुज्यं सलोकतां
 यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब स्वरसाम यज्ञों को स्वीकार करते हैं, तब
 जल ही देव देवता को पूजते हैं, जल देव देवता होता है, जल देव का सहयोग
 और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । ६ । (अथ यत् विषुवन्तम्
 उपयन्ति तत् सूर्यम् एव देवं देवतां यजन्ते, सूर्यः देवः देवता भवति सूर्यस्य
 देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब विषुवत् [श्रीष्म
 और शीत में तुल्य दिन रात वाले यज्ञ] को स्वीकार करते हैं तब सूर्य ही देव
 देवता को पूजते हैं, सूर्य देव देवता होता है, सूर्यदेव का सहयोग और सह-
 वास वे पाते हैं, जो इसे स्वीकार करते हैं । ७ । (आवृत्ताः स्वरसामानः उक्ताः)
 बार बार आने वाले स्वरसाम कहे गये । (अथ यत् विश्वजितम् उपयन्ति
 तत् इन्द्रम् एव देवं देवतां यजन्ते, इन्द्रः देवः देवता भवति, इन्द्रस्य देवस्य
 सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब विश्वजित् यज्ञ को
 स्वीकार करते हैं तब इन्द्र [ऐश्वर्यवान्] ही देव देवता को पूजते हैं, इन्द्र देव
 देवता होता है, इन्द्र देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार
 करते हैं । ८ । (पृष्ठ्याभिप्लवौ उक्तौ) पृष्ठ्य और अभिप्लव यज्ञ दोनों कहे गये ।
 (अथ यत् गवायुषी उपयन्ति तत् मित्रावरुणौ एव देवौ देवते यजतः मित्राव-
 रुणौ देवौ देवते भवतः मित्रावरुणयोः देवयोः सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत्
 उपयन्ति) फिर जब गवायुषी [गौ विद्या वा पृथिवी और आयु अर्थात् जीवन
 वाले दो यज्ञों] को स्वीकार करते हैं, तब मित्र और वरुण [प्राण और अपान]
 दोनों देव देवता पूजे जाते हैं, मित्र और वरुण दोनों देव देवता होते हैं, मित्र
 और वरुण देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते
 हैं । ९ । (अथ यत् दशरात्रम् उपयन्ति, तत् विश्वान् एव देवान् देवतां यजन्ते,
 विश्वे देवाः देवताः भवन्ति विश्वेषां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत्
 उपयन्ति) फिर जब दशरात्रि यज्ञ को स्वीकार करते हैं, तब सब ही देवों
 देवता को पूजते हैं सब ही देव देवता होते हैं, सब ही देवों का सहयोग और

सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । १० । (अथ यत् क्षाशरात्रिकं पृष्ठ्यं षडहम् उपयन्ति तत् दिशः एव देवीः देवताः यजन्ते दिशः देव्यः देवताः भवन्ति, दिशां देवीनां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब दाशरात्रिक पृष्ठ्य षडह [छह दिन वाले यज्ञ] को स्वीकार करते हैं तब दिशा ही देवियों देवता को पूजते हैं दिशा देवियां देवता होती हैं, दिशा देवियों का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । ११ । (अथ यत् छन्दोमत् श्यहम् उपयन्ति तत् इमान् एव लोकान् देवान् देवतां यजन्ते इमे लोकाः देवाः देवताः भवन्ति एषां लोकानां देवानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब छन्दोमत् श्यह [छन्दयुक्त तीन दिन वाले यज्ञ] को स्वीकार करते हैं, तब इन ही लोकों देवा देवता को पूजते हैं, यह लोक देव देवता होते हैं इन दिव्य लोकों का सहयोग और सहवास वे पाते हैं, जो इसे स्वीकार करते हैं । १२ । (अथ यत् दशमम् अहः उपयन्ति तत् संवत्सरम् एव देवं देवतां यजन्ते, संवत्सरः देवः देवता भवति संवत्सरस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब दशम अहः [दसवें दिन वाले यज्ञ] को स्वीकार करते हैं, तब संवत्सर ही देव देवता को पूजते हैं, संवत्सर देव देवता होता है, संवत्सर देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । १३ । (अथ यत् महाव्रतम् उपयन्ति तत् प्रजापतिम् एव देवं देवतां यजन्ते, प्रजापतिः देवः देवता भवति, प्रजापतेः देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब महाव्रत यज्ञ को स्वीकार करते हैं तब प्रजापति ही देव देवता को पूजते हैं, प्रजापति देव देवता होता है, प्रजापति देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । १४ । (अथ यत् उदयनीयम् अतिरात्रम् उपयन्ति तत् स्वर्गम् एव लोकम् देवं देवतां यजन्ते, स्वर्गः लोकः देवः देवता भवति, स्वर्गस्य लोकस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत् उपयन्ति) फिर जब उदयनीय अतिरात्र यज्ञ को स्वीकार करते हैं तब स्वर्ग ही लोक देव देवता को पूजते हैं, स्वर्ग लोक देव देवता होता है, स्वर्गलोक देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं । १५ । (तत् वै एतत् संवत्सरस्य जन्म) सो यही संवत्सर का जन्म है । (यः एव संवत्सरस्य जन्म घेद सः एतत् संवत्सरम् आप्त्वा स्वर्गं लोके प्रतिष्ठति) जो इस प्रकार संवत्सर के इस जन्म को जानता है, वह इस संवत्सर को पाकर स्वर्गलोक में ठहरता है । (प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति, यः एव घेद, संवत्सरेण स-आत्मा सलोकः भूत्वा देवान् अप्येति इति ब्राह्मणम्)

वह प्रजा [संतानादि] से और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है, और संवत्सर के साथ एक आत्मा वाला और एक लोक वाला होकर दिव्य गुणों को पाता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ १० ॥

भावार्थ—यहां संवत्सर यज्ञ का विशेष वर्णन है, भावार्थ कण्डिका ६ के समान है ॥ १० ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका का मिलान क० ७ । ८ । ६ से करो ॥

कण्डिका ११ ॥

स वा एष संवत्सरोऽधिदैवं चाध्यात्मं च प्रतिष्ठितः स य एवमेतत् संवत्सरमधिदैवं चाध्यात्मं च प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिर्य एव वेद स वा एष संवत्सरः ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ संवत्सर के ज्ञान की महिमा ॥

(सः वै एषः संवत्सरः अधिदैवं च अध्यात्मं च प्रतिष्ठितः) सो यही संवत्सर अधिदैव [मुख्य देवता] और अध्यात्म [आत्मा के अधिकार वाला ज्ञान] हो कर ठहरा है । (यः एवम् एतत् संवत्सरम् अधिदैवं च अध्यात्मं च प्रतिष्ठितं वेद, सः प्रतिष्ठति) जो पुरुष इस प्रकार इस संवत्सर को अधिदैव और अध्यात्म ठहरा हुआ जानता है, वह ठहरता है । (प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एव वेद) वह प्रजा के साथ और पशुओं के साथ प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) सो यही संवत्सर है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्य संवत्सर [यथावत् बसाने वाले काल] को बाहिर और भीतर से ठोक ठोक काम में लाने से संसार में यश पाता है ॥ ११ ॥

कण्डिका १२ ॥

स वा एष संवत्सरो वृहतीमभिसंपन्नो द्वावक्षरावर्हां षडहो द्वौ पृष्ठ्याभिस्रवौ गवायुषी दशरात्रस्तथा खलु षट्त्रिंशत् सम्पद्यन्ते षट्त्रिंशदवदाना गौः षट्त्रिंशदक्षरा वृहती वार्हतो वै स्वर्गो लोको वृहत्या वै देवाः स्वर्गे लोके यजन्ते वृहत्याः स्वर्गे लोके प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिर्य एव वेद स वा एष संवत्सरः ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ संवत्सर की वृहती छन्द से उपमा और महिमा ॥

(सः वै एषः संवत्सरः वृहतीम् अभिसंपन्नः) सो यही संवत्सर वृहती

[छन्द] से यथावत् मिला हुआ है—(द्वौ अक्षरौ अहां षडहः द्वौ पृष्ठ्याभि-
 स्रवौ गवायुषी दशरात्रः) दो अक्षर (अहाम्) बहुत दिन वाले यज्ञों में (षडहः)
 छह दिन वाला यज्ञ है, दो पृष्ठ्य और अभिस्रव तथा गवायुषी [गो और आयु
 यज्ञ] (दशरात्रः) दस रात्रि वाला यज्ञ है । (तथा खलु षट्त्रिंशत् सम्पद्यन्ते)
 इस प्रकार से ही वे छत्तीस [? ?] बनते हैं [षडह, पृष्ठ्य और अभिस्रव तथा
 गवायुषी और दशरात्र वा दशरात्रिक पदों के लिये देखो कण्डिका ६, १०] ।
 (षट्त्रिंशदवदाना गौः षट्त्रिंशदक्षरा वृहती) छत्तीस खण्ड वाली गौ है
 [और गौ के समान] छत्तीस अक्षर वाला वृहती छन्द [वेद वाणी] है ।
 (वार्हतः वै स्वर्ग लोकः) वृहती [वेदवाणी] वाला ही स्वर्ग है । (वृहत्या वै
 देवाः स्वर्गे लोके यजन्ते) वृहती [वेदवाणी] के द्वारा देवता [विद्वान् लोग]
 स्वर्ग लोक में पूजे जाते हैं । (वृहत्याः स्वर्गे लोके प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभिः
 प्रतितिष्ठति यः एवं वेद) वृहती [वेदवाणी] से स्वर्ग लोक में वह ठहरता
 है और प्रजा के साथ और पशुओं के साथ वह प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा
 जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) सो यही संवत्सर है ॥ १२ ॥

भावार्थ—वेदवाणी द्वारा संवत्सर के सुप्रयोग से मनुष्य प्रतिष्ठा
 पावे ॥ १२ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका का मिलान करो गो० पू० ३।१८ तथा ४।६, १० ॥

कण्डिका १३ ॥

स वा एष संवत्सरस्त्रिमहावृत्तश्चतुर्विंशेन महावृत्तं विषुवति महावृत्तं
 महावृत्त एव महावृत्तं तं ह स्मैतमेवं विद्वांसः पूर्वं त्रिमहावृत्तमुपयन्ति ते तेज-
 स्विन आसन् सत्यवादिनः संशितवृत्ता य एनमद्य तथापेयुर्यथाऽऽमपात्रमुदक
 आसिक्ते निर्मृज्येदेवं यजमाना निर्मृज्येरन्नुपर्युपयन्ति तथा हास्य सत्येन तपसा
 वृत्तेन चाभिजतमवरुद्धं भवति य एवं वेद स वा एष संवत्सरः ॥ १३ ॥

कण्डिका १३ ॥ संवत्सर और महावृत्त ॥

(सः वै एषः संवत्सरः त्रिमहावृत्तः, चतुर्विंशेन महावृत्तम्, विषुवति
 महावृत्तम्, महावृत्ते एव महावृत्तम्) सो यही संवत्सर [यज्ञ] तीन महावृत्त
 वाला है, [अर्थात्] चतुर्विंश [चौबीस पक्ष वाले] के साथ महावृत्त १, विषु-

१२—(अभिस्रवः) सम्यग् युक्तः (वृहती) वाक् । वेदवाणी छन्दोभेदः
 (वार्हतः) वृहती—अण् । वृहत्या वेदवाण्या सम्बद्धः ॥

वान् [तुल्य दिन रात वाले काल अर्थात् मेष तुला की सङ्क्रान्ति के काल] में महाव्रत २, महाव्रत में महाव्रत ३ । (तं ह एतं त्रिमहाव्रतम् एवं पूर्वं विद्वांसः उपयन्ति स्म, तं तेजस्विनः सत्यवादिनः संशितव्रताः आसन्) उस ही तीन महाव्रत वाले [संवत्सर] को इस प्रकार पहिले विद्वानों ने स्वीकार किया, वे तेजस्वी, सत्यवादी, व्रत पूरे करने वाले हुये । (ये एनं अद्य तथा अपेयुः यथा आमपात्रम् उदके आसिक्ते निर्मृज्येत् एवं यजमानाः निर्मृज्येरन्) जो [याजक] इस [संवत्सर] को आज इस प्रकार नष्ट कर दें, जैसे कच्चा [मिट्टी का] पात्र जल भर जान पर घुल जावे, वैसे ही [उन मूर्ख याजकों द्वारा] यजमान घुल जावें । (उपरि उपयन्ति तथा ह सत्येन तपसा व्रतेन च अस्य अभिजितम् अवरुद्धं भवति, यः एवं वेद) वे [उस को] ऊपर [वर्तमान होता हुआ] स्वीकार करते हैं और भी सत्यभाषण से, [ब्रह्मचर्यादि] तप से, और अग्निहेत्र आदि व्रत से उस का अभिजित् [सब ओर से जीतने वाला यज्ञ] प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) सो यही संवत्सर [यज्ञ] है ॥ १३ ॥

भावार्थ—विद्वान् कर्मकुशल याजकों द्वारा ही यजमानों का यज्ञ सिद्ध होता है ॥ १३ ॥

कण्डिका १४ ॥

अथ यच्चतुर्विंशमहरुपेत्यानुपेत्य विषुवन्तं महाव्रतमुपेयात् कथमनाकृत्यै भवतीति यमेवामुं पुरस्ताद्विषुवतोऽतिरात्रमुपयन्ति तेनेति ब्रूयादभिषवात् पृष्ठ्या निर्मितः, पृष्ठ्यादभिजित्, अभिजितः स्वरसामानः, स्वरसामभ्यो विषुवान् विषुवतः स्वरसामानः, स्वरसामभ्यो विश्वजित्, विश्वजितः पृष्ठ्याभिषवा, पृष्ठ्याभिषवाभ्यां गवायुषी, गवायुभ्यां दशरात्रः, दशरात्राय महाव्रतं, महाव्रतादुदयनीयायातिरात्राद्येदयनीयोऽतिरात्रः स्वर्गाय लोकायान्नाद्याय प्रतिष्ठित्यै य एवं वेद स वा एष संवत्सरः ॥ १४ ॥

१३—(त्रिमहाव्रतः) त्रीणि महाव्रतानि यस्मिन् स तथाभूतः (उपयन्ति स्म) स्वीकृतवन्तः (संशितव्रताः) सम्यक्सम्पादितव्रताः (अद्य) अस्मिन् दिने । इदानीम् (अपेयुः) अप—इयुः । नाशयेयुः (आमपात्रम्) अपक्वपात्रम् (आसिक्ते) समन्तात् सिञ्चिते (निर्मृज्येत्) शोधनेन नश्येत् (निर्मृज्येरन्) नश्येयुः (अवरुद्धम्) लब्धम् ॥

करिडका १४ ॥ संवत्सर और महावृत यज्ञ के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(अथ यत् चतुर्विंशम् अहः उपेत्य विषुवन्तम् अनुपेत्य महावृतम् उपे-
यात् , कथम् अनाकृत्यै भवति इति) फिर जब चतुर्विंश अह [चौबीस दिन
वाले यज्ञ] को स्वीकार करके और विषुवान् को न स्वीकार करके महावृत को
स्वीकार करे, कैसे वह [यजमान] अयोग्य संकल्प के लिये होता है । (यम्
एव अनुम् अतिरात्रम् विषुवतः पुरस्तात् उपयन्ति तेन इति ब्रूयात्) [उत्तर]
जिस ही उस अतिरात्र [यज्ञ] को विषुवान् से पहिले स्वीकार करते हैं, उस
से [वह अयोग्य संकल्प के लिये होता है], ऐसा कहे । (अभिषवात् पृष्ठ्यः
निर्मितः) [क्योंकि] अभिषव [यज्ञ] से पृष्ठ्य [यज्ञ] बनाया गया है १,
(पृष्ठ्यात् अभिजित्) पृष्ठ्य से अभिजित् [सब ओर से जीतने वाला यज्ञ] २,
(अभिजितः स्वरसामानः) अभिजित् से स्वरसाम ३, (स्वरसामभ्यः विषु-
वान्) स्वरसामों से विषुवान् [ग्रीष्म और शीत के तुल्य दिन रात्रि वाले
काल में यज्ञ] ४, (विषुवतः स्वरसामानः) विषुवान् से स्वरसाम ५, (स्वर-
सामभ्यः विश्वजित्) स्वरसामों से विश्वजित् ६, (विश्वजितः पृष्ठ्याभिषवौ)
विश्वजित् से पृष्ठ्य और अभिषव ७, (पृष्ठ्याभिषवाभ्यां गवायुषी) पृष्ठ्य
और अभिषव से गवायुषी [करिडका ६] ८, (गवायुर्भ्यां दशरात्रः) दोनों
गवायु [गो और आयु] से दशरात्र ९, (दशरात्राय [दशरात्रात्] महावृतम्)
दशरात्र से महावृत १०, (महावृतात् उदयनीयाय अतिरात्राय [उदयनीयः
अतिरात्रः]) महावृत से उदयनीय अतिरात्र [बनाया गया है] ११ । (उदय-
नीयः अतिरात्रः [अस्य] स्वर्गाय लोकाय अन्नाद्याय प्रतिष्ठित्यै, ब्रः एवं वेद)
उदयनीय अतिरात्र [उस के] स्वर्ग लोक के लिये, भोजन योग्य अन्न के लिये
और प्रतिष्ठा के लिये होता है, जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः)
सो यही संवत्सर है ॥ १४ ॥

टिप्पणी—इस करिडका के साथ देखो करिडका १७ तथा २२ ॥

करिडका १५ ॥

अथ यच्चतुर्विंशमहुरुपेत्यानुपेत्य विषुवन्तं महावृतमुपेयात् कथमनाकृत्यै

१४—(उपेत्य) स्वीकृत्य (अनुपेत्य) अस्वीकृत्य (अनाकृत्यै) नञ् +
आ + कृ शब्दे—क्तिन् । अयोग्यसंकल्पाय (दशरात्राय) दशरात्रात् (उदयनी-
याय) उदयनीयः (अतिरात्राय) अतिरात्रः ॥

भवतीति यमेवामुं पुरस्ताद्विषुवतोऽतिरात्रमुपयन्ति तेनेति ब्रूयादभिस्रवात् पृष्ठ्यो निर्मितः, पृष्ठ्यादभिजित्, अभिजितः स्वरसामानः, स्वरसामभ्यो विषुवान्, विषुवतः स्वरसामानः, स्वरसामभ्यो विश्वजित्, विश्वजितः पृष्ठ्याभिस्रवौ, पृष्ठ्याभिस्रवाभ्यां गवायुषी, गवायुभ्यां दशरात्रोऽथ ह देवेभ्यो महावृतं न तस्थे कथमूर्ध्वैः स्तोमैर्विषुवन्तमुपागातां वृत्तैर्मांमिति ते देवो इह सामिवा सुरुप तं यज्ञक्रतुं जानीमो य ऊर्ध्वस्तोमो येनैतदहरवामुयामेति तत एतं द्वादशरात्रमूर्ध्वस्तोमं ददृशुस्तमाहरंस्तेनायजन्त तत एभ्योऽतिष्ठंस्तिष्ठति हास्मै महावृतं महावृतं प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिर्यएवं वेद स वा एष संवत्सरः ॥१५॥

कण्डिका १५ ॥ संवत्सर और महावृत के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(अथ यत् चतुर्विंशम् अहः उपेत्य विषुवन्तम् अनुपेत्य महावृतम् उपेयात्, कथम् अनाकृत्यै भवति इति) फिर जब चतुर्विंश अह [चौबीस दिन वाले यज्ञ] को स्वीकार करके और विषुवान् को न स्वीकार करके महावृत को स्वीकार करे, कैसे वह [यजमान्] अयोग्य संकल्प के लिये होता है। (यम् एव अमुम् अतिरात्रं विषुवतः पुरस्तात् उपयन्ति तेन इति ब्रूयात्) [उत्तर] जिस ही उस अतिरात्र [यज्ञ] को विषुवान् से पहिले स्वीकार करते हैं, उस से [वह अयोग्य संकल्प के लिये होता है], ऐसा कहे। (अभिस्रवात् पृष्ठ्यः निर्मितः) [क्योंकि] अभिस्रव [यज्ञ] से पृष्ठ्य [यज्ञ] बनाया गया है १, (पृष्ठ्यात् अभिजित्) पृष्ठ्य से अभिजित् २, (अभिजितः स्वरसामानः) अभिजित् से स्वरसाम ३, (स्वरसामभ्यः विषुवान्) स्वरसामों से विषुवान् [क० १४] ४, (विषुवतः स्वरसामानः) विषुवान् से स्वरसाम ५, (स्वरसामभ्यः विश्वजित्) स्वरसामों से विश्वजित् ६, (विश्वजितः पृष्ठ्याभिस्रवौ) विश्वजित् से पृष्ठ्य और अभिस्रव ७, (पृष्ठ्याभिस्रवाभ्यां गवायुषी) पृष्ठ्य और अभिस्रव से गवायुषी [क० ६] ८, (गवायुभ्यां दशरात्रः) दोनों गवायु से दशरात्र [बनाया गया है] ६। (अथ ह देवेभ्यः महावृतं न तस्थे कथमूर्ध्वैः स्तोमैः विषुवन्तम् उपागाताम्) फिर भी देवताओं के लिये महावृत न ठहरा, किस प्रकार ऊर्ध्व स्तोमों [स्तोत्र विशेषों] से विषुवान् यज्ञ को स्वीकार करे। (वृत्तैः माम् इति, ते देवः इह सामिवासुः, तं यज्ञक्रतुम् उपजानीमः

१५—(न) निषेधे (तस्थे) तस्थौ (उपागाताम्) उप+आ+गाङ् गतौ—लौट् । उपागच्छेत् । उपेयात् (वृत्तैः) वृत्तु वर्तने—क । सञ्चरिन्नैः (सामिवासुः) कृवापाजिमि० उ० १ । १ । साम्नि+वस निवासे—उण्, नकार-

यः ऊर्ध्वस्तोमः, येन एतत् अहः अवाप्नुयाम इति) सच्चरित्रों से मुझ को, तैरे लिये देवता [विद्वान् लोग] यहाँ मोक्ष विद्या में निवास करने वाला है, उस यज्ञ कर्म को समीप होकर हम जानें जो ऊर्ध्वस्तोम है और जिस से इस अह [दिन अर्थात् यज्ञ विशेष] को हम प्राप्त करें [इन ब्राह्मण वचनों से विषुवान् यज्ञ को स्वीकार करे] । (ततः एतं द्वादशरात्रम् ऊर्ध्वस्तोमं ददशुः तम् अहारन् तेन अयजन्त ततः एभ्यः अतिष्ठन्) इसी से इस द्वादशरात्र ऊर्ध्वस्तोम को उन्होंने [ऋषियों] ने देखा, उसे वे ले आये, उस से यज्ञ किया, उसी से उन [देवताओं] के लिये वह [महावृत] ठहरा । (अस्मै ह महावृतं तिष्ठति महावृतं प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद) उस [पुरुष] के लिये ही महावृत ठहरता है, महावृत अच्छे प्रकार ठहरता है, और वह प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) वही यह संवत्सर है ॥ १५ ॥

करिडका १६ ॥

अथ यच्चतुर्विंशमहरुपेत्यानुपेत्य विषुवन्तं महावृतमुपेयात् कथमनाकृत्यै भवतीति यमेवामुं पुरस्ताद्विषुवतोऽतिरात्रमुपयन्ति तेनेति ब्रूयात् तदाहुः कति संवत्सरस्य पराञ्च्यहानि भवन्ति, कत्यर्वाञ्चि, तद्यानि सकृत् सकृदुपयन्ति तानि पराञ्चि, अथ यानि पुनः पुनरुपयन्ति तान्यर्वाञ्चि, इत्येवैनां न्युपासीरन् षडहयो-र्द्यावृत्तिमन्वावर्त्तन्ते य एवं वेद स वा एष संवत्सरः ॥ १६ ॥

करिडका १६ ॥ संवत्सर और महावृत के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(अथ यत् चतुर्विंशम् अहः उपेत्य विषुवन्तम् अनुपेत्य महावृतम् उपेयात् कथम् अनाकृत्यै भवति इति) फिर जब चतुर्विंश अह [चौबीस दिन वाले यज्ञ] को स्वीकार करके और विषुवान् को न स्वीकार करके महावृत को स्वीकार करे, कैसे वह [यजमान] अयोग्य संकल्प के लिये होता है । (यम् एव अमुम् अतिरात्रं विषुवतः पुरस्तात् उपयन्ति तेन इति ब्रूयात्) [उत्तर] जिस ही उस अतिरात्र [यज्ञ] को विषुवान् से पहिले स्वीकार करते हैं, उस से [वह अयोग्य संकल्प के लिये होता है], ऐसा कहे ।

लोपः । साञ्चिवासकः । मोक्षज्ञाने निवासशीलः (उप) उपेत्य (यज्ञक्रतुम्) यज्ञकर्म । यज्ञप्रज्ञाम् (अतिष्ठन्) अतिष्ठत् ॥

१६—(कति) संख्याभेदपरिज्ञानाय प्रश्नः (पराञ्चि) पर+अञ्चु गति-पूजनयोः—किन् । परकालगतानि । पराचीनानि (अर्वाञ्चि) अवर+अञ्चु

(तत् आहुः संवत्सरस्य कति पराञ्चि अहानि भवन्ति, कति अर्वाञ्चि) यह कहते हैं कि संवत्सर के कितने पराञ्चि [प्राचीन वा पुराने] दिन होते हैं और कितने अर्वाञ्चि [अर्वाचीन वा नूतन] । (तत् यानि सकृत् सकृत् उपयन्ति तानि पराञ्चि, अथ यानि पुनः पुनः उपयन्ति तानि अर्वाञ्चि इति एव एनानि उपासीरन्) [उत्तर] सो जिन को एक एक बार स्वीकार करते हैं वे पराञ्चि हैं, फिर जिन को बार २ स्वीकार करते हैं वे अर्वाञ्चि हैं, मनुष्य इन की ही उपासना करें । (षडहयोः हि आवृत्तिम् अन्वावर्तन्ते यः एवं वेद) वह दोनों षड् अह [छह दिन वाले यज्ञों] की आवृत्ति निरन्तर करता रहै जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) सो यही संवत्सर है ॥ १६ ॥

कण्डिका १७ ॥

अथ यच्चतुर्विंशमहुरुपेत्यानुपेत्य विषुवन्तं महावृतमुपेयात् कथमनाकृत्यै भवतीति यमेवामु पुरस्ताद्विषुवतोऽतिरात्रमुपयन्ति तेनेति ब्रूयादभिस्रवं पुरस्तात् विषुवतः पूर्वमुपयन्ति पृष्ठ्यमुपरिष्ठात् पिता वा अभिस्रवः पुत्रः पृष्ठ्यस्तस्मात्पूर्वं वयसि पुत्राः पितरमुपजीवन्ति पृष्ठ्यं पश्चाद्विषुवतः पूर्वमुपयन्ति अभिस्रवमुपरिष्ठात् पिता वा अभिस्रवः पुत्रः पृष्ठ्यस्तस्मादुत्तमे वयसि पुत्रान् पितोपजीवति य एवं वेद ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसं तनूनाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गतीरिति ।

उप ह वा एनं पूर्वं वयसि पुत्राः पितरमुपजीवन्त्युपात्तमे वयसि पुत्रान् पितोपजीवन्ति य एवं वेद स वा एष संवत्सरः ॥ १७ ॥

कण्डिका १७ ॥ संवत्सर और महावृत के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(अथ यत् चतुर्विंशम् अहः उपेत्य विषुवन्तम् अनुपेत्य महावृतम् उपेयात् कथम् अनाकृत्यै भवति इति) फिर जब चतुर्विंश अह [चौबीस दिन वाले यज्ञ] को स्वीकार कर के और विषुवान् [तुल्य दिन रात वाले काल के यज्ञ] को न स्वीकार करके महावृत को स्वीकार करे, कैसे वह [यजमान] अयोग्य संकल्प के लिये होता है । (यम् एव अमुम् अतिरात्रं विषुवतः पुर-

गतिपूजनयोः—किन् । पश्चात्काले भवानि । अर्वाचीनानि (सकृत्) एकवारम् (आवृत्तिम्) पुनः पुनरभ्यासम् (अन्वावर्तन्ते) अनुगत्य प्रवर्तते ॥

१७—(वयसि) अज गतिक्षेपणयोः—असुन्, वीभावः । अवस्थायाम् (उपजीवन्ति) आश्रित्य जीवन्ति (इत्) निश्चयेन (नु) शीघ्रम् एव (शरदः)

स्तात् उपयन्ति तेन इति ब्रूयात्) [उत्तर] जिस ही उस अतिरात्र [यज्ञ] को विषुवान् से पहिले स्वीकार करते हैं, उस से [वह अयोग्य संकल्प के लिये होता है], ऐसा कहे । (पूर्व अभिषवः विषुवतः पुरस्तात् उपयन्ति पृष्ठ्यम् उपरिष्ठात् पिता वै अभिषवः पुत्रः पृष्ठ्यः, तस्मात् पूर्वं वयसि पुत्राः पितरम् उपजीवन्ति) पहिले अभिषव को विषुवान् से पहिले स्वीकार करते हैं और पृष्ठ्य [यज्ञ] को पीछे, पिता ही अभिषव और पुत्र पृष्ठ्य है, इस लिये पहिली अवस्था में पुत्र पिता के सहारे जीते हैं, (पूर्व पृष्ठ्यं विषुवतः पश्चात् उपयन्ति अभिषवम् उपरिष्ठात् पिता वै अभिषवः पुत्रः पृष्ठ्यः, तस्मात् उत्तमे वयसि पिता पुत्रान् उपजीवति यः एवं वेद) पहिले पृष्ठ्य को विषुवान् से पीछे स्वीकार करते हैं और अभिषव को पीछे, पिता अभिषव और पुत्र पृष्ठ्य है, इस लिये पिछली अवस्था में पिता पुत्रों के सहारे जीता है जो ऐसा जानता है ।

(तत् अपि एतत् ऋचा उक्तम्) यही इस ऋचा करके कहा गया है । शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम् । पुत्रास्तो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गतीः, इति—कुछ भेद से ऋग्वेद १ । ८६ । ६ ॥ (अन्ति) हे जीवधारी (देवाः) विद्वानों ! (यत्र) जहां पर (नः) हमारे लिए (शतं शर्दः) सौ वर्ष तक (इत्) निश्चय करके (नु) ही (तनूनाम्) अपने शरीरों के (जरसम्) बुढ़ापे को (चक्र) तुम व्यतीत करो, (यत्र) जहां पर (पुत्रासः) पुत्र लोग (पितरः) पिता [वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध पिता के समान] (भवन्ति) हों, [वहां] (नः) हमारे (आयुः) जीवन और (गतीः) गतियों को (मध्या) बीच में (मा रीरिषित) मत नष्ट करो ॥

(पूर्वं वयसि पुत्राः ह वै एनं पितरम् उपजीवन्ति, उत्तमे वयसि पिता पुत्रान् उपजीवन्ति यः एवं वेद) पहिली अवस्था में पुत्र निश्चय करके इस पिता के ही सहारे जीते हैं और पिछली अवस्था [सन्न्यास वा बुढ़ापे] में पिता पुत्रों के सहारे जीता है जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) वही यह संवत्सर है ॥ १७ ॥

शरद्ऋतूपलक्षितान् (अन्ति) पदिप्रथिभ्यां नित् । उ० ४ । १८३ । अन जीवने—
ति, नित् । सुपांलुक् । पा० ७ । १ । ३६ । जसो लुक् । हे अन्तयः । जीविताः
(देवाः) विद्वांसः (नः) अस्मभ्यम् (चक्र) यूयं कृतवन्तः वा कुरुत, लोडर्थे—
लिट् (जरसम्) वृद्धावस्थाम् (पितरः) पितृवद्गन्तितारः (नः) अस्माकम्
(मध्या) सप्तम्या डादेशः । मध्ये (मा रीरिषित) रिष हिंसायाम्—णिच् ।
मा हिंसिष्ट (आयुर्गतीः) जीवनस्य मार्गान् (उपजीवन्ति) उपजीवति पिता ॥

भावार्थ—जैसे विषुवान् यज्ञ अभिस्रव और पृथ्व्य यज्ञ से मिला होता है, वैसे ही पिता और पुत्र प्रीतिपूर्वक परस्पर रक्षा करें ॥ १७ ॥

कारिडका १८ ॥

अथ हैष महासुपर्णस्तस्य यान् पुरस्ताद्विषुवतः षण्मासानुपयन्ति स दक्षिणः पक्षोऽथ यानावृत्तानुपरिष्ठात् पडुपयन्ति स उत्तरः पक्षः आत्मा वै संवत्सरस्य विषुवानङ्गानि पक्षौ यत्र वा आत्मा तत्पक्षौ यत्र वै पक्षौ तदात्मा न वा आत्मा पक्षावतिरिच्येते नो पक्षावात्मानमतिरिच्यन्त इत्येवमु हैव तदपरेषां स्वदितमहां परेषामित्यपरेषां चैव परेषां चेति ब्रूयात्स वा एष संवत्सरः ॥ १८ ॥

कारिडका १८ ॥ संवत्सर बड़ा गरुड़, विषुवान् आत्मा और दोनों अर्धसंवत्सर दो पक्ष ॥

(अथ ह एषः महासुपर्णः) फिर यही [संवत्सर] बड़ा गरुड़ हैं । (विषुवतः पुरस्तात् तस्य यान् षट् मासान् उपयन्ति सः दक्षिणः पक्षः, अथ उपरिष्ठात् यान् आवृत्तान् षट् उपयन्ति सः उत्तरः पक्षः) विषुवान् से पहिले उस [संवत्सर] के जिन छह महीनों को स्वीकार करते हैं वह दक्षिण पक्ष [दाहिना पंख] है, फिर [विषुवान् से] पीछे जिन लौटते हुये छह [महीनों] को स्वीकार करते हैं वह उत्तर पक्ष [बायां पंख] है । (संवत्सरस्य वै आत्मा विषुवान् अङ्गानि पक्षौ) संवत्सर का ही आत्मा [देह] विषुवान् और अङ्ग दोनों पंख हैं । (यत्र वै आत्मा तत् पक्षौ, यत्र वै पक्षौ तत् आत्मा) जहां पर ही आत्मा [देह] है वहां दोनों पंख हैं, जहां पर ही दोनों पंख हैं वहां आत्मा है । (आत्मा वै पक्षौ न अतिरिच्येते नो पक्षौ आत्मानम् अतिरिच्यन्ते इति) आत्मा निश्चय कर के दोनों पक्षों से भिन्न नहीं है और न दोनों पक्ष आत्मा से भिन्न हैं । (एवम् उ ह एव अपरेषाम् अहां तत् स्वदितं परेषाम् इति) इसी प्रकार से ही [विषुवान् से] इधर वाले दिनों का वह पसीना [निचोड़] है, जो उधर वालों का है । (परेषां च अपरेषां च एव इति ब्रूयात्) और [जो विषुवान् से] उधर वाले [दिनों] का [पसीना] है, वह इधर वालों का है—ऐसा कहना चाहिये । (सः वै एषः संवत्सरः) वही यह संवत्सर है ॥ १८ ॥

१८—(महासुपर्णः) महागरुड़ः । पक्षिराजः (आवृत्तान्) अभ्यस्तान् । पुनः पुनर्वर्त्तमानान् (आत्मा) देहः । जीवः (तत्) तत्र (अतिरिच्येते) आर्ष-प्रयोगः । अतिरिणक्ति । भिन्नौ करोति (अतिरिच्यन्ते) अतिरिङ्क्तः । भिन्नं कुरुतः (स्वदितम्) अग्निवदा घर्मस्त्रुतौ—क । स्वेदः । घर्मनिस्सरणम् ॥

भावार्थ—संवत्सर में विषुवान् [तुल्य रात्रि दिन का काल दो बार एक ग्रीष्म में और एक शीत में होता है और दोनों का काल परिमाण और प्रभाव तुल्य है, ऐसा ज्योतिष से जानना चाहिये ॥ १८ ॥

कण्डिका १६ ॥

तदाहुर्यद् द्वादश मासाः संवत्सरोऽथ हैतदहरवाप्नुयामेति यद्वैषुवतमपरेषां स्वदितमहं परेषामित्यपरेषां चैव परेषां चेति ब्रूयादात्मा वै संवत्सरस्य विषुवानङ्गानि मासौ यत्र वा आत्मा तदङ्गानि यत्राङ्गानि तदात्मा, न वा आत्मा-ऽङ्गान्यतिरिच्येते नोऽङ्गान्यात्मानमतिरिच्यन्ते इत्येवमु हैव तदपरेषां स्वदितमहं परेषामित्यपरेषां चैव परेषां चेति ब्रूयात्स वा एष संवत्सरः ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ विषुवान् से संवत्सर के बारह महीने ॥

(तत् आहुः यत् द्वादश मासाः संवत्सरः) यह कहते हैं कि बारह महीने संवत्सर है, (अथ ह एतत् अहः अवाप्नुयाम यत् वैषुवतम् इति) अब ही हम वह दिन प्राप्त करें जो विषुवान् वाला [दिन] है, (अपरेषाम् अहं स्वदितं परेषाम् इति, परेषां च अपरेषां च एव इति ब्रूयात्) [विषुवान् से] इधर वाले दिनों का वह पसीना [निचोड़] है जो उधर वालों का है, और [विषुवान् से] उधर वाले [दिनों] का [पसीना] है, वह इधर वालों का है—ऐसा कहना चाहिये। (संवत्सरस्य वै आत्मा विषुवान् अङ्गानि मासौ) संवत्सर का ही आत्मा [देह] विषुवान् और अङ्ग दो महीने [=बारह महीने] हैं। (यत्र व आत्मा तत् अङ्गानि यत्र अङ्गानि तत् आत्मा) जहाँ पर ही आत्मा है वहाँ अङ्ग हैं, जहाँ अङ्ग हैं वहाँ आत्मा है। (आत्मा वै अङ्गानि न अतिरिच्येते नो अङ्गानि आत्मानम् अतिरिच्यन्ते इति) आत्मा निश्चय करके अङ्गों से भिन्न नहीं है, न अङ्ग आत्मा से भिन्न हैं। (एवम् उ ह एव अपरेषाम् अहं तत् स्वदितं परेषाम् इति) इसी प्रकार से ही [विषुवान् से] इधर वाले दिनों का वह पसीना [निचोड़] है, जो उधर वालों का है। (परेषां च अपरेषां च एव इति ब्रूयात्) और [जो विषुवान् से] उधर वाले [दिनों] का [पसीना] है, वह इधर वालों का है—ऐसा कहना चाहिये। (सः वै एषः संवत्सरः) वही यह संवत्सर है ॥ १६ ॥

१६—(अवाप्नुयाम) प्राप्नुयाम (वैषुवतम्) विषुवत्—अण् । विषुवतः सम्बद्धम् (मासौ) मासाः । अन्यत् पूर्ववत् ॥

भावार्थ—विष्वान् अर्थात् मेष-तुला की संक्रान्ति पर तुल्य दिन राति का समय वर्ष में दो बार होता है, एक ग्रीष्म में दूसरा शीत में और दोनों छह मासी में ताप और शीत तुल्य होता है, इस से संवत्सर यज्ञ चाहे किसी विष्वान् से आरम्भ किया जावे ॥ १६ ॥

कण्डिका २० ॥

तदाहुः कथमुभयतो ज्योतिषोऽभिस्रवा अन्यतरो ज्योतिस्पृष्ट्य इत्युभयतो ज्योतिषो वा इमे लोका अग्निनेता आदित्येनामुत इत्येष ह वा एतेषां ज्योतिर्य एनं प्रमृदीव तपति देवचक्रे ह वा एते पृष्ट्य प्रतिष्ठिते पाप्मानं दहन्ती परिस्रवेतं तद्य एवं विदुषां दीक्षितानां पापकं कीर्त्तयेदेत एवास्य तद्देवचक्रे शिर-
श्लुन्दतो दशरात्रमुद्धिं पृष्ट्याभिस्रवौ चक्रे दशरात्रमुद्धिं पृष्ट्याभिस्रवौ चक्रे तन्नं कुर्वीतेति ह साह वास्युस्तयो स्तोत्राणि च शस्त्राणि च सञ्चारयेद्यः सञ्चारयेत्तस्मादिमे पुरुषे प्राणा नाना सन्त एकोदयाच्छरीरमधिवसति यन्न सञ्चारयेत् प्रमायुको ह यजमानः स्यादेष ह वै प्रमायुको योऽन्धो वा बधिरो वा न चाग्नि-
ष्टोमा मासि सम्पद्यन्ते न वै प्राणा प्राणैर्यज्ञस्तायत एकविंशतिरुक्थया एकोक्थयः षोडशयज्ञं वा उक्थयं वाय्यं षोडशैव तया रूढ्वा स्वर्गं लोकमध्यारोहन्ति ॥ २० ॥
कण्डिका २० ॥ ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(तत् आहुः कथं ज्योतिषः उभयतः अभिस्रवौ, अन्यतरः ज्योतिः पृष्ट्यः इति) यह कहते हैं कि किस प्रकार ज्योति [ज्योतिष्टोम] के दोनों ओर [आदि और अन्त में] दो अभिस्रव यज्ञ हैं, दोनों में कोई पृष्ट्य ज्योतिष्टोम होता है । (ज्योतिषः उभयतः वै इमे लोकः अग्निनेता आदित्येन अमुतः इति) [उत्तर] ज्योति [सूर्य] के दोनों ओर ही यह लोक अग्नि से चलाये गये सूर्य द्वारा उस [सूर्यलोक] से हैं । (एषः ह वै एतेषां ज्योतिः यः एनं प्रमृदी इव तपति) यही सूर्य इन [लोकों] के बीच में है जो [लोकाः से] पीलने वाले के समान इस [लोक] को तपाता है । (एते ह वै देवचक्रे पृष्ट्यं प्रतिष्ठिते

२०—(उभयतः) उभयपार्श्वे । आद्यन्तयोः (ज्योतिषः) ज्योतिष्टोमस्य । सूर्यस्य (अग्निनेता) बहुवचनस्यैकवचनम् । अग्निनेता येषां ते अग्निनेताः (अमुतः) तस्मात् । सूर्यलोकात् (प्रमृदी) प्र+मृद लोदे—द्विप् । इयाडिया-जीकाराणामुपसंख्यानम् । वा० पा० ७ । १ । ३६ । प्रथमायाः ईकारादेशः । प्रमर्दकः । प्रपेष्टा (इव) यथा (तपति) तापयति (देवचक्रे) ज्योतिश्चक्रे

द्वंहती पाप्मानं परिस्रवेते) यही दोनों देव [सूर्य और अग्नि] के चक्र पृष्ठ्य यज्ञ में स्थापित किये हुये दृढ होकर पाप [दोष] को चलायमान कर देते हैं । (तत् यः एवं विदुषां दीक्षितानां पापकं कीर्तयेत्, एते एव देवचक्रे तत् अस्य शिरः छन्दतः) सो जो मनुष्य इस प्रकार विद्वान् दीक्षित लोगों के पाप [दोष] बतावे, यही दोनों देवचक्र [दोनों पृष्ठ्य और अभिस्रव] तब उस [पाप] के शिर को हटा देते हैं । (दशरात्रम् उद्धिं पृष्ठ्याभिस्रवौ चक्रे, दशरात्रम् उद्धिं पृष्ठ्याभिस्रवौ चक्रे) दशरात्र रथनाभि है और दोनों पृष्ठ्य अभिस्रव दो पहिये हैं, दशरात्र रथनाभि है और दोनों पृष्ठ्य अभिस्रव दो पहिये हैं [अर्थात् अवश्य हैं] । (वास्युस्तयः ह स्म आह तन्त्रं कुर्वीत इति स्तोत्राणि च शस्त्राणि च संचारयेत्) दोषनाशक [ब्रह्मा] ऐसा कहता है कि वह [यजमान] उधाय करे और स्तोत्रों और शस्त्रों [स्तुतिविधायक मन्त्रों और नियम विधायक मन्त्रों] को बोले । (यः सञ्चारयेत् तस्मात् पुरुषे इमे प्राणाः नाना सन्तः एकोदयात् शरीरम् अधिवसति) जो पुरुष [स्तोत्रों और शस्त्रों को] बोले उस से [उस] पुरुष में यह प्राण अनेक प्रकार होकर एक में उदय करने के कारण शरीर में टिकते हैं । (यत् न संचारयेत् यजमानः प्रमायुकः ह स्यात्) यदि वह [स्तोत्रों और शस्त्रों को] न बोले, यजमान मृतक ही हो जावे । (एषः ह वै प्रमायुकः यः अन्धः वा वहिरः वा न च अग्निष्टोमाः मासि सम्पद्यन्ते न वै प्राणाः प्राणैः यज्ञः तायते) वही मृतक है जो अन्धा वा बहिरा है और न [जिस करके] अग्निष्टोम महीने में किये जाते हैं और न प्राण प्राणों के साथ [किये जाते हैं और न दूसरा] यज्ञ फैलाया जाता है । (एकविंशतिः उक्थ्याः) इक्कीस उक्थ्य [यज्ञ विशेष] हैं । (एकोक्थ्यः षोडशी, अन्नं वै उक्थ्यं वीर्यं

(पाप्मानम्) पापम् । दोषम् (द्वंहती) दृढि वृद्धौ—शत्रु । वर्धमाना । दृढा (छन्दतः) छद्दि अपवारणे—लट् । अपवारयतः । नाशयतः (उद्धिम्) उपसर्गे घोः क्तिः । पा० ३ । ३ । ६२ । उत्+डुधाञ् धारणपोषणयोः—क्तिः, प्रथमाया द्वितीया । प्रधिः । रथनाभिः (चक्रे) रथचक्रद्वयं यथा (तन्त्रम्) उपायम् । यज्ञकार्यम् (वास्युस्तयः) वसिष्ठपियजि० । उ० ४ । १२५ । वस वधे—इञ् । वलिमलितनिभ्यः कथन् । उ० ४ । ६६ । वासि+वस्त वधे—कथन्, कित्वात् संप्रसारणम् । वासीनां हिंसकानाम् उस्तयो हिंसकः । दोषनाशकः (शस्त्राणि) नियमान् । स्तोत्रविशेषान् (संचारयेत्) सम्यक् चालयेत् । उच्चरायेत् (एकोदयात्) एकस्मिन् देहे उद्गमनात् (अधिवसति) निवसन्ति (प्रमायुकः) लषपतपदस्था० ।

षोडश एव) एक उक्थ्य षोडशी [सोलह मन्त्र वाला] है अन्न ही उक्थ्य सम्बन्ध वाला सामर्थ्य षोडश [सोलह प्रकार] है, [वे सोलह यह हैं—चार वर्ण, चार आश्रम, श्रवण, मनन, निदध्यासन तीन कर्म, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढ़ाना, बढ़े हुये का अच्छे मार्ग में व्यय करना, और सोलहवां मोक्ष का अनुष्ठान—जैसा दयानन्द भाष्य यजुर्वेद ६। ३४ में व्याख्यात है] । (तथा रूढ्वा स्वर्गं लोकम् अध्यारोहन्ति) उस [इष्टि] के द्वारा चढ़ कर स्वर्ग लोक को चढ़ते हैं ॥ २० ॥

भावार्थ—सूर्यमण्डल प्रकाशपिण्ड है, उस के दोनों ओर आगे पीछे प्रकाश है, इसी प्रकार यज्ञ के दोनों ओर आदि अन्त में अभिस्रव अथवा पृष्ठ्व यज्ञ होता है ॥ २० ॥

करिडका २१ ॥

अथातोऽह्नामध्यारोहः । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमतिरात्रमध्यारोहन्ति, चतुर्विंशेन महावृतमभिस्रवेन परमभिस्रवं, पृष्ठ्येन परं पृष्ठ्यमभिजिताऽभिजितं, स्वरसामभिः परान् स्वरसामानोऽथ हैतदहरवाप्नुयामेति यद्वैपुवत्तमपरेषां स्वित्तमहां परेषामित्यपरेषां च परेषां चेति ब्रूयात्स वा एष संवत्सरः ॥ २१ ॥

करिडका २१ ॥ संवत्सर का अतिरात्र आदिकों से संबन्ध ॥

(अथ अतः अह्नाम् अध्यारोहः) अब यहां दिनों [यज्ञ विशेषों] का चढ़ाव [कहा जाता है] । (प्रायणीयेन अतिरात्रेण उदयनीयम् अतिरात्रम् अध्यारोहन्ति) प्रायणीय अतिरात्र [यज्ञ] से उदयनीय अतिरात्र को चढ़ते हैं,

पा० ३ । २ । १५४ । प्र + मीञ् हिंसायाम्—उकञ् । युक् च । मृतकः (षोडशी) षोडश—इति । षोडशमन्त्रोपेतः (षोडश) षोडशन्—डट् ततः अर्शादिअच् । विभक्तेर्लुक् । षोडशम् । षोडशावयवयुक्तम् । चत्वारोवर्णाश्चत्वारः आश्रमाः, श्रवण मनन् निदध्यासनानि त्रीणि कर्माणि, अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य यत्नेन रक्षणं, रक्षितस्य वृद्धिः वृद्धस्य सन्मार्गं व्ययकरणम् एष चतुर्विधः पुरुषार्थः, एतैः पंचदशभिः प्राप्तः षोडशो मोक्षः—यथा व्याख्यातं दयानन्द भाष्ये यजुर्वेदे । ६ । ३४ । एतैः षोडशभिर्युक्तम् (रूढ्वा) अधिरुह्य ॥

२१—(अध्यारोहः) आरोहणम् (अध्यारोहन्ति) उपरिगच्छन्ति (परम्) पश्चाद्भवम् (स्वरसामानः) स्वरसाम्नः । यज्ञविशेषान् । अन्यद्गतम्—क० १६ ॥

(चतुर्विंशेन महाव्रतम्) चतुर्विंश से महाव्रत को, (अभिप्लवेन परम् अभिप्लवम्) अभिप्लव से पिछले अभिप्लव को, (पृष्ठ्येन परं पृष्ठ्यम्) पृष्ठ्य से पिछले पृष्ठ्य को, (अभिजिता अभिजितम्) अभिजित् से अभिजित् को, (स्वरसामभिः परान् स्वरसामानः) स्वरसामों से पिछले स्वरसामों को [चढ़ते हैं] । (अथ ह एतत् अहः अवाप्रयाम यत् वैषुवतम् इति) अब हम ही वह दिन प्राप्त करें जो विषुवान् वाला [दिन] है, (अपरेषाम् अहां स्विदितं परेषाम् इति, परेषां च अपरेषां च इति ब्रूयात्) [विषुवान् से] उधर वाले दिनों का पनीना [निचोड़] है जो उधर वालों का है, और [विषुवान् से] उधर वाले [दिनों] का [पसीना] है, वह उधर वालों का है—ऐसा कहना चाहिये । (सः वै एषः संवत्सरः) वही यह संवत्सर है [देखो क० १६] ॥ २१ ॥

भावार्थ—दोनों विषुवानों में से किसी ही विषुवान् से संवत्सर यज्ञ आरम्भ करना चाहिये । यह विषुवान् से एक ओर वाले यज्ञों का वर्णन है ॥ २१ ॥

कण्डिका २२ ॥

अथातोऽहां नीवाहः । प्रायणीयोऽतिरात्रश्चतुर्विंशाय अहे निवहति, चतुर्विंशमहरभिप्लवाय, अभिप्लवः पृष्ठ्याय, पृष्ठ्योऽभिजिते, अभिजित् स्वरसामभ्यः, स्वरसामानो विषुवते, विषुवान् स्वरसामभ्यः, स्वरसामानो विश्वजिते, विश्वजित् पृष्ठ्याभिप्लवाभ्यां, पृष्ठ्याभिप्लवौ गवायुर्भ्यां, गवायुषी दशरात्राय, दशरात्रो महाव्रताय, महाव्रतमुदयनीयायातिरात्राय, उदयनीयोऽतिरात्रः स्वर्गाय लोकायान्नाद्याय प्रतिष्ठित्यै य एवं वेद स वा एष संवत्सरः ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ संवत्सर का अतिरात्र आदिकों से संबन्ध ॥

(अथ अतः अहां नीवाहः) अब यहां दिनों [यज्ञ विशेषों] का उतार [कहा जाता है] । (प्रायणीयः अतिरात्रः चतुर्विंशाय अहे निवहति) प्रायणीय अतिरात्र चतुर्विंश दिन के लिये उतरता है, (चतुर्विंशम् अहः अभिप्लवाय) चतुर्विंश दिन अभिप्लव के लिये, (अभिप्लवः पृष्ठ्याय) अभिप्लव पृष्ठ्य के लिये, (पृष्ठ्यः अभिजिते) पृष्ठ्य अभिजित् के लिये, (अभिजित् स्वरसामभ्यः) अभिजित् स्वरसामों के लिये, (स्वरसामानः विषुवते) सब स्वरसाम यज्ञ विषुवान् के लिये, (विषुवान् स्वरसामभ्यः) विषुवान् स्वरसामों के लिये,

२२--(नीवाहः) अधोगमनम् (निवहति) अधोगच्छति अन्यद् गतम्
—क० १४ ॥

(स्वरसामानः विश्वजिते) सब स्वरसाम विश्वजित् के लिये, (विश्वजित् पृष्ठ्या-भिप्लवाभ्याम्) विश्वजित् पृष्ठ्य और अभिप्लव के लिये, (पृष्ठ्याभिप्लवौ गवायुभ्याम्) दोनों पृष्ठ्य और अभिप्लव दोनों गवायु के लिये, (गवायुषी दशरात्राय) दोनों गवायु दशरात्र के लिये, (दशरात्रः महावृताय) दशरात्र महावृत् के लिये, (महावृत्तम् उदयनीयाय अतिरात्राय) महावृत्त उदयनीय अतिरात्र के लिये, (उदयनीयः अतिरात्रः स्वर्गाय लोकाय अन्नाद्याय प्रतिष्ठित्यै यः एवं वेद) उदयनीय अतिरात्र [उस के] स्वर्ग लोक के लिये, भोजन योग्य अन्न के लिये और प्रतिष्ठा के लिये [उतरता है], जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) सो यही संवत्सर है [देखो क० १४] ॥ २२ ॥

भावार्थ—यहां विषुवान् के दूसरी ओर वाले यज्ञों का वर्णन है [देखो कण्डिका १४] ॥ २२ ॥

कण्डिका २३ ॥

आदित्याश्च ह वा आङ्गिरसश्च स्वर्गे लोकेऽस्पृद्धन्त वयं पूर्वं स्वरेष्यामो वयं पूर्वं इति त आदित्या लघुभिः सामभिश्चतुर्भिस्तोमैर्द्वाभ्यां पृष्ठ्याभ्यां स्वर्गं लोकमभ्यस्तवन्त, यदभ्यस्तवन्त तस्माद्भिस्त्वोऽन्नञ्च एवाङ्गिरसः गुरुभिः सामभिः सर्वे स्तोमैः सर्वेऽस्पृष्ट्यैः स्वर्गं लोकमभ्यस्पृशन्त, यदभ्यस्पृशन्त तस्मात् पृश्यस्तं वा एतं स्पृशं मन्तं पृष्ठ्य इत्याचक्षते, परोक्षेण पराक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । अभिस्त्वान्पृष्ठ्यो निमित्तः, पृष्ठ्यादभिजित्, अभिजितः स्वरसामानः, स्वरसामभ्यो विषुवान्, विषुवतः स्वरसामानः, स्वरसामभ्यो विश्वजिद्विश्वजितः पृष्ठ्याभिप्लवौ, पृष्ठ्याभिप्लवाभ्यां गवायुषी, गवायुभ्यां दशरात्रत्तानिहि वा एतानि यज्ञारणानि यज्ञकृत्तन्त्राणि तेषां शतं रथानां न्यन्तरं तद्यथाऽरण्यन्यारूढा अशनापिपासे ते पाप्मानं दूंहती परिस्त्रवेते एवं हैवैते प्रस्रवन्ते ये विद्वांस उपयन्त्यथ ये विद्वांसमुपयन्ति तद्यथा प्रवाहात् प्रवाहं स्थलात् स्थलं समात्समं सुखात् सुखमभयादभयमुपसङ्क्रामन्तीत्येवं हैवैते सवत्सरस्योद्वचं समश्नवामहा इति ब्राह्मणम् ॥ २३ ॥

कण्डिका २३ ॥ अभिप्लव और पृष्ठ्य की व्युत्पत्ति

और दूसरे यज्ञ ॥

(आदित्याः च ह वै आङ्गिरसः च स्वर्गे लोके अस्पृद्धन्त, वयं पूर्वं स्वरेष्यामः वयं पूर्वं इति) आदित्य [अखण्ड वृत्धारी सूक्ष्मदर्शी ऋषि] और

आङ्गिरस [अङ्गों के रस जानने वाले स्थूलदर्शी ऋषि लोग] स्वर्ग लोक के विषय में भगड़ने लगे, हम पहिले स्वर्ग को जायेंगे, हम पहिले । (ते आदित्याः लघुभिः सामभिः चतुर्भिः स्तोमैः द्वायां पृष्ठ्याभ्यां स्वर्गं लोकम् अभ्यप्लवन्त) आदित्य ऋषि सूक्ष्म सामों से, चार स्तोमों से, और दो पृष्ठ्यों से स्वर्ग लोक को कूद कर पहुंचे । (यत् अभ्यप्लवन्त तस्मात् अभिप्लवः अन्नं च एव) जो वे कूद कर पहुंचे, इसी से अभिप्लव [कूद कर पहुंचने वाला यज्ञ हुआ] और वही अन्न है । (आङ्गिरसः गुरुभिः सामभिः सर्वैः स्तोमैः सर्वैः पृष्ठ्यैः स्वर्गं लोकम् अभ्यस्पृशन्त) आङ्गिरस ऋषि स्थूल सामों से, सब स्तोमों से, सब पृष्ठ्यों से स्वर्ग लोक को छूकर पहुंचे । (यत् अभ्यस्पृशन्त तस्मात् स्पृशः [=स्पृश्यः], तं वै एतं स्पृशं [स्पृश्यम्] सन्तं पृष्ठ्यः इति आचक्षते) जो वे छूकर पहुंचे, इसी से स्पृश [छूने योग्य] हुआ, उस ही स्पृश [छूने योग्य] होते हुये को यह पृष्ठ्य यज्ञ है—ऐसा कहते हैं । (परोक्षेण) परोक्ष [आंख ओट प्रलय में धर्त्तमान ब्रह्म] के द्वारा (परोक्षप्रियाः इव हि) परोक्षप्रिय [आंख ओट भविष्य के प्रेमी] लोगों के समान ही (देवाः) देवता [विद्वान् लोग] (प्रत्यक्ष-द्विपः) प्रत्यक्ष [वर्त्तमान अवस्था] के द्वेषी [विरोधी] (भवन्ति) होते हैं [देखो—गो० पू० १ । १] । (अभिप्लवात् पृष्ठ्यः निर्मितः) अभिप्लव से पृष्ठ्य बनाया गया है, (पृष्ठ्यात् अभिजित्) पृष्ठ्य से अभिजित्, (अभिजितः स्वरसामानः) अभिजित् से स्वरसाम्, (स्वरसामभ्यः विषुवान्) स्वरसामों से विषुवान्, (विषुवतः स्वरसामानः) विषुवान् से स्वरसाम, (स्वरसामभ्यः विश्वजित्) स्वरसामों से विश्वजित्, (विश्वजितः पृष्ठ्याभिप्लवौ) विश्व-जित् से पृष्ठ्या और अभिप्लव, (पृष्ठ्याभिप्लवाभ्यां गवायुषी) दोनों पृष्ठ्य और अभिप्लवों से दोनों गवायु, (गवायुभ्यां दशरात्रः) दोनों गवायु से दश-रात्र [यज्ञ बनाया गया है] । (तानि ह वै एतानि यज्ञारण्यानि यज्ञकृत्स्नानि) वे ही यज्ञ रूप बन और यज्ञ करने वाले के तन्त्र [उपाय] हैं । (तेषां शतं शतं रथानां न्यन्तरम्) उन [यज्ञों] के बीच सौ सौ रथों [पगों वा मान विशेषों]

२३—(आदित्याः) अदिति—स्य । अखण्डवृत्धारिणो विद्वांसः । अथवा आम्+दीपी दीप्तौ—यक् । पृषोदरादिरूपम् । आदीष्यमानाः । सूक्ष्म-दर्शिनः (आङ्गिरसः) तं वा षतमङ्गरसं सन्तमङ्गिरा इत्याचक्षते—गो० पू० १ । ७ । तदधीते तद् वेद । पा० ४ । २ । ५९ । आङ्गिरस्—अण्, बहुवचनस्यैक-स्यन्तं च । आङ्गिरसाः । अङ्गानां रसवेत्तारः । स्थूलदर्शिनः (लघुभिः) सूक्ष्मैः

का निश्चित अन्तर हो । (तत् यथा अख्यानि आरूढाः पाप्मानं दंहती ते अश-
नापिपासे परिप्लवेते एवं ह एव एते प्रप्लवन्ते ये विद्वांसः उपयन्ति, अथ ये
विद्वांसम् उपयन्ति) सो जैसे बन में चढ़े हुये पुरुष कष्ट को बढ़ाती हुई उन
दोनों भूख प्यास को लांघ जाते हैं, ऐसे ही यह [यजमान लोग यज्ञ को] पार
करते हैं जो विद्वान् लोग [यज्ञ को] स्वीकार करते हैं और जो लोग विद्वान्
को स्वीकार करते हैं । (तत् यथा प्रवाहात् प्रवाहं स्थलात् स्थलं समात् समं
सुखात् सुखम् अभयात् अभयम् उपसङ्क्रामन्ति इति एवं ह एव एते संवत्सरस्य
उद्वचं समशननामहै इति ब्राह्मणम्) सो जैसे प्रवाह [जलवहाव] से प्रवाह
को, स्थल [सूखे स्थान] से स्थल को, सम [एक से स्थान] से सम को, सुख
से सुख को, और अभय से अभय को यथावत् पाते हैं, वैसे ही यह हम संव-
त्सर [यज्ञ] की समाप्ति वाली ऋचा को पावें—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥२३॥

भावार्थ—कोई विद्वान् सूक्ष्म से स्थूल की ओर चल कर अर्थात् कारण
से कार्य का ज्ञान प्राप्त करके सुख पाते हैं और कोई स्थूल से सूक्ष्म की ओर
जाकर अर्थात् कार्य से कारण को खोज कर आनन्द भोगते हैं ॥ २३ ॥

कण्डिका २४ ॥

प्रेदिर्ह वै कौशाम्बेयः कौसुरविन्दुरुद्दालक आरुणो ब्रह्मचर्य्यमुवाच तमा-
चार्य्यः पप्रच्छ कुमारः कति ते पिता संवत्सरस्याहान्यमन्यथेति कति त्वेवेति
दशेति होवाच दश वा इति होवाच दशाक्षरा विराड् वैराजो यज्ञः १ । कति
त्वेवेति नवेति होवाच नव वा इति होवाच नव वै प्राणाः प्राणैः यज्ञस्तायते २ ।
कति त्वेवेत्यष्टेति होवाचाष्ट वा इति होवाचाष्टाक्षरा गायत्री गायत्रो यज्ञः ३ ।
कति त्वेवेति सप्तेति होवाच सप्त वा इति होवाच सप्त छन्दांसि छन्दोभिर्यज्ञस्ता-
यते ४ । कति त्वेवेति षडिति होवाच षड् वा इति होवाच षड् वा ऋतव ऋतू-
नामाप्त्यै ५ । कति त्वेवेति पञ्चेति होवाच पञ्च वा इति होवाच पञ्चपदा पङ्क्तिः
पाङ्क्तो यज्ञः ६ । कति त्वेवेति चत्वारोति होवाच चत्वारि वा इति होवाच
चत्वारो वै वेदा वेदेर्यज्ञस्तायते ७ । कति त्वेवेति त्रीणीति होवाच त्रीणि वा

(सामभिः) मोक्षज्ञानैः (पृश्यः) स्पृश सम्पर्क—क्यप्, सलोपः । स्पृश्यः
(स्पृशम्) स्पृश्यम् (तान हि) लेखदोषः । तानि ह (स्थानाम्) चरणानाम्
मानविशेषाणाम् (न्यन्तरम्) निश्चितव्यवधानम् (परिप्लवेते) परिप्लवन्ते ।
सर्बतः प्राप्नुवन्ति ॥

इति होवाच त्रिषवणो वै यज्ञः सवनैर्यज्ञस्तायते ८ । कति त्वेवेति द्वे इति होवाच द्वे वा इति होवाच द्विपाद्वै पुरुषो द्विप्रतिष्ठः पुरुषः पुरुषो वै यज्ञः ९ । कति त्वेवेत्येकमिति होवाचैकम् वा इति होवाचाहरहरित्येकमेव सर्वं संवत्सरम् १० ॥ २४ ॥

इत्यथवेदस्य गोपथब्राह्मणपूर्वभागे चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ।

कण्डिका २४ ॥ प्रेदि कौशाम्बेय कौसुरविन्दु और उद्दालक आरुण से संवत्सर और यज्ञीय दिनों के विषय में प्रश्नोत्तर ॥

(प्रेदिः ह वै कौशाम्बेयः कौसुरविन्दुः, उद्दालकः आरुणः ब्रह्मचर्यम् उवाच) प्रेदि [बड़ा ऐश्वर्यवान् ऋषि] कौशाम्बेय [कौशाम्बी अर्थात् पटना नगरी का रहने वाला], कौसुरविन्दु [भूमि के ऐश्वर्य का जानने वाला] था, [उद्दालक] उद्दालक [गो० पू० ३ । ६ आरुण [अरुण के पुत्र] ने ब्रह्मचर्य का उपदेश किया । (तम् आचार्यः पप्रच्छ कुमारः ते पिता संवत्सरस्य कति अहानि अमन्यथ इति, कति तु एव इति) उस [प्रेदि] से आचार्य [उद्दालक] ने पूँछा—हे कुमार ! तेरा पिता संवत्सर यज्ञ के कितने दिन मानता था, फिर कितने । (दश इति ह) [प्रेदि] अरे दस । (उवाच दश वै इति ह) वह [उद्दालक] बोला—अरे दस ही । (उवाच दशान्नरा विराट्, वैराजः यज्ञः) वह [प्रेदि] बोला—दस अक्षर वाला विराट् [छन्द] है और विराट् [अर्थात् वेद] से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है । १ । (कति तु एव इति), [उद्दालक] फिर कितने । (नव इति) [प्रेदि] अरे नौ । (उवाच नव वै इति ह) [उद्दालक] अरे नौ ही हैं । (उवाच नव वै प्राणाः प्राणैः यज्ञः तायते) [प्रेदि] बोला—नौ ही प्राण [सात मस्तक के दो नीचे के छिद्र] हैं, प्राणों से यज्ञ फैलाया जाता है । २ । (कति तु एव इति) [उद्दालक] फिर कितने । (अष्ट इति ह) [प्रेदि] अरे आठ । (उवाच अष्ट वै इति ह) [उद्दालक] अरे आठ ही हैं । (उवाच

२४—(प्रेदिः) इगुपधात् कित् उ० ४ । १२० । प्र+इदि परमैश्वर्ये—इन् कित्, नलोपः । परमैश्वर्यवान् । ऋषिविशेषः (कौशाम्बेयः) तेन निर्वृत्तम् । पा० ४ । २ । ६८ । कुशाम्ब—अण् । कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी कौशाम्बी । कुसुमपुरी । पाटलिपुत्रनगरी । पटना इति भाषायाम् । सोऽस्य निवासः । पा० ४ । ३ । ८६ । कुशाम्बी—ढञ् । कौशाम्बीनिवासी (कौसुरविन्दुः) सुसूधाञ्जूधिभ्यःक्रन् । उ० २ । २४ । कु+षु प्रसवैश्वर्ययोः—क्रन् । कुसुरः भूमी-

अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रः यज्ञः) [प्रेदि] आठ अक्षर [के पाद] वाली गायत्री है, गायत्री से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है । ३ । (कति तु एव इति) [उद्दालक] फिर कितने । (सप्त इति) [प्रेदि] अरे सात । (उवाच सप्त वै इति ह) [उद्दालक] बोला अरे सात ही हैं । (उवाच सप्त छन्दांसि छन्दोभिः यज्ञः तायते) [प्रेदि] बोला—सात [गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, वृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, और जगती] छन्द हैं, छन्दों से यज्ञ फैलाया जाता है । ४ । (कति तु एव इति) [उद्दालक] फिर कितने, (षट् इति ह) [प्रेदि] अरे छह । (उवाच षट् वै इति ह) [उद्दालक] अरे छह ही हैं । (उवाच षट् वै ऋतवः ऋतूनाम् आप्त्यै) [प्रेदि] बोला—छह ही [वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर—साम० उ० ६ । १३ । २] ऋतु हैं, ऋतुओं के लाभ के लिये [यज्ञ है] । ५ । (कति तु एव इति) [उद्दालक] फिर कितने । (पंच इति ह) [प्रेदि] अरे पांच । (उवाच पंच वै इति ह) [उद्दालक] अरे पांच ही हैं । (उवाच पंचपदा पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञः) [प्रेदि] बोला—पांच पाद वाली पङ्क्ति [पांच अक्षर के पांच पाद वाली पदपङ्क्ति अथवा आठ अक्षर के पांच पाद वाली पथ्यापङ्क्ति] है, पाङ्क्त [पङ्क्ति, वेदवाणी से सिद्ध किया हुआ] यज्ञ है । ६ । (कति तु एव इति) [उद्दालक] फिर कितने । (चत्वारि इति ह) अरे चार । (उवाच चत्वारि वै इति ह) [उद्दालक] अरे चार ही हैं । (उवाच चत्वारः वै वेदाः, वेदैः यज्ञः तायते) [प्रेदि] चार ही वेद [ऋग्, यजुः, साम और अथर्व] हैं, वेदों से यज्ञ फैलाया जाता है । ७ । (कति तु एव इति) [उद्दालक] फिर कितने । (त्रीणि इति ह) [प्रेदि] अरे तीन । (उवाच त्रीणि वै इति ह) [उद्दालक] अरे तीन ही हैं । (उवाच त्रिपवणः वै यज्ञः सवनैः यज्ञः तायते) [प्रेदि] बोला—[प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन] तीन सवन वाला ही यज्ञ है, सवनों से यज्ञ फैलाया जाता है । ८ । (कति तु एव इति) उद्दालक] फिर कितने । (द्वे इति ह) [प्रेदि] अरे दो ।

श्वरः, ततः अण् भावे । कौसुरं भूम्यैश्वर्यम् । विन्दुरिच्छुः । पा० ३ । २ । १६६ । विद् ज्ञाने—उ, नुमागमः । भूम्यैश्वर्यस्य ज्ञाता (उद्दालकः) गो० सू० ३ । ६ । मुनिविशेषः (आरुणः) अरुण—अण् । अरुणपुत्रः (कुमारः) हे कुमार (अमन्यथ) अमन्यत । ज्ञातवान् (वैराजः) विराजा निर्वृतः (गायत्रः) गायत्र्या निर्वृतः (पञ्च) सप्यशुभ्यां तुट् च । उ० १ । १५७ । पचि व्यक्तीकरणे—कनिन् । संख्याविशेषः (पङ्क्तिः) पचि व्यक्तीकरणे विस्तारे—क्तिन् घा क्तिच् । अत्र

(उवाच द्वे वै इति ह) [उद्दालक] बोला—अरे दो ही हैं (उवाच द्विपात् वै पुरुषः द्विप्रतिष्ठः पुरुषः पुरुषः वै यज्ञः) [प्रेदि] बोला—दो पांच वाला पुरुष है, दो [कर्म और ज्ञान] से प्रतिष्ठा किया गया पुरुष है, पुरुष ही यज्ञ है । ६ । (कति तु एष इति) [उद्दालक] फिर कितने । (एकम् इति ह) [प्रेदि] अरे एक [दिन] । (उवाच एकं वै इति ह) [उद्दालक] अरे एक ही है । (उवाच अहः अहः इति एकम् एव सर्वं संवत्सरम्) [प्रेदि] बोला—दिन दिन यह एक ही [मिलाकर] पूरा संवत्सर यज्ञ है ॥ १० ॥ २४ ॥

भावार्थ—मनुष्य को यज्ञ के अङ्ग उपाङ्गों के समान प्रत्येक पदार्थ के अङ्ग उपाङ्गों को जानकर कर्तव्य पूरा करना चाहिये ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
वाडाधिष्ठित बड़ोदे पुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्व-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित ज्ञेयकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्ये पूर्वभागे चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अर्थ प्रपाठकः प्रयागनगरे भाद्रपदमासे शुक्लद्वादश्यां तिथौ १९८०
[अशीत्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-
महावशस्वि श्री राजराजेश्वर पञ्चम जार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये
सुसमाप्तिमगात् ।

मुद्रितः—आषाढशुक्ला १२ संवत् १९८१ वि० ता० १३ जूलाई सन् १९२४ ई० ॥

मु । पङ्क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्० । पा० ५ । १ । ५६ । पञ्चन्—तिप्रत्ययः,
टिलोपः । पञ्चैव पङ्क्तिः । पदपङ्क्तिः पञ्च । पिङ्गलशास्त्रे ३ । ४६ । पञ्चाक्षरयुक्ता
षष्ठपदा षट्पङ्क्तिः । अथवा । पथ्यापञ्चभिर्गायत्रैः । पिङ्गल० ३ । ४८ । अष्टाक्षर-
युक्ता पञ्चपदा षट्पङ्क्तिः (पाङ्क्तिः) पङ्क्ति-अण् । पञ्चावयवोपेतः (द्विप्र-
तिष्ठितः) द्वाभ्यां कर्मज्ञानाभ्यां प्रतिष्ठितः (संवत्सरम्) संवत्सरयज्ञः ॥

अथ पञ्चमः प्रपाठकः ।

कण्डिका १ ॥

ओं अभिप्लवः षडहः षडहानि भवन्ति ज्योतिर्गौरायुर्गौरायुर्ज्योतिः १, अभिप्लवः पञ्चाहः पञ्च ह्येवाहानि भवन्ति यद्ध्येव प्रथममहस्तदुत्तममहः २, अभिप्लवश्चतुरहश्चत्वारो हि स्तोमा भवन्ति त्रिवृत् पञ्चदशः सप्तदशैकविंश एव ३, अभिप्लवस्यहस्यहावृत्तिर्ज्योत्स्निर्गौरायुर्गौरायुर्ज्योतिः ४, अभिप्लवो दूव्यहो द्वे ह्येव सामनी भवतो बृहद्रथन्तर एव ५, अभिप्लव एकाह एकाहस्य स्तोमैस्तायते ६, चतुर्णामुक्थ्यानां द्वादशस्तोत्राण्यतिरिच्यन्ते स सप्तमोऽग्निष्टोमस्तथा खलु सप्ताग्निष्टोमा मासि सन्पद्यन्ते इति ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ संवत्सर से अभिप्लव का सम्बन्ध ॥

(ओं अभिप्लवः षडहः षट् अहानि भवन्ति ज्योतिः, गौः, आयुः, गौः, आयुः, ज्योतिः १) ओम् । अभिप्लव छह दिन वाला है, छह दिन यह होते हैं ज्योति, गौ, आयु, गौ, आयु, ज्योति । १ । (अभिप्लवः पञ्चाहः पञ्च हि एव अहानि भवन्ति यत् हि एव प्रथमम् अहः तत् उत्तमम् अहः २) अभिप्लव पांच दिन वाला है, क्योंकि पांच ही दिन होते हैं, जो हि पहिला दिन है वह ही पिछला दिन है [अर्थात् ज्योति ज्योति एक बार ही ज्योति है] । २ । (अभिप्लवः चतुरहः चत्वारः हि स्तोमाः भवन्ति त्रिवृत् पञ्चदशः सप्तदश एकविंशः एव ३) अभिप्लव चार दिन वाला है क्योंकि चार स्तोम होते हैं त्रिवृत्, पञ्चदश, सप्तदश, और एकविंश ही । ३ । (अभिप्लवः स्यहः स्यहा आवृत्तिः ज्योतिः गौः आयुः गौः आयुः ज्योतिः ४) अभिप्लव तीन दिन वाला है, तीन दिन वाली आवृत्ति [लौटा फेरी] है ज्योति, गौ, आयु, गौ, आयु, ज्योति [अर्थात् दो दो बार आये हुये एक एक दिन हों] । ४ । (अभिप्लवः दूव्यहः द्वे हि एव सामनी भवतः, बृहद्रथन्तरे एव ५) अभिप्लव दो दिन वाला है, क्योंकि दो ही साम [के विभाग] होते हैं बृहत् और रथन्तर [पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक] ही । ५ । (अभिप्लवः एकाहः एकाहस्य स्तोमैः तायते ६) अभिप्लव एक दिन वाला है, एक दिन वाले के स्तोमों से वह [यज्ञ] फैलाया जाता है, । ६ । (चतुर्णाम् उक्थ्यानां द्वादश स्तोत्राणि अतिरिच्यन्ते स सप्तमः अग्निष्टोमः ७)

१—(बृहद्रथन्तरे) सामविभागौ । पूर्वार्चिकोत्तरार्चिकौ (अतिरिच्यन्ते) अतिरिक्तानि अधिकानि भवन्ति ॥

चार उक्थय यज्ञों में बारह स्तोत्र अधिक हो जाते हैं, वह सातवाँ अग्निष्टोम है । ७ । (तथा खलु सप्त अग्निष्टोमाः मासि सम्पद्यन्ते इति ब्राह्मणम्) इस प्रकार ही सात अग्निष्टोम महीने में किये जाते हैं यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ १ ॥

कण्डिका २ ॥

अथातो गाधप्रतिष्ठा समुद्रं वा एते प्रतरन्ति ये संवत्सराय दीक्षन्ते तेषां तीर्थमेव प्रायणीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन हि प्रतरन्ति तद्यथा समुद्रं तीर्थेन प्रतरं युस्ताद्वक् तद्गाधप्रतिष्ठा १, चतुर्विंशमह्यथोपकक्षदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतो विश्रम्य प्रश्नायेयुस्ताद्वक् तत्प्रश्ने योऽभिस्रवः प्रश्नेयः पृष्ठयो गाधप्रतिष्ठा २, अभिजिद्यथोपकक्षदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतो विश्रम्य प्रश्नायेयुस्ताद्वक् तन्नीविदघ्न एव प्रथमः स्वरसामा जानुदघ्नो द्वितीयः कुल्युदघ्नस्तृतीयो दीपप्रतिष्ठा ३, विषुवान्यथोपकक्षदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतो विश्रम्य प्रश्नायेयुस्ताद्वक् तत्कुल्युदघ्न एव प्रथमोऽर्वाक् स्वरसामा जानुदघ्नो द्वितीयो नीविदघ्नस्तृतीयो गाधप्रतिष्ठा ४, विश्वजिद्यथोपकक्षदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतो विश्रम्य प्रश्नायेयुस्ताद्वक् तत्प्रश्नेयः पृष्ठयाः प्रश्नेयोऽभिस्रवः प्रश्नेयी गवायुपी प्रश्नेयो दशरात्रो गाधप्रतिष्ठा ५, महावृतं यथोपकक्षदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतो विश्रम्य प्रश्नायेयुस्ताद्वक् तत्तेषां तीर्थमेवोदनीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन ह्युद्यन्ति तद्यथा समुद्रं तीर्थेनोदेयुस्ताद्वक् तत् ६, अथ ह स्माह श्वेतकेतुरारुणेयः संवत्सरस्यान्वहं दीक्षा इति तस्य ह पिता मुखमुदीक्ष्योवाच वेत्थ सुत त्वमायुष्मान् संवत्सरस्य गाधप्रतिष्ठे इति वेदेत्येतद् स्मैतद्विद्वानाहेति ब्राह्मणम् ॥ २ ॥

कण्डिका २ ॥ यज्ञों में गाधप्रतिष्ठा और तीर्थ ॥

(अथ अतः गाधप्रतिष्ठा) अब यहां गाध प्रतिष्ठा [गहराई की मर्यादा कही जाती है] । (समुद्रं वै एते प्रतरन्ति ये संवत्सराय दीक्षन्ते) समुद्र [यज्ञ] को वे ही पार करते हैं जो संवत्सर के लिये दीक्षा पाते हैं । (तेषां तीर्थम् एव प्रायणीयः अतिरात्रः) उन लोगों का तीर्थ [पार होने का साधन घाट, नौका आदि] ही प्रायणीय अतिरात्र है । (तीर्थेन हि प्रतरन्ति तत् यथा समुद्रं तीर्थेन प्रतरेयुः ताद्वक् तत् गाधप्रतिष्ठा १) क्योंकि तीर्थ [नौका आदि] से ही पार

२—(गाधप्रतिष्ठा) तलस्पर्शमर्यादा (तीर्थम्) तरणसाधनम् (उपकक्षदघ्नम्) प्रमाणे द्वयसज् दघ्नज्मात्रचः । पा० ५ । २ । ३७ । इति दघ्नच् । उप-

करते हैं, सो जैसे समुद्र को तीर्थ से पार करें, वैसे ही यह गाधप्रतिष्ठा [यज्ञ] है । १ । (चतुर्विंशम् अहः यथा उपकृत्तदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतो विश्रम्य प्रश्नायेयुः तादृक् तत् प्रश्नेयः अभिप्लवः प्रश्नेयः पृष्ठ्यः गाधप्रतिष्ठा २) चतुर्विंश अह [तीर्थ]—जैसे कांख प्रमाण वाले अथवा कण्ठ प्रमाण वाले जल में अथवा जहाँ ठहरें वहाँ स्नान करें, वैसे ही वह स्नान योग्य अभिप्लव और स्नान योग्य पृष्ठ्य गाधप्रतिष्ठा है । २ । (अभिजित् यथा उपकृत्तदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतः विश्रम्य प्रश्नायेयुः तादृक् तत् नीविदघ्नः एव प्रथमः स्वरसामा जानुदघ्नः द्वितीयः कुल्युदघ्नः तृतीयः दीपप्रतिष्ठा ३) अभिजित् [तीर्थ]—जैसे कांख प्रमाण वाले अथवा कण्ठ प्रमाण वाले जल में अथवा जहाँ ठहरें वहाँ स्नान करें, वैसे ही वह [अभिजित्] है—ऋटि प्रमाण वाला ही पहिला स्वरसाम, जानु प्रमाण वाला दूसरा और घुटने प्रमाण वाला तीसरा है, यह दीपप्रतिष्ठा है । ३ । (विषुवान् यथा उपकृत्तदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतः विश्रम्य प्रश्नायेयुः तादृक् तत् कुल्युदघ्नः एव प्रथमः अर्वाक् स्वरसामा जानुदघ्नः द्वितीयः नीविदघ्नः तृतीयः गाधप्रतिष्ठा ४) विषुवान् [तीर्थ]—कांख प्रमाण वाले अथवा कण्ठ प्रमाण वाले जल में अथवा जहाँ ठहरें वहाँ स्नान करें, वैसे ही वह [विषुवान्] है—घुटने प्रमाण वाला ही पहिला निकटवर्ती स्वरसाम, जंघा प्रमाण वाला दूसरा, ऋटि प्रमाण वाला तीसरा है—यह गाधप्रतिष्ठा है । ४ । (विश्वजित् यथा उपकृत्तदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतः विश्रम्य प्रश्नायेयुः तादृक् तत् प्रश्नेयः पृष्ठ्यः प्रश्नेयः अभिप्लवः प्रश्नेयी गवायुपी प्रश्नेयः दशरात्रः गाधप्रतिष्ठा ५) विश्वजित् [तीर्थ]—कांख प्रमाण वाले वा कण्ठ प्रमाण वाले जल में अथवा जहाँ ठहरें वहाँ स्नान करें वैसे ही वह [विश्वजित्] है—स्नान योग्य पृष्ठ्य, स्नान योग्य अभिप्लव, स्नान योग्य दानो गवायु, और स्नान योग्य दशरात्र है—यह गाधप्रतिष्ठा है । ५ । (महावृतं यथा उपकृत्तदघ्नं वा कण्ठदघ्नं वा यतः विश्रम्य प्रश्नायेयुः तादृक् तत् तेषां तीर्थम् एव उदयनीयः अतिरात्रः, तीर्थेन हि उद्यन्ति तत् यथा समुद्रं तीर्थेन उदेयुः तादृक् तत् ६) महावृतं [तीर्थ]—जैसे कांख प्रमाण वाले

कृत्तप्रमाणोपेतम् (विश्रम्य) विरम्य । विरामं कृत्वा (प्रश्नायेयुः) आर्षरूपम् । प्रश्नायेयुः । प्रकर्षेण स्नानं कुर्युः (प्रश्नेयः) प्र+स्ना शौचे—यद् । स्नानयोग्यः, एवम् अत्रेऽपि (नीविदघ्नः) ऋटिप्रमाणः (कुल्युदघ्नः) भुजिभृङ्भ्यां युङ्त्युक्तौ । ७० ३ । २१ । कुल संवाते वन्धे च—युक् । गुल्फोपरिभागप्रमाणः (आरुक्षेयः)

या करुण प्रमाण बाले जल में अथवा जहाँ ठहरें वहाँ स्नान करें, वैसे ही वह [महावृत] है—उन [याजकों] का तीर्थ ही उदयनीय अतिरात्र है; [क्योंकि] तीर्थ से ही पार होते हैं सो जैसे समुद्र को तीर्थ [नौका] से पार करें, वैसे ही वह [महावृत] है । ६ । (अथ ह श्वेतकेतुः आरुणेयः आह स, संवत्सरस्य अनु अहं दीक्षे इति) फिर ही श्वेतकेतु [श्वेत पताका वाला] अरुण का पुत्र बोला—संवत्सर के अनुकूल हो कर मैं दीक्षा लूँ । (तस्य ह पिता मुखम् उदीक्ष्य उवाच आयुष्मान् त्वं सुत संवत्सरस्य गाधप्रतिष्ठे वेत्थ इति) उस का पिता मुख देख कर बोला—बड़ी आयु वाला तू हे पुत्र ! संवत्सर [यज्ञ] की गाधप्रतिष्ठा [गहराई और मर्यादा] जानता है । (वेद इति) [पुत्र बोला] मैं जानता हूँ । (एतत् ह स एतत् विद्वान् आह इति ब्राह्मणम्) यही निश्चय कर के, यही विद्वान् कहता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ २ ॥

कण्डिका ३ ॥

पुरुषो वाव संवत्सरस्तस्य पादावेव प्रायणीयोऽतिरात्रः पादाभ्यां हि प्रयन्ति तयोर्यच्छुक्लं तदहो रूपं यत् कृष्णं तद्रात्रेः नखानि नक्षत्राणां रूपं लोमान्बोषधिवनस्पतीनामूरु चतुर्विंशमहुरोऽभिस्रवं पृष्ठ्यं पृष्ठ्यः शिर एव त्रिवृत् त्रिवृतं ह्येव शिरो भवति त्वगस्थिमज्जामस्तिष्कं ग्रीवाः पञ्चदशश्चतुर्दश ह्येवैतस्यां कराणि भवन्ति वीर्यं पञ्चदशं तस्मादियमाभिरएवीभिः सतीभिर्गुरुं भारं हरति तस्माद् ग्रीवाः पञ्चदश उरुः सप्तदशौष्ठावन्ये यत्र वौष्ठावन्य उरुः सप्तदशं तस्मादुरः सप्तदश उदरमेकविंशो विंशतिर्ह्येवैतस्यान्तर उदरे उत्तापानि भवन्त्युदरमेकविंशं तस्मादुदरमेकविंशः पार्श्वे त्रिणवस्त्रयोदशान्याः पार्श्वोऽन्याः पार्श्वे त्रिणवस्तस्मात् पार्श्वे त्रिणवोऽनूकं त्रयस्त्रिंशो द्वात्रिंशतिर्ह्येवैतस्यां पृष्ठी कुण्डी उल्लानि भवन्त्यनूकं त्रयस्त्रिंशः तस्मादनूकं त्रयस्त्रिंशस्तस्याश्चमेव दक्षिणो बाहुरभिजित्तस्येमे दक्षिणे त्रयः प्राणाः स्वरसामान आत्मा विषुवांस्तस्येमे सव्ये त्रयः प्राणा अर्वाक् स्वरसामानस्तस्यायं सव्यो बाहुर्विश्वनिदुक्तौ पृष्ठ्याभिस्रवौ याववाञ्चो प्राणौ तौ गवायुषी अङ्गानि दशरात्रो मुखं महावृतं तस्य हस्तावेवोदयनीयोऽतिरात्रो हस्ताभ्यां ह्युद्यन्ति य एवं वेद स वा एष संवत्सरः ॥ ३ ॥

अरुणापत्यम् (अनु) अनुकूलो भूत्वा (उदीक्ष्य) उत्कर्षेण दृष्ट्वा (वेत्थ) जानासि ॥

कण्डिका ३ ॥ मनुष्य शरीर के दृष्टान्त से संवत्सर

यज्ञ का वृत्तान्त ॥

(पुरुषः वाव संवत्सरः) मनुष्य ही संवत्सर यज्ञ है । (तस्य पादौ एव प्रायणीयः अतिरात्रः) उस [मनुष्य] के दोनों पांव प्रायणीय अतिरात्र [संवत्सर के अङ्ग] हैं । (पादाभ्यां हि प्रयन्ति) दोनों पावों से ही आगे को चलते हैं । (तयोः यत् शुक्लं तत् अहः रूपं यत् कृष्णं तत् रात्रेः) उन दोनों [पावों] में जो श्वेतपन है वह [यज्ञ के लिये] दिन का रूप और जो कालापन है वह रात्रि का है । (नखानि नक्षत्राणां रूपं लोमानि औपधिवनस्तीनाम्) नख नक्षत्रों के रूप हैं और रोम औपधि वनस्पतियों के । (ऊरू चतुर्विंशम् अहः, उरः अभिस्रवं, पृष्ठ्यं पृष्ठ्यः) दोनों जंघायें चतुर्विंश अह, छाती [हृदयस्थान] अभिस्रव, और पीठ पृष्ठ्य है । (शिरः एव त्रिवृत् त्रिवृतं हि एव शिरो भवति त्वक् अस्थि मज्जा मस्तिष्कम्) शिर ही त्रिवृत है, क्योंकि तीन अवयव वाला ही शिर होता है त्वचा, हाड, मज्जा [हाडों का सार] अथवा मस्तिष्क [भेजा वा घृत के रूप चिकनाई] । (ग्रीवाः पंचदशः चतुर्दश ही एव एतस्यां कराणि भवन्ति वीर्यं पंचदशं) ग्रीवा पंचदश यज्ञ है [क्योंकि] इस में चौदह ही [अवयव विशेष] होते हैं और पन्द्रहवां वीर्य [बल] है, (तस्मात् इयम् आभिः अण्वीभिः सतीभिः गुरुं भारं हरति तस्मात् ग्रीवाः पंचदशः) इस लिये यह [ग्रीवा] इन छोटी छोटी नाड़ियों होती हुई के द्वारा भारी बोझ ले जाती है, इस लिये ग्रीवा पंचदश यज्ञ है । (उरुः सप्तदश ओष्ठौ अन्ये यत्र वा ओष्ठौ अन्ये उरुः सप्तदशं तस्मात् उरः सप्तदशः) उरु [ग्रीवा और उदर का बीच ?] सप्तदश यज्ञ है कोई कोई दोनों ओंठ [बताते हैं] और दूसरे जहां दोनों ओंठ हैं वहां उरु सप्तदशवां [कहते हैं], इस लिये उर [उरु] सप्तदश यज्ञ है । (उदरम् एकविंशः विंशतिर्हि एव एतस्य आन्तरे उदरे उत्तापानि भवन्ति, उदरम् एकविंशम्, तस्मात् उदरम् एकविंशः) उदर [पेट] एकविंश यज्ञ है, [क्योंकि] बीस ही इसके भीतरले उदर में उत्ताप [तापवाली आंतें] हैं और उदर इक्कीसवां है, इस लिये उदर एकविंश यज्ञ है । (पार्श्वे त्रिणवः अन्याः पार्श्वः त्रयोदश

३—(वाव) एव (तस्य) पुरुषस्य (प्रयन्ति) प्रकर्षेण गच्छन्ति (तयोः) पादयोः (ऊरू) जंघे (पृष्ठ्यम्) स्वार्थे यत् । पृष्ठम् (त्रिवृतम्) त्रि + वृज् वरणे-क्त । अवयवयुक्तम् (मज्जा) टुमस्जो शुद्धौ-अच् टाप् । अस्थिसारः (मस्तिष्कम्) मस्तकस्थो घृताकारः पदार्थः (ग्रीवाः) कन्धराः (एतस्याम्) ग्रीवायाम् (कराणि)

अन्याः पार्श्वे त्रिणवः तस्मात् पार्श्वे त्रिणवः) दोनों पार्श्व [कांख के नीचे के स्थान] त्रिणव यज्ञ है, कोई पसलियां त्रयोदश यज्ञ और कोई दोनों पार्श्व [कांख के नीचे के स्थान] त्रिणव यज्ञ है [ऐसा कहते हैं], इस लिये दोनों पार्श्व त्रिणव यज्ञ हैं । (अनूकं त्रयस्त्रिंशः, द्वात्रिंशतिः हि एव एतस्यां पृष्ठी कुण्डी उलानि भवन्ति अनूकं त्रयस्त्रिंशः तस्मात् अनूकं त्रयस्त्रिंशः) अनूक [मूत्र थैली] त्रयस्त्रिंश यज्ञ है, [क्योंकि] बत्तीस ही इसमें पृष्ठी, कुण्डी, और उल [नाड़ी विशेष] हैं और अनूक तैतीसवां है, इस लिये अनूक त्रयस्त्रिंश यज्ञ है । (तस्य दक्षिणः बाहुः अयम् एव अभिजित्) उल [मनुष्य] का दाहिना बाहु ही यह अभिजित् यज्ञ है, (तस्य दक्षिणे इमे-त्रयः प्राणाः स्वरसामानः) उल के दाहिने [बाहु] में यह तीन प्राण [भुजदण्ड, भुजा और हाथ] स्वरसाम यज्ञ हैं । (आत्मा विषुवान्) [उसका] आत्मा विषुवान् यज्ञ है । (तस्य सव्ये इमे त्रयः प्राणाः अर्वाक् स्वरसामानः) उल के बाये [बाहु] में [पूर्वोक्त] तीन प्राण अर्वाक् स्वरसाम यज्ञ हैं । (तस्य अयम् सव्यः बाहुः विश्वजित्) उल का यह बायां बाहु विश्वजित् यज्ञ है । (उक्तौ पृष्ठ्याभिलवौ) दोनों पृष्ठ्य और अभिलव कह दिये हैं । (यौ अवाञ्चौ प्राणौ तौ गवायुषी) जो नीचे बाले दो प्राण [पायु और उपस्थ] हैं वे दो गवायुषी यज्ञ हैं । (अङ्गानि दशरात्रः, मुखं महाव्रतम्) [शेष] अङ्ग दशरात्र और मुख महाव्रत यज्ञ है । (तस्य हस्तौ एव उदयनीयः अतिरात्रः) उल [मनुष्य] के दोनों हाथ ही उदयनीय अतिरात्र यज्ञ हैं । (हस्ताभ्यां हि उद्यन्ति यः एवं वेद) वह दोनों हाथों से चढ़ता है जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः संवत्सरः) सो यही संवत्सर यज्ञ है ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य शरीर के अवयवों को जानकर उन्हें पुष्ट रखे ॥ ३ ॥

कण्डिका ४ ॥

पुरुषो वाव संवत्सरः, तस्य प्राण एव प्रायणीयोऽतिरात्रः प्राणेन हि प्रयन्ति वागारम्भणीयमहर्ष्यद्वारभते वागारम्भते वाचैव तदारभते । तस्यायमेव दक्षिणः पाणिरभिलवस्तस्यैदं प्रातःसवनमिदं माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयं

अवयवविशेषाः (अण्वीभिः) सूक्ष्माभिर्नाडीभिः (उरुः) मुहेः किञ्च । उ० २ । १२० ।
उर् गतौ, सौत्रः—उसि कित् । शरीराङ्गविशेषः (उरः) उरु एव (आन्तरे) अन्तर-
अण् । आभ्यन्तरे (उत्तापानि) तप्तानि आन्त्राणि (अन्याः) अन्ये (अनूकम्)
मूत्रवस्तिः (अवाञ्चौ) अधोगतौ । पायूपस्थे (उद्यन्ति) उच्चैर्गच्छति ॥

सवनं गायत्र्या आयतने तस्म दिवमस्यै हसिष्ठा । १ । तस्येदं प्रातःसवनमिदं
माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयसवनं त्रिष्टुभ आयतने तस्मादिवमस्यै वरिष्ठा । २ ।
तस्येदं प्रातःसवनमिदं माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयसवनं जगत्या आयतने तस्मा-
दिवमनयोर्वरिष्ठा । ३ । तस्येदं प्रातःसवनमिदं माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयस-
वनं पङ्क्त्या आयतने पृथुरिव वै पङ्क्तिस्तस्मादिवमासां प्रतिष्ठा । ४ । तस्येदं
प्रातःसवनमिदं माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयसवनं विराज आयतनेऽन्नं वै श्रीः
विराड्भ्राह्मणस्य त्रियाऽवरुध्यै तस्मादिवमासां वरिष्ठा । ५ । तस्येदं प्रातःसवन-
मिदं माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयसवनमतिच्छन्दसाम् आयतनेऽतिच्छन्दो वै
छन्दसामायतनं तस्मादिदं प्रतिष्ठं फलकं । ६ । तस्येदं प्रातःसवनमिदं माध्य-
न्दिनं सवनमिदं तृतीयसवनं सैतः सैतोऽभिभवः सैत आत्मा पृष्ठ्यः सवतीवाभि-
भवस्तिष्ठतीव पृष्ठ्यः सवत इव ह्येवमङ्गैरित्ठतीवात्मना । ७ । तस्यायमेव
दक्षिणः कणाऽभिजित् । तस्य यद् दक्षिणमक्षणः शुक्लं स प्रथमस्वरसामा यत्
कृष्णं स द्वितीया यस्मिण्डलं स तृतीया, नासिके विषुवान्, मण्डलमेव प्रथमेऽ
र्वाक् स्वरसामा यत् कृष्णं स द्वितीया यत् शुक्लं स तृतीयस्तस्यायं सव्यः कर्णा
विश्वजिदुको पृष्ठ्याभिभवौ याववाञ्चौ प्राणौ तौ गवायुषी अङ्गानि दशरात्रां
मुख महाश्रतं तस्योदान एवाद्यनीयोऽतिरात्र उदानेन ह्युद्यन्ति य एवं वेद स वा
एष संवत्सरः ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ ॥ मनुष्य शरीर के दृष्टान्त से संवत्सर यज्ञ का वृत्तान्त ॥

(पुरुषः वाच संवत्सरः) मनुष्य ही संवत्सर यज्ञ है । (तस्य प्राणः एव
प्रायणीयः अतिरात्रः, प्राणेन हि प्रयन्ति) उस [मनुष्य] का प्राण ही प्रायणीय
अतिरात्र यज्ञ है, प्राण से ही आगे बढ़ते हैं । (वाक् आरम्भणीयम् अहः, यत्
यत् आरभते वाक् आरम्भते । वाचा एव तत् आरभते) वाणी आरम्भ करने
योग्य दिन [यज्ञ] है, जो जो आरम्भ किया जाता है वाणी आरम्भ करती है,
वाणी से ही वह आरम्भ किया जाता है । (तस्य दक्षिणः पाणिः अथम् एव
अभिभवः) उस [मनुष्य] का दाहिना हाथ यही अभिभव है । (तस्य इदं प्रातः-
सवनम् इदम् माध्यन्दिनं सवनं इदं तृतीयं सवनं गायत्र्याः आयतने, तस्मात्
इयम् अस्यै हसिष्ठा १) उस [मनुष्य] का यह प्रातःसवन [प्रातःकाल का

४—(आरभते) आरम्भते (प्रातःसवनम्) वाह्यमितियावत् (माध्य-
न्दिनंसवनम् , यौवनम् (तृतीयसवनम्) वृद्धत्वम् (आयतने) स्थाने (हसिष्ठा)

यज्ञ अर्थात् बालकपन], यह माध्यन्दिन सवन [दोपहर का यज्ञ अर्थात् यौघन], और यह तीसरा सवन [तीसरे पहर का यज्ञ अर्थात् बुढ़ापा], गायत्री [आठ अक्षर के तीन पाद वाले गायत्री छन्द] के स्थान में है, इस लिये यह [गायत्री] इस [वाणी] में अति छोटी है । १ । (तस्य इदं प्रातःसवनम् इदं माध्यन्दिनं सवनम् इदं तृतीय सवनं त्रिष्टुभः आयतने, तस्मात् इयम् अस्यै वरिष्ठा २) उस [मनुष्य] का यह प्रातःसवन, यह माध्यन्दिन सवन, यह तीसरा सवन [संख्या १ देखो] त्रिष्टुप् [ग्यारह अक्षर के चार पाद वाले त्रिष्टुप् छन्द] के स्थान में है, इस लिये यह [त्रिष्टुप्] इस [गायत्री] से अधिक बड़ा है । २ । (तस्य इदं प्रातःसवनम्, इदं माध्यन्दिनं सवनम् इदं तृतीयं सवनं जगत्याः आयतने, तस्मात् इयम् अनयोः वरिष्ठा ३) उस [मनुष्य] का यह प्रातःसवन, यह माध्यन्दिन सवन, और यह तीसरा सवन [सं० १] जगती [बारह अक्षर के चार पाद वाले जगती छन्द] के स्थान में है, इस लिये यह [जगती] इन दोनों [गायत्री और त्रिष्टुप्] से अधिक बड़ा है । ३ । (तस्य इदं प्रातःसवनम्, इदं माध्यन्दिनं सवनम् इदं तृतीयं सवनं पङ्क्त्याः आयतने पृथुः इव वै पङ्क्तिः, तस्मात् इयम् आसां प्रतिष्ठा ४) उस [मनुष्य] का यह प्रातःसवन, यह माध्यन्दिन सवन और यह तीसरा सवन [सं० १] पङ्क्ति [पांच वा आठ अक्षर के पांच पाद वाले पङ्क्ति छन्द] के स्थान में है, चौड़े पदार्थ के समान ही पङ्क्ति है, इस लिये यह [पङ्क्ति] इन [गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती] की भूमि है । ४ । (तस्य इदं प्रातःसवनम्, इदं माध्यन्दिनं सवनम्, इदं तृतीयसवनं विराजः आयतने, अन्नं वै श्रीः विराट्, अन्नाद्यस्य श्रियः अवरुध्यै, तस्मात् इयम् आसां वरिष्ठा ५) उस [मनुष्य] का यह प्रातःसवन, यह माध्यन्दिन सवन और यह तीसरा सवन [सं० १] विराट् [दस अक्षर के चार पाद वाले विराट् छन्द] के स्थान में है, अन्न और श्री [लक्ष्मी वा शोभा] ही विराट् है, खाने योग्य अन्न और श्री की प्राप्ति के लिये यह है, इस लिये यह [विराट्] इन [गायत्री, त्रिष्टुप् जगती और पङ्क्ति] में अति श्रेष्ठ है । ५ । (तस्य इदं प्रातःसवनम् इदं माध्यन्दिनं सवनम् इदं तृतीयसवनम्

ह्रस्व—इष्टन्, टाप् । ह्रस्वतमा (वरिष्ठा) उरु वर वा—इष्टन् टाप् । उद्यतमा । विस्तीर्णतमा । वरतमा । श्रेष्ठतमा (पृथुः) विस्तीर्णः (प्रतिष्ठा) भूक्तिः । अथवा वृद्ध-इष्टन्, यस्य तः । प्रथिष्ठा । अधिकविस्तीर्णा (विराट्) वि+राज् दीप्तौ पेश्वर्ये च—क्लिप् । विविधदीप्यमाना । विविधैश्वर्ययुक्ता ।

अतिछन्दसाम् आयतनं, अतिछन्दः वै छन्दसाम् आयतनम्, तस्मात् इदं प्रतिष्ठं फलकम् ६) उस [मनुष्य] का यह प्रातःसवन, यह माध्यन्दिन सवन, यह तीसरा सवन [सं० १] अतिछन्दों [अतिजगती, शकरी, अतिशकरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति अतिछन्दों] के स्थान में है, अतिछन्द ही छन्दों का स्थान है, इस लिये यह प्रतिष्ठा वाला प्रतिफल है । ६ । (तस्य इदं प्रातःसवनम्, इदं माध्यन्दिनं सवनम्, इदं तृतीयं सवनं सैतः सैतः, अभिलवः, सैतः आत्मा पृष्ठ्यः, सवति इव अभिलवः, तिष्ठति इव पृष्ठ्यः, सवते इव हि एवम् अङ्गैः, तिष्ठति इव आत्मना ७) उस [मनुष्य] का यह प्रातःसवन, यह माध्यन्दिन सवन और यह तीसरा सवन [सं० १] खेती से सिद्ध हुआ यज्ञ है, खेती से सिद्ध हुआ यज्ञ अभिलव है, खेती से सिद्ध हुआ यज्ञ आत्मा रूप पृष्ठ्य है, चलता है जैसे यह अभिलव यज्ञ है, ठहरता है जैसे यह पृष्ठ्य है, क्योंकि वह [यज्ञ] चलता है जैसे इस प्रकार अङ्गों से, और ठहरता है जैसे आत्मा से । ७ । (तस्य दक्षिणः कर्णः अयम् एव अभिजित्) उस [मनुष्य] का दाहिना कान यही अभिजित् यज्ञ है । (तस्य अक्षः यत् दक्षिणं शुक्लं सः प्रथमस्वरसामा यत् कृष्णं सः द्वितीयः, यत् मण्डलं सः तृतीयः) उस [मनुष्य] के आंख का जो दाहिना श्वेतपन है वह पहिला स्वरसाम यज्ञ है, जो कालापन है वह दूसरा, और जो मण्डल [आंख का घेरा] है वह तीसरा [स्वरसाम] है । (नासिके विषुवान्) दोनों नथने विषुवान् यज्ञ है । (मण्डलम् एव प्रथमः अर्वाक् स्वरसामा यत् कृष्णं सः द्वितीयः, यत् शुक्लं सः तृतीयः) मण्डल [बाई आंख का घेरा] ही पहिला अर्वाक् स्वरसाम यज्ञ है, जो कालापन है वह दूसरा है और जो श्वेतपन है वह तीसरा है । (तस्य सव्यः कर्णः अयं विश्वजित्) उस [मनुष्य] का बायां कान यह विश्वजित है । (उक्तौ पृष्ठ्याभिलवौ) दोनों पृष्ठ्य और अभिलव कह दिये हैं । (यौ अवाञ्चौ प्राणौ तौ गवायुषी) जो नीचे घाले दो प्राण [पायु और उपस्थ] हैं वे दो गवायुषी यज्ञ है । (अङ्गानि दशरात्रः मुखं महाव्रतम्) शेष अङ्ग दशरात्र और मुख महाव्रत है । (तस्य उदानः एव उदयनीयः अतिरात्रः) उस [मनुष्य] का उदान [ऊपर चढ़ने वाला

छन्दोविशेषः (अतिछन्दसाम्) अतिजगतीत्याद्यातिछन्दसाम् (प्रतिष्ठम्) प्रतिष्ठायुक्तम् (फलकम्) स्वार्थं कन् । फलम् । प्रतिफलम् (सैतः) तेन निर्वृत्तम् । पा० ४ । २ । ६८ । सीता-अण् । सीतया कृषिकर्मणा निष्पादितो यज्ञः (अक्षः) नेत्रस्य (मण्डलम्) मडि भूषणे—कलच् । चक्राकारेण वेष्टनम् ॥

वायु] ही उदयनीय अतिरात्र यज्ञ है । (उदानेन हि उदयन्ति यः एव वेद)
क्योंकि वह उदान वायु से ही चढ़ता है जो ऐसा जानता है । (सः वै एषः
संवत्सरः) सो यही संवत्सर यज्ञ है ॥ ४ ॥

करिडका ५ ॥

पुरुषो वाव संवत्सरः । पुरुष इत्येकं संवत्सरमित्येक इत्यत्र सत्समं १, द्वे
अहोरात्रे संवत्सरस्य द्वाविमौ पुरुषे प्राणा इत्यत्र सत्समं २, त्रयो वा ऋतवः
संवत्सरस्य त्रय इमे पुरुषे प्राणा इत्यत्र तत्समं ३, षड् वा ऋतवः संवत्सरस्य
षड्द्विमे पुरुषे प्राणा इत्यत्र तत्समं ४, सप्त वा ऋतवः संवत्सरस्य सप्तमे पुरुषे
प्राणा इत्यत्र तत्समं ५, द्वादश मासाः संवत्सरस्य द्वादशेमे पुरुषे प्राणा इत्यत्र
तत्समं ६, त्रयोदश मासाः संवत्सरस्य त्रयोदशेमे पुरुषे प्राणा इत्यत्र तत्समं ७,
चतुर्विंशतिरर्द्धमासाः संवत्सरस्य चतुर्विंशत्यं पुरुषो विंशत्यङ्गुलिश्चतुरङ्गु
इत्यत्र तत्समं ८, पञ्चविंशतिरर्द्धमासाः संवत्सरस्य पञ्चविंशत्यं पुरुषः प्रतिष्ठे
पञ्चविंशे इत्यत्र तत्समं ९, त्रीणि च ह वै शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्याहोरात्रा-
णीत्येतावन्त एव पुरुषस्य प्राणा इत्यत्र तत्समं १०, सप्त च ह वै शतानि विंश-
तिश्च संवत्सरस्याहानि च रात्रयश्चेत्येतावन्त एव पुरुषस्यास्थीनि च मज्जान-
श्चेत्यत्र तत्समं ११, चतुर्दश च ह वै शतानि चत्वारिंशच्च संवत्सरस्यार्द्धाहा-
श्चार्द्धरात्रयश्चेत्येतावन्त एव पुरुषस्य स्थुरामांसानीत्यत्र तत्समम् १२, अष्टाविंश-
तिश्च ह वै शतान्यशीतिश्च संवत्सरस्य पादाहाश्च पादरात्रयश्चेत्येतावन्त एव
पुरुषस्य स्नावा बन्ध्या इत्यत्र तत्समं १३, दश च ह वै सहस्राण्यष्टौ च शतानि
संवत्सरस्य मुहूर्त्ताः इत्येतावन्त एव पुरुषस्य पेशशमरा इत्यत्र तत्समं १४,
यावन्तो मुहूर्त्ताः पञ्चदशकृत्वस्तावन्तः प्राणाः १५, यावन्तः प्राणाः पञ्चदशकृत्व-
स्तावन्तोऽपानाः १६, यावन्तोऽपानाः पञ्चदशकृत्वस्तावन्तो व्यानाः १७, यावन्तो
व्यानाः पञ्चदशकृत्वस्तावन्तः समानाः १८, यावन्तः समानाः पञ्चदशकृत्वस्तावन्त
उदानाः १९, यावन्त उदानाः पञ्चदशकृत्वस्तावन्त्येतादीनि २०, यावन्त्येतादीनि
तावन्त्येतर्हीणि २१, यावन्त्येतर्हीणि तावन्ति स्वेदायनानि २२, यावन्ति स्वेदा-
यनानि तावन्ति क्षिप्रायणानि २३, यावन्ति क्षिप्रायणानि तावन्तो रोमकूपाः
२४, यावन्तो रोमकूपाः पञ्चदशकृत्वस्तावत्यो वर्षतो धारास्तदेतत् क्रोशशक्ति-
कभ्यरिभ्राणम् । २५ ।

तदप्येतद्वचोक्तम् । श्रमादन्यत्र परिवर्त्तमानश्चरत्वासीनो यदि वा स्वप-
न्मि । अहोरात्राभ्यां पुरुषः क्षणेन कतिकृत्वः प्राणति चापानति च । शतं शतानि

परिवत्सराणामथौ च शतानि मुहूर्तान् यान् वदन्ति अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन कतिकृत्वः प्राणति चापानति चेति ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

कारिडका ५ ॥ मनुष्य शरीर के दृष्टान्त से संवत्सर अर्थात् वर्ष का वृत्तान्त ॥

(पुरुषः वाव संवत्सरः) मनुष्य ही संवत्सर [वर्ष, बारह महीने का काल] है । (पुरुषः एकः इति संवत्सरम् एकम् इति, इति अत्र तत् समम् १) मनुष्य एक है और संवत्सर एक है, यह यहां उन दोनों में समता है । १ । (संवत्सरस्य द्वे अहोरात्रे पुरुषे इमो द्वौ प्राणौ इति अत्र तत् समम् २) संवत्सर के दो दिन रात हैं, पुरुष में यह दो प्राण [प्राण अपान] हैं, यह यहां उन दोनों में समता है । २ । (संवत्सरस्य त्रयः वै ऋतवः पुरुषे इमे त्रयः प्राणाः इति अत्र तत् समम् ३) संवत्सर के तीन ही ऋतु [ग्रीष्म, वर्षा, और शीत] हैं, मनुष्य में यह तीन प्राण [प्राण, अपान, उदान,] हैं, यह यहां उन दोनों में समता है । ३ । (संवत्सरस्य षट् वै ऋतवः पुरुषे इमे षट् प्राणाः इति अत्र तत् समम् ४) संवत्सर के छह ही ऋतु [वसन्त आदि] हैं, मनुष्य में यह छह प्राण हैं, यह यहां उन दोनों में समता है । ४ । (संवत्सरस्य सप्त वै ऋतवः पुरुषे इमे सप्त प्राणाः इति अत्र तत् समम् ५) संवत्सर के सात ही ऋतु हैं, मनुष्य में यह सात प्राण [मस्तक के गोलक] हैं, यह यहां उन दोनों में समता है । ५ । (संवत्सरस्य द्वादश मासाः पुरुषे इमे द्वादश प्राणाः इति अत्र तत् समम् ६) संवत्सर के बारह महीने [चैत्र आदि] हैं । पुरुष में यह बारह प्राण हैं, यह यहां उन दोनों में समता है । ६ । (संवत्सरस्य त्रयोदश मासाः पुरुषे इमे त्रयोदश प्राणाः इति अत्र तत् समम् ७) संवत्सर [लौढ़ के वर्ष] के तरह महाने हैं, पुरुष में यह तेरह प्राण हैं, यह यहां उन दोनों में समता है । ७ । (संवत्सरस्य चतुर्विंशतिः अर्धमासाः, अयम् पुरुषः चतुर्विंशः विंशत्यङ्गुलिः चतुरङ्गः इति अत्र तत् समम् ८) संवत्सर के चौबीस आधे महीने हैं, और यह पुरुष चौबीस वाला [अर्थात्] बीस अङ्गुली वाला और चार अङ्ग

५—(समम्) समत्वम् (चतुर्विंशः) संख्ययाऽव्ययासन्नादुराधिकसंख्याः संख्येये । पा० २ । २ । २५ । चतुरधिका विंशतिः यत्र स चतुर्विंशः । बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात् । पा० ५ । ४ । ७३ । चतुर्विंशति—डच् । चतुर्विंशति-युक्तः । एव अन्यत्रापिसिद्धिः । (मज्जानः) श्वङ्गुलन्पूषन्हीहन् । उ० । १ । ६५६ । टुमस्जो शुद्धी—कनिन् । अस्थिसाराः (स्थुरामांसानि) स्थुड संवरणे—

च ह वै मुहूर्ताः इति, एतावन्तः एव पुरुषस्य पेशशमराः इति अत्र तत् समम्
 १४) संवत्सर के दश सहस्र और आठ सौ [३६० दिन × ३० मुहूर्त = १०,८००]
 ही मुहूर्त हैं, इतने [१०,८००] ही पुरुष के पेशशमर [रूपचक्र अंश विशेष]
 हैं यह यहां उन दोनों में समता है । १४ । (यावन्तः मुहूर्ताः पञ्चदशकृत्वः तावन्तः
 प्राणाः १५) जितने मुहूर्त पन्द्रह बार [१०,८०० × १५ = १,६२,०००] हैं उतने
 [१,६२,०००] प्राण हैं । १५ । (यावन्तः प्राणाः पञ्चदशकृत्वः तावन्तः अपानाः
 १६) जितने प्राण पन्द्रह बार [१,६२,००० = १५ = २४,३०,०००] हैं उतने
 [२४,३०,०००] अपान हैं । १६ । यावन्तः अपानाः पञ्चदशकृत्वः तावन्तः व्यानाः
 १७) जितने अपान पन्द्रह बार [२४,३०,००० × १५ = ३,६४,५०,०००] हैं उतने
 [३,६४,५०,०००] व्यान हैं । १७ । (यावन्तः व्यानाः पञ्चदशकृत्वः तावन्तः
 समानाः १८) जितने व्यान पन्द्रह बार [३,६४,५०,००० × १५ = ५४,६७,५०,०००]
 हैं, उतने [५४,६७,५०,०००] उतने समान हैं । १८ । (यावन्तः समानाः पञ्च-
 दशकृत्वः तावन्तः उदानाः १९) जितने समान पन्द्रह बार [५४,६७,५०,००० ×
 १५ = ८,२०,१२,५०,०००] हैं, उतने [८,२०,१२,५०,०००] उदान हैं । १९ ।
 (यावन्तः उदानाः पञ्चदशकृत्वः तावन्ति एतादीनि २०) जितने उदान पन्द्रह
 बार [८,२०,१२,५०,००० × १५ = १, २३,०१, ८७,५०,०००] हैं, उतने [१,२३,
 ०१, ८७,५०,०००] एतादि हैं २० । (यावन्ति एतादीनि तावन्ति एतर्हीणि २१)
 जितने एतादि हैं उतने [१,२३,०१, ८७,५०,०००] एतर्ही हैं । २१ । (यावन्ति
 एतर्हीणि तावन्ति स्वेदायनानि २२) जितने एतर्ही हैं उतने [१,२३,०१, ८७,५०,
 ०००] स्वेदायन [पसीने के मार्ग] हैं । २२ । (यावन्ति स्वेदायनानि तावन्ति
 क्षिप्रायणानि २३) जितने स्वेदायन हैं उतने [१,२३,०१, ८७,५०,०००] क्षिप्रायण
 [शीघ्र मार्ग] हैं । २३ । (यावन्ति क्षिप्रायणानि तावन्तः रोमकूपाः २४) जितने
 क्षिप्रायण हैं उतने (१,२३,०१, ८७,५०,०००) रोमकूप हैं । २४ । (यावन्तः रोम-
 कूपाः पञ्चदशकृत्वः तावत्यः वर्षतः धाराः) जितने रोमकूप पन्द्रह बार [१,२३,

आदीयते गृह्यते आ + दा—क्रि । एतानां गतीनाम् आदीनि ग्रहणशीलानि
 अङ्गानि नाडीविशेषाः (एतर्हीणि) इण् गतो-तन् । सर्वधातुभ्यः इन् । उ० ।
 ४ । ११८ । एत + अर्ह पूजायां योग्यत्वे च—इन्, पृषोदरादि रूपम् । गतियोग्यानि
 अङ्गानि । नाडीविशेषाः (स्वेदायनानि) स्वेदस्य गात्रस्यवस्य अयनानि मार्गाः
 (क्षिप्रायणानि) क्षिप्राणि शीघ्राणि अयनानि मार्गाः येषां तानि (वर्षतः) वर्ष-
 माने पृषद् बृहन्महज्जगच्छृत्वच्च । उ० २ । ८४ । वृषु सेचने प्रजनैश्वयोश्च—अति ।

०१,८७,५०,००० × १५ = १८,४५,२८,१२,५०,०००] हैं उतनी वर्षत् की धारायें [सेचनशील नाड़ियों के प्रवाह] हैं । (तत् एतत् क्रोशशतिकं परिमाणम् २५) सो यह सं क्रोश वाला परिमाण [गणना] है । २५ ।

(तत् सर्प एतत् ऋचा उक्तम्) सो यह भी इस ऋचा करके कहा गया है—(पुरुषः भ्रमात् अन्यत्र परिवर्तमानः आसीनः यदि वा स्वपन् अपि चरतु अहोरात्राभ्यां क्षणेन कतिकृत्वः प्राणति च अपानति च) मनुष्य श्रम से दूसरे स्थान में लगा हुआ चबहे बैठा हुआ, चाहे सोता हुआ वर्तमान हो, वह दिन और रात्रि के साथ क्षण [की समता] से कितनी बार प्राण लेता है और अपान लेता है । १ । (परिवत्सराणां शतं शतानि अशौ च शतानि यान् मुहूर्तान् षड्भित्ति, पुरुषः अहोरात्राभ्यां समेन कतिकृत्वः प्राणति च अपानति च—इति ब्राह्मणम्) पुरुष परिवत्सरो के सां सैकड़े और आठ सैकड़े जिन मुहूर्तों को पारत हैं, पुरुष दोनों दिन और रात्रि के साथ समानता से कितने बार प्राण लेता है और अपान लेता है । २ ।—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ५ ॥ [यह दावा २६००० ब्राह्मण वचन हैं, वेदों में नहीं हैं, इन का भावार्थ विचारणीय है ।]

भावार्थ—मनुष्य शरीर में स्थूल रूप से प्राण हृदय में १, अपान मलाशय में २, व्यान समस्त शरीर में ३, समान नाभि में ४, और उदान कण्ठ में ५, रहता है ऐसा मानते हैं । फिर जैसे जैसे नाड़ियां एक से एक सूक्ष्म होकर गणना में बढ़ती जाती हैं, वैसेही वायु की गति भी सूक्ष्म और अधिक होकर बढ़ती जाती है । स्थान वा नाड़ियों में गति के भेद से एक ही वायु के अलग अलग नाम और काम हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर के वायु मार्ग नाड़ियां अति सूक्ष्म और अगणित हैं, वैसेही काल की गति अति सूक्ष्म और बिना परिमाण है ॥ ५ ॥

कण्डिका ६ ॥

संघत्सरस्य समता वेदितव्येति ह स्मा ह वा स्युरेकमेव पुरस्ताद् विषु-
वतोऽनिरात्रनुपयन्त्येकमुपरिष्ठात् १, त्रिपञ्चाशतमेव पुरस्ताद्विषुवतोऽग्निष्टो-

सेचनशीलनाडीसमूहस्य (धाराः) प्रवाहाः (क्रोशशतिकम्) क्रुश रोदने
शाह्वाने च—घञ् । क्रोशः महासंख्याविशेषः । तदस्य परिमाणम् । पा० ५ । १ ।
५७ । क्रोशशत—ठन् । क्रोशशतयुक्तम् (परिवर्तमानः) परिवृतः (परिवत्सरा-
णाम्) वत्सरविशेषाणाम् (समेन) समत्वेन ॥

मानुषयन्ति त्रिपञ्चाशत्परिष्ठाद् २, विंशतिशतमेव पुरस्ताद्विषुवत उक्थ्यान्-
पयन्ति विंशतिशतमुपरिष्ठात् ३, षड्वेव पुरस्ताद्विषुवतः षोडशिन उपयन्ति षडु-
परिष्ठात् ४, त्रिंशदेव पुरस्ताद्विषुवतः षडहानुपयन्ति त्रिंशदुपरिष्ठात् ५, एषा
संवत्सरस्य समता स य एवमेतां संवत्सरस्य समतां वेद संवत्सरेण स आत्मा
सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ संवत्सर यज्ञ में विषुवान् के दोनों ओर यज्ञ की समता ॥

(संवत्सरस्य समता वेदितव्या इति) संवत्सर यज्ञ की समानता
[याजकों को] जाननी चाहिये, यह वर्णन है । (ह स्मा ह वा स्युः) और वह
अवश्य ही होनी चाहिये । (विषुवतः पुरस्तात् एकम् एव अतिरात्रम् उपयन्ति,
एकम् उपरिष्ठात् १) विषुवान् [तुल्य दिन रात्रि के काल वाले] यज्ञ से पहिले
एक ही अतिरात्र यज्ञ को स्वीकार करते हैं और एक को पीछे । १ । (विषुवतः
पुरस्तात् त्रिपञ्चाशत् एव अग्निष्टोमान् उपयन्ति त्रिपञ्चाशत् २)
विषुवान् से पहिले त्रेपन ही अग्निष्टोमों को स्वीकार करते हैं और त्रेपन को
पीछे । २ । (विषुवतः पुरस्तात् विंशतिशतम् एव उक्थ्यान् उपयन्ति त्रिंशत्-
शतम् उपरिष्ठात् ३) विषुवान् से पहिले एक सौ बीस ही उक्थ्य यज्ञों को
स्वीकार करते हैं और एक सौ बीस को पीछे । ३ । (विषुवतः पुरस्तात् षड्
एव षोडशिनः उपयन्ति षट् उपरिष्ठात् ४) विषुवान् से पहिले छह ही षोडशी
यज्ञों को स्वीकार करते हैं और छह को पीछे । ४ । (विषुवतः पुरस्तात् त्रिंशत्
एव षडहान् उपयन्ति त्रिंशत् उपरिष्ठात् ५) विषुवान् से पहिले तीस ही षडह
[छह दिन वाले यज्ञों] को स्वीकार करते हैं और तीस को पीछे । ५ । (सा
एषा संवत्सरस्य समता) सो यही संवत्सर की समता है । (यः एवं संवत्स-
रस्य एतां समतां वेद सः संवत्सरेण स—आत्मा सलोकः भूत्वा देवान् अप्येति

६—(ह स्मा ह) इति निपातत्रयसमूहः, अवधारणे । अवश्यम् एव
(वा) चार्थे (स्युः) स्यात् । सा समता च अवश्यम् एव स्यात्, इत्यर्थः
(उपयन्ति) स्वीकुर्वन्ति (विंशतिशतम्) सख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः
संख्येये । पा० २ । २ । २५ । विंशत्या अधिकम् शतम् । विंशत्युत्तरशतम् (स-
आत्मा) समानात्मा (सलोकः) समाननिवासः (देवान्) दिव्यगुणान् (अप्येति)
प्राप्नोति ॥

इति ब्राह्मणम्) जो इस प्रकार संवत्सर की इस समता को जानता है, वह संवत्सर के साथ एक आत्मा वाला और एक निवास वाला होकर दिव्य गुणों को पाता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य लक्ष्य का आगा पीछा ठीक ठीक सेच कर उचित समय पर कार्य करे, जैसे विपुवान् के आगे पीछे विचार कर यज्ञ होते हैं ॥ ६ ॥

कण्डिका ७ ॥

अथातो यज्ञक्रमाः । अग्न्याधेयमग्न्याधेयात् पूर्णाहुतिः, पूर्णाहुतेरग्निहोत्र-
मग्निहोत्राद्दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासाभ्यामाग्रयणं, आग्रयणाच्चातुर्मास्यानि, चातु-
र्मास्येभ्यः पशुबन्धः पशुबन्धादग्निष्टोमाद्राजसूयो राजसूयाद्वाजपेयः, वाजपेया-
दश्वमेधः, अश्वमेधात्पुरुषमेधः, पुरुषमेधात् सर्वमेधः, सर्वमेधादक्षिणावन्तो
दक्षिणवन्त्रयो दक्षिणा अदक्षिणाः सहस्रदक्षिणे प्रत्यतिष्ठं स्ते वा एते यज्ञक्रमाः ।
स य एवमेतान् यज्ञक्रमान्वेद यज्ञेन स आत्मा स लोको भूत्वा देवानप्येतीति
ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ पन्द्रह प्रकार के यज्ञों का क्रम, जिनमें राजसूय,

वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि सम्मिलित हैं ॥

(अथ अतः यज्ञक्रमाः) अब यहां यज्ञक्रम [कहे जाते हैं] । (अग्न्या-
धेयम्) अग्न्याधान । १ । (अग्न्याधेयात् पूर्णाहुतिः) अग्न्याधान से [पीछे]
पूर्णाहुति । २ । (पूर्णाहुतेः अग्निहोत्रम्) पूर्णाहुति से पीछे अग्निहोत्र [साकल्य
की आहुति] । ३ । (अग्निहोत्रात् दर्शपूर्णमासौ) अग्निहोत्र से पीछे दर्शपूर्णमास
[अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ] । ४ । (दर्शपूर्णमासाभ्याम् आग्रयणम्)
दोनों दर्शपूर्णमासों से पीछे आग्रयण [नये अन्न का यज्ञ] । ५ । (आग्रयणात्
चातुर्मास्यानि) आग्रयण से पीछे चातुर्मास्य [चार महीनों में पूरे होने वाले
यज्ञ] । ६ । (चातुर्मास्येभ्यः पशुबन्धः) चातुर्मास्यों से पीछे पशुबन्ध [पशुओं
के प्रबन्ध का यज्ञ] । ७ । (पशुबन्धात् अग्निष्टोमः) पशुबन्ध से पीछे अग्नि-

७—(अग्न्याधेयम्) अग्निस्थापनम् । अग्न्याधानम् (आग्रयणम्) अग्र—
अयन, पृष्टोद्गरादित्वात् ह्रस्वदीर्घा । अग्रे अयनं भोजनं शस्यादर्येन कर्मणा तत् ।
नवशस्येष्टिः (चातुर्मास्यानि) चतुर्मास-य । चतुर्माससाध्यः यज्ञभेदा व्रतभेदाश्च
(पशुबन्धः) पशुप्रबन्धयज्ञः (राजसूयः) राजसूयसूर्य० । पा० ३ । १ । ११४ ।
राजन् + षुञ् अभिषवे—क्यप् । दार्घो निपातितः । राजाभिषेकयज्ञः (वाजपेयः)

ष्टोम । ८ । (अग्निष्टोमात् राजसूयः) अग्निष्टोम से पीछे राजसूय [राजा के अभिषेक के यज्ञ] । ९ । (राजसूयात् वाजपेयः) राजसूय से पीछे वाजपेय [बल की रक्षा का यज्ञ] । १० । (वाजपेयात् अश्वमेधः) वाजपेय से पीछे अश्वमेध [घोड़ों के गुणों की विद्या का यज्ञ] । ११ । (अश्वमेधात् पुरुषमेधः) अश्वमेध से पीछे पुरुषमेध [पुरुषों के मेलवाला यज्ञ] । १२ । (पुरुषमेधात् सर्वमेधः) पुरुषमेध से पीछे सर्वमेध [सब में धारणावती बुद्धिवाला यज्ञ] । १३ । (सर्वमेधात् दक्षिणावन्तः) सर्वमेध से पीछे दक्षिणा वाले यज्ञ । १४ । (दक्षिणावद्भ्यः दक्षिणाः अदक्षिणाः सहस्रदक्षिणे प्रत्यतिष्ठन्) दक्षिणावाले यज्ञ से पीछे बहुत दक्षिणा वाले और बड़ी से बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ सहस्रदक्षिणा [सहस्रां गौवों वा मुद्राओं के दान वाले यज्ञ] में ठहरते हैं । १५ । (ते वै एते यज्ञक्रमाः) सो यही यज्ञक्रम हैं । (यः एवम् एतान् यज्ञ-क्रमान् वेद सः यज्ञेन स-आत्मा सलोकः भूत्वा देवान् अप्यैति इति ब्राह्मणम्) जो इस प्रकार इन यज्ञों के क्रमों को जानता है वह यज्ञ के साथ एक आत्मा वाला और एक निवास वाला होकर दिव्य गुणों को पाता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य क्रम से एक के पीछे दूसरा काम विचार कर करते हैं, वे कृतार्थ होते हैं ॥ ७ ॥

कण्डिका ८ ॥

प्रजापतिरकामयतानन्त्यमश्नूयेति सोऽग्नीनाधाय पूर्णाहुत्या यजेत सोऽन्त-मेवापश्यत् १, सोऽग्निहोत्रेणेष्व्वाऽन्तमेवापश्यत् २, स दर्शपूर्णमासाभ्यामि-

अचा यत् । पा० ३ । १ । ६७ । वाज + पा पाने पा रक्षणे वा—यत् । वाजः, अन्ननाम—निघ० २ । ७ । बलनाम—निघ० २ । ६ । बलं रक्षणीयं यस्मिन् स यज्ञः । यद् वा अन्नं रक्षणीयं भोजनीयं यत्र सः (अश्वमेधः) अश्व + मेधु मेधाहिंसनसंगमेषु—अङ्, टाप् । अश्वगुणेषु मेधा धारणावती बुद्धियस्मिन् स यज्ञः (पुरुषमेधः) पुरुषाणां मेधः संगमो यत्र स यज्ञः (सर्वमेधः) सर्वेषु मेधा यस्मिन् सः (दक्षिणाः) दक्षिणा—आर्शआद्यच् । बहुदक्षिणावन्तः (अदक्षिणाः) नास्ति अधिका दक्षिणा यस्याः दक्षिणायाः येषु ते । सर्वथा सर्वदक्षिणायुक्ता यज्ञाः (सहस्रदक्षिणे) सहस्राणां गवादीनां मुद्राणां वा दानं यस्मिन् तस्मिन् यज्ञे (प्रत्यतिष्ठन्) प्रतितिष्ठन्ति ॥

ष्ट्वाऽन्तमेवापश्यत् ३, स आग्रयणेनेष्ट्वाऽन्तमेवापश्यत् ४, स चातुर्मास्यैरि-
ष्ट्वाऽन्तमेवापश्यत् ५, स पशुबन्धेनेष्ट्वाऽन्तमेवापश्यत् ६, सोऽग्निष्टोमेने-
ष्ट्वाऽन्तमेवापश्यत् ७, स राजसूयेनेष्ट्वा राजेति नामाधत्त सोऽन्तमेवापश्यत्
८, स वाजपेयेनेष्ट्या सम्राडिति नामाधत्त सोऽन्तमेवापश्यत् ९, सोऽश्वमेधे-
नेष्ट्वा स्वराडिति नामाधत्त सोऽन्तमेवापश्यत् १०, स पुरुषमेधेनेष्ट्वा विरा-
डिति नामाधत्त सोऽन्तमेवापश्यत् ११, स सर्वमेधेनेष्ट्वा सर्वराडिति नामाधत्त
सोऽन्तमेवापश्यत् १२, सोऽहीनैर्दक्षिणावद्भिरिष्ट्वाऽन्तमेवापश्यत् १३, सोऽही-
नैरदक्षिणावद्भिरिष्ट्वाऽन्तमेवापश्यत् १४, स सत्रेणाभयतोऽतिरात्रेणान्ततो
यजेत १५, वाचं ह वै होत्रे प्रायच्छत् प्राणमध्वर्यवे चक्षुरुद्गात्रे मनो ब्रह्मणे-
ऽङ्गानि होत्रकेभ्य आत्मानं सदस्येभ्यः १६, एवमानन्त्यमात्मानं दत्वानन्त्यमश्नु-
येति १७, तद्या दक्षिणा अनयत्ताभिरात्मानं निष्क्रीणीय १८, तस्मादेतेन उयोति-
ष्टोमेनाग्निष्टोमेनात्मनिष्कयणेन सहस्रदक्षिणेन पृष्ठशमनीयेन त्वरेत १९, यो ह्यनि-
ष्ट्वा पृष्ठशमनीयेन प्रैत्यात्मानं सो निष्क्रीणीय प्रैतीति ब्राह्मणम् २० ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ ॥ प्रजापति की कथा जिसने बहुत यज्ञों को

करके आत्मिक यज्ञ से अत्यन्त सुख पाया ॥

(प्रजापतिः अकामयत् आनन्त्यम् अश्नूय इति) प्रजापति [प्रजाप लक
यजमान] ने चाहा—मैं अनन्त सुख प्राप्त करूँ । (सः अग्निं आधाय पूर्णा-
हुत्या यजेत सः अन्तम् एव अपश्यत् १) उस ने अग्नियों की स्थापना करके
पूर्णाहुति के साथ यज्ञ किया, उस ने अन्त वाला ही सुख देखा । १ । (सः अग्नि-
होत्रेण इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् २) उस ने अग्निहोत्र से यज्ञ करके अन्त वाला
ही सुख देखा । २ । (सः दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् ३)
उस ने दोनों अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञों से यज्ञ करके अन्तवाला ही
सुख देखा । ३ । (सः आग्रयणेन इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् ४) उस ने
आग्रयण [नये अन्न के यज्ञ] से यज्ञ करके अन्त वाला ही सुख देखा । ४ ।

८—(प्रजापतिः) प्रजापालको यजमानः (आनन्त्यम्) अनन्त—ऽय भावे
स्वार्थे वा । अनन्तं सुखम् (अश्नूय) अहं प्राप्नुयाम् (यजेत) अयजत (अन्तम्)
शम गतौ—तन् । ससीमं सुखम् (अधत्त) धृतवान् (सम्राट्) सम् + राज् दीप्तौ
ऐश्वर्यं च—क्लिप् । सर्वभूमीश्वरः (स्वराट्) स्वेनैव राजते ईष्टे । स्वयम् एव
ऐश्वर्यवान् राजा (विराट्) विशेषेण राजते ईष्टे । विशेषैश्वर्यवान् क्षत्रियः

(सः चातुर्मास्यैः इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् ५) उस ने चातुर्मास्यौ [चार महीने में पूरे होने वाले यज्ञों] से यज्ञ करके अन्तवाला ही सुख देखा । ५ ।
 (सः पशुबन्धेन इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् ६) उस ने पशुबन्ध [पशुओं के प्रबन्ध वाले यज्ञ] से यज्ञ करके अन्त वाला ही सुख देखा । ६ । (सः अग्निष्टोमेन इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् ७) उस ने अग्निष्टोम यज्ञ से यज्ञ करके अन्त वाला ही सुख देखा । ७ । (सः राजसूयेन इष्ट्वा राजा इति नाम अधत्त सः अन्तम् एव अपश्यत् ८) उस ने राजसूय यज्ञ करके, राजा यह नाम रक्खा, उस ने अन्तवाला ही सुख देखा । ८ । (सः वाजपेयेन इष्ट्वा सम्राट् इति नाम अधत्त सः अन्तम् एव अपश्यत् ९) उस ने वाजपेय [बलरत्नक यज्ञ] से यज्ञ करके सम्राट् [राजराजेश्वर] यह नाम रक्खा, उस ने अन्तवाला ही सुख देखा । ९ । (सः अश्वमेधेन इष्ट्वा स्वराट् इति नाम अधत्त सः अन्तम् एव अपश्यत् १०) उस ने अश्वमेध [घोड़ों के गुणों की विद्या वाले] यज्ञ से यज्ञ करके, स्वराट् [स्वतन्त्र ऐश्वर्यवान् राजा], यह नाम रक्खा उस ने अन्तवाला ही सुख देखा । १० । (सः पुरुषमेधम् इष्ट्वा विराट् इति नाम अधत्त सः अन्तम् एव अपश्यत् ११) उस ने पुरुषमेध [पुरुषों पर निश्चल बुद्धि वाले] यज्ञ से यज्ञ करके विराट् [विविध ऐश्वर्यवान् राजा] यह नाम रक्खा, उस ने अन्त वाला ही सुख देखा । ११ । (सः सर्वमेधेन इष्ट्वा स्वराट् इति नाम अधत्त सः अन्तम् एव अपश्यत् १२) उस ने सर्वमेध [सब पर निश्चल बुद्धि वाले] यज्ञ से यज्ञ करके सर्वराट् [सब प्रकार ऐश्वर्यवान् राजा] यह नाम रक्खा, उस ने अन्त वाला ही सुख देखा । १२ । [सः अहीनैः दक्षिणावद्भिः इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् १३) उस ने अहीन [पूर्ण पूरी] दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ करके अन्त वाला ही सुख देखा । १३ । (सः अहीनैः अदक्षिणावद्भिः इष्ट्वा अन्तम् एव अपश्यत् १४) उस ने अहीन (पूर्ण पूरी) अदक्षिणा वाले [जिस दक्षिणा से कोई अधिक दक्षिणा न हो अर्थात् बड़ी से बड़ी दक्षिणा वाले] यज्ञों से यज्ञ करके अन्त वाला ही सुख देखा । १४ । (सः उभ-

(सर्वराट्) सर्वेषु राजते । सर्वैश्वर्यवान् राजा (अहीनैः) गो० उ० २ । ८ ।
 हीनतारहितैः । संपूर्णैः (सत्रेण) गुधृवीपचिवचियमिसदित्तदिभ्यस्त्रः । उ० ४ ।
 १६७ । षड्गुणो उपवेशने च—त्र । यद्वा सत् + त्रैः पालने—क । सीदन्ति उप-
 विशन्ति यत्र यद्वा सनः सत्पुरुषान् त्रायते तत् । सत्रनामकयज्ञेन (होत्रकेभ्यः)
 सहायकहोत्रेभ्यः (सदस्येभ्यः) न्यूनातिरिक्तताविपर्ययपरिहारार्थं विधान-

यतो अतिरात्रेण सत्रेण अन्ततः यजैत् १५) उस ने दोनों ओर अतिरात्र वाले सत्र [सत्पुरुषों के रक्षक] यज्ञ से अन्तमें यज्ञ किया—(वाचं ह वै होत्रे प्रायच्छत्, प्राणाम् अध्वर्यवे, चक्षुः उद्गात्रे, मनः ब्रह्मणे, अङ्गानि होत्रकेभ्यः, आत्मानं सहस्येभ्यः १६) उस ने [अपनी] वाणी को ही होता को दिया, प्राण अध्वर्यु को, नेत्र उद्गाता को, मन ब्रह्मा को, सब अङ्ग होत्रकों [सहायक ऋत्विजों] को, आत्मा सदस्यों [न्यून और अधिक कर्म रोकने पर दृष्टि वालों] को । [अर्थात् होता आदि के सब कर्म उस ने अपने आत्मा से किये] । (एवम् आनन्त्यम् आत्मानम् दत्वा आनन्त्यम् अश्नूय इति १७) इस प्रकार अन्तरहित आत्मबल का दान करके अनन्त सुख उस ने पाया । (तत् याः दक्षिणाः अनयत् ताभिः आत्मानं निष्क्रीणीय १८) सो जिन दक्षिणाओं को वह लाया [उस ने दिया], उन से उस ने आत्मा को मोल लिया । १८ । (तस्मात् ज्योतिष्टोमेन अग्निष्टोमेन आत्मनिष्कयणेन सहस्रदक्षिणेन एतेन पृष्ठशमनीयेन त्वरेत् १९) इस लिये वह ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, आत्मनिष्कयण [अपने को मोल लेने वाले] और सहस्र दक्षिणा वाले यज्ञ के साथ इस पृष्ठशमनीय [स्तुतियों से शान्ति योग्य] यज्ञ से शीघ्रता करे । १९ । (यः हि अनिष्ट्वा पृष्ठशमनीयेन प्रैति सः आत्मानं निष्क्रीणीय प्रैति इति ब्राह्मणम् २०) जो पुरुष ही [भौतिक यज्ञों से] यज्ञ न करके पृष्ठशमनीय [स्तुतियों से शान्ति योग्य] यज्ञ के द्वारा आगे बढ़ता है, वह आत्मा को मोल लेकर आगे बढ़ता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है । २० ॥ ८ ॥

भावार्थ—जब मनुष्य अनेक भौतिक यज्ञों को करके अथवा न करके निरभिमान होकर उपकार में आत्मसमर्पण करता है, तब वह अत्यन्त सुख पाता है ॥ ८ ॥

दर्शिभ्यः । सभासद्भ्यः (आनन्त्यम्) अन्तरहितम् (आत्मानम्) आत्मबलम् (दत्वा) समर्प्य (अश्नूय) आश्नुत । प्रातवान् (निष्क्रीणीय) निष्क्रीतवान् । तुल्यमूल्येन गृहीतवान् (आत्मनिष्कयणेन) आत्मदानेन ग्रहणेन (पृष्ठशमनीयेन) तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथाः । ७० २ । १२ । पृषु सेचने—थक् । पृष्ठैः स्तोत्रैः शमनीयेन शान्तियोग्येन यज्ञेन (त्वरेत्) जित्वरा संभ्रमे वेगे च । वेगं कुर्यान् (अनिष्ट्वा) अविहितं यज्ञम् अकृत्वा (प्रैति) प्रकर्षेण गच्छति (निष्क्रीणीय) निष्क्रीय । मूल्येन गृहीत्वा ॥

कण्डिका ६ ॥

यद्वै संवत्सराय संवत्सरसदो दीक्षन्ते कथमेषामग्निहोत्रमनन्तरितं भवति व्रतेनेति ब्रूयात् १, कथमेषां दर्शोऽनन्तरितो भवति दध्ना च पुरोडाशेन चेति ब्रूयात् २, कथमेषां पौर्णमासमनन्तरितं भवति आज्येन च पुरोडाशेन चेति ब्रूयात् ३, कथमेषामाग्रयणमनन्तरितं भवति सौम्येन चरुणेति ब्रूयात् ४, कथमेषां चातुर्मास्यान्यनन्तरितानि भवन्ति पयसेति ब्रूयात् ५, कथमेषां पशुबन्धोऽनन्तरितो भवति पशुना च पुरोडाशेन चेति ब्रूयात् ६, कथमेषां सौम्योऽध्वरोऽनन्तरितो भवति ग्रहैरिति ब्रूयात् ७, कथमेषां गृहमेधोऽनन्तरितो भवति धानाकरम्भैरिति ब्रूयात् ८, कथमेषां पितृयज्ञोऽनन्तरितो भवत्यौपासनैरिति ब्रूयात् ९, कथमेषां मिथुनमनन्तरितं भवति हिङ्कारेणेति ब्रूयात् १०, सैषा संवत्सरे यज्ञक्रतूनामुपैति ११, स य एवमेतां संवत्सरे यज्ञक्रतूनामुपैति वेद यज्ञेन स-आत्मा सलांको भूत्वा देवः अप्येतीति ब्राह्मणम् १२ ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ संवत्सर यज्ञ में आवश्यक कर्मों का विधान ॥

(यद् वै संवत्सरस्य संवत्सरसदः दीक्षन्ते कथम् एषाम् अग्निहोत्रम् अनन्तरितं भवति, व्रतेन इति ब्रूयात् १) जब संवत्सर यज्ञ के लिये संवत्सर में बैठने वाले लोग दीक्षा लेते हैं, कैसे इनका अग्निहोत्र निरन्तर [लगातार] होता है—व्रत से, यह कथना चाहिये । १ । (कथम् एषां दर्शः अनन्तरितः भवति, दध्ना च पुरोडाशेन च इति ब्रूयात् २) कैसे इन का अमावस्या का यज्ञ निरन्तर होता है—दही से और पुरोडाश से, यह कहना चाहिये । २ । (कथम् एषां पौर्णमासम् अनन्तरितं भवति, आज्येन च पुरोडाशेन च इति ब्रूयात् ३) कैसे इनका पूर्णमासी का यज्ञ निरन्तर होता है—घी से और पुरोडाश से, ऐसा कहना चाहिये । ३ । (कथम् एषाम् आग्रयणम् अनन्तरितं भवति, सौम्येन चरुणा इति ब्रूयात् ४) कैसे इनका आग्रयण [नये अन्न का यज्ञ] निरन्तर होता है—सौम्य [सामलता वा ओपधियौ वाले] चरु [हव्य अन्न] से,

६—(अनन्तरितम्) अव्यवहितम् । निरन्तरम् (सौम्येन) सामलतायुक्तेन अमृतमयेन (चरुणा) हव्यान्नेन (पयसा) दुग्धेन (अध्वरः) हिंसारहितो यज्ञः (गृहमेधः) गृहे मेधा धारणवती बुद्धिर्यस्य सः । गृहाश्रमः (धानाकरम्भैः) धापृवस्यज्यतिभ्यो नः । उ० ३ । ६ । दधातेः—न । टाप् । धानाः भृष्टयवाः । करम्भः । केन जलेन रभ्यते मिथीक्रियते । अकर्तरि च कारके संज्ञा-

यह कहना चाहिये । ४ । (कथम् एषां चतुर्मास्यानि अनन्तरितानि भवन्ति, पयसा इति ब्रूयात् ५) कैसे इनके चातुर्मास्य [चार महीने में पूरे होने वाले यज्ञ] निरन्तर होते हैं—दूध से, यह कहना चाहिये । ५ । (कथम् एषां पशु-बन्धः अनन्तरितः भवति, पशुना च पुरोडाशेन च इति ब्रूयात् ६) कैसे इनका पशुबन्ध [पशुओं के प्रबन्ध वाला] यज्ञ निरन्तर होता है—पशु से और पुरो-डाश से, यह कहना चाहिये । ६ । (कथम् एषां सौम्यः अध्वरः अनन्तरितः भवति, अहैः इति ब्रूयात् ७) कैसे इनका सौम्य [सोमलता वा श्रोषधियों वाला] अध्वर [हिंसा रहित यज्ञ] निरन्तर होता है—ग्रहों [ग्रहण साधनों] से, यह कहना चाहिये । ७ । (कथम् एषां गृहमेधः अनन्तरितः भवति, धाना-करम्भैः इति ब्रूयात् ८) कैसे इनका गृहमेध [गृहाश्रम यज्ञ] निरन्तर होता है—धाना और करम्भों [भुने जवों और दही में सने सक्तुओं] से, यह कहना चाहिये । ८ । (कथम् एषां पितृयज्ञः अनन्तरितः भवति, औपासनैः इति ब्रूयात् ९) कैसे इनका पितृ यज्ञ [पितरों का सहसंग आदि] निरन्तर होता है—उपासना कर्मों से, यह कहना चाहिये । ९ । (कथम् एषां मिथुनम् अनन्तरितं भवति, हिङ्गारेण इति ब्रूयात् १०) कैसे इनका मिथुन [स्त्री पुरुषों का कर्तव्य कर्म] निरन्तर होता है—हिङ्गार [वैदिक व्यवहार] से, यह कहना चाहिये । १० । (सा एषा संवत्सरे यज्ञक्रतूनाम् उपैति ११) यही पुरुष संवत्सर में यज्ञ कर्मों को स्वीकार करता है । (यः एवं संवत्सरे एतान् यज्ञक्रतूनाम् उपैति स वेद यज्ञेन स—आत्मा सलोकः भूत्वा देवान् अप्येति इति ब्राह्मणम् १२) जो इस प्रकार संवत्सर में इन यज्ञ कर्मों को स्वीकार करता है, वह जानता है और यज्ञ के साथ एक आत्मा वाला और एक निवास वाला होकर दिव्य गुणों को पाता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ६ ॥

भावार्थ—विधिपूर्वक कर्म करने से मनुष्य कृतकार्य होता है ॥ ६ ॥

याम् । पा० ३ । ३ । १६ । क+रभ आरम्भे—घञ् । रभेशब्लिटो । पा० ७ । १ । ६३ । इति जुम् । दधिमिश्रितशक्नवः । भृष्टयवदधिमिश्रितशक्तुभिः (औपासनैः) उपासना—अण् । भक्तिकर्मभिः (मिथुनम्) स्त्रीपुरुषाभ्यां कर्तव्य-कर्म (सा एषा) सः एषः (यज्ञक्रतूनाम्) क्रतुः कर्मनाम—निघ० २ । १ । यज्ञ-कर्माणि (उपैति) स्वीकरोति ॥

कारिडका १० ॥

देवा इह वै सहस्रसंवत्सराय दिदीक्षिरे, तेषां पञ्चशतानि संवत्सराणां पर्यु-
 पेतान्यासन्नथेदं सर्वं शुश्रुवुर्ये स्तोमा यानि पृष्ठानि यानि शस्त्राणि ते देवा इह
 सामिवासुरूपं तं यज्ञक्रतुं जानीमा यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा को हि तस्मै
 मनुष्यो यः सहस्रसंवत्सरेण यजेतेति तद्यातयाममध्ये यज्ञस्यापश्यंस्तेनायातया-
 म्यायापेदे व्युष्टिरासीत्तां पञ्चस्वपश्यद्वचि यजुषि साञ्चि शान्तेऽथ घोरे, ता वा
 एताः पञ्च व्याहृतयो भवन्ति आं श्रावयास्तु श्रांपद् यजयेयजामहे वापडिति । १ ।
 ते देवा इह सामिवासुरूपं तं यज्ञक्रतुं जानीमा यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा को
 हि तस्मै मनुष्यो यः सहस्रसंवत्सरेण यजेतेति तत एतन्तापश्चितं सहस्रसंवत्स-
 रस्याञ्जस्यमपश्यंस्ते ह्येव स्तोमा भवन्ति तानि पृष्ठानि तानि शस्त्राणि स खलु
 द्वादशमासां दीक्षाभिरेति द्वादशमासानुपसद्भिर्द्वादशमासां सुत्याभिरथ यद्
 द्वादशमासां दीक्षाभिरेति द्वादशमासानुपसद्भिस्तेनैतावग्न्यर्कावाप्नोति अथ यद्
 द्वादशमासां सुत्याभिस्तेनेदं महदुक्थ्यमवाप्नोति । २ । ते देवा इह सामिवासुरूपं
 तं यज्ञक्रतुं जानीमा यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा को हि तस्मै मनुष्यो यः सहस्र-
 संवत्सरेण यजेतेति तत एतं संवत्सरन्तापश्चित्तस्याञ्जस्यमपश्यंस्ते ह्येव स्तोमा
 भवन्ति तानि पृष्ठानि तानि शस्त्राणि । ३ । ते देवा इह सामिवासुरूपं तं यज्ञ-
 क्रतुं जानीमा यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा को हि तस्मै मनुष्यो यः सहस्रसंव-
 त्सरेण यजेतेति तत एतं द्वादशाहं संवत्सरस्याञ्जस्यमपश्यंस्ते ह्येव स्तोमा
 भवन्ति तानि पृष्ठानि तानि शस्त्राणि स खलु द्वादशाहं दीक्षाभिरेति द्वादशाह-
 मुपसद्भिर्द्वादशाहं सुत्याभिरथ यद् द्वादशाहं दीक्षाभिरेति द्वादशाहमुपसद्भिस्ते-
 नैतावग्न्यर्कावाप्नोत्यथ यद् द्वादशाहं सुत्याभिस्तेनेदं महदुक्थ्यमवाप्नोति । ४ ।
 ते देवा इह सामिवासुरूपं तं यज्ञक्रतुं जानीमा यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा को
 हि तस्मै मनुष्यो यः सहस्रसंवत्सरेण यजेतेति तत एतं पृष्ठ्यः षडहं द्वादशाह-
 स्याञ्जस्यमपश्यंस्ते ह्येव स्तोमा भवन्ति तानि पृष्ठानि तानि शस्त्राणि । ५ ।
 ते देवा इह सामिवासुरूपं तं यज्ञक्रतुं जानीमा यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा को
 हि तस्मै मनुष्यो यः सहस्रसंवत्सरेण यजेतेति तत एतं विश्वजितं पृष्ठ्यं षडह-
 स्याञ्जस्यमपश्यंस्ते ह्येव स्तोमा भवन्ति तानि पृष्ठानि तानि शस्त्राणि । ७ ।
 ते देवा इह सामिवासुरूपं तं यज्ञक्रतुं जानीमा यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा को
 हि तस्मै मनुष्यो यः सहस्रसंवत्सरेण यजेतेति स वा एष विश्वजिद् यः सहस्र-
 संवत्सरस्य प्रतिमैष ह प्रजानां प्रजापतिर्यद्विश्वजिदिति ब्राह्मणम् ॥ १० ॥

कण्डिका १० ॥ सहस्र संवत्सर यज्ञ और उस के स्थानापन्न विश्वजित् यज्ञ के विषय में कथा ॥

(देवाः ह वै सहस्रसंवत्सराय दिदीक्षिरे) देवताओं [विद्वानों] ने सहस्रसंवत्सर [सहस्र वर्ष के यज्ञ] के लिये दीक्षा ली । (तेषां संवत्सराणां पंचशतानि पर्युपेतानि आसन्) उन के पांच सौ वर्ष व्यतीत हो गये थे । (अथ इदं सर्वं शुश्रुवुः ये स्तोमाः यानि पृष्ठानि यानि शस्त्राणि] उन्होंने ने यह सब सुने जो स्तोम, जो पृष्ठ [वैदिक स्तोत्र] और जो शस्त्र [वैदिक स्तोत्र] हैं । (ते देवाः इह सामिवासुः, तं यज्ञक्रतुम् उपजानीमः । यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा कः हि तस्मै मनुष्यः यः सहस्रसंवत्सरेण यजेत इति) वे विद्वान् लोग इस पर व्याकुलता में रहने वाले [हुये]—उस यज्ञ कर्म को हम जान लेवें जो सहस्रसंवत्सर का प्रतिमा [स्थानापन्न] है, कौन सा वह मनुष्य है जो सहस्रसंवत्सर से यज्ञ करे । (तत् अयातयाममध्ये यज्ञस्य अपश्यन्) सो उन्होंने ने उचित समय के न खाने में यज्ञ को देखा । (तेन अयातयाम्याय आपेदे व्युष्टिः आसीत्, तां पंचसु अपश्यत् ऋचि यजुषि साम्नि शान्ते अथ घारे ताः वै एताः पंच व्याहृतयः भवन्ति ओं श्रावय, अस्तु श्रौषट्, यज, ये यजामहे, वौषट् इति १) उस से उचित समय के न खाने को उस [यजमान] ने पाया, प्रकाश हुआ, उस [प्रकाश] को पांच में देखा—ऋचा [स्तुति ये ग्य विद्या] में, यजु [संगतिकरण विद्या] में, साम [मोक्षविद्या] में, शान्त [शान्तिमय विद्या] में और घार [पाप नाश करने के लिये भयानक विद्या] में,—वे ही यह पांच व्याहृतियाँ हैं—ओं श्रावय [ओम्, तू सुना], अस्तु श्रौषट् [श्रवण होवे], यज [यज्ञ कर], ये यजामहे [जो हम लोग यज्ञ करते हैं], वौषट् [आहुति पहुंचे—देखो आगे कण्डिका २१] । १ । (ते देवाः इह सामिवासुः, तं यज्ञक्रतुम् उपजानीमः यः सहस्र संवत्सरस्य प्रतिमा, कः हि तस्मै मनुष्यः यः सहस्रसंवत्सरेण यजेत इति) वे विद्वान् लोग इस पर व्याकुलता में रहने वाले [हुये]—उस यज्ञ कर्म को हम जान लेवें जो सहस्र संवत्सर का स्थानापन्न है, कौन सा वह मनुष्य है,

१०—(देवाः) विद्वान्सः (दिदीक्षिरे) दीक्षां चक्रिरे । दीक्षां प्राप्तवन्तः (पर्युपेतानि) सर्वतो व्यतीतानि (इह) अस्मिन् विषये (सामिवासुः) वसिर्वापि रजराजि० । उ० ४ । १२५ । षम वैकल्पे श्रवैकल्पे च—इञ् । कृवापा० । उ० १ । १ । वस निवासे—उण्, बहुवचनस्यैकवचनम् । सामिवासवः ।

जो सहस्र संवत्सर से यज्ञ करे । (ततः सहस्रसंवत्सरस्य एतं तापश्चित्तम्
 आञ्जस्यम् अपश्यन् ते हि एव स्तोमाः भवन्ति तानि पृष्ठानि तानि शस्त्राणि)
 फिर उन्होंने ने सहस्र संवत्सर के इस तप से जाने गये गति व्यवहार को
 देखा, वे ही स्तोम, वे ही पृष्ठ, वे ही शस्त्र हैं । (सः खलु द्वादशमासान् दीक्षाभिः
 पति, द्वादशमासान् उपसद्भिः, द्वादशमासान् सुत्याभिः) वह [यजमान]
 निश्चय करके बारह महीनों को दीक्षाओं से पाता है, बारह महीनों को उपसदों
 [उपासना यज्ञों] से, और बारह महीनों को सुत्याओं [सोम निचोड़ने की
 क्रियाओं] से । (अथ यत् द्वादशमासान् दीक्षाभिः पति द्वादशमासान् उप-
 सद्भिः तेन एतौ अग्न्यकौ आप्रोति, अथ यत् द्वादशमासान् सुत्याभिः, तेन इदं
 महत् उक्थ्यम् अवाप्नोति २) फिर जब वह बारह महीनों को दीक्षाओं से
 पाता है और बारह महीनों को उपसदों से, उस से इन अग्नि और सूर्य [के
 बल] को पाता है, और जब बारह महीनों को सुत्याओं [सोम निचोड़ने की
 क्रियाओं] से [पाता है], उस से इस बड़े उक्थ्य [प्रशंसनीय व्यवहार]
 को पाता है । २ । (ते देवाः इह सामिवासुः तं यज्ञक्रतुम् उप जानीमः यः सह-
 स्रसंवत्सरस्य प्रतिमा, कः हि तस्मै मनुष्यः यः सहस्रसंवत्सरेण यजेत इति)
 वे विद्वान् लोग इस पर व्याकुलता में रहने वाले [हुये]—उस यज्ञ कर्म को
 हम जान लेवें जो सहस्रसंवत्सर का स्थानापन्न है, कौन सा वह मनुष्य है जो
 सहस्रसंवत्सर से यज्ञ करे । (ततः एतं संवत्सरं तापश्चित्तस्य आञ्जस्यम्
 अपश्यन् ते हि एव स्तोमाः भवन्ति तानि पृष्ठानि तानि शस्त्राणि ३) फिर
 उन्होंने ने इस संवत्सर के तप से जाने गये गति व्यवहार को देखा, वे ही
 स्तोम, वे ही पृष्ठ और वे ही शस्त्र हैं । ३ । (ते देवाः इह सामिवासुः तं यज्ञक्र-
 तुम् उप जानीमः यः सहस्रसंवत्सरस्य प्रतिमा, कः हि तस्मै मनुष्यः यः सहस्र-
 संवत्सरेण यजेत इति) वे विद्वान् लोग इस पर व्याकुलता में रहने वाले
 [हुये]—उस यज्ञकर्म को हम जान लेवें जो सहस्रसंवत्सर का स्थानापन्न है,
 कौन सा वह मनुष्य है जो सहस्रसंवत्सर से यज्ञ करे । (ततः एतं द्वादशाहं

वैकल्ये निवासिनः, बभूवुः इति शेषः (यज्ञक्रतुम्) यज्ञकर्म (प्रतिमा) स्थाना-
 पन्नः (तस्मै) चतुर्थी प्रथमायाः । सः (अयातयाममध्ये) अनष्टयोग्यसमय-
 मध्ये (यज्ञस्य) यज्ञम् (अयातयाम्याय) अयातयाम्यम् । उचितसमयनाशरा-
 हित्यम् (आपेदे) यजमानः प्राप्तवान् (व्युष्टिः) वि + वस निवासे यत्रा उष
 वधे दाहे च—किन् । दीप्तिः । प्रकाशः (ऋचि) स्तुत्यविद्यायाम् (यजुषि)

तृतीयसवने आगुः, यज्ञवास्तुनि एव यज्ञवास्तुं पर्यशिषः इति) वह [नारायण] भी बोला—तू यज्ञ कर तू यज्ञ कर, ऐसा ही तू कहता है, [सो] खवैये [स्वार्थी लोग] यज्ञ न करें, यह वसु [श्रेष्ठ पुरुष] प्रातःसवन में, रुद्र [पापियों को रुलाने वाले अथवा ज्ञान देने वाले लोग] माध्यन्दिन सवन में, और आदित्य [अखण्डव्रती ब्रह्मचारी लोग] तृतीय सवन में आवें । यज्ञभूमि में ही [इन के लिये] यज्ञगृह नियत कर । (एवम् आशिषः अहं वै एतत् वेद, यज्ञे वसवः प्रातःसवनेन, रुद्राः माध्यन्दिने सवने आदित्याः तृतीये सवने आगुः, यज्ञवास्तुनि एव यज्ञवास्तुं पर्यशिषः इति) [प्रजापति बोला] इस प्रकार से आशीर्वादों को मैं भी यहाँ जानता हूँ, यज्ञ में वसु लोग प्रातःसवन में, रुद्र लोग माध्यन्दिन सवन में, और आदित्य लोग तृतीय सवन में आवें, यज्ञभूमि में ही [इन के लिये] यज्ञगृह नियत कर [यह जो तू कहता है] । (एवम् आशिषः विद्वांसः नूनं त्वा याजयेयुः) इस प्रकार आशीर्वाद जानने वाले पुरुष निश्चय करके तुम्हें [नारायण] से यज्ञ करावें । (एते ह वै अविद्वांसः यत्र अनृग्वित् होता, अयजुर्वित् अध्वर्युः, असामवित् उद्गाता अभृग्वङ्गिरोवित् ब्रह्मा भवति) वे ही अज्ञानकार लोग होते हैं जहाँ ऋग्वेद [स्तुति विद्या] न जानने वाला होता, यजुर्वेद [संगतिकरण विद्या] न जानने वाला अध्वर्यु, सामवेद [मोक्षविद्या] न जानने वाला उद्गाता, और भृगु—अङ्गिराओं [प्रकाशमान ज्ञान वाले चारों वेदों] को न जानने वाला ब्रह्मा होता है । (यजस्व एव हन्त तु ते तत् वक्ष्यामि यथा सूत्रे मणिः इव, वा सूत्रम् इव मणौ, सूत्रम् एतानि उक्थाहानि भवन्ति, तस्मात् यः एव सर्ववित् स्यात् तं ब्रह्माणं कुर्वीत) तू यज्ञ ही कर, अरे भाई, तुम्हें से यह कहता हूँ, क्योंकि सूत में मणि के समान अथवा मणि में सूत के सामन [यह व्यवहार है], सूत यह सब उक्थाहानि

लकः । मनुष्यविशेषः (आत्थ) ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि—लट् । त्वं कथयसि (अत्रिः) अदेस्त्रिनिश्च । उ० । ४ । ६८ । अद् भक्षणे—त्रिप् । अत्रयः । भक्ष-णशीलाः (वसवः) श्रेष्ठा विद्वांसः (रुद्राः) रोदेर्णिलुक् च । उ० २ । २२ । रोदयतेः—रक्, णेर्लुक् । यद्वा रु गतौ वधे च—क्विप्, तुगागमः + रा दाने-क । पापिनां रोदयितारः । रुतः ज्ञानस्य दातारः (आदित्याः) अखण्डव्रति-ब्रह्मचारिणः (यज्ञवास्तुनि) वसेरगारे णिञ्च । उ० १ । ७० । वस निवासे—तुन् णित् । यज्ञभूमौ (पर्यशिषः) शिष्लु विशेषणे—लुङ् लोडर्थे । परितः सर्वतः विशिष्टं नियतं कुरु (यज्ञवास्तुम्) यज्ञगृहम् (आशिषः) आशीर्दान् ।

[प्रधान स्तोत्रों के दिन] हैं [और मणि के समान याजक लोग हैं], इस लिये जो ही सब जानने वाला होवे, उसको ब्रह्मा बनावे, (एषः ह वै विद्वान् सर्व-वित् ब्रह्मा यन् भृग्वङ्गिरोवित्) यही विद्वान् सब जानने वाला ब्रह्मा होवे जो भृगु अङ्गिराओं [प्रकाशमान ज्ञान वाले चारों वेदों] को जानने वाला है । (एते ह वै अस्य सर्वस्य शमयितारः पालयितारः) यह ही [वेदवेत्ता लोग] इस सब यज्ञ के शान्ति देने वाले और पालन करने वाले हैं । (तस्मात् ब्रह्मा स्तुते वहिःपवमाने वाचयति) इस लिये ब्रह्मा स्तुति किये हुये वहिःपवमान [इस नाम वाले स्तोत्र] में यह वाञ्छना है [जाने क० १२ देखो] ॥ ११ ॥

भावार्थ—हाला, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा के विषय में गो० पू० २ । १८ देखो ॥ ११ ॥

कण्डिका १२ ॥

श्येनोऽसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वारभे स्वस्ति सम्पारयेति । १ । स यदाह श्येनोऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वा अग्निर्भृत्वाऽस्मि लोके संशयाययति । तद्यत्संशयाययति तस्माच्छ्येनस्तच्छ्येनस्य श्येनत्वं । २ । स यदाह गायत्रच्छन्दा अनु त्वारभे इति गायत्रेण च्छन्दसा वसुभिर्देवैः प्रातःसवनेऽस्मिं लोकेऽग्निं सन्तमन्वारभते । ३ । स यदाह स्वस्ति मा सम्पारयेति गायत्रेणैव च्छन्दसा वसुभिर्देवैः प्रातःसवनेऽस्मिं लोकेऽग्निना देवेन स्वस्ति सम्पारयेति । ४ । गायत्रेणैव नन्तच्छन्दसा वसुभिर्देवैः प्रातःसवनेऽस्मिं लोकेऽग्निना देवेन स्वस्ति सम्पद्यते य एवं वेद । ५ ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ प्रतःसवन की स्तुति का मन्त्र सोम विषय में ॥

(गायत्रच्छन्दाः श्येनः असि, त्वा अनु आरभे, स्वस्ति मा सम्पारय इति १) [इस मन्त्र को ब्रह्मा पढ़ता है—क० ११] तू गाने योग्य आनन्द कर्मों वाला

कल्याणवचनानि (वेद) जानामि (आगुः) आ—अगुः । आ+इण् गतौ—लुङ् लिङ्र्थे । आगच्छेयुः (विद्वांसः) जानन्तः (याजयेयुः) यज्ञं कारयेयुः (अभृग्वङ्गिरोवित्) भृगून् प्रकाशमानान् अङ्गिरसो वेदान् न वेत्ति जानाति सः (उक्थाहानि) वच परिभाषणे—थक् । प्रधानस्तोत्रदिनानि (शमयितारः) शान्तिकर्तारः (वहिःपवमाने) वहिष्पवमाने । एतन्नामके स्तोत्रे ॥

१२—(श्येनः) श्यास्त्याह्वयविभ्य इनच् । उ० २ । ४६ । श्येङ् गतौ—इनच् । श्येनः शंसनीयं गच्छति—निरु० ४ । २४ । श्येन आदित्यो भवति श्यायते—

महाज्ञानी परमात्मा है, तुझ को निरन्तर मैं ग्रहण करता हूँ, कल्याण के साथ मुझ को तू यथावत् पार लगा । १ । (सः यत् आह श्येनः असि इति, सोमं वे एतत् आह) वह जो यह कहता है—तू श्येन [महाज्ञानी परमात्मा] है—इस से वह सोम [सर्वजनक अथवा सर्वेश्वर परमात्मा] को ही बताता है । (एषः ह वै अग्निः भूत्वा अस्मिन् लोके संश्याययति) यह ही [परमात्मा] अग्नि [तेजस्वी वा व्यापक] होकर इस लोक में चलता रहता है । (तत् यत् संश्याययति तस्मात् श्येनः, तत् श्येनस्य श्येनत्वम् २) सो जो वह चलता रहता है, इसी से वह श्येन [महाज्ञानी परमात्मा] है, यही महाज्ञानी का महाज्ञानी-पन है । २ । (सः यत् आह गायत्रच्छन्दाः अनु त्वा आरभे इति गायत्रेण छन्दसा वसुभिः देवैः प्रातःसवने अस्मिन् लोके अग्निं सन्तम् अनु आरभते ३) वह जो कहता है—तू गाने योग्य आनन्द कर्मों वाला है तुझ को निरन्तर मैं ग्रहण करता हूँ—इस गाने योग्य आनन्द कर्म से वसुदेवों [श्रेष्ठ विद्वानों] के साथ प्रातःसवन के समय इस लोक में [पृथिवी पर] अग्नि [तेजस्वी वा व्यापक परमात्मा] होते हुये को वह निरन्तर ग्रहण करता है । ३ । (सः यत् आह स्वस्ति मा सम्पारय इति, गायत्रेण एव छन्दसा वसुभिः देवैः प्रातःसवने अस्मिन् लोके अग्निना देवेन स्वस्ति संपारय इति ४) वह जो [ब्रह्मा] कहता है—कल्याण के साथ मुझ को तू यथावत् पार लगा—इस से वह गाने योग्य आनन्द कर्म से वसुदेवों [श्रेष्ठ विद्वानों] के साथ प्रातःसवन के समय इस लोक में अग्नि देव [तेजस्वी परमात्मा] के साथ वह कल्याण से पार लगता है । ४ । (तत् एनं गायत्रेण एव छन्दसा वसुभिः देवैः प्रातःसवने अस्मिन् लोके अग्निना देवेन स्वस्ति सम्पद्यते यः एवं वेद ५) सो उस पुरुष को गाने योग्य

र्गतिकर्मणः । श्येन आत्मा भवति श्यायतेर्ज्ञानिकर्मणः—निरु० १४ । १३ । महा-
ज्ञानी परमात्मा (गायत्रच्छन्दाः) अग्निद्वयजि० । उ० ३ । १०५ । गौ गाने
—अत्रन् णित् । आतो युक् चिण्कृतोः । पा० ७ । ३ । ३३ । इति युक् । गायत्रं
गायते स्तुतिकर्मणः—निरु० १ । ८ । चन्देरादेश्च छः । उ० ४ । २१६ । चदि
आदने—असुन्, चस्य छः । छन्दति अर्चतिकर्मा—निघ० ३ । १४ । गायत्राणि
गानयोग्यानि छन्दांसि आह्लादकर्माणि यस्य सः (अनु) निरन्तरम् (आरभे)
परिगृह्णामि । आश्रयामि (स्वस्ति) कल्याणेन (मा) माम् (सम्) सम्यक्
(पारय) पार कर्मसमाप्तौ—लोट् । परतीरे गमय (सोमम्) अर्तिस्तुसुहु० ।
उ० १ । १४० । पुञ् अभिषवे, पु प्रसवैश्वर्ययोः—मन् । सोमः सूर्यः प्रसवनात्,

ही आनन्द कर्म से वसुदेवों [श्रेष्ठ विद्वानों] के साथ प्रातःसवन के समय इस लोक में अग्निदेव [व्यापक परमात्मा] के साथ कल्याण समृद्ध करता है, जो ऐसा जानता है । ५ । ॥ १२ ॥

भावार्थ—परमेश्वर ज्ञान को मुख्य समझ कर मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिये ॥ १२ ॥

टिप्पणी—श्येनाऽसि... यह अथर्ववेद ६ । ४८ । १ । के तीन पाद हैं, [पारथ] पद के स्थान पर वेद में [वह] पद है ॥

कण्डिका १३ ॥

अथ माध्यन्दिने पवमाने वाचयति सम्राडसि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वारभे स्वस्ति मा सम्पारयेति । १ । स यदाह सम्राडसीति सोमं वा एतदाहैष ह वै वायुर्भूत्वाऽन्तरिक्षलोके सम्राजति, तद्यत् सम्राजति तस्मात्सम्राट् तत् सम्राजस्य सम्राट्त्वं । २ । स यदाह त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वारभ इति त्रैष्टुभेण छन्दसा रुद्रैर्देवैर्माध्यन्दिने सवनेऽन्तरिक्षे लोके वायुं सन्तमन्वारभते । ३ । स यदाह स्वस्ति मा सम्पारयेति त्रैष्टुभेणैव च्छन्दसा रुद्रैर्देवैर्माध्यन्दिने सवनेऽन्तरिक्षलोके वायुना देवेन स्वस्ति मा सम्पारयेति । ४ । त्रैष्टुभेणैवैनं तच्छन्दसा रुद्रैर्देवैर्माध्यन्दिने सवनेऽन्तरिक्षलोके वायुना देवेन स्वस्ति सम्पद्यते य एव वेद । ५ ॥ १३ ॥

कण्डिका १३ ॥ माध्यन्दिन सवन की स्तुति का मन्त्र

सोम विषय में ॥

(अथ माध्यन्दिने पवमाने वाचयति, त्रिष्टुप्छन्दाः सम्राट् असि त्वा अनु आरभे स्वस्ति मा सम्पारयेति १) फिर माध्यन्दिन पवमान में वह [ब्रह्मा] बांचता है—तू तीनों [आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक] ताप रोकने में समर्थ सम्राट् [राजराजेश्वर परमात्मा] है, तुझ को निरन्तर मैं ग्रहण करता हूँ, कल्याण के साथ तुझ को तू यथावत् पार लगा । १ । (सः यत् आह

सोम आत्माप्येतस्मादेव—निरु० १४ । १२ । सर्वजनकं सर्वेश्वरं परमात्मानम् (अग्निः) तेजस्वी । सर्वव्यापकः (संश्याययति) श्यैङ् गतौ—णिच् स्वार्थे । सम्यक् गच्छति, जानाति व्याप्नोति (श्येनत्सम्) गतिमत्त्वम् (गायत्रेण) गानयोग्येन (छन्दसा) आह्लादकर्मणा (आरभते) परिगृह्णाति (सम्पद्यते) समृद्धं करोति वर्धयति ॥

१३—(सम्राट्) राजराजेश्वरः (त्रिष्टुप्छन्दाः) षुभ स्तम्भने—क्लिप् ।

सम्राट् असि इति सोमं वै एतत् आह) वह जो यह कहता है—तू सम्राट् [राज-
राजेश्वर परमात्मा] है—इस से वह सोम [सर्वजनक अथवा सर्वेश्वर पर-
तात्मा] को ही बताता है । (एषः ह वै वायुः भूत्वा अन्तरिक्षलोके सम्राजति)
यह ही [परमात्मा] वायु [अन्तर्यामी वा महाबली] होकर अन्तरिक्ष लोक
[मध्य लोक] में यथावत् राज करता है । (तत् यत् सम्राजति तस्मात् सम्राट्
तत् सम्राजस्य सम्राट्त्वं २) सो जो वह यथावत् राज करता है, इस से वह
सम्राट् [राजराजेश्वर] है, यही उस सम्राट् का साम्राज्य है । २ । (सः यत्
आह त्रिष्टुप्छन्दाः त्वा अनु आरभे इति, त्रैष्टुभेण छन्दसा रुद्रैः देवैः माध्य-
दिने सवने अन्तरिक्षे लोके वायुं सन्तं अनु आरभते ३) वह जो कहता है—तू
तीनों ताप रोकने में समर्थ [परमात्मा] है, तुझ को निरन्तर ग्रहण करता
हूँ—तीनों ताप रोकने वाले सामर्थ्य से रुद्र देवों [पापियों को रलाने वाले वा
ज्ञान देने वाले विद्वानों] के साथ माध्यन्दिन सवन पर अन्तरिक्ष लोक में वायु
[अन्तर्यामी वा महाबली परमात्मा] होते हुये को निरन्तर ग्रहण करता है । ३ ।
(सः यत् आह स्वस्ति मा संपारय इति त्रैष्टुभेण एव छन्दसा रुद्रैः देवैः माध्य-
न्दिने सवने अन्तरिक्षलोके वायुना देवेन स्वस्ति मा संपारय इति ४) वह
जो कहता है—कल्याण के साथ मुझ को तू यथावत् पार लगा—तीनों ताप
रोकने वाले ही सामर्थ्य से रुद्र देवों [पापियों के रलाने वाले वा ज्ञान देने वाले
विद्वानों] के साथ माध्यन्दिन सवन पर अन्तरिक्ष लोक में वायु देव [अन्तर्यामी
वा महाबली परमात्मा] के साथ कल्याण से अपने को यथावत् पार करता
है । ४ । (तत् एनं त्रैष्टुभेण एव छन्दसा रुद्रैः देवैः माध्यन्दिने सवने अन्तरिक्ष-
लोके वायुना देवेन स्वस्ति संपद्यते यः एवं वेद ५) सो उस पुरुष को तीनों ताप
रोकने वाले ही सामर्थ्य से रुद्र देवों [पापियों के रलाने वाले वा ज्ञान देने वाले
विद्वानों] के साथ माध्यन्दिन सवन पर अन्तरिक्ष लोक में वायु देव [अन्तर्यामी
वा महाबली परमात्मा] के साथ कल्याण को वह प्राप्त करता है, जो ऐसा जानता
है । ५ ॥ १३ ॥

तापत्रयस्य आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकरूपस्य स्तोभने वर्जने छन्दः
स्वातन्त्र्यं यस्य सः (वायुः) गतिमान् । वलिष्ठः । वायुरिव अन्तर्यामी (सम्रा-
जस्य) सम्राजः । राजराजेश्वरस्य (सम्राट्त्वम्) साम्राज्यम् (त्रैष्टुभेण)
त्रिष्टुभ्—अण् । तापत्रयनिरोधसंबन्धिनः (छन्दसा) स्वातन्त्र्येण । सामर्थ्येन
(मा संपारय) आत्मानं संपारयति ॥

भावार्थ—कण्डिका १२ के समान है ॥

टिप्पणी—सम्राडसि....., यह अथर्ववेद ६ । ४८ । ३ । के तीन पाद कुछ भेद से हैं ॥

कण्डिका १४ ॥

अथाभवे पवमाने वाचयति स्वरोऽसि गयोऽसि जगच्छन्दा अनु त्वारभे स्वस्ति मा सम्पारयेति । १ । स यदाह स्वरोऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वै सूर्यो भूत्वाऽमुष्मिं लोके स्वरति तद्यत् स्वरति तस्मात् स्वरस्तत् स्वरस्य स्वरत्वम् । २ । स यदाह गयोऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वै चन्द्रमा भूत्वा सर्वा लोकान् गच्छति तद् यद् गच्छति तस्माद् गयस्तद् गयस्य गयत्वं । ३ । स यदाह जगच्छन्दा अनु त्वारभ इति जागतेन छन्दसाऽऽदित्यैदेवैस्तृतीयसवनेऽमुष्मिन् लोके सूर्यं सन्तमन्वारभते । ४ । स यदाह स्वस्ति मा सम्पारयेति जागतेनैव छन्दसाऽऽदित्यैदेवैस्तृतीयसवनेऽमुष्मिं लोके सूर्येण देवेन स्वस्ति सम्पारयेति । ५ । जागतेनैवैतन्तच्छन्दसाऽऽदित्यैदेवैस्तृतीयसवनेऽमुष्मिं लोके सूर्येण देवेन स्वस्ति सम्पद्यते य एवं वेद ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ तृतीय सवन की स्तुति का मन्त्र सोमविषय में ॥

(अथ आभवे पवमाने वाचयति, जगच्छन्दाः स्वरः असि गयः असि त्वा अनु आरभे स्वस्ति मा सपारय इति १) फिर ऋभुओं [मेधावियों] के पवमान यज्ञ में वह [ब्रह्मा] वांचता है—तू जगत में पूज्य परमात्मा है, सर्वगति है, तुझ को निरन्तर मैं ग्रहण करता हूँ, कल्याण के साथ मुझ को तू यथावत् पार लगा । १ । (सः यत् आह स्वरः असि इति सोमं वै एतत् आह) वह जो कहता है—तू पूजनीय है—इस से वह सोम [सर्वजनक अथवा सर्वेश्वर परमात्मा] को ही बताता है । (एषः हू वै सूर्यः भूत्वा अमुष्मिन् लोके स्वरति) यह ही [परमात्मा सूर्य [सर्वप्रेरक वा सूर्य समान] होकर उस लोक में पूजा जाता है । (तत् यत् स्वरति तस्मात् स्वरः, तत् स्वरस्य स्वरत्वम् २) सो जो वह पूजा जाता है, इस से पूजनीय है, वह उस पूजनीय का पूज्यपन है । २ । (सः यत् आह, गयः असि इति सोमं वै एतत् आह) वह जो कहता है—तू

१४—(आभवे) ऋभु—अण् । ऋभुः=मेधावी—निघ० ३ । १५ । मेधाविनां सम्बन्धिनि (स्वरः) पुंसि संज्ञायां घः । पा० ३ । ३ । ११८ । स्वृ शब्दोपतापयोः—घ । स्वरति अर्चतिकर्मा—निघ० ३ । १४ । पूज्यः । स्तुत्यः (गयः)

सर्वव्यापक परमात्मा है—इस से वह सोम [सर्वजनक अथवा सर्वेश्वर परमात्मा] को ही बताता है । (एपः ह वै चन्द्रमाः भूत्वा सर्वान् लोकान् गच्छति) यह ही [परमात्मा] चन्द्रमा [आनन्द देने वाला परमात्मा वा चन्द्र समान] होकर सब लोकों में व्यापता है । (तत् यत् गच्छति तस्मात् गयः, तद् गयस्य गयत्वम् ३) सो जो वह व्यापता है इस से वह व्यापक है, यही उस व्यापक की व्याकपता है । ३ । (सः यत् आह जगत्छन्दाः त्वा अनु आरभे इति जागतेन छन्दसा आदित्यैः देवैः तृतीयसवने अमुष्मिन् लोके सूर्य सन्तं अनु आरभते ४) वह जो कहता है—तू जगत् में स्वतन्त्रता वाला [परमात्मा] है, तुझ को निरन्तर में ग्रहण करता हूँ—इस जगत् प्रकाशक स्वतन्त्रता से आदित्य देवों [अखण्डव्रती ब्रह्मचारियों] के साथ तृतीयसवन पर उस लोक में सूर्य [सर्वप्रेरक परमात्मा] होते हुये को वह निरन्तर ग्रहण करता है । ४ । (सः यत् आह, स्वस्ति मा संपारय इति—जागतेन एव छन्दा आदित्यैः देवैः तृतीयसवने अमुष्मिन् लोके सूर्येण देवेन स्वस्ति संपारय इति ५) वह जो कहता है—कल्याण के साथ तुझ को तू यथान्त पार लगा—इस जगत् प्रकाशक स्वतन्त्रता से आदित्य देवों [अखण्डव्रती ब्रह्मचारियों] के साथ तृतीयसवन पर उस लोक में सूर्य देव [सर्वप्रेरक परमात्मा] के साथ कल्याण से यथावत् पार लगता है । ५ । (तत् एनं जागतेन एव छन्दसा आदित्यैः देवैः तृतीयसवने अमुष्मिन् लोके सूर्येण देवेन स्वस्ति सम्पद्यते यः एवं वेद ६) सो उस पुरुष को जगत् प्रकाशक स्वतन्त्रता से आदित्य देवों [अखण्डव्रती ब्रह्मचारियों] के साथ तृतीयसवन पर उस लोक में सूर्य देव [सर्वप्रेरक परमात्मा] के साथ कल्याण को वह प्राप्त करता है जो ऐसा जानता है । ६ । ॥ १४ ॥

भावार्थ—पूर्ववत् ॥

टिप्पणी—स्वरोऽसि..... यह अथर्ववेद ६ । ४८ । ३ के तीन पाद कुछ भेद से हैं ॥

अध्यायश्च । उ० ४ । ११२ । गमेः—यक्, मलोपः । यद्वा गा गतौ—यक्, ह्रस्वत्वम् । सर्वगतिः । सर्वव्यापकः (जगच्छन्दाः) जगति संसारे छन्दः स्वातन्त्र्यस्य सः (सूर्यः) षू प्रेरणे—क्यप्, रुडागमः । सर्वप्रेरकः परमात्मा । रविः (चन्द्रमाः) चन्द्रे मो डित् । उ० ४ । २२८ । चन्द्र+माङ् माने—असि डित् । चन्द्रमानन्दं मिमीतेऽसौ । आनन्दप्रदः परमात्मा । चन्द्रलोकः (जागतेन) जगत्-प्रकाशकेन (छन्दसा) स्वातन्त्र्येण (सम्पद्यते) सम्यक् प्राप्नोति ॥

कण्डिका १५ ॥

अथ संस्थिते संस्थिते सवनं वाचयते मयि भर्गो मयि महो मयि यशो
मयि सर्वम् इति पृथिव्येव भर्गोऽन्तरिक्ष एव महो द्यौरेव यशोऽप एव सर्वम् । १ ।
अग्निरेव भर्गो वायुरेव मह आदित्य एव यशश्चन्द्रमा एव सर्वम् । २ । वसव एव
भर्गो रुद्रा एव मह आदित्या एव यशो विश्वे देवा एव सर्वम् । ३ । गायत्र्येव
भर्गोऽग्निष्टुबेव महो जगत्येव यशोऽनुष्टुबेव सर्वम् । ४ । प्राच्येव भर्गः प्रतीच्येव
मह उदीच्येव यशो दक्षिणैव सर्वम् । ५ । वसन्त एव भर्गो ग्रीष्म एव महो वर्षा
एव यशः शरत् एव सर्वम् । ६ । तृष्टुबेव भर्गः पञ्चदश एव महः सप्तदश एव यश
एकविंश एव सर्वम् । ७ । ऋग्वेदेव भर्गो यजुर्वेदे एव महः सामवेदे एव यशो
ब्रह्मवेदे एव सर्वम् । ८ । होतृवेव भर्गोऽध्वर्युरेव मह उद्गातृवेव यशो ब्रह्मैव सर्वम् । ९ ।
गात्रेव भर्गः प्राण एव महश्चक्षुरेव यशो मन एव सर्वम् । १० ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ संस्थित सवनं भर्ग आदि चार पदार्थों का
दस प्रकार से वर्णन ॥

(अथ संस्थिते संस्थिते सवनं वाचयति, मयि भर्गः मयि महः मयि
यशः मयि सर्वम् इति) अब संस्थित संस्थित [प्रत्येक समाप्त] सवनं में चंद्र
[ब्रह्मा] वांचता है—सुक्त में भर्ग [तेज], सुक्त में महत्त्व, सुक्त में यश, और
सुक्त में सव [ज्ञान] होंगे । (पृथिवी एव भर्गः, अन्तरिक्षः एव महः, द्यौः एव
यशः, अपः एव सर्वम्) पृथिव्या [भूलोक विद्या] ही तेज, अन्तरिक्ष [विद्या]
ही महत्त्व, प्रकाश लोक [विद्या] ही यश और जल [विद्या] ही सव है । १ ।
(अग्निः एव भर्गः वायुः एव महः, आदित्यः एव यशः, चन्द्रमाः एव सर्वम् २)
अग्नि [विद्या] ही तेज, वायु [विद्या] ही महत्त्व, सूर्य [विद्या] ही यश और
चन्द्रमा [आनन्दप्रद विद्या] ही सव है । २ । (वसवः एव भर्गः, रुद्राः एव
महः, आदित्याः एव यशः, विश्वे देवाः एव सर्वम्) वसु [श्रेष्ठ विद्वान् लोग]
ही तेज, रुद्र [पाण्डित्यों को रत्नाने वाले विद्वान्] ही महत्त्व, आदित्य [अखण्ड
धृती ब्रह्मचारी लोग] ही यश और विश्वे देवा [सब विद्वान् लोग] ही सव
हैं । ३ । (गायत्री एव भर्गः, त्रिष्टुप् एव महः, जगती एव यशः, अनुष्टुप् एव
सर्वम् ४) गायत्री [गाने योग्य वेद विद्या] ही तेज, त्रिष्टुप् [तीन कर्म उपा-

१५—(संस्थिते संस्थित) प्रत्येकं समाप्ते (भर्गः) अञ्जयञ्जियुजि-
भृजिभ्यः कुश्च । उ० ४ । २१६ । भृजा भर्जने—असुन् कुत्वं च । तेजः । प्रजा-

कण्डिका १६ ॥

स यदाह मयि भर्ग इति पृथिवीमेवंत लोकानामाहाग्निं देवानां वसून् देवां देवगणानां गायत्रं छन्दसां प्राचीन्दिशां वसन्तऋतूनां तृवृतं स्तोमानामृग्वेदं वेदानां हौत्रं होत्रकाणां वाचमिन्द्रियाणाम् ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ भर्ग [तेज] का वर्णन ॥

(सः यत् आह, मयि भर्गः इति, पृथिवीम् एव एतम् लोकानाम् आह, अग्निं देवानां, वसून् देवान् देवगणानां, गायत्रं छन्दसां, प्राचीं दिशां, वसन्तम् ऋतूनां, तृवृतं स्तोमानाम्, ऋग्वेदं वेदानां हौत्रं होत्रकाणां, वाचम् इन्द्रियाणाम्) वह जो [ब्रह्मा] कहता है—सुक्त में भर्ग [तेज] होवे—वह इस पृथिवी को ही लोकों में से कहता है [१], अग्नि को देवा [दिव्य पदार्थों] में [२], वसुदेवों [श्रेष्ठ विद्वानों] को देवगणों [विद्वानों के समूहों] में [३], गायत्र [गाने योग्य वेद विद्या] को छन्दों [आनन्द दायक कामों] में [४], पूर्वदिशा को दिशाओं में [५], वसन्तऋतु को ऋतुओं में [६], तृवृत् स्तोत्र को स्तोत्रों में [७], ऋग्वेद [पदार्थों की स्तुति विद्या] को वेदों में [८], होता को होताओं में [९], वाणी को इन्द्रियों में [वह कहता है] [१०], ॥ १६ ॥

भावार्थ और टिप्पणी—कण्डिका १५ में देखो ॥ १६ ॥

कण्डिका १७ ॥

स यदाह मयि मह इत्यन्तरिक्षमेवैतल्लोकानामाह वायुं देवानां रुद्रां देवां देवगणानान्त्रैष्टुभं छन्दसां प्रतीचीन्दिशां ग्रीष्मऋतूनां पञ्चदशं स्तोमानां यजुर्वेदं वेदानामाध्वर्यव होत्रकाणां प्राणमिन्द्रियाणाम् ॥ १७ ॥

कण्डिका १७ ॥ महः वा महत्त्व का वर्णन ॥

(सः यत् आह मयि महः इति, अन्तरिक्षम् एव एतत् लोकानाम् आह, वायुं देवानां, रुद्रान् देवान् देवगणानां, त्रैष्टुभं छन्दसां, प्राचीं दिशां, ग्रीष्मम् ऋतूनां, पञ्चदशं स्तोमानां, यजुर्वेदं वेदानाम्, आध्वर्यवं होत्रकाणां, प्राणम् इन्द्रियाणाम्) वह जो [ब्रह्मा] कहता है—सुक्त में महः [महत्त्व] होवे—वह इस

१६—(एतम्) एताम् (हौत्रम्) अण् स्वार्थे । होतारम् (होत्रकाणाम्) होतृणाम् । ऋत्विजाम् ॥

१७—(आध्वर्यवम्) अण् स्वार्थे । अध्वर्युम् ॥

अन्तरिक्ष को ही लोकों में से कहता है [१], वायु को देवों [दिव्य पदार्थों] में [२], रुद्र देवों [पापियों को हलाने वाले विद्वानों] को देवगणों [विद्वानों के समूहों] में [३], त्रैष्टुभ [तीन, कर्म उपासना ज्ञान को स्थिर करने वाली विद्या] को छन्दों [आनन्ददायक कर्मों में] [४], पश्चिम दिशा को दिशाओं में [५], ग्रीष्म ऋतु को ऋतुओं में [६], पंचदश स्तोत्र को स्तोत्रों में [७], यजुर्वेद [संगनिकरण विद्या] को वेदों में [८], अध्वर्यु को होताओं में [९], प्राण को इन्द्रियों में [वह कहता है] [१०] ॥ १७ ॥

भावार्थ और टिप्पणी—कण्डिका १५ में देखो ॥ १७ ॥

कण्डिका १८ ॥

स यदाह मयि यश इति दिवमेवैतज्ज्ञानामाहादित्यं देवानामादित्यां देवां देवगणानां जागतं छन्दसामुदीचीन्दिशां वर्षां ऋतूनां सप्तदश स्तोमानां सामवेदं वेदानामौद्गात्रं होत्रकाणां चक्षुरिन्द्रियाणाम् ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ यश वा कीर्ति का वर्णन ॥

(सः यद् आह मयि यशः इति दिवम् एव एतत् लोकानाम् आह, आदित्यं देवानाम्, आदित्यान् देवान् देवगणानाम्, जागतं छन्दसम्, उदीचीं दिशां, वर्षाः ऋतूनां, सप्तदशं स्तोमानां, सामवेदं वेदानाम्, औद्गात्रं होत्रकाणां, चक्षुः इन्द्रियाणाम् । वह जा [ब्रह्मा] कहता है—सुभ में यश [कीर्ति] होवे— वह इस प्रकार लोक को ही लोकों में से कहता है [१], सूर्य को देवों [दिव्य पदार्थों] में [२], आदित्य देवों [अखण्डव्रती ब्रह्मचारियों] को देवगणों [विद्वानों के समूहों] में [३], जागत [जगत् के उपकारक ज्ञान] को छन्दों [आनन्ददायक कर्मों] में [४], उत्तर दिशा को दिशाओं में [५], वर्षा ऋतु को ऋतुओं में [६], सप्तदश स्तोत्र को स्तोत्रों में [७], सामवेद [मोक्षविद्या] को वेदों में [८], उद्गाता को होताओं में [९], आँख को इन्द्रियों में [वह कहता है] [१०] ॥ १८ ॥

भावार्थ और टिप्पणी—कण्डिका १५ में देखो ॥ १८ ॥

कण्डिका १९ ॥

स यदाह मयि सर्वमित्यप एवैतज्ज्ञानामाह चन्द्रमसं देवानां विश्वां देवां देवगणानामनुष्टुभं छन्दसां दक्षिणां दिशां शरदमृतनामेरुविंशं स्तोमानां ब्रह्मवेदं वेदानां ब्रह्मत्वं होत्रकाणां मन इन्द्रियाणाम् ॥ १९ ॥

१९—(औद्गात्रम्) अण् स्वार्थे । उद्गातारम् ॥

कण्डिका १९ ॥ सर्व वा सब ज्ञान का वर्णन ॥

(सः यत् आह अग्नि सर्वम् इति, अपः एव एतत् लोकानाम् आह, चन्द्र-
मसं देवानां, वि० देवान् देवागणानाम्, आबुष्टुभ छन्दसां, दक्षिणां दिशां,
शरदम् ऋतूनाम्, एकविंशं स्तोत्राणां, ब्रह्मवेदं वेदानां, ब्रह्मत्व होत्रकाणां,
मनः इन्द्रियाणाम्) वह जो [ब्रह्मा] कहता है—सुझ में सब [ज्ञान] होवे—
वह इस जन्म को हा लोकों में से कहता है [१], चन्द्रमा [आनन्ददायक
पदार्थ वा लोक] को देवा [दिव्य पदार्थों में] [२], सब विद्वानों को देवगणों
[विद्वानों के समूहों] में [३], आबुष्टुभ [निरन्तर पदार्थों के स्तुति वाले ज्ञान]
को छन्दो [आनन्ददायक कर्मों] में [४], दक्षिण दिशा को दिशाओं में [५],
शरद ऋतु को ऋतुओं में [६], एकविंश स्तोत्र को स्तोत्रों में [७], ब्रह्म-
वेद [अथर्व वेद वा ब्रह्मविद्या] को वेदों में [८], ब्रह्म को होताओं में [९],
मन को इन्द्रियों में [वह कहता है] [१०] ॥ १९ ॥

भावार्थ टिप्पणी—कण्डिका १५ में देखो ॥ १९ ॥

कण्डिका २० ॥

स वा एष दशधा चतुः सम्पद्यते, दश च ह वै चतुर्विंशजोऽक्षराणि
तङ्गर्भा उपजीवन्ति श्रीर्वै विराट् यशोऽन्नाद्यं श्रियमेव तद्विराज यशस्यन्नाद्ये प्रति-
ष्ठापयति प्रतिष्ठन्तीरिदं सर्वमनुप्रतिष्ठति प्रतिनिष्ठति प्रजया पशुभिर्य एव
वेद ॥ २० ॥

कण्डिका २० ॥ दस शुण्ठित चार पदार्थों का विराट् में सम्बन्ध ॥

(सः वै एषः दशधा चतुः सम्पद्यते) वह ही यह [ब्रह्मा] दस प्रकार
चार वार [पदार्थों] को प्राप्त करता है । (दश च ह वै चतुः विराजः अक्षराणि)
और भी दस चार वार [$10 \times 4 = 40$] विराट् [छन्द] के अक्षर होते हैं
(तं गर्भाः उपजीवन्ति) उस [विराट्] के सहारे गर्भ [गर्भ के बालक] जीते
हैं । (श्रीः वै विराट्, यशः अन्नाद्यम्) [क्योंकि] विराट् ही श्री [शोभा वा

१९—(ब्रह्मत्वम्) ब्रह्माणम् ॥

२०—(चतुः) द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् । पा० ५ । ४ । १८ । रात्सस्य । पा०
८ । २ । २४ । सत्तोपः । चतुर्वारम् (उपजीवन्ति) आश्रित्य जीवनं कुर्वन्ति
(विराट्) वि + राज् दीप्तौ ऐश्वर्ये च—किप् । विराजो दिशः—पिङ्गल सूत्राणि
३ । ५ । दशाक्षरचतुष्पादं छन्दः । श्रीः ॥

सम्पत्ति] है और यश खाने योग्य अन्न है । (तत् श्रियम् एव विराजं यशसि अन्नाद्ये प्रतिष्ठापयति) इस लिये विराट् अर्थात् श्री को यश अर्थात् खाने योग्य अन्न में वह स्थापित करता है । (इदं सर्वं प्रतिष्ठन्तीः अनु प्रतिष्ठति) यह सब [जगत्] ठहरी हुई [शक्तियों] के साथ ठहरा रहता है । (प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद) वह सन्तानों और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है ॥ २० ॥

भावार्थ और टिप्पणी—कण्डिका १५ में देखो ॥ २० ॥

कण्डिका २१ ॥

अनर्वाणं ह वै देवं दध्यङ्गाङ्गिरसमुपसीदं ह यज्ञस्य श्रुष्टिं समश्नवामहा इति स दध्यङ्गाङ्गिरसोऽब्रवीद्यो वै सप्तदशं प्रजापतिं यज्ञेऽन्वितं वेद नास्य यज्ञो रिष्यति न यज्ञपतिं रिष्यन्त इति ता वा एताः पञ्च व्याहृतयो भवन्त्येतां श्रावयास्तु श्रौषड् यज ये यजामहे वौषडिति स दध्यङ्गाङ्गिरसोऽब्रवीन्न वयं विद्मो यदि ब्राह्मणा स्मो पद्यब्राह्मणा स्मो यदि तस्य ऋषे स्मो यदि नान्यस्येत्यनर्वाणश्च ह वा ऋतावन्तश्च पितरः स्वधायामावृषायन्त वयं वदामहे ३ वयं वदामहा १ इति सोऽयात् स्वायम्भुवो वा ऋतावन्तो मदेयातां न वयं वदामहा ३ इति तस्मात् प्रवरे प्रत्रियमाणे वाचयेद्देवाः पितर इति तिस्रो य एति संयजति स भवति यश्च न ब्रूते यश्च न ब्रूत इति ब्राह्मणम् ॥ २१ ॥

कण्डिका २१ ॥ यज्ञ के विषय में दध्यङ् और अनर्वा का वार्तालाप ॥

(अनर्वाणं ह वै देवम् आङ्गिरसं दध्यङ् उपसीदम्) प्रसिद्ध है, अनर्वा [अहिंसक] देव [विद्वान्] के पास वेदवेत्ता दध्यङ् [स्थिरता प्राप्त करने वाला] पहुंचा । (सः अङ्गिरसः दध्यङ् अब्रवीत् यज्ञस्य ह श्रुष्टिं समश्नवामहे इति) वह वेदवेत्ता दध्यङ् बोला—यज्ञ की शीघ्रता को हम मिल कर पावें । (यः वै सप्तदशं यज्ञपतिं यज्ञे अन्वितं वेद, अस्य यज्ञः न रिष्यति न यज्ञपतिं रिष्यन्ते इति) [अनर्वा बोला] जो पुरुष यज्ञ में सत्रहवें [४ वैद + ४ वर्ण + ४

२१—(अनर्वाणम्) स्मदिपद्यति० । उ० ४ । ११३ । ऋ गतौ हिंसायां च—वनिप् । अहिंसकम् । अनिन्दम् । ऋषिविशेषम् (दध्यङ्) सर्वधातुभ्यः इन् । उ० ४ । ११८ । दध दाने धारणे च—इन् + अञ्चु गतिपूजनयोः—क्विन् । धारणं स्थैर्यम् अञ्चति प्राप्नोति यः सः (आङ्गिरसम्) अङ्गिरसः । वेदवेत्ता (उप-

आश्रम + ४ पुरुषार्थ अर्थात् धर्म अर्थ काममोक्ष, इन सोलह के सहित सत्र-हवें] प्रजापति [प्रजापालक परमात्मा] को यज्ञ में संगत जानता है, उस का यज्ञ नहीं नष्ट होता है और न यज्ञपति [यजमान] को वे [शत्रु] नष्ट करते हैं । (ताः वै एताः पंचमहाव्याहृतयः भवन्ति, ओं श्रावय, अस्तु श्रौषट्, यज, ये यजामहे, वौषट् इति) और वे ही यह पांच व्याहृतियां है—ओं श्रावय [ओं, तू सुना], अस्तु श्रौषट् [श्रवण होवे], यज [यज्ञकर], ये यजामहे [जो हम लोग यज्ञ करते हैं], वौषट् [आहुति पहुंचा—देखो क० १०] । (सः आङ्गिरसः दध्यङ् अव्रवीत् वयं न विद्मः यदि ब्राह्मणाः स्मः यदि अब्राह्मणाः स्मः यदि तस्य ऋषेः स्मः यदि अन्यस्य, न, इति) वह वेदवेत्ता दध्यङ् बोला—हम नहीं जानते यदि हम ब्राह्मण हैं, यदि अब्राह्मण हैं, यदि उस ऋषि के हैं, यदि अन्य के, यह भी नहीं [जानते] । (अनर्वाणः च ह वै ऋतावन्तः च पितरः स्वधायाम् आवृषायन्ते वयं वदामहे ३ वयं वदामहे १ इति) [अनर्वा बोला] अहिंसक और सत्यवान् ही पितर [पालन करने वाले पुरुष] यज्ञ के विषय में इन्द्र [पेश्वर्यवान्] के समान आचरण करते हैं, यह हम जाने यह हम जानें । (सः अयात् स्वायम्भुवः वै ऋतावन्तः मदेयातां वयं न विदामहे ३ इति) उस [दध्यङ्] ने जाना—स्वयम्भू [अपने आप वर्तमान परमात्मा] को देवता मानने वाले सत्यवान् पुरुष दीन होवें, यह हम न जानें । (तस्मात् प्रवरे प्रवियमाणे वाचयेत्—देवाः पितरः इति तिस्रः) इस लिये श्रेष्ठ व्यवहार वा यज्ञ के

सीदम्) उप-असीदत् (श्रुष्टिम्) श्रु गतौ श्रवणे च—क्तिन्, सुडागमः । श्रुष्टीति क्षिप्रनामाशु अष्टीति—निरु० ६ । १२ । शीघ्रताम् (सप्तदशम्) चत्वारो वेदाः, चत्वारो वर्णाः, चत्वार आश्रमाः, धर्मार्थकाममोक्षा इति चत्वारः पुरुषार्थाः, एतैः षोडशभिः सहितं सप्तदशं प्रजापतिम् (प्रजापतिम्) प्रजास्वामिनं परमात्मानम् (अन्वितम्) अनुगतम् । संगतम् (रिष्यति) नश्यति (रिष्यन्ते) नाशयन्ति (अनर्वाणः) अदुष्टाः (ऋतावन्तः) ऋतवन्तः । सत्यवन्तः (स्वधायाम्) अन्ने—निघ० २ । ७ (आवृषायन्ते) कर्तुः क्यङ् सलोपश्च । पा० ३ । १ । ११ । आ + वृषन् वृष वा क्यङ् । समन्ताद् वृष इन्द्र इव आचरन्ति (अयात्) या गतौ = ज्ञाने—लङ् ज्ञातवान् (स्वायम्भुवः) स्वयम्भू—अण् । जसः सुः । स्वयम्भूः परमात्मा देवता येषां ते (मदेयाताम्) मद दैन्ये—वि० लि० । दीना दरिद्रा भवेयुः (प्रवरे) श्रेष्ठव्यवहारं । यज्ञे (प्रवियमाणे) प्रकर्षण स्वीक्रियमाणे । प्रवर्तमाने (भवति) सत्तावान् भवति (न व्रूते) असत्यं न कथयन्ति ॥

प्रवृत्तमान होने पर—देवाः पितरः इन तीन ऋचावों [अथ० ६ । १२३ । ३—५] को [पढ़े], (यः एति संयजति यः च न ब्रूते यः च न ब्रूते सः भवति इति ब्राह्मणम्) जो पुरुष चलता है, मिलकर यज्ञ करता है, और जो [असत्य] नहीं बोलता और जो [असत्य] नहीं बोलता, वह सत्ता वाला है, यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ २१ ॥

भावार्थ—सत्यवादी पुरुष का कथन प्रामाणिक, और असत्यवादी का अप्रामाणिक होता है ॥ २१ ॥

टिप्पणी—(देवाः पितरः) यह तीन मन्त्र अथर्व० ६ । १२३ । ३—५ इस प्रकार हैं ।

(देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥ १ ॥ स पंचामि स ददामि स यजे स दुत्तान्मा यूषम् ॥ २ ॥ नाके राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैतत् प्रतितिष्ठतु । विद्धि पूर्वस्य नो राजन्त्स देव सुमना भव ॥ ३ ॥) अर्थ—देव [विद्वान् लोग] पितर [पालने वाले] और पितर देव [विजयी] होते हैं, जो मैं सत्ता वाला हूँ वह मैं सत्ता वाला हूँ । १ । वह मैं पकाता हूँ, वह मैं देता हूँ, वह मैं [विद्वानों को] पूजता हूँ, वह मैं दान से पृथक् न होऊँ । २ । हे राजन् [समर्थ पुरुष] सुख स्वरूप [परमात्मा] में प्रतिष्ठा पा, उसी [परमात्मा] में ही यह [तेरा पुण्य कर्म] प्रतिष्ठा पावै । हे राजन् [विद्या से प्रकाशमान] हमारे लिये अन्न आदि कर्म का ज्ञान कर, सो तू हे देव [गतिशील] प्रसन्नचित्त हो ॥

कण्डिका २२ ॥

सावित्रं ह स वैतं पूर्वे पुरस्तात् पशुमालभन्त इति मे तर्हि प्राजापत्यं यो ह्येव सविता स प्रजापतिरिति वदन्तस्तस्मादुसमोऽथाग्नीस्तेन यजेरंस्ते समानधिष्ठ्य एव स्युरोषा सम्भरणीया या उषा सम्भरणीया यां विन्युष्याग्नीस्तया यजेरंस्तेनानाधिष्ठ्या एव स्युरादोक्षिणीया या दीक्षिणीया यां संन्युष्याग्नीस्तेन यजेरंस्ते समानधिष्ठ्या एव स्युरोदवसानीया या उदवसानीया यां विन्युष्याग्नी स्तया यजेरंस्तेनानाधिष्ठ्या एव स्युरथ यदि यजमानस्योपतयेत् पार्श्वतोऽग्नीना- ध्याय तावदासीत यावद्गन्धः स्याद्यदि प्रेयात्स्वैरेव तमग्निभिर्दहेद् दश वा अग्नि- भिरितरे यजमाना आसत इति वदन्तस्तस्य तदेव ब्राह्मणं यददः पुरःसवने पितृ- मेघ आशिषो व्याख्याताः ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ मिश्रित यज्ञों का विषय ॥

(पूर्वे ह स्व वा एतं सावित्रं पशुं पुरस्तात् आलभन्ते इति तर्हि मे प्राजापत्यं यः हि एष सविता सः प्रजापतिः इति वदन्तः तस्मात् उ समः) पहिले लोग इस सविता देवता वाले पशु [पशु नामक पाक यज्ञ—क० २३] को पहिले प्राप्त करते हैं, तब लोग [मत हं]—प्रजापति देवता वाले को [पशु नामक पाक यज्ञ को वे प्राप्त करते हैं] क्योंकि जो ही सविता सर्वप्रेरक परमात्मा] है, वही प्रजापति [प्रजापालक परमेश्वर] है, ऐसा कहते हैं, इस लिये वह सविता और प्रजापति [नाम वाला यज्ञ] एक है । (अथ [ये] अग्नीन् तेन यजेरन् ते समानधिष्ठ्यः एव स्युः = स्युः) फिर [जो लोग आहवनीय गार्हपत्य और दक्षिण] अग्निों को उस [पाक यज्ञ] से यज्ञ करें वे समान प्रगल्भ [जीतने वाले] ही होंगे । (आ उषा सम्भरणीया, या उषा सम्भरणीया यान् अग्नीन् विन्युष्य तथा यजेरन्, तेन अनाधिष्ठ्याः एव स्युः) फिर उषा [उषा नामक प्रभात वेला की इष्टि] करनी चाहिये, जो उषा [इष्टि] करनी चाहिये और जिन [तीन] अग्निों को विविध प्रकार स्थापित करके उस [उषा] के साथ उस [पाक यज्ञ] से [जो] यज्ञ करें वे अजेय ही हो जावें । (आ दीक्षणीया, या दीक्षणीया, यान् अग्नीन् सन्युष्य [तथा] तेन यजेरन् ते समानधिष्ठ्याः एव स्युः) फिर दीक्षणीया [इष्टि है] जो दीक्षणीया है और जिन अग्निों को यथावत् स्थापित करके [उस दीक्षणीया के साथ] उस [पाक यज्ञ] से [जो] यज्ञ करें वे समान प्रगल्भ [जीतने वाले] ही होंगे । (आ उदवसानीया, या उदवसानीया यान् अग्नीन् विन्युष्य तथा तेन यजेरन् अनाधिष्ठ्याः एव स्युः) फिर उदवसानीया [इष्टि है], जो उदवसानीया है और जिन अग्निों को विविध प्रकार स्थापित करके उस [उदवसा-

२२—(सावित्रम्) सवितृदेवताकम् (पूर्वे) पूर्ववर्तमाना ऋषयः (पशुम्) पशुनामकं पाकयज्ञम्—क० २३ (आलभन्ते) समस्तात् प्राप्नुवन्ति (मे) भूमते (प्राजापत्यम्) प्रजापतिदेवताकम् (सविता) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः (प्रजापतिः) प्रजापालकः परमेश्वरः (वदन्तः) वदन्ति (समः) तुल्यः (अग्नीन्) आहवनीयगार्हपत्यदक्षिणाग्नीन्—शा० पू० २।२२ (तेन) पशुना पाकयज्ञेन (समानधिष्ठ्यः) मिश्रित प्रागल्भ्ये—स्यप्, तकारागमः, धिप् आदेशः । धृपे-र्धिप च संज्ञायाम् । उ० २।२२ । इति निर्देशात् । बहुवचनस्यैकवचनम् । समानधिष्ठ्याः । समानधृष्याः । तुल्यप्रगल्भाः (स्युः) स्युः (आ) समुच्चये (उषा)

नीया] के साथ उस [पाक यज्ञ] से यज्ञ करें वे अजेय ही हो जावें । (अथ यदि यजमानस्य पार्श्वतः उपतयेत् अग्नीन् आधाय तावत् आसीत् यावत् दग्धः स्यात्) फिर यदि यजमान के पास में वह [पाक यज्ञ] आ जावे, अग्नियों को स्थापित करके वह [यजमान] तब तक बैठे जब तक वह [पाक यज्ञ] भस्म होवे । (यदि प्रेयात् तं स्वैः एव अग्निभिः दहेत्) यदि वह [अग्नि] बुझ जावे उस को अपनी ही अग्नियों से जलावे । (दश इतरे यजमानाः वै अग्निभिः आसते इति वदन्तः) दश दूसरे यजमान लोग ही [तीनों] अग्नियों के साथ बैठते हैं [यज्ञ करते हैं] ऐसा कहते हैं । (तस्य तत् एव ब्राह्मणम् यत् अदः) उस [यजमान] का वही ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है जो यह है । (पुरःसवने पितृमेधे आशिषः व्याख्याताः) पुरःसवने [नाम वाले] पितृमेध यज्ञ में आशीर्वाद व्याख्यात हैं ॥ २२ ॥

भावार्थ—यज्ञ विधानों को यथावत् जान कर यज्ञ करना चाहिये ॥ २२ ॥

कण्डिका २३ ॥

सायंप्रातर्होमौ स्थालीपाको नवश्च यः । बलिश्च पितृयज्ञश्चाष्टका सप्तमः पशुरित्येते पाकयज्ञाः । १ । अग्न्याधेयमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमावास्ये । नवेष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येते हविर्यज्ञाः । २ । अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थयः षोडशमास्ततः । वाजपेयोऽतिरात्रश्चाप्तोर्यामात्र सप्तम इत्येते सुत्याः । ३ । केस्विदेवाः प्रवावाजाः केस्विदेवा अभिद्यवः । केस्विदेवा हविष्मन्तः किंस्विज्जिगाति सुन्नयुः । ४ । ऋतव एव प्रवावाजा मासा देवा अभिद्यवः । अर्द्धमासा हविष्मन्तस्तज्जिगाति सुन्नयुः । ५ । कतिस्त्रिद्रात्रयः कत्यहानि कति स्तोत्राणि कतिशस्त्राण्यस्य । कतिचित्सवनाः संवत्सरस्य स्तोत्रियाः पदान्तराणि कत्यस्य । ६ । द्वावतिरात्रो पद्शतमग्निष्टोमा द्वेविंशतिशते उक्थयानाम् । द्वादशषोडशिनः षष्टिः षडहा वैपुवतश्च । ७ । अहान्यस्य विंशतिशतानि त्रोग्यहश्चैकं तावदस्य । संवत्सरस्य सवनाः सहस्रमशीति त्रीणि च संस्तुतस्य । ८ । षट्षष्टिश्च द्वे च

उषानामकेष्टिः (संभरणीया) सम्पादनीया (विन्युप्य) वि+नि+डुवप वीज-सन्ताने—त्यप् । विन्यस्य । प्रतिष्ठाप्य (अनाधिष्ट्याः) नञ्+आ+जिधृषा प्रागल्भे—क्यप्, पूर्वदत्सिद्धिः । अनाधृष्याः । अनभवनीयाः अजेयाः (संन्युप्यु) सम्यङ्न्यस्य (उपतयेत्) तय गतौ । उपगच्छेत् (दग्धः) भस्मीभूतः (प्रेयात्) प्रगच्छेत् । नश्येत् (दहेत्) भस्मीकुर्यात् । दीपयेत् (आशिषः) आशीर्वादाः ॥

शते च भवतस्तत शस्त्राणामयुतं चैकमस्य । स्तोत्रियाश्च नवतिसहस्रा द्वे नियुते
नवतिश्चातिषट् च । ६ । अष्टौ शतान्ययुतानि त्रिंशच्चातुर्नवतिश्च पदान्यस्य ।
संवत्सरस्य कविभिर्मितस्यैतावती मध्यमा देवमात्रा । १० । अयुतमेकं प्रयुतानि
त्रिंशद् द्वे नियुते तथा ह्यजुसृष्टाः । अष्टौ शतानि नव चाक्षराण्येतावानात्मा परमः
प्रजापतेः । ११ । आद्यं वषट्कारः प्रदानान्तमेतमग्निष्टोमे पर्वशः साधु क्लृप्तम् ।
सौभेपजं छन्द ईप्सन्यदग््नौ चतुःशतं बहुधा ह्ययते यत् । १२ । प्रातःसवनस्तुत
एकविंशो गायत्रस्तोममित एक एव । माध्यन्दिनः सप्तदशेन क्लृप्तस्त्रयस्त्रिंशेन
सवनं तृतीयम् । १३ ॥ २३ ॥

कण्डिका २३ ॥ विविध यज्ञों के विधान और गणना सहित व्याख्यान श्लोकों में ॥

(सायंप्रातर्होमौ यः नवः स्थालीपाकः च बलिः च पितृयज्ञः च अष्टका
सप्तमः पशुः इति एते पाकयज्ञाः १) सायंकाल और प्रातःकाल के दो होम, और
जो नव [नव नामक वा नवीन] स्थालीपाक है, और बलि, और पितृयज्ञ,
अष्टका, और सातवां पशु, यह [सात] पाक यज्ञ हैं । १ । (अग्न्याधेयम्, अग्नि-
होत्रं, पौर्णमास्यमावास्या, नवेष्टिः, चातुर्मास्यानि, पशुबन्धः अत्र सप्तमः इति
एते हविर्यज्ञाः) अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, पौर्णमासी और अमावास्या, नवेष्टि,
चातुर्मास्य, और पशुबन्ध यहां सातवां है, यह [सात] हविर्यज्ञ हैं । २ ।
अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, उक्थ्यः, ततः षोडशिमान् वाजपेयः अतिरात्रः,
अतोर्याम च अत्र सप्तमः इति एते सुत्याः) अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य,
फिर षोडशिमान्, वाजपेय, अतिरात्र, और अतोर्याम [प्राप्त हुई प्रजा के
नियम—गो० उ० ५ । ६] यहां सातवां है, यह [सात] सुत्यायें [सोम निचो-
ड़ने की क्रियायें] हैं । ३ । (केस्वित् देवाः प्रवोवाजः केस्वित् देवाः अभिद्यवः,
केस्वित् देवाः हविष्मन्तः किस्वित् सुस्रयुः जिगाति ४) कौन से देव प्रवोवाज
[ज्ञान प्राप्त कराने वाले] हैं, कौन से देव अभिद्यु [सब ओर से प्रकाश वाले]
हैं, कौन से देव हविष्मान् [हवनीय पदार्थ वाले] हैं और किस को सुस्रयु

२३—(स्थालीपाकः) स्थाल्यां पच्यते, पच—घञ् । गव्यदुग्धेन स्थाल्यां
कृतः पाकभेदः (नवः) णु स्तुतौ—अप् । स्तवः । नवीनः (बलिः) पूजोप-
हारः (अष्टका) इष्यशिभ्यां तकन् । उ० ३ । १४८ । अशू व्याप्तौ—तकन् । वैदिक-
कर्मविशेषः (पशुः) पाकयज्ञः (अतोः) आप्तोर्हस्वश्च । उ० १ । ७५ । आसृ व्याप्तौ
लम्भने च—तु प्रत्ययः । धातोर्हस्वत्वम् । आप्तायाः प्राप्तायाः प्रजायाः—गो० उ०

[सुख प्राप्त कराने वाला पुरुष] गाता है । ४ । (ऋतवः एव प्रवोवाजाः, मासाः देवाः अभिद्यवः, अर्धमासाः हविष्मन्तः तत् सुन्नयुः जिगति ५) [ऊपर के चार प्रश्नों के उत्तर] ऋतुयें ही प्रवोवाज [ज्ञान प्राप्त कराने वाले] हैं, महीने अभिद्यु [सब ओर से प्रकाश वाले] देव हैं, आधे महीने हविष्मान् [हवनीय पदार्थ वाले] हैं, और सुन्नयु [सुख पहुंचाने वाला पुरुष] तत् [विस्वृत ब्रह्म] को गाता है । ५ । (अस्य संवत्सरस्य कति स्वित्र रात्रयः, कति अहानि, कति स्तोत्राणि, कति शस्त्राणि, कतिचित् सवनाः, स्तोत्रियाः, कति अस्य पदाक्षराणि ६) इस संवत्सर की कितनी रात्रि हैं, कितने दिन हैं, कितने स्तोत्र, और कितने शस्त्र [स्तोत्र विशेष] हैं, कितने सवन और स्तोत्रिय हैं, और कितने इस के पद और अक्षर हैं । ६ । (द्वौ अतिरात्रौ, षट्शतम् अग्निष्टोमाः, द्वे विंशतिशते उक्थ्यानां, द्वादश षोडशिनः, षष्टिः षडहाः च वैषुवतम् ७) दो अतिरात्र [विषुवान् यज्ञ से पहिले १ और पीछे २], एक सौ छह अग्निष्टोम [विषुवान् से पहिले ५३ और पीछे ५३], दो एक सौ बीस [वा दो सौ चालीस] उक्थ्य [विषुवान् से पहिले १२० और पीछे १२०] हैं, बारह षोडशी [विषुवान् से पहिले ६ और पीछे ६] हैं, और साठ षडह [विषुवान् से पहिले ३० और पीछे ३०] हैं, यह विषुवान् से सम्बन्ध वाला [वचन है [देखो गो० पू० ५ । ६]] । ७ । (अस्य अहानि त्रीणि विंशतिशतानि, अस्य अहः च तावत् एकम्, संस्तुतस्य संवत्सरस्य च त्रीणि सवनाः सहस्रम् अशीति ८) इस [संवत्सर] के दिन तीन बार एक सौ बीस [$120 \times 3 = 360$] हैं, और इस का दिन तो एक है, और संस्तुत [स्तोत्र युक्त] संवत्सर के तीन सवन एक सहस्र और अस्सी [360 दिन \times ३ सवन = 1080] हैं [८] । (अस्य शस्त्राणां च एकम् अयुतम् द्वे च शते च ततः षट् षष्टिः च, स्तोत्रियाः च द्वे नियुते नवति सहस्रा अति षट् च नवतिः च ६) और इस [संवत्सर] के एक अयुत [दस सहस्र] दो सौ छयासठ [$10,000 + 200 +$

५ । ६ । (याम) यम नियमने-घञ् । यामाः—गो० उ० ५ । ६ । नियमाः (अत्र) अस्मिन् यज्ञविषये (प्रवोवाजाः) सर्वधातुभ्योऽसुन् । उ० ४ । १८६ । प्रुङ्गतौ-असुन् । प्रवस् + वज गतौ—घञ् । ज्ञानप्रापकाः (अभिद्यवः) अभि + द्युत दीतौ—डु प्रत्ययः । अभिगतदीप्तयः । प्रकाशप्रापकः (जिगति) गा स्तुतौ—लट् । स्तौति । गच्छति—निघ० २ । १४ । (सुन्नयुः) छन्दसि परेच्छायां क्यच् । वा० पा० ३ । १ । ८ । सुन्न—क्यच्, उ प्रत्ययः । सुन्नं सुखं परेषामिच्छतीति ।

६६=१०,२६६] शस्त्र हैं, और दो नियुत [दो लाख] नव्वे सहस्र और छह अधिक नव्वे [२,००,०००+६०,०००+६०+६=२,६०,०६६] स्तोत्रिय हैं [६] । (अस्य पदानि च त्रिंशत् प्रयुतानि अष्टा शतानि चतुर्नवतिः कविभिः मितस्य संवत्सरस्य एतावती मध्यमा देवमात्रा १०) इस [संवत्सर] के तीस अयुत [तीस दस सहस्र] आठ सौ चौरानवे [३०,००,८६४] पद हैं, विद्वानों कर के परिमाण किये हुये संवत्सर की इतनी मध्यमा देवमात्रा है [१०] । (तथा हि त्रिंशत् प्रयुतानि द्वे नियुते एकम् अयुतम् अष्टौ शतानि नव च अनुसृष्टाः अक्षराणि, प्रजापतेः एतावान् परमः आत्मा ११) और भी तीस प्रयुत [तीस दस लाख] दो नियुत [दो लाख] एक अयुत [एक दस सहस्र] आठ सौ और नौ [$३० \times १०,००,००० + २ \times १,००,००० + १०,००० + ८०० + ६ = ३,००,००,००० + २,००,००० + १०,००० + ८०६ = ३,०२,१०,८०६$] अक्षर हैं, [गो० पू० ५ । ५ से भी मिला देखो] प्रजापति [संवत्सर] का इतना सब से बड़ा स्वरूप है । ११ । (आद्यं प्रदानान्तम् एतं वपट्कारः अग्निष्टोमे पर्वशः साधु कल्पं, यत् सौभेषजं छन्दः ईप्सन् [ईप्सद्भिः] यत् अग्नौ बहुधा चतुःशतं ह्यते १२) आदि में रहने वाला प्रदान अन्त वाला यह वपट्कार अग्निष्टोम में पर्व पर्व पर [चतुर्दशी, अष्टमो, अमावास्या, पूर्णिमा और रविसंक्रान्ति पर] भले प्रकार ठीक किया गया है, जो उत्तम औपध वाले वेद को चाहने वाले [विद्वानों] करके जो अग्नि में अनेक प्रकार एक सौ चार बार होमा जाता

सुखप्रापकः (तत्) त्यजितनिघजिभ्यो डित् । उ० १ । १३२ । तनु विस्तारोपकृति-शब्दोपतापेषु—अति डित् । विस्तृतं ब्रह्म (कतिचित्) कतिल्वित् (स्तोत्रियः) स्तोत्र—घः । यज्ञविशेषः (वषुवतम्) विषुवत्—अण् । विषुवतः सम्बन्धिवचनम्—क० ६ (सवनाः त्रीणि) त्रयः सवनाः (संस्तुतस्य) स्तोत्रयुक्तस्य (अयु-तम्) न युतं, नञ्समासः । दशसहस्रसंख्या (नियुते) नि यूयते बहुसंख्या प्राप्यते अनेन । नि+यु मिश्रणामिश्रणयोः—क्तः । लक्षे (प्रयुतानि) प्रकर्षेण युतम् । दशलक्षसंख्याः (अनुसृष्टाः) अनुसृष्टानि । परस्परसंयुक्तानि (पर्वशः) स्नामदिपद्यतिपृशकिभ्यो वनिप् । उ० ४ । ११३ । प पालनपूरणयोः—वनिप् । चतुर्दश्यष्टमा चैव अमावास्याथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥ १ ॥ पर्वणि पर्वणि (कल्पतम्) समर्थितम् (सौभेषजम्) सुभेषज—अण् । उत्तमौपधयुक्तम् (छन्दः) वेदम् (ईप्सन्) ईप्सद्भिः । प्राप्तुमिच्छद्भिः (गायत्रस्तोममितः) गानयोग्येन स्तोमेन प्रमितः ॥

है । १२ (प्रातःसवनस्तुतः गायत्रस्तोममितः एकविंशः एकः एव सप्तदशेन
फलूतः माध्यन्दिनः, त्रयस्त्रिंशेन तृतीयं सवनम् १३) प्रातःसवनं स्तुति किया
गया गायत्र [गाने योग्य] स्तोम से परिमाण किया गया एकविंश यज्ञ एक ही
है, सप्तदश यज्ञ से ठीक किया हुआ माध्यन्दिन सवन है और त्रयस्त्रिंश यज्ञ
से [ठीक किया हुआ] तृतीय सवन है । १३ ॥ २३ ॥

भावार्थ—याजक लोग यज्ञ में समय, हव्य द्रव्य, वेदमन्त्र और उन सब
के श्रद्धों की गणना और विनियोग यथावत् जानें यह कण्डिका श्लोकबद्ध
है ॥ २३ ॥

कण्डिका २४ ॥

श्रद्धायां रेतस्तपसा तपस्वी वैश्वानरः सिषिचेऽपत्यमीप्सन् । ततो यज्ञे
लोकजित्सोमजम्भा ऋषेर्ऋषिरङ्गिराः सम्बभूव । १ । ऋषेर्यज्ञस्य चतुर्विधस्य
श्रद्धां यः श्रेयसीं लोकममुं जिगाय । यस्मै वेदाः प्रसृताः सोमविन्दुयुक्ता वहन्ति
सुकृतामु लोकम् । २ । ऋचोऽस्य भागांश्चतुरो वहन्त्युक्थशस्त्रैः प्रमुदो मोदमानाः ।
ग्रहंर्हविर्भिश्च कृताकृतश्च यजूषि भागांश्चतुरो वहन्ति । ३ । औदुम्बर्यां साम-
घोषेण तावत् संविष्टुतिभिश्च स्तोमैः छन्दसा । सामानि भागांश्चतुरो वहन्ति
गीत्या स्तोमेन सह प्रस्तावेन च । ४ । प्रायश्चित्तैर्भेषजैः संस्तवन्तोऽथर्वाणोऽङ्गि-
रसश्च शान्ताः । ब्रह्मा ब्रह्मत्वेन प्रमुदो मोदमाना असंसृष्टान् भागांश्चतुरो
वहन्ति । ५ । यो ब्रह्मवित् सोऽभिकरोऽस्तु वः शिवो धिया धीरो रक्षतु धर्ममे-
तम् । मा वः प्रमत्ताममृताञ्च यज्ञात् कर्माञ्च येनानङ्गिरसोऽपि यासीत् । ६ । मायुं
दशं मारुशस्ताः प्रमेष्ठा मा मे भूर्युक्ता विदहाथ लोकान् । दिव्यं भयं रक्षत धर्म-
मुद्यतं यज्ञं कलाशस्तुतिगोपलायनम् । ७ । होता च मैत्रावरुणश्च पादमच्छावाकः
सह प्रावस्तुतैकम् । ऋग्भिस्तुवन्तो अहरहः पृथिव्याः अग्निं पादं ब्रह्मणा धार-
यन्ति । ८ । अध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता नेष्ट्रोन्नेता निहितं पादमेकम् । समन्तरिक्षं
यजुषा स्तुवन्तो वायुं पादं ब्रह्मणा धारयन्ति । ९ । साम्नोद्गाता च्छादयन्त प्रमत्त
औदुम्बर्यां स्तोमदेयः सगद्गदः । विद्वान् प्रस्तोता विदहाथ सुष्टुतिं सुब्रह्मण्यः
प्रतिहर्त्ताऽथ यज्ञे । साम्ना दिव्येकं निहितं निस्तुवन्तः सूर्यं पादं ब्रह्मणा धार-
यन्ति । १० । ब्रह्माहैकं ब्राह्मणाच्छंसिनः सह पोत्राऽऽग्नीध्रो निहितं पादमेकम् ।
अथर्वभिरङ्गिरोभिश्च गुप्तोऽप्सु चन्द्रं पादं ब्रह्मणा धारयन्ति । ११ । षोडशिकं
होत्रका अभिष्टुवन्ति वेदेषु युक्ताश्च पृथक् चतुर्धा । मनीषिणो दीक्षिताः श्रद्धा-
धाना होतारो गुप्ता अभिवहन्ति यज्ञम् । १२ । दक्षिणतो ब्रह्मणस्यां जनदित्येतां

व्याहृतिं जपन् । सप्तदशं सदस्यं तं कीर्तियन्ति पुरा विदुः । १३ । अष्टादशी दीक्षती दीक्षितानां यज्ञे पत्नी श्रद्धधानेह युक्ता । एकोनविंशः शमिता बभूव विंशो यज्ञे गृहपतिरेव सुन्वन् । १४ । एकविंशतिरेवैषां संस्थायामङ्गिरो वह । वेदैरभिष्टुतो लोको नानावेशापराजितः । १५ ॥ २४ ॥

कण्डिका २४ ॥ तपस्वी वैश्वानर से श्रद्धा में अङ्गिरा ऋषि की उत्पत्ति और वेदों का यज्ञों तथा ऋत्विजों से सम्बन्ध ॥

(तपस्वी वैश्वानरः अपत्यम् ईप्सन् तपसा श्रद्धार्यां रेतः सिपिचे, ततः यज्ञे ऋषेः लोकजित् सोमजम्भाः ऋषिः अङ्गिराः सम्बभूव १) तपस्वी [ऐश्वर्यवान्] वैश्वानर [सब के नेता परमेश्वर] ने संतान की इच्छा करते हुये तप से श्रद्धा [सत्य धारण करने की शक्ति वा भक्ति] में बीज सींचा [सामर्थ्य दिया], तब यज्ञ [सत्कर्म] में उस ऋषि [सन्मार्गदर्शक परमात्मा] से लोकों को जीतने वाला, सोम [अमृत] का भक्षण कराने हारा ऋषि [सन्मार्गदर्शक] अङ्गिरा [ज्ञानवान् वेद] उत्पन्न हुआ । १ । (यः ऋषेः चतुर्विधस्य यज्ञस्य श्रेयसीं श्रद्धाम् अमुं लोकं जिगाय, यस्मै सोमविन्दुयुक्ताः प्रसृताः वेदाः सुकृताम् उ लोकं वहन्ति २) जिस [वैश्वानर] ने ऋषि [सन्मार्गदर्शक] चार प्रकार के यज्ञ की अति श्रेष्ठ श्रद्धा को उस लोक [सर्वत्र प्रसिद्ध स्थान] से जीता था, और जिस [वैश्वानर परमेश्वर] के लिये सोम [अमृत वा मोक्ष] के विन्दु से युक्त प्रसिद्ध वेद [पुण्यात्माओं को] सुकर्मियों के ही लोक में पहुंचाते हैं । २ । (अस्य प्रमुदः मोदमानाः ऋचः उक्थशस्त्रैः ग्रहैः हविर्भिः च चतुरः भागान् वहन्ति । ३ । यजूंषि तावत् कृताकृतः च औदुम्बर्यां सामघोषेण सविष्टुतिभिः स्तोमैः चतुरः भागान् वहन्ति, सामानि छन्दसा गीत्या स्तोमेन प्रस्तावेन सह च चतुरः भागान् वहन्ति ४) उस [वैश्वानर परमात्मा] की आनन्दो को बढ़ाने वाली ऋचायें [पदार्थों की गुणसूचक विद्यायें] उक्थों, शस्त्रों, ग्रहों [लेने योग्य पदार्थों] और हवियों [देने योग्य वस्तुओं, इन चारों] से चार भागों को पहुंचाती हैं । ३ । यजुर्वेद मन्त्र [संगतिकरण विद्यायें] तो

२४—(श्रद्धायाम्) श्रत् सत्यं-निघ० ३ । १० । पिदूमिदादिभ्योऽङ् । पा० ३ । ३ । १०४ । श्रत् + दधातेः—अङ्, टाप् । श्रद्धा श्रद्धानाद्—निरु० ६ । ३० । सत्यधारणशक्तौ । भक्तौ (रेतः) बीजम् । सामर्थ्यम् (तपस्वी) ऐश्वर्यवान् (वैश्वानरः) स्वार्थे—अण्, दीर्घश्च । विश्वेषां नरो नेता (सोमजम्भाः) गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च । उ० ४ । २२७ । सोम + जग्मि

किये हुये और न किये हुये [मन में विचारें हुये] कर्मों से, और उदुम्बर [गूलर] की बनी चौकी पर सामवेद [मोक्षविद्या] से, और विशेष स्तुतियों सहित स्तोमों [इन चारों] से चार भागों को पहुंचाते हैं, और सामवेद मन्त्र [मोक्ष विद्यार्थें] छन्द [आह्लादक कर्म], गीति [गान विद्या], स्तोम और प्रस्ताव के सहित [इन चारों से] चार भागों को पहुंचाते हैं । ४ । (प्रमुदः मोदमानाः अथर्वाणः अङ्गिरसः च प्रायश्चित्तैः भेषजैः संस्तवन्तः शान्ताः [सन्तः] असंसृष्टान् चतुरः भागान् वहन्ति ब्रह्मा ब्रह्मत्वेन + वर्तते ५) और आनन्दों को बढ़ाने वाले अथर्व अङ्गिरा [निश्चल परमात्मा के अथर्ववेद सहित चारों वेद] प्रायश्चित्तों [पाप दूर करने के उपायों] और ओषधियों से संस्तव रखते हुये और शान्तियुक्त होते हुये [इन चारों से] चार भागों को पहुंचाते हैं, [तब ही] ब्रह्मा [चारों वेद जानने वाला] ब्रह्मा पद के साथ [वर्तमान होता है] । ५ ।

(यः ब्रह्मवित्, सः अभिकरः अस्तु शिवः धीरः धिया वः एतं धर्मं रक्षतु, कर्मात् च अमृतात् यज्ञात् च प्रमत्तां मा वः, येन अनङ्गिरसः अपि यासीत् ६) जो [ब्रह्मा] ब्रह्म जानने वाला है वह सब प्रकार काम करने वाला होवै, और वह कल्याणकारी धीर पुरुष निश्चल बुद्धि से तुम्हारे लिये इस धर्म की रक्षा करे, और वह कर्म को नित्य प्राप्त होने वाला [पुरुषार्थी] अमर परमात्मा और यज्ञ [पूजनीय कर्म] से पृथक् होकर प्रमाद [भूल] न स्वीकार करे, जिस से वह वेद विरोधी पुरुषों को निन्दा से प्राप्त करे । ६ । (आयुं मा दशम्, ताः मा रुशः, मा प्रमेष्ठाः लोकान् विदहाथ, मे भूः युक्ता + स्यात्, दिव्यं भयं कलाश-स्तुतिगोपलायनं धर्मम् उद्यतं यज्ञं रक्षत ७) [हे ब्रह्मन्] मनुष्य को मत काट,

मैथुने जृम्भणे नाशोच—असि । सोमस्य अमृतस्य जम्भो भक्षणं यस्मात् सः । जम्भो भक्ष्ये दन्ते च (ऋषेः) ऋषिर्दर्शनात्—निरु० २ । ११ । सन्मार्गदर्शकस्य (ऋषिः) सन्मार्गदर्शकः (अङ्गिराः) ज्ञानवान् । वेदः । वेदवेत्ता (श्रेयसीम्) अतिप्रशस्ताम् (जिगाय) जितवान् (सोमविन्दुयुक्ताः) अमृतविन्दुयुक्ताः (वहन्ति) प्रापयन्ति (सुकृताम्) सुकर्मिणाम् (प्रमुदः) आनन्दान् (मोद-मानाः) वर्धयमानाः (ग्रहैः) ग्राह्यपदार्थैः । यज्ञपात्रैः (हविर्भिः) दातव्यपदार्थैः (कृताकृतः) कृताकृतैः । कृतैः सम्पादितैः अकृतैः असंपादितैः मनसि विचारि-तैश्च कर्मभिः (औदुम्बर्याम्) उदुम्बरनिर्मितायामासन्दयाम् (सामघोषेण) सामगानध्वनिना (संस्तवन्तः) संस्तव—शतृ । संस्तवं सम्यक्स्तुतिं कुर्वन्तः (शान्ताः) शान्तियुक्ताः (असंसृष्टान्) असंयुक्तान् । पृथक् पृथग्भूतान् (अभि-

उन [प्रजाओं] को मत सता और मत मार, लोकों की रक्षा कर, मेरे लिये भूमि अनुकूल [होवे], दिव्य [व्यवहार में होने वाले] भय से गते पहुंचाने वाले पुरुषार्थी पुरुष के स्थिति योग्य कर्म से भूमि के पालन मार्ग को बताने वाले धर्म और प्रस्तुत यज्ञ की रक्षा कर । ७ ।

(होता, मैत्रावरुणः च अच्छावाकः च ग्रावस्तुता सह एकं पादम् ऋग्भिः अहरहः स्तुवन्तः पृथिव्याः अग्निं पादं ब्रह्मणा धारयन्ति ८) होता, मैत्रावरुण अच्छावाक् ग्रावस्तुत् के सहित [यह चारो ऋत्विज] एक [अद्वितीय] प्राप्ति के योग्य [आदि मूल परमात्मा] की ऋग्वेद मन्त्रों [पदार्थों की गुण सूचक विद्याओं] से दिन दिन स्तुति करते हुये पृथिवी के अग्निरूप पाद [स्थिति गुण] को ब्रह्मज्ञान से धारण करते हैं । ८ । (अध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता नेष्टा उन्नेता एकं निहितं पादं यजुषा सं स्तुवन्तः अन्तरिक्षं वायुं पादं ब्रह्मणा धारयन्ति ९) अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता [यह चारो ऋत्विज] एक दृढ़ प्राप्ति योग्य [आदि मूल परमात्मा] की यजुर्वेद [संगतिकरण विद्या] से स्तुति करते हुये अन्तरिक्ष में वायु रूप पाद [स्थिति गुण] को ब्रह्मज्ञान से धारण करते हैं । ९ । (साम्ना छादयन्त उद्गाता प्रमत्तः औदुम्बर्यां सगद्गद्ः स्तोभदेयः, विद्वान् प्रस्तोता, अथ सुब्रह्मण्यः प्रतिहर्ता सुष्टुतिं विदहाथ, साम्ना एकं निहितं [पादं] निस्तुवन्तः दिवि सूर्यं पादं ब्रह्मणा धारयन्ति १०) साम गान से बल प्राप्त करने हारा उद्गाता औदुम्बरी [उदुम्बर, गूलर की बनी हुई चौकी] पर प्रसन्न चित्त

करः) सर्वतः कर्मकर्ता (मा वः) मा वृणोतु । मा स्वीकरोतु (अमृतात्) मरणशून्यात् परब्रह्मणः (प्रमत्ताम्) प्रमत्तताम् । प्रमादम् । चित्तविक्षेपम् (कर्मात्) कर्म + अत सातत्यगमने—किप् । कर्मप्रापकः । कर्मकर्ता (अनङ्गिरसः) वेदविरोधिनः पुरुषान् (अपियासीत्) अपि निन्दया प्राप्नुयात् । तिरस्कुर्वात् (आयुम्) छन्दसीणः । उ० १ । २ । इण् गतौ—उण् । मनुष्यम्—निघ० २ । ३ (मा दशम्) दन्श दंशने—लङ्, पुरुषव्यत्ययः । मा दंशतु । मा खण्डयतु (मा रुशः) मा हिंसीः । मा दुःखय (मा प्रमेष्ठाः) मीङ् हिंसायाम्—लुङ् । मा नाशय (भूः) भूमिः (युक्ता) अनुकूला भवेत् (विदहाथ) दह रक्षणे दाहे दीप्तौ च—लेट्, व्यत्ययेन बहुवचनम् । विविधं रक्ष (दिव्यम्) व्यवहारभवम् (कलाशस्तुतिगोपलायनम्) कल गतौ—वञर्थे क + अश् व्यप्तौ संघाते च—अण् + स्तुति + गो + पल रक्षणे—अप् + अथ गतौ—त्युट् । कलाशस्य गतिप्रापकस्य पुरुषार्थिनः पुरुषस्य स्तुत्या स्तुत्यक्रियया भूमिपालनमार्गो यस्मात् तम्

गद्गद [अव्यक्त शब्द] सहित स्तोम [इडा, हुइ आदि अर्थशून्य गान आदि के स्वर पूरे करने वाले शब्द] का देने वाला, विद्वान् प्रस्ताता, और अच्छे प्रकार ब्रह्मज्ञान में निपुण जो यज्ञ में सुन्दर स्तुति की रक्षा करे, वे [यह चारों] साम-वेद [मोक्षविद्या] से एक स्थिर परमात्मा की निरन्तर स्तुति करते हुये प्रकाश मण्डल में सूर्य रूप पाद [स्थिति गुण] को ब्रह्मज्ञान से धारण करते हैं । १० । (एकं ह ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसिनः, पोत्रा सह आग्नीध्रः एकं निहितं पादम् अथ-र्वभिः अङ्गिरोभिः च [निस्तुवन्तः] अण्डु गुप्तः चन्द्रं पादं ब्रह्मणा धारयन्ति ११) अकेला ही ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, और पोता के सहित आग्नीध्र [यह चारो] प्राप्ति के योग्य [आदि मूल परमात्मा] को निश्चल ब्रह्मज्ञानों [चारों वेदों] से [निरन्तर स्तुति करते हुये—श्लो० १०] जल में रक्षित चन्द्रमा रूप पाद [स्थिति गुण] को ब्रह्मज्ञान से धारण करते हैं । ११ ।

(पृथक् चतुर्धा वेदेषु युक्ताः होत्रकाः च षोडशिकम् अभिष्टुवन्ति, मनीषिणः दीक्षिताः श्रद्धधानाः गुप्ताः होतारः यज्ञम् अभिवहन्ति १२) और अलग अलग चार प्रकार से वेदों में युक्त सहायक ऋत्विज लोग षोडशी [सोलह ऋत्विज रखने वाले परमात्मा—श्लो० ८—११] को सब ओर से स्तुति करते हैं, बुद्धिमान्, दीक्षा पाये हुए, सत्य धारण करने वाले, रक्षा किये हुये होता लोग यज्ञ को सब ओर पहुंचाते हैं । १२ । (दक्षिणतः जनत् इति पतां ब्रह्मणस्यां व्याहृतिं जपन् विदुः तं सप्तदशं सदस्यं पुरा कीर्तयन्ति १३) दक्षिण की ओर

(पादम्) पद स्थैर्ये गतौ च—घञ् । स्थितिस्थानम् । आदिमूलं परमात्मानम् (धारयन्ति) रक्षन्ति (निहितम्) स्थापितम् । स्थितं । नितरां हितम् (छादयन्त) छद् बलाधाने जीवने संवरणे च—शतृ, आर्ष रूपम् । छदन् । बलं धारयन् (प्रमत्तः) प्रहृष्टः (स्तोमदेयः) ष्टुभ स्तम्भने—घञ् । इडा, होइ प्रभृतयः, अर्थशून्यस्य गानादिस्वरपरिपूर्णार्थस्य स्वरभेदस्य दाता (सगद्गदः) गद्गददेन अव्यक्तशब्देन सहितः (सुब्रह्मण्यः) सुब्रह्मणि सुष्ठु ब्रह्मज्ञाने साधुः (दिवि) प्रकाशे (ब्राह्मणाच्छंसिनः) आर्ष बहुवचनम् । ब्राह्मणाच्छंसी । ऋत्विग्विशेषः (गुप्तः) गुप्तं रक्षितम् (षोडशिकम्) षोडशिन-कन् स्वार्थे । शोडशिनम् । षोडशभिः ऋत्विग्विभिर्युक्तम् (होत्रकाः) ऋत्विग्विशेषाः (मनीषिणः) कृतभ्यामीपन् । उ० ४ । २६ । मनु अवबोधने—ईपन्, टाप् । मनीषा प्रज्ञाऽस्यास्ति—इति । मेधाविनः—निघ० ३ । १५ । (ब्रह्मणस्याम्) ब्राह्मण + स्यम वितर्के—ड—टाप् । आर्षो ह्रस्वः । ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानस्य वितर्कयित्रीं

जनत् [सब का जनक परमात्मा है] इस ब्रह्मज्ञान का विचार कराने वाली व्याहृति को जपता हुआ विद्वान् [ऋत्विज] उस सत्रहवें सदस्य [सभा में योग्य यजमान] को पहिले बखानता है । १३ । (दीक्षितानाम् अष्टादशी दीक्षिणी इह यज्ञे श्रद्धधाना युक्ता पत्नी [अस्ति], एकोनविंशः शमिता, विंशः सुन्वन् गृहपतिः एव यज्ञे वभूव १४) दीक्षित पुरुषों में अठारहवीं दीक्षा पाई हुई, सत्य धारण करती हुई, योग्य पत्नी [यजमान की स्त्री] इस यज्ञ में [होती है], उन्नीसवां शमिता [शान्ति करने वाला ऋत्विज] और बीसवां सोमरस निचोड़ता हुआ गृहपति [गृह कार्य सुधारने वाला पुरुष] यज्ञ में होता है [१४] । (एकविंशतिः एव अङ्गिरः एषां संस्थायाम् वह, वेदैः अभिष्टुतः लोकः नानावेशा पराजितः १५) इक्कीसवां हि तू, हे अङ्गिरा ! [वेदवेत्ता पुरुष] इन [वेदों] की व्यवस्था में लेचल, वेदों [वैदिक कर्मों] से सर्वथा स्तुति किया गया मनुष्य अनेक कपट रूप वालों से विना हराया गया होता है । १५ ॥ २४ ॥

भावार्थ—यह कण्डिका श्लोकबद्ध है । श्रद्धालु, वेदविहित कर्मों में निपुण ऋत्विज और यजमान आदि सब लोग मिल कर यज्ञ को भली भाँति सिद्ध करते हैं ॥ २४ ॥

कण्डिका २५ ॥

सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञाः हविर्यज्ञाः सप्त तथैकविंशतिः । सर्वे ते यज्ञा अङ्गिरसाऽपि यन्ति नूतना यानृपयो सृजन्ति ये च सृष्टाः पुराणैः । १ । एतेषु वेदेष्वपि चैकमेवापन्नजमृत्विजां सम्भरन्ति । कूटस्तृपात् सचते तामशस्तं विस्कन्धमेनं विधृतं प्रजासु । २ । निवर्त्तन्ते दक्षिणा नीयमानाः सुते सोमे वितते यज्ञतन्त्रे । मोघाशिषो यन्त्यनिवर्त्तमाना अनिष्टयज्ञा न तरन्ति लोकान् । ३ । द्वादशवर्षं ब्रह्मचर्यं पृथग्वेदेषु तत् स्मृतम् । एवं व्यवस्थिता वेदाः सर्व एव स्वकर्मसु । ४ । सन्ति चैषां समानाः मन्त्राः कल्पपाश्च ब्राह्मणानि च । व्यवस्थानन्तु तत्सर्वं पृथग्वेदेषु तत् स्मृतम् । ५ । ऋग्वेदस्य पृथिवी स्थानमन्तरिक्षस्थानो

विचारयित्रीम् (सदस्यम्) सदासि साधुं यजमानम् (कीर्तयन्ति) कीर्तयन्ति । प्रसिद्धीकुर्वन्ति (पुरा) प्रथमम् (विदुः) विदुः ज्ञाने—कु । विद्वान् (दीक्षिती) दीक्षा—इतच्, डीप् । प्राप्तदीक्षा (शमिता) शान्तिकर्ता (सुन्वन्) सोमं निष्पादयन् (एकविंशतिः) एकविंशः (संस्थायाम्) व्यवस्थायाम् (नानावेशापराजितः) विविधकपटरूपिभिः अपराजितः अतभिभूतः ॥

अध्वरः । द्यौः स्थानं सामवेदस्यापो भृग्वङ्गिरसां स्मृतम् । ६ । अग्निर्देवत ऋग्वे-
दस्य यजुर्वेदो वायुर्देवतः । आदित्यः सामवेदस्य चन्द्रमा वैद्युतश्च भृग्वङ्गिरसाम्
। ७ । त्रिवृत् स्तोम ऋग्वेदस्य यजूंषि पञ्चदशेन सह जज्ञिरे । सप्तदशेन सामवेद
एकविंशो ब्रह्मसम्मितः । ८ । वागध्यात्ममृग्वेदस्य यजुषां प्राण उच्यते । चक्षुषी
सामवेदस्य मनो भृग्वङ्गिरसां स्मृतम् । ९ । ऋग्भिः सह गायत्रं जागतमाहुर्यजूंषि
त्रैष्टुभेन सह जज्ञिरे । उष्णिक् क्रुक्कुब्भ्यां भृग्वङ्गिरसो जगत्या सामानि कवयो
वदन्ति । १० । ऋग्भिः पृथिवीं यजुषाऽन्तरिक्षं साम्ना दिवं लोकजित् सोम-
जम्भाः । अथर्वभिरङ्गिरोभिश्च गुप्तो यज्ञश्चतुष्पाद् दिवमुद्रहेत । ११ । ऋग्भिः
सुशस्तो यजुषा परिष्कृतः सविष्टुनः सामजित् सोमजम्भाः । अथर्वभिरङ्गिरो-
भिश्च गुप्तो यज्ञश्चतुष्पाद्विवमारुरोह । १२ । ऋचो विद्वान् पृथिवीं वेद सम्प्रति
यजूंषि विद्वान् बृहदन्तरिक्षम् । दिवं वेद सामगो यो विपश्चित् सर्वान् लोकान्
यद्भृग्वङ्गिरोवित् । १३ । यांश्च ग्रामे यांश्चारण्यं जपन्ति मन्त्रान् नानार्थान्
बहुधा जनासः । सर्वे ते यज्ञा अङ्गिरसोऽपियन्ति नूतना सा हि गतिर्ब्रह्मणो या-
ऽवरार्था । १४ । त्रिपिष्टरन्त्रदिवन्नाकमुत्तमं तमेतया त्रय्या विद्ययेति । अत
उत्तरे ब्रह्मलोका महान्तोऽथर्वणामङ्गिरसाश्च सा गतिरथर्वणामङ्गिरसाश्च सा
गतिरिति ब्राह्मणम् । १५ ॥ २५ ॥

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणपूर्वभागे पञ्चमः प्रपाठकः समस्तः ॥ ५ ॥

समाप्तमिदं गोपथब्राह्मणपूर्वार्द्धम् ।

**कण्डिका २५ ॥ ऋग्वेद आदि चारों वेदों के स्थान तथा देवता
आदि का वर्णन और यह कि चारो वेद ही त्रयी विद्या हैं ॥**

(सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञाः तथा सप्त हविर्यज्ञाः, एकविंशतिः,
ते सर्वे यज्ञाः अङ्गिरसः अपि यन्ति, यान् नूतनाः ऋषयः सृजन्ति ये च पुराणैः
सृष्टाः १) सात सुत्या और सात पाक यज्ञ और सात हविर्यज्ञ यह सब इक्कीस
[क० २३] यज्ञ अङ्गिराओं [वेदज्ञानियों] को प्राप्त होते हैं, जिन [यज्ञों] को
नवीन ऋषि [सन्मार्गदर्शक लोग] उत्पन्न करते हैं और जो पुराने [ऋषियों]
करके उत्पन्न किये गये हैं । १ । (एतेषु वेदेषु अपि च ऋत्विजाम् एकम् एव

२५—(अङ्गिरसः) वेदज्ञानिनः पुरुषान् (अपि यन्ति) प्राप्नुवन्ति (अप-
व्रजम्) अप+व्रज गतौ—घञर्थे क । श्रेष्ठपन्थानम् (कूटः) कूट दाहे मन्त्रणे
प्रच्छादने च—घञ् । निश्चलः (तृपात्) त्रिलोकव्यापकः परमेश्वरः (सचते)

अपव्रजं सम्भरन्ति, कूटः तृपात् प्रजासु विधृतं ताम् एणम् अशस्तं विष्कन्धं सचते २) और इन वेदों में ही ऋत्विजों के बीच एक ही श्रेष्ठ मार्ग को वे [यज्ञ] यथावत् पुष्ट करते हैं, कूट तृपात् [निश्चल, तीन लोकों में व्यापक परमात्मा] प्रजाओं में विविध प्रकार रखे हुये उस और इस विनीत विशेष वृक्ष [रूप जीवात्मा] को सींचता है । २ । (नीयमानाः दक्षिणाः सोमो लुते यज्ञतन्त्रे वितते निवर्तन्ते, अनिवर्तमानाः मोघाशिषः यन्ति अनिष्टयज्ञः लोकान् न तरन्ति ३) लायी गयीं दक्षिणायें सोम निचोड़ने पर और यज्ञ विस्तार फैल चुकने पर सिद्ध होती हैं, बिना सिद्ध हुई [दक्षिणायें] निरर्थक फलों को प्राप्त होती हैं और प्रतिकूल यज्ञ लोगों को नहीं पार करते हैं । ३ । (तत् द्वादशवर्षं ब्रह्मचर्यं पृथक् वेदेषु स्मृतम्, एवं सर्वे एव वेदाः स्वकर्मसु व्यवस्थिताः ४) इस लिये बारह वर्ष वाला ब्रह्मचर्य अलग अलग वेदों में कहा गया है, इस प्रकार से सभी वेद अपने अपने कामों में व्यवस्थित हैं । ४ । एषां च मन्त्राः कल्पाः च ब्राह्मणानि च समानाः सन्ति, तत् तत् सर्वं व्यवस्थानं तु पृथक् वेदेषु स्मृतम् ५) और इन [वेदों] के मन्त्र, कल्प [यज्ञविधान] और ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानविधान] समान [एकमोक्ष प्रयोजन वाले] हैं, वह वह सब व्यवस्था तौ अलग अलग वेदों में बतायी गयी है । ५ ।

(ऋग्वेदस्य पृथिवीस्थानं अन्तरिक्षस्थानः अध्वरः, सामवेदस्य द्यौः स्थानम्, भृग्वङ्गिरसाम् आपः स्मृतम् ६) ऋग्वेद [पदार्थों की स्तुति विद्या] का पृथिवी [भूमिविद्या] स्थान है, अन्तरिक्ष [मध्यलोक विद्या] का स्थान वाला अध्वर [हिंसारहित यजुर्वेद अर्थात् संगति हरण विद्या] है, सामवेद [मोक्षविद्या] का द्यौ [प्रकाश विद्या] स्थान है, और भृगु अङ्गिराओं [परिपक्व ज्ञानवाले अथर्ववेद मन्त्रों] का जल [स्थान] कहा गया है । ६ । (ऋग्वेदस्य अग्निः देवता यजुर्वेदः वायुदेवतः, सामवेदस्य आदित्यः, भृग्वङ्गिरसां च वैद्युतः

सिञ्चति । वर्धयति (ताम्) तम् (अशस्तम्) धृषिशसी वंयात्ये । पा० ७ । २ । १६ । शसु हिंसायां—क । अविनयशून्यम् । अशस्तम् । विनीतम् (विष्कन्धम्) वि + स्कन्दिर् गतिशोषणयोः—घञ् । विशेषेण वृक्षरूपं जीवात्मानम् (निवर्तन्ते) सिद्ध्यन्ति (मोघाशिषः) निरर्थकफलानि (अनिवर्तमानाः) अनिष्पाद्यमानाः (तरन्ति) तारयन्ति । पारयन्ति (समानाः) एकप्रयोजनाः (द्यौः) प्रकाशः (आपः) जलानि (वैद्युतः) विविधप्रकाशयुक्तः (त्रिवृत्) त्रिषु कर्मोपासनाज्ञानेषु वर्तमानः (उष्णिक्कुक्कुब्भ्याम्) ऋत्विग्दधृक् सक्० । प्रा० ३ । २ । ५६ ।

चन्द्रमाः ७) ऋग्वेद [पदार्थों की स्तुति विद्या] का अग्नि [अग्नि विद्या] देवता है, यजुर्वेद [संगतिकरण विद्या] वायु [पवन विद्या] देवता वाला है, सामवेद [मोक्षविद्या] का सूर्य, और भृगु अङ्गिराओं [परिपक्व ज्ञान वाले अथर्ववेद मन्त्रों] का विविध प्रकाश वाला चन्द्रमा [आनन्दप्रद विद्या देवता] है । ७ ।

ऋग्वेदस्य त्रिवृत् स्तोमः [जज्ञे], पंचदशेन सह यजूंषि जज्ञिरे, सप्तदशेन सामवेदः, एकविंशः ब्रह्मसंमितः ८) ऋग्वेद [पदार्थों की स्तुति विद्या] का त्रिवृत् [तीन कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान] स्तोम [उत्पन्न हुआ], पंचदश [स्तोम—कण्डिका १५] के सहित यजुर्वेद मन्त्र [संगतिकरण विद्यायें] उत्पन्न हुये, सप्तदश [स्तोम—क० १५] के सहित सामवेद [मोक्ष विद्या], और एकविंश [स्तोम—क० १५] ब्रह्मवेद [अथर्ववेद] में माना गया है । ८ । (ऋग्वेदस्य अध्यात्मं वाक्, यजुषां प्राणः उच्यते, सामवेदस्य चक्षुषी, भृग्वङ्गिरसां मनः स्मृतम् ६) ऋग्वेद का अध्यात्म [आत्मा संबन्धी ज्ञान] वाणी और यजुर्मन्त्रों का [अध्यात्म] प्राण कहा गया है, सामवेद का [अध्यात्म] दो आँखें, और भृगु अङ्गिराओं [परिपक्व ज्ञान वाले अथर्ववेद मन्त्रों] का मन [अध्यात्म] कहा गया है । ६ । (ऋग्भिः सह गाधत्रं जागतम् आहुः, यजूंषि त्रैष्टुभेन सह जज्ञिरे, उष्णिक्कुकुब्भ्यां भृग्वङ्गिरसः, जगत्या सामानि कवयः वदन्ति १०) ऋग्वेद मन्त्रों के सहित गाने योग्य जगत् उपकारक कर्म को वे कहते हैं, यजुर्मन्त्र त्रैष्टुभ [तीन कर्म उपासना ज्ञान के धारण सामर्थ्य] के सहित उत्पन्न हुये, दो उष्णिक् [अति प्रीति] और ककुभ् [सुख धारण करने वाले शस्त्रों] के सहित भृगु अङ्गिराओं [परिपक्व ज्ञानवाले अथर्ववेद मन्त्रों] को और जगती [जगत् उपकारक विद्या] के सहित साम मन्त्रों [मोक्षज्ञानों] को बुद्धिमान्

उत् + षिण् प्रीतौ—स्नेहने च—क्विन् । क + ष्टुभ् रोधने धारणे च सौत्र धातुः—क्विप् । अतिप्रीतिसुखधारणशास्त्राभ्याम् (जगत्या) जगदुपकारक-क्रियया (कवयः) मेधाविनः (सामजम्भाः) क० २४ । सामभक्षणकारकः (दिवम्) स्वर्गम् । सूर्यम् (उद्बहेन) प्रापयेत् (सुशस्तः) सुप्रशस्तितः (आरु-रोह) आरोहयेत् (विद्वान्) विद्वन् । जानन् (सम्प्रति) सम्यक् प्रत्यक्षम् (ब्रह्मणः) ब्रह्मज्ञानस्य (अवराध्यां) अवर + अर्ध—यत् । अवराधे पश्चात्काले भवा । अर्धः खण्डे तुल्यांशे च (त्रिपिष्टम्) विष्टपविष्टपविशिपोलपाः । उ० ३ । १४५ त्रि + विश प्रवेशने—कपन्, वस्य पः प्रत्ययस्य तुट् च । त्रीणि शारीरिका-

कहते हैं । १० । (ऋग्भिः पृथिवीं यजुषा अन्तरिक्षं साम्ना दिवम्, अथर्वभिः अङ्गिरोभिः च गुप्तः चतुष्पात् लोकजित् सोमजम्भाः यज्ञः दिवम् उद्धहेत ११) ऋग्मन्त्रों से पृथिवी [विद्या] को, यजुर्वेद से अन्तरिक्ष [मध्यलोक विद्या] को, और सामवेद से सूर्य [विद्या] को [मनुष्य पावे], और अथर्व अङ्गिराओं [निश्चल ब्रह्म के अथर्ववेद मन्त्रों] से रक्षा किया गया, चतुष्पाद [चारों वेदों से चार पाँव वाला], संसार को जीतने वाला, सोम [अमृत] का भोग कराने वाला यज्ञ स्वर्ग को चढ़ावे । ११ । (ऋग्भिः सुष्मत्तः यजुषा परिष्कृतः सामजित् सवि-प्लुतः, अथर्वभिः अङ्गिरोभिः च गुप्तः चतुष्पात् सोमजम्भाः यज्ञः दिवम् आरु-रोह १२) ऋग्वेदमन्त्रों से भले प्रकार प्रशंसा किया हुआ, यजुर्वेद से प्रस्तुत किया हुआ और मोक्ष प्राप्त कराने वाले [सामवेद] से विविध स्तुति वाला [यज्ञ होवे], और अथर्व अङ्गिराओं [निश्चल ब्रह्म के अथर्ववेदमन्त्रों] से रक्षा किया गया, चतुष्पाद [चारों वेदों से चार पाँव वाला], सोम [अमृत] का भोग कराने वाला यज्ञ स्वर्ग को चढ़ावे । १२ ।

(ऋचः विद्वान् सप्रति पृथिवीं, यजूपि विद्वान् बृहत् अन्तरिक्षं वेद, सामगः यः विपश्चित् दिवं वेद, यत् भृगुङ्गिरोचिर् सर्वाङ्गं लोकान् १३) ऋग्मन्त्रों को जानने वाला ठीक प्रत्यक्ष पृथिवी को, यजुर्वेद मन्त्रों को जानने वाला बड़े अन्तरिक्ष [मध्यलोक] को जानता है, साम जाने वाला जो विद्वान् है वह सूर्यलोक को जानता है, और जो भृगु अङ्गिराओं [परिष्कृत जानवाले चारों वेदों] का जानने वाला है वह सब लोकों को [जानता है] । १३ । (याञ् च नानार्थान् मन्त्रान् ग्रामे यान् च अरण्ये जनासः बहुधा जपन्ति, ते सर्वे यज्ञाः अङ्गिरसो अपि यन्ति, ब्रह्मणः सा हि गतिः नूतना या अचराध्व्या १४) और जिन अनेक अर्थ वाले मन्त्रों को ग्राम में और जिन को वन में लोग प्रायः जपते हैं, वे सब यज्ञ अङ्गिराओं [वेदज्ञानियों] को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म [वेद वा परमात्मा] की वह ही गति नवीन है जो पिछले काल में वर्तमान [थी] । १४ । (त्रिदिष्टं त्रिदिवं तन् उत्तमं नाकम् एतया त्रय्या विद्यया पति, अतः उत्तरे महान्तः ब्रह्म-

त्मिकसामाजिकसुखानि विशन्ति यत्र तम् (त्रिदिवम्) इगुपधत्वात् दिव्य व्यवहारादिषु-क्तः । त्रयाणां धर्मार्थकामनां व्यवहारो यस्मिन् तम् (नाकम्) मोक्षसुखम् (त्रयाणां) त्रि + अयच्, डीप् । कर्मोपासनाज्ञानरूपया (एति) प्राप्नोति (अतः) अस्मान् कारणात् (उत्तरे) उत्कृष्टाः (ब्रह्मलोकः) सत्लोकः । नक्ष-वादिनः स्थानानि (य) अत्र शरणा ॥

लोकाः, अथर्वणाम् अङ्गिरसां च सा गतिः, अथर्वणाम् अङ्गिरसां च सा गतिः,
इति ब्राह्मणम् १५) इस लिये जो उत्कृष्ट और बड़े ब्रह्मलोक [ब्रह्मवादियों के
स्थान] हैं, अथर्व अङ्गिराओं [चारों वेद जानने वालों] की ही वह गति है,
अथर्व अङ्गिराओं [चारों वेद जानने वालों] की ही वह गति [पहुंच] है—यह
ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है । १५ । ॥ २५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि वेदों द्वारा यज्ञों का विधान करके
आत्मोन्नति करें ॥ २५ ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
वाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्व-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित लक्ष्मणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्ये पूर्वभागे पंचमः प्रपाठकः समाप्तः ॥

समाप्तमिदं गोपथब्राह्मणम् पूर्वार्धम् ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे आश्विनमासे शुक्लदशम्यां तिथौ १९८०
[अशीत्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-
महायशस्वि श्री राजराजेश्वर पञ्चम जार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये
सुसमाप्तिमगात् ।

मुद्रितः—श्रावणशुक्ला ५ संवत् १९८१ वि० ता० ५ अगस्त सन् १९२४ ई० ॥

ओ३म् ॥

अथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणम् ॥

॥ उत्तरभागः ॥

—:०:—

प्रथमः प्रपाठकः ।

कण्डिका १ ॥

अथ यद् ब्रह्मसदनात् तृणं निरस्यति शोधयत्यैवं तदथोपविशतीदमहम-
र्वाग्वसोः सदन सीदामीत्यर्वाग्वसुर्ह वै देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराणां तमेवैतत्
पूर्वं सादयत्यरिष्टं यज्ञन्तनुनादित्यथोपविश्य जपति बृहस्पतिर्ब्रह्मेति बृहस्पतिर्वा
आङ्गिरसा देवानां ब्रह्मा तस्मिन्नेवंतदनुज्ञामिच्छति प्रणीतासु प्रणीयमानासु वाच
यच्छ्रुत्या हविष्कृत उद्वादनादेतद्वै यज्ञस्य द्वारं तदेतदशून्यं करोतीष्टं च स्विष्टकृ-
त्यानुयाजानां प्रसवादित्येतद्वै यज्ञस्य द्वितीयं द्वारं तदेवैतदशून्यं कराति यत्
परिधयः परिधीयन्ते यज्ञस्य गोपीथाय परिधीन् परिधत्ते यज्ञस्य सात्मत्वाय
परिधीन् संमार्ष्टि पुनात्येवं तं त्रिर्मध्यम त्रय इमे प्राणाः प्राणानेवाभिजयति
त्रिर्दक्षिणार्द्धं त्रयो वै लोका लोकानेवाभिजयति त्रिरुत्तरार्द्धं त्रयो वै देवलोका
देवलोकानेवाभिजयति त्रिरुप वा जयति त्रयो वै देवयानाः पन्थानस्तानेवाभिज-
यति ते वै द्वादश भवन्ति द्वादश हा वै मासाः संवत्सरः संवत्सरमेव तेन
प्रीणात्यथो संवत्सरमेवात्मा उपदधाति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ यज्ञ में ब्रह्मा का आसन, प्रणीतापात्र

और परिधियां ॥

(अथ यत् ब्रह्मसदनात् तृणं निरस्यति तत् एनम् एव शोधयति) अब
जब ब्रह्मा के स्थान से तिनके को वह [यजमान] फेंकता है, वह तब इस
[यज्ञगृह] को शुद्ध करता है । (अथ उपविशति, इदम् अहम् अर्वाक् वसोः
सदने सीदामि इति, अर्वाग्वसुः ह वै देवानां ब्रह्मा, पराग्वसुः असुराणाम्)

१—(ब्रह्मसदनात्) ब्रह्मणः प्रधानयाजकस्य गृहात् (अर्वाक्) समीपे
(वसोः) यज्ञस्य (अर्वाग्वसुः) समीपनिवासी पुरुषः (देवानाम्) विदुषाम्

फिर वह [ब्रह्मा] बैठता है [इदम् अहम्...इति] यह मैं समीप वर्तमान यज्ञ के घर में बैठता हूँ—[वह यह ब्राह्मण वचन बोलता है] समीपनिवासी पुरुष ही देवों [विद्वानों] का ब्रह्मा होता है और दूरनिवासी पुरुष असुरों का [ब्रह्मा होता है] । (एतत् तम् एव पूर्वं सादयति अरिष्टं यज्ञं तनुतात् इति) इस से उस को ही पहिले वह [यजमान] बिठलाता है—वह निर्विघ्न यज्ञ को विस्तृत करे । (अथ उपविश्य जपति, बृहस्पतिः ब्रह्मा इति) फिर वह बैठकर [यह ब्राह्मण वचन] जपता है—बृहस्पति [बड़ी पड़ी विद्याओं का स्वामी] ब्रह्मा है । (आङ्गिरसः बृहस्पतिः वै देवानां ब्रह्मा, तस्मिन् एव एतत् अनुज्ञाम् इच्छति) आङ्गिरस [चारोंवेद जानने वाला] बृहस्पति विद्वानों का ब्रह्मा है, उस [ब्रह्मा] में ही वह [यजमान] यह नियम चाहता है । (प्रणीतास्तु प्रणीयमानास्तु हविष्कृतः आ उद्वादनात् वाचं यच्छति) प्रणीताओं [यज्ञ में जलपात्रों] के लाये जाने पर हविष्कृत [हवि की आहुति मन्त्र] के उच्चारण तक वह [ब्रह्मा] वाणी को रोकता है । (एतत् वै यज्ञस्य द्वारं तत् एतत् अशून्यं करोति) यही यज्ञ का द्वार है, सो इस को वह अशून्य [परिपूर्ण वा निर्विघ्न] करता है । (स्विष्टकृति इष्टे च अनुयाजानाम् आ प्रसवात् इति एतत् वै यज्ञस्य द्वितीयं द्वारं तत् एव एतत् अशून्यं करोति) और स्विष्टकृत् [आहुति] दिये जाने पर अनुयाजों की उत्पत्ति तक [वाणी को रोकता है], यह ही यज्ञ का दूसरा द्वार है, सो इस को वह अशून्य [निर्विघ्न] करता है । (यत् परिधयः परिधीयन्ते यज्ञस्य गोपीथाय परिधीन् परिधत्ते) जो परिधिये [घेरे] चारों ओर किये जाते हैं, यज्ञ की भूमि की रक्षा के लिये वह परिधियों को रखता है । (यज्ञस्य सात्मत्वाय परिधीन् संमार्ष्टि) और यज्ञ की चैतन्यता के लिये परिधियों को मार्जन करता है । (एनं मध्यमम् एव त्रिः पुनाति, त्रयः इमे प्राणाः, प्राणान् एव अभिजयति) इस मध्यम [परिधि] को तीन बार वह शुद्ध करता

(पराग्वलुः) दूरनिवासी पुरुषः (तम्) ब्रह्माणम् (अरिष्टम्) रिष हिंसायां-
क्त । अहिंसितं निर्विघ्नम् (तनुतात्) विस्तारयेत् (बृहस्पतिः) बृहतीनां
विद्वानां पालकः (आङ्गिरसः) चतुर्वेदवेत्ता (अनुज्ञाम्) नियमम् (प्रणीतास्तु)
यज्ञे जलपात्रविशेषेषु (यच्छति) नियमयति (आ) मर्याशायाम् (उद्वादनात्)
उच्चारणात् (अशून्यम्) अहीतम् । परिपूर्णम् (प्रसवात्) निष्पादनात् (परिधयः)
वेष्टनानि (गोपीथाय) निशीथगोपीथावगथाः । उ० २ । ६ । गो+पा रक्षणे
पा पाने वा—थक् । घुमास्थागापाजहातिसां हलि । पा० ६ । ४ । ६६ । आका-

हैं, [प्राण, अपान, उदान,] तीन प्राण हैं, प्राणों को ही वह जीतता है । (दक्षिणार्धं त्रिः, त्रयः वै लोकाः लोकान् एव अभिजयति) दाहिने भाग को तीन बार [वह शुद्ध करता है], तीन ही लोक [स्थान, नाम, जन्म वा जाति, तीन धाम—निरु० ६ । २८] हैं, लोकों को ही वह जीतता है । (उत्तरार्धं त्रिः, त्रयः वै देवल्लोकाः, देवल्लोकान् एव अभिजयति) उत्तर भाग को तीन बार [वह शुद्ध करता है], तीन ही [पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक] देवलोक हैं, देवलोकों को ही वह जीतता है । (त्रिः उप वा जयति, त्रयः वै देवयानाः पन्थानः तान् एव अभिजयति) और तीन बार समीप वाले [भाग] को वह जीतता है [शुद्ध करता है], तीन [कर्म, उपासना, ज्ञान,] ही विद्वानों के चलने योग्य मार्ग हैं, उन को ही वह जीतता है । (ते वै द्वादश भवन्ति, द्वादश ह वै मासाः संवत्सरः) वे [नव] ही वारह हैं, वारह ही महीने संवत्सर है । (तेन संवत्सरम् एव प्रीणाति, अथो आत्मा संवत्सरम् एव स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै उपदधाति) उस [कर्म] से ही संवत्सर को संतुष्ट करता है, और आत्मा [यह जीवात्मा] संवत्सर [समय] को ही स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिये उपकारी कर्ता है ॥ १ ॥

भावार्थ—प्राण आदि चार त्रिक वारह महीने वा संवत्सर अर्थात् समय के सूचक हैं । मनुष्य समय को उपयोगी बनाकर संसार में सुख भोगें ॥

कण्डिका २ ॥

प्रजापतिर्यं रुद्रं यत्नात्रिं गडत् सोऽकामयत मेऽयमस्मा आकृतिः समृद्धिर्यं वा यत्नात्रिं गडत् । न यजमस्यायस्यापि च न जाविर्द्रं निरुक्तत् तत् प्राशित्रमभवत्तदुदयकृत्त ह्वाय पर्य्यइरंस्तन्तीरत । तस्य चतुः परापतत् तस्मादाहुरन्वो वै नग इत्यपि रतं नेच्छुमिच्छति तत् सवित्रे पर्य्यइरंस्त र् प्रत्यगृह्णात् तस्य पाणी प्रतिच्छेद तस्यै हिरान्वयौ मत्तद्भुवनसाद्विण्यपाणिरिति स्तुत-

रस्य ईत्वम् । भूमिरक्षणाय । उलाश ॥ य (सात्मत्वाय) सजीवनत्वाय । वृद्धिकरणाय (संमार्ष्टि) सम्यक् शोययति (मध्यमम्) मध्ये वर्तमानं खण्डम् (त्रिः) त्रिवारम् (दक्षिणार्धम्) दक्षिणभागम् (उत्तरार्धम्) उत्तरभागम् (उप) उपार्धम् । समीपगतम् (जयति) पुनाति—इत्यर्थः (प्रीणाति) संतापयति (आत्मा) जीवात्मा (उपदधाति) उपकरोति (समष्ट्यै) सम + अशु व्याप्तौ—क्तिन् । सम्यक् प्राप्तये ॥

स्तत्पूष्णे पर्यहरंस्तत् प्राश्नात्तस्य दन्ताः परोप्यन्त तस्मादाहुरदन्तकः पूषा
पिष्टभाजन इति तदिध्मायाङ्गिरसाय पर्यहरंस्तत् प्राश्नात्तस्य शिरो व्यपतत् तं
यज्ञ एवाकल्पयत् स एष इध्मः समिधो ह पुरातनस्तद्वर्हय आङ्गिरसाय पर्यहरं-
स्तत्प्राश्नात्तस्याङ्गा पर्वाणि व्यश्रंसन्त तं यज्ञ एवाकल्पयत्तदेतद्वर्हिः प्रस्तरो ह
पुरातनस्तद्वृहस्पतय आङ्गिरसाय पर्यहरत् सोऽविभेत् वृहस्पतिरित्थं वा
मार्त्तिमाकृष्यसीति स एतं मन्त्रमपश्यत् सूर्यस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्ष इत्यब्रवीन्न
हि सूर्यस्य चक्षुः किञ्चन हिनस्ति सोऽविभेत् प्रतिगृह्णन्तं मा हिंसिष्यतीति देव-
स्यात्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणा हस्ताभ्यां प्रसूतः प्रशिषा प्रति-
गृह्णामीत्यब्रवीत्सवितृप्रसूत एवैनं तद्देवताभिः प्रत्यगृह्णात्तद्व्यूह्य तृणानि प्राग्द-
ण्डं अण्डिले निदधाति पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीति पृथिवी वान्तानां शम-
यित्री तयैवैतच्छ्रमयाञ्चकार सोऽविभेत्प्राश्नन्तं मा हिंसिष्यतीत्यग्नेष्ट्वास्येन प्राश्ना-
मीत्यब्रवीन्नह्यग्नेरास्यं किञ्चन हिनस्ति सोऽविभेत्प्राशितं मा हिंसिष्यतीतीन्द्रस्य
त्वा जठरे सादयामीत्यब्रवीन्नहीन्द्रस्य जठरं किञ्चन हिनस्ति वरुणस्योदर इति
नहि वरुणस्योदरं किञ्चन हिनस्तीति ॥ २ ॥

**कण्डिका २ ॥ प्रजापति का रुद्र को भागशून्य करना, प्राशिन्न
का वर्णन, भग सविता आदि का अङ्गभङ्ग होना और
वृहस्पति वा ब्रह्मा का शान्त करना ॥**

(प्रजापतिः वै रुद्रं यज्ञात् निरभजत्) प्रजापति [प्रजापालक जीवात्मा]
ने रुद्र [गति वा ज्ञान देने वाले परमेश्वर] को यज्ञ [संगति दिये हुये शरीर]
से भाग रहित कर दिया । (सः अकामयत मे अयम् आकूतिः समृद्धिः अस्मै,
यः मा यज्ञात् निरमाक्षीत् इति) उस [रुद्र] ने इच्छा की—मेरा यह संकल्प
और समृद्धि इस [प्रजापति] के लिये है, जिस ने मुझे यज्ञ से क्रोध करके
निकाल दिया है । (तत् सः यज्ञम् अभ्यायस्य आविद्य आविद्धं निरकृन्तत्, तत्
प्राशिन्नम् अभवत्) तब उस [रुद्र] ने यज्ञ को पकड़ कर छेद कर दिया और
छिदे हुये को काट डाला, वह [यज्ञ वा शरीर] प्राशिन्न [खाने योग्य अन्न]
हो गया । (तत् उदयकृत् भगाय तत् पर्यहरन्) तब उदयकृत [उदय वा यज्ञ

२—(प्रजापतिः) प्रजापालकः । जीवात्मा (रुद्रम्) रुगतौ शब्दे च—
किप् तुक् आगमः । मत्वर्थीयो रः, अथवा रा दाने-क । रुद्रोरौतीति सतो रोह्य-
माणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा । स च मध्यस्थानदेवता—निरु० १० । ५ । वायुं ।

करने वाले प्रजापति] ने भग [सेवनीय धन वा पेश्वर्य] को वह [प्राशित्र] लाकर दिया । (तत् प्रतीक्षेत) उस [भग] ने उसे देखा । (तस्य चक्षुः परापतत् तस्मात् आहुः अन्धः वै भगः इति, अपिहतं छेद्यं नेत् इच्छति) उस की आंख गिर पड़ी इस से कहते हैं—भग अन्धा है—उस ने नष्ट किये हुये और छिदे हुये को न ग्रहण किया । (तत् सवित्रे पर्यहरन्) वह सविता [लोक प्रेरक सूर्य] को उस ने लाकर दिया । (तत् प्रत्यगृह्णात्) वह उस [सविता] ने ले लिया । (तस्य पाणी प्रतिच्छेद) उसके दोनों हाथ कट पड़े । (तस्मै हिरण्यमयौ प्रत्यदधुः) उस के दोनों [हाथ] सोने के बने हुये उन्हां ने लगा दिये । (तस्मात् हिरण्यपाणिः इति स्तुतः) इस लिये—वह सोने के हाथ वाला है—ऐसा स्तुति किया जाता है । (तत् पूषणे पर्यहरन्) उसे पूषा [वृद्धि वा पुष्टि करने वाली पृथिवी] को उस ने लाकर दिया । (तन् प्राशनात्) वह उस ने खाया । (तस्य दन्ताः परोप्यन्त) उस के दांत गिर पड़े । (तस्मात् आहुः अदन्तकः पूषा पिष्ट-भाजनः इति) इस लिये लोग कहते हैं—बिना दांत वाला पूषा पिष्ट [पिसे हुये पिठी आदि अन्न] के योग्य है । (तन् आङ्गिरसाय इध्माय पर्यहरन्) उसे आङ्गिरस [विद्वानों के हितकारक] इधम [अग्नि प्रदीप्त करने वाले इन्धन] को उस ने लाकर दिया । (तत् प्राशनात्) उसे उस ने खा लिया । (तस्य शिरो व्यपतत्) उस का शिर गिर पडा । (तं यज्ञे एव अकल्पयत्) उस [प्राशित्र] को यज्ञ में ही उस ने समर्थ किया [पहुंचाया] । (सः एषः इधमः पुरातनः ह समिधः) वही यह इधम पहिले का समिध [काष्ठ] है । (तत् आङ्गिरसाय वर्हये पर्यहरन्) उसे आङ्गिरस [विद्वानों के हितकारक] वर्हि [आकाश वा जल] को उस ने लाकर दिया । (तत् प्राशनात्) वह उस ने खा लिया ।

प्राणगतिदातारं परमात्मानम् (यज्ञात्) संगतिकृतात् शरीरात् (निरभजत्) भागशून्यम् अकरोत् (अयम्) इयम् (आकृतिः) सङ्कलः (निरमाक्षीत्) मक्ष रोपे—लुङ् द्रीर्घः । रोपेण वहिष्कृतवान् (अभ्यायम्य) परिगृह्य (आविध्य) आ + व्यध ताडने छेदे च—ल्यप् । आच्छिद्य (आविद्धम्) आच्छिन्नम् (निरकृ-न्तत्) कृती छेदने—लङ् । सर्वथा छिन्नवान् (प्राशित्रम्) अशित्रादिभ्य इत्रोत्रौ । उ० ४ । १७३ । अशू व्याप्तौ—अश भोजने वा—इत्र । भक्षणीयम् । अन्नं । चरुम् (उदयकृत्) उत्पत्तिकर्ता । प्रजापतिः (भगाय) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । पा० ३ । ३ । ११८ । यद्वा । खनो घ च । पा० ३ । ३ । १२५ । भज सेवायाम्—घ । भगः, धननाम—निघ० २ । १० । पदनाम ५ । ६ । सेवनीयाय । यशसे ।

(तस्य अङ्गा पर्वाणि व्यश्रसन्त) उस के अङ्ग और जोड़ खिसक पड़े । (तं यज्ञे एव अकल्पयत्) उस [प्राशित्र] को यज्ञ में ही समर्थ किया [पहुंचाया] । (तत् एतत् वर्हिः पुरातनः ह प्रत्तरः) वह ही यह वर्हि पुरातन प्रत्तर [फैला हुआ पदार्थ वा पत्थर] है । (तत् आङ्गिरसाय वृहस्पतये पर्य्यहरत्) उसे आङ्गिरस [चारों वेद जानने वाले] वृहस्पति [बड़ी विद्याओं के स्वामी] को उस ने लाकर दिया । (सः वृहस्पतिः अविभेत्, इत्थं वा मा आर्तिम् आकृष्यसि इति) वह वृहस्पति डरा—इस प्रकार से ही वह मुझे पीड़ा करेगा । (सः एतं मन्त्रम् अपश्यत् अब्रवीत्, सूर्यस्य चक्षुपात्वा प्रतीक्षे इति) उस ने इस मन्त्र को देखा [विचारा] और कहा—(सूर्यस्य.....प्रतीक्षे) सूर्य [सर्वप्रेरक परमात्मा] के [दिये] चक्षु [दर्शन सामर्थ्य] से तुझ को देखता हूं [यह ब्राह्मण वचन है] । (सूर्यस्य चक्षुः किञ्चन नहि हिनस्ति) सूर्य [परमात्मा] के दर्शन सामर्थ्य को कोई भी नहीं नष्ट करता है । (सः अविभेत्, प्रतिगृह्णन्तं मा हिंसिष्यति इति) वह डरा—ग्रहण करते हुये तुझ को यह नष्ट कर देगा । (त्या देवस्य सवितुः प्रसवे अश्विनोः वाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां प्रशिषा प्रसूतः प्रतिगृह्णामि इति अब्रवीत्) तुझ को प्रकाशमान सविता [सर्वोत्पादक परमेश्वर] के बड़े ऐश्वर्य के बीच, दोनों अश्विनियों [सब विद्याओं में व्याप्त माता पिता] के दोनों भुजाओं से और पूषा [पोषक आचार्य] के दोनों हाथों और शिक्षा से प्रेरणा किया हुआ मैं ग्रहण करता हूं—यह [मन्त्र कुछ भेद से अथर्व० १६ । ५१ । २ । और यजु० २ । ११ का] वह बोला । (सवितृप्रसूतः एव एतं तत् देवताभिः पत्यगृह्णात्) सविता [परमात्मा] से प्रेरणा किये हुये उस ने ही इस [प्राशित्र] को देवताओं के सहित ग्रहण किया । (तत् प्राक् तृणानि

ऐश्वर्याय (पर्य्यहरन्) पर्य्यहरत् । पर्य्यानीतवान् (प्रतीक्षेत्) प्रत्यक्षेण ईक्षितवान् । दृष्टवान् (नेत्) निषेधे (छेद्यम्) छिन्नम् (सवित्रे) लोकप्रेरकाय सूर्याय (प्रतिच्छेद्) प्रतिच्छेद् (पूष्णे) श्वङ्गुलान्पूपन्० । उ० । १ । १५६ । पूष वृद्धौ अथवा पुष पुष्टौ—कनिन् । पूषा पृथिवीनाम—निघ० १ । १ । पदनाम—निघ० ५ । ६ पृथिव्यै (परोप्यन्त) परा + वप छेदने बीजसन्ताने च—कर्मणि लङ् । छिन्ना अभवन् (दन्ताः) हसिमृगिणांमिदमि० । उ० ३ । ८६ । दसु उपशमे दमने च—तन् । दशनाः (पिष्टभाजनः) पिष्ट + भाज पृथक्करणे—ल्युट् । पिष्टस्य चूर्णितस्य पिष्टकस्य योग्यः । (इध्माय) इषि युधीन्धिदसि० । उ० १ । १४५ । इन्धी दीप्तौ—मक् । इध्मः पदनाम—निघ० ५ । २ । इध्मः समिन्धनात्—निरु० ८ ।

व्यूह्य स्थण्डिले दण्डं निदधाति, त्वा पृथिव्याः नाभौ सीदयामि इति) तब पहिले तृणों को ठीक कर के चौरस स्थान पर दण्डे को वह गाड़ता है—तुझ को पृथिवी की नाभि में मैं स्थापित करता हूँ [यजुर्वेद १ । ११ का भाग है] । (पृथिवी वा अन्तानां शमयित्री, तथा एव एतत् शमयांचकार) और पृथिवी [सब का विस्तार करने वाला परमात्मा] ही रोगों का नाश करने वाला है, उस के ही द्वारा इस को उस ने शान्त किया । (सः अविभेत् प्राशनन्तं मा हिंस्रिष्यति इति) वह डरा—मुझ खाते हुये को यह मार डालेगा । (त्वा अग्नेः आस्येन प्राशनामि इति अग्रणीत्) तुझ को अग्नि [सर्व प्रकाशक परमेश्वर] के [दिये हुये] मुख से मैं खाना हूँ—[यह मन्त्र यजु० २ । ११ का अन्तिम पाद] वह बोला । (अग्नेः आस्यं किंचन नहि हिनस्ति) अग्नि [परमात्मा] के [दिये हुये] मुख को कोई नहीं नष्ट करता है । (सः अविभेत् प्राशितं मा हिंस्रिष्यति इति) वह डरा—खाया हुआ [प्राशित] गुत्ते मार डालेगा । (त्वा इन्द्रस्य जठरे सादयामि इति अग्रणीत्) तुझ को इन्द्र के [परम पेटवर्तमान परमेश्वर के दिये हुये] जठर [कंठ] में रखता हूँ—यह [आह्वय लक्षण] वह बोला । (इन्द्रस्य जठरं किंचन नहि हिनस्ति) तब [परमात्मा] के [दिये] जठर

४ । अग्निसन्दीपनाय काण्डाय (आह्विरवाय) अग्निरतो वेदज्ञाने हिताय (वर्हये) सर्वधातुभ्य इत् । उ० ४ । ११५ । वृहि वृद्धा—इत् नलोपः । वर्हिः, अन्तरिक्षम्—निघ०—१ । ३ । उदकम्—निघ० १ । १२ । वर्हिः परिवर्हिणात्—निघ० ६ । ६ । आकाशाय जलाय (व्यशंसन्त) खंसु अधःगतये—लङ्, अस्य शः । अधोऽपतन् (प्रस्तरः) विस्तृतः पापाणः (वृहल्पतये) वृहतीनां विद्यानां पालकाय । ब्रह्मणे (आह्विरवाय) चतुर्वेदवेत्त्रे (आतिम्) पीडाम् (आह्वयसि) समन्तात् करिष्यसि, करिष्यति (सूर्यस्य) सर्वप्रेरकस्य परमेश्वरस्य दत्तेन (चक्षुषा) दर्शनसामर्थ्येन (प्रतीक्षे) प्रत्यक्षं पश्यामि (हिनस्ति) नाशयति (देवस्य) प्रकाशमात्रस्य (सवितुः) सर्वात्पादकस्य । परमेश्वरस्य (शमवे) प्रकृष्टैश्वर्ये (अश्विनोः) सकलविद्याव्याप्तयोर्मातापित्रोः (बाहुरवायाम्) भुज्याः सकाशात् (पूषणः) पोषकस्य । आचार्य्यस्य (हस्ताभ्याम्) करयोः सकाशात् (प्रसूतः) प्रेरितः (प्रशिषा) शासु अनुशिष्टौ—क्षिप् । प्रकृष्टशालनेन (प्रतिगृह्णाति) स्वीकरोमि (व्यूह्य) विधिं समूह्य (प्राक्) प्रथमम् (स्थण्डिले) मिथिलाद्यश्च । उ० १ । ५७ । खल स्थाने—इत्तच. नुक्, लभ्य डः । यज्ञार्थं समीकृते प्रदेशे (पृथिव्याः) भूमेः (नाभौ) नहोभश्च । उ० ४ ।

को कोई नहीं नष्ट करता है । (वरुणस्य उदरे इति) वरुण [सब से ध्येष्ठ परमात्मा] के [दिये हुये] उदर में [लुप्तों में रखता हूँ—यह ब्राह्मण ध्वज उख ने कहा] । (वरुणस्य उदरं किञ्चन नहि हिनस्ति इति) वरुण [परमात्मा] के [दिये] उदर को कोई नहीं नष्ट करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—यहाँ प्रजापति प्रजारूप शरीर के अवयवों का पालने वाला जीवात्मा है, रुद्र सर्वज्ञ सर्वकर्ता परमात्मा और यह परमाणुओं के संयोग से बना हुआ शरीर है ॥ प्रजापति के रुद्र को यह से अलग करने पर भग, सविता, पूषा, इधम और वहि, यह पाँचों तत्त्व अपना अपना कर्म करने में असमर्थ होते हैं । क्वानी पुरुष ही परमात्मा की सत्ता को सब के भीतर काम करता हुआ देखता है ॥ २ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका में उस पौगाणिक कथा का मूल साभान होता है जिस में रुद्र वा प्रजापति ने शिव वा रुद्र को भाग न दिया था । शिव की स्त्री सती उस सब में शस्त्र हो गयी, शिव के गणों ने रुद्र को और रुद्र को विध्वंस कर दिया, उपस्थित देवता घायल हुये । फिर शिव का क्रोध विष्णु के बीच में पड़ने से शान्त हुआ ॥

टिप्पणी २—उत्तीक वाले मन्त्र अर्थ सहित दिये जाते हैं—

१—देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽअश्विनोर्वाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां प्रसुतं शारमे—अथ० १६ । ५१ । २, भेद से षजु० २ । २२ तथा २० । ३ ॥ [हे शूर !] (देवस्य) प्रकाशमान, (सवितुः) सर्वोत्पादक [परमेश्वर] के (प्रसवे) बड़े देवस्य के बीच, (अश्विनोः) सब विद्याओं में व्याप्त होने [माता पिता] के (वाहुभ्याम्) दोनों भुजाओं से और (पूषणः) पोषक [आचार्य] के (हस्ता-

१२६ । एह दन्धने—इब्, इत्य भः । मध्यस्थाने (साद्यामि) आप्यामि (पृथिवी) इयः पिवन् पवन् ध्वनः साप्रसारणं च । उ० १ । १५० । अथ प्रदयाते विस्तारे च—पिवन् । डीप, । सर्वविस्तारकः परमेश्वरः (अन्तानाम्) हसिमृषिण्-त्राभि० । उ० ३ । ५६ । अम रोगे गती च—तन् । रोगाणाप् (अग्नेः) भीति-कस्य पाचकस्य पाचकस्य परमेश्वरस्य (आस्येन) असु क्षेपणे—एषत् । मुखेन (प्राशितम्) प्रकर्षेण मक्षितम् (इन्द्रस्य) ईश्वरस्य इत्ते—इति शेषः (कठरे) कुन्दो (वरुणस्य) धरणीयस्य । सर्वोत्कृष्टस्य (उदरे) उर्वि इणातेरलघौ पूर्व-पदाभ्याम्पद्व । उ० ५ । १६ । उम् + वृ विस्तरणे—अब् अच् वा, उत् इत्यस्य नस्तंभः । नातिस्त्रननोर्ध्वभागे ॥

भ्याम्) होयें त्वाथी सं (प्रसृतः) प्रेरणा जिया हुआ मैं (त्वा) तुम्ह को (आरभ्ये) ग्रहण करता हूँ ॥

२— ह्रीवर्म्ये त्वा सवितुः प्रसवेऽभिवर्तौर्गुह्यं पूष्णो हस्ताभ्याम् । प्रतिग्रह्याभ्यग्नेष्वास्येन प्राश्नामि—यजु० २ । ११ ॥ [हे छत्र !] (देयस्य) हर्ष देने वाले (सवितुः) और सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के [उत्पन्न किये हुये] (प्रसवे) संसार में विद्यमान (त्वा) तुम्ह [भक्ष्य पदार्थ] को (अश्विनोः) प्राण और अपान के (बाहुभ्याम्) आकर्षण और धारण गुणों से तथा (पूष्णः) पुष्टिकारक समान वायु के (हस्ताभ्याम्) शोधन और शरीर के अङ्ग अङ्ग में पहुँचाने के गुण से (प्रतिग्रह्यामि) अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूँ, (अग्नेः) प्रज्वलित अग्नि के बीच में पकाकर (त्वा) तुम्ह [भक्ष्य पदार्थ] को (आस्येन) अपने मुख से (प्र अश्नामि) भोजन करता हूँ ॥

कण्डिका ३ ॥

अथो आहुर्ब्राह्मणस्योदर इत्यात्माऽस्यात्मनाऽऽत्मानं मे माहिंसीः स्वाहे-
त्यर्षं वै सर्वेषां भूतानामात्मा तेनैवंतच्छ्रमयाश्च तार प्राशित्रमनुमन्त्रयते । योऽग्नि-
नृमणा नाम ब्राह्मणेषु प्रविष्टः तस्मिन् म एतन् सुष्ठुतमस्तु प्राशित्रं तन्मा माहिं-
सीत् परमे व्योमसिति तत्सर्वेण ब्रह्मणा प्राश्नात्त एनं माहिनत्तस्माद्यो ब्रह्मिष्ठः
स्यात्तं ब्रह्माणं कुर्वीत धृइस्पतिर्नै सर्वं ब्रह्म सर्वेण ह वा एतद् ब्रह्मणा षष्ठं वृत्ति-
णत उचच्छनेऽप एव वा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति य आविद्धं प्राश्नात्यद्भिर्मार्ज-
यित्वा प्राणान् संस्पृशते वाङ् म आस्यं नित्यद्युतं वै प्राणा अमृतमापः प्राणानेव
यथास्थानमुपाह्वयते तदु हैरु आहुर्निद्राय पर्यहरन्निति ते देवा अमुवसिग्धो वै
देवानामोजिष्ठां बलिष्टम्बस्या एतत्परिहरन्तीति तत्तस्यै पर्यहरंस्तत्सद् ब्रह्मणा
शमयाश्चकार तस्मादाहुर्निद्रो ब्रह्मेति यवमात्रं भवति यवमात्रं वै विपस्य न
हिनस्ति यद्धस्ताद्भिघारयति तस्माद्धस्तात् प्रक्षरयं प्रजा अरुर्न हिनस्ति यदु-
परिष्ठाद्भिघारयति तन्मादुपरिष्ठात् प्रक्षरयं प्रजा अरुर्न हिनस्ति यदुभयतोऽभि-
घारयत्युभयतोऽभिघारि प्रजा अरुर्घातुकं स्याद्यच्छ्रमयाभिहरेदनभिविद्धं यज्ञस्या-
भिविद्धेत् ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ प्राशित्र [अन्न] का विधान ॥

(अथो आहुः, ब्राह्मणस्य उदरे + त्वासादयामि—क० २ इति । आत्मा असि आत्मना मे आत्मानं मा हिंसीः स्वाहा इति) फिर वे [ऋषि] कहते हैं

३—(अनुमन्त्रयते) मन्त्रेण अनुकूलं करोति (नृमणाः) नयतेर्द्विब ।

—ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] के पेट में [तुझ प्राशित्र को रखता हूँ—क० २, यह मन्त्र], हे प्राशित्र ! तू आत्मा [अन्न] है, तू आत्मा [अन्न के कुप्रयोग] से मेरे आत्मा [जीवात्मा] को मत सता, यह स्वाहा [सुन्दर वचन] है [और यह दो मन्त्र वे बोलते हैं] । (अन्नं वै सर्वेषां भूतानाम् आत्मा, तेन एव एतत् प्राशित्रं शमयांचकार अनुमन्त्रयते) अन्न ही सब प्राणियों का आत्मा [जीवन] है, उस से ही इस प्राशित्र [अन्न] को वह शान्त करता है और मन्त्र के अनुकूल करता है । (यः नृमणाः नाम अग्निः ब्राह्मणेषु प्रविष्टः, तस्मिन् मे एतत् प्राशित्रं सुहुतम् अस्तु, तत् मा परमे व्योमन् मा हिंसीत् इति) जो नृमणा [मनुष्यों के हित के लिये ज्ञान वाला] नाम अग्नि [जाठराग्नि] ब्रह्मज्ञानियों में प्रविष्ट है, उस [अग्नि] में मेरा यह प्राशित्र [अन्न] अच्छे प्रकार होम किया गया होवे, वह [अन्न] मुझ को उत्तम विविध रक्षा स्थान में [रख कर] न मारे [वह इस ब्राह्मण वचन को पढ़ता है] । (तत् सर्वेण ब्रह्मणा प्राश्नात् ततः एनं मा अहिनत्) उस को सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान ले खावे, इस लिये इस को वह न मारे । (तस्मात् यः ब्रह्मिष्ठः स्यात् तं ब्रह्माणं कूर्वीत) इस लिये जो अत्यन्त ब्रह्मज्ञान वाला हो, उसको ब्रह्मा बनावे । (बृहस्पतिः वै सर्वं ब्रह्म) बृहस्पति [बड़ी विद्याओं का स्वामी] ही सम्पूर्ण ब्रह्म [ब्रह्मा] है । (एतत् सर्वेण ह वै ब्रह्मणा यत् दक्षिणतः उद्यच्छते) इस लिये वह सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान के साथ यज्ञ को दक्षिण दिशा में बैठकर ऊंचा करता है । (एतस्मात् अपः एव वै प्राणाः क्रामन्ति) इस लिये जल को ही प्राण प्राप्त करते हैं । (यः आचिद्धं प्राश्नाति अग्निः प्राणान् मार्जयित्वा संस्पृशते, मे नित्यं वाक् आशयम् श्रुतम्) जो पुरुष अच्छे छेदन किये हुये [प्राशित्र अन्न] को खाता है, वह जल से प्राणों को शुद्ध करके [इन्द्रिय] स्पर्श करता है—मेरे लिये नित्य वाणी, सुख और सत्य होवे ।

उ० २ । १०० । णीञ् प्रापणे—ऋ, डित् । गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृति-
स्वरत्वं च । उ० ४ । २२७ । नृ+मनु अवबोधने—अस्ति । छन्दस्यृद्वग्रहात् ।
पा० ८ । ४ । २६ । इति एत्वम् । नृभ्यो मनुष्याणां हिताय बोधनं यस्य सः (परमे)
उत्तमे (व्योमन्) नामन्सीमन्व्योमन्० । उ० ४ । १५१ । वि+अव रक्षणे—
मनिन्, सप्तमीलुक् । व्योमन् व्यवने—निरु० ११ । ४० । विविधरक्षास्थाने
(ब्रह्मणा) ब्रह्मज्ञानेन (ब्रह्मिष्ठः) अतिशयेन ब्रह्मज्ञानवान् (दक्षिणतः) दक्षिण-
स्यां दिशि स्थितः (उद्यच्छते) उत्+यम नियमने । उन्नयते (क्रामन्ति) गच्छन्ति ।
प्राप्नुवन्ति (मार्जयित्वा) शोधयित्वा (अमृतम्) उदकम्—निघ० १ । १२ ।

[यह वाक्य पढ़ना है] । (प्राणाः वै अमृतम्, आपः प्राणान् एव यथास्थानम् उपाह्वयते) प्राण ही अमृत [जल] हैं, जल प्राणों [जीवन साधनों] को ही अपने अपने स्थान पर बुलाना है । (तत् उ ह एके आहुः, इन्द्राय पर्यहरन् इति) सो कोई कोई कहते हैं—इन्द्र [जीवात्मा] को वे [इन्द्रिय अन्न] लाकर देते हैं । (ते देवाः अब्रुवन् इन्द्रः वै देवानाम् ओजिष्ठः बलिष्ठः तस्मै एतत् परिहरन्ति इति तत् तस्मै पर्यहरन्) उन देवों [इन्द्रियों] ने कहा—इन्द्र [जीवात्मा] ही देवों [इन्द्रियों] में अति ओजस्वी [पराक्रमी] और अति बलवान् है, उस के लिये यह [अन्न] वे लाते हैं—इस लिये उसे उस के लिये वे लाये हैं । (तत् सत् ब्रह्मणा शमयांचकार) उस होते हुये को ब्रह्मज्ञान से उस [इन्द्र] ने शान्त किया । (तस्मात् आहुः इन्द्रः ब्रह्मा इति) इस लिये वह कहते हैं—इन्द्र [जीवात्मा] ब्रह्मा है । (यवमात्रं भवति यवमात्रं वै विपस्य न हिनस्ति) वह [इन्द्र] जौ के आकार वाला [परमाणु रूप] है, जौ के आकार वाला जल का नाश नहीं करता है । (यत् अधस्तात् अभिधारयति तस्मात् प्रक्षरणम् अधस्तात् प्रजाः अरुः न हिनस्ति) जो वह नीचे की ओर सींचता है, इस लिये बहाव नीचे की ओर प्रजाओं [इन्द्रियों] को मर्म में न नष्ट करता है । (यत् उपरिष्ठात् अभिधारयति तस्मात् प्रक्षरणम् उपरिष्ठात् प्रजाः अरुः न हिनस्ति) जो वह ऊपर की ओर सींचता है, इस लिये बहाव [रुधिर रूप जल] ऊपर की ओर प्रजाओं [इन्द्रियों] को मर्म में नहीं नष्ट करता है । (यत् उभयतः अभिधारयति उभयतः अभिधारि प्रजाः अरुर्वातुकं रथात्) जो वह दोनों ओर से [आमने सामने जल वा रुधिर दौ] सींचे, दोनों ओर से सींचने वाला [जल टकराकर] प्रजाओं [इन्द्रियों] को मर्मघाती होता है । (यत् शमया अभिहरेत् अनभिविद्धं यज्ञस्य अभिविद्धत्) जो [उस जल को] विकलता से वह ले चले,

(आपः) जलम् (इन्द्राय) परमंश्चर्यवते । जीवात्मने (देवाः) इन्द्रियाणि (ओजिष्ठः) अतिशयेन ओजस्वी पराक्रमी (यवमात्रम्) अणुपरिमाणम् (विपस्य) उदकम्—निघ० १ । १२ । (अभिधारयति) घृ क्षरणदीप्तयोः—सर्वतः सिञ्चति प्रवहति (प्रक्षरणम्) प्रवहणम् (अरुः) अर्त्तिपृवपियजि० । उ० २ । ११७ । ऋ गतां हिंनन च—उसि । अरुपि । मर्मणि (अभिधारि) सर्वतः सेचकं जलम् (अरुर्वातुकम्) मर्मनाशकम् (शमया) पम वै ऋत्येऽवैकत्ये च—अच्, टाप्, सस्य शः । समया । वैकल्येन (अनभिविद्धम्) अविच्छिन्नम् । प्राशित्रम् (अभिविद्धेत्) अभिच्छेदनं कुर्यात् ॥

बिना छिदा वृक्षा [बिना क्षुण्णं किष्णं वृक्षा ब्रह्म] यज्ञ [शरीर] का सर्वथा छिन्न कर देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—अन्न और जल कुप्रयोग से शरीरबल और आत्मबल बढ़ाते हैं, वे ही कुप्रयोग से उन्हें नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

कण्डिका ४ ॥

अग्नेः परिहरति तीर्थेनैव परिहरति वै वा एतद्यज्ञश्छिद्यते यत् प्राशित्रं परिहरति, यदाह ब्रह्मन् प्रस्थास्यामीति वृहस्पतिर्वै सर्वं ब्रह्म सर्वेण ह वा एतद् ब्रह्मणा यज्ञं दक्षिणतः सन्धधात्पथाऽत्र वा एतर्हि यज्ञः श्रितो यत्र ब्रह्मा तत्रैव यज्ञः श्रितस्तत एवैनमात्मभते षड्भस्तेन प्रमीयेद् वेपनस्याद्यच्छीष्णा शीर्षक्तिर्मास्याद्यच्छीष्णात्सीदाद्यम्प्रसो यज्ञः स्यात् प्रतिष्ठेत्येव ब्रूयाद्वाचि वै यज्ञः श्रितो यत्र ब्रह्मा तत्रैव यज्ञः श्रितस्तत एवैनं सम्प्रयच्छुरथाग्नीध्र आद्धान्यग्निमुद्यानेवर्तुन् प्रीणात्यथोचरासामाहुर्तानां प्रतिष्ठित्याऽथो समिद्धत्यैव जुहोति परिधीत्सम्मार्षि पुनात्यैवेनां सक्तु सक्तु सम्मार्षि पथाडेव होतर्हि यज्ञश्चतुः सम्पद्यतेऽथो चतुष्पादः पशवः पशूनामपत्यै देव सवितरेतत्ते प्राहेत्याह प्रसूत्यै वृहस्पतिः ब्रह्मेत्याह स हि ब्रह्मिष्ठः स यज्ञं पाहि स यज्ञपतिं पाहि स माग्पाहि स मां पाहि कर्मण्यं पाहीत्याह यज्ञाय च यज्ञमानाय च पशूनामपत्यै ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ ॥ यज्ञ के विघ्नों का नाश और यज्ञ के आरम्भ का विधान ॥

(अग्नेः परिहरति, तीर्थेन एव परिहरति एतत् यज्ञः वै वै छिद्यते) [जो कोई यज्ञ की] पूर्व भाग से निन्दा करता है, [अथवा] तीर्थ [शास्त्र विधान] से ही निन्दा करता है। इस से यज्ञ अवश्य ही छिन्न हो जाता है। (एत् प्राशित्रं परिहरति यत् आह ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि इति) जो यह प्राशित्र [चरु, हव्य द्रव्य] को छुरा कहता है, [अथवा] जो कहता है—हे ब्रह्मन् ! मैं ब्रह्मा ब्राह्मण । (वृहस्पतिः वै सर्वं ब्रह्म एतत् ह वै सर्वेण ब्रह्मणा यज्ञं दक्षिणतः सन्धधाति) वृहस्पति [सब विद्याओं का स्वामी] ही सब प्रकार

४—(अग्नेः) पूर्वभागेन (परिहरति) यज्ञं निन्दति (तीर्थेन) तरणसाधनेन ।- शास्त्रेण । यज्ञस्थानेन (एतत्) एतस्मात् (प्रस्थास्यामि) गमिष्यामि (ब्रह्मणा) ब्रह्मज्ञानेन (दक्षिणतः) दक्षिणस्यां दिशि स्थितः (सन्धधाति) सम्बन्ध धरति (एतर्हि) इदानीम् (आत्मभते) गृह्णाति (प्रमीयेत्) मीञ्

ब्रह्म [ब्रह्मा] है, इसी से ही वह सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान से यज्ञ को वक्षिण ओर बैठा हुआ बुझाएता है । (अथो अत्र वै एतर्दि यज्ञः श्रितः, यत्र वै ब्रह्मा तत्र एव षष्ठः श्रितः ततः एव एतम् आलभते) फिर यहाँ ही अथ यज्ञ ठहरा हुआ है, जहाँ ब्रह्मा है, वहाँ ही यज्ञ ठहरा हुआ है, इस लिये ही इस [ब्रह्मा] को वह [यज्ञ-मान] ग्रहण करता है । (यत् हस्तेन प्रमीयेत् वेपनः स्यात्, पत् शीष्णा शीर्षक्ति-मान् स्यात् पत् तूष्णीम् आसीद् अस्मप्रत्तः यज्ञः स्यात्, प्रतिष्ठ इति एव प्रूयात्) जो कोई हाथ से [यज्ञ] नष्ट करे, वह कांपने वाला होवे, जो सीस [शिर की टक्कर] से [यज्ञ नष्ट करे], वह शिर की पीड़ा वाला होवे, और जो चुपचाप बैठे, यज्ञ अरक्षित होवे, [इस लिये] चला जा—ऐसा ही वह [ब्रह्मा] कहे । (वाचि वै यज्ञः श्रितः, यत्र ब्रह्माः तत्र एव यज्ञः श्रितः ततः एव एतं सम्प्रयच्छति) वाणी में ही यज्ञ ठहरा हुआ है, जहाँ ब्रह्मा है वहाँ ही यज्ञ ठहरा हुआ है, इस लिये ही इस [यज्ञ] को वह [ब्रह्मा] पथावत् चलाता है । (आग्नीध्रे अग्निमुखान् आदधाति) आग्नीध्र [हेतृगृह वा हवनकुण्ड] में अग्नि प्रधान मन्त्रों से वह अन्वाधान करता है [जैसे यह चार मन्त्र—ओं भू भुवः स्वर्धौ-रिषभूजा पृथिवीव परिस्था । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना-द्यावा इधे । १ । यजु० ३ । ५ ॥ ओम् उह्युव्यस्वातो प्रतिजागृहि त्वमिष्टा-पूते सधं रुजेथामयं च । अस्मिन् सधस्थे अण्डुनर्त्स्मिन् विरत्रे देवा यजमानश्च सीदत । २ । यजु० १५ । ५३ ॥ अग्निमीडे पुराहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रक्षधातमम् । ३ । ऋ० १ । १ । १ । स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपा-यनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये । ४ । ऋ० १ । १ । ६ । हवनमन्त्राः] । (ऋतून् एव प्रीणाति) वह ऋतुओं को ही प्रसन्न बनाता है [जल वायु शुद्ध करता है] । (अथ उत्तरालाम् आहुतीनाम् प्रतिष्ठित्या) और पीछे वाली आहु-तियों की स्थापना से [भी ऋतुओं को शुद्ध करता है] । (अथो समिधस्या एव जुहोति) फिर समिध् शब्द वाली ऋचा से ही वह हवन करता है [जैसे यह चार मन्त्र—ओम् । समिधाग्निं हुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् ।

हिंसायाम् । नाशयेत् (वेपनः) कम्पकः (शीष्णा) रलोपः । शीष्णा । शिरः-प्रहारेण (शीर्षक्तिमान्) शीर्ष + अञ्चु गतिपूजनयोः—क्तिन्, मतुप् । शीर्षं शिरः अञ्चति गच्छति व्याप्नोतीति शीर्षक्तिः शिरःपीडा, तथा युक्तः (आसीद्) आ—असीदत् । आसीदेत् (अस्मप्रत्तः) आ + सम् + प्र + डुदाष् हाने—त् । इसो रक्षितः, सत्यप्रतिषेधः । असंरक्षितः (प्रतिष्ठ) गच्छ (सम्प्रयच्छति)

आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये इदं न मम । १ । यजु० ३ । १ ।
 ओं । सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे स्वाहा—
 इदमग्नये जातवेदसे—इदं न मम । २ । यजु० ३ । २ ॥ ओं । तं त्वा समिद्धिर-
 ङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोवायविष्ट्य, स्वाहा । इदमग्नयेऽङ्गिरसे—
 इदं न मम । ३ । यजु० ३ । ३ । ओम् । अयं त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व
 वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनात्नाद्येन समेधय,
 स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे—इदं न मम । ४ । हवनमन्त्राः] । (परिधीन्
 सम्मर्ष्टिं पुनाति एव = एव) वह परिधियों को स्वच्छ करता है और शोधता
 भी है । (एनान् सकृत् सकृत् सम्मर्ष्टिं) वह इन [परिधियों] को एक एक बार
 स्वच्छ करता है [जैसे यह चार मन्त्र—ओम् । अदितेऽनुमन्यस्व ॥ १ ॥ ओम् ।
 अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ २ ॥ ओम् । सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ ३ ॥ ओम् । देव सवितः
 प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो गन्धर्वः कैतपूः केतं नः पुनातु वाच-
 स्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ ४ ॥ यजु० ११ । ७ तथा ३० । १ । हवनमन्त्राः] । (पराङ्
 एव हि एतर्हि यज्ञः चतुः सम्पद्यते) उत्कर्ष को पाया हुआ ही अब यज्ञ चार
 बार बढ़ता है । (अथो चतुष्पादः पशयः, पशूनाम् आप्त्यै देव सवितः एतत् ते
 प्राह इति) फिर चार पांव वाले पशु हैं, पशुओं के लाभ के लिये—देव सवितः
 —यह [ऊपर लिखा मन्त्र] तुझ [ब्रह्मा] से वह [यजमान] बोलता है ।
 (आह प्रसूत्यै बृहस्पतिः ब्रह्मा इति) वह कहता है—प्रेरणा [यज्ञ की बढ़ती]
 के लिये बृहस्पति ब्रह्मा है [बड़ों विद्याओं का स्वामी प्रधान ऋत्विज है । देव
 सवितः—इस मन्त्र में प्रसुव पद और प्रसूत्यै पद पू प्रेरणे धातु से बने हैं] ।
 (आह. सः हि ब्रह्मिष्ठः, सः यज्ञं पाहि, सः यज्ञपतिं पाहि, सः माभू पाहि, सः
 मां पाहि, सः मां कर्मण्यं पाहि इति यज्ञाय, यजमानाय च, पशूनाम् आप्त्यै च
 आह) वह [यजमान] कहता है—वह तू ही अतिशय ब्रह्मज्ञानी है, वह तू
 यज्ञ की रक्षा कर, वह तू यज्ञपति की रक्षा कर, वह तू मेरी रक्षा कर, वह तू

संयोजयति (आग्नीध्रे) होतृगृहे (आदधाति) अग्न्याधानं करोति (अग्नि-
 मुखान्) अग्निप्रधानान् मन्त्रान् (प्रीणाति) प्रसादयति (ऋतून्) वसन्तादीन्
 (प्रतिष्ठित्या) स्थापनया (समद्वत्या) समिध इति शब्देन युक्तया ऋचा
 (पराङ्) परा उत्कर्षे + अश्नु गतिपूजनयोः—क्विन् । उत्कर्षं प्राप्तः (चतुः)
 चतुर्वारम् (चतुष्पादः) चतुष्पादयुक्ताः (आप्त्यै) प्राप्तये (प्रसूत्यै) प्रेरणायै ।
 उन्नतये (कर्मण्यम्) कर्मकुशलम् ॥

मेरी रक्षा कर, वह तू मुझ कर्मकुशल की रक्षा कर,—वह यह यज्ञ के हित के लिये, और यजमान के हित के लिये और पशुओं की प्राप्ति के लिये कहता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को यज्ञ विधान पूर्वक करना चाहिये ॥ ४ ॥

कण्डिका ५ ॥

न वै पौर्णमास्यां नामावास्यायां दक्षिणा दीयन्ते य एष ओदनः पच्यते दक्षिणैषा दीयते यज्ञस्यर्ध्या इष्टी वा एतेन यद्यजतेऽथो वा एतेन पूर्त्ती य एष ओदनः पच्यत एष ह वा इष्टापूर्त्ती य एनं पचति ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ पौर्णमासी और अमावस्य को दक्षिणा के स्थान में ओदन का दान ॥

(न वै पौर्णमास्यां न अमावास्यायां दक्षिणाः दीयन्ते) न तो पौर्णमासी [इष्टि] में और न अमावास्या [इष्टि] में दक्षिणायें दी जाती हैं । (यः एषः ओदनः पच्यते, एषा दक्षिणा दीयते) जो यह ओदन [चावल] पकाया जाता है यह ही दक्षिणा दिया जाता है । (यत् यज्ञस्य ऋध्यै इष्टी वै एतेन अथो वै एतेन पूर्त्ती यजते) क्योंकि वह यज्ञ की बढ़ती के लिये इष्ट [अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, आतिथ्य आदि कर्म] को ही इस [ओदन दान] से, और भी इस से पूर्त्त [बावड़ी, कूआ, तालाब, देवमन्दिर, अन्नदान आदि कर्म] को प्राप्त होता है । (यः एषः ओदनः पच्यते, एषः ह वै इष्टापूर्त्ती, यः एनं पचति) यह जो ओदन [भात] पकाया जाता है, यह ही इष्ट और पूर्त्त [अग्निहोत्र वेदाध्ययन आदि और बावड़ी देवमन्दिर आदि कर्म का साधन उस यजमान के लिये] है जो इस को पकाता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—पौर्णमासी और अमावास्या को दक्षिणा के स्थान में ओदन देने का यहां विशेष नियम विचारणीय है ॥ ५ ॥

५—(ऋध्यै) वृद्धये (इष्टी) इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम् । वा० पा० ७ । १ । ३६ । इति विशक्तेः ईकारः । इष्टम् । अग्निहोत्रवेदाध्ययनातिथ्यादि-कम् (यजते) संगच्छते (पूर्त्ती) पूर्ववत् ईकारः । पूर्त्तम् । वापीकूपतडागादि-देवतायतनान्नप्रदानादिकम् (इष्टापूर्त्ती) पूर्ववत् ईकारः । इष्टं च पूर्त्तं च इष्टा-पूर्त्तं । अर्थः पूर्ववत् ॥

करिडका ६ ॥

द्वया वै देवा यजमानस्य गृहमागच्छन्ति सोमपा अन्येऽसोमपा अन्ये हुतादोऽन्ये अहुतादोऽन्य एते वै देवा अहुतादो यद् ब्राह्मणा एतद्देवत्य ऋषयः पुरानीजान एते ह वा एतस्य प्रजायाः पशूनामीशते तेऽभ्याप्रीता इषमूर्जमादाया-पक्रामन्ति यदन्वाहार्यमन्वाहरति तानेव तेन प्रीणाति दक्षिणतः सद्भ्यः परि-हर्त्वा आह दक्षिणावृतेनैव यज्ञेन यजत आहुतिभिरेव देवान् हुतादः प्रीणाति दक्षिणाभिर्मनुष्यदेवांस्तेऽस्मै प्रोता इषमूर्जं नियच्छन्ति ॥ ६ ॥

करिडका ६ ॥ यज्ञ में दो प्रकार के देवता आते हैं एक सोम या दूसरे असोमपा, अथवा एक हुताद और दूसरे अहुताद, उनका वर्णन ॥

(द्वयाः व देवाः यजमानस्य गृहम् आगच्छन्ति अन्ये सोमपाः, अन्ये असोमपाः, अन्ये हुतादः अन्ये अहुतादः) दो प्रकार के ही देव यजमान के घर आते हैं, एक सोमपा [सोमरस पीने वाले] दूसरे असोमपा [सोमरस न पीने वाले], [अथवा] एक हुताद [अग्नि में चढ़े हुये पदार्थ खाने वाले जल वायु सूर्य] और दूसरे अहुताद [अग्नि में न चढ़े हुये पदार्थ अर्थात् शेष हव्य खाने वाले मनुष्य आदि] । (एते वै देवाः अहुतादः यत् ब्राह्मणाः) यह ही देव अहुताद [वचे हुये हव्य खाने वाले] हैं जो ब्राह्मण हैं । (एतद्देवत्यः ऋषयः पुरा अनीजानः) इस [सोम] को देवता जानने वाले ऋषियों ने पहिले यज्ञ नहीं किया (?) । (एते ह वै एतस्य प्रजायाः पशूनाम् ईशते) यह ही [ब्रह्मज्ञानी] इस [यजमान] के सन्तान और पशुओं के स्वामी हैं । (ते अप्रीताः अस्य इषम् ऊर्जम् आदाय अपक्रामन्ति) वे अपसन्न होकर इस के अन्न और बल को लेकर चल देते हैं । (यत् अन्वाहार्यम् अन्वाहरति तान् एव तेन प्रीणाति) जब वह अन्वाहार्य

६—(द्वयाः) द्वि—अयद् । द्विप्रकाराः । उभयाः (सोमपाः) सोमपान-शीताः (हुतादः) हुत + अद् भक्षणे—किप् । हुतस्य आहुत्या अग्नौ प्रक्षितस्य हव्यस्य भक्षयितारः (अहुतादः) अहुतस्य अग्नौ अप्रक्षितस्य शेषहव्यस्य भक्षयितारः (यत्) ये (एतद्देवत्यः) एतद्देवताकाः (ऋषयः) सन्मार्गदर्शकाः (पुरा) पूर्वम् (अनीजानः) अन् + यजतेः—कानच्, एकवचनं बहुवचनस्य । यज्ञम् अकृतवन्तः (अप्रीताः) अपसन्नाः (इषम्) अन्नम्—निय० २ । ७ (ऊर्जम्) बलम् (आदाय) गृहीत्वा (अपक्रामन्ति) अपगच्छन्ति (अन्वा-

[अमावस में रताये गये पितरों के मासिक श्राद्ध] को वह अनुकूल होकर खिलाना है, उन को ही उस से वह [यजमान] प्रसन्न करता है । (दक्षिणतः सद्भ्यः परिहर्तवै आह) दक्षिण और वर्तमान [असुरों] को [अन्वाहार्य] छोड़ देने के लिये वह कहता है ? । (दक्षिणावृतेन एव यजेन यजते) दक्षिणा से संयुक्त ही यज्ञ से [उन ब्रह्मज्ञानियों को] वह पूजता है । (आहुतिभिः एव हुतादः देवान् प्रीणाति, दक्षिणाभिः मनुष्यदेवान्) आहुतियों [अग्नि में चढ़ाये हुये पदार्थों] से ही हुताद [अग्नि में चढ़े हुये पदार्थ खाने वाले] देवों [जल, वायु, सूर्य] को प्रसन्न करता है और दक्षिणाओं से मनुष्य देवों [ब्रह्मज्ञानियों] को [प्रसन्न करता है] । (ते प्रीताः अस्मै इपम् ऊर्जं नियच्छन्ति) वे [दोनों प्रकार के देव] प्रसन्न होकर इस [यजमान] को अन्न और बल देने रहते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—यज्ञ द्वार जल, वायु और अग्नि शुद्ध होने से शुद्ध अन्न उत्पन्न होता है और ऋत्विज लोग दक्षिणा पाते हैं । उस सब से यजमान का अन्न और बल बढ़ता है ॥ ६ ॥

कण्डिका ७ ॥

देवाश्च ह वा असुराश्चास्पृहन्त, ते देवाः प्रजापतिमेवाभ्ययजन्त अन्योऽन्य-
स्यासन्नं सुगं अजुहवुस्ते देवा एतमोदनमपश्यन्तं प्रजापतये भागमनुनिरपंस्तं
भागं पश्यन् प्रजापतिर्देवानुपावर्त्तत ततो देवा अभवन् परासुराः स य एवं
विद्वानेतमोदनं पचति भवत्यात्मना परास्याप्रियो भातृव्यो भवति प्रजापतिर्वै
देवेश्यो भागधेयानि व्यकलयत् सोमं मन्यत आत्मानमन्तरगादिति स एतमोद-
नमभक्तमपश्यत्तमात्मनं भागन्निरवपत् प्रजापतेर्वा एव भागो परिमितः स्याद-
परिमितो हि प्रजापतिः प्रजापतेर्भागोस्यूर्जस्वान् वयस्वानक्षिताऽस्यक्षिष्यै त्वा

हार्यम्) अनु व्याप्तौ + आ समन्तात् + हृञ् हरणे—एयत् । अमावास्याविहितं
पितृणां मासिकश्राद्धम् । यागदक्षिणाम् (अन्वाहरति) अनुकूलतया आहार-
यति भोजनं कारयति यजमानः (दक्षिणतः) दक्षिणस्यां दिशि (सद्भ्यः)
श्रेष्ठेभ्यः । वर्तमानेभ्यः (परिहर्तवै) तुमर्थे संसेनसेअसेन्० । पा० ३ । ४ ।
६ । परि + हृञ् हरणे—तवै प्रत्ययः । परिहर्तुम् (दक्षिणावृतेन) दक्षिणया
वेष्टितेन संयुक्तन (मनुष्यदेवान्) मनुष्येषु देवान् विदुषः पुरुषान् (नियच्छन्ति),
नितरां ददति ॥

मामेक्षेष्ठाः । अमुत्रामुष्मिं लोक इह च प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे पाह्युदानरूपे मे पाह्यर्गस्यूर्जं मे धेहि कुर्वतो मे मा क्षेष्ठाः । ददतो मे गोपदसः प्रजापतिमहन्त्वया समृत्तमृध्यासमिति प्रजापतिमेव समृत्तमृध्नीति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ देवासुर संग्राम में प्रजापति द्वारा ओदन के विभाग से देवों की जीत ॥

(देवाः च असुराः च ह वै अस्पर्धन्त) देव [इन्द्रियां] और असुर [विघ्न] लड़ने लगे । (ते देवाः प्रजापतिम् एव अभ्ययजन्त) उन देवताओं ने प्रजापति [जीवात्मा वा पेट] को ही सब ओर से पूजा । (असुराः अन्योन्यस्य आसन् अजुहवुः) असुरों ने एक दूसरे के मुख में हवन किया । (ते देवाः एतम् ओदनम् अपश्यन् तं भागं प्रजापतये अनुनिरवपन्) उन देवों ने इस ओदन [सींचने वाले अन्न] को देखा और वह भाग प्रजापति को दे दिया । (तं भागं पश्यन् प्रजापतिः देवान् उपावर्तत) उस भाग को देखता हुआ प्रजापति देवताओं के पास वर्तमान हुआ । (ततः देवाः असुराः परा अभवन्) उस से देवताओं ने असुर हरा दिये । (यः एव विद्वान् एतम् ओदनं पचति सः आत्मना भवति, अस्य अप्रियः भ्रातृव्यः परा भवति) जो ऐसा विद्वान् इस ओदन [सींचने वाले अन्न] को पचाता है वह आत्मबल के साथ होता है, उस का अप्रिय शत्रु हार जाता है । (प्रजापतिः वै देवेभ्यः भागधेयानि व्यकल्पयत्, सोमं मन्यते, आत्मानम् अन्तः अगात् इति) प्रजापति ने ही देवताओं को भाग अलग अलग कर दिये, उस ने [उसे] सोम [अमृत] माना और आत्मबल को भीतर पाया । (सः एतम् ओदनम् अभक्तम् अपश्यत् तं भागम् आत्मने निरवपत्) उसने इस ओदन को बिना बंटा हुआ [सम्पूर्ण] देखा, उस भाग को अपने लिये रख दिया । (प्रजापतेः वै षषः भागः अपरिमितः

७—(देवाः) इन्द्रियाणि (असुराः) देवविरोधिनः । विघ्नाः (प्रजापतिम्) जीवात्मानम् (आसन्) आस्ति । मुखे (ओदनम्) सेचकम् अन्नम् (अनुनिरवपन्) निर्धारितवन्तः । दत्तवन्तः (उपावर्तत) उपेत्य वर्तमानोऽभवत् (परा-अभवन्) पराजितवन्तः (असुराः) असुरान् (आत्मना) आत्मबलेन (पराभवति) पराजितो वर्तते (भ्रातृव्यः) शत्रुः (व्यकल्पयत्) पृथक् पृथक् कृतवान् (सोमम्) अमृतम् (मन्यते) अमन्यत (आत्मानम्) आत्मबलम् (अन्तः) मध्ये (अगात्) प्राप्तवान् (अभक्तम्) अकृतभागम् (अपरिमितः)

स्यात् अपरिमिवः हि प्रजापतिः) प्रजापति का ही यह भाग परिमाण रहित होवे, क्योंकि प्रजापति परिमाण रहित है । (प्रजापतेः ऊर्जस्वान् वयस्वान् भागः असि, अक्षितः असि, मे अक्षित्यं त्वा मा क्षेष्टाः) [हे ओदन !] तू प्रजापति का बलवान् अन्नवान् भाग है, तू अक्षित [अनष्ट] है, तू मेरे अनाश [सम्पूर्णाता] के लिये अपने को मत नष्ट कर । (असुन्न असुन्धिन् लोके इह च मे प्राणापानौ पाहि, मे समानव्यानौ पाहि, मे उदानरूपे पाहि, ऊर्क् असि, मे ऊर्जं धेहि, मे कुर्वतः मा क्षोठाः) वहां उस लोक में और यहां [दूर और समीप, अथवा उस जन्म और इस जन्म में] मेरे प्राण और अपान [भीतर और बाहर जाने वाले श्वास] की रक्षा कर, मेरे समान और व्यान [नाभि में घूमने वाले आर शरीर में फैलने वाले वायु] की रक्षा कर, मेरे उदान [ऊपरस्थ वायु] और रूप की रक्षा कर, तू प्रक है मेरे लिये बल दे, सुकर्म करने वाले का मत नाश कर । (मे ददतः मा उपदत्तः, अहं त्वया समृद्धं प्रजापतिम् ऋध्यासम् इति) [हे ओदन !] सुकर्म करने वाले का मत नाश कर, मैं तेरे साथ यथावत् देखने वाले प्रजापति को बढ़ाऊँ । (समृद्धं प्रजापतिम् एव ऋध्नोति यः एवं वेद, यः एवं वेद) वह यथावत् देखने वाले प्रजापति को ही बढ़ाता है, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे उदर अन्न खाकर सब इन्द्रियों को रस पहुंचाकर पुष्ट और सुखी करता है, वैसे ही प्रधान पुरुष कर लेकर प्रजा के हित में लगाकर उन्हें पुष्ट और सुखी करे ॥ ७ ॥

कण्डिका ८ ॥

ये वा इह यज्ञैरार्भुर्वन्तेपामेतानि ज्योतीषि यान्यग्नि नक्षत्राणि तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वं यज्ञं क्षियन्ति दर्शयूर्णमासौ वै यज्ञस्यावसानः शौ ये वा अनिष्ट्वा

परिमाणरहितः (ऊर्जस्वान्) बलवान् (वयस्वान्) अन्नवान्—निघ० २ । ७ (अक्षितः) = हिंसितः (अक्षित्यं) अनाशाय (त्वा) आत्मानम् (मे) मम । मह्यम् (मा क्षेष्टाः) क्षि हिंसायाम्—लुङ् । आत्मनेपदम् । मा हिंसीः (ऊर्क्) बलम् (ऊर्जम्) बलम् (मा क्षेष्टाः) नाशं मा कुरु (मा उपदत्तः) दत्तु उपक्षये उत्क्षेपे च—लुङ् । नाशं मा कुरु (समृद्धम्) स्तुवन्नक्षित्युपिभ्यः कित् । उ० ३ । ६६ । ऋषि गतां दर्शने च—सप्रत्ययः कित् । संगन्तान्म् । सन्दर्शनम् (ऋध्यासम्) सम्यग्बुध्यासम् (ऋध्नोति) वर्धयति ॥

दर्शपूर्णमासाभ्यां सोमेन यजन्ते तेषामेतानि ज्योतीषि यान्यमूनि नक्षत्राणि पत-
न्तीव तद्यथाह वा इदमस्यष्टावसानेनेहावसास्यसि नेहावसास्यसीति नोऽनुद्यन्ते
एवं हैवैतेऽमुष्मान् लोकान् नो नुद्यन्ते त एते प्रच्यवन्ते ॥ ८ ॥

**कण्डिका ८ ॥ दर्श पौर्णमास यज्ञ के साथ ही सोम यज्ञ करने
और यज्ञ करने वालों की उच्च दशा का वर्णन ॥**

(ये वै इह यज्ञैः आभुवन् तेषाम् एतानि ज्योतीषि यानि अमूनि नक्ष-
त्राणि) जो लोग ही यहाँ यज्ञों के साथ सब ओर वर्तमान हुये हैं, उन के यह
ज्योति हैं जो वे नक्षत्र [चलने वाले वा अनश्वर तारागण] हैं [अर्थात् तारा-
गणों के समान उनके कार्य प्रकाशमान हैं] । (तत् नक्षत्राणां नक्षत्रत्वं यत् न
क्षियन्ति) यह नक्षत्रों का नक्षत्रपन है कि वे नष्ट नहीं होते हैं । (दर्शपौर्ण-
मासौ वै यज्ञस्य अवसानदर्शौ) अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ ही यज्ञ की
सीमा दिखाने वाले हैं [अर्थात् अमावस्या और पूर्णमासी से यज्ञ आरम्भ हो
कर अमावस्या और पूर्णमासी को पूरे होते हैं] । (ये वै दर्शपूर्णमासाभ्याम्
अनिष्ट्वा सोमेन यजन्ते तेषाम् एतानि ज्योतीषि पतन्ति इव यानि अमूनि नक्ष-
त्राणि) जो लोग ही अमावस्या और पूर्णमासी के साथ यज्ञ न करके सोम के
साथ यज्ञ करते हैं, उन के यह तेज गिरते से हैं जो वे नक्षत्र हैं । (तत् यथा ग्राह
वै इदम् असि, अष्टावसानेन इह अवसास्यसि, न इह अवसास्यसि इति) सो जैसा
यह कहता है—यह ही तू सत्ता वाला है, तू आठ [यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ योगाङ्गों—योग दर्शन २ । २६]
से समाप्त होने वाले विधान के साथ यहाँ [यज्ञ को] तू समाप्त करेगा, तू यहाँ
नहीं समाप्त होगा । (एते ह एव एवन् अमुष्मान् लोकान् नो अनुद्यन्ते, नो अनु-

८—(आभुवन्) आ—अभूवन् (नक्षत्राणि) अमितक्षियजि० । उ० ३ ।
१०५ । गतौ—अत्रन्, यद्वा न+क्षि नाशे—अत्रन्, डित् । गतिशीलाः ।
अनश्वरा वा तारागणाः (क्षियन्ति) क्षयन्ति । नश्यन्ति (अवसानदर्शौ) समाप्ति-
दर्शकौ (असि) वर्तमानोऽसि (अष्टावसानेन) यमनियमाद्यष्टयोगाङ्गैः अव-
सानं समाप्तिर्यस्य तेन यज्ञेन (अवसास्यसि) षो अन्तर्कर्मणि—लृट् । यज्ञं
समाप्स्यसि (अवसास्यसि) समाप्तो भविष्यसि (नो) निषेधे (अनुद्यन्ते)
दो अवखण्डने—लृट्, आत्मनेपदत्वम् । अनुद्यन्ति । विनाशयन्ति (अमु-
ष्मान्) अमून् (प्रच्यवन्ते) प्रकर्षेण गच्छन्ति—निघ० २ । १४ ॥

द्यन्ते ते एते प्रच्यवन्ते) यह ही लोग इस प्रकार उन लोकों को नहीं नष्ट करते हैं, नहीं नष्ट करते हैं, वे ही यह लोग आगे को बलते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जैसे दर्शपूर्णमासी से यज्ञ आरम्भ होकर दर्शपूर्णमासी पर समाप्त होने से सिद्ध होते हैं, वैसे ही दूसरे कार्य नियत समय पर आरम्भ होने और समाप्त होने से सिद्ध होते और यज्ञ देने हैं ॥ ८ ॥

कण्डिका ६ ॥

यस्य हविर्निरुतं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदियान्त्रे वा तण्डुलान्विभजेद्ये मध्यमास्तानग्नये दात्रेऽष्टाकपालान्निर्वपेत् ये स्वविष्टास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधति चरुं ये क्षोदिष्टास्तान्विष्णावे शिपिविष्टाय शृते चरुपशवो वा एतेऽतिरिच्यन्ते तानेवाप्नोति तानवन्त्वेऽङ्घ्रिर्षे मध्यमस्य दाता इन्द्रो वै उग्रैः स्य प्रदाता यदेवेदं चुद्रं पशूनां तद्विष्णोः शिपिविष्टं तदेवाप्नोति पशूमेवावरुन्धे ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ चन्द्रमा के उदय होने के पीछे हवि देने का विधान ॥

(यस्य हविः निरुतं पुरस्तात् चन्द्रमाः अभ्युदियान्) जिस [यज्ञमान] का हवि दिया गया होवे, [उल्ल से] पहिले चन्द्रमा उदय होवे । (तान् तण्डुलान् त्रेधा विभजेत्) उन चावलों [चरु] को तीन प्रकार बाँटे । (ये मध्यमाः तान् अष्टाकपालान् दात्रे अग्नये निर्वपेत्) जो बीच वाले [चावल] = उन आठ पात्रों में रखे हुआ को दान करने वाले अग्नि के लिये देवे । (ये स्वविष्टाः तान् चरुं प्रदात्रे इन्द्राय दधति) जो अति मोटे हैं, उन चरु रूप को बहुत दान करने वाले इन्द्र [वायु] के लिये धरे । (ये क्षोदिष्टाः तान् चरुं शिपिविष्टाय विष्णावे शृते) और जो अति सूक्ष्म हैं, उन चरु रूप को प्रकाश में प्रविष्ट [व्याप्त] विष्णु [सूर्य] के लिये सेवे । (एते एव पशवः अतिरिच्यन्ते तान् एव आप्नोति

६—(उतम्) प्रदत्तम् (अभ्युदियान्) सर्वत उद्गच्छेत् (विभजेत्) विभक्तान् कुर्यात् (अष्टाकपालान्) अष्टसु कपालेषु पात्रेषु संस्कृतान् (निर्वपेत्) विभागेन प्रदद्यात् (स्वविष्टाः) स्थूल—इष्टम् । अतिशयन्धूलाः (दधति) लेटि रूपम् । दध्यात् (क्षोदिष्टाः) चुद्रं—इष्टम् । अतिशयेन चुद्राः (शिपिविष्टाय) सर्वधातुभ्य इन् । ३० ४ । ६१८ । शिब् निशाने छेदने—इन् कित् पुकागमः । चिष्ट व्याप्तौ—क्त । शिपिविष्टोऽर्माति प्रतिपन्नरश्मिः । शिप-

तान् एव अवरुन्धे) [इस कर्म से] यही पशु [सब जीव] बढ़ते हैं, वह उन को ही पाता है, उनकी रक्षा करता है (अग्निः वै मध्यमस्य दाता, इन्द्रः वै ज्येष्ठस्य प्रदाता) अग्नि ही मध्यम [बल] का देने वाला और इन्द्र [वायु] बहुत बड़े [बल] का देने वाला है । (यत् एव इदं जुष्टं पशूनां तत् विष्णोः शिपिविष्टं तत् एव आप्नोति पशून् एव अवरुन्धे) जो हि यह पशुओं में सूक्ष्म [कर्म] है, वह विष्णु [व्यापक सूर्य] का प्रकाश युक्त [कर्म] है, उसे ही वह पाता है और पशुओं [जीवों] की ही रक्षा करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—यथायोग्य विभाग करने से यज्ञ सिद्ध होता है ॥ ६ ॥

कण्डिका १० ॥

या पूर्वा पौर्णमासी नानुमतियोरुत्तरा सा राका या पूर्वा साऽमावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहश्चन्द्रमा एव धाना च विधाना च यत् पूर्वाऽन्यां वसत् पूर्वाऽन्यान्तत् मिथुनं तत् पश्यत्यन्यान्नान्यान्तन्मिथुनं यद्मावास्यायाश्चन्द्रमा अधिमजायते तन्मिथुनस्तस्यादेवात्मै मिथुनात् पशून् प्रजनयते ॥ १० ॥

कण्डिका १० ॥ पूर्व और उत्तर पूर्णमासी और अमावास्या का विचार ॥

(या पूर्वा पूर्णमासी सा अनुमतिः) जो पहिली पूर्णमानी [पूरे चन्द्रमावाली तिथि वा पूर्णिमा] है वह अनुमति [एक कलाहीन चन्द्रमा वाली जुहु चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा] है । (या उत्तरा सा राका) जो पिछली [पौर्णमासी] है, वह राका [पूरे चन्द्रमा वाली तिथि पौर्णमासी] है । (या सा पूर्वा अमावास्या सा सिनीवाली) और वह जो पहिली अमावास्या [चन्द्र और सूर्य के एक साथ वसने की अर्थात् कृष्णपक्ष की अन्तिम तिथि] है, वह सिनीवाली [कृष्णपक्ष में चतुर्दशी सहित अमावास्या] जिस में चन्द्रमा एक

योऽत्र रश्मय उच्यन्ते तैराधिष्टो भवति—निरु० ५ । ८ । शिपिविष्टः पदनाम—निघ० ४ । २ । संयतरश्मये । व्याप्तप्रकाशाय (शृते) आर्षरूपम् । श्रयते । संवते (अतिरिच्यन्ते) अधिका भवन्ति (अवरुन्धे) रक्षति (शिपिविष्टम्) व्याप्तप्रकाशं रूपम् ॥

१०—(पौर्णमासी) पूर्णमासादण् । वा० पा० ४ । २ । ३५ । पूर्णमास—अण्, डीप् । पूर्णमासश्चन्द्रोऽन्यां वर्तते सा तिथिः । या पूर्वा पौर्णमासी सानुमतिः, अनुमतिरनुमननात्—निरु० ११ । २६ । पूर्णिमा (अनुमतिः) अनु+मन

कला वाला हो] है । (या उत्तरा सा कुहः) जो पिछली [अमावास्या] है वह कुह [जिस तिथि में चन्द्रमा की कोई कला न दीख पड़े] है । (चन्द्रमाः एव धाता च विधाता च) चन्द्रमा ही [इन तिथियों का] धाता और विधाता [धारण करने वाला और बनाने वाला] है । (यत् पूर्णः अन्यां वसत्, पूर्णः अन्यां तत् मिथुनम्) जो पूर्ण [चन्द्रमा] एक [तिथि अनुमति, शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा] में वसे, और जो दूसरी [राका, पूरे चन्द्रमा वाली तिथि] में [वसे], वह जोड़ा है । (यत् अन्यां पश्यति, न अन्यां, तत् मिथुनम्) जो वह [चन्द्रमा] एक [सिनीवाली, कृष्णपक्ष की एक कला वाली चतुर्दशी तिथि] में दीखे और दूसरी [कुह अर्थात् कृष्णपक्ष की बिना चन्द्रमा वाली अमावास्या तिथि] में न [दीखे], वह जोड़ा है । (यत् अमावास्यायाः चन्द्रमाः अधिप्रजायते तत् मिथुनम्) जो अमावास्या से [कुह अर्थात् चन्द्रमा की सब कलाओं रहित तिथि से प्रतिपदा को] चन्द्रमा दिखाई दे, वह जोड़ा है । (तस्मात् मिथुनात् एव अस्मै पशुन् प्रजनयते) इस जोड़े से ही इस [मनुष्य] के लिये पशुओं [जावों] को वह [परमेश्वर] उत्पन्न करता है ॥ १० ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग ज्यातिष शास्त्र से यज्ञ के लिये पूर्णमासी और अमावस के जोड़े को जानें, क्योंकि जोड़े से ही सृष्टि उत्पन्न होती है ॥ १० ॥

पूजायां ज्ञाने च—क्तिन् । एककलाहीनचन्द्रवती शुक्लचतुर्दशीयुतपूर्णिमा तिथिः (राका) कृदाधारार्चिकलिभ्यः कः । उ० ३ । ४० । रा दाने—क प्रत्ययः, टाप् । योत्तरा सा राका—निरु० ११ । २६ । राका रातेर्दानकर्मणः—निरु० ११ । ३० । सम्पूर्णचन्द्रा पूर्णमासी (अमावास्या) अमा + वस निवासे—एयत्, टाप् । अमा सह वसनः चन्द्रसूर्यो यस्यां सा । कृष्णपक्षान्ततिथिः । अमावसी (सिनीवाली) इण्णिञ्जिदीङुयविभ्यो नक् । उ० ३ । २ । पिञ् बन्धने—नक्, डीप्, बलसंवरणे यद्वा बल जीवने दाने च—अण्, डीप् । या पूर्णमावास्या सा सिनीवाली, सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि वालं पर्व वृणोतेस्तस्मिन्नप्रवती, वालिनी वालेनेवास्यामणुत्वाच्चन्द्रमाः सेवितव्यो भवतीति वा—निरु० ११ । ३१ । चतुर्दशीयुक्ता ऽमावास्या । दृष्टचन्द्रकलायुक्तामावास्या । (कुहः) मृगयवादयश्च । उ० १ । ३० । कुह विस्मापने—कु, ऊङ् । योत्तरा [अमावास्या] सा कुहः—निरु० ११ । ३१ कुहर्गहतेः काभूदिति वा क सती ह्यत इति वा काहुतं हविर्जुहोतीति वा—निरु० ११ । ३२ । नष्टचन्द्रकला ऽमावास्या (वसन्) लटि ऊपम् । वसेत् ॥

करिडका ११ ॥

न द्वे यजेत यत् पूर्वया सम्प्रति यजेतोत्तरया छं वषट् कुर्याद्यदुत्तरया सम्प्रति यजेत पूर्वया छं वषट् कुर्यान्नेष्टिर्भवति न यज्ञस्तदनुहोतामुख्यमुपगल्भो-
ऽजायत, एकामेव यजेत प्रगल्भो हैव जायते न दृत्यन्त द्वे यजेत, यज्ञमुखमेव पूर्व-
मालभते यजत उत्तरया देवता एवं पूर्वयाप्नोतीन्द्रियमुत्तरया देवलोकमेव पूर्वया-
ऽवरुन्धे मनुष्यलोकमुत्तरया भूयसो यज्ञकतूनामुपैत्येष ह वै सुमनानामेष्टिर्ये
मध्ये याने पश्चाच्चन्द्रमा श्शुभ्युदियादस्मा अस्मिन् लोक आर्ध्रुकं भवति ॥ ११ ॥

करिडका ११ ॥ दोनों पौर्णमासी और अमावस में से एक

एक ही यज्ञ के आरम्भ और समाप्ति के लिये रहे ॥

(द्वे न यजेत) दो [तिथियों] में न यज्ञ करे । (यत् पूर्वया सम्प्रति यजेत उत्तरया छं वषट् कुर्यात्) जो पहिली [तिथि अनुमति—क० १०] से अब यज्ञ करे, पिछली [तिथि राका] से छं वषट् [शान्तिकरण और वषट्-कार] करे । (यत् उत्तरया सम्प्रति यजेत पूर्वया छं वषट् कुर्यात्) जो पिछली [तिथि राका] से अब यज्ञ करे, पहिली [तिथि अनुमति] से छं वषट् [शान्तिकरण और वषट्कार] करे । (तत् अनु न इष्टिः भवति न यज्ञः) उस के पीछे न इष्टि होती है न यज्ञ । (होता मुख्यम् उपगल्भः अजायत) होता [पीछे यज्ञ करने से] मुख्य करके निरुत्साही हो जाता है । (एकाम् एव यजेत, प्रगल्भः ह वै जायते) वह एक [तिथि] में ही यज्ञ करे, वह उत्साही ही होता है । (दृत्यन्त द्वे न यजेत) भयस्वभावी होकर दो [तिथियों] में न यज्ञ करे । (यजतः यज्ञमुखम् एव पूर्वम् आलभते, उत्तरया देवताः) यजमान यज्ञमुख को ही पहिली [तिथि] से प्राप्त करता है और पिछली से देव-ताओं [दिव्यगुणों] को । (एवं पूर्वया इन्द्रियम् आप्नोति, उत्तरया देवलोकम्) इस प्रकार पहिली [तिथि] से इन्द्रपन [परम ऐश्वर्य] और पिछली से देव-लोक [विद्वानों का स्थान] पाता है । (एव पूर्वया मनुष्यलोकम् अवरुन्धे

११—(सम्प्रति) इदानीम् । तत्कालम् (छं वषट्) शं पूर्वकं वषट्कारम् (तदनु) तत्पश्चात् (मुख्यम्) मुख्येन (उपगल्भः) उप हीने + गल्भ धात्वर्थे प्रागल्भे च—अच् । निरुत्साही (अजायत) जायते (प्रगल्भः) उत्साही (दृत्य-न्त) दृणातेर्ह्रस्वः । उ० ४ । १८४ दृ भये—तिप्रत्ययः । हसिमृगिण्वामिदमि० । उ० ३ । ८६ । अम गतौ—तन् । विभक्तिलोपः । भयस्वभावः (पूर्वम्) पूर्वया

उत्तरया यज्ञकतूनां भूयसः उपैति) इस प्रकार पहिली [तिथि] से मनुष्यलोक [मननशीलों का स्थान] पाता है और पिछली से यज्ञ कर्मों के बीच बहुत से [पदार्थों] को पाता है । (एष ह वै सुमनानामा इष्टिः) यह ही सुमन [सुबोधा] नाम वाली इष्टि है । (ये याने मध्ये पश्चात् चन्द्रमाः अभ्युदियात्, अस्मै अस्मिन् लोके आर्धुकं भवति) जो यज्ञ प्रवृत्ति के मध्य होने पर पीछे चन्द्रमा उदय हावे, इस [यजमान] के लिये इस लोक में बहुत बढ़ती होती है ॥ ११ ॥

भावार्थ—यज्ञ का आरम्भ और समाप्ति यथाविधि होनी चाहिये ॥ ११ ॥

कण्डिका १२ ॥

आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद् दशपूर्णाग्रामाचारिप्समाणोऽग्निर्वै सर्वा देवता विष्णुर्यज्ञो देवताश्चैव यज्ञं चारभत ऋध्या ऋध्नोत्येवौ संहारम्भावित्याहुर्दिनु शृङ्गे श्रितो मुच्यत इति दर्शो वा एतयोः पूर्वः पौर्णमास उत्तरोऽथ यत् परस्तात्पौर्णमास आरभ्यते तद्यथापूर्वं क्रियते तद्यत्पौर्णमासप्रारभमाणः सरस्वत्यै चरुं निर्वपेत्सरस्वते द्वादशकपालममावास्या वै सरस्वती पौर्णमासः सरस्वानित्युभावेवैतौ संहारमत ऋध्या ऋध्नोत्येव ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ दर्श पूर्णमास यज्ञ पर अग्नि और विष्णु तथा सरस्वती और सरस्वान् को चरु ॥

(दर्शपौर्णमासौ आरिप्समाणः आग्नावैष्णवम् एकादशकपालं निर्वपेत्)
अमावास्या और पूर्णमासी के यज्ञ को आरम्भ करना चाहने वाला पुरुष अग्नि

(आलभते) गृह्णाति । स्वो करोति (यजतः) भृमृदृशियजि० । उ० ३ । ११० । यजतेः—अतच् । ऋत्विक् । यजमानः (इन्द्रियम्) इन्द्रत्वम् । ऐश्वर्य्यम् । धनम्—निघ० २ । १० (देवलोकम्) विदुषां स्थानम् (एव) एवम् (मनुष्यलोकम्) मननशीलानां स्थानम् (भूयसः) बहु—ईयसुन् । बहुतरान् पदार्थान् (सुमनानामा) सु+मन ज्ञाने—अप्, टाप्+नामन् । सुबोधा इति नामयुक्ता (ये) यत् (मध्ये) यज्ञमध्ये (याने) गमने । यज्ञप्रवृत्तौ (अस्मै) यजमानाय (आर्धुकम्) त्रिसृष्टिधृषिपिपेः क्तुः । पा० ३ । २ । १४० । आ+ऋधु वृद्धौ—क्तु, स्वार्थे—कन् । प्रवर्धतम् ॥

१२—(आग्नावैष्णवम्) अग्निविष्णुदेवताकम् । अग्निसूर्यदेवताकम् (निर्वपेत्) जुहुयान् (आरिप्समाणः) आ+रभ राभस्ये—सन्—शानच् ।

और विष्णु देवता वाले [पार्थिव अग्नि और सूर्य की किरणों को शुद्ध करने वाले] ग्यारह पात्रों में धरे हुये [चरु] को होम करे । (अग्निः वै सर्वाः देवताः विष्णुः यज्ञः) [क्योंकि] अग्नि ही सब देवताओं [का रूप] है और विष्णु यज्ञ है । (देवताः च एव यज्ञं च आरभते, ऋध्या एव ऋध्नोति) वह देवताओं को ही और यज्ञ को आरम्भ करता है और समृद्धि के साथ बढ़ता है । (उभौ सहारम्भौ इति आहुः) दोनों [अग्नि और विष्णु] साथ साथ आरम्भ होने वाले होते हैं—ऐसा कहते हैं । (उदिनु, शृङ्गे श्रितः मुच्यते इति) [इस लिये] तू ऊंचा चल, दोनों सीगों का आश्रय लिये हुये [बैल विघ्न से] छुट जाता है । (एतयोः दर्शः वै पूर्वः पौर्णमासः उत्तरः) इन दोनों में अमावास्या यज्ञ पहिले और पूर्णमासी यज्ञ पीछे है । (अथ यत् परस्तात् पौर्णमासः आरभ्यते तत् यथा पूर्व क्रियते) फिर जब पौर्णमास यज्ञ पीछे से आरम्भ किया जाता है, तब पहिले के समान [कर्म] किया जाता है । (तत् यत् पौर्णमासम् आरभमाणः द्वादशकपालं चरुं सरस्वत्यै सरस्वते निर्वपेत्) सो पौर्णमास यज्ञ आरम्भ करता हुआ पुरुष बारह पात्रों में धरे हुये चरु को सरस्वती [गतिशीला] के लिये और सरस्वान् [गतिशील] के लिये होमै । (अमावास्या वै सरस्वती, पौर्णमासः सरस्वान् इति उभौ एव एतौ सह आरभते, ऋध्या एव ऋध्नोति) अमावास्या [इष्टि] सरस्वती और पौर्णमास [यज्ञ] सरस्वान् है, इस लिये इन दोनों को ही साथ साथ वह आरम्भ करता है और समृद्धि से ही वह बढ़ता है ॥ १२ ॥

भावार्थ—मनुष्य दर्शेष्टि और पूर्णमास यज्ञ यथाविधि कर के पदार्थों की शुद्धि से यथावत् लाभ उठावे ॥ १२ ॥

कण्डिका १३ ॥

अग्नये पथिकृतेऽष्टाकपालं निर्वपेद्यस्य प्रज्ञातेष्टिरिति पद्यते वहिष्पथं वा एष एति यस्य प्रज्ञातेष्टिरिति पद्यते, वै अग्निदेवानां पथिकृत्तमेव भागधेये-नापासरत्न एनं पन्थानमपि नयत्यनङ्गा दक्षिणा स हि पन्थानमभिव इति ॥ १३ ॥

सनि मीमाद्युरभलभ० । पा० ७ । ४ । ५४ । सन् इत्यस्य इस् इत्यादेशः । आर-
ब्धुमिच्छन् (ऋध्या) ऋध्या सम्पत्त्या (ऋध्नोति) वर्धते (उदिनु) उत् +
इण् गतौ—लोट्, आर्परूपम् । उदिहि । उद्गच्छ (श्रितः) आश्रितः (मुच्यते)
मुक्तो बन्धशून्यो भवति (परस्तात्) पश्चात् (सरस्वत्यै) गतिशीलायै (सर-
स्वते) गतिशीलाय ॥

कण्डिका १३ ॥ मार्गकर्ता अग्नि के लिये अष्टाकपाल चरु ॥

(पथिकृते अग्नये अष्टाकपालं निर्वपेत्, अग्न्य प्रज्ञाता इष्टिः पद्यते इति) मार्ग करने वाले अग्नि के लिये अष्ट पात्रों में धरे हुए [चरु] को वह पुरुष होमे, जिस की अच्छी प्रकार जानी हुई इष्टि चल [प्रवृत्त] है । (एषः वै वहि-
पथन् एति अस्य प्रज्ञाता इष्टिः पद्यते इति) वह ही पात्रों वाले मार्ग को पाता है जिस की अच्छी प्रकार जानी हुई इष्टि चलती है । (अग्नि वै देवानां पथि-
कृत्, तम् एव भागधेयेन उपासरत्) अग्नि ही देवों का मार्ग करने वाला है, उस को ही भाग दान से वह [यजमान] प्राप्त करे । (सः एनं पन्थानम् अपि-
नयति) वह [अग्नि] इस [यजमान] को मार्ग से ही ले चलता है । (अनङ्गा
दक्षिणा) बिना अङ्गों वाली [सम्पूर्णा] दक्षिणा [प्रतिष्ठा] दक्षिणा है [? दक्षिणा
के विषय में क० ५ भी देखा] । (सः हि पन्थानम् अभिवः इति) वह ही
[यजमान] मार्ग को सब ओर से स्वीकार करता है ॥ १३ ॥

भावार्थ—जैसे यज्ञ में अग्नि की स्थापना मुख्य कर्म है, वैसे ही शरीर में अग्नि वा बल की स्थिति आवश्यक है ॥ १३ ॥

कण्डिका १४ ॥

अग्नये व्रतपतयेऽष्टाकपालं निर्वपेद् य आहिताग्निः सम्प्रवसेद् बहु वा
एष व्रतमतिपातयति य आहिताग्निः सम्प्रवसति व्रत्येऽहनि स्त्रियं वोपैति
मांसं वा अश्नात्यग्निर्वै देवानां व्रतपतिरग्निमेतस्य व्रतमगात्तस्मादेतस्य व्रतमा-
लम्भयते ॥ १४ ॥

**कण्डिका १४ ॥ वृतपालक अग्नि के लिये अष्टाकपाल चरु, और
वृत में स्त्रीगजन और मांसभक्षण का निषेध ॥**

(व्रतपतये अग्नये अष्टाकपालं निर्वपेत् यः आहिताग्निः सम्प्रवसेत्)
वृतपालक अग्नि के लिये अष्ट पात्रों में धरे हुए [चरु] को वह होमे, जो पुरुष

१३—(पथिकृते) मार्गकर्ते । मार्गदर्शकाय (प्रज्ञाता) प्ररूपेण ज्ञाता
(पद्यते) गच्छति । पद्यते (आश्) अग्निः (भागधेयेन) भागदानेन (उपासरत्)
उपगच्छति । प्राप्नोति (अनङ्गा) अङ्गरहिता । सम्पूर्णा (अभिवः) अभिवृणाति ।
स्वीकरोति ॥

१४—(व्रतपतये) वृतपालकाय (आहिताग्निः) यज्ञाय स्थापिताग्निः
(सम्प्रवसेत्) विदेशे वासं कुर्यात् (अतिपातयति) विनाशयति (व्रत्ये) वृत-

[यज्ञ के लिये] अग्नि स्थापित किये हुये होकर विदेश में बसे । (एषः वै बहु-
व्रतम् अतिपातयति, यः आहिताग्निः सम्प्रवसति वा वृत्ये अहनि स्त्रियम् उपैति
वा मांसम् अश्नाति) वह पुरुष बहुत व्रत को नष्ट कर देता है, जो अग्नि
स्थापित किये हुये विदेश में बसे अथवा व्रत योग्य दिन में स्त्री के पास जावे
अथवा मांस [रोचक वा उत्तमक पदार्थ] खावे । (अग्निः वै देवानां व्रतपतिः,
अग्निम् एतस्य व्रतम् अगात्) अग्नि ही देवों [विद्वानों] का व्रतपालक है,
अग्नि को इस [यजमान] का व्रत प्राप्त होता है । (तस्मात् एतस्य व्रतम् आल-
म्भयते) इस लिये वह इस [अग्नि] के व्रत को स्पर्श करता है [स्वीकार
करता है] ॥ १४ ॥

भावार्थ—विदेश में बसता हुआ भी यज्ञ करता रहे और यज्ञ के दिनों
में यजमान वह कर्म न करे जिस से श्रम वा काम वा क्रोध उत्पन्न होवे ॥ १४ ॥

कण्डिका १५ ॥

अग्नये व्रतभृतेऽष्टाकपालं निर्वपेद्य आहिताग्निरार्तिजमश्रु कुर्यादानीतो
वा एष देवानां य आहिताग्निस्तस्मादेतेनाश्रु न कर्त्तव्यं न हि देवा अश्रु कुर्वन्त्य-
ग्निर्वै देवानां व्रतभृदग्निमेतस्य व्रतमगात्तस्मादेतस्य व्रतमालम्भयते ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ व्रतपोषक अग्नि के लिये अष्टाकपाल चरु ॥

(व्रतभृते अग्नये अष्टाकपालं निर्वपेत् यः आहिताग्निः आर्तिजम् अश्रु
कुर्यात्) व्रतपोषक अग्नि के लिये आठ कपालों में धरे हुये [चरु] को वह पुरुष
होमे, जो अग्नि स्थापित किये हुये होकर पीड़ा से उत्पन्न आंसु को बहावे ।
(एषः वै देवानाम् आनीतः यः आहिताग्निः) वह पुरुष ही देवों [विद्वानों]
का लाया हुआ है जो अग्नि स्थापित किये हुये है । (तस्मात् एतेन अश्रु न कर्त्तव्यं
हि देवाः अश्रु न कुर्वन्ति) इस लिये यह [यजमान] आंसु न बहावे, क्योंकि

योग्ये (मांसम्) मनदीर्घश्च । उ० ३ । ६४ । मन ज्ञाने—सप्रत्ययो दीर्घश्च ।
मांस माननं वा मानसं वा मनाऽस्मिन्सीदतीति वा—निरु० ४ । ३ । रोचकं
समुत्तेजकं वा पदार्थम् (अश्नाति) भक्षति (अगात्) इण् गतौ—लुङ् ।
गच्छति । प्राप्नोति (आलम्भयते) स्पृशति । स्वीकरोति ॥

१५—(व्रतभृते) व्रतपोषकाय (आर्तिजम्) पीडाजनितम् (अश्रु)
जम्बादयश्च । उ० ४ । १०२ । अश्रु व्याप्तौ—रु प्रत्ययः । अश्रुते व्याप्नोति नेत्र-
मदशनाय । नेत्रजलम् ॥

देवता लोग आंसु नहीं बहाते हैं। (अग्निः वै देवानां वृतभृत्, अग्निम् एतस्य वृतम् अगात्) अग्नि ही देवों [विद्वानों] का वृतपोषक है, अग्नि को इस [यजमान] का वृत प्राप्त होता है। (तस्मात् एतस्य वृतम् आलम्भयते) इस लिये वह इम [अग्नि] के वृत को स्पर्श करता है [स्वीकार करता है] ॥ १५ ॥

भावार्थ—महाकण्ठ होने पर भी मनुष्य यज्ञ करता रहे ॥ १५ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका का मिलान करो—ये रेय व्र ह्यण । ७ । ८ ॥

कण्डिका १६ ॥

ऐन्द्राग्नमुत्स्न [मुस्न] मनुसृष्टमालभेत यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेदिन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यध्यते यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबति, यदैन्द्रं इन्द्र इन्द्रियेणैवैनं तद्वीर्येण समर्द्धयति देवताभिर्वा एष वीर्येण व्यध्यते यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबति, यदाग्नेयोऽग्निर्वै सर्वा देवताः सर्वाभिरैवैनन्तद् देवताभिः समर्द्धयत्यनुसृष्टो भवत्यनुसृष्ट इव ह्येतस्य सोमपीथो यस्य पिता पितामह सोमं न पिबति तस्मादेप एवत्तस्या देवतायाः पशूनां समृद्धः ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ जिसके पिता पितामह ने सोमपान नहीं किया, वह सोमयाग करे ॥

(ऐन्द्राग्नम् अनुसृष्टम् उत्स्नम् [उस्नम्] आलभेत् यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेत्) इन्द्र और अग्नि देवता वाले [विजुली और अग्नि के स्वभाव वाले], छुटे हुये बैल को वह [यजमान] छूये, जिस का पिता और पितामह सोमरस न पीवे। (इन्द्रियेण वीर्येण वै एषः व्यध्यते, यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबति) इन्द्रिय [ऐश्वर्य] से और वीर्य [वीरत्व] से निश्चय करके वह नष्ट होता है, जिस का पिता [वा] पितामह सोमरस नहीं पीता है। (यत् तत् इन्द्रः ऐन्द्रम् एनम् इन्द्रियेण वीर्येण समर्द्धयति) क्योंकि उस से इन्द्र [परमेश्वर] इन्द्र देवता वाले इस [यजमान] को इन्द्रपन और वीरत्व के साथ बढ़ाता है। (देवताभिः वै एषः वीर्येण व्यध्यते, यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबति) देवताओं करके अवश्य यह [यजमान] वीर्य से नष्ट किया जाता है जिस का पिता [वा] पितामह सोमरस नहीं पीता है।

१६—(उत्स्नम्) अस्य स्थाने उस्नम् इति पदम् अनुभूयते । स्फायितञ्चिवञ्चि० । उ० २ । १३ । वस निवासं आच्छादने च—रक् । उस्नम् । वृषभम्

(यत् तत् अग्निः वै सर्वाः देवताः आग्नेयः एनं सर्वाभिः देवताभिः समर्धयति) क्योंकि उस से अग्नि [परमेश्वर] सब देवताओं रूप हो करके अग्नि देवता वाले इस [यजमान] को बढ़ाता है । (अनुसृष्टः भवति, अनुसृष्टः इव हि एतस्य सोमपीथः यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबति) वह [यजमान श्रेष्ठों करके] छोड़ा गया होता है और उस [यजमान] का सोमयान यज्ञ भी [श्रेष्ठों करके] छोड़ा गया अवश्य होता है जिस के पिता [वा] पितामह [दादा] सोमरस नहीं पीता है । (तस्मात् एषः एव तस्याः देवतायाः पशूनां समृद्धः) इस लिये यह [यजमान] उस देवता के पशुओं [जीवों] में समृद्ध होता है ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग उस मनुष्य का आदर करते हैं, जो सोमपान कराकर अपने बड़े वृद्धों को वृत्त करता है ॥ १६ ॥

कण्डिका १७ ॥

देवा वा ओषधीषु पक्वास्वजिमयुः स इन्द्रो वेदाग्निर्वा वैमाः प्रथम उज्जै-
ष्यतीति सोऽब्रवीद्यतरो नौ पूर्वं उज्जयात्तं नौ सहेति ता अग्निरुदजयत्तदिन्द्रो
नादजयत स एष ऐन्द्राग्निः सन्नाग्नेन्द्र एका वै तर्हि यवस्य श्रुष्टिरासीदेका व्रीहे-
रेका माषस्यैका तिलस्य तद्विश्वेदेवा अब्रुवन् वयं वा एतत् प्रथयिष्यामो भागो
नाऽस्त्विति तद्भूम एव वैश्वदेवाऽथो प्रथयत्येतेनैव पयसि स्याद्वैश्वदेवत्वाय
वैश्वद्वं इह पयाऽथेमे अब्रूतां नवा ऋत आवाभ्यामेवैतद्युयं प्रथयत मयि प्रति-
ष्ठितमसौ दृष्ट्या पचति नैतदितोऽभ्युज्जैष्यतीति भागो नावस्त्विति ताभ्यां
वा एष भागः क्रियत उज्जित्या एवाथो प्रतिष्ठित्या एव ये द्यावापृथिवीरः
सौमीर्वा ओषधी सोम ओषधीनामधिगजो याश्च ग्राम्या याश्चारण्यास्तासामेष
उद्धारो यच्छ्यामाको यच्छ्यामाकः सौम्यस्तमेव भागिनं कृणुते यदकृत्वाऽऽग्रयणं
नवस्याशनीयाद् देवानां भागं प्रतिकृत्तमघात्संवत्सराद्वा एतदधिप्रजायते यदा-
ग्रयणं संवत्सरं वै ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसस्थितहोमोवावपेतैः महायनो
दक्षिणा स हि संवत्सरस्य प्रदिक्षा रंन एव ह्येषां प्रजातः प्रजात्यै ॥ १७ ॥

(व्यध्वते) ताड्यते । छिद्यते (आग्नेयः) आग्नेयम् । अग्निदेवताकम् (अनु-
सृष्टः) निर्मुक्तः (सोमपीथः) निशीथगोपीथावगथाः । उ० २ । ६ । सोम +
पा पाने—थक् । सोमपानम् ॥

कण्डिका १७ ॥ ओषधियों [अन्न आदि पदार्थों] के पकने पर
इन्द्र—अग्नि, विश्वे देवा, और सोम के लिये
चरु के विषय में कथा ॥

(देवाः वै ओषधीषु पकासु अजिमयुः) प्रसिद्ध है देवता ओषधियों के पकने पर जीमते हैं । (सः वेद् इन्द्रः वा अग्निः वा इमाः प्रथमः उज्जेष्यति इति) वह [यजमान] जान—कि इन्द्र अथवा अग्नि इन [ओषधियों] को पहिले जीतेगा । (सः अब्रथीत् गतः तौ पूर्वाः उज्जयात् तं नो सह इति) वह [इन्द्र वा अग्नि] बोला—जो कोई हम दोनों में से पहिले जीते, उस को हम दोनों में से [हे इन्द्र वा अग्नि] तू सह । (ताः अग्निः उज्जयन् तत् इन्द्रः न उज्जयत) उन [ओषधियों] को अग्नि ने जीता, उन को इन्द्र ने जीता । (सः एषः ऐन्द्राग्नः सन् आग्नेः उः) सो यह [चरु] इन्द्र—अग्नि का होता हुआ अग्नि और इन्द्र का है । (तर्हि वै एका श्रुष्टिः श्वस्य आग्नीन्, एका ब्राहेः, एका मापय, एका विष्णव्य) तब ही जो का एक विभाग होता है, एक चावल का, एक उरद का, एक निम का । (तर् विश्वेदेवाः अब्रुवन् पयं वै एतत् प्रथयिष्यामः नः भागः अस्तु इति) तब विश्वदेवा बोले—हम ही इस [यज्ञकर्म] को फैलावेंगे, हमारा भाग होवे । (तत् भूमः एव वैश्वदेवः) सो विद्यमान चरु ही विश्वे देवा का है । (अयो एतेन एव पदासि प्रथयात, वैश्वदेवत्वाय वैश्वदेवं हि पयः स्यात्) फिर इस से ही अन्न में वह [यजमान] फैलता है, विश्वदेवों के लिये विश्वदेवों वाला अन्न होवे । (अथ इमे अब्रूताम् आवाभ्याम् ऋते एतत् एव न वै) फिर यह दोनों [देवता इन्द्र और अग्नि] बोले—हम दोनों के बिना यह [अन्न] नहीं होता । (यूर्यं प्रथयत मयि प्रतिष्ठितम् एतत् असां वृष्ट्या न पचति, इतः अभ्युज्जेष्यति इति, नो भागः अस्तु इति) तुम प्रसिद्ध करते हो—मुझ ने ठहरे हुये इस [अन्न] को वह [इश्वर] वृष्टि से अब पकाता

१७—(अजिमयुः) अिम अदने—लुङ् । जेमन्ति । भक्षन्ति (सह) सहनं कुरु (श्रुष्टिः) श्रु गतोः श्वसो च—क्तिन्, मुडागमश्च । प्रापणीया । आहुतिः । विभागः । श्रुष्टीति क्षिप्रनामाशु अष्टाति—निरु० ६ । १२ (प्रथयिष्यामः) विस्तारयिष्यामः (भूमः) शपथुर्धीन्धिदस्तिश्याधूमृभ्या मक् । उ० १ । १४५ । भू सत्तायां—मक् । विद्यमानपदार्थः । चरुः (पयसि) अन्ने—निय० २ । ७ (वैश्वदेवत्वाय) विश्वेभ्यां देवेभ्यः (ऋते) विना (न) सत्प्रति—निरु० ७ ।

है, इस से वह [इन्द्र वा अग्नि] जीतेगा, इस से हम दोनों का भाग होवे । (ताभ्यां वै एषः भागः उज्जित्यै एव अथो प्रतिष्ठित्यै एव क्रियते ये द्यावापृथिवीयः) उन दोनों [इन्द्र और अग्नि] के लिये ही यह भाग जीत के लिये ही और प्रतिष्ठा के लिये ही किया जाता है, जो [भाग] सूर्य और पृथिवी वाला है । (सौमीः वै ओषधीः) सोम देवता वाली ही ओषधियां [अन्न, सोमलता आदि] हैं । (सोमः ओषधीनाम् अधिराजः याः च ग्राम्याः याः च आरण्याः) सोम ओषधियों का राजा है जो गांव में उपजने वाली और जो बन में उपजने वाली हैं । (तासाम् एषः उद्धारः यत् श्यामाकः) उन [ओषधियों] का यह उद्धार [उठाने का व्यवहार] है जो समा [अन्न विशेष का यज्ञ] है । (यत् श्यामाकः सौम्यः तम् एव भागिनं कृणुते) जो समा [छोटे कर्णों वाला अन्न सब ओषधियों का स्थानापन्न] सोम देवता वाला है, उस [सोम] को ही [उस समा का] भागी वह [यजमान] करता है । (यत् आग्रयणम् अकृत्वा नवस्य अशनीयात्, देवानां प्रतिकल्मसं भागम् अद्यात्) जो वह [यजमान] आग्रयण [नवे अन्न का यज्ञ] न करके नवे [अन्न] का भोजन करे, वह देवताओं के प्रत्यक्ष उपस्थित भाग को खा लेवे । (संवत्सरात् वै एतत् अग्निप्रजायते यत् आग्रयणम्) संवत्सर के आरम्भ से ही यह प्रगट होता है जो आग्रयण [नवे यज्ञ का अन्न] है । (संवत्सरं वै ब्रह्मा, तस्मात् ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमेषु आवपेत) संवत्सर ही ब्रह्मा [बड़ा हुआ] है, इस लिये ब्रह्मा [चारों वेद जानने वाला] पुरस्तात्—होम और संस्थित—होमों में [इन अन्नों को] होमे । (एकहायनः दक्षिणा, सः हि संवत्सरस्य प्रतिमा रेतः एव हि एषः प्रजात्यै प्रजातः) एकहायन [एक वर्ष वाला यज्ञ] दक्षिणा [नाम इष्टि] है, वह [यज्ञ] ही संवत्सर की मूर्ति है, वीर्य ही यह [यज्ञ] प्रजा की उत्पत्ति के लिये उत्पन्न हुआ है ॥ १७ ॥

३१ । (ये) यः (आभ्याः) ग्रामाद् यस्त्रजौ । पा० ४ । २ । ६४ । ग्राम—य । ग्रामे भवाः (आरण्याः) अरण्याण् णो वक्तव्यः । वा० पा० ४ । २ । १०४ । अरण्य—ण । वनजाताः (उद्धारः) उत् + हृज हरणे—घञ् । उत्थापनम् (श्यामाकः) पिनाकादयश्च । उ० ४ । १५ । श्यैङ् गतौ—आक, मुगागमश्च । व्रीहिभेदः (आग्रयणम्) अग्र + अयन, पृषोदरादित्वाद् ध्रस्वदीर्घौ । नवशस्येष्टिः (नवस्य) नवीनाम् (प्रतिकल्मसम्) प्रस्तुतम् (संवत्सरम्) संवत्सरः (आवपेत) निर्वपेत् । जुह्यात् (एकहायनः) एकवर्षीयो यागः (दक्षिणा) दक्षिणा-नामेष्टिः (प्रतिमा) मूर्तिः (प्रजात्यै) प्रजननाय ॥

भावार्थ—मनुष्य नवीन अन्न से यज्ञ करने से अपना बल वीर्य बढ़ाने हैं ॥ १७ ॥

टिप्पणी—बल और तेज ही इन्द्र और अग्नि हैं—कण्डिका २२ ॥

कण्डिका १८ ॥

अथ हैतदप्रतिरथमिन्द्रस्य वाह स्थविरौ वृषाणावित्येतेन ह वा इन्द्रोऽसुरानप्रत्यजयदप्रति ह भवत्येतेन यजमानो भ्रातृव्यं जयति सङ्ग्रामे जुहुयादप्रति ह भवत्येतेन ह वै भरद्वाजः प्रतर्दनं समनह्यत् स राष्ट्रस्यमवद्यं कामयेत राष्ट्री स्यादिति तमेतेन सन्नह्येद्राष्ट्री ह भवत्येतेन ह वा इन्द्रो विराजमभ्यजयदशंतान्वाह दशाक्षरा विराड् वैराजं वा एतेन यजमानो भ्रातृव्यं वृङ्क्ते तदु हैक एकादशान्वाहुरंकादशाक्षरा वै त्रिण्डुप् त्रण्डुभां वज्रां वज्रैशैवतद्रक्षांस्यपसेधति दक्षिणतो वै देवानां यज्ञं रक्षांस्यजिघ्रांसथं तान्यप्रतिरथेनापाघ्नत, तस्माद् ब्रह्मा अप्रतिरथञ्ज गन्धेति । यद्ब्रह्मा अप्रतिरथं जपन्नेति, यज्ञस्याभिजित्ये रक्षसामपहत्ये रक्षसामपहत्ये ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ अप्रतिरथ नाम सूक्त के प्रयोग की कथा ॥

[अप्रतिरथ सूक्त, युद्ध यात्रा का राग, अथर्ववेद काण्ड १६ में १३ वां सूक्त ११ मन्त्र का है, उस में युद्ध विद्या का वर्णन है ।]

(अथ ह एतत् अप्रतिरथम्—इन्द्रस्य वाह स्थविरौ वृषाणौ इति) अब यह अप्रतिरथ सूक्त [युद्ध यात्रा का राग] है—[इन्द्रस्य वाहू...] इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान् सेनापति] के दोनों भुजायं पुष्ट और वीर्य युक्त हों.....अथर्व० १६ । १३ । ११ । (एतेन ह वै इन्द्रः अप्रति असुरान् अजयत्) इस [सूक्त के प्रयोग] से ही इन्द्र ने बरोक हाकर वैरियों को जीता है । (एतेन यजमानः अप्रति ह भवति भ्रातृव्यं जयति) इस [युद्ध राग] से यजमान बरोक ही होता है और वैरी को जीतता है । (सङ्ग्रामे जुहुयात्, अप्रति ह भवति) वह सग्राम में

१८—(अप्रतिरथम्) प्रतिपक्षरहितयुद्धयात्रा—इत्येतन्नामकं सूक्तम्—अथर्व० १६ । १३ । १—११ (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतः सेनापतेः (वाहू) भुजौ (स्थविरौ) अजिरशिशिरशिथिल० । उ० १ । ५३ । ष्ठा गतिनिवृत्तौ—किरच् वुगागमः । स्थूलौ । पुष्टौ (वृषाणौ) वीर्ययुक्तौ (असुरान्) राज्ञसान् (अप्रति) प्रतिपक्षरहितः (भरद्वाजः) भरत्—वाजः । भृज् धारणपोषणयोः—शतृ+वज गतौ—घञ् । वाजः, अन्नम्—निघ० २ । ७ । बलम्—निघ० २ । ६ ।

यज्ञ करे [सूक्त की शिक्षा के अनुसार युद्ध करे], वह बेरोक होता है । (एतेन ह वै भरद्वाजः प्रतर्हन् समनह्यत् स राष्ट्री अभवत्) इस [सूक्त] से ही अवश्य भरद्वाज [अन्न वा बल वा विज्ञान के धारण करने वाले पुरुष इन्द्र] ने शस्त्रों को सजाया है, और वह राज्य वाला हुआ है । (यं कामयेत् राष्ट्री स्यात् इति) वह [मनुष्य] जो पदार्थ चाहे, वह राजा होवे । (तम् एतेन सन्नह्येत्, राष्ट्री ह भवति) वह [ब्रह्मा] उस [यजमान] को इस [सूक्त] से संनद्ध करे, वह राजा होवे । (एतेन ह वै इन्द्रः विराजम् अभ्यजयत्) इस से ही इन्द्र ने विविध प्रकार राज्य जीता है । (दश एतान् उ आह, दशाक्षरा विराट्, यजमानः एतेन वै वैराजं भ्रातृव्यं वृङ्क्ते) वह इन दश [मन्त्रों] को ही बोलता है, दश अक्षर वाला विराट् छन्द है, यजमान इस से ही विविध राज में उत्पन्न वैरी को रोकता है । (तत् उ ह एके एकादश अनु आहुः, एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्, त्रैष्टुभः वज्रः, वज्रेण एव एतत् रक्षांसि अपसेधति) फिर कोई कोई ग्यारह ही [मन्त्र] बोलते हैं, ग्यारह अक्षर वाला त्रिष्टुप् छन्द है, त्रिष्टुप् [तीन जोड़ अर्थात् वांस, सीङ्ग शल्य अथवा त्रिशूल] वाला वज्र है, वज्र से ही यह [इन्द्र सेनापति] राजसों को हटा देता है । (दक्षिणतः वै देवानां यज्ञम् रक्षांसि अजिघांसन्, तानि अप्रतिरथेन अपाघ्नत) दक्षिण ओर से [उपलक्षण से सब दिशाओं से] ही देवों के यज्ञ को राजस नष्ट करना चाहते हैं, उन को वह [सेनापति] अप्रतिरथ [बेरोक युद्ध यात्रा] से मार गिराता है । (तस्मात् ब्रह्मा अप्रतिरथं जपन् एति) इस लिये ब्रह्मा [चारों वेद जानने वाला] अप्रतिरथ सूक्त को जपता हुआ [विचारता हुआ] चलता है । (यत् ब्रह्मा अप्रतिरथं जपन् एति, यज्ञस्य अभिजित्यै रक्षसाम् अपहत्यै रक्षसाम् अपहत्यै) जो कि ब्रह्मा [चतुर्मुखी सेनापति] अप्रतिरथ सूक्त को जपता हुआ चलता

वाजस्य अन्नस्य बलस्य विज्ञानस्य वा धारकः (प्रतर्हन्) शस्त्रसभूदम् (समनह्यत्) सन्नद्धवान् । सजितवान् (राष्ट्री) राष्ट्र—इति । राज्यवान् (उ) अवधारणे (आह) कथयति (वैराजम्) विविधराज्ये भवम् (वृङ्क्ते) वृजी वर्जने । वर्जयति (अनु) निरन्तरम् (आहुः) कथयन्ति (त्रैष्टुभः) त्रिष्टुभ्-अण् स्वार्थे । त्रिष्टुप्, त्रिवृद् वज्रस्तस्य स्तोमतीति वा—निरु० ७ । १२ । वेणुः शृङ्गम् शल्यम् इति त्रिनान्धयुक्तो वज्रः । त्रिशूलवान् (अपसेधति) अपगमयति । निवारयति (अजिघांसन्) हन हिंसागत्योः—सनि-लङ् । हन्तुं नाशयितुमैच्छन् (एति) गच्छति । प्रवर्तते (अपहत्यै) सर्वनाशाय ॥

है वह [यज्ञ] यज्ञ की पूरी जीत के लिये और राक्षसों के सर्वनाश के लिये, राक्षसों के सर्व नाश के लिये, होता है ॥ १५ ॥

भावार्थ—मनुष्य वैदिकहित कर्मों को पुरुषार्थ से करके विघ्नों को हटाकर आनन्द भोगें ॥ १५ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाचा मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता है—

इन्द्रस्य वाहः स्वविरो वृषाणो चित्रा पुमा वृषाणो पारयिणू । तौ येत्ति प्रथमो योग आगते वाभ्यो जितमसुराणां स्वयम् ॥ अथ० १६ । १३ । १, भेद से साम उ० ६ । ३ । ७ ॥ (इन्द्रस्य) इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान् पुरुष सेनापति] के (इमौ) यह दोनों (वाहू) भुजायें (स्वविरो) पुष्ट (वृषाणौ) वीर्ययुक्त, (चित्रा) अद्भुत (वृषाणां) श्रोण्ड और (पारयिणू) पार लगने वाले होत्रें । (तौ) उन दोनों को (योगे) अनन्तर (आगते) आने पर (प्रथमः) मुखिया तू (येत्ति) काग में लाना है, (वाभ्यम्) जिन दोनों से (असुराणाम्) असुरों [प्राण लेंने वाले शत्रुओं] का (यम्) जो (स्वः) सुख है [वह] (जितम्) जीता जाता है । शेष मन्त्र २-१२ भाष्य में देखो ॥

कण्डिका १६ ॥

अथानश्चातुर्मास्यानां चातुर्मास्यानां प्रयोगः फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातु-
र्मास्यानि प्र-जीत । सुखं वा एतत्संवत्सरस्य, यत् फाल्गुनी पौर्णमासी, सुखम्
उत्तरे फाल्गुन्यां, पुच्छं पूर्वे, तद्यथाप्रवृत्तस्यान्तौ समेतौ स्याताम्, एवमेवैतत्
संवत्सरस्योत्तरे समेतौ भवतः । तच्च फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्यैर्जने,
सुखत एवैतत् संवत्सरं प्रयुञ्जते । अथां संप्रयत्ना वा एते, यच्चातुर्मास्यानि ।
तस्मादनुसन्निवृत्तं प्रयुज्यन्ते, ऋतुसन्धिषु वै व्याधिर्जायते । तान्येतान्यष्टौ हवींषि
भवन्ति, ऋष्टौ वै अश्विणां पौर्णमासी तं हवींषि शयन्ति चतसृणां वै पौर्णमा-
सी तां वैश्वदेवं समातः । अथ यद्विंशं सन्धति, प्रजापतिर्वै वैश्वदेवं प्रजात्या
एव । अथैतं वैश्वं गर्भं प्रजयति । अथ यत् सतदश सासंधेन्यः, सतदशो वै प्रजा-
पतिः, प्रजापतरपत्ये । अथ यत् सतदशवाज्यमागावनिभजतीति वै सद्धन्तौ
भवतः । अथ यद्विराजो संशब्दे, अशं व अविगद्, अशब्दस्य शिषोऽवर्धयं ।
अथ यज्ञव प्रयाजा नवानुयाजा ऋष्टौ हवींषि वाजिनपत्यं, तत्र नरीयां विराज-
माप्नोति । अथा आहुर्दशनीं विराजमिति प्रयाजानुयाजा हवींष्याधारावाज्यमागा-
विति ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ चातुर्मास यज्ञ फाल्गुनी पूर्णमासी से करने होते हैं ॥

(अथ अतः चातुर्मास्यानां चातुर्मास्यानां प्रयोगः) अब यहां से चार महीनों में होने वाले चातुर्मास्य यज्ञों का प्रयोग है । (फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत) फाल्गुन महीने की पूर्णमासी पर चातुर्मास्य यज्ञों का प्रयोग [अनुष्ठान] करे । (एतत् वै संवत्सरस्य मुखं यत् फाल्गुनी पूर्णमासी) यह ही संवत्सर [वर्ष] का मुख [आरम्भ] है, जो फाल्गुनी पूर्णमासी है । (उत्तरे फाल्गुन्यौ मुखं, पूर्वे पुच्छम्) पिछली दोनों फाल्गुनी [अश्विना आदि नक्षत्रां में बारहवां नक्षत्र जिस के उत्तर-दक्षिण और उत्तर में दो तारे हैं] मुख और पहिले दोनों [फाल्गुनी अर्थात् अश्विनी आदि नक्षत्रों में दो तारों वाला ग्यारहवां नक्षत्र] पूछ है । (तत् यथा प्रवृत्तस्य अन्तौ समेतौ स्याताम् एवम् एव एतत् संवत्सरस्य अन्तौ समेतौ भवतः) सो जैसे घूमते हुये पदार्थ के दोनों अन्त [अर्थात् अन्त और आदि] मिले हुये हों, वैसे ही इस संवत्सर के दोनों अन्त मिले होते हैं । (तत् यत् फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्यैर्यजते, मुखतः एव एतत् संवत्सरं प्रयुञ्क्ते) सो जो फाल्गुनी पूर्णमासी पर चातुर्मास्यों से यज्ञ करता है, आरम्भ से ही वह संवत्सर का प्रयोग करता है । (अथो एते वै भेषज्ययज्ञाः, यत् चातुर्मास्यानि) फिर यह ही ओषधियज्ञ हैं, जो चातुर्मास्य यज्ञ हैं । (तस्मात् ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते, ऋतुसन्धिषु वै व्याधिः जायते) इस लिये ऋतुओं के मेल पर उन का प्रयोग होता है, ऋतुओं के मेल पर ही राग होता है ।

(तानि एतानि अष्टौ हवीषि भवन्ति, अष्टौ वै चतसृणां पौर्णमासीनां हवीषि भवन्ति, चतसृणां व पौर्णमासीनां वैश्वदेवं समासः) सो यह आठ

१६—(चातुर्मास्यानाम्) चतुर्मासेषु भवानाम् (मुखम्) आरम्भः (समेतौ) सम + आ + इण् गतौ - क । समागतौ । संगतौ (ऋतुसन्धिषु) ऋतूनां संगमेषु (व्याधिः) रोगः (वैश्वदेवम्) विश्वेषां देवानां हविः (समासः) सम् + असु क्षेपणे - वञ् । समाहारः । संग्रहः (मन्थन्ति) मन्थ विलोडने । विलोडयन्ति (प्रजात्यै) सन्तानोत्पादनाय (देवम्) दिव्यम् । मनोहरम् (सामिधेयः) समिधामाधाने षेयण् । वा० पा० ४ । ३ । १२० । समिध्—षेयण्, डन्प् । अग्निसमिन्धनमन्त्राः । धारयाः (सप्तदशः) सप्तदशावययुक्तः (प्रजापतिः) संवत्सरः (आप्त्यै) पर्याप्त्यै । तृप्तये (सद्गन्तौ) श्रेष्ठपदार्थयुक्तौ (असिसन्ति)

हवि होते हैं, आठ ही चारो पूर्णमासी के हवि होते हैं, चारो ही पूर्णमासी का वैश्वदेव हवि संग्रह है । (अथ यत् अग्निं मन्थन्ति, प्रजापतिः वै वैश्वदेवं प्रजात्यै एव) फिर जो अग्नि को मथते हैं, प्रजापति [नाम वाला सूर्य वा संवत्सर का यज्ञ] ही वैश्वदेव [सब देवताओं का हवि] सन्तान उत्पत्ति के लिये ही है । (अथ एनं दैवं गर्भं प्रजनयति) फिर [यजमान] के लिये दिव्य गर्भवह [प्रजापति] उत्पन्न करता है । (अथ यत् सप्तदश सामिधेन्यः, सप्तदशः वै प्रजापतिः, प्रजापतेः आप्त्यै) फिर जो सत्रह सामिधेनी [अग्नि प्रज्वलन मन्त्र] हैं, सत्रह अवयव वाला [बारह महीने और पांच ऋतुयें जिस में हैं, हेमन्त शिशिर का मेल है—ऐतरेय ब्राह्मण १ । १ ।] ही प्रजापति [संवत्सर] है, प्रजापति के तृप्ति के यह है । (अथ यत् सद्दन्तौ आज्यभागौ असिसन्ति इति वै सद्दन्तौ भवतः) फिर जो श्रेष्ठ पदार्थ वाले दो आज्य भाग हवि को डालते हैं, वे ही दोनों श्रेष्ठ पदार्थ होते हैं । (अथ यत् विराजौ संयाज्ये, अन्नं श्रीः वै विराट्, अन्नाद्यस्य श्रियः अवरुध्यै) फिर जो दो विराट् छन्द संयाज्य [ऋचायें] हैं, अन्न और श्री [लक्ष्मी वा शोभा] ही विराट् है, भोजन योग्य अन्न और श्री का रक्षा के लिये यह है । (अथ यत् नव प्रयाजाः नव अनुयाजाः अष्टौ हवींषि नवमं वाजिनं, तत् न अक्षरीयां विराजम् आप्नोति) फिर जो नौ प्रयाज, नौ अनुयाज, आठ हवि और नवां वाजिन हवि हैं, उस से अब अवनशिनी विराट् [अन्न और लक्ष्मी] वह पाता है । (अथो दशनीं विराजम् आहुः इति प्रयाजानुयाजा हवींषि आघारौ आज्यभागौ इति) फिर दश अक्षर वाले विराट् को कहते हैं, प्रयाज अनुयाजों, हविओं और दोनों आघारावाज्य आहुतियों को [देते हैं] ॥ १६ ॥

भावार्थ—फाल्गुन की पूर्णमासी पर वर्ष का आरम्भ और अन्त होता है, इस से चातुर्मास्य यज्ञ फाल्गुनी पूर्णमासी पर आरम्भ और समाप्त होता है ॥ १६ ॥

आर्षप्रयोगः । असु क्षेपणे-स्वार्थे सन् । असिसियन्ति । अस्यन्ति (अवरुध्यै) अव + रुधिर् आवरणे—क्तिन्, दलोपः । अवरुध्यै । रक्षायै (वाजिनम्) महे-रिनम् । उ० २ । ५६ । वज गतौ—इनम् । हविर्विशेषः (न) सम्प्रति—निरु० ७ । ३१ । (अक्षरीयाम्) अक्षर-ञ् । नाशशून्याम् (विराजम्) त्रिविधैश्वर्यम् (दशनीम्) लेखकप्रमादः । दशमीम् दशाक्षराम् ॥

कण्डिका २० ॥

अथ यद्गनीषोमौ प्रथमं देवानां यजति, अग्नीषोमौ वै देवानां मुखं, मुखत एव तत् देवान् प्रीणाति । १, २ । अथ यत् सवितारं यजति, असौ वै सविता, योऽसौ तपति, एतमेव तेन प्रीणाति । ३ । अथ यत् सरस्वतीं यजति, वाक् वै सरस्वती, वाचमेव तेन प्रीणाति । ४ । अथ यत् पूषां यजति, असौ वै पूषा, योऽसौ तपति, एतमेव तेन प्रीणाति । ५ ॥ अथ यत् मरुतः स्वतवसो यजति, घारा वै मरुतः स्वतवसः, तानेव तेन प्रीणाति । ६ । अथ यद्दिश्वान् देवान् यजति, एते वै विश्वे देवाः, यत् सर्वे देवाः, तानेव तेन प्रीणाति । ७ । अथ यद्दद्यापृथिव्यौ यजति, प्रतिष्ठे वै दद्यापृथिव्यौ, प्रतिष्ठित्या एव । ८ । अथ यद्वाजिनो यजति, पशवो वै वाजिनः, पशूमेव तेन प्रीणाति । ९ । अथो ऋतवो वै वाजिनः, ऋतूनेव तेन प्रीणाति । १० । अथो ह्युंधंशंसि वै वाजिनः, ह्युंधंशंस्येव तेन प्रीणाति । ११ । अथो देवाश्वा वै वाजिनः, अत्र देवाः साश्वा अभीष्टाः प्रीता भवन्ति । १२ । अथ यत्परस्तात् पौर्णमासेन यजते, तथा हास्य पूर्वापक्षे वैश्वदेवेनेष्टं भवति । १३, १४ ॥ २० ॥

कण्डिका २० ॥ अग्नि और सोम के साथ दूसरे देवताओं के यज्ञ ॥

(अथ यत् अग्निषोमौ देवानां प्रथमं यजति, अग्निषोमौ वै देवानां मुखं, मुखतः एव तत् देवान् प्रीणाति) फिर जो अग्नि [तेज—क० २२] और सोम [अग्नि विद्या क अधिराज—क० १७] के लिये देवताओं में पहिले वह यज्ञ करता है देवानां अग्नि और सोम ही देवताओं के मुख [के सामान मुखिया] हैं, मुख से ही तब देवताओं को प्रसन्न करता है । १, २ । (अथ यत् सवितारं यजति असौ वै सविता, यः असौ तपति, एतम् एव तेन प्रीणाति) फिर जब सविता [प्रेरक सूर्य] के लिये यज्ञ करता है, वह ही सविता है, जो वह तथाता [प्रेरणा करता] है, इस को ही उस से वह वृत्त करता है । ३ । (अथ यत् सरस्वतीं यजति, वाक् वै सरस्वती, वाचम् एव तेन प्रीणाति) फिर जब सरस्वती के लिये यज्ञ करता है, वाणी ही सरस्वती [श्रेष्ठ विद्या वाली] है, वाणी को ही उस से वह वृत्त करता है । ४ । (अथ यत् पूषां यजति, असौ वै पूषा यः असौ तपति, एतम् एव तेन प्रीणाति) फिर जब पूषा [पोषक सूर्य] के लिये यज्ञ करता है, वह

२०—(अग्निषोमौ) अग्निं च सोमं च । अग्निस्तेजः क० २२ । सोम ओषधीनाम् अधिराजः—क० १७ (प्राणाति) तर्षयति (सवितारम्) प्रेरकं

ही पूपा है, जो वह तपाता है, इस को ही उस से वह तृप्त करता है । ५ । (अथ यत् स्वतवसः मरुतः यजति, घोराः वै स्वतवसः मरुतः तान् एव तेन प्रीणाति) फिर जब आत्मबलधारी मरुतों [दोपनाशक पवनों वा दुष्टनाशक वारों] के लिये वह यज्ञ करता है, भयानक ही आत्मबलधारी मरुत देवता हैं, उन को ही उस से वह तृप्त करता है । ६ । (अथ यत् विश्वान् देवान् यजति, एते वै विश्वे देवाः, यत् सर्वे देवाः तान् एव तेन प्रीणाति) फिर जब विश्वदेवों के लिये वह यज्ञ करता है, यह ही विश्व देव हैं जो सब दिव्य पदार्थ हैं, उन को ही वह तृप्त करता है । ७ । (अथ यत् द्यावापृथिव्यौ यजति, प्रतिष्ठे वै द्यावापृथिव्यौ, प्रतिष्ठित्यै एव) फिर जब दोनों द्यावापृथिवी [प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोकों] के लिये यज्ञ करता है, प्रतिष्ठा [गौरव रूप] ही द्यावापृथिवी है, प्रतिष्ठा के लिये ही [उन दोनों को उस से वह तृप्त करता है । ८ । (अथ यत् वाजिनः यजति, पशवः वै वाजिनः, पशून् एव तेन पूणाति) फिर जब वाजियों [अन्न वालों वा बलवालों] के लिये यज्ञ करता है, पशु ही अन्न वाले वा बल वाले हैं, पशुओं को ही उस से वह तृप्त करता है । ९ । (अथो ऋतवः वै वाजिनः ऋतून् एव तेन प्रीणाति) फिर ऋतुयें ही अन्न वाले वा बल वाले हैं, ऋतुओं को ही वह तृप्त करता है । १० । (अथो छन्दांसि वै वाजिनः, छन्दांसि एव तेन प्रीणाति) फिर छन्द [वेद मन्त्र] ही अन्न वाले वा बल वाले हैं, वेद मन्त्रों को ही उस से वह तृप्त करता है । ११ । (अथो देवाश्वाः वै वाजिनः, अत्र साश्वाः देवाः अभीष्टाः प्रीताः भवन्ति) फिर देव [विजय चाहने वाले वीर] और घोड़े ही अन्न वाले वा बल वाले हैं, यहां घोड़ों सहित देव [विजय चाहने वाले पुरुष बड़े चाहने योग्य और प्रिय हैं । १२ । (अथ यत् परस्तात् पौर्णमासेन यजते, तथा ह अस्य पूर्वपक्षे वैश्वदेवेन इष्टं भवति) फिर जब पीछे से पौर्णमास यज्ञ के साथ वह यज्ञ करता है, उसी प्रकार ही उस का पहिले

सूर्यम् (तपति) तापयति (पूषणम्) पोषकं सूर्यम् (मरुतः) मृगोरुतिः ।
उ० १ । ६४ । मृङ् प्राणत्यागे—उति । अन्तर्गतणिच् । मारयन्ति दोषान् । दोप-
नाशकान् वायून् । दुष्टनाशकान् वारान् (स्वतवसः) स्व+तु हिंसायां पूर्तौ
च—असुन् । आत्मबलधारकान् (घोराः) भयानकाः (द्यावापृथिव्यां) प्रका-
शमानाप्रकाशमानलोकौ (प्रतिष्ठे) गौरवरूपे (प्रतिष्ठित्यै) गौरवाय (वाजिनः)
अन्नयुक्तान् । बलयुक्तान् (छन्दांसि) वेदमन्त्राः (देवाश्वाः) देवाश्च अश्वाश्च
(अभीष्टाः) वाञ्छिताः (परस्तात्) पश्चात् । (पूर्वपक्षे) पूर्वार्धमासे ॥

पखवाड़े में वैश्वदेव [सब देवताओं के लिये यज्ञ] से यज्ञ होता है । १३ ।
१४ ॥ २० ॥

भावार्थ—यज्ञ में देवताओं को आहुति देकर उन के गुणों को यथावत् जानना चाहिए ॥ २० ॥

कण्डिका २१ ॥

वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजत, ताः सृष्टा अप्रसूता वरुणस्य यवां जक्षुः । ताः वरुणो वरुणपाशैः प्रत्यबध्नात्, ताः प्रजाः प्रजापति पितरमेत्योपावदन्, उप तं यज्ञक्रतुं जानीहि, येनेष्ट्वा वरुणमप्रीणात् । स प्रीतो वरुणो वरुणपाशेभ्यः सर्वस्मात्पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते इति । तत एतं प्रजापतिं यज्ञक्रतुमपश्यत्, वरुणप्रघासं तमाहरत् तेनायजन, तेनेष्ट्वा वरुणमप्रीणात् । स प्रीतो वरुणो वरुणपाशेभ्यः सर्वस्मात्पाप्मनः प्रजाः प्रामुञ्चत् । प्र ह वा एतस्य प्रजा वरुणपाशेभ्यः सर्वस्माच्च पाप्मनो मुच्यन्ते । य एवं वेद । अथ यदग्निं प्रणयन्ति, यमेवामुं वैश्वदेवे मन्थन्ति तमेव तत् प्रणयन्ति । यन्मथ्यते, तस्योक्तं ब्राह्मणम् । अथ यत् सप्तदश सामिधेन्यः, सद्गन्तावाज्यभागौ, विराजौ संयाज्ये, तेषामुक्तं ब्राह्मणम् । अथ यन्नव प्रायाजाः नवानुयाजाः, नवैतानि हवींषि समानानि त्वेव पञ्च सञ्चराणि हवींषि भवन्ति पौष्णान्तानि, तेषामुक्तं ब्राह्मणम् ॥ २१ ॥

कण्डिका २१ ॥ प्रजापति के प्रजायें उत्पन्न करने और वरुण को प्रसन्न करने की कथा ॥

(वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः प्रजाः असृजत ताः सृष्टाः अप्रसूताः वरुणस्य यवान् जक्षुः) वैश्वदेव [सब देवताओं के यज्ञ] से ही प्रजापति [प्रजापालक परमेश्वर वा सूर्य] ने प्रजाओं को उत्पन्न किया, उन उत्पन्न हुई ने सन्तानशून्य [बांझ] होकर वरुण [सूर्य वा जलेश] के जौओं को खा लिया । (ताः वरुणः वरुणपाशैः प्रत्यबध्नात्) उन को वरुण ने वरुण [रोक] के जालों से बांध लिया । (ताः प्रजाः प्रजापतिं पितरम् एत्य उपावदन्) वे प्रजायें प्रजापति पिता के पास आकर कहने लगीं—(तं यज्ञक्रतुं उप जानीहि येन इष्ट्वा वरुणम् अप्रीणात्) उस यज्ञ व्यवहार को तू विचार, जिस से यज्ञ कर के वरुण को आप प्रसन्न करें । (सः वरुणः प्रीतः वरुणपाशेभ्यः सर्वस्मात् पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते इति)

२१—(असृजत) उत्पादितवान् (अप्रसूताः) सन्तानशून्याः । बन्ध्याः (यवान्) अन्नविशेषान् (जक्षुः) अद भक्षणम्—लिट् । भक्षितवन्त्यः (वरुणः)

वह वरुण प्रसन्न होकर वरुण के जालों से और सब पाप से [हर्षे] छुड़ा देवे । (ततः प्रजापतिम् एतं यज्ञक्रतुम् अपश्यत्) तब प्रजापति ने इस यज्ञ व्यवहार को देखा । (तं वरुणप्रवासम् आहरत्, तेन अयजत, तेन इष्ट्वा वरुणम् अप्रीणात्) वह वरुण के लिये उस अन्न को लाया और उस से यज्ञ क्रिया और उस से यज्ञ कर के वरुण को प्रसन्न किया । (सः वरुणः प्रीतः वरुणप्राशेभ्यः सर्वस्मात् पाप्मनः प्रजाः प्राप्नुञ्चत्) उस वरुण ने प्रसन्न होकर वरुण के फन्दा से और सब पाप से प्रजाओं को मुक्त कर दिया । (एतस्य ह वै प्रजाः वरुणप्राशेभ्यः सर्वस्मात् पाप्मनः च प्रमुच्यन्ते, यः एवं वेद) उस पुरुष की प्रजायें वरुण के फन्दों से और सब पाप से छुट जाती हैं, जो ऐसा जानता है । (अथ यत् अग्निं प्रणयन्ति, यम् एव अमुं वैश्वेदेवे मन्थन्ति, तम् एव तत् प्रणयन्ति) फिर जब अग्नि को आगे लाते हैं, जिस उस [अग्नि] को ही वैश्वदेव यज्ञ में मथते हैं, उस को हा उस से आगे लाते हैं । (यत् मथ्यते, तस्य ब्राह्मणम् उक्तम्) जो वह [अग्नि] मथा जाना है, उस का ब्राह्मण कहा गया है [क० १६] । (अथ यत् सप्तदश सामिधेन्यः, सवन्तौ आज्यभागौ, विराजो संयाज्ये, तेषां ब्राह्मणम् उक्तम्) फिर जब सत्रह सामिधेनी [अग्नि प्रज्वलित करने की ऋचायें], श्रेष्ठ पदार्थों वाले दो आज्यभाग, दो विराट् छन्द, संयाज्या [नाम ऋचायें] हैं, उन का ब्राह्मण कहा गया है [क० १६] । (अथ यत् नव प्रयाजाः, नव अनुयाजाः, नव अनुयाजाः, नव एतानि हवींषि समानानि तु एव, पंच सञ्चराणि पौष्णान्तानि हवींषि भवन्ति, तेषां ब्राह्मणम् उक्तम्) फिर जो नौ प्रयाज, नौ अनुयाज, और नौ यह समान हवि भी और पांच संचार हवि पूजा प्रकरण के अन्त तक हैं, उन का ब्राह्मण कहा गया है [क० २०] ॥ २१ ॥

भावार्थ—यज्ञों को यथाविधि करने से मनुष्य पापों से छूटते हैं ॥ २१ ॥

कण्डिका २२ ॥

अथ यद्वैन्द्राग्नौ द्वादशकपाला भवति, चलं वै तेज इन्द्राग्नौ, बलमेव तत्ते-

जलेशः । सूर्यः (उपाचदन्) आदरेणाकथयन् (यज्ञक्रतुम्) यज्ञव्यवहारम् (उपजानीहि) विचारय (अप्रीणात्) प्रीणीयात् (सम्प्रमुच्यन्ते) सम्प्रमुञ्चतु (प्रजापतिम्) प्रजापतिः (वरुणप्रवासम्) वरुणाय भोजनम् (एतस्य) तस्य पुरुषस्य (प्रणयन्ति) प्रकरणेण प्राप्नुवन्ति (समानानि) तुल्यानि (सञ्चराणि) संचरणशीलानि (पौष्णान्तानि) पूषन्—अण् + अन्तानि । पूषप्रकरणान्तानि ॥

जसि प्रतिष्ठापयति । अथ यद्वाह्यामिज्ञा, इन्द्रो वै वरुणः, स उ वै पयोभा-
जनः, तस्माद् वाह्यामिज्ञा । अथ यन्मारुती पयस्या, अप्सु वै मरुतः श्रितः,
आपो हि पयः । अथेन्द्रस्या वै मरुतः श्रितः, ऐन्द्रं पयः, तस्मान्मारुती पयस्या ।
अथ यत् काय एककपालः, प्रजापतिर्वै कः, प्रजापतेराप्त्यै । अथो सुखस्य वा एत-
न्नामधेयं कमिति, सुखमेव तदध्यात्मन्धत्ते । अथ यत् मिथुनौ गावौ ददाति,
प्रजात्यै; रूपमुक्थ्या वाजिनः । अथ यदप्सु वरुणं यजति, स एवैनन्तदायतने
प्रीणाति । अथ यत्परस्तात् पौरुणमासेन यजते, तथा हास्य पूर्वपक्षे वरुणप्रधासै-
रिष्टं भवति ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ इन्द्र—अग्नि, वरुण आदि के लिये हवि ॥

(अथ यत् ऐन्द्राग्नः द्वादशकपालः भवति, बलं तेजः वै इन्द्राग्नी, बलम्
एव तत् तेजसि प्रतिष्ठापयति) फिर जब इन्द्र—अग्नि देवता वाला बारह
पात्र में रक्खा हुआ चरु होता है, बल और तेज ही दोनों इन्द्र और अग्नि
हैं, बल को ही उस से तेज में स्थापित करता है । (अथ यत् वाह्यामि
ज्ञा, इन्द्रः वै वरुणः सः उ वै पयोभाजनः, तस्माद् वाह्यामिज्ञा)
फिर जब वाह्यामि [वरुण वा जल वाली ऋचा] आमिज्ञा [सेचन समर्थ वा
छाल] है, इन्द्र ही वरुण है, वह ही जल बांटने वाला है, इस लिये वाह्यामि
[वरुण देवता वाली ऋचा] आमिज्ञा [सेचन समर्थ] है । (अथ यत् मारुती
पयस्या, अप्सु वै मरुतः श्रितः आपः वै पयः) फिर जब मारुती [मरुत् अर्थात्
पवन देवता वाली ऋचा] पयस्या [जल वाली वा दधि वाली] है, “आप्”
अर्थात् जल में ही पवन देवता ठहरे हैं, आप ही जल है । (अथ इन्द्रस्य वै
मरुतः आ श्रितः, ऐन्द्रं पयः, तस्मात् मारुती पयस्या) फिर इन्द्र के ही आश्रित
मरुत [पवन देवता] हैं, इन्द्र देवता वाला जल है, इस लिये मारुती [अर्थात्
पवन देवता वाली ऋचा] पयस्या [जल वाली वा दधि वाली] है । (अथ यत्
कायः एककपालः प्रजापतिः वै कः प्रजापतेः आप्त्यै) फिर जब “काय” अर्थात्
प्रजापति देवता वाला एक पात्र में रक्खा हुआ चरु होता है, प्रजापति ही “क”
है, प्रजापति की प्राप्ति के लिये यह [चरु] है । (अथो सुखस्य वै कम् इति
एतत् नामधेयं, सुखम् एव तत् अध्यात्मं धत्ते) फिर सुख का ही “क” यह नाम

२२—(द्वादशकपालः) द्वादशकपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः (प्रतिष्ठा-
पयति) धारयति (वाह्यामि) वरुण—अण् ङीप् । वरुणस्येयम् ऋचा । जलसम्ब-
न्धिनी (आमिज्ञा) स्नुघश्चि० । उ० ३ । ६६ । आ+मिप सेचने हिंसायां च—स,

है, सुख को ही उस से आत्मा में धारण करता है । (अथ यत् मिथुनौ गावौ ददाति, प्रजात्यै, उक्थ्या वाजिनः रूपम्) फिर जब जोड़ा गाय बैल का वह दान करता है, यह सन्तान उत्पन्न करने के लिये हैं, उक्थ्या [प्रशंसनीया ऋचा] बलवान् का रूप है । (अथ यत् अप्सु वरुणं यजति, तत् एनं स्वे एव आयतने प्रीणाति) फिर जब जल में वरुण को पूजता है, तब इस को अपने ही घर में तृप्त करता है । (अथ यत् परस्नात् पौर्णमासेन यजते, तथा ह अस्य पूर्वपक्षे वरुणप्रघासैः इष्ट भवति) फिर जब पीछे से पौर्णमास यज्ञ के साथ वरुण का यज्ञ करता है, उसी प्रकार ही उस का पहिले पक्षवाड़े में वरुण के हवियों से यज्ञ होता है ॥ २२ ॥

भावार्थ—यज्ञ पदार्थों के गुण जान कर यज्ञ करने से मनुष्यों में बल और पराक्रम बढ़ता है ॥ २२ ॥

कण्डिका २३ ॥

ऐन्द्रो वा एष यज्ञक्रतुः, यत् साकमेधाः, तद्यथा महाराजः पुरस्तात् सेना-
नीकानि व्यूह्याभयं पन्थानमन्विष्यात्, एवमेवैतत् पुरस्ताद् देवता यजन्ते, तद्
यथैवादः सोमस्य महाव्रतम्, एवमेवैतदिष्टिमहाव्रतम् । अथ यदग्निमनीकवन्तं
प्रथमं देवतानां यजति, अग्निर्वै देवानां मुखं, मुखत एव तद्देवान् प्रीणाति । अथ
यन्मध्यन्दिने मरुतः सान्तपनान् यजति, इन्द्रो वै मरुतः सान्तपनाः, ऐन्द्रं माध्य-
न्दिनं, तस्मादेनानिन्द्रेणोपसंहितान् यजति । अथ यत् सायं गृहमेधीयेन चरन्ति,
पुष्टिकर्म वै गृहमेधीयः, सायम्पोषः पशूनां, तस्मात् सायं गृहमेधीयेन चरन्ति ।
अथ यच्छ्वेभूते गृहमेधीयस्य निष्कासमिश्रेण पूर्णादव्यां चरन्ति, पूर्वधुः कर्मणो-
वैतत् प्रातः कर्मोपसन्तन्वन्ति । अथ यत् प्रातर्मरुतः क्रीडिनां यजति, इन्द्रो वै
मरुतः क्रीडिनः, तस्मादेनानिन्द्रेणोपसंहितान् यजति । अथ यदग्निं प्रणयन्ति,
यमेवामु वैश्वदेवं मन्थन्ति, तमेव तत् प्रणयन्ति, यन्मध्यत् तस्यैकं ब्राह्मणम् ।

टाप् । संचनसमर्था । दुग्धविकारः (पयोभाजनः) जलविभाजकः (मारुतो)
मरुत्सम्बन्धिनी ऋक् (पयस्या) पयस्—यत् । जलवती क्रिया । आमिक्षा ।
दुग्धविकारद्व्यादि (ऐन्द्रम्) इन्द्रदेवताकम् (कायः) क—ब्रह्म, युगागमश्च ।
प्रजापतिदेवताकश्चरुः (आप्त्ये) लाभाय (अध्यत्मम्) आत्मनि (मिथुनौ)
स्त्रीपुंसो (गावौ) धेनुवृषभौ (प्रजात्य) संतानोत्पादनाय (उक्थ्या) ऋक्
(वाजिनः) बलयुक्तस्य (वरुणप्रघासैः) वरुणचरुभिः (इष्टम्) यज्ञः ॥

अथ यत् सप्तदश सामिधेन्यः सद्ब्रन्तावाज्यभागौ, विराजौ संयाज्ये, तेषामुक्तं
ब्राह्मणम् । अथ यन्नव प्रयाजा नवानुयाजा अष्टौ हवींषि समानानि त्वेव षट् सञ्च-
राणि हवींषि भवन्त्येन्द्राग्नान्तानि, तेषामुक्तं ब्राह्मणम् । अथ यन्महेन्द्रमन्ततो
यजति, अन्तं वै श्रेष्ठी भजते, तस्मादेनमन्तता यजति । अथ यद्वैश्वकर्मण एक-
कपालः, असौ वै विश्वकर्मा, योऽसौ तपत्येतमेव तेन प्रीणाति । अथ यदृषभङ्गां
ददाति, ऐन्द्रो ह यज्ञक्रतुः ॥ २३ ॥

कण्डिका २३ ॥ इन्द्र, अग्नि और मरुत् देवताओं के लिये हवि ॥

(ऐन्द्रः वै एषः यज्ञक्रतुः, यत् साकमेधाः) इन्द्र [ऐश्वर्य] देवता वाला
ही यह यज्ञ व्यवहार है, जो साकमेध [बल के लिये बुद्धि वाले यज्ञ] हैं । (तत्
यथा महाराजः पुरस्तात् सेनानीकानि व्यूह्य अभयं पन्थानम् अन्वियात्, एवम्
एव एतत् पुरस्तात् देवताः यजन्ते) सो जिस प्रकार महाराजा पहिले से सेना
के विभागों को व्यूह में करके निर्भय मार्ग चला जाता है, ऐसे ही इस [इन्द्र]
को पहिले देवता पूजते हैं । (तत् यथा एव सोमस्य अदः महावृतम्, एवम् एव
एतत् इष्टिमहावृतम्) सो जिस प्रकार ही सोम [यज्ञ] का वह महावृत है, वैसे
ही यह इष्टि महावृत है । (अथ यत् अनीकवन्तम् अग्निं देवतानां प्रथमं यजति,
अग्निः वै देवानां मुखं, मुखतः एव तत् देवान् प्रीणाति) फिर जो सेना
[शिखा धूम आदि] वाले अग्नि को देवताओं में पहिले वह पूजता है, अग्नि ही
देवताओं का मुख [प्रधान] है, मुख से ही उस [यज्ञ] से देवताओं को तृप्त करता
है । (अथ यत् मध्यन्दिने सान्तपनान् मरुतः यजति, इन्द्रः वै सान्तपनाः मरुतः,
ऐन्द्रं माध्यन्दिनं, तस्मात् एनान् इन्द्रेण उपसंहितान् यजति) फिर जब मध्याह्न
में भली भांति तपाने वाले मरुत् [पवन वा किरण] देवताओं को वह यज्ञ
करता है, इन्द्र [सूर्य] ही भली भांति तपाने वाले मरुत हैं, इन्द्र देवता वाला
माध्यन्दिन [दोपहर का सवन] है, इस लिये इन [मरुतों] को इन्द्र के साथ साथ
यज्ञ करता है । (अथ यत् स.यं गृहमेधीयेन चरन्ति, पुष्टिकर्म वै गृहमेधीयः,

२३—(साकमेधाः) शकल शक्तौ—घञ्+मेधृ मेधायाम्—घञ् । शस्य
सः । शकाय शक्तये मेधा येषु ते यज्ञाः (सेनानीकानि) अनिहृषिभ्यां किञ्च । उ०
४ । १७ अत्र जीवने—ईकन् कित् । सेनाविभागान् (व्यूह्य) सैन्यसंनिवेशेन
स्थापयित्वा (अनीकवन्तम्) सेनावत् शिखाधूमादियुक्तम् (सान्तपनान्)
सम+तप तापे ऐश्वर्ये च—णिच्—ज्युट् । सन्तापकारकान् (उपसंहितान्)
उप+सम्+दधातेः—क्त । संयुक्तान् (गृहमेधीयेन) गृहमेधिन्—छ । गृहस्थ-

सायं पशूनां पोषः, तस्मात् सायं गृहमेधीयेन चरन्ति) फिर जब सायंकाल में गृहमेधीय [गृहस्थ के कर्तव्य धर्म] के साथ व्यवहार करते हैं, पुष्टिकारक कर्म ही गृहमेधीय है, सायंकाल में पशुओं का पोषण होता है, इस लिये सायंकाल में गृहमेधीय [गृहस्थ के कर्तव्य धर्म] से व्यवहार करते हैं । (अथ यत् श्वोभूते गृहमेधीयस्य निष्कासमिश्रेण पूर्णा दर्व्या चरन्ति, पूर्वद्युः कर्मणा एव एतत् कर्म प्रातः उपसन्तन्वन्ति) फिर जब आगामी कल्प में हुये गृहमेधीय [गृहस्थ के कर्तव्य धर्म] के विकास और संयोग के साथ पूर्ण दर्वी [भोजन पात्र] के द्वारा व्यवहार करते हैं, बीते हुये कल्प के कर्म से ही इस कर्म को प्रातःकाल विस्तृत करते हैं । (अथ यत् प्रातः क्रीडिनः मरुतः यजति, इन्द्रः वै क्रीडिनः मरुतः तस्मात् एनान् इन्द्रेण उपसहितान् यजति) फिर जब प्रातःकाल खिलाड़ी मरुत् देवताओं को यज्ञ करता है, इन्द्र ही खिलाड़ी मरुत् है, इस लिये इन [मरुतों] को इन्द्र के साथ साथ यज्ञ करता है । (अथ यत् अग्निं प्रणयन्ति यम् एव अपुं वेश्वदेवे मन्थन्ति तम् एव तत् प्रणयन्ति) फिर जब अग्नि को आग लाते हैं, जिस उस [अग्नि] का ही वेश्वदेव यज्ञ में मथते हैं, उस को ही उस से आगे लाते हैं । (यत् मथ्यते, तस्य ब्राह्मणम् उक्तम्) जो वह [अग्नि] मथा जाता है, उस का ब्राह्मण कहा गया है । [क० १६, २१] । (अथ यत् सप्तदश सामिधेन्यः, सद्बन्तौ आज्यभागौ, विराजौ संयाज्ये, तेषां ब्राह्मणम् उक्तम्) फिर जब सत्रह सामिधेनी [अग्नि प्रज्वलित करने की ऋचायें], श्रेष्ठ पदार्थ वाले दो आज्यभाग, दो विराट् छन्द संयाज्या [नाम ऋचायें] हैं, उन का ब्राह्मण कहा गया है [क० १६, २१] । (अथ यत् नव प्रयाजाः नव अनुयाजाः, अष्टौ हवीषि समानानि तु एव, पट् सञ्चराणि ऐन्द्रा-गनान्तानि हवीषि भवन्ति तेषां ब्राह्मणम् उक्तम्) फिर जो नौ प्रयाज, नौ अनुयाज, और आठ समान हवि भी और छह सञ्चार हवि इन्द्र और अग्नि के प्रकरण तक हैं उनका ब्राह्मण कहा गया है [क० २२] । (अथ यत् महेन्द्रम् अन्ततः यजति, अन्तं वै श्रेष्ठी भजते, तस्मात् एनम् अन्ततः यजति) फिर जब महेन्द्र [परमेश्वर] का अन्त में यज्ञ करता है, अन्त का हा श्रेष्ठी [सेंठ, बड़ा धनी] संवता

कर्तव्येन धर्मेण यत्नेन (चरन्ति) व्यवहरन्ति (श्वोभूते) आगामिदिवसभूते (निष्कासमिश्रेण) निः+काम्प्ट शब्दे—घञ्+मिश्र योजने—अच् । निःकारेण सह संयोगेन (पूर्णा) पूर्णया (दर्व्या) वृ विदारणे—चिन् । चमसेन (पूर्वद्युः) गतदिवसे (उपसन्तन्वन्ति) यथावत् विस्तारयन्ति (श्रेष्ठी) बहुधनी (भजते)

है, इस लिये इस [महेन्द्र] को अन्त में वह यज्ञ करता है । (अथ यत् वैश्व-
कर्मणः एककपालः, असौ वै विश्वकर्मा, यः असौ तपति, एतम् एव तेन
प्रीणाति) फिर जब विश्वकर्मा देवता वाला एक पात्र में धरा चरु होता है,
वह ही विश्वकर्मा [सब का बनाने वाला ईश्वर] है जो वह तपाता है, इस को
ही उस [यज्ञ] से तृत करता है । (अथ यत् ऋषभं गां ददाति, ऐन्द्रः ह यज्ञ-
क्रतुः) फिर जब बैल और गाय [क० २२] को वह देता है, इन्द्र [तेज वा
पेश्वर्य] देवता वाला ही यह यज्ञ व्यवहार है ॥ २३ ॥

भावार्थ—प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीयसवन में देवताओं
के गुण कर्म स्वभाव जान कर यज्ञ करना चाहिये ॥ २३ ॥

कण्डिका २४ ॥

अथ यदपराह्णे पितृयज्ञेन चरन्ति, अपराह्णभाजो वै पितरः, तस्माद्-
पराह्णे पितृयज्ञेन चरन्ति । तदाहुर्यदपरपक्षभाजो वै पितरः, कस्मादेनान् पूर्व-
पक्षे यजन्तीति । देवा वा एते पितरः, तस्मादेनान् पूर्वपक्षे यजन्तीति । अथ
यदेकां सामिधेनीन्विरन्वाह, सकृद्दु ह वै पितरः, तस्मादेकां सामिधेनीन्विर-
न्वाह । अथ यद्यजमानस्यार्पेऽन्वाह, नेद्यजमानं प्रमृणजानीति । अथ यत् सोम-
म्पृमन्तं पितृन् सोमवतः पितृन् वर्हिषदः पितृन्ग्निष्वात्तानित्यावाहयन्ति, न
हैके स्वं महिमानमावाहयन्ति, यजमानस्यैष महिमेति वदत आवाहयेदिति,
त्वेव चिन्तमा ह्येष महिमा भवति, ओं स्वधेत्याश्रावयति, अस्तु स्वधेति प्रत्या-
श्रावयति, स्वधाकारो हि पितृणाम् । अथ यत् प्रयाजानुयाजेभ्यो वर्हिष्मन्ताबुद्ध-
रति, प्रजा वै वर्हिः, नेत् प्रजां पितृषु दधानीति । ते वै षट् सम्पद्यन्ते, षड् वा
ऋतवः, ऋतवः पितरः, पितृणामापत्यै ॥ २४ ॥

कण्डिका २४ ॥ पितरों के लिये हवि ॥

(अथ यत् अपराह्णे पितृयज्ञेन चरन्ति) फिर जब तीसरे पहर [दिन
के तीन भागों में से तीसरे भाग में] पितृयज्ञ [माता पिता आदि पालक

सेवते (वैश्वकर्मणः) विश्वकर्मन्—अण् । विश्वकर्मदेवताकः (विश्वकर्मा)
सर्वकर्ता । सूर्यः परमेश्वरः (ऋषभम्) वृषभम् (गाम्) धेनुम् ॥

२४—(अपराह्णे) त्रिधाविभक्तदिनस्य तृतीयभागे (अपराह्णभाजः)
अपराह्णहविर्भागिनः (अपरपक्षभाजः) द्वितीयश्रेणिभागिनः (पूर्वपक्षे) प्रथम-

ज्ञानियों के सत्कार] से वे व्यवहार करते हैं, (अपराह्णभाजः वै पितरः, तस्मात् अपराह्णे पितृयज्ञेन चरन्ति) तीसरे पहर में भाग वाले ही पितर [पालनकर्ता ज्ञानी पुरुष] हैं, इस लिये तीसरे पहर में पितृयज्ञ से वे व्यवहार करते हैं । (तत् आहुः यत् अपरपक्षभाजः वै पितरः, कस्मात् एनान् पूर्वपक्षे यजन्ति इति) यह कहते हैं कि दूसरे पक्ष [श्रेणि वा पङ्क्ति] में भाग वाले ही पितर हैं, किस लिये इन को पहिले पक्ष [श्रेणि] में यज्ञ करते हैं । [उत्तर] (देवाः वै एते पितरः तस्मात् एनान् पूर्वपक्षे यजन्ति इति) देव [विजय चाहने वाले वीर] ही यह पितर लोग हैं, इस लिये इन को पहिले पक्ष में [पहिली श्रेणी में] यज्ञ करते हैं । (अथ यत् एकां सामिधेनी त्रिः अन्वाह) फिर जो एक सामिधेनी [अग्नि प्रदीप्त करने की ऋचा] को तीन बार वह बोलता है । (सकृत् उ ह वै पितरः, तस्मात् एकां सामिधेनी त्रिः अन्वाह) [उत्तर] उचित काम करने वाले ही निश्चय करके पितर [माता पिता आदि ज्ञानी पुरुष] हैं, इस लिये एक सामिधेनी को वह तीन बार [आदर के लिये] पढ़ता है । (अथ यत् यजमानस्य आर्षे अन्वाह) फिर जब यजमान के आर्ष यज्ञ में [ऋषियों के लिये सत्कार में एक सामिधेनी ऋचा को तीन बार] पढ़ता है, (यजमानं नेत् प्रमृणजानीति) [उत्तर] वह यजमान को नहीं मारता है [अमर करता है] । (अथ यत् पितृमन्तं सोम, सोमवतः पितृन्, वर्हिपदः पितृन्, अग्निष्वात्तान् पितृन् आवाहयन्ति) फिर जब श्रेष्ठ माता पिता वाले सोम [प्रेरक पुरुष] को, सोम [बड़े ऐश्वर्य] वाले पितरों [माता पिता आदि ज्ञानियों] को, वृद्धिकारक व्यवहार में बैठने वाले पितरों को और अग्निष्वात्त [अग्नि अर्थात् बिजुली सूर्य और अग्नि विद्या तथा शारीरिक और आत्मिक तेज ग्रहण करने वाले] पितरों को वे बुलाते हैं [अथर्व० १८ । ४ । ७१-७४ भी देखो] । (एके ह स्वं महिमानं न आवाहयन्ति यजमानस्य एव एषः महिमा इति वदतः आवाहयेत् इति, तु अग्नेः एव हि एषः महिमा स्थितं भवति) कोई

श्रेण्याम् (अन्वाह) पठति (सकृत्) एकवारम् अथवा, समानं साधु, समानस्य सः + करोतेः—क्विप् । तुगागमः, विभक्तिलोपः । साधुकर्माणः । उचितकर्मकर्तारः (आर्षे) ऋषिनिमित्ते (नेत्) निषेधे (प्रमृणजानीति) पारयतेरजिः । उ० १ । १३६ । प्र + मृण हिंसायाम्—अजि । प्रमृणज—क्विप् । नामधातोः—शप् श्ना इति द्वौ विकरणौ । प्रकर्षेण मृणति हिनस्ति (सोमम्) प्रेरकपुरुषम् (पितृमन्तम्) प्रशस्तमातापितृभ्यां युक्तम् (पितृन्) मातापित्रादिपालकज्ञानिनः (सोमवतः)

कोई अपनी महिमा को नहीं बुलवाते हैं—यह यजमान की ही महिमा है—
ऐसा कहते हुये पुरुषों को वह बुलवावे, किन्तु अग्नि [विद्वान् पुरुष] की ही
यह महिमा स्थित होती है । (ओं स्वधा इति आश्रावयति, स्वधा अस्तु इति
प्रत्याश्रावयति, स्वधाकारः हि पितॄणाम्) ओम् स्वधा [यह अन्न वा जल]
है,—ऐसा वह बोलता है, स्वधा होवे—ऐसा वह उत्तर में बोलता है, स्वधाकार
[अन्न वा जल का व्यवहार] ही पितरों के लिये है । (अथ यत् प्रयाजानुया-
जेभ्यः वर्हिष्मन्ता उद्धरति, प्रजा वै वर्हिः प्रजां पितॄषु नेत् दधानि इति) फिर
जब प्रयाज अनुयाज यज्ञों के लिये दो वर्हि [वृद्धिकारक व्यवहार वा कुश]
वाले मन्त्रों को वह बोलता है, प्रजा ही वर्हि [कुश घास के समान वृद्धिकारक]
है, प्रजा को पितरों में वह नहीं धारण करता है [अर्थात् प्रजा से पितरों का
अधिक आदर करता है] । (ते वै पट् सम्पद्यन्ते, पट् वै ऋतवः, ऋतवः पितरः,
पितॄणाम् आप्त्यै) वे [पितर लोग यज्ञ में] छह ही सम्पन्न किये जाते हैं, छह
ही ऋतुयें हैं, ऋतुओं [के समान वृद्धिकारक] पितर हैं, पितरों की वृत्ति के
लिये [यह यज्ञ है] ॥ २४ ॥

भावार्थ—यज्ञ में पितर लोगों का यथावत् सत्कार करने से यजमान की
महिमा बढ़ती है ॥ २४ ॥

कण्डिका २५ ॥

अथ यज्जीवनवन्तावाज्यभागौ भवतः, यजमानमेव तज्जीवयतः । अथ यदे-
कैकस्य हविपस्तिस्त्रिस्तिस्रो याज्या भवन्ति, ह्यत्येवैनां प्रथमया, द्वितीयया गम-
यति, प्रैव तृतीयया यच्छति । अथो देवयज्ञमेवैनं पितृयज्ञेन व्यावर्त्तयन्ति, अथो
दक्षिणासंस्थो वै पितृयज्ञः, तमेवैतदुदकसथं स्थं कुर्वन्ति । अथ यद्गिनं कव्यवा-
हनमन्ततो यजति, एतत् स्विष्टकृतो वै पितरः, तस्माद्गिनं कव्यवाहनमन्ततो
यजति । अथ यदिडामुपहूयावघ्राय न प्राश्नन्ति, पशवो वा इडा, नेत्पशून् प्रमृण-

परमैश्वर्ययुक्तान् (वर्हिषदः) वर्हिषि वृद्धिकरे व्यवहारे सडनशीलान् (अग्नि-
ष्यात्तान्) अग्नि + सु + आङ् + ददातेः—क्त । अग्निः सूर्यविद्युद्गनिविद्या शारी-
रिकात्मिकतेजो वा आत्तं गृहीतं यैस्तान् (एके) केचित् (वदतः) कथयतः
(स्थितम्) स्थितः (स्वधा) अन्नम्—निघ० २ । ७ । उदकम्—निघ० १ । १२ ।
(आश्रावयति) उच्चारयति (प्रत्याश्रावयति) अङ्गीकरोति (वर्हिष्मन्तौ) वृद्धि-
करव्यवहारयुक्तौ मन्त्रौ (दधानि) दधाति (ते) पितरः ॥

जानीति । अथ यत् स्मृक्त्राके यजमानस्याशिपो न्वाह, नेद्यजमानं प्रमृणजानीति । अथ यत् पत्नीं संयाजयन्ति, नेत्पत्नीं प्रमृणजानीति । अथ यत् पवित्रवति मार्जयन्ते, शान्तिर्वै भेषजमापः, शान्तिरेवैषां भेषजमन्ततो यज्ञे क्रियते । अथ यद्धव्युः पितृभ्यो निष्पृणाति, जीवानेव तत् पितृननु मनुष्याः पितरोऽनुप्रवहन्ति । अथा देवयज्ञमेवं पितृयज्ञेन व्यावर्त्तयन्ति । अथो दक्षिणासंस्थो वै पितृयज्ञः तमेवै-तदुदक्संस्थं कुर्वन्ति । अथ यत् प्राञ्चोऽभ्युत्क्रम्यादित्यमुपतिष्ठन्ते देवलोको वा आदित्यः, पितृलोकाः पितरः, देवलोकमेवं पितृलोकादुपसङ्क्रामन्तीति । अथ यद्दक्षिणाञ्चोऽभ्युत्क्रम्याग्नीनुपतिष्ठन्ते, प्रीत्यैव तद्देवेष्वन्ततोर्ध्वं चरन्ति । अथ यदुदञ्चोऽभ्युत्क्रम्य त्रैयम्बकैर्यजन्ते, रुद्रमेव तत् स्वन्दाथं दिशि प्रीणन्ति । अथो देवयज्ञमेवं पितृयज्ञेन व्यावर्त्तयन्ति । अथो दक्षिणासंस्थो वै पितृयज्ञः, तमेवैतदुदक्संस्थं कुर्वन्ति । अथ यदन्तत आदित्येष्ट्या यजति इयं वा अदिति-रस्यामेवनमन्ततः प्रतिष्ठापयति । अथ यत्परस्तात् पौर्णमासेन यजते, तथा-हार्य पूर्वपक्षे साकमेधैरिष्टं भवति ॥ २५ ॥

कण्डिका २५ ॥ पितृयज्ञ के साथ देवयज्ञ आदि का विधान ॥

(अथ यत् जीवनवन्तौ आज्यभागो भवतः, यजमानम् एव तत् जीवयतः) फिर जब दो जीवन साधन वाले आज्यभाग [घृत की आहुति वाले मन्त्र] होते हैं, यजमान को ही वे दोनों जीवन देते हैं । (अथ यत् एकैकस्य हविषः तिस्रः तिस्रः याज्याः भवन्ति, एनान् एव प्रथमया ह्वयति, द्वितीयया गमयति, तृतीयया एव प्र यच्छति) फिर जब एक एक हवि की तीन तीन याज्या [ऋचायें] होती हैं, पहिली से ही इन [पितरों] को वह बुलाता है, दूसरी से वह चलाता है और तीसरी से ही वह दान करता है । (अथो एनं देवयज्ञम् एव पितृयज्ञेन व्यावर्त्तयन्ति) फिर इस देवयज्ञ [विद्वानों के सत्कार] को ही पितृयज्ञ [पितरो माता पिता आदि पालक विद्वानों के सत्कार] के साथ वर्त्त-

२५—(जीवनवन्तां) जीवनसाधनयुक्तां (हविषः) ग्राह्यपदार्थस्य । अन्नस्य (ह्वयति) आह्वयति (एनान्) पितृन् (गमयति) प्रापयति (प्रयच्छति) ददाति (व्यावर्त्तयन्ति) वर्त्तमानं कुर्वन्ति (दक्षिणासंस्थः) दक्षिणास्यां दिशि सम्यक् स्थितः (उदक्संस्थम्) उत्तरस्यां दिशि सम्यक् स्थितम् (अग्निम्) विद्वांसं पुरुषम् (कव्यवाहनम्) कवि-यत् । कव्यपुरीषपुरीष्येषु ऽयुट् । पा० ३ । २ । ६५ । कव्य + वहेऽयुट् । कविमेधाविनाम—निघ० ३ । १५ । कविभ्यो मेधाविभ्यो हितपदार्थानां प्रापकम् (इडाम्) इलाम् अन्नम्—निघ० २ । ७ । (पशवः)

मान करते हैं । (अथो दक्षिणासंस्थः वै पितृयज्ञः, तम् एव एतत् उदक्संस्थं कुर्वन्ति) फिर दक्षिण दिशा में रक्खा हुआ ही पितृयज्ञ है, उस को ही इस से उत्तर दिशा में रक्खा हुआ करते हैं । (अथ यत् कव्यवाहनम् अग्निम् अन्ततः यजति, एतत् स्विष्टकृतः वै पितरः, तस्मात् कव्यवाहनम् अग्निम् अन्ततः यजति) फिर जब कव्यवाहन [विद्वानों को हितकारक पदार्थ पहुंचाने वाले] अग्नि [तेजस्वी पुरुष] का सत्कार करता है, इस से सुन्दर दृष्ट व्यवहार करने वाले ही पितर लोग होते हैं, इस लिये कव्यवाहन [विद्वानों को हितकारक पदार्थ पहुंचाने वाले] अग्नि [तेजस्वी पुरुष] का सत्कार करते हैं । (अथ यत् इडाम् उपहूय अवघ्राय न प्राश्नन्ति, पशवः वै इडाः पशून् नेत् प्रमृण-जानीति) फिर जब अन्न को मंगा कर और सूँघ कर वे अब खाते हैं, पशु [सब जीव] ही अन्न [अन्न के आश्रित] हैं, पशुओं [जीवों] को वह नहीं मारता है । (अथ यत् सूक्तवाके यजमानस्य आशिषः अन्वाह, यजमानं नेत् प्रमृण-जानीति) फिर जब सूक्त वाक [सुन्दर कहे हुये वाक्य वाले यज्ञ] में यजमान के आशीर्वादों को वह पढ़ता है, यजमान को वह नहीं मारता है । (अथ यत् पत्नीं न संयाजयन्ति, पत्नीं नेत् प्रमृणजानीति) फिर जब [यजमान की] पत्नी से अब वह यज्ञ कराते हैं, पत्नी को वह नहीं मारता है [सुरक्षित करता है] । (अथ यत् पवित्रवति मार्जयन्ते, शान्तिः वै भेषजम् आपः, शान्तिः एव एषां भेषजम् अन्ततः यज्ञे क्रियते) फिर जब जल वाले [पात्र] में शुद्ध करते हैं, शान्ति ही औषध जल है, शान्ति ही इन की औषधि अन्त में यज्ञ में की जाती है । (अथ यत् अध्वर्युः पितृभ्यो निपृणाति, तत् मनुष्याः पितरः पितृन् अनु जीवान् एव अनुप्रवहन्ति) फिर जब अध्वर्यु पितरों [पालक विद्वानों] को परिपूर्ण करता है, मननशील और पालनकर्ता पुरुष तब पितरों के पीछे पीछे जीवों को चलाते रहते हैं । (अथो एनं देवयज्ञम् एव पितृयज्ञेन व्यावर्त्तयन्ति) फिर इस देवयज्ञ

जीवाः (प्रमृणजानीति) क० २४ । प्रकर्षेण मृणति हिनस्ति (आशिषः) आशीर्वादान् (न) सम्प्रति (पवित्रवति) उदक्वति—निघ० १ । १२ । (मार्ज-यन्ते) शोधयन्ति (पितृभ्यः) पितृन् (निपृणाति) षू पालनपूरणयोः—लट् । नितरां पालयति पूरयति वा (अनु) अनुसृत्य (प्राञ्चः) पूर्वदिक्स्थाः पुरुषाः (अभ्युत्क्रम्य) अभित उत्थाय (आदित्यम्) आदीप्यमानं सूर्यम् (उप-तिष्ठन्ते) सेवन्ते (उपसङ्क्रामन्ति) उपसंगत्य गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति (दक्षि-णाञ्चः) दक्षिणदिक्स्थाः (उदञ्चः) उत्तरदिक्स्थाः (त्रैयम्बकैः) त्रि+अम्ब

[विद्वानों के सत्कार] को ही पितृयज्ञ [पितरों माता पिता आदि पालक विद्वानों के सत्कार] के साथ वर्तमान करते हैं । (अथो दक्षिणासंस्थः वै पितृयज्ञः, तम् एव एतत् उदक्संस्थं कुर्वन्ति) फिर दक्षिण दिशा में रक्खा हुआ ही पितृयज्ञ है, उस को ही इस से उत्तर दिशा में रक्खा हुआ करते हैं । (अथ यत् प्राञ्चः अभ्युत्क्रम्य आदित्यम् उपतिष्ठन्ते, देव लोकः वै आदित्यः, पितृलोकः पितरः, एतम् एव देवलोकं पितृलोकान् उपलब्ध्नामन्ति इति) फिर जब पूर्ववाले पुरुष उठ करके सूर्य को सेवते हैं, देवलोक [विद्वानों का स्थान] ही सूर्य [समान] है, पितृलोक [पितरों का स्थान] पितर [पालन करने वाले पदार्थ] हैं, इस देव लोक को ही पितृ लोक से चलकर अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं । (अथ यत् दक्षिणाञ्चः उत्क्रम्य अग्नीन् उपतिष्ठन्ते प्रीत्या एव तत् देवेषु अन्ततः ऊर्ध्वं चरन्ति) फिर जब दक्षिण दिशा वाले उठकर अग्नियों को सेवते हैं, प्रीति के साथ ही तब विद्वानों के बीच अन्त में वे ऊंचे चलते हैं । (अथ यत् उदञ्चः अभ्युत्क्रम्य त्रैयम्बकैः यजन्ते, रुद्रम् एव तत् स्वस्यां दिशि प्रीणन्ति) फिर जब उत्तर वाले पुरुष उठकर त्रैयम्बक [अर्थात् त्र्यम्बक, तीनों कालों और तीनों लोकों में नेत्र वाले परमेश्वर] को देवता रखते हुये हवियों से वे पूजते हैं, रुद्र [दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा] को ही तब अपनी दिशा में वे प्रसन्न करते हैं । (अथो एनं देवयज्ञम् एव पितृयज्ञेन व्यावर्त्तयन्ति) फिर इस देवयज्ञ [विद्वानों के सत्कार] को ही पितृयज्ञ [पितरों माता पिता आदि पालक विद्वानों के सत्कार] के साथ वर्तमान करते हैं । (अथो दक्षिणासंस्थः वै पितृयज्ञः, तम् एव एतत् उदक्संस्थं कुर्वन्ति) फिर दक्षिण दिशा में रक्खा हुआ ही पितृयज्ञ है, उस को ही इस से उत्तर दिशा में रक्खा हुआ करते हैं । (अथ यत् अन्ततः आदित्येष्ट्या यजति, इयं वै अदितिः, अस्याम् एव एनम् अन्ततः प्रतिष्ठापयति) फिर जब अन्त में अदिति देवता वाली इष्टि से वह यज्ञ करता है, यह [पृथिवी] ही अदिति [अदीन देवमाता, दिव्य पदार्थों को उरपन्न करने वाली] है, इस [पृथिवी] पर ही इस [यजमान] को अन्त

गतौ—एवुल । तन्वादीनां छन्दसि बहुलम् । वा० पा० ६ । ४ । ८६ । इति इयङ् । त्रिषु कालेषु लोकेषु च त्र्यम्बकं नेत्रं यस्य स त्र्यम्बकः त्रियम्बकः । ततः अण् । त्रियम्बकदेवताकैः (आदित्येष्ट्या । अदिति—एय । अदितिदेवताकयेष्ट्या (इयम्) दृश्यमाना पृथिवी (अदितिः) अदीना देवमाता—निरु० ४ । २२ । दिव्यपदार्थानां जनयित्री (साकमेधैः) क० २३ । शाकाय बलाय मेघा येषु तैर्यज्ञैः ॥

में वह प्रतिष्ठित करता है । (अथ यत् परस्तात् पौर्णमासेन यजते, तथा ह अस्य पूर्वपक्षे साकमेधैः इष्टं भवति) फिर जब पीछे से पौर्णमास यज्ञ के साथ वह यज्ञ करता है, उसी प्रकार ही उस का पहिले पखवाड़े में साकमेधों [क० २३ बल के लिये बुद्धि वाले यज्ञों] से यज्ञ होता है ॥ २५ ॥

भावार्थ—जैसे यज्ञ में यज्ञदेवताओं के लिये यज्ञपदार्थ एक स्थान से दूसरे ऊंचे स्थान को लाये जाते हैं, वैसे ही मनुष्य एक पद से दूसरे उच्च पद को चढ़ते जायें ॥ २५ ॥

कण्डिका २६ ॥

त्रयोदशं वा एतं मासमाप्नोति, यच्छुनासीर्य्येण यजते, एतावान्वै संवत्सरः, यावानेष त्रयोदशो मासः । अथ यदग्निं प्रणयन्ति, यमेवामुं वैश्वदेवे मन्थन्ति, तमेव तत् प्रणयन्ति, यन्मथयते, तस्योक्तं ब्राह्मणं, यद्यु न मथयते पौर्णमासमेव तन्त्रं भवति, प्रतिष्ठा वै पौर्णमासं, प्रतिष्ठित्या एव । अथ यद्वायुं यजति, प्राणो वै वायुः प्राणमेव तेन प्रीणाति । अथ यच्छुनासीरं यजति, संवत्सरो वै शुनासीरः, संवत्सरमेव तेन प्रीणाति । अथ यत्सूर्यं यजति, असौ वै सूर्यः, योऽसौ तपति, एतमेव तेन प्रीणाति । अथ यच्छेता दक्षिणा ददाति, एतस्यैव तद्रूपं क्रियते । अथ यत् प्रायश्चित्तप्रतिनिधिं कुर्वन्ति, स्वस्त्ययनमेव तत् कुर्वन्ति, यज्ञस्यैव शान्तिर्यजमानस्य भैषज्याय । तैर्वा एतैश्चातुर्मास्यैर्देवाः सर्वान् कामानाप्नुवन्, सर्वा इष्टीः सर्वममृतत्वम् । स वा एष प्रजापतिश्चतुर्विंशः, यच्चातुर्मास्यानि, तस्य मुहूर्त्तमेव वैश्वदेवं, बाहू बरुणप्रघासाः प्राणोऽतनो व्यान इत्येतास्तिष्ठा इष्टयः, आत्मा महाहविः, प्रतिष्ठा शुनासीरं स वा एष प्रजापतिरेव संवत्सरः, यच्चातुर्मास्यानि, सर्वं वै प्रजापतिः, सर्वं चातुर्मास्यानि, तत्सर्वमेव सर्वमाप्नोति य एवं वेद यश्चवं विद्वांश्चातुर्मास्येयजते चातुर्मास्यैर्यजते ॥ २६ ॥

इति अथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणोत्तरभागो प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ॥

कण्डिका २६ ॥ तेरहवें महीने और शुनासीर यज्ञ के साथ अग्नि, वायु, सूर्य, संवत्सर और चातुर्मास्यों का वर्णन ॥

(त्रयोदशं वा एतं मासम् आप्नोति, यत् शुनासीर्य्येण यजते) तेरहवें ही इस महीने को वह [यजमान] प्राप्त होता है जो शुनासीर [इन्द्र, वायु वा

२६—(शुनासीर्य्येण) धावापृथिवीशुनासीरमरुत्त्व० पा० ४ । २ । ३२ ।
शुनासीर—यत् । शुनासीरदेवताकेन यज्ञेन (तन्त्रम्) तनु विस्तारे—पून् । तत्रि

सूर्य—आगे देवो] देवता वाले हवि से यज्ञ करता है । (एतावान् वै संवत्सरः, यावान् एषः त्रयोदशः मासः) इतना ही संवत्सर [यज्ञ] है जितना [जहां तक] यह तेरहवां महीना है । (अथ यत् अग्निं प्रणयन्ति, यम् एव अमुं वैश्वदेवं मन्थन्ति तम् एव तत् प्रणयन्ति) फिर जब अग्नि को आगे लाते हैं, जिस उम [अग्नि] को ही वैश्वदेव यज्ञ में मथते हैं उस को ही उस से आगे लाते हैं, (यत् मथयते, तस्य ब्राह्मणम् उक्तम्) जो वह [अग्नि] मथा जाता है, उस का ब्राह्मण कहा गया है [क० २१] । (यदि उ न मथयत पौरुषमासम् एव तन्न भवति) जो वह [अग्नि] अब मथा जाता है, पौरुषमास यज्ञ ही प्रधान होता है, (पौरुषमास वै प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित्ये एव) पौरुषमास यज्ञ ही प्रतिष्ठा [यज्ञ का समाप्ति का दाय] है, वह प्रतिष्ठा [कीर्ति] के लिये ही है । (अथ यत् वायुं यजति, प्राणः वै वायुः, प्राणम् एव तेन प्रीणाति) फिर जब वायु को यज्ञ करता है, प्राण ही वायु है, प्राण को ही उस से वह तृप्त करता है । (अथ यत् शुनासीरं यजति, संवत्सरः वै शुनासीरः, संवत्सरम् एव तेन प्रीणाति) फिर जब शुनासीर [सुन्दर बड़ी वीर अग्रगामी सेना वाले सेनापति इन्द्र] को वह यज्ञ करता है, संवत्सर ही शुनासीर [बड़े सेनापति के समान] है, संवत्सर को ही उस से वह तृप्त करता है । (अथ यम् सूर्यं यजति, असा व सूर्यः, यः असां तपति, एतम् एव तेन प्रीणाति) फिर जब सूर्य को यज्ञ करता है, वही सूर्य है जो वह तपाता है, इन को ही उस से वह तृप्त करता है । (अथ यत् शेता दक्षिणाः ददाति, एतस्य एव तत् रूपं क्रियते) फिर जब शेता [सूक्ष्म कर्म करने वाला यजमान] दक्षिणायं देता है, इस [यजमान] का ही वह रूप क्रिया जाता है । (अथ यत् प्रायश्चित्तप्रतिनिधिं कुर्वन्ति, स्वस्त्ययनम् एव तत् कुर्वन्ति) फिर जब प्रायश्चित्त [पापशोधन] रूप प्रतिनिधि यज्ञ करते हैं, स्वस्त्ययन [स्वस्तिवाचन] ही तब वे करते हैं, (यज्ञस्य एव शान्तिः यजमानस्य भेषजप्राय) यज्ञ का ही शान्ति यजमान की ओपधी के लिये है । (तैः वै एतैः चातुर्मास्यैः देवाः सर्वान् कामान् सर्वाः इष्टीः सर्वम् अमृतत्वम्

कुटुम्बधारणे—घञ् वा । कुटुम्बकृत्यम् । प्रधानम् (प्रतिष्ठा) यज्ञसमाप्तिः । स्थितिः । आश्रयः (शुनासीरः, शुनासीरः) कृशुषूकटिपटिशौटिभ्य ईरन् ।] उ० ४ । ३० । सु+णासृ शब्दे—ईरन्, सस्य शः । वकल्पेन । सुष्टु नामीरम् अग्रसैन्यं यम्य सः । सेनापतिरिन्द्रः । शुनासीरं शुनो वायुः शु एत्यन्तरिक्षे सीर आदित्यः सरणात्—निरु० ६ । ४० (शेता) शिञ् निशाने—तृच् । सूक्ष्मकर्मा ।

आप्नुवन्) उन ही इन चातुर्मास यज्ञों से देवताओं ने सब कामनाओं, [अर्थात्] सब इष्टियों [सत्क्रियाओं] और सब अमरण को पाया है । (सः वै एषः प्रजापतिः चतुर्विंशः, यत् चातुर्मास्यानि) वह ही यह प्रजापति चौबीस अवयव [अर्धमास] वाला है, जो चातुर्मास्य यज्ञ हैं, (तस्य मुखम् एव वैश्वदेवम्, बाह्व वरुणप्रघासाः, प्राणः अपानः व्यानः इति एताः तिस्रः इष्टयः, आत्मा महाहविः प्रतिष्ठा शुनासीरम्) उस [प्रजापति] का मुख ही वैश्वदेव यज्ञ हैं, दोनों भुजायें श्रेष्ठ अन्न हैं, प्राण, अपान, व्यान यह तीन इष्टियां [यज्ञ] हैं, आत्मा महाहवि है, प्रतिष्ठा [ठहराव वा आश्रय] शुनासीर [इन्द्र का हवि] है । (सः वै एषः प्रजापतिः एव संवत्सरः, यत् चातुर्मास्यानि) वह ही यह प्रजापति ही संवत्सर है जो चातुर्मास्य हैं । (सर्वं वै प्रजापतिः, सर्वं चातुर्मास्यानि, तत् सर्वेण एव सर्वम् आप्नोति, यः एवं वेद यः च एवं विद्वान् चातुर्मास्यैः यजते चातुर्मास्यैः यजते) सब ही प्रजापति है, सब ही चातुर्मास्य हैं, इस लिये सब के साथ ही वह सब पाता है, जो ऐसा जानता है और जो ऐसा विद्वान् चातुर्मास्य यज्ञों से यज्ञ करता है, चातुर्मास्य यज्ञों से यज्ञ करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—देश और काल का विचार करके संसार के पदार्थों से उपकार लेकर मनुष्य उन्नति करें ॥ २६ ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
वाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्व-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित ज्ञेयकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्य उत्तरभागे प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां तिथौ १९८०
[अशीत्युत्तरेकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-
महायशस्वि श्री राजराजेश्वर पञ्चमजार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये
सुसमाप्तिमगात् ।

मुद्रितः—भाद्रकृष्णा ८ संवत् १९८१ वि० ता० २२ अगस्त सन् १९२४ ई० ॥

यजमानः (प्रायश्चित्तप्रतिनिधिम्) पापशोधनप्रतिनिधिरूपं यज्ञम् (इष्टीः)
यजेः—किन् । सत्क्रियाः (वरुणप्रघासाः) श्रेष्ठान्नानि ॥

अथ द्वितीयः प्रपाठकः ।

कण्डिका १ ॥

ओम् । मांसीयन्ति वा आहिताग्नेरग्नयः, त एनमेवाग्नेऽभिधायन्ति यजमानं, य एतमैन्द्राग्नं पशुं षष्ठे षष्ठे मासे आलभते, तेनैवेन्द्राग्निभ्यां असित-मात्मानं निरवदयत । आयुष्काम आलभेत, प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी, प्राणापाना-वेवात्मनि धत्तो, आयुष्मान् भवति । प्रजाकाम आलभेत, प्राणापानौ वा इन्द्रा-ग्नी, प्राणापानौ प्रजा अनु प्रजायन्ते, प्रजावान् भवति । पशुकाम आलभेत, प्राणा-पानौ वा इन्द्राग्नी, प्राणापानौ पशवोऽनु प्रजायन्ते, पशुमान् भवति । यामं शुकं हरितमालभेत शठं वायःकामः, एता नाम यः पितृलोकेस्यामित्येतेन ह वै यमो-ऽमुष्मिंल्लोक आर्ध्नात्, पितृलोक एवार्ध्नाति । त्वाष्ट्रं वडवमालभेत प्रजाकामः, प्रजापतिर्वै प्रजाः सिसृक्षमाणः स द्वितीयं मिथुनमन्वाविन्दत्, स त्वाष्ट्रं वडव-मपश्यत्, त्वष्टा हि रूपाणां प्रजनयिता, तेन प्रजा असृजन, तेन मिथुनमविन्दत् । प्रजावान् मिथुनवान् भवति, य एवं वेद, यश्चैवं विद्वानेतमालभते, योनीन् वा एष काम्यान् पशूनालभते, योनीष्ट्वैन्द्राग्नेन काम्यं पशुमालभन्त इष्ट्वालम्भः समृद्ध्यै ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ इन्द्र—अग्नि अर्थात् प्राण और अपान के लिये यज्ञ के लाभ ॥

(ओम् । आहिताग्नेः अग्नयः वै मांसीयन्ति) अग्नि स्थापित करने वाले के [यजमान के आहवनीय आदि] अग्निये मननसाधक [बुद्धि वर्धक फल, वादाम अखरोट आदि हव्य] पदार्थों को चाहते हैं । (ते एनम् एव यजमानम् अग्ने अभिधायन्ति, यः एतम् ऐन्द्राग्नं पशुं षष्ठे षष्ठे मासे आलभते) वे [याजक लोग] इस ही यजमान को पहिले अच्छे प्रकार ध्यान में करते हैं, जो इस इन्द्र—अग्नि [प्राण अपान] देवता वाले पशु [जीव] को छुटे छुटे महीने अच्छे प्रकार प्राप्त होता है । (तेन एव इन्द्राग्निभ्यां असितम् आत्मानम् निरवदयत)

१—(मांसीयन्ति) मनेर्दीर्घश्च । उ० ३ । ६४ । मन ज्ञाने—सप्रत्यो दीर्घ-श्च । मांसं माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन्त्सीदतीति वा—निरु० । ४ । ३ । सुप आत्मनः क्यच् । पा० ३ । १ । ५ । मांस—क्यच् । मांसानि मननसाधकान् बुद्धिवर्धकान् पदार्थान् फल—वादाम—अखरोटादीन् इच्छन्ति होमकरणाय

इस कारण से ही इन्द्र और अग्नि [प्राण और अपान] से खाये गये आत्मा की वह निन्दा करता है । (आयुष्कामः आलभेत , प्राणापानौ वै इन्द्राग्नी, प्राणापानौ एव आत्मनि धत्तः, आयुष्मान् भवति) आयु [जीवन] चाहने वाला पुरुष [प्राण और अपान देवता वाले जीव को छूटे छूटे महीने] अच्छे प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण और अपान ही इन्द्र और अग्नि हैं, दोनों प्राण और अपान ही आत्मा को पुष्ट करते हैं, वह [यजमान] बड़ी आयु वाला होता है । (प्रजाकामः आलभेत , प्राणापानौ वै इन्द्राग्नी, प्राणापानौ अनु प्रजाः प्रजायन्ते, प्रजावान् भवति) प्रजायें चाहने वाला पुरुष [प्राण और अपान देवता वाले जीव को...] अच्छे प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण और अपान ही इन्द्र और अग्नि हैं, दोनों प्राण और अपान के साथ साथ प्रजायें उत्पन्न होती हैं, वह उत्तम प्रजाओं वाला होता है । (पशुकामः आलभेत , प्राणापानौ व इन्द्राग्नी, प्राणापानौ अनु पशवः प्रजायन्ते, पशुमान् भवति) पशुओं [जीवों] को चाहने वाला पुरुष [प्राण और अपान देवता वाले जीव को...] अच्छे प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण और अपान ही इन्द्र और अग्नि हैं, प्राण और अपान के साथ साथ पशु उत्पन्न होते हैं, वह उत्तम पशु वाला होता है । (अयःकामः यामं शुकं शठं हरितं वा आलभेत , एता नाम यः पितृलोके स्याम् इति एतेन ह वै यमः अमुष्मिन् लोके आर्धोत्, पितृलोके एव आर्धोति) सुवर्ण चाहने वाला पुरुष यम [वायु] देवता वाले शुक [सुग्गा पक्षी] और शठ [प्रशंसनीय] घोड़े को अच्छे प्रकार प्राप्त करे, मैं चलने वाला [पुरुषार्थी] प्रसिद्ध हूँ, जो पितृलोक [माता पिता आदि पालक विद्वानों की सभा] में रहूँ—इस [मन्त्र] से ही यम [संयमी, जितेन्द्रिय पुरुष] उस लोक [दूर देश] में समृद्ध होता है, वह पितृलोक में ही समृद्ध होता है । (प्रजाकामः त्वाष्ट्रं वड्वम् आलभेत) प्रजायें चाहने वाला पुरुष त्वष्टा [सूक्ष्मकर्ता परमात्मा] देवता वाले, बल पहुंचाने वाले पराक्रम

(आहिताग्नेः) स्थापितपावकस्य यजमानस्य (अग्नयः) आहवनीयादयः (अभिधायन्ति) सर्वतश्चिन्तयन्ति (आ) समन्तात् (लभते) प्राप्नोति (असितम्) भक्षितम् (निरवदयत्) निर्वादः, अपवादः । अपवादयति तिरस्करोति (आत्मनि) आत्मानम् (धत्तः) पोषयतः (यामम्) यम—अण् । यमो यच्छतीति सतः—निरु० १० । १६ । मध्वस्थानो वायुः । वायुदेवताकम् (शुकम्) शुक गतौ—क । पक्षिविशेषम् (हरितम्) हंसरुहियुषिभ्य इतिः । उ० १ । ६७ । हञ् हरणे—इतिः । अश्वम् (शठम्) शठ हिंसायां श्लाघायां च—अच् । श्लाघ्यम्

को अच्छे प्रकार प्राप्त होवे । (प्रजाः सिंसृत्तमाणः सः प्रजापतिः वै द्वितीय मिथुनम् अन्वाविन्दत्) प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुये उस प्रजापति ने दूसरे जोड़े को प्राप्त किया । (सः त्वाष्ट्रं वडवम् अपश्यत्, त्वष्टा हि रूपाणां प्रजनयिता, तेन प्रजाः असृजन, तेन मिथुनम् अविन्दत्) उस ने त्वष्टा देवता वाले, बल पहुचाने वाले पराक्रम को देखा, त्वष्टा [सूक्ष्म बनाने वाला परमात्मा] ही रूपों का उत्पन्न करने वाला है, उस से प्रजायें उत्पन्न हुये, उस से उस ने जोड़े को पाया । (प्रजावान् मिथुनवान् भवति, यः एवं वेद यः च एवं विद्वान् एतम् आलभते) वह उत्तम प्रजाओं वाला और उत्तम मिथुन [जोड़ों पुत्र पुत्रियों] वाला होता है, जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा विद्वान् इस [यज्ञ] को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है । (एषः वै काम्यान् योनीन् पशून् आलभते, ऐन्द्राग्नेन तु काम्यं योनिः पशुम् आलभन्ते इष्ट्वा आलम्भः समृध्यै) वह ही पुरुष चाहने योग्य योनियों [घरों] और पशुओं को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, और इन्द्र और अग्नि [प्राण और अपान] देवता वाले यज्ञ से चाहने योग्य घर और पशु को वे अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, और यज्ञ करके [उनका] आरम्भ [उद्यम] समृद्धि के लिये होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य को योग्य है कि सुगते के समान अन्तरिक्षगामी और अश्व के समान भूगामी होकर न्यून से न्यून छूटे छूटे महीने यज्ञ करके अपनी अनेक प्रकार की उन्नति की जांच करके उचित व्यवहार करे ॥ १ ॥

कण्डिका २ ॥

पञ्चधा वै देवा व्युत्क्रामन्, अग्निर्वसुभिः, सोमो रुद्रैः, इन्द्रो मरुद्भिः, वरुण आदित्यैः, वृहस्पतिर्विश्वेदैवैः । ते देवा अब्रुवन्, असुरेभ्यो वा इदं भातृव्येभ्यो रुध्यामः, यन्मिथो विभृयास्सः, या न इमाः प्रियास्तन्वन्ताः समवद्यामहा

(वा) चार्थे (अयःकामः) सर्वधातुभ्योऽसुत् । ३० ४ । १५६ । इष् गतो—असुन् । अयः, हिरण्यनाभ—निघ० १ । २ । सुवर्णोऽसुत् । (एतः) इष् गतो—तृच् । गमनशीलः (यमः) संयमा पुरुषः (गात्रोन्) समृद्धो भवति (त्वाष्ट्रम्) त्वष्टा तनूकर्ता परमात्मा । त्वष्टृदेवताकम् (वडवम्) वन + दा गतौ—क । बलप्रापकं पराक्रमम् (सिंसृत्तमाणः) स्रष्टुमिन्दुन् (मिथुनवान्) पुत्रपुत्रीवान् (योनीन्) गृहान्—निघ० ३ । ४ । (योनिः) योनिम् । गृहम् (तु) समुच्चये (आलम्भः) आरम्भः । उद्यमः ॥

इति । ताः समवाद्यन्त, ताभ्यः सन्निर्गच्छात्, यो नः प्रथमोऽन्योऽन्यस्मै दुह्या-
दिति । यत्तन्वः समवाद्यन्त, तत् तानूनसृष्ट्य तानूनसृष्ट्वम् । ततो देवा अभवन्
परासुराः । तस्माद्यस्तानूनसृष्ट्यां प्रथमो दुह्यति, स आर्त्तिमाच्छति । यत्तानूनसृष्ट्य
समवद्यति, भ्रातृव्याभिभूत्यै भवति, आत्मना परास्याप्रियो भ्रातृव्यो भवति ॥ २ ॥

कण्डिका २ ॥ देवताओं ने पांच प्रकार से चढ़ाई कर के असुरों को जीता ॥

(पञ्चधा वै देवाः व्युत्क्रामन् अग्निः वसुभिः, सोमः रुद्रैः, इन्द्रः मरुद्भिः,
वरुणः आदित्यैः, बृहस्पतिः विश्वैः देवैः) पांच प्रकार से ही देवताओं [विजय
चाहने वाले पुरुषों] ने चढ़ाई की—अग्नि [प्रतापी पुरुष] ने वस्तुओं [निवास
कराने वाले पुरुषों] के साथ, सोम [प्रेरक पुरुष] ने रुद्रों [दुष्टों के रूताने
वाले वीरों] के साथ, इन्द्र [परम ऐश्वर्य वाले पुरुष] ने मरुतों [शत्रुओं के
मारने वाले वीरों] के साथ, वरुण [बैरियों को घेरने वाले पुरुष] ने आदित्यों
[अस्वण्ड व्रतधारी शूरों] के साथ, और बृहस्पति [बड़े बड़े सेना के रक्षक
पुरुष] ने विश्वदेवों [सब दिव्य पदार्थों] के साथ । (ते देवाः अब्रुवन्,
असुरेभ्यः भ्रातृव्येभ्यः वै इदं रुध्यामः, यत् मिथः विभृयास्मः, नः याः इमाः प्रियाः
तन्वः ताः समवद्यामहै इति) वे देवता बोले—असुर शत्रुओं से अवश्य इस
[राज्य] को हम रोकें [बचावें, जिस को हम आपस में धारण करें, हमारे
जो यह प्यारे शरीर [शरीर के समान सेना वाले] हैं; उन को हम बलवान्
करें । (ताः समवाद्यन्त, ताभ्यः सन्निर्गच्छात्, यः नः प्रथमः अन्योन्यस्मै
दुह्यात् इति) उन [शरीरों] को उन्होंने ने बलवान् किया [और कहा] उन
[शरीरों] से वह सर्वथा निर्बल हो जावे, जो हमारा प्रधान होकर आपस में

२—(पञ्चधा) पञ्चप्रकारेण (देवाः) विजिगीषवः (व्युत्क्रामन्) अड-
भावः । व्युत्क्रामन् । अध्यारुहन् (अग्निः) प्रतापी पुरुषः (वसुभिः) निवास-
धितृभिः (सोमः) प्रेरकः सेनापतिः (रुद्रैः) दुष्टरोदकैः शूरैः (इन्द्रः) परमै-
श्वर्यवान् (मरुद्भिः) शत्रुमारकवीरैः (वरुणः) आच्छादकः (आदित्यैः)
अस्वण्डव्रतिवीरैः (बृहस्पतिः) बृहतां सैन्यानां पालकः (विश्वैः) सर्वैः (देवैः)
दिव्यपदार्थैः (इदम्) राज्यम् (रुध्यामः) रुध्याम (विभृयास्मः) विभृयाम ।
धारयेम (तन्वः) शरीराणि (समवद्यामहै) सम्+अव+दे अवस्वण्डने
इत्यस्य रूपम् । अवदानं पराक्रमः । सम्यक् पराक्रमयाम । पराक्रमयुक्ताः करवाम

अनिष्ट चीते । (यत् तन्वः समवाद्यन्त, तत् तानूनप्तस्य तानूनप्तत्वम्) जो उन्होंने तनू [शरीरों] को बलवान् किया, वह तनूनप्ता [शरीरों के रक्षक] का तानूनप्तत्व [शरीरों का रक्षकपन] है । (ततः देवाः असुराः परा अभवन्) उस से देवताओं ने असुरों को हरा दिया । (तस्मात् यः तानूनप्तं प्रथमः दुह्यति, सः आर्तिम् आर्च्छति) इस लिये जो शरीररक्षकों का प्रधान अनिष्ट चीतता है, वह सब ओर से पीड़ा पाता है । (यत् तानूनप्तं समवद्यति भ्रातृव्याभिभूत्यै भवति, आत्मना अस्य अप्रियः भ्रातृव्यः परा भवति) जो पुरुष शरीरों के रक्षक बीर को बलवान् करता है, वह शत्रुओं के हराने के लिये समर्थ होता है, और आत्म बल से उस का कुप्रिय शत्रु हार जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य शारीरिक आत्मिक और सामाजिक पुष्टि से सेना की यथावत् व्यूहरचना कर के शत्रुओं को हरावे और ध्यान रखे कि उन का प्रधान सेनापति सर्वथा उन का शुभचिन्तक होवे ॥ २ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को अथ० १६ । १३ । १—११ से मिलाओ, उस का एक मन्त्र यहां दिया जाता है—

इन्द्रं एषा नेता वृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये ॥ अथ० १६ । १३ । ६, ऋग० १० । १०३ । ८, यजु० १७ । ४० साम उ० ६ । ३ । ३ । (इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी मुख्य सेनापति] (एषाम्) इन [वीरों] का (नेता) नेता [होवे], (वृहस्पतिः) वृहस्पति [बड़े अधिकारों वाला सेनानायक] (दक्षिणा) दाहिनी ओर और (यज्ञः) पूजनीय (सोमः) सोम [प्रेरक, उत्साहक सेनाधिकारी] (पुरः) आगे (एतु) चले । (मरुतः) मरुद्गण [शूरवीर पुरुष] (अभिभञ्जतीनाम्) कुचल डालती हुयी, (जयन्तीनाम्) विजयनी (देवसेनानाम्) विजय चाहने वालों की सेनाओं के (मध्ये) बीच में (यन्तु) चलें ॥

(सन्निर्ऋच्छात्) सम् + निर् + ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु—लेट् । सर्वथा निर्बलो भवेत् (दुह्यात्) अनिष्टं चिन्तयेत् (तानूनप्तस्य) नप्तनेष्ट्वष्ट् । उ० २ । ६५ । तनू + न + पत्त्वा गतौ—तृच्, नञः प्रकृतिभावः, अत् इति शब्दलोपः, स्वार्थे—अण् । तनूनप्तुः । शरीरस्य न पातयितुः । देहरक्षकस्य (तानूनप्तत्वम्) आर्षो दीर्घः । शरीररक्षकत्वम् (असुराः) असुरान् (प्रथमः) प्रधानः (आर्तिम्) पीडाम् (आर्च्छति) आ + ऋच्छ गतौ । समन्तात् प्राप्नोति (तानूनप्तम्) तनूनप्तारम् (समवद्यति) सम्यक् पराक्रमिणं करोति ॥

कण्डिका ३ ॥

पञ्चकृत्वोऽवद्यति, पाङ्को यज्ञः, पञ्चधा हि ते ताः समवाचन्त । आय-
तये त्वा गृह्णामीत्याह, प्राणो वा आयतिः, प्राणमेव तेन प्रीणाति । परिपतये
त्वेत्याह, मनो वै परिपतिः, मन एव तेन प्रीणाति । तनूनप् इत्याह, तन्वो हि
ते ताः समवाचन्त । शाकरायेत्याह, शक्तं हि ते ताः समवाचन्त । शकमन
ओजिष्ठायेत्याह, ओजिष्ठं हि ते तदात्मनः समवाचन्त । अनाधृष्टमित्याह, अना-
धृष्टं ह्येतत् । अनाधृष्यमित्याह, अनाधृष्यं ह्येतत् । देवानामोज इत्याह, देवानां
ह्येतदोजः । अभिशस्तिपा इत्याह, अभिशस्तिपा ह्येतत् । अनभिशस्ते ऽन्यमित्याह,
अनभिशस्तेनथं ह्येतदनु मे दीक्षां दीक्षापतिर्मन्यतामनु तपस्तपस्यति । अञ्जसा
सत्यमुपगेषां स्विते मा धा इत्याह, यथा यजुरेवैतत् ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ यजुर्वेद के मन्त्र के आश्रय से यज्ञ कर्म ॥

(पञ्चकृत्वः अवद्यति, पाङ्कः यज्ञः, पञ्चधा हि ते ताः समवाचन्त) पांच
प्रकार से वह [यजमान] पराक्रमी होता है, पांच प्रकार से प्रकाशित यज्ञ है,
पांच प्रकार से ही उन [देवताओं] ने उन [शरीरों] को समर्थ किया है
[ऊपर क० २ देखो] । (आयतये त्वा गृह्णामि इति आह, प्राणः वै आयतिः,
प्राणम् एव तेन प्रीणाति) अच्छे प्रकार प्रयत्न के लिये तुझे मैं ग्रहण करता हूँ—
यह [यजुर्वेद मन्त्र भाग] वह कहता है, प्राण ही अच्छे प्रकार प्रयत्न है, प्राण
को ही उस से वह [यजमान] तृप्त करता है । (परिपतये त्वा इति आह, मनः
वै परिपतिः, मनः एव तेन प्रीणाति) सब ओर से ऐश्वर्य के लिये तुझे [मैं
ग्रहण करता हूँ—यह भाग] वह कहता है, मन ही सब ओर से ऐश्वर्य है, मन
ही को उस से वह तृप्त करता है । (तनूनप्त्रे इति आह, ते हि ताः तन्वः सम-
वाचन्त) तनूनप्ता [शरीर को न गिराने वाले] के लिये [तुझे ग्रहण करता
हूँ—यह भाग] वह बोलता है, उन [देवताओं] ने उन शरीरों को समर्थ
किया है । (शाकराय इति आह, शक्तं हि ते ताः समवाचन्त) सामर्थ्य के लिये
[तुझे ग्रहण करता हूँ—यह भाग] वह बोलता है, समर्थ ही वह [मन] है,

३—(पाङ्कः) गो० पू० ४ । २४ । पङ्क्ति—अण् । पङ्क्त्या पञ्चप्रका-
रेण प्रकाशितः (आपतये) सर्वधातुभ्य इज् । उ० ४ । ११८ । आ + पत् गतौ
ऐश्वर्ये च—इन् । आगमाय । धनादिप्राप्तये (आयतये) आ + यती प्रयत्ने—
इन् । समन्तात् प्रयत्नाय (परिपतये, पत्यते, ऐश्वर्यकर्मा—निघ० २ । २१ ।

उन्होंने ने उन [शरीरों] को समर्थ किया है । (शक्मने ओजिष्ठाय इति आह, तत् ओजिष्ठं हि ते आत्मनः समवाद्यन्त) समर्थ महाबली पुरुष के लिये [तुभे ब्रह्म करता हूं—यह भाग] वह बोलता है, उस से महाबली को ही उन्होंने ने अपने से समर्थ किया है । (अनाधृष्टम् इति आह, अनाधृष्टं हि एतत्) अपमान नहीं किया गया [बल है—यह भाग] वह बोलता है, अपमान नहीं किया गया ही यह [ब्रह्म बल] है । (अनाधृष्यम् इति आह, अनाधृष्यं हि एतत्) आगे को अपमान के अयोग्य [बल है—यह भाग] वह बोलता है, आगे को अपमान के अयोग्य ही यह [ब्रह्म बल] है । (देवानाम् ओजः इति आह, देवानां हि एतत् ओजः) विद्वानों का बल [तू है—यह भाग] वह बोलता है, विद्वानों का ही यह [ब्रह्म] बल है । (अभिशस्तिपाः इति आह, अभिशस्तिपाः हि एतत्) हिंसा से बचाने वाला [तू है—यह भाग] वह बोलता है, हिंसा से बचाने वाला ही यह [ब्रह्म] है । (अनभिशस्तेन्यम् इति आह, अनभिशस्तेनं हि एतत्, दीक्षापतिः मे दीक्षाम् अनुमन्यताम्, तपः अनु तपस्यति) अहिंसित कर्म में ले जाने वाला [तू है—यह मन्त्र भाग] वह बोलता है, अहिंसित कर्म में ले जाने वाला ही यह [ब्रह्म] है, दीक्षापति [ब्रह्मा] मेरे लिये दीक्षा की आज्ञा देवे, वह निरन्तर तप तपेगा । (अञ्जसा

परि + पत ऐश्वर्ये—इन् । सर्वत ऐश्वर्याय (तनूनप्त्रे) क० २ । शरीरस्य न पातयिन्ने (शाकराय) कृगृश वृश्चतिभ्यः स्वरच् । उ० २ । १२१ । शक्लु शक्तौ-स्वरच् । शकरः शक्तिमान् । ततो भावे—अण् । शक्तिमत्त्वाय । सामर्थ्याय (शक्तम्) समर्थम् (शक्मने) अशिशक्तिभ्यां छन्दसि । उ० ४ । १४७ । शक्लु शक्तौ—मनिन् । समर्थाय पुरुषाय (ओजिष्ठाय) बलवत्तमाय (अनाधृष्टम्) अतिरस्कृतम् (अनाधृष्यम्) अतिरस्करणीयम् (देवानाम्) विदुषाम् (ओजः) बलम् (अभिशस्तिपाः) अभिशस्तेर्हिंसनात् पाता रक्षिता (अनभिशस्तेन्यम्) अनभिशस्ते + णीञ् प्रापणे—क्विप् । आर्षं पुंस्त्वम्, द्वितीया प्रथमार्थे । अनभि-शस्तेनि । अनभिशस्ते अहिंसिते व्यवहारे प्रापकम् (अनभिशस्तेनम्) अनभि-शस्ते + नयतेः—ड । अहिंसिते कर्मणि प्रापकम् (अञ्जसा) अञ्जू व्यक्तिभ्रक्षणका-न्तिगतिषु—असुन् । कान्त्या । ज्ञानेन । सहजेन (सत्यम्) यथार्थव्यवहारम् (उप) आदरेण (गोषाम्) गोषट् अन्वेपणे—विधिलि० । आर्षं परस्मैपदत्वं दीर्घत्वं च । अहं गोपेय । अन्वेपणेन प्राप्नुयाम् (सिवते) सु + इण् गतो—क्त । सुगते मार्गे (मा) माम् (धाः) धेहि ॥

सत्यम् उप गोषां स्विते मा धाः यथा एतत् यजुः एव) तेज के साथ वा सहज से सत्य [यथार्थ व्यवहार] को मैं आदर से खोजता रहूं, अच्छे चले हुये मार्ग में मुझे धारण कर, यह [मन्त्र भाग] वह बोलता है, जैसा यह ही यजुर्वेद [का मन्त्र] है ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य अपने कर्तव्य की सिद्धि के लिये उस के सूक्ष्म अवयवों को गम्भीरता से विचार लेवे ॥ ३ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका में यजुर्वेद अध्याय ५ मन्त्र ५ के प्रतीक कुछ भेद से दिये हैं, वह मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है जिस से पद और आशय मिलाने में सुगमता होवे । (आपतये त्वा परिपतये गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्राय शक्रान् ओजिष्ठाय । अनाधृष्टमस्यनाधृष्यं देवानामोजोऽनभिशस्त्यभिशस्तिपा अनभिशस्तेन्यमञ्जसा सत्यमुपगोषथस्विते मा धाः) [हे परमेश्वर !] (त्वा) तुम्हें को (आपतये) सब प्रकार पाने के लिये, (परिपतये) सब ओर से पेश्वर्य के लिये, (तनूनप्त्रे शाक्राय) शरीर को न गिराने वाले सामर्थ्य के लिये और (ओजिष्ठाय शक्रान्) अत्यन्त पराक्रमी समर्थ पुरुष के हित के लिये (गृह्णामि) ग्रहण करता हूं । (अभिशस्तिपाः) हिंसा से बचाने वाला तू (देवानाम्) विद्वानों का (अनाधृष्टम्) अपमान नहीं किया गया, (अनाधृष्यम्) आगे को नहीं अपमान योग्य, (अनभिशस्ति) हिंसा के अयोग्य (अनभिशस्त्यम्) अहिंसित कर्म में ले चलने वाला (ओजः असि) बल है । (स्विते) सुन्दर चले हुये [मार्ग] में (मा धाः) मुझे तू धारण कर । (अञ्जसा) तेज के साथ वा सहज से (सत्यम् उप गोषम्) सत्य को मैं खोजता रहूं ॥ ३ ॥

कण्डिका ४ ॥

घृतं वे देवा वज्रं कृत्वा सोममघ्नन् । स्रुचौ बाहू, तस्मात् स्रुचौ सौमी-
माहुतिं नासाते । अवधीयेत सोमः, तस्मात् स्रुचौ चाज्यं चान्तिकमाहार्षीत् ।
अन्तिकमिव स्रुचु वा अस्यैतत् प्रचरन्ति, यत्तानूनप्त्रेण प्रचरन्ति । अंगुरथं शुष्टे
देवसोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविद इत्याह, यदेवास्यापवायते यन्मीयते, तदे-
वास्यैतेनाप्याययन्ति । आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामात्वमिन्द्राय प्यावस्वेत्याह, उभावे-
वेन्द्रञ्च सोमं चाप्याययन्ति । आप्याययास्मान् सखीन् सन्या मेधया प्रजया धने-
नेत्याह, ऋत्विजो वा एतस्य सखायः, तानेवास्यैतेनाप्याययन्ति । स्वास्ति ते देव
सोम सुत्यामुद्वचमशीयेत्याह, आशिषमेवैतामाशास्ते, प्र वा एतस्मात्सोकाच्च्य-

घन्ते, ये सोममाप्यायन्ति । अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः आप्यायत एष्टा राय एष्टा वामानि प्रैषे भगाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो दिवे नमः पृथिव्या इति, धावापृथिवीभ्यामेव नमस्कृत्यास्मिंल्लोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ४ ॥

करिडका ४ ॥ सोम यज्ञ में त्रुटि की यजुर्वेद मन्त्र से पूर्ति ॥

(देवाः वै घृतं वज्रं कृत्वा सोमम् अघ्नन्) देवों [ऋत्विजों] ने घृत [घी वा प्रकाश] को वज्र बनाकर सोम [ओषधिराज] को पीड़ित किया । (स्रुचौ बाहू, तस्मात् स्रुचौ सौमीम् आहुतिं न आसाते) दोनों स्रुचा [घृतपात्र] दो भुजायें हैं, इस लिये दोनों स्रुचायें सोम देवता वाली आहुति को नहीं छाड़ते । (सोमः अवधीयेत, तस्मात् स्रुचौ च आज्यं च अन्तिकम् आहार्षीत्) सोम ध्यान में किया जावे, इस लिये दोनों स्रुचाओं और घो को समीप में वह [यजमान] लावे । (अन्तिकम् इव खलु वै अस्य एतत् प्रचरन्ति, यत् तानूनपत्रेण प्रचरन्ति) समीप रखे हुये के समान ही इस [सोम] के लिये यह [कर्म] वे करते हैं, जो तनूनप्ता देवता वाले [शरीर को न गिराने वाले चरु] से वे करते हैं । (देव सोम ते अंशुः—अंशुः एकधनविदे इन्द्राय आप्यायताम्—इति आह, यत् एव अस्य अपवायते, यत् मीयते, तत् एव अस्य एतेन आप्यायन्ति) हे दिव्यगुण वाले सोम ! तेरा अंश अंश एक धर्म से धन पाने वाले इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] के लिये सब ओर से बढ़े—यह [यजुर्वेद मन्त्र भाग] वह कहता है, जो कुछ भी इस [सोम] का सूख जाता है, जो कुछ मुरझा जाता है, इस के उस को ही इस [प्रयत्न] से वे अच्छे प्रकार बढ़ाते हैं । (इन्द्रः तुभ्यम् आप्यायताम्, त्वम् इन्द्राय आप्यायस्व इति आह, उभौ एव इन्द्रं च सोमं च आप्यायन्ति) इन्द्र तेरे लिये भले प्रकार बढ़े, तू इन्द्र के लिये भले प्रकार बढ़—यह [मन्त्र भाग] वह बोलता है, दोनों ही इन्द्र और

४—(अघ्नन्) अपीडयन् (आसाते) अस्यतः । क्षिपतः (अवधीयेत) अव + दधातेः कर्मणि—विधिलिङ् । अवधाने ध्याने क्रियेत (अन्तिकम्) समीपम् । समीपस्थम् (आहार्षीत्) आहरेत् । आनयेत् (तानूनपत्रेण) तनूनसृदेवकेन चरुणा (अंशुरंशुः) सृगृवाद्यश्च । उ० १ । ३७ । अंश विभाजने—कु । अवययोऽवयवः । अङ्गमङ्गम् (देव) दिव्यगुणयुक्त (सोम) हे ऐश्वर्यवन् पुरुष औषध वा (आ) समन्तात् (प्यायताम्) वर्धताम् (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते पुरुषाय (एकधनविदे) एकेन धर्मेण धनं विन्दति लभते यः, तस्मै (अपवायते) ओवै शोषणे यद्वा वा गतिगन्धनयोः—कर्मणि लट् । शुष्यते (मीयते) मीञ्

सोम को वे भले प्रकार बढ़ाते हैं। (अस्मान् सखीन् सन्या मेधया प्रजया धनेन आप्यायय इति आह, ऋत्विजः वै एतस्य सखायः, अस्य तान् एतान् एव आप्याययन्ति) हम मित्रों के दान से, निश्चल बुद्धि से, प्रजा से और धन से तू भले प्रकार बढ़ा—यह [मन्त्र भाग [वह बोलता है, ऋत्विज् लोग ही इस [सोम] के मित्र हैं, इस के उन इन को ही वे भले प्रकार बढ़ाते हैं। (देव सोम ते स्वस्ति, सुत्याम् उद्वचम् अशीय इति आह, एताम् आशिषम् एव आशास्ते, एतस्मात् लोकात् वै प्रच्यवन्ते, ये सोमम् आप्याययन्ति) हे दिव्य गुण वाले सोम ! तेरे लिये मंगल हो, सोम निचोड़ने की क्रिया और समाप्ति सूचक ऋचा को मैं प्राप्त होऊँ—यह [मन्त्र भाग] वह बोलता है, इस आशीर्वाद को ही वह कहता है, इस लोक में ही वे अच्छे प्रकार चलते हैं, जो सोम को भले प्रकार बढ़ाते हैं। (अन्तरिक्षदेवत्यः हि सोमः आप्यायते, एष्टा रायः एष्टा वामानि इषे भगाय प्र, ऋतवादिभ्यः ऋतम् नमः, दिवे पृथिव्यै नमः इति, द्यावापृथिवीभ्याम् एव नमस्कृत्य अस्मिन् लोके प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठिति) अन्तरिक्ष [मध्य में दिखाई देते हुये] लोक देवता वाला ही सोम [ओषधिराज] भले प्रकार बढ़ता है, अभीष्ट धन और अभीष्ट सुन्दर पदार्थ अन्न के लिये और ऐश्वर्य के लिये भले प्रकार हों, सत्यवादियों के लिये सत्य व्यवहार और अन्न हो, प्रकाशमान विस्तृत परमेश्वर के लिये नमस्कार [आदर क्रिया] होवे—यह [मन्त्र भाग वह कहता

हिंसायाम्—कर्मणि लट् । हिंस्यते । नाश्यते (प्याययन्ति) वर्धयन्ति (प्यायस्व) वर्धस्व (सन्या) हृषिषिरुहि० । उ० ४ । ११६ । षण्णु दाने—इन् । दानेन (सन्या) सम+णीञ् प्रापरणे—क्विप् । सम्यक् नेत्र्या (स्वस्ति) कल्याणम् (सुत्याम्) सोमाभिषवक्रियाम् (उद्वचम्) उत्तमां समाप्तिसृचिकाम् ऋचम् (अशीय) प्राप्नुयाम् (आशिषम्) आङ्—शास आशीर्वादे—क्विप् । मङ्गलप्रार्थनाम् (आशास्ते) आशीर्वादं कथयति (प्र) प्रकर्षेण (एतस्मात् लोकात्) एतस्मिन् लोके (च्यवन्ते) गच्छन्ति—निघ० २ । १४ (एष्टा) विभक्तिलोपः । सर्वत इष्टाः । अभीष्टाः । अभीष्टानि वा (वामानि) अर्तिस्तुसुहु० । उ० १ । १४० । वा गतौ—मन् । वामस्य वननीयस्य—निरु० ४ । २६ । शोभनानि वस्तूनि (प्र) प्रकर्षेण (इषे) अन्नाय (भगाय) ऐश्वर्याय (ऋतम्) सत्यव्यवहारम् (ऋतवादिभ्यः) सत्यकथनशीलेभ्यः (नमः) अन्नम्—निघ० २ । ७ (दिवे) प्रकाशमानाय परमात्मने (नमः) सत्कारः (पृथिव्यै) विस्तृताय परमेश्वराय (द्यावापृथिवीभ्याम्) प्रकाशभूमिहितार्थम् (नमस्कृत्य) आदृत्य परमात्मानम् ॥

है], प्रकाश और भूमि के हित के लिये ही [परमात्मा को] नमस्कार करके इस लोक में वह प्रतिष्ठा पाता है, प्रतिष्ठा पाता है [अवश्य ही बड़ाई पाता है] ॥४॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि औषधियों के अंश अंश का गुण जानें और उन से ठाक ठीक उपयोग लेकर धन प्राप्त करके सुखी रहें ॥ ४ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका में भी क० ३ के समान यजुर्वेद अध्याय ५ मन्त्र ७ के प्रतीक कुछ भेद से दिये हैं, वह मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है, जिस से पद और आशय मिलाने में सुगमता होवे । (अंशुः शरुः शृष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदे । आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व । आ प्याययास्मान् सखीन् त्सन्न्या मे धया स्वस्ति ते देव सोम सुत्या-मशीय । इष्टा रायः प्रेषे भगाय ऋतमृत्वादिभ्यो नमो द्यावापृथिवीभ्याम् ॥ य० ५ । ७) (देव) हे दिव्य गुण वाले (सोम) ऐश्वर्यवान् पुरुष वा औषध ! (ते) तेरा (अंशुः—अंशुः) अङ्ग अङ्ग (एकधनविदे) एक धर्म से धन पाने वाले (इन्द्राय) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के लिये (आ प्यायताम्) अच्छे प्रकार बढ़े, (तुभ्यम्) तेरे लिये (इन्द्रः) बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष (आ प्यायताम्) अच्छे प्रकार बढ़े, (त्वम्) तू (इन्द्राय) बड़े ऐश्वर्य वाले के लिये (आ प्यायस्व) भले प्रकार बढ़ । (अस्मान् सखीन्) हम मित्रों को (सन्न्या) ठीक ठीक ले चलने वाली (मेधया) धारणावती बुद्धि से (आ प्यायय) तू भले प्रकार बढ़ा । (देव) हे दिव्य गुण वाले (सोम) प्रेरक पुरुष (ते स्वस्ति) तेरे लिये कल्याण हो । (सुत्याम्) तत्त्व निचोड़ने की क्रिया को (अशीय) मैं प्राप्त होऊँ । (आ—इष्टा रायः) अनेक अभीष्ट धन [होवें], (ऋतवादिभ्यः) सत्यवादी पुरुषों को (इषे) अन्न के लिये और (भगाय) ऐश्वर्य के लिये (द्यावापृथिवीभ्याम्) प्रकाश और भूमि से (ऋतम्) सत्यज्ञान और (नमः) अन्न वा सत्कार (प्र) अच्छे प्रकार [होवें] ॥

टिप्पणी २—इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण १ । २६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी ३—निम्नलिखित शब्द शोधे गये हैं—

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
आस्यैतत्	अस्यैतत्	सायण भाष्य ऐ० ब्रा० १ । २६
अंशुरशृष्टे	अंशुशरशृष्टे	यजुर्वेद ५ । ७ और ऐ० ब्रा० १ । २६
आत्ममिन्द्राय	आ त्वमिन्द्राय	
सन्न्या	सन्न्या सन्न्या	वेद में दोनों पाठ हैं

कण्डिका ५ ॥

मख इत्येतद् यज्ञनामधेयं, छिद्रप्रतिषेधसामर्थ्यात् छिद्रं खमित्युक्तं, तस्य मेति प्रतिषेधः, मा यज्ञं छिद्रं करिष्यतीति । छिद्रो हि यज्ञो भिन्न इवादिधिविस्त्रवति । तद्वै खलु छिद्रं भवति, ऋत्विग्यजमानविमानाद्वापि वैषां व्यपेक्षया मन्त्रकल्पब्राह्मणानामप्रयोगाद् यथोक्तानां वा दक्षिणानामप्रदानाद्धीनाद्वातिरिक्ताद्दो-त्पाताद् भूतेषु प्रायश्चित्तव्यतिक्रमादिति । इत्येतद्वै सर्वं ब्रह्मण्यर्पितं ब्रह्मैव विद्वान् यद् भृग्वङ्गिरोवित् सम्यगधीयानश्चरितब्रह्मचर्य्योऽन्यूनातिरिक्ताङ्गः अप्रमत्तो यज्ञं रक्षति, तस्य प्रमादाद्यदि वाप्यसान्नेभ्याद्यथा भिन्ना नौरगाधे महत्युदके समूहवेत्, मत्स्यकच्छपशिशुमारनक्रमकरपुरण्डरीकजखरजसपिशाचानां भागधेयं भवति, एवमादीनां चान्येषां विनष्टोपजीविनाम् । एवं खल्वपि यज्ञच्छिन्नभिन्नोऽपध्वस्त उत्पाताद्भुतो बहुलोऽथर्वभिरसंशुस्कृतोऽसुरगन्धर्वयक्षगाक्षसपिशा-चानां भागधेयं भवति, एवमादीनां चान्येषां विनष्टोपजीविनाम् । तदपि श्लोकाः,

छिन्नभिन्नोपध्वस्तो विश्रुतो बहुधा मखः ।
 इष्टापूर्त्तद्रविणं गृह्ययजमानस्यावापतत् ॥ १ ॥
 ऋत्विजां च विनाशाय राज्ञो जनपदस्य च ।
 संवत्सरविरिष्टं तद् यत्र यज्ञो विरिष्यते ॥ २ ॥
 दक्षिणाप्रवणीभूतो यज्ञो दक्षिणतः स्मृतः ।
 हीनाङ्गो रक्षसाम्भागो ब्रह्मवेदादसंस्कृतः ॥ ३ ॥
 चतुष्पात् सकलो यज्ञश्चातुर्होत्रविनिर्मितः ।
 चतुर्विधैः स्थितो मन्त्रैर्ऋत्विग्भिर्वेदपारगैः ॥ ४ ॥
 प्रायश्चित्तैरनुध्यानैरनुज्ञानानुमन्त्रणैः ।
 होमैश्च यज्ञविभ्रंशं सर्वं ब्रह्मा प्रपूरयेत् ॥ इति । ५ ॥

तस्माद् यजमानो भृग्वङ्गिरोविदमेव तत्र ब्रह्माणं वृणीयात् । स हि यज्ञ-
 न्तारयतीति ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ यज्ञ में दोषों को ब्रह्मा ही ठीक कर सकता है ॥

(मखः इति एतत् यज्ञनामधेयम्, छिद्रप्रतिषेधसामर्थ्यात्) मख यह यज्ञ का नाम है, ['क्योंकि उस में] छिद्र [दोष] के निषेध का सामर्थ्य है । (खम् इति छिद्रम् उक्तम्, तस्य प्रतिषेधः मा इति, यज्ञं छिद्रं मा करिष्यति इति) ख-

५—(मखः) मख गतौ—घ, यद्वा मा निषेधे+खन विदारे—ड, ह्रस्व-

यह शब्द छिद्र कहा जाता है, उस का निषेध—मा—यह पद है, यज्ञ को वह [ब्रह्मा] छिद्र वाला [दूषित] न करेगा, यह [तात्पर्य] है । (छिद्रः यज्ञः हि भिन्नः उदधिः इव विस्त्रवति) क्योंकि छिद्रवाला यज्ञ फूटे हुये जलाशय के समान बह जाता है । (तत् वै खलु छिद्रं भवति, ऋत्विग्यजमानविमानात् वा एषां व्यपेक्षया अपि वा, मन्त्रकल्पब्राह्मणानाम् अप्रयोगात्, यथोक्तानां दक्षिणानां वा अप्रदानात्, हीनात् वा अतिरिक्तात् वा, भूतेषु उत्पातात्, प्रायश्चित्तव्यक्तिक्रमात् इति) वह ही निश्चय करके छिद्र [दूषण] होता है— ऋत्विजों और यजमान के अपमान से, अथवा इन की अनपेक्षा से, अथवा मन्त्र, कल्प [कर्मपद्धति, संस्कारविधि] और ब्राह्मणों [ब्राह्मण ग्रन्थों में कहे विधानों] के प्रयोग न करने से, अथवा यथोक्त दक्षिणाओं के न देने से, अथवा न्यून वा अधिक [देने] से, अथवा प्राणियों पर उत्पात [भूकम्प आदि उपद्रव] से, अथवा प्रायश्चित्त के उल्लंघन से । (इति एतत् वै सर्वं ब्रह्मणि अर्पितम्) यह सब [विघ्नों की रोक] ही ब्रह्मा पर ही निर्भर है । (विद्वान् ब्रह्मा एव, यत् भृग्वङ्गिरोवित्, सम्यक् अधीयानः, चरितब्रह्मचर्यः अन्यूनतिरिक्ताङ्गः, अप्रमत्तः, यज्ञं रक्षति) विद्वान् ब्रह्मा ही, जो भृगु अङ्गिराओं [परिपक्व ज्ञानों चारों वेदों] का जानने वाला, यथाविधि पढ़ा हुआ, ब्रह्मचर्य किये हुये, न्यून वा अधिक अङ्ग न रखने वाला [अङ्ग भङ्ग], न चूकने वाला है, यज्ञ की रक्षा करता है । (तस्य प्रमादात् यदि वा अपि असानैध्यात्, यथा भिन्ना नौः अगाधे महति उदके संस्रवेत्, मत्स्य-कच्छप-शिशुमार-नक्र-मकर-पुण्डरीक-जखर-जस-पिशाचानां भागधेयं भवति, एवमादीनाम् अन्येषां विनष्टोपजीविनां च) उस [ब्रह्मा] की भूल से अथवा समीप न रहने से, जैसे टूटी नाव अथाह बड़े जल में डूब जाती है, और मच्छ, कच्छ, शिशुमार, नाके, मगर, पुण्डरीक, जखर,

त्वम् । अच्छिद्रः । यज्ञः (छिद्रम्) छिद्र—अर्शआद्यच् । छिद्रयुक्तं । दूषितम् (उदधिः) जलाशयः (विमानात्) अपमानात् (व्यपेक्षया) अनिच्छया (कल्पः) कर्मपद्धतिः । संस्कारविधिः (उत्पातात्) भूकम्पाद्युपद्रवात् (अप्रमत्तः) प्रमादरहितः (असानैध्यात्) नञ्+सन्निधि—प्यञ् । असान्निध्यात् । अनैकव्यात् (संस्रवेत्) निमज्जेत् (पुण्डरीकः) फर्फरीकादयश्च । उ० ४ । २० । पुडि मर्दने—ईकन् प्रत्ययान्तो निपातितः । जलजन्तुविशेषः (जखरः) ऋच्छेररः । उ० ३ । १३१ । जप हिंसायाम्—अर, पस्य खः । हिंस्रजलजन्तुः (जसः) जप हिंसायाम्—घ । ऋषः । हिंस्रकमत्स्यभेदः (विनष्टोपजीविनाम्) विनष्टाश्रितानाम्

ज्ञस, पिशाचों [मांसाहारियों] का भाग हो जाती है, और इसी प्रकार दूसरे अपने आश्रितों के नष्ट करने वालों का [भाग होती है] । (एवं खलु अपि छिन्नभिन्नः अपध्वस्तः उत्पाताद्भुतः, बहुलः, अथर्वभिः असंस्कृतः यज्ञः असुरगन्धर्वयक्षराक्षसपिशाचानां भागधेयं भवति, एवमादीनाम् अन्येषां विनष्टोपजीविनां च) इसी प्रकार निश्चय करके टूटा फूटा, नष्ट हुआ, उत्पात (भूकम्पादि उपद्रव] से आश्चर्य युक्त किया हुआ, बहुत दोष ग्रहण करने वाला, अथर्वों [चारों वेदों के निश्चल ज्ञानों] से न संस्कार किया हुआ यज्ञ असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाचों [मांसाहारियों] का भाग होता है, और इसी प्रकार के दूसरे अपने आश्रितों के नष्ट करने वालों का [भाग होता है] । (तत् अपि श्लोकाः) उस विषय में ही श्लोक हैं ॥

(बहुधा विश्रुतः मखः छिन्नभिन्नः अपध्वस्तः यजमानस्य इष्टापूर्तद्रविणम् अवगृह्य अपतत् । १ ।) बहुत प्रकार से विख्यात यज्ञ छिन्न भिन्न और नष्ट होकर यजमान के इष्ट [अग्निहोत्र वेदाध्ययन आतिथ्य आदि] और पूर्त [बावड़ी कुशां देवमन्दिर आदि] के बल को छीन कर गिर जाता है ॥ १ ॥

(संवत्सर विरिष्टं तत् ऋत्विजां च राज्ञः जनपदस्य च विनाशाय यत्र यज्ञः विरिष्यते । २ ।) संवत्सर यज्ञ से नष्ट किया हुआ कर्म वहां पर ऋत्विजों के और राजा और राज्य के विनाश के लिये [होता है], जहां यज्ञ नष्ट किया जाता है ॥ २ ॥

(दक्षिणाप्रवणीभूतः यज्ञः दक्षिणतः स्मृतः, ब्रह्मवेदात् असंस्कृतः हीनाङ्गः राक्षसां भागः । ३ ।) दक्षिणाओं से विस्तारित यज्ञ वृद्धि वाला कहा गया है, ब्रह्मवेद [ईश्वर ज्ञान] से नहीं संस्कार किया हुआ, अङ्गों से हीन [यज्ञ] राक्षसों [उपद्रवी जीवों] का भाग होता है ॥ ३ ॥

(चातुर्होत्रविनिर्मितः, चतुर्विधैः मन्त्रैः, वेदपारगैः ऋत्विग्भिः स्थितः सकलः यज्ञः चतुष्पात् । ४ ।) चारों होताओं [होता, अध्वर्यु, उद्गाता, और

(उत्पाताद्भुतः) उपद्रवविस्मितः (बहुलः) बहु + ला आदाने—क । बहुदोष-आहकः (अपतत्) पतति । अधोगच्छति (संवत्सरविरिष्टम्) संवत्सरयज्ञाद् विनष्टं कर्म (दक्षिणतः) दक्ष वृद्धौ—इनन्, स्वार्थे तसिल् । वृद्धिमान् (चातुर्होत्रविनिर्मितः) चतुर्होत्र—अण् स्वार्थे, अनुशतिकादीनां च । पा० ७ । ३ । २० । उभयपदवृद्धिः । चतुर्होत्रभिर्विरचितः (अनुमन्त्रणैः) अनुकूलविचारैः (विभ्रंशम्) भ्रंशु अधःपतने—घञ् । विनाशम् (वृणीयात्) स्वीकुर्यात् ॥

ब्रह्मा] से रचा गया, चार प्रकार वाले मन्त्रों और वेदों के पार पाने वाले ऋत्विजों के साथ ठहरा हुआ सम्पूर्ण यज्ञ चार पाँच वाला होता है ॥ ४ ॥

(प्रायश्चित्तैः अनुध्यानैः अनुज्ञानानुमन्त्रणैः होमैः च सर्वं यज्ञविभ्रंशं ब्रह्मा प्रपूरयेत् इति । ५ ।) प्रायश्चित्तों [पापशोधन उपायों], अनुकूल ध्यानों, अनुज्ञानों [अनुकूल आज्ञाओं] के अनुमन्त्रण [अनुकूलसम्मतिदान] से और होमों से सब यज्ञ के दोष को ब्रह्मा पूरा करे ॥ ५ ॥

(तस्मात् यजमानः भृगुञ्जिरोविदमु एव तत्र ब्रह्माणं वृणीयात्) इस लिये यजमान भृगुञ्जिराओं [परिपक्व ज्ञान वाले चार वेद] जानने वाले को ही वहाँ [यज्ञ में] ब्रह्मा चुने । (सः हि यज्ञं तारयति इति ब्राह्मणम्) वह ही यज्ञ को तार देता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जहाँ पर सब ऋत्विज लोग चतुर होते हैं और विशेष करके ब्रह्मा चतुर्वेदी, ब्रह्मचारी, और सब विधान जानने वाला होता है, वह यज्ञ निर्विघ्न सिद्ध होकर सब राजा और प्रजा को सुख देता है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को गो० पू० २ । २४ से मिलाओ ॥

कण्डिका ६ ॥

यज्ञो वै देवेभ्य उदक्रामत्, न वोहमन्नं भविष्यामीति । नेति देवा अब्रुवन्, अन्नमेव नो भविष्यसीति । तं देवा विमेधिरे । स एभ्यो विहतः न प्रवभूव । ते होचुर्देवाः, न वै न इत्थं विहतः अन्नं भविष्यति, हन्तेमथं सम्भरामीति । तं स३-जभ्रुः । तं सम्भृत्योचतुरश्विनौ, इमं भिषज्यतमिति । अश्विनौ वै देवानां भिषजावश्विनावध्वर्यू, तस्मादध्वर्यू धर्मं सम्भरत । तथं सम्भृत्यो चतुः, ब्रह्मन् घर्मण प्रचरिष्यामः, होतर्घर्ममभिष्टुहि, उद्गातः सामानि गायेति । प्रचरत घर्ममित्यनुजानाति । ब्रह्मप्रसूता हि प्रचरन्ति, ब्रह्म हेदं प्रसवानामीशे, सवितृप्रसूनतायै घर्मं तपामि, ब्रह्म जज्ञानमियम्पिष्या राष्ट्र्येत्वग्र इति । घर्मं ताप्यमानमुपासीत, शस्त्रवदर्धर्चश आहावप्रतिगरवर्जं रूपसमृद्धाभिः । एतद्वै यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपसमृद्धम् । यत् कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारमश्रुते य एवं वेद । मिथुनं वा एतत् यद् घर्मः, तस्मादन्तर्धा हि प्रचरन्त्यर्हिता वै मिथुनं चरन्तीति । १ । तदेतदेवमिथुनमित्याचक्षते । २ । तस्य यो घर्मः, तच्छिञ्चं, यौ शफौ, तावाण्ड्यौ, य उपयमनीके, श्रोणिकपाले, यत्पयः, तद्रेतः, तदशौ देवयोन्यां

रेतो ब्रह्ममयं धत्ते प्रजननाय । ३ । सोऽग्निर्देवयोनिर्ऋद्धमयो यजुर्मयः साममयो ब्रह्ममयोऽमृतमय आहुतिमयः सर्वेन्द्रियः सम्पन्नो यजमान ऊर्ध्वः स्वर्गं लोकमेति । ४ । तदाहुः, न प्रथमयज्ञे प्रवर्ग्यं कुर्वीत, अनुपनामका ह वा एनमुत्तरे यज्ञकृतवो भवन्तीति । कामन्तु योऽनूचानः श्रोत्रियः स्यात्, तस्य प्रवृज्यात्, आत्मा वै स यज्ञस्येति विज्ञायते, अपशिरसा ह वा एष यज्ञेन यजते, योऽप्रवर्ग्येण यजते । शिरो ह वा एतद्यज्ञस्य, यत् प्रवर्ग्यः । तस्मात् प्रवर्ग्यवत्यैव याजयेन्नाप्रवर्ग्येण । तदप्येषाभ्यनूक्ता, चत्वारि शृङ्गेति ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ यज्ञ, घर्म और प्रवर्ग्य का वर्णन ॥

(यज्ञः वै देवेभ्यः उदक्रामत्, अहं वः अन्नं न भविष्यामि इति) यज्ञ देवताओं से निकल भागा—मैं तुम्हारा अन्न नहीं होऊंगा । (न इति देवाः अब्रुवन्, नः अन्नम् एव भविष्यसि इति) यह नहीं—देवता बोले—तू हमारा अन्न ही होगा । (तं देवाः विमेधिरे) उस को देवताओं ने मारा । (सः विहतः एभ्यः न प्रबभूव) वह मारा हुआ इन के लिये [अन्न बनने को] न समर्थ हुआ । (ते देवाः ह ऊचुः, इत्थं विहतः नः वै अन्नं न भविष्यति, हन्त इमं सम्भरामि इति) वे देवता बोले—इस प्रकार से मारा हुआ यह हमारे लिये पर्याप्त न होगा, अच्छा ! इसे हम मिलकर धारण करें । (तं संजभ्रुः) उसे उन्होंने ने मिल कर पकड़ा । (तं संभृत्य ऊचतुः [= ऊचुः] अश्विनौ इमं भिषज्यतम् इति) उसे मिलकर धारण कर के वे बोले—हे दोनों अश्विनो ! इस का औषध करो । (अश्विनौ वै देवानां भिषजौ अश्विनौ अध्वर्यु तस्मात् अध्वर्यु घर्मं सम्भरत) [= सम्भरतः] दोनों अश्वी [प्राण और अपान] ही देवों [इन्द्रियों] के दो वैद्य हैं, दो अश्वी दो अध्वर्यु [के समान] हैं, इस लिये दो अध्वर्यु घर्म [यज्ञ वा पात्र विशेष] को यथावत् धारण करते हैं । (तं सम्भृत्य ऊचतुः, ब्रह्मन् घर्मेण प्रचरिष्यामः, होतः घर्मम् अभिष्टुहि, उद्गातः सामानि गाय इति) उस [यज्ञ] को यथावत् धारण करके वे दोनों [अध्वर्यु] बोले—हे ब्रह्मन् ! [ब्रह्मा] घर्म से हम

६—(उदक्रामत्) उत्क्रान्तवान् (विमेधिरे) विविधं हिंसितवन्तः (विहतः) विविधं ताडितः (अन्नम्) पर्याप्तम् (सम्भरामि) सम्भराम—ऐ० ब्रा० १। १८। सम्यग् धराम । पोषयाम (संजभ्रुः) हस्य भः । संजहुः । एकीभूयगृहीतवन्तः (ऊचतुः) ऊचुः—ऐ० ब्रा० १। १८ (सम्भरत) सम्भरतः—ऐ० ब्रा० १। १८ (प्रचरिष्यामः) अनुष्ठास्यामः (अनुजानाति) आज्ञापयति (ब्रह्मप्रसूताः)

कार्य करेंगे, हे होता घर्म की तू स्तुति कर, [इतने को ऐ० ब्रा० १ । १८ से मिलाओ], हे उद्गाता तू साममन्त्रों को गा । (धर्म प्रचरत इति अनुजानाति) घर्म को तुम सब काम में लाओ—यह वह [ब्रह्मा] आज्ञा देता है । (ब्रह्मप्रसूताः हि प्रचरन्ति, इदं ब्रह्म ह प्रसवानाम् ईशे, सवितृप्रसूनतायै घर्मं तपामि, जज्ञानं ब्रह्म, इयं पित्र्या राष्ट्री अग्रे एतु इति) क्योंकि ब्रह्मा से प्रेरित [ऋत्विग् लोग] कार्य करते हैं—यह ब्रह्म [परमात्मा] ही उत्पन्न पदार्थों का ईश्वर है, सविता [सर्वप्रेरक परमात्मा] से प्रेरणा के लिये घर्म [यज्ञपात्र] को तपाता हू [इन दो प्रतीकों को अथर्व० ५ । २४ । १ से मिलाओ], विद्यमान ब्रह्म, और यह पिता [जगत् पिता परमेश्वर] से आयी हुई राजराजेश्वरी [वेदवाणी] हमारे आगे आवे [यह दोनों प्रतीक अथर्व० ४ । १ । १ तथा २ के हैं] । (ताप्यमानं घर्मं रूपसमृद्धाभिः शस्त्रवत् अर्धर्चशः आहावप्रतिगरवर्जं उपासीत) तपाते हुये घर्म को रूप [प्रयोजनीय आशय] से सम्पन्न, स्तुति वाली आधी आधी ऋचाओं से भगड़ा और प्रत्युत्तर छोड़ कर वह [यजमान] सेवे । (एतत् वै यज्ञस्य समृद्धं, यत् रूपसमृद्धम्, यत् क्रियमाणं कर्म ऋग् यजुः वा अभिवदति) यह ही यज्ञ की सम्पन्नता [सिद्धि] है जो रूप [प्रयोजनीय आशय] की सम्पन्नता है—[अर्थात्] जिस किये जाते हुये कर्म को ऋचा वा मन्त्र बताता है । (स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारम् अश्नुते यः एवं वेद) कल्याण के साथ उस यज्ञ का पार वह पाता है, जो ऐसा जानता है ॥

(वेदमिथुनं वै एतत् यत् घर्मः, तस्मात् अन्तर्धाः हि प्रचरन्ति, अन्तर्हिताः वै मिथुनं चरन्ति इति) यह वेदोक्त मिथुन व्यापार ही है जो यह घर्म है, इस लिये गुप्त हो कर ही इस को वे सेवते हैं, गुप्त हो कर ही मिथुन व्यापार लोग करते हैं । १ । (तत् एतत् एव मिथुनम् इति आचक्षते) वह ही यह मिथुन व्यापार है—ऐसा लोग कहते हैं । २ । (तस्य यः घर्मः तत् शिश्नं, यौ शफौ तौ आण्ड्यौ, ये उपयमनीके श्रोणिकपाले, यत् पयः तत् रेतः, तत् अग्नौ देवयोन्यां ब्रह्ममयं

ब्रह्मणा चतुर्वेदविदा प्रेरिताः (प्रसवानाम्) उत्पन्नपदार्थानाम् (ईशे) तलोपः । ईष्टे । ईश्वरोऽस्ति (घर्मम्) पात्रविशेषं यज्ञं वा (जज्ञानम्) जनी प्रादुर्भावे-
शानचि शपः श्लोसति रूपम् । जायमानम् । दृश्यमानम् । (पित्र्या) पितुर्यच्च ।
पा० ३ । ४ । ७६ । पितृ—यत्, टाप् । पितृसकाशादागता । पैतृका (राष्ट्री) राजृ-
दीप्तौ ऐश्वर्य्ये च—पून्, डीप् । राष्ट्री, ईश्वरनाम—निघ० २ । २२ । राज्ञी ।
ईश्वरी । सर्वनियन्त्री (एतु) गच्छतु (अग्रे) अभिमुखम् (उपासीत) उप+

रेतः प्रजननाय धत्ते) उस [यज्ञ] का जो घर्म [पात्र विशेष] है वह शिशुन [पुरुष लिङ्ग] है, जो दो शफ [उष्ण पदार्थ लेने के लिये काठ के शस्त्र विशेष] हैं वे दो आण्ड [आण्डकोश] हैं, जो दो उपयमनीका [दर्वी वा डोई] हैं वे दो श्रोणिकपाल [कटि मध्य के दो खण्ड] हैं, जो दूध है वह वीर्य है, इस लिये अग्नि देवयोनि [दिव्य पदार्थों की उत्पत्ति स्थान] में ब्रह्ममय वीर्य को गर्भाधान के लिये वह [यजमान] धारण करता है । ३ । (सः अग्निः देवयोनिः ऋद्धमयः यजुर्मयः साममयः ब्रह्ममयः अमृतमयः आहुतिमयः सर्वेन्द्रियः सम्पन्नः यजमानः ऊर्ध्वः स्वर्गं लोकम् एति) वह अग्नि देवयोनि [समान] ऋग्वेद युक्त, यजुर्वेद युक्त, सामवेद युक्त, ब्रह्मवेद [अथर्ववेद] युक्त, अमृत [मोक्ष सुख] युक्त, आहुति [दान और ग्रहण व्यापार] युक्त, सब इन्द्रियों वाला और संपत्ति वाला यजमान ऊंचा होकर स्वर्ग लोक पाता है । ४ । [इन चार वाक्यों को ऐ० ब्र० १ । २२ से मिलाओ] ॥

(तत् आहुः प्रथमयज्ञे प्रवर्ग्यं न कुर्वीत, अनुपनामकाः ह वै उत्तरे यज्ञ-
कृतवः एनं भवन्ति इति) लोग यह कहते हैं—प्रथम यज्ञ में प्रवर्ग्य [यज्ञ] को न करे, उपनाम बिना ही पिछले यज्ञ कर्म इस [प्रवर्ग्य] को प्राप्त होते हैं । (कामं तु यः अनूचानः श्रोत्रियः स्यात् तस्य प्रवृज्यात्, सः वै यज्ञस्य आत्मा इति विज्ञायते) ऐसा ही हो किन्तु जो अनूचान [अङ्ग उपाङ्गों सहित वेद पढ़ा हुआ], और श्रोत्रिय [वेद विहित धर्म जानने वाला] हो उस के समर्थ होने से [प्रवर्ग्य करे,] वह ही यज्ञ का आत्मा है यह जाना गया है । (अपशिरसा यज्ञेन ह वै एषः यजते, यः अप्रवर्ग्येण यजते) बिना शिर वाले यज्ञ से ही वह यज्ञ करता है, जो प्रवर्ग्य के बिना यज्ञ करता है । (यज्ञस्य एतत् ह वै शिरः यत् प्रवर्ग्यः) यज्ञ का यह ही शिर है जो प्रवर्ग्य है । (तस्मात् प्रवर्ग्यवत्या एव याज-

आस उपवेशने—वि० लि० । उपवरेत् (आहावप्रतिगरवर्जम्) युद्धं प्रति-
कूलशब्दं च वर्जयित्वा (अन्तर्धाः) अन्तर्—दघातेः—क्विप् । अन्तर्हिताः ।
तिरोहिताः सन्तः (शफौ) शमु उपशमे—अच्, मस्य फः । उष्णपदार्थग्रहणाय
काष्ठनिर्मितशस्त्रभेदौ (आण्ड्यौ) स्वार्थे—ष्यञ् । आण्डकोशौ (उपयमनीके)
दर्वीद्वयम् (श्रोणिकपाले) श्रोणद्वयमध्यगतमस्थिद्वयम् (देवयोन्याम्) देवा-
नामुत्पत्तिस्थाने (सम्पन्नः) सम्पत्तिवान् (अनुपनामकाः) उपनामरहिताः
(भवन्ति) प्राप्नुवन्ति (कामम्) अनुमतौ (प्रवृज्यात्) प्र+वृजी वृजि वर्जने
-क्यप् । वृजनं वलं—निघ० २ । ६ । सामर्थ्यात् (अपशिरसा) विगतमस्तकेन ॥

येत्, न अप्रवर्ग्येण) इस लिये प्रवर्ग्य वाली [आहुति] से ही यज्ञ करावे, प्रवर्ग्य बिना न [यज्ञ करावे]। (तत् अपि एषा अभ्यन्क्ता, चत्वारि शृङ्गा इति) इस लिये यह [ऋचा] पढ़ी जाती है—चत्वारि शृङ्गा.....[देखो गो० पृ० २ । १७] ॥६॥

भावार्थ—यज्ञ में यज्ञ विभागों को ठीक ठीक करने से यजमान स्वर्ग-लोक पाता है ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—यह शब्द शुद्ध किये गये हैं—इच्छन्=इत्थं, ऐ० ब्रा० १ । १८, राष्ट्रत्व=राष्ट्र्यत्व, अथर्व० ४ । १ । २ ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित नीचे लिखे जाते हैं—

१—सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु । अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ अथ० ५ । २४ । १ । (सविता) सब का उत्पन्न करने वाला वा सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर (प्रसवानाम्) उत्पन्न पदार्थों वा अच्छे अच्छे ऐश्वर्यों का (अधिपतिः) अधिष्ठाता है, (सः) वह (मा) मुझे (आवतु) बचावे, (अस्मिन्) इस (ब्रह्मणि) बड़े वेदज्ञान में, (अस्मिन् कर्मणि) इस कर्तव्य कर्म में, (अस्यां पुरोधायाम्) इस पुरोहित पदवी में, (अस्यां प्रतिष्ठायाम्) इस प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया में, (अस्यां चित्याम्) इस चेतना में, (अस्याम् आकृत्याम्) इस संकल्प वा उत्साह में (अस्याम् आशिषि) इस अनुशासन में, और (अस्यां देवहृत्याम्) इस विद्वानों के बुलावे में (स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ॥

२—ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् वि सीमतः सुरुचो वेन आवः । स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमनतश्चवि वः ॥ अथ० ४ । १ । १, यजु० १३ । ३ । साम० पू० ४ । ३ । ६ ॥ (वेनः) प्रकाशमान वा मेधावी परमेश्वर ने (पुरस्तात्) पहले काल में (प्रथमम्) प्रख्यात् (ज्ञानम्) उपस्थित रहने वाले (ब्रह्म) वृद्धि के कारण अन्न को और (सुरुचः) बड़े रुचिर लोगों को (सीमतः) सीमाओं वा छागों से (वि आवः) फैलाया है । (सः) उस ने (बुध्न्याः) अन्तरिक्ष में वर्तमान (उपमाः) [परस्पर आकर्षण से] तुलना करने वाले (विष्ठाः) विशेष विशेष स्थानों, अर्थात् (अस्य) इस (सतः) विद्यमान [स्थूल] के (च) और (अनतः) अविद्यमान [सूक्ष्म जगत्] के (योनिम्) घर को (च) निश्चय करके (वि वः) खोला है ॥

३-इयं पित्र्यां राष्ट्र्येत्वग्रे प्रथमार्यं जनुषे भुवनेष्टाः । तस्मा एतं सुरुचं
 हारमह्यं घर्मं श्रीणन्तु प्रथमार्यं धास्यवे ॥ अथ० ४ । १ । २ ॥ (पित्र्या) पिता
 [जगत्पिता परमेश्वर] से आई हुयी, (भुवनेष्टाः) सब जगत में ठहरी हुई
 (इयम्) यह (राष्ट्री) राजराजेश्वरी शक्ति [वेदवाणी] (प्रथमाय) सब से
 उत्तम (जनुषे) जन्म के लिये (अग्रे) हमारे आगे (एतु) आवे, [अर्थात्]
 (तस्मै) उस (प्रथमाय सब से ऊपर विराजमान (धास्यवे) संसार का
 धारण पोषण चाहने वाले परमात्मा के लिये (एतम्) इस (सुरुचम्) बड़े
 रुचिर (हारम्) अनिष्ट को भुका देने वाले (अह्यम्) प्राप्ति योग्य, वा प्रति
 दिन वर्तमान (घर्मम्) यज्ञ को (श्रीणन्तु) सब लोग परिपक्व करें ॥

कण्डिका ७ ॥

देवाश्च ह वा ऋषयाश्चासुरैः संयत्ता आसन् । तेषामसुराणामिमाः पुरः
 प्रत्यभिजिता आसन्, अयस्मयी पृथिवी, रजतान्तरिक्षं, हरिणी द्यौ । ते देवाः
 सङ्घातं सङ्घातं पराजयन्त । ते विदुः, अनायतना हि वै श्यः स्मः, तस्मात्
 पराजयामहा इति एताः ता पुरः प्रत्यकुर्वन्त, हविर्धानन्दिव आग्नीध्रमन्तरिक्षात्सदः
 पृथिव्याः । ते देवा अब्रुवन्, उपसदमुपायाम, उपसदा वै महापुरञ्जयन्तीति । त
 एभ्यो लोकेभ्यो निरघ्नन्, एकयामुष्माल्लोकादेकयान्तरिक्षादेकया पृथिव्याः ।
 तस्मादाहुः, उपसदा वै महापुरञ्जयन्तीति । त एभ्यो लोकेभ्यो निर्हता ऋतून् ।
 प्राविशन् ते षडुपायन्, तानुपसद्भिरेवर्तुभ्यो निरघ्नन्, द्वाभ्याममुष्माल्लोकाद्
 द्वाभ्यामन्तरिक्षाद् द्वाभ्यां पृथिव्याः । ते ऋतुभ्यो निर्हताः संवत्सरं प्राविशन् ।
 ते द्वादशोपायन्, तानुपसद्भिरेव संवत्सराभिरघ्नन्, चतसृभिरमुष्माल्लोकाच्चत-
 सृभिरन्तरिक्षाच्चतसृभिः पृथिव्याः । ते संवत्सरा निर्हता अहोरात्रे प्राविशन्, ते
 यत्सायमुपायन्, तेनैतान् रात्र्या अनुदन्त, यत् प्रातः, तेनाहः । तस्माद्गौः
 सायम्प्रातस्तनमाप्यायते । प्रातःसायन्तनन्तानुपसद्भिरेवैभ्यो लोकेभ्यो नुदमान
 आयन्, ततो देवा अभवन् परासुराः । सर्वेभ्य एवैभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यनुदमान
 एति, य एवं विद्वानुपसदमुपैति ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ देवासुर सङ्ग्राम में उपसद् यज्ञ द्वारा
 देवताओं का विजय ॥

(देवाः च ऋषयः च ह वै असुरैः संयत्ताः आसन्) देव [विद्वान्] और
 ऋषि [सन्मार्गदर्शक लोग] अतुरों [राक्षसों वा विघ्नों] करके वशीतभूत

हुये । (तेषाम् असुराणाम् इमाः पुरः प्रत्यभिजिताः आसन्, अयस्मयी पृथिवी, रजता अन्तरिक्षं, हरिणी द्यौ) उन असुरों करके यह नगरियां [देवताओं से] लड़कर जीती हुयीं थीं—गति [वा सुवर्ण] वाली [नगरी] पृथिवी, सब लोकों वाली [नगरी] अन्तरिक्ष और प्रकाश वाली [नगरी] सूर्यलोक । (ते देवाः सङ्घातं सङ्घातं पराजयन्त) वे देवता टोली टोली करके हराये गये । (ते विदुः, अनायतनाः हि वै श्यः स्मः, तस्मात् पराजयामहै इति एताः ताः पुरः प्रत्यकुर्वन्त, हविर्धानं दिवः, आग्नीध्रम् अन्तरिक्षात्, सदः पृथिव्याः) उन्होंने ने विचारा—घरों के बिना हम सोते हुये हैं, इस लिये [असुरों को] हम हरावें—सो उन्होंने ने यह नगर बनाये, हविर्धान [अन्न स्थान] सूर्य से, आग्नीध्र [यज्ञ में अग्नि जलाने का स्थान] अन्तरिक्ष से और सद [बैठने का स्थान] पृथिवी से । (ते देवाः अब्रुवन्, उपसदम् उपायाम, उपसदा वै महापुरं जयन्ति इति) वे देवता बोले—उपसद् [यज्ञ विशेष वा पास पास पहुंचने की क्रिया] को हम करें, उपसद् से ही बड़े नगर को लोग जीतते हैं । (ते एभ्यः लोकेभ्यः निरघ्नन्, एकया अमुष्मात् लोकात्, एकया अन्तरिक्षात्, एकया पृथिव्याः) उन्होंने ने [असुरों को] इन लोकों से मार निकाला, एक [उपसद्] द्वारा उस [सूर्य] लोक से, एक के द्वारा अन्तरिक्ष से और एक के द्वारा पृथिवी से । (तस्मात् आहुः, उपसदा वै महापुरं जयन्ति इति) इस लिये कहते हैं—उपसद् द्वारा ही बड़े नगर को लोग जीतते हैं । (ते एभ्यः लोकेभ्यः निर्हताः ऋतून् प्राविशन्) वे [असुर] इन लोकों से निकाले गये होकर ऋतुओं में प्रविष्ट हुये । (ते षट् उपायन्, तान् उपसद्भिः एव ऋतुभ्यः निरघ्नन्, द्वाभ्याम् अमुष्मात् लोकात्, द्वाभ्याम् अन्तरिक्षात्, द्वाभ्यां पृथिव्याः) उन [देवताओं] ने छह [उपसदों]

७—(देवाः) विद्वांसः (ऋषयः) सन्मार्गदर्शकाः (असुरैः) असे-हरन् । उ० १ । ४२ । असु क्षेपणे—उरन् । शुभगुणस्य क्षेपणशीलैः । राक्षसैः । विघ्नैः (संयत्ताः) सम + यती प्रयत्ने—क्त । आयत्ताः । वशीभूताः (पुरः) नगराणि । दुर्गाणि (अयस्मयी) सर्वधातुभ्योऽसुन् । उ० ४ । १८६ । इण् गतौ—असुन् । अयः, हिरण्यनाम—निघ० १ । २ । सुवर्णमयी । गतिमती (रजता) पृथिव्यभ्यां कित् । उ० ३ । १११ । रञ्ज रागे—अतच्, ततः अर्शआद्यच्, टाप् । लोका रजांस्युच्यन्ते—निघ० ४ । १६ । रज एव रजतं, सर्वलोकमयी नगरी (हरिणी) श्यास्त्याहृत्रविभ्य इनच् । उ० २ । ४६ हृञ् हरणे—इनच्, डीप् । मत्वर्थीय-लोपः । हिरण्यमयी । प्रकाशमयी (द्यौ) द्यौः । सूर्यलोकः (सङ्घातम्) समूहम्

को प्राप्त किया, उन [असुरों] को उपसदों द्वारा ऋतुओं से निकाल दिया—दो [उपसद्] द्वारा उस लोक से, दो के द्वारा अन्तरिक्ष से और दो के द्वारा पृथिवी से [अर्थात् दो दो महीने वाले छह ऋतुओं के लिये छह उपसद् किये] । [ते ऋतुभ्यः निर्हताः संवत्सरं प्राविशन्) वे [असुर] ऋतुओं से निकाले गये होकर संवत्सर में प्रविष्ट हुये । (ते द्वादश उपायन् , तान् उपसद्भिः एव संवत्सरात् निरघ्नन् , चतसृभिः अमुष्मात् लोकात् , चतसृभिः अन्तरिक्षात् , चतसृभिः पृथिव्याः) उन [देवताओं] ने वारह [उपसदों] को प्राप्त किया, उन [असुरों] को उपसदों द्वारा ही संवत्सर से निकाल दिया—चार [उपसदों] द्वारा उस लोक से, चार के द्वारा अन्तरिक्ष से और चार के द्वारा पृथिवी से [चातुर्मास्य यज्ञ के लेखे से चार चार का ग्रहण किया है] । (ते संवत्सरा निर्हताः अहोरात्रे प्राविशन्) वे [असुर] संवत्सर से निकाले गये होकर दिन रात्रि में प्रविष्ट हुये । (ते यत् सायम् उपायन् तेन एनान् रात्र्याः अनुदन्त, यत् प्रातः, तेन अहः) उन [देवताओं] ने जो सायंकाल [के उपसद्] को प्राप्त किया, उस [कर्म] से इन [असुरों] को रात्रि से निकाल दिया, जो प्रातःकाल [उपसद् किया], उस के द्वारा दिन से [उन्हें निकाल दिया] । (तस्मात् गौः सायम्प्रातः स्तनम् आप्यायते) इस लिये गौ सायंकाल और प्रातःकाल पिन्हाती है [अर्थात् यह दोनों काल अधिक स्वास्थ्यकारक हैं] । (प्रातः सायन्तनम् तान् उपसद्भिः एव एभ्यः लोकेभ्यः नुदमानः आयन्) प्रातःकाल और सायंकाल उन [असुरों] को उपसदों [पास बैठने वा उपासना आदि क्रियाओं] के द्वारा ही इन लोकों से निकालने वाले वे [देवता] हुये हैं । (ततः देवाः असुराः परा अभवन्) इसी से देवताओं ने असुरों को हराया ।

(अनायतनाः) आश्रयरहिताः (श्यः) शोङ् स्वप्ने—क्विप् । शयिताः । निद्रिताः (प्रत्यकुर्वत) प्रतिकूलाः कृतवन्तः (हविर्धानम्) हविषः अन्नस्य यज्ञस्थान-विशेषम् (सदः) सदनस्थानम् (उपसदम्) उप + पद् लु विशरणगतिहिंसनेषु-क्विप् । समीपोपवेशनक्रियाम् । यज्ञविशेषम् (उपायाम) उप + आङ् + या गतौ—लोट् । अनुतिष्ठाम (निरघ्नन्) निःसारितवन्तः (उपायन्) उप + इण् गतौ—लङ् । सम्पादितवन्तः (संवत्सरा) विभक्तेराकारः—पा० ७ । १ । ३६ । संवत्सरात् (सायम्प्रातस्तनम्) सायं चिरप्राह्णे० । पा० ४ । ३ । २३ स्वार्थे ट्यु तुट् च । सायम्प्रातःकाले (आप्यायते) वर्धते दुग्धेन (नुदमानः) नुदमानाः प्रेरयन्तः (नुदमानः) प्रेरयन् (उपैति) अनुतिष्ठाम ॥

(सर्वेभ्यः एव एभ्यः लोकेभ्यः भातृव्यं नुदमानः पति, यः एवं विद्वान् उपसदम् उपैति) इन सभी लोकों से वैरी को निकालता हुआ वह चलता है, जो ऐसा विद्वान् होकर उपसद् [पास बैठने वा उपासना करने की क्रिया] को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस कण्डिका में असुर शब्द से भूकम्प, तारापतन आदि उत्पातों और विघ्नों की ओर संकेत है, जिनका बुरा प्रभाव स्थानों और समय पर होता है। बुद्धिमान् लोग ऐसे विघ्नों से बचने के लिये समय समय पर और साथ प्रातः परस्पर विचार करके उपाय करें ॥ ७ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० १ । २३ से मिलाओ ।

टिप्पणी २—इस कण्डिका का कुछ आधार यजुर्वेद अ० ५ । म० ८ जान पड़ता है, वह अर्थ सहित यहां दिया जाता है। (या ते अग्नेऽयःशुया तनूर्वर्षिष्ठा गह्वरे ष्ठा । उग्रं वचो अपावधीत् त्वे षं वचो अपावधीत् स्वाहा ॥ या ते अग्ने रजःशुया तनूर्वर्षिष्ठा गह्वरे ष्ठा उग्रं वचो अपावधीत् त्वे षं वचो अपावधीत् स्वाहा ॥ या ते अग्ने हरिशुया तनूर्वर्षिष्ठा गह्वरे ष्ठा उग्रं वचो अपावधीत् त्वे षं वचो अपावधीत् स्वाहा ॥) (अग्ने) हे अग्नि ! [तेजस्वी परमेश्वर] (या ते) जो तेरा (अयःशुया) सुवर्ण आदिकों में वर्तमान (तनूः) विस्तृत शरीर (वर्षिष्ठा) अत्यन्त बड़ा और (गह्वरे ष्ठा) गहरे आभ्यन्तर में ठहरा हुआ है, [उस ने] (स्वाहा) उत्तम वेदवाणी से (उग्रं वचः) भयंकर वचन को [संसार में] (अप अवधीत्) नष्ट किया है, (त्वे षं वचः) भड़कीले वचन को (अप अवधीत्) नष्ट किया है ॥ (अग्ने) हे अग्नि ! [तेजस्वी परमेश्वर] (या ते) जो तेरा (रजःशुया) लोकों में वर्तमान (तनूः) विस्तृत शरीर नष्ट किया है ॥ (अग्ने) हे अग्नि ! (या ते) जो तेरा (हरिशुया) मनुष्य आदि में वर्तमान (तनूः) विस्तृत शरीर (वर्षिष्ठा) अत्यन्त बड़ा और (गह्वरे ष्ठा) गहरे आभ्यन्तर में ठहरा हुआ है, [उस ने] (स्वाहा) उत्तम वेदवाणी से (उग्रं वचः) भयंकर वचन को [संसार में] (अप अवधीत्) नष्ट किया है, (त्वे षं वचः) भड़कीले वचन को (अप अवधीत्) नष्ट किया है ॥

कण्डिका ८ ॥

न द्वादशाग्निष्टोमस्योपसदः स्युः, अशान्ता निर्मृज्येरन् तिस्रोऽहीनस्य, उपरिष्टाद्यज्ञक्रतुर्गरीयानभिपीदेत्, यथागुर्धमारो ग्रीवा निश्रोणीयादार्तिमार्छेदत् । द्वादशार्हानस्य कुर्यान्, प्रन्यु तथैव सप्तत्वाय । तिस्रोऽग्निष्टोमस्योपसदः स्युः,

शान्ताग्निमार्गाय । ते देवा असुर्यान् इमांल्लोकानान्ववैतुमाधृष्णुवन् । तानग्निना युखेनान्ववायन्, यदग्निमनुष्टुपसदां प्रतीकानि भवन्ति । यथा क्षेत्रपतिः क्षेत्रे न्ववनयन्ति एवमेवैतदग्निना मुखेनेमांल्लोकानभिनयन्तो यन्ति । यो ह वै देवान् साध्यान् वेद, सिद्ध्यत्यस्मै । इमे वाव लोकाः, यत्साध्याः देवाः । स य एवमेतान् साध्यान्वेद, सिद्ध्यत्यस्मै सिद्ध्यत्यमुष्मै । सिद्ध्यत्यस्मात्साक्षात्, य एवं विद्वानुपसदमुपैति ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ उपसद् यज्ञों का अधिक वर्णन ॥

(अग्निष्टोमस्य द्वादश उपसदः न स्युः) अग्निष्टोम के बारह उपसद् यज्ञ [क० ७] न हों । (अहीनस्य तिस्रः अशान्ताः निमृज्येरन्) अहीन [बहुत दिनों में होने वाले वा सम्पूर्ण अङ्ग वाले यज्ञ] के तीन [उपसद्] अशान्त होकर बहकर निकल जावें । (उपरिष्ठात् गरीयान् यज्ञक्रतुः अभिषादेत्, यथा गुरुः भारः त्रीवाः निश्रोणीयात् आर्तिम् आर्छेदत्) उपरान्त अधिक भारी यज्ञ व्यवहार [अग्निष्टोम] मुर्झा जावे, जैसे भारी बोझ ओवा को पिचा देवे और पीड़ा चमकावै । (अहीनस्य द्वादश कुर्यात् प्रत्यु तथा एव सयत्वाय) अहीन यज्ञ के बारह [उपसद्] करे, प्रत्यज्ञ में वैसा ही समान प्रयत्न के लिये [होता है] । (अग्निष्टोमस्य तिस्रः उपसदः स्युः, शान्ताग्निः मार्गाय) अग्निष्टोम यज्ञ के तीन उपसद् हों, शान्त अग्नि मार्ग के लिये है । (ते देवाः असुर्यान् इमान् लोकान् अन्ववतुम् आधृष्णुवन्) वे देवता लोग असुरों के इन लोकों पर चढ़ाई करने को साहसी हुये । (तान् मुखेन अग्निना आन्ववायन् यत् अग्निम् अनुष्टुपसदां प्रतीकानि भवन्ति) उन [लोकों] पर मुखिया अग्नि के

८—(न) निषेधे (निमृज्येरन्) मृजू शाधने—वि० लि० । निर्वहेयुः (अहीनस्य) अहः खः क्रतौ । वा० पा० ४ । २ । ४२ अहन्—खप्रत्ययः समूहे । अहृष्टखारेव । पा० ६ । ४ । १४५ । टिलोपः खप्रत्यये । अथवा, ओशाक् त्यागे—क, नञ्समासः । न ह्येषु किञ्चन हीयते—गो० उ० ५ । १५ । अहर्गणसाध्य-यज्ञम् । सम्पूर्णाङ्गयज्ञम् (गरीयान्) गुरु—ईयत्तुन् । गुरुतरः (अभिषादेत्) विशीर्षो भवेत् (निश्रोणीयात्) श्राण संघाते । संहताः कुर्यात् (आर्तिम्) पीडाम् (आर्छेदत्) आ + छृदी सन्दीपने, आर्षरूपम् । आर्छेदत् । सन्दीपयेत् (प्रत्यु) (प्रत्यक्षेणैव (सयत्वाय) अशुप्रुषिलटिकणि० । उ० १ । १५१ । समान + यती प्रयत्ने—कन्, तुक् च । समानप्रयत्नत्वाय (असुर्यान्) असुर—यत् । असुर-सम्बन्धिनः (आन्ववैतुम्) आ + अनु + अव + इण् गतौ—तुमुन् । समन्तात्

द्वारा वे चढ़ गये, क्योंकि अग्नि को निरन्तर उन्नति पाने वाले यज्ञों के अवयव प्राप्त होते हैं । (यथा क्षेत्रपतिः क्षेत्रे अन्वचनयन्ति, एवम् एव एतत् मुखेन अग्निना इमान् लोकान् अभिनयन्तः यन्ति) जैसे किसान खेत में [अन्न आदि] निरन्तर पाते हैं, वैसे ही यह लोग मुखिया अग्नि के द्वारा इन लोकों को सब ओर से पाते हुये चलते हैं । (यः ह वै साध्यान् देवान् वेद, अस्मै सिध्यति) जो ही पुरुष साध्य [साधनीय श्रेष्ठ कर्मों को साधने वाले] देवों [विजयी पुरुषों] को जानता है, उस के लिये सिद्धि होती है । (इमे वाव लोकाः, यत् साध्याः देवाः) यह ही वे लोक [जन वा भुवन] हैं, जो साध्य देव हैं । (सः यः एवम् एतान् साध्यान् वेद, अस्मै सिध्यति, अमुष्मै सिध्यति) जो कोई इस प्रकार इन साध्यों [श्रेष्ठ कर्मों के साधने वालों] को जानता है, वह इस [समीप वाले पुरुष] के लिये सिद्धि पाता है और उस [दूर वाले पुरुष] के लिये सिद्धि पाता है । (अस्मात् लोकात् सिध्यति, यः एवं विद्वान् उपसदम् उपैति) वह इस लोक से सिद्धि पाता है, जो ऐसा जानकार पुरुष उपसद् यज्ञ को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—अग्निष्टोम यज्ञ और अहीन यज्ञ के उपसदों को यथावत् करने से यजमान को यथावत् सिद्धि होती है ॥ ८ ॥

कण्डिका ६ ॥

अथ यत्राह, अधर्युरग्नीदूदेवपत्नीर्व्याचक्ष्व, सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यामाह्वयेति । तदपरेण गार्हपत्यं प्राङ्मुखस्तिष्ठन्नवाग्नाग्नीध्रो देवपत्नीर्व्याचष्टे, पृथिव्यग्नेः पत्नी, वाग् वातस्य पत्नी, सेनेन्द्रस्य पत्नी, धेना वृहस्पतेः पत्नी, पथ्या पूषणः पत्नी, गायत्री वसूनां पत्नी, त्रिष्टुप् रुद्राणां पत्नी जगत्यादित्यानां पत्नी, अनुष्टुप् मित्रस्य पत्नी, विराड् वरुणस्य पत्नी, पङ्क्तिर्विष्णोः पत्नी, दीक्षा सोमस्य

प्राप्तुम् (आधृष्णुवन्) आ+अधृष्णुवन् । सर्वतोधृष्टाः साहसिनः अभवन् (अन्ववायन्) अनु+अव+आयन् । निरन्तरं प्राप्तवन्तः (अनुष्टुपसदाम्) अनु+ष्टुप समुच्छ्राये—क+षद्लृ गतौ—क्विप् । उन्नतिप्राप्तानां यज्ञानाम् (प्रतीकानि) अवयवाः (भवन्ति) प्राप्नुवन्ति (साध्यान्) साध्यं येषामस्तीति, साध्य—अर्शआद्यच् । साधनवतः । परोपकारकान् साधून् (देवान्) विजिगीषून् (लोकाः) जनाः । भुवनानि (सिध्यति) साधयति । सिद्धिं प्राप्नोति (अस्मै) समीपस्थाय पुरुषाय (अमुष्मै) दूरस्थाय पुरुषाय ॥

राज्ञः पत्नीति । अति भ्रातृव्यानारोहति, नैनं भ्रातृव्या आरोहन्ति, उपरि भ्रातृ-
व्यानारोहति, यद्वै एवं विद्वानग्नीध्रो देवपत्नीव्याचष्टे ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ आग्नीध्र द्वारा देवपत्नियों का वर्णन ॥

(अथ यत्र आह, अग्नीत् अध्वर्युः देवपत्नीः व्याचक्ष्व, सुब्रह्मण्य सुब्रह्म-
ण्यम् आह्वय इति) फिर जहां वह [ब्रह्मा] कहता है—हे अग्नीध्र [अग्नि
प्रकाशक] अध्वर्यु तू देवपत्नियों की व्याख्या कर, हे सुब्रह्मण्य ! [अच्छे प्रकार
वेद में चतुर] सुब्रह्मण्य को बुला । (तत् अपरेण गार्हपत्यं प्राङ्मुखः तिष्ठन्
अनवान् आग्नीध्रः न देवपत्नीः व्याचष्टे) वहां दूसरे [सुब्रह्मण्य] के साथ गार्ह-
पत्य अग्नि से पूर्व मुख बैठा हुआ सावधान आग्नीध्र [अग्नि प्रकाशक अध्वर्यु]
अब देवपत्नियों की व्याख्या करता है—(पृथिवी अग्नेः पत्नी) पृथिवी अग्नि
[तेजस्वी पुरुष] की पत्नी [पालनशक्ति] है, (वाक् वातस्य पत्नी) वाणी
वात [वायु समान वेग वाले पुरुष] की पत्नी है, (सेना इन्द्रस्य पत्नी) सेना
[सेनादल] इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान् पुरुष] की पत्नी है, (धेना बृहस्पतेः
पत्नी) धेना [पीने योग्य अर्थात् स्वीकार करने योग्य नीति] बृहस्पति [बड़ी
विद्याओं के स्वामी] की पत्नी है, (पथ्या पूषणः पत्नी) पथ्या [शास्त्रीय मार्ग
बताने वाली विद्या] पूषा [पोषण करने वाले पुरुष] की पत्नी है, (गायत्री
वसुनां पत्नी) गायत्री [गाने योग्य विद्या] वसुओं [निवास कराने वाले पुरुषों]
की पत्नी है, (त्रिष्टुप् रुद्राणां पत्नी) त्रिष्टुप् [तीन कर्म, उपासना और ज्ञान
से पूजी गई विद्या] रुद्रों [दुष्टों के रुलाने वाले शूरों] की पत्नी है, (जगती
आदित्यानां पत्नी) जगती [प्राप्ति योग्य विद्या] आदित्यों [अखण्डव्रती
विद्वानों] की पत्नी है, (अनुष्टुप् मित्रस्य पत्नी) अनुष्टुप् [निरन्तर स्तुति
योग्य विद्या] मित्र [सर्वहितकारक पुरुष] की पत्नी है, (विराट् वरुणस्य

६—(अग्नीत्) अग्नि + इन्धी दीप्तौ—क्विप् । अग्निप्रज्वलयिता । ऋत्विक्
(व्याचक्ष्व) चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि दर्शने च । विविधं कथय पश्य वा (सुब्रह्म-
ण्य) साध्वर्थे यत् । हे सुष्टुवेदज्ञाने साधो (अनवान्) अन जीवने—अच ।
प्राणवान् । सावधानः (न) सम्प्रति (अग्नीध्रः) अग्नि + इन्धी दीप्तौ—रक् ।
अग्निप्रदीपकः । ऋत्विक् (पत्नी) पत्युर्ना यज्ञसंयोगे । पा० ४ । १ । ३३ ।
पतिशब्दस्य इकारस्य नकारः, डीप् । पालयित्री शक्तिः (धेना) धेट् इच्च ।
उ० ३ । ११ । धेट् पाले—न, टाप् । वाक्—निघ० १ । ११ (पथ्या) धर्मपथ्यर्थ-

पत्नी) विराट् [विविध पेश्वर्य वाली विद्या] वरुण [चुनने योग्य पुरुष] की पत्नी है, (पङ्क्तिः विष्णोः पत्नी) पङ्क्ति [विस्तृत विद्या] विष्णु [कामों में स्थापक पुरुष] की पत्नी है, (दीक्षा सोमस्य राज्ञः पत्नी) दीक्षा [नियम पालन प्रतिज्ञा] सोम राजा [प्रेरक प्रतापी पुरुष] की पत्नी [पालन शक्ति] है [मिलान करो—अथ० ८ । ६ । १४] । (भ्रातृव्यान् अति आगेहति, एनं भ्रातृ-व्याः न आगेहन्ति, उपरि भ्रातृव्यान् आगेहति, यः एवं विद्वान् अग्नीध्रः देवपत्नीः स्याच्चष्टे) वह वैरियों को लांचकर चढ़ाई करता है, इस पर वैरी लोग नहीं चढ़ाई करते हैं, वह ऊपर होकर वैरियों पर चढ़ाई करता है, जो ऐसा जानकार अग्नीध्र [अग्नि प्रदात करने वाला पुरुष] देवपत्नियों की व्याख्या करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—विविध विद्याओं में चतुर पुरुष विविध विद्या वाले पुरुषों के मेल से शत्रुओं को जीतकर संसार में कीर्ति पाता है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—सङ्केतित मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है—

अग्निषोमावदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः । गायत्री त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदूर्वी यजमानाय स्वराभरन्तीम् । अथ० ८ । ६ । १४ ॥ (यज्ञस्य) यज्ञ [रसों के संयोग वियोग] के (पक्षौ) ग्रहण करने वाले (अग्नीषोमौ) सूर्य और चन्द्रमा [के समान] (ऋषयः) ऋषि लोगों ने, (या) जो [वेदवाणी] (तुरीया) वेगवती वा ब्रह्म की [जो सत्त्व रज और तम तीन गुणों से परे चौथा है] (आसीत्) थी, (यजमानाय) यजमान के लिये (स्वः) मोक्ष सुख (आभरन्तीम्) भर देने वाली [उस] (गायत्रीम्) गाने योग्य, (त्रिष्टुभम्) [कर्म, उपासना और ज्ञान इन] तीन से पूजी गयी (जगतीम्) प्राप्ति योग्य, (बृहदूर्वीम्) बड़े सत्कार वाली (अनुष्टुभम्) निर-

न्यायादनपेते । पा० ४ । ४ । ६२ । पथिन्—यत् । शास्त्रायमार्गवती वेदवाणी (गायत्री) गै गाने—अत्रन्—ङीप् । गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः—निरु० ७ । १२ । गानयोग्या (त्रिष्टुप्) त्रि + ष्टुभ पूजायाम्—क्विप् । स्तोमतिर्चतिकर्मा—निघ० ३ । १४ । त्रिभिः कर्मोपासनाजानैः पूजिता (जगती) गम्लु गतौ—अति, ङीप् । जगती गानाम—निघ० २ । ११ । गम्यमाना प्रातव्या (अनुष्टुप्) अनु + ष्टुभ पूजायाम्—क्विप् । वाक्—निघ० १ । ११ निरन्तरस्तुत्या (विराट्) विविधेश्वरी (पङ्क्तिः) पत्रि विस्तारे—क्तिन् । विस्तृता (सोमस्य) प्रेरकस्य (राज्ञः) पेश्वर्ययुक्तस्य (अति) अतीत्य । उल्लङ्घ्य (न) निषेधे ॥

न्तर स्तुति योग्य [विराट् वा वेदवाणी] को (कल्पयन्तः) समर्थन करते हुये (अद्घुः) धारण किया है ॥

कण्डिका १० ॥

यथा वै रथ एकैकमरमभिप्रतितिष्ठन् वर्तते, एवं यज्ञ एकैकां तन्वमभिप्रतितिष्ठन्नेति । पुरा प्रचरितोराग्नीधीये होतव्या एतद्ध वा उवाच वासिष्ठः सात्यहव्यः, अस्कं सोम इत्युक्ते मा सूर्जत प्रचरत प्रातर्वावाद्याहं सोमं संस्थापयामीति । नास्य सोम स्कन्दति, य एवं विद्वान्त् सोमं पिबति, स ह स्य वसैहासन्द्यामासीनः सक्तुभिरुपमथ्य सोमं पिबति, अहं वाव सर्वतो यज्ञं वेद, य एतान् वेद, नृमामेष हिंसिष्यतीति । नैनं सोमपीथो ऽनपेयो हिनस्ति, य एवं विद्वान्त्सोमं पिबति । तं ह स्य यदाहुः, कस्मात्त्वमिदमासन्द्यामासीनः सक्तुभिरुपमथ्य सोमं पिबसीति । देवतास्वेव यज्ञं प्रतिष्ठापयामीति अब्रवीद् ब्राह्मणः । यस्यैवं विदुषो यस्यैवं विद्वान् यज्ञार्तान् यज्ञे प्रायश्चित्तं जुहोति, देवतास्वेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति । यज्ञार्त्तिं प्रतिजुहयात्, सयोनित्वाय । त्रयस्त्रिंशद्भै यज्ञस्य तन्व इति, एकात्रिंशत्स्तोमभागाः, त्रीणि सवनानि, यज्ञश्चतुर्थः, स्तोमभागैरेवैतत् स्तोमभागान् प्रति प्रयुङ्क्ते, सवनैः सवनानि, यज्ञेन यज्ञं, सर्वा ह वा अस्य यज्ञस्य तन्वः प्रयुक्ता भवन्ति, सर्वा आप्ताः सर्वा अवरुद्धा देवस्य सवितुः प्रसवे वृहस्पतये स्तुतेति । यद्यद्भै सविता देवेभ्यः प्रासुवत् तेनार्धुवन्, सवितृप्रसूता एव स्तुवन्, पृधुवन्, पृध्यन्ते ह वा अस्य स्तोमाः, यज्ञ ऋध्यते, यजमान ऋध्यते, प्रजाया ऋध्यते, पशुभ्य ऋध्यते, ब्रह्मणे यस्यैवं विद्वान् ब्रह्मा भवति ॥ १० ॥

कण्डिका १० ॥ यज्ञ में सोमपान की महिमा ॥

(यथा वै रथः एकैकम् अरम् अभिप्रतितिष्ठन् वर्तते, एवं यज्ञः एकैकां तन्वम् अभिप्रतितिष्ठन् एति) जैसे रथ [रथ का पहिया] एक एक अरे [दण्डे] में जुटा हुआ घूमता है, वैसे ही यज्ञ एक एक अंग में जुटा हुआ चलता है । (पुरा प्रचरितोः आग्नीधीये होतव्याः, एतत् ह वै वासिष्ठः सात्यहव्यः उवाच) पहिले प्रचार के लिये आग्नीध्र [अग्नि मण्डप] में हवन होने चाहिये—यह ही अवश्य वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सात्यहव्य [सत्यहव्य अर्थात् सत्य ग्रहण करने वाले के पुत्र, मुनि विशेष] ने कहा है । (सोमः अस्कन्,

१०—(रथः) रथचक्रः (अरम्) ऋ गतौ—अच् । चक्रस्य नाभिनेम्योर्मध्यस्थं काष्ठम् (तन्वम्) देहम् । अङ्गम् (प्रचरितोः) भावलक्षणे स्थेण्कुञ्

इति उक्ते मा सूर्जत, प्रचरत, प्रातः अद्य वाव अहं सोमं स्थापयामि इति) सोम न सूखा हुआ [हरा भरा] है—ऐसे कहे जाने पर, मत अनादर करो, सेवा करो, प्रातःकाल आज ही मैं सोम को स्थापित करता हूँ [ऐसा यजमान कहता है] । (अस्य सोमः न स्कन्दति यः एवं विद्वान् सोमं पिबति) उस का सोम-रस नहीं सूखता है, जो ऐसा विद्वान् होकर सोम रस पीता है, (सः ह स्म वसै ह आसन्द्याम् आसीनः सक्तुभिः उपमथ्य सोमं पिबति) वह ही पुरुष निवास करने के लिये ही आसन्दी [सिंहासन] पर बैठा हुआ सक्तुओं [अन्न] के साथ मथकर सोम पीता है । (अहं वाव सर्वतः यज्ञं वेद, यः एतान् वेद, न माम् एषः हिंसिष्यति इति) मैं निश्चय करके सब प्रकार यज्ञ [देवपूजा, संगतिकरण और दान] को जानता हूँ, जो मैं इन [व्यवहारों] को जानता हूँ उस मुझ को यह [सोम] नहीं मारेगा [यह यजमान कहता है] । (अनपेयः सोमपीथः एनं न हिनस्ति यः एवं विद्वान् सोमं पिबति) सब प्रकार पीने योग्य सोमरस पान उस को नहीं मारता है, जो ऐसा विद्वान् सोमरस पीता है ॥

(तं ह स्म यत् आहुः, कस्मात् त्वम् इदम् आसन्द्याम् आसीनः सक्तुभिः उपमथ्य सोमं पिबसि इति) उस से जो कहते हैं—किस लिये तू अब सिंहासन पर बैठा हुआ सक्तुओं के साथ मथकर सोमरस पीता है । (देवतासु एव यज्ञं प्रतिष्ठापयामि इति ब्राह्मणः अत्रवीत्) देवताओं में ही यज्ञ को स्थापित करता हूँ—यह ब्राह्मण [ब्रह्मा] कहता है । (यस्य यस्य एवं विदुषः यज्ञे एवं विद्वान् यज्ञार्तान् प्रायश्चित्तं जुहोति, देवतासु एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति) जिस जिस ऐसे विद्वान् के यज्ञ में ऐसा विद्वान् [ब्रह्मा] यज्ञ में पीड़ित पुरुषों के लिये प्रायश्चित्त हवन करता है, वह देवताओं में ही यज्ञ को स्थापित करता है । (यज्ञार्तिं सयोनित्वाय प्रति जुहुयात्) यज्ञार्ति [यज्ञ पीड़ा वा प्रायश्चित्त] को

वदि चरि० । पा० ३ । ४ । १६ प्र+चर गतौ—तोसुन् । प्रचरितुम् । प्रचरणाय (आग्नीध्रीये) गो० पू० १ । २३ । स्वार्थे—ङ् । हेतुर्गृहे (वासिष्ठः) वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्नः (सात्यहव्यः) सत्यं हव्यं ग्राह्यं यस्य स सातहव्यः । सत्यहव्यस्यपुत्रः । मुनिविशेषः (अस्क=अस्कन्) अ+स्कदिर् गतिशोषयोः—क्त । आर्षरूपम् । अस्कन्नः । अशुष्कः । सुपुष्टः (सूर्जत) सूर्ज आदरानादरयोः—लोट् । अनादरं कुरुत (स्कन्दति) गुप्यते (वसै) प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै पा० ३ । ४ । १० । वस निवासे—कै तुमर्थे । वसितुम् । निवासाय (आसन्द्याम्) आसम् आसनं ददातीति आसन्दी, आसु उपवेशने—क्विप्+दधातेः—ङ् डीप् । सिंहासने

समान घर प्राप्ति के लिये मनुष्य करता रहे । (त्रयस्त्रिंशत् वै यज्ञस्य तन्वः इति, एकान्नत्रिंशत् स्तोमभागाः, त्रीणि सवनानि, यज्ञः चतुर्थः) तेतीस [ऋक्सु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ वाणी, १ स्वर—गो० ब्रा० उ० २ । १३ यह ३३ देवता] ही यज्ञ के अङ्ग हैं—उनतीस स्तोम भाग [?], तीन [प्रातःसवन माध्यन्दिन सवन तृतीय सवन—गो० पू० ४ । ७] सवन हैं, और यज्ञ चौथा है । (स्तोम-भागैः एव स्तोमभागान् प्रयुङ्क्ते, सवनैः सवनानि, यज्ञेन यज्ञम्) यह [ब्रह्मा] स्तोमभागों के साथ स्तोम भागों को प्रयोग में लाता है, सवनों के साथ सवनों को, यज्ञ के साथ यज्ञ को । (सर्वाः ह वै अस्य यज्ञस्य तन्वः प्रयुक्ताः भवन्ति, सर्वाः प्राप्ताः सर्वाः अवरुद्धाः, देवस्य सवितुः प्रसवे बृहस्पतये स्तुत इति) सब ही इन के यज्ञ के अङ्ग प्रयोग में लाये जाते हैं, सब ही प्राप्त किये हुये, सब रक्षा किये हुये—[देवस्य सवितुः प्रसवे] सब के प्रकाशक और उत्पादक परमेश्वर के उत्पन्न किये संसार में [देखो यजु० १ । १०] और [बृहस्पतये स्तुत] सब विद्याओं के स्वामी परमात्मा के लिये स्तुति करो, [इन दो को वह पढ़ना है] । (यत् यत् वै सविता देवेभ्यः प्रासुवत् तेन आर्धुवन् सवितृप्रसूताः एव स्तुवन् पृधुवन्) जो जो ही सविता [सर्वजनक परमात्मा] ने विद्वानों के लिये प्रेरणा की है, उस से वे बढ़े हैं, परमात्मा से प्रेरण किये हुये ही वे स्तुति करते हुये बढ़े हैं । (अस्य वै स्तोमाः पृध्यन्ते, यज्ञः ऋध्यते, यजमानः ऋध्यते, प्रजायै ऋध्यते, पशुभ्यः ऋध्यते, ब्रह्मणे, यस्य एवं विद्वान् ब्रह्मा भवति) उस पुरुष के स्तोम [स्तुति योग्य व्यवहार] बढ़ते हैं, यज्ञ बढ़ता है [श्रीमान् होता है], यजमान बढ़ता है, प्रजा के लिये बढ़ता है, पशुओं के लिये बढ़ता है, और अन्न वा धन के लिये [बढ़ता है] जिस का ऐसा विद्वान् [जानकार] ब्रह्मा होता है ॥१०॥

(सोमपीथः) निशीथ गोपीथावगथाः । उ० २ । ६ । पा पाने रक्षणे वा—थक् । सोमरसपाने (अनपेयः) नास्ति अपेयः । सर्वतः पानयोग्यः (यज्ञार्तान्) यज्ञपीडितान् (प्रतिजुह्यात्) प्रत्यक्षेण जुहुयात् (सयोनित्वाय) समानगृहत्वाय (त्रयस्त्रिंशत्) वसुहृद्रादित्य वाक्स्वरास्त्रयस्त्रिंशद् देवाः—गो० ब्रा० उ० २ । १३ (एकान्नत्रिंशत्) एकादिश्चैकस्य चादुक् । पा० ६ । ३ । ७६ । एक + न + त्रिंशत्, एकस्य अदुगागमः, दस्य नः । एकोनत्रिंशत् (प्राप्ताः) प्राप्ताः (अवरुद्धाः) रक्षिताः (आर्धुवन्) आर्धुवन् (स्तुवन्) स्तुतवन्तः (पृधुवन्) आर्षरूपम् । ऋधुवन् । आर्धुवन् । प्रवृद्धाः अभवन् (पृध्यन्ते) ऋध्यन्ते । वर्धन्ते (ब्रह्मणे) ब्रह्म, अन्ननाम—निघ० २ । ७ । धननाम—निघ० २ । १० । अन्नाय । धनाय ॥

भावार्थ—यजमान ब्रह्मा की सम्मति से यज्ञ के सब अङ्गों को यथाविधि पूरा करके ससार में समृद्ध होवे ॥ १० ॥

टिप्पणी—सङ्केतित मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता है—

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूषो हस्ताभ्याम् । अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्निषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि—यज० १ । १० [हे यज्ञ] (देवस्य) सब जगत् के प्रकाशक, (सवितुः) सब जगत् के उत्पादक परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुये संसार में (अश्विनोः) सूर्य और चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्) बल और वीर्य से तथा (पूषोः) पुष्टि करने वाले प्राण के (हस्ताभ्याम्) ग्रहण और त्याग से (अग्नये) अग्नि विद्या की सिद्धि के लिये (जुष्टम्) सेवा किये गये (त्वा) तुझ को (गृह्णामि) स्वीकार करता हूँ । (अग्नीषोमाभ्याम्) अग्नि और जल का विद्या करके (जुष्टम्) सेवा किये [तुझ] को (गृह्णामि) स्वीकार करता हूँ ॥

कण्डिका ११ ॥

देवाश्च ह वा असुराश्चास्पर्द्धन्त, ते देवाः समावदेवा यज्ञे कुर्वाणा आसन्, यदेव देवा अकुर्वन्त, तदसुरा अकुर्वन्त, तेन व्यावृत्तमगच्छन् । ते देवा अब्रुवन्, नयतेमं यज्ञं तिर उपर्य्यसुरेभ्यस्तेऽस्यामहै इति । तमेनाभिराच्छाद्यो-दक्रामन्ति, यजूंषि यज्ञे समिधः स्वाहेति । तन्तिर उपर्य्यसुरेभ्यो यज्ञमतन्वन्त, तमेपां यज्ञमसुराणां न्ववाय्, ततो न देवा अभवन् पगसुराः । स य एव विद्वांस्तिर उपर्य्यसुरेभ्यो यज्ञं तनुते, भवत्यात्मना परास्याप्रियो भ्रातृव्यो भवति । एतैरेव जुहुयात्स वृतयज्ञे चतुर्भिश्चतुर्भिरन्वाख्यानं पुरस्तात् प्रातरनुवाकस्य जुहुयात्, एतावान् वै यज्ञः यावानेष यज्ञस्तं वृङ्क्ते, स यज्ञो भवति, अयज्ञ इतरः । एतैरेव जुहुयात्, पुरस्ताद् द्वादशाहस्य । एष ह वै प्रत्यक्षं द्वादशाहः, तमेव आलभ्य एतैरेव जुहुयात्, पुरस्ताद् दीक्षायाः । एषा ह वै प्रत्यक्षं दीक्षा, तामेवालभ्यैतैरेवातिथ्यमभिमृशेत्, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा इति ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ देवताओं ने यज्ञ द्वारा असुरों पर विजय पाया ॥

(देवाः च ह वै असुराः च अस्पर्द्धन्त) देवता [विद्वान् लोग] और असुर [अविद्वान्] लड़ने लगे । (ते समावदेवाः देवाः यज्ञे कुर्वाणाः आसन्,

११—(देवाः) विद्वांसः (असुराः) अविद्वांसः (समावदेवाः) सम+अव+दिवु विजिगीषायाम्—अच् । समानविजिगीषवः (व्यावृत्तम्) निवा-

यत् एव देवाः अकुर्वन्, तत् असुराः अकुर्वन्, तेन व्यावृत्तम् अगच्छन्) वै समान विजय चाहने वाले देवता यज्ञ में कर्म करते हुये थे, जो ही [यज्ञ कर्म] देवता करते थे, वह [यज्ञ कर्म] असुर करते थे, उस से वे [देवता] रुकावट को प्राप्त हुये । (ते देवाः अब्रुवन्, इमं यज्ञं तिरः नयत, असुरेभ्यः उपरि ते अस्यामहै इति) वे देवता [आपस में] बोले—इस यज्ञ को छिपाकर चलाओ, असुरों से ऊपर होकर वे हम [उन को] गिरावें । (तम् आच्छाद्य एताभिः उदक्रामन्ति, यजूंषि यज्ञे समिधः स्वाहा इति) उस [यज्ञ] को छिपा कर इन [ऋचाओं] से उन्होंने ने चढ़ाई की—(यजूंषि) पूजनीय कर्मों और (समिधः) विद्या आदि प्रकाश क्रियाओं को (यज्ञे) संगति व्यवहार में (स्वाहा) उत्तम वाणी से…… [अथर्व० ५ । २६ के १२ मन्त्रों की यह प्रतीक है] । (तं यज्ञं तिरः असुरेभ्यः उपरि अतन्वत, एषाम् असुराणां तं यज्ञं नु अवाय्, ततः देवाः न परा अभवन्, असुराः) उस [अपने] यज्ञ को छिपाकर असुरों से ऊपर होकर उन्होंने ने विस्तृत किया, और इन असुरों के उस यज्ञ को निःसन्देह सुखा दिया, उस से देवता न हारे और असुर [हार गये] । (सः यः एवं विद्वान् असुरेभ्यः उपरि यज्ञं तिरः तनुते, अस्य अप्रियः भ्रातृव्यः आत्मना परा भवति भवति) जो कोई ऐसा विद्वान् असुरों से ऊपर होकर यज्ञ को छिपा कर [गुप्त रीति से विचार कर] विस्तृत करता है, उस का कुप्रिय वैरी आत्मबल से हार जाता है, हार जाता है । (सः एतैः एव जुहुयात्, वृत्तयज्ञे चतुर्भिः चतुर्भिः अन्वाख्यानं प्रातरनुवाकस्य पुरस्तात् जुहुयात्) वह इन [बारह मन्त्रों] से ही यज्ञ करे और स्वीकार किये हुये यज्ञ में चार चार [मन्त्रों] से व्याख्यान के अनुसार प्रातरनुवाक यज्ञ के पहिले यज्ञ करे । (एतावान् वै यज्ञः, यावान् एषः यज्ञः तं वृङ्क्ते सः यज्ञः भवति इतरः अयज्ञः) इतना ही यज्ञ है जितना यह यज्ञ उस [शत्रु] को रोकता है, यह यज्ञ होता है और दूसरा [असुरों का] कुयज्ञ । (एतैः एव द्वादशाहस्य पुरस्तात् जुहुयात्) इन ही [बारह] से द्वादशाह

रणम् (तिरः) तिरोहित्य । आच्छाद्य (उपरि) उपरि सन्तः (अस्यामहै) असु क्षेपणे—लोट् । अस्याम, क्षिपाम (उदक्रामन्ति) आर्षम् । उदक्रामन् (एताभिः) वक्ष्यमाणाभिः ऋग्भिः (नु) अवधारणे (अवाय्) वै शोषे—लङ् । आर्षरूपम् । अवायन् । शोषितवन्तः । नाशितवन्तः (अन्वाख्यानम्) आख्यानं व्याख्यान-मनुसृत्य (वृङ्क्ते) वृजी वर्जने । वर्जयामि (आलभ्य) प्राप्य (आतिथ्यम्) अतिथिसत्कारम् (अभिमृशेत्) विचारयेत् ॥

[वारह दिन वाले यज्ञ] के पहिले यज्ञ करे । (एषः ह वै प्रत्यक्षं द्वादशाहः तम् एव आलभ्य एतैः एव दीक्षायाः पुरस्तात् जुहुयात्) यह ही प्रत्यक्ष द्वादशाह [वारह दिन वाला यज्ञ] है, उस को ही प्राप्त होकर इन [वारह मन्त्रों] से ही दीक्षा [नयम व्रत धारण] के पहिले यज्ञ करे । (एषा ह वै प्रत्यक्षं दीक्षा, ताम् एव आलभ्य एतैः एव आतिथ्यम् अभिमृशेत्, यज्ञेन यज्ञं अयजन्त देवाः इति) यह ही प्रत्यक्ष दीक्षा है, उस [दीक्षा] को ही प्राप्त होकर इन [आगे के पांच मन्त्रों] से आतिथ्य [अतिथि स्तुकार] को विचारे—(देवाः) विद्वानों ने (यज्ञेन) अपने पूजनीय कर्म से (यज्ञम्) पूजनीय परमात्मा को (अयजन्त) पूजा है.....[अथर्व० ७ । ५ के पांच मन्त्रों की यह प्रतीक है] ॥ ११ ॥

भावार्थ—जो नीतिकुशल मनुष्य अपने कर्तव्यों को शत्रुओं से गुप्त रखकर करते रहते हैं, वे युद्ध में जीत पाते हैं ॥ ११ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्रों में से एक एक मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है शेष वेद में देखो ।

१—यजू^१पि युज्ञे समिधः स्वाहाग्निः प्रविद्वानिह वो युनक्तु । अथ० । ५ । २६ । १ । (प्रविद्वान्) बड़ा विद्वान् (अग्निः) तेजस्वी पुरुष (इह) यहाँ (युज्ञे) संगति में (यजूंषी) पूजनीय कर्मों और (समिधः) विद्यादि प्रकाश क्रियाओं को (वः) तुम्हारे लिये (स्वाहा) उत्तम वाणी से (युनक्तु) उपयुक्त करे ॥

२—यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ अथ० ७ । ५ । १ । यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१ । १६४ । ५०, १० । ६० । १६, यजु० ३१ । १६, ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका पृष्ठ १२६ और निरुक्त १२ । ४१ में भी है ॥ (देवाः) विद्वानों ने (यज्ञेन) अपने पूजनीय कर्म से (यज्ञम्) पूजनीय परमात्मा को (अयजन्त) पूजा है, (तानि) वे [उनके] (धर्माणि) धारण योग्य ब्रह्मचर्य आदि धर्म (प्रथमानि) मुख्य, प्रथम कर्तव्य (आसन्) थे । (ते) उन (महिमानः) महा-पुरुषों ने (ह) ही (नाकम्) दुःख रहित परमेश्वर को (सचन्त) पाया है, (यत्र) जिस परमेश्वर में रहकर (पूर्वे) पहिले बड़े बड़े (साध्याः) साधनीय श्रेष्ठ कर्मों के साधने वाले लोग (देवाः) देवता अर्थात् विजयी (सन्ति) होते हैं ॥

कण्डिका १२ ॥

यत्र विजानाति, ब्रह्मन्सोमोऽस्कन्निति । तमेतयालभ्याभिमन्त्रयते, अभू-
देवः सविता वन्द्योऽनूनः इदानीमन्ह उपवाच्यो नृभिः, वि यो रत्ना भजति
मानवेभ्यः श्रेष्ठो अत्र द्रविणं यथा दधदिति । ये अग्नयो अप्स्वन्तरिति सप्त-
भिरभिजुहोति । यदेवास्यावस्कन्नं भवति, तदेवास्यैतदग्नौ स्वगाकरोति ।
अग्निर्हि सुकृतीनां हविषां प्रतिष्ठा । अथ विसृप्य वैप्रुषान् होमान् जुहति, द्रप्स-
श्चस्कन्देति । या एवास्याभिषूयमाणस्य विप्रुषः स्कन्दन्ति, अंशुर्वा ता एवास्यैत-
दाहवनीये स्वगाकरोति । आहवनीयो ह्याहुतीनां प्रतिष्ठा । यस्ते द्रप्स स्कन्द-
तीति, स्तोको वै द्रप्सः । यस्ते अंशुर्बाहुच्युता धिषणाया उपस्थादिति, बाहुभि-
रभिच्युतोऽंशुरधिषवणाभ्यामधिस्कन्दन्ति । अध्वर्योर्वापर्षः पवित्रात्तन्ते जुहोमि
मनसा वषट्कृतमिति, तद्यथा, वषट्कृतं स्वाहाकृतं हुनमेवं भवति ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ सोम यज्ञ का वर्णन ॥

(यत्र विजानाति, ब्रह्मन् सोमः अस्कन् इति) जहां [यज्ञ में] वह
[यजमान] जान लेवे [वह कहे]—हे ब्रह्मन् [ब्रह्मा] सोम [अमृतरस] न
गिर जावे । (तम् एतया आलभ्य अभिमन्त्रयते) उस [सोम] को इस [पूर्वोक्त
ब्राह्मण ऋचा] से प्राप्त करके मन्त्र कहे, (देवः सविता वन्द्यः अभूत्, अनूनः
इदानीं नृभिः अन्हः उपवाच्यः) प्रकाशमान लोकप्रेरक सूर्य [के समान पर-
मात्मा] वन्दना योग्य है, वह न्यूनता रहित [सूर्य] अब मनुष्यों करके दिन
का नाम है [इस ब्राह्मण मन्त्र से], (यः रत्ना मानवेभ्यः यथा विभजति, श्रेष्ठं
द्रविणं नः अत्र दधत् इति) जो [परमात्मा] रत्नों का मनुष्यों के लिये जैसे
बांटता है, [वैसे ही] हमारे लिये यहां श्रेष्ठ धन देवे यह ब्राह्मण मन्त्र बोले ।
(ये अग्नयः अप्सु अन्तः इति सप्तभिः अभिजुहोति) जो अग्नियों [ईश्वर के
तेज] जल के भीतर हैं [अथ० ३ । २१ । १—७]—इन सात [मन्त्रों] से वह

१२—(ब्रह्मन्) हे चतुर्वेदवित् (अस्कन्) अस्कन्नः । अनधःपतितां
भवेत् । (देवः) प्रकाशमानः (सविता) लोकप्रेरकः सूर्य इव परमात्मा (अनूनः)
न्यूनतरहितः । परिपूर्णः (उपवाच्यः) प्रतिपाद्यः (वि भजति) विभज्य ददाति
(द्रविणम्) धनम् (अग्नयः) ईश्वरतेजांसि (अप्सु) जलेषु (अवस्कन्नम्)
अवगतम् । ज्ञातम् (स्वगाकरोति) स्वग, स्वगि सर्पणे—अच् । सुखप्रियादानु-
लाम्ये । पा० ५ । ४ । ६३ । स्वगशब्दात् क्रिञो योगे—डाच् बाहुलकात् आनु-

यज्ञ करे । (यन् एव अस्य अवस्कन्नं भवति, तत् एतत् एव अस्य अग्नौ स्वगा-
करोति) जो ही इस [सोम रस] का अङ्ग जाना गया होता है, वह यह ही
इस का [अङ्ग] अग्नि में गमन करता है । (हि अग्निः सुकृतीनां हविषां प्रति-
ष्ठा) क्योंकि अग्नि पुण्य कर्मों की और ग्रहण करने योग्य व्यवहारों की प्रतिष्ठा
[ठहरने का ठिकाना] है । (अथ विसृप्य वैप्रुषान् होमान् जुहति, द्रप्सः
चस्कन्द इति) फिर सरककर विविध पूर्णियुक्त ब्राह्मणव्यवहारों को वे [यज्ञ
करने वाले] ग्रहण करते हैं—हर्षकारी परमात्मा व्यापक है [अथर्व० १८ । ४ ।
२८ । यह मन्त्र पढ़ कर], (यः एव अस्य अभिपूयमाणस्य विप्रुषः स्कन्दन्ति,
अंशुः वा, ताः एव अस्य एतन् आहवनीये स्वगाकरोति) जो ही इस निचोड़े
जाते हुये [सोम] की विविध पूर्ति क्रियायें अथवा अंश व्यापक हैं, वे ही इसके
अव आहवनीय [अग्नि] में गमन करते हैं, (हि आहवनीयः आहुतीनां प्रतिष्ठा)
क्योंकि आहवनीय [अग्नि] आहुतियों [देने लेने की क्रियाओं] की प्रतिष्ठा
[ठहरने का स्थान] है । (यः ते द्रप्सः स्कन्दति इति, स्तोकः वै द्रप्सः) जो
तेरा हर्षकारी व्यवहार व्यापक है [यजु० ७ । २६—यह मन्त्र पढ़ता है]—प्रसन्न
करने वाला सूक्ष्म विषय ही हर्ष व्यवहार है । (यः ते अंशुः बाहुच्युतः धिप-
णायाः उपस्थात् इति, बाहुभिः अभिच्युतः अंशुः अधिषवणाभ्याम् अधिस्क-
न्दन्ति) जो तेरा अंश [हमारे] भुजाओं पर गिरा हुआ प्रकाश वा भूमि की
गाद से व्यापक है [उसी मन्त्र का भाग भेद से]—बाहुओं द्वारा प्राप्त हुआ
अंश दोनों [अमृत के] निचोड़ स्थानों [प्रकाश और भूमि] से ऊपर व्यापक

लोम्ये । स्वगं सर्पणं व्यापनं करोति (सुकृतीनाम्) पुण्यकर्मणाम् (हविषाम्)
ब्राह्मणव्यवहाराणाम् (प्रतिष्ठा) स्थितिस्थानम् (वैप्रुषान्) विप्रुप्—अण् ।
विविधपूर्णियुक्तान् (होमान्) ब्राह्मणव्यवहारान् (जुहति) गृह्णन्ति (द्रप्सः)
वृहवदिवचि० । उ० ३ । ६२ । दृष हर्षमोहनयोः—सप्रत्ययः । हर्षकारी परमात्मा
(चस्कन्द) स्कन्दिर् गतिशोपणयोः—लिट् । स्कन्दति । गच्छति । व्याप्नोति
(विप्रुषः) वि + प्रुष स्नेहनसेचनपूरणेषु—क्विप् । विविधपूर्तयः (स्कन्दन्ति)
व्याप्नुवन्ति (अंशुः) विभागः (स्वगाकरोति) स्वगाकुर्वन्ति । व्यापनं कुर्वन्ति
(आहुतीनाम्) दानादानक्रियाणाम् (स्तोकः) ष्टुच प्रसादे दीप्तौ च—घञ् ।
प्रसन्नकरः । दीप्यमानः । सूक्ष्मविषयः (धिपणायाः) धृषेर्धिष च संज्ञायाम् ।
उ० २ । ८२ । अि धृषा प्रागल्भ्ये—क्यु, धिषादेशः, यद्वा धिषि धारणे—क्यु ।
धिषणे द्यावापृथिवीनाम्—निघ० ३ । ३० । प्रकाशस्य भूमेर्वा (अधिषवणा-

होता है। (अध्वर्योः वा पर्पः, पवित्रात् ते मनसा वषट्कृतं तं जुहोमि इति) और जो यज्ञ करने वाले का पालन व्यवहार है, शुद्ध व्यवहार से तेरी प्राप्ति के लिये मनन के साथ प्राप्त किये हुये उस को मैं ग्रहण करता हूँ—[यह बोलता है]। (तत् यथा वषट्कृतम्, एवं स्वाहाकृतं हुतं भवति) सो जैसे वषट्कृत [प्राप्त किया हुआ कर्म] होता है, उसी प्रकार स्वाहाकृत [सत्यवाणी से किया हुआ] यज्ञ होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे ऋत्विज लोग सोम यज्ञ को विधानपूर्वक करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य अपने कर्तव्य को विचारपूर्वक करें ॥ १२ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्रों में से एक एक अर्थ सहित लिखे जाते हैं, शेष मन्त्र वेद में देखें—

१—ये अग्नयो अपस्व१न्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु । ये आविवेशोषधीर्यो वनस्पतींस्तेभ्यो अग्निभ्यो हृतमस्त्वेतत् । अथ० ३। २१। १। (ये) जो (अग्नयः) अग्नियें [ईश्वर के तेज] (अप्सु अन्तः) जल के भीतर (ये) जो (वृत्रे) मेघ में (ये) जो (पुरुषे) पुरुष [मनुष्य शरीर] में और (ये) जो (अश्मसु) शिलाओं में हैं। (यः) जिस [अग्नि] ने (औषधीः) औषधियों [अन्न सोमलता आदि] में और (यः) जिस ने (वनस्पतीन्) वनस्पतियों [वृक्ष आदि] में (आविवेश) प्रवेश किया है, (तेभ्यः) उन (अग्निभ्यः) अग्नियों [ईश्वर तेजों] को (पतत्) यह (हुतम्) दान [आत्म-समर्पण] (अस्तु) होवे ॥

२—द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु घामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः । समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः । अथ० १८। ४। २८, यजु० १३। ५, भेद से ऋ० १०। १७। ११। (द्रप्सः) हर्षकारक परमात्मा (पृथिवीम्) पृथिवी और (घाम् अनु) प्रकाश में (च) और (इमम्) इस (योनिम् अनु) घर [शरीर] में (च) और [उस शरीर में भी] (चस्कन्द) व्यापक है (यः) जो [शरीर] (पूर्वः) पहिला है। (समानम्) सर्वसाधारण] (योनिम् अनु)

भ्याम्) सोमस्य अमृतस्य निष्पीडनस्थानाभ्यां । घावापृथिवीभ्याम् (पर्पः) खण्डशिल्पशष्प० । ३० ३। २८ । पृ पालनपूरणयोः—पप्रत्ययः । पालनव्यवहारः (पवित्रात्) शुद्धव्यवहारात् (जुहोमि) गृह्णामि (वषट्कृतम्) वहनेन कृतम् (स्वाहाकृतम्) सत्यवाण्या कृतम् ॥

कारण में (संचरन्तम्) विचरते हुये (द्रप्सम्) हर्षकारक परमात्मा को (सप्त) सात [मस्तक के सात गोलक] (होत्राः अनु) विषय ग्रहण करने वाली शक्तियों के साथ (जुहोमि) मैं ग्रहण करता हूँ ॥

३—(यस्ते द्रप्स स्कन्दति—इत्यादि) यजुर्वेद ७ । २६ के भाग कुछ भेद से यहां दिये हैं, वह मन्त्र यह है । (यस्ते द्रप्स स्कन्दति यस्ते अशुशुर्वावच्युतो धिषण्योरुपस्थात् । अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा वपद्कृतश्च स्वाहा । देवानामुत्क्रमणमसि) [हे ईश्वर !] (यः ते द्रप्सः) जो तेरा हर्षकारक व्यवहार [सर्वत्र] (स्कन्दति) व्यापक है, और (यः ते अंशुः) जो तेरा विभाग (धिषणयोः) प्रकाश और भूमि की (उपस्थात्) गोद से (आवच्युतः) मेघमण्डल में छूटा हुआ [व्यापक है], (वा वा) अथवा (यः) जो [विभाग] (अध्वर्योः) यज्ञ करने वाले के (पवित्रात्) शुद्ध व्यवहार से (परि) सब ओर [व्यापक है], (मनसा) विचार के साथ और (स्वाहा) सत्यवाणी के साथ (वपद्कृतम्) प्राप्त किये हुये (तम्) उस [विभाग] को (ते) तेरी प्राप्ति के लिये (जुहोमि) मैं ग्रहण करता हूँ (देवानाम् उत्क्रमणम् असि) [हे परमात्मन् !] तू विद्वानों के ऊंचे चढ़ने का साधन है ॥

कण्डिका १३ ॥

ऋषयो वा इन्द्रं प्रत्यक्षं नापश्यन् । तं वसिष्ठ एव प्रत्यक्षमपश्यत् । सोऽविभेत्, इतरेभ्य ऋषिभ्यो मा प्रवोचदिति । सोऽब्रवीत्, ब्राह्मणन्ते वक्ष्यामि, यथा त्वत्पुरोहिताः प्रजाः प्रजनयिष्यन्ते, अथेतरेभ्य ऋषिभ्यो मा प्रवोचदिति । तस्मा एतान् स्तोमभागानुवाच । ततो वसिष्ठपुरोहिताः प्रजाः प्रजायन्त । स्तोमो वा एतेषां भागः, तत् स्तोमभागानां स्तोमभागयज्ञं प्राह । प्रेतिरसि धर्मणे त्वेति, धर्मो मनुष्याः, मनुष्येभ्य एव यज्ञं प्राह । अनितिरसि सन्धिरसि प्रतिधिरसीति, त्रयो वै लोकाः लोकेष्वेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति । विष्टम्भोऽस्मीति, वृष्टिमेवावस्थे । प्रावोस्यन्हाश्सीति, मिथुनमेव करोति । उशिगसि प्रकेतोऽसि सुदितिरसीति, अष्टौ वसव एकादशरुद्रा द्वादशादित्या चाग् द्वात्रिंशी स्वरस्त्रयस्त्रिंशस्त्रयस्त्रिंशत् देवा देवेभ्य एव यज्ञं प्राह । ओजोऽसि पितृभ्यस्त्वेति बलमेव तत् पितृनुसन्तनाति । तन्तुरसि प्रजाभ्यस्त्वेति, प्रजा एव पशूनुसन्तनाति । रंवदस्योपधीभ्यस्त्वेति, ओपधीष्वेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति । पृतनापाडसि पशुभ्यस्त्वेति, प्रजा एव पशूनुसन्तनाति । अभिजिदसीति, वज्रो वै षोडशी, व्यावृत्तोऽसौ वज्रः, तस्मादेपोऽन्यै व्यावृत्तः । नाभुरसीति, प्रजापतिर्वै सप्तदशः, प्रजापतिमेवावस्थे ॥१३॥

कण्डिका १३ ॥ आख्यायिका—वसिष्ठ ने इन्द्र को देखा और
इन्द्र ने उसे स्तोम भागों द्वारा ब्रह्मज्ञान बताया ॥

(ऋषयः वै इन्द्रं प्रत्यक्षं न अपश्यन्) ऋषियों [इन्द्रियों] ने निश्चय करके इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] को साक्षात् न देखा । (तं वसिष्ठः एव प्रत्यक्षम् अपश्यत्) उसको वसिष्ठ [अत्यन्त बखने वाले जीवात्मा] ने ही साक्षात् देखा । (सः अबिभेत्, इतरेभ्यः ऋषिभ्यः मा प्रवोचत् इति) वह [इन्द्र] डरा—यह [वसिष्ठ] नीच ऋषियों [इन्द्रियों] से न कह देवे । (सः अब्रवीत्, ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि, यथा त्वत्पुरोहितः प्रजाः प्रजनयिष्यन्ते) वह [इन्द्र] बोला—[हे वसिष्ठ] मैं तुम्हें ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] बताऊंगा, जिससे तुम्हें पुरोहित [मुखिया] रखती हुई प्रजायें उत्पन्न होंगे । (अथ इतरेभ्यः ऋषिभ्यः मा प्रवोचत्) इस लिये नीच ऋषियों [इन्द्रियों] से आप न कहें । (तस्मै एतान् स्तोमभागान् उवाच) उस [वसिष्ठ] को यह [आगे वाले] स्तोमभाग [स्तुतियों के भाग] उसने बताये । (ततः वसिष्ठपुरोहिताः प्रजाः प्रजायन्त) फिर वसिष्ठ [जीवात्मा] को पुरोहित रखती हुई प्रजायें [इन्द्रिय आदि] उत्पन्न हुये । (स्तोमः वै एतेषां भागः, तत् स्तोमभागानां स्तोमभागयज्ञं प्राह) स्तोम [स्तुतियोग्य व्यवहार] ही इन [मनुष्यों] का भाग [सेवनीय] है इस लिये स्तुति योग्य व्यवहार के सेवन करने वाले पुरुषों के स्तुति योग्य व्यवहार से सेवनीय यज्ञ [पूजनीय कर्म] को वह [इन्द्र परमात्मा वेद द्वारा] बताता है । (प्रेतिः असि धर्मणे त्वा इति १, धर्मः मनुष्याः, मनुष्येभ्यः एव यज्ञं प्राह) [हे परमात्मन्!] तू उत्तमता से व्यापक है, धर्म [वेदविहित व्यवहार] के लिये तुम्हें [ग्रहण करता हूँ], धर्म वाले ही मनुष्य हैं, मनुष्यों

१३—(ऋषयः) ऋष गतौ दर्शने च—इन् कित् । सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे—यजु० ३४ । ५५ । सप्तऋषयः षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी—निरु० १२ । ३७ । इन्द्रियाणि (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम् (वसिष्ठः) वसिष्ठ निवासे—तृच् । तुश्छन्दसि । पा० ५ । ३ । ५६ । वसितृ—इष्ठन् । तुरिष्ठेमेयस्सु । पा० ६ । ४ । १५४ । तृशब्दलोपः । अतिशयेन वसिता निवासकः । जीवात्मा (इतरेभ्यः) पामरेभ्यः (त्वत्पुरोहिताः) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । पा० ७ । २ । ६८ । युष्म इत्यस्य त्व इत्यादेशः । त्वं पुरोहितः प्रधानो यासां ताः (प्रजनयिष्यन्ते) जनिष्यन्त (प्रेतिः) कित्कौ च संज्ञायाम् । पा० ३ । ३ । १७४ । प्र+इण् गतौ—कित्च् । प्रकर्षेण गन्ता । व्यापकः (धर्मणे) शास्त्रविहितव्यवहाराय

को ही यज्ञ [पूजनीय कर्म] वह बताता है । (अनितिः असि, सन्धिः असि, प्रतिधिः असि इति २, ३, ४, त्रयः वै लोकाः, लोकेषु एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति) [हे परमात्मन् !] तू जिलाने वाला है, तू संयोग करने वाला है, तू प्रत्यक्ष धारण करने वाला है—तीन ही लोक [तीन धाम-स्थान, नाम और जन्म— निरु० ६ । २८] हैं, लोकों में ही यज्ञ [पूजनीय कर्म को वह [यजमान] स्थापित करता है । (विष्टम्भः असि इति ५, वृष्टिम् एव अवरुन्धे)] हे परमात्मन् !] तू विविध प्रकार धामने वाला है—इस [स्तुति] से वह [यजमान] वृष्टि [आनन्द वृष्टि] पाता है । (अहांसि प्रावः असि इति ६, मिथुनम् एव करोति) [हे परमात्मन् !] तू व्याप्त वस्तुओं का बड़ा रक्षक है—इस से वह [यजमान] मिथुन [स्थिर ज्ञान] उत्पन्न करता है । (उशिक् असि, प्रकेतः असि, सुदितिः असि इति ७, ८, ९) [हे परमात्मन् !] तू कामना योग्य है, तू बड़ा ज्ञानी है, तू बड़ा दानी है—[यह स्तुति करता है] । (अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादश आदित्याः, वाक् द्वात्रिंशी, स्वरः त्रयस्त्रिंशः, त्रिंशत् देवाः, देवेभ्यः एव यज्ञं प्राह) आठ वसु [पृथिवी आदि] हैं, ग्यारह रुद्र [प्राण और जीवात्मा] हैं, बारह आदित्य [महीने] हैं, वाणी [जिह्वा] बत्तीसवीं और स्वर [उच्चारण व्यवहार] तेतीसवां है, यह तेतीस देवता हैं, इन देवताओं के हित [सुधार] के लिये ही यज्ञ [पूजनीय कर्म] वह [इन्द्र] बताता है । (ओजः असि पितृभ्यः त्वा इति १०, तत् बलम् एव पितृन् अनु सन्तनोति) [हे परमात्मन् !] तू बल है पितरों [पालन करने वाले ज्ञानियों] के लिये तुम्हें [ग्रहण करता हूँ], इस [मन्त्र] से वह [यजमान] बल को पितरों के पीछे पीछे फैलाता है । (तन्तुः असि प्रजाभ्यः त्वा इति ११, प्रजाः एव पशुन् अनु सन्तनानि) [हे परमात्मन् !]

(त्वा) त्वां, गृह्णामि इति शेषः (धर्मः) धर्म—अर्शआद्यच्, विभक्तेः सु— पा० ७ । १ । ३६ । धर्मयुक्ताः (अनितिः) अन प्राणने—किच्, इट् च । अन्तर्गतण्यर्थः । जीवयिता (सन्धिः) सम्यक्धारकः । संयोजकः (प्रतिधिः) प्रत्यक्षधारकः (विष्टम्भः) विशेषेण स्तम्भकः । आश्रयदाता (वृष्टिम्) आनन्दवर्षम् (अवरुन्धे) प्राप्नोति (प्रावः) प्र+अव रक्षणे—घञ् । प्रकर्षेण रक्षकः (अहांसि) उदके नुट् च । उ० ४ । १६७ । अह व्याप्तौ—असुन्, नुट् च । अहसां व्याप्तपदार्थानाम् (मिथुनम्) क्षुधिपिशिमिधिभ्यः कित् । उ० ३ । ५५ । मिथ वधे मेधायां सङ्गमे च—उतन् कित् । स्थिरस्थानम् (उशिक्) वशेः कित् । उ० २ । ७१ । वश कान्तौ—इजि, कित् । कमनीयः (प्रकेतः) प्र+कित ज्ञाने—अच् । प्रकर्षेण ज्ञाता

तू तन्तु [फैलाने वाला] है, प्रजाओं के लिये तुझे [स्वीकार करता हूं]—इस मन्त्र से प्रजाओं को ही वह [यजमान] पशुओं के पीछे पीछे फैलाता है। (रेवत् असि ओषधीभ्यः त्वा इति १२, ओषधीषु एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति) [हे परमात्मन् !] तू धनवान् [ब्रह्म] है, ओषधियों [अन्न सोमलता आदि] के लिये तुझे [स्वीकार करता हूं]—ओषधियों में ही वह [यजमान] यज्ञ को स्थापित करता है। [पृतनाषाट् असि, पशुभ्यः त्वा इति १३, प्रजाः एव पशून् अनु सन्तनोति] [हे परमात्मन् !] तू संग्राम जिताने वाला है, पशुओं के लिये तुझे [स्वीकार करता हूं]—इस मन्त्र से वह [यजमान] प्रजाओं को ही पशुओं के पीछे पीछे बढ़ाता है। (अभिजित् असि इति १४, वज्रः वै षोडशी, व्यावृत्तः असौ वज्रः, तस्मात् एषः अन्यै व्यावृत्तः) [हे परमात्मन् !] तू विजयी है—वज्र [समान] ही षोडशी [प्रश्नोपनिषद् ६। ४, गो० पू० १। ८—प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, प्रकाश, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम—इन सोलह कलाओं का स्वामी परमात्मा] है, वह शत्रु निवारक वज्र रूप है, इस लिये यह [परमात्मा] वैरियों का रोकने वाला है। (नाभुः असि इति १५, प्रजापतिः वै सप्तदशः, प्रजापतिम् एव अवरुन्धे) [हे परमात्मन् !] तू शत्रुनाशक है—यहां प्रजापति [प्रजापालक परमात्मा] सत्रह [गो० पू० १। ५ चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर की, एक नीचे की, दस दिशाओं, सत्व, रज और तम तथा ईश्वर, जीव और प्रकृति और संसार] का स्वामी है, प्रजापति [इन्द्र अर्थात् परमात्मा] को वह [यजमान] पाता है ॥ १३

भावार्थ—मनुष्य ईश्वर की उपासना प्रार्थना से पुरुषार्थ कर के अपनी उन्नति करे और परम आनन्द पावे ॥ १३ ॥

टिप्पणी—इस करिडका में पन्द्रह स्तुति मन्त्र ब्राह्मण वचन हैं।

(सुदितिः) सु + दाण् दाने—क्तिच् । महादाता (स्वः) उच्चारणव्यवहारः (अनु) अनुसृत्य (रेवत्) रयि—मतुप्, सम्प्रसारणं गुणश्च, मस्य वः । धनयुक्तं ब्रह्म (पृतनाषाट्) छन्दसि सहः । पा० ३। २। ६३। पृतना + षह अभिभवे—यिव । सहेः साडः षः । पा० ८। ३। ५६। सस्य षः । पृतना संग्रामनाम—निघ० २। १७। संग्रामजेता (षोडशी) गो० पू० १। ८। प्राणादिषोडश कलानां स्वामी (व्यावृत्तः) कर्त्तरि क्तः । निवारकः (अन्यै) अन्यैः । अन्येषां शत्रूणाम् (नाभुः) कृवापाजि० । उ० १। १। एषै हिंसायाम्—उण् । शत्रुपीडकः (सप्तदशः) गो० पू० १। ५। प्राणश्रद्धाकाशादीनां सप्तदशपदार्थानां स्वामी ॥

कण्डिका १४ ॥

अधिपतिरसि धरुणोऽसि संसर्पोऽसि वयोधा असीति, प्राणोऽपान-
श्चक्षुः श्रोत्रमित्येतानि वै पुरुषमकरन् । प्राणानुपैति, प्रजात्या एव । त्रिवृदसि
प्रवृदसि स्ववृदन्ववृदसीति, मिथुनमेव करोति । आरोहोऽसि प्ररोहोऽसि
संरोहोऽस्यनरोहोऽसीति, प्रजापतिरेव । वसुकोऽसि वस्यष्टिरसि वेपथीर-
सीति, प्रतिगन्त्वम् । रश्मिरसि क्षयाय त्वेति, क्षयो वै देवाः, देवेभ्य एव ष्ठिनिरेव ।
आक्रमोऽसि सङ्क्रमांऽस्युत्क्रमोऽस्युत्क्रान्तिरसीति, ऋद्धिरेव । यद्यद्वै सविता
देवेभ्यः प्रासुवत्, तेनर्धुवत् सपिगृप्सूता एव स्तुवन् व्युद्भवन्ति । बृहस्पतये
स्तुतेति, बृहस्पतिर्वा आङ्गिरसो देवानां ब्रह्मा । तन्वत्स्यैव ओं भूर्जनदिति,
प्रातःसवनं अग्निरेवोभयतोऽथर्वाङ्गिरोभिर्भुवाभिर्गते स्तुतेत्येव । ओं भुवो जन-
दिति, माध्यन्दिनं सवने यजुर्मिरेयोभयतोऽथर्वाङ्गिरोभिर्भुवाभिर्गते स्तुतेत्येव ।
ओं स्वर्जनदिति, नृतीयसवने सामानिरेवोभयतोऽथर्वाङ्गिरोभिर्भुवाभिर्गते स्तुते-
त्येव । अथ यद्यहीन उक्थ्यः पाडुरी वाजपेयोऽतिरानोऽवोर्षीमा वा स्यात्,
सर्वाणिः सर्वाङ्गिरान ऊर्ध्वं व्याहृतिमिगनुजानाति । ओं भूर्भुवः स्वर्जनद् वृधत्
करद् गुहन् नहतच्छ्रमा मन्द्भवन्त स्तुतेति, सेन्द्रान्मापगायत सेन्द्राथस्तुत इत्येव ।
इन्द्रियवान् नृद्धिमान् वशीयान् भवति, य एवं वेद, यश्चैवं विद्वान् स्तोमभागै-
र्देजते ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ आगे और स्तोम भागों और व्याहृतियों
का वर्णन ॥

(अधिपतिः असि १) [हे परमात्मन् !] तू अधिपति [वडा राजा]
है, (धरुणः असि २) तू धारण करने वाला है, (संसर्पः असि ३) तू भले
प्रकार व्यापक है, (वयोधाः असि ४) तू अन्न धारण करने वाला है, (प्राणः
अपानः चक्षुः श्रोत्रम् इति एतानि वै पुरुषम् अकरन्) [इस प्रकार परमात्मा
की स्तुति द्वारा पराक्रम और स्वास्थ्य होने से] प्राण [भीतर जाने वाला
श्वास], अपान [बाहर जाने वाला श्वास], नेत्र और कान, इन्हीं ने ही पुरुष

१७—(अधिपतिः) सर्वोपरिराजा (धरु ३ः) कृष्टुदारिभ्य उतन् । ३०
३ । ५३ धृञ् धारणे—उतन् । धर्ता (संसर्पः) सम्यग् व्यापकः (वयोधाः)
वयसि धाअः । ३० ४ । २२३ । वयः + दुधाञ् धारणोपणयोः—असि । वयः,
अन्ननाम—वि० २ । ७ । अन्नधारकः (प्रजात्यं) प्रकृष्टजन्पने । उत्तमजीवनाय

बनाया है । (प्रजात्यै एव प्राणान् उपैति) [मनुष्य] उत्तम जन्म [जीवन] के लिये ही प्राणों को पाता है । (त्रिवृत् असि ५) [हे परमात्मन् !] तू तीनों [भूत भविष्य वर्तमान काल] में वर्तमान है, (प्रवृत् असि ६) उत्तमता से वर्तमान है, (स्ववृत् असि ७) तू अपने आप वर्तमान है, (अनुवृत् असि ८) तू निरन्तर वर्तमान है—(मिथुनम् एव करोति) इस से [मनुष्य] स्थिर ज्ञान ही करता है । (आरोहः असि ९) [हे परमात्मन् !] तू चढ़ने वाला है, (प्ररोहः असि १०) तू उपजाने वाला है, (संरोहः असि ११) तू बढ़ाने वाला है, (अनुरोहः असि १२) तू निरन्तर वर्तमान है—(प्रजापतिः एव) इस से [मनुष्य] प्रजापति [प्रजापालक] ही होता है । (वसुकः असि १३) [हे परमात्मन्] तू ढक लेने वाला है, (वस्यष्टिः असि १४) तू वस्तियों में व्यापक है, (वेषश्रीः असि १५ इति प्रतिगत्वम्) तू व्याप्त पदार्थों में शोभा देने वाला है—इस से [मनुष्य का] प्रतीति से चलना होता है । (रश्मिः असि १५, क्षयाय स्वा इति) तू व्यापक वा प्रकाशमान है, निवास के लिये तुझे [ग्रहण करता हूँ]—(क्षयः वै देवाः, देवेभ्यः एव स्थितिः एव) निवास ही कामना योग्य पदार्थ हैं, देवों [कामना योग्य पदार्थों] के लिये ही [मनुष्य की] स्थिति है । (आक्रमः असि १६) [हे परमात्मन् !] तू चढ़ाई करने वाला है, (सङ्क्रमः असि १७) तू संयोग करने वाला है, (उत्क्रमः असि १८) तू ऊँचा चढ़ने वाला है, (उत्क्रान्तिः असि १९ इति ऋद्धिः एव) तू ऊपर को डग मारने वाला है [देखो यजु० १५ । ६], इस से [मनुष्य को] ऋद्धि [संपत्ति] होती है । (यत् यत् वै सविता देवेभ्यः प्रासुवत्, तेन आर्ध्ववत् सवितृप्रसूताः एव स्तुवन् न्यध्रुवन्ति) जो जो ही सविता [सर्वजनक परमात्मा] ने विद्वानों के लिये प्रेरणा की है, उस से वह बढ़ा है, परमात्मा से प्रेरणा किये हुये ही वे स्तुति करते हुये

(त्रिवृत्) त्रिषु भूतभविष्यवर्तमानकालेषु वर्तमानः (प्रवृत्) प्रकर्षेण वर्तमानः (स्ववृत्) आत्मना वर्तमानः (अनुवृत्) निरन्तरवर्तमानः (मिथुनम्) क० १३ । स्थिरज्ञानम् (आरोहः) आ+रुह वीजजन्मनि प्रादुर्भावे च—घञ् । आरोहणशीलः (वसुकः) उलूकादयश्च । उ० ४ । ४१ । वस आच्छादने—उकप्रत्ययः । आच्छादकः (वस्यष्टिः) खनिकष्यज्यसिवसि० । उ० ४ । १४० । वस निवासे—इप्रत्ययः । वसेस्तिः । उ० ४ । १८० । अशु व्याप्तौ संधाते च—तिप्रत्ययः । वसि—अष्टिः । वसिषु वस्तिषु व्यापकः (वेषश्रीः) विष्णु व्याप्तौ—घञ्+श्री । वेषाणां श्रीः यस्मात् सः । व्याप्तपदार्थशोभाप्रदः (प्रतिगत्वम्)

बढ़ते हुये रहते हैं [देखो क० १०] । (बृहस्पतये स्तुत इति, बृहस्पतिः वै देवानाम् आङ्गिरसः ब्रह्मा) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणियों के पालन करने वाले विद्वान्] के लिये तुम स्तुति करो—बृहस्पति ही विद्वानों में वेद जानने वाला ब्रह्मा है । (तत् अनुमत्या एव ओम् भूः जगत् इति प्रातःसवने ऋग्भिः एव उभयतः अथर्वाङ्गिभिः गुप्ताभिः गुणैः स्तुत इति एव) उस ब्रह्मा की अनुमति से—ओम् भूः जगत् [यह व्याहृति है]—प्रातःसवन यज्ञ में ऋग्मन्त्रों द्वारा ही दोनों ओर से [आदि और अन्त में] निश्चल ब्रह्म के ज्ञानों से रक्षा की हुयी [व्याहृतियों] से रक्षा किये हुये [स्तोमों] द्वारा तुम स्तुति ही करो । (ओम् भुवः जगत् इति, माध्यन्दिने सवने यजुर्भिः एव उभयतः अथर्वाङ्गिभिः गुप्ताभिः गुणैः स्तुत इति एव) ओम् भुवः जगत् [यह व्याहृति है]—माध्यन्दिनसवन में यजुर्मन्त्रों द्वारा ही दोनों ओर से [आदि और अन्त में] निश्चल ब्रह्म के ज्ञानों से रक्षा की हुई [व्याहृतियों] से रक्षा किये हुये [स्तोमों] द्वारा, तुम स्तुति ही करो । (ओम् स्वः जगत् इति, तृतीयसवने सामभिः एव उभयतः अथर्वाङ्गिभिः गुप्ताभिः गुणैः स्तुत इति एव) ओम् स्वः जगत् [यह व्याहृति है]—तृतीयसवन में साम मन्त्रों द्वारा ही दोनों ओर से [आदि और अन्त में] निश्चल ब्रह्म के ज्ञानों से रक्षा की हुई [व्याहृतियों] से रक्षा किये हुये [स्तोमों] द्वारा, तुम स्तुति ही करो । (अथ यदि अहीनः उक्थ्यः षोडशी वाजपेयः अतिरात्रः अप्तोः यामाः वा स्यात्, अतः ऊर्ध्वं सर्वाभिः सर्वाभिः व्याहृतिभिः अनुजानाति) फिर जो अहीन, [गो० उ० २ । ८ ।] उक्थ्य, षोडशी [गो० उ० २ । १४] वाजपेय, अतिरात्र अथवा अप्तोः यामाः [गो० पू० ५ । २३] यज्ञ होवै उस से उपरान्त [अर्थात् तीन तीन व्याहृतियों के अनुष्ठान के पीछे] सब ही व्याहृतियों से वह [ब्रह्मा] आज्ञा देता है । (ओम् भूःभुवः

प्रति+गमेः—ड, भावे—त्व । प्रतीत्या गन्तृत्वम् (रश्मिः) अश्रोतेरश्च । उ० ४ । ४६ । अशू व्याप्तौ—मि, धातो रशादेशः । व्यापकः । किरणः । प्रकाशः (क्षयाय) निवासाय (आक्रमः) आ+क्रमु पादविक्षेपे—घञ् । आक्रमकः । (सङ्क्रमः) संयोजकः (उत्क्रमः) ऊर्ध्वं गन्ता (उत्क्रान्तिः) ऊर्ध्वं पादविक्षेपणशीलः (स्तुवन्) स्तुवन्तः (अथर्वाङ्गिभिः) निश्चलज्ञानैः (उभयतः) आद्यन्तयोः (गुप्ताभिः) रक्षिताभिः, व्याहृतिभिः (गुप्तैः) रक्षितैः स्तोमैः (अप्तोः) गो० पू० ५ । २३ । प्राप्तायाः प्रजायाः (यामाः) गो० पू० ५ । २३ । नियमाः (सेन्द्रान्) इन्द्रसहितान् स्तोमान् (मा) निषेधे (अपगायत) अप-

स्वः जनत् वृधत् करत् गुहत् महत् तत् शम् ओम् इन्द्रवन्तः स्तुत इति, सेन्द्रान् मा, अपगायत सेन्द्रान् स्तुत इति एव) ओम् [सर्वरत्नक परमेश्वर है—गो० पू० १ । ५ । तथा १६], भूः भुवः स्वः [सर्वाधार, सर्वव्यापक और सुखस्वरूप परमात्मा है, गो० पू० १ । ६], जनत्, वृधत्, करत्, गुहत्, महत्, तत्, शम्, ओम्, [उत्पन्न करने वाला—पू० १ । ८, बढ़ती वाला, बनाने वाला, सब में अन्तर्यामी, पूजनीय, फैला हुआ ब्रह्म—पू० १ । १०, शान्तिकारक—पू० १ । ११ और रत्नक ग्रह है, इन व्याहृतियों के साथ] इन्द्रवान् [इन्द्र वाले मन्त्रों का प्रयोग करते हुये] तुम स्तुति करो, इन्द्र सहित [इन्द्र वाले मन्त्रों सहित स्तोमों] को बुरी ध्वनि से मत गाओ, इन्द्र सहित [स्तोमों] को ही गाओ । (इन्द्रियवान् न्यृद्धिमान् वशीयान् भवति, यः एवं वेद, यः च एवं विद्वान् स्तोमभागैः यजते) वह पुरुष पुष्ट इन्द्रियों वाला, नित्य सम्पत्ति वाला और अत्यन्त जितेन्द्रिय [वा स्वतन्त्र] होता है, जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा जानकार पुरुष स्तोम भागों से यज्ञ [पूजनीय कर्म] करता है ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य परमात्मा के गुणों के गूढ़ विचार से पदार्थों के विज्ञान द्वारा आत्मोन्नति करते हैं, वे ही पराक्रमी जन महाधनी होकर संसार में यशस्वी होते हैं ॥ १४ ॥

कण्डिका १५ ॥

यो ह वा आयताथंश्च प्रतियताथंश्च स्तोमभागान् विद्याच्च विष्पर्थमानयोः सवृतसोमयोः, ब्रह्मास्यास्तुतोषे स्तुतोर्जे स्तुतदेवस्य सखितुः सधे वृहस्पतिं चःप्रजापतिं वो वसून् वो देवान् रुद्रान्वो देवानादित्यान्वो देवान् साध्यान्वो देवानाप्त्यान्वो देवान्विश्वान्वो देवान् सर्वान्वो देवान्विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यो ऽस्माकमस्तु केवल इतः कृणोतु वीर्यम्, इत्येते ह वा आयताश्च प्रतियताश्च स्तोमभागाः, ताञ्जपन्नुपर्युपरि परेषां ब्रह्माणमवेक्षेत । तत एषामधःशिरा ब्रह्मा पतति, ततो यज्ञः, ततो यजमानः । यजमाने ऽधःशिरसि पतिते स देशो ऽधःशिराः पतति । यस्मिन्नर्धे यजन्ते देवाश्च ह वा असुराश्च, सवृतसोमो यज्ञावतनुताम् । अथ वृहस्पतिराङ्गिरसो देवानां ब्रह्मा, स आयताथंश्च प्रतियताथंश्च स्तोमभागान् जपन्नु-

गानेन कुत्सितध्वनिना कुरुत (इन्द्रियवान्) पुष्टेन्द्रिययुक्तः (न्यृद्धिमान्) नित्य-सम्पत्तिमान् (वशीयान्) वशिन् + ईयसुन्, इनेर्लुक् । अतिशयेन जितेन्द्रियः, स्वतन्त्रः ॥

पर्युपर्यसुराणां ब्रह्माणमवेक्षेत । तत एषामधःशिरा ब्रह्माऽपतत्, ततो यज्ञः,
ततोऽसुरा इति ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ स्तोम भागों से शत्रुओं का नाश ॥

(यः ह वै विष्पर्धमानयोः सवृतसोमयोः आयतान् च प्रतियतान् च
स्तोमभागान् च विद्यात्, ब्रह्मास्याः देवस्य सवितुः सवे वः बृहस्पतिं प्रजाप-
तिम् इपे स्तुत ऊर्जे स्तुत स्तुत) जो [परमात्मा] ही विविध प्रकार लगा-
तार उन्नति वाले दो समान स्वीकार किये हुये सोम यज्ञ वालों के लक्ष्ये और
चौड़े स्तोम भागों [स्तुति योग्य व्यवहार के भागों] को निश्चय करके जानता
है, हे ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले पुरुषो ! प्रकाशमान प्रेरक [परमात्मा] की
प्रेरणा में अपने बीच [उस] बृहस्पति [बड़े बड़े लोकों के पालक] और
प्रजापति [प्रजापालक परमात्मा] की आज्ञा के लिये स्तुति करो, पराक्रम के लिये
स्तुति करो, स्तुति, करो । (यः वनून्, पः देवान् रुद्रान्, वः देवान् आदित्यान्,
वः देवान् साध्यान्, वः देवान् आप्त्यान्, वः विश्वान् देवान्, वः सर्वान् देवान्
वः देवान् विश्वतः जनेभ्यः परिहवामहे, अस्माकं केवलः अस्तु) तुम वस्तुओं
[निवास कराने वालों] को, तुम विजयी रुद्रों [शत्रुओं के खताने वालों] को,
तुम कामना योग्य आदित्यों [अन्नरुद्रतियों] को, तुम गति वाले साध्यों
[व्यवहार साधकों] को, तुम दिव्य गुण वाले आत्त [यथार्थ वक्ता] पुरुषों में
रहने वालों को, तुम सब आनन्ददायकों को, तुम सब व्यवहारकुशलों को,
और तुम सब स्तुति योग्यों को सब प्राणियों के लिये सब प्रकार हम बुलाते हैं ।
वह [परमात्मा] हमारा सेवनीय होवे—(इतः वीर्यं कृणोतु) इस [व्यवहार]
से वह [परमात्मा] वीरत्व करै—(इति एते ह वै आयताः च प्रतियताः च
स्तोमभागाः, तान् जपन् उपरि उपरि परेषां ब्रह्माणम् अवेक्षेत) यह ही निश्चय

१५—(आयतान्) आ + यन् उपरमे—क, वा यती प्रयत्ने—अच् । दीर्घान्
(प्रतियतान्) विस्तृतान् (स्तोमभागान्) स्तुत्यव्यवहारभागान् (विद्यात्)
जानाति (विष्पर्धमानयोः) विविधा स्पर्धा क्रमाद्भतिर्ययोस्तयोः (सवृतसा-
मयोः) समानस्वीकृतसामयज्ञयोः (ब्रह्मास्याः) ब्रह्म + आस उपवेशने—क्यप्,
टाप् । ब्रह्मणि आस्या स्थितिर्येषां ते । हे परमात्मनिष्ठाशीलाः (स्तुतोपे) लेख-
प्रमादः । स्तुतेपे । स्तुत इपे (इपे) अजाय (ऊर्जे) पराक्रमाय (सवितुः)
प्रेरकस्य परमेश्वरस्य (सवे) प्रेरणे (बृहस्पतिम्) बृहतां लोकानां पालकं

करके लम्बे और चौड़े स्तोम भाग [स्तुति योग्य व्यवहारों के भाग] हैं, उन को जपता हुआ [विचारता हुआ] ऊपर ऊपर होकर वैरियों के ब्रह्मा [पुरोहित] को निहारे [उस के छल बल रोके] । (ततः एषां ब्रह्मा अधःशिराः पतति, ततः यज्ञः, ततः यजमानः) इस [व्यवहार] से इन [वैरियों] का ब्रह्मा ओंघे सिर गिरता है, उस से यज्ञ [संगति व्यवहार], उस से यजमान [ओंघे सिर गिरता है] । (यजमाने अधःशिरसि पतिते सः देशः अधःशिराः पतति) यजमान के ओंघे सिर गिरने पर वह देश ओंघे सिर गिरता है । (यस्मिन् अर्द्धे देवाः च ह वै असुराः च यजन्ते, सवृतसोमः [=सवृतसोमौ] यज्ञौ अतनुताम्) जिस ऋद्धि युक्त व्यवहार में देव [विद्वान् लोग] और असुर [अविद्वान्] यज्ञ करते हैं, दो समान स्वीकार किये हुये सोम यज्ञ विस्तृत होवें । (अथ आङ्गिरसः बृहस्पतिः देवानां ब्रह्मा, सः आयतान् च प्रतियतान् च स्तोमभागान् जपन् उपरि उपरि असुराणां ब्रह्माणम् अवेक्षेत) फिर वह वेदवेत्ता बृहस्पति देवताओं का ब्रह्मा है, वह आयतों [लम्बे] और प्रतियतों [चौड़े] स्तोमभागों को जपता हुआ [विचारता हुआ] ऊपर ऊपर रह कर असुरों के ब्रह्मा को निहारे । (ततः एषां ब्रह्मा अधःशिराः अपतत्, ततः यज्ञः, ततः असुराः इति) उस से इन [असुरों] का ब्रह्मा नीचे सिर गिरता है, उस से यज्ञ और उस से असुर [नीचे सिर] गिरते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—जहां पर दो पुरुष शत्रुता करके समान प्रयत्न करते हैं, वहां जिस का ब्रह्मा वा पुरोहित अधिक चतुर होता है, वह विजय पाता है ॥ १५ ॥

कण्डिका १६ ॥

देवा यज्ञं पराजयन्त, तमाग्नीध्रात्पुनरुपाजयन्त, तदेतद्यज्ञस्यापराजितं,

परमात्मानं (वः) युष्माकं मध्ये (वः) युष्मान् (वसून्) निवासनशीलान् (रुद्रान्) शत्रुरादकान् (आदित्यान्) अखण्डव्रतिनः पुरुषान् (साध्यान्) व्यवहारसाधकान् (आप्त्यान्) आप्त—यत् । आप्तेषु यथार्थवक्त्रेषु भवान् (विश्वतः) सर्वेभ्यः । सर्वान् (परि) सर्वतः (हवामहे) आह्वयामः (जनेभ्यः) जनानां हिताय (केवलः) संबनीयः (वीर्यम्) वीरत्वम् (परेषाम्) शत्रूणाम् (अवेक्षेत) अवेक्षणेन प्रतिजागरणेन पश्येत् (एषाम्) परेषाम् । शत्रूणाम् (अर्द्धे) ऋद्धियुक्ते व्यवहारे (सवृतसोमः) सवृतसोमौ । समानस्वीकृतसोमौ (अतनुताम्) विस्तृतौ भवताम् (अपतत्) पतति ॥

यदाग्नीध्रं यदाग्नीध्राधिष्यान्विहरति । तत एवैनं पुनस्तनुते पराजित्यै । अप
खलु वा एते गच्छन्ति, ये वहिष्पवमानं सर्पन्ति । वहिष्पवमाने स्तुत आह
अग्नीन्, अग्नीन्विहर, वहिःस्तृणीहि, पुरोडाशानलङ्कुर्विति । यज्ञमेवापराजित्य
पुनस्तन्वाना आयन्त्यङ्गारैर्द्वे सवने विहरति, शलाकाभिस्तृर्नायन्वनं सशुक्र-
त्वाय । अथो सम्भवत्येवमेवैतत्, दक्षिणतो वै देवानां यज्ञं रक्षांस्यजिघांसन्,
तान्याग्नीध्रेणापाग्नत । तस्माद्दक्षिणामुखस्तिष्ठन्नग्नीत् प्रत्याश्रावयति, यज्ञस्याभि-
जित्यै रक्षसामपहत्यै रक्षसामपहत्यै ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ आग्नीध्र द्वारा यज्ञ की सिद्धि ॥

(देवाः यज्ञम् पराजयन्त) देवताओं ने यज्ञ को हरा दिया । (तम् आग्नी-
ध्रात् पुनः उपाजयन्त) उस को वे आग्नीध्र [अग्नि प्रज्वलन स्थान] से फिर
जीत कर लाये । (तत् एतत् यज्ञस्य अपराजितम्, यत् आग्नीध्रम् यत् आग्नीध्रा
धिष्यान् विहरति) सा यह ही यज्ञ का न हार जाना है, जो आग्नीध्र है, और
जो आग्नीध्र से धिष्येयां [यज्ञ अग्नियों] को वह विस्तृत करता है । (ततः
एव एनं पुनः अपराजित्यै तनुते) फिर ही इस [यज्ञ] को न हराने के लिये
वह विस्तृत करता है । (एते वै खलु अपगच्छन्ति, ये वहिष्पवमानं सर्पन्ति)
वे लोग निश्चय कर के नहीं हटते हैं, जो वहिष्पवमान [बाहिरले पवित्र स्थान
विशेष] में जाते हैं । (वहिष्पवमाने स्तुते अग्नीत् आह—अग्नीन् विहर, वहिः
स्तृणीहि, पुरोडाशान् अलङ्कुरु इति) वहिष्पवमान की स्तुति किये जाने पर
अग्नीत् [अग्नि प्रदीपक ऋत्विज्] कहता है—तू अग्नियों को विस्तृत कर,
आसन विछा और पुरोडाशों [पक्वान्न विशेषों] को सजा । (यज्ञम् एव अप-
राजित्य पुनः तन्वानाः आयन्ति, अङ्गारैः द्वे सवने विहरति, शलाकाभिः नशु-
क्रत्वाय तृतीयसवनम्) यज्ञ को न हरा कर फिर [उसको] फैलाते हुये वे
आते हैं, अङ्गारों [निर्धम अग्नियों] से दोनों सवनों [प्रातःसवन, माध्य-

१६—(परा—अजयन्त) पराजितवन्तः (आग्नीध्रात्) अग्निगृहात्
(उप—अजयन्त) उपेत्य जितवन्तः (अपराजितम्) अपराजयत्वम् (आग्नीध्रा)
सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । इत्याकारः । आग्नीध्रात् (धिष्यान्) सानसि-
घर्णसिपर्णसि० । उ० ४ । १०७ । जिधृपा प्रागल्भ्ये—एयप्रत्ययः, ऋकारस्य
इकारः, यद्वा धिष शब्दे—एय । अग्नीन् (विहरति) विस्तारयति (अपराजित्यै)
अपराभवाय (खलु) निषेधे (अङ्गारैः) अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन् । उ० ३ ।

न्दिन सवन] को वह विस्तृत करता है, और शलाकाओं से समान वीरत्व के लिये तृतीय सवन को [विस्तृत करता है] । (अथो एवम् एव एतत् सम्भवति, दक्षिणतः वै देवानां यज्ञं रक्षांसि अजिघांसन्, तानि आग्नीध्रेण अपाघ्नत) फिर ऐसा ही यह हो सकता है—दक्षिण [दक्षिण आदि] दिशा में ही देवताओं के यज्ञ को राजसों ने नाश करना चाहा, उन को आग्नीध्र [अग्नि प्रज्वालन] द्वारा [देवताओं ने] हरा दिया । (तस्मात् दक्षिणमुखः तिष्ठन् आग्नीत् यज्ञस्य अभिजित्यै रक्षसाम् अपहत्यै रक्षसाम् अपहत्यै प्रत्याश्रावयति) इस लिये दक्षिण मुख बैठा हुआ अग्नीत् [अग्नि प्रदीपक ऋत्विज] यज्ञ की पूरी जीत के लिये और राजसों की हार के लिये, राजसों की हार के लिये स्तुति सुनाता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—जैसे यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ के विघ्नों को हटाते हैं, वैसे ही मनुष्य पराक्रम बढ़ाकर शत्रुओं का नाश करें ॥ १६ ॥

कण्डिका १७ ॥

तदाहुः, अथ कस्मात् सौम्य एवाध्वरं प्रवृत्ताहुतीर्जुहति, न हविर्यज्ञ इति । अकृत्स्ना वा एषा देवयज्या, यद्धविर्यज्ञः । अथ हैषैव कृत्स्ना एषा देवयज्या, यत् सौम्योऽध्वरः, तस्मात् सौम्य एवाध्वरं प्रवृत्ताहुतीर्जुहति । जुष्टो वाचे भूयासं जुष्टो वाचस्पतये देवि वाग् यज्ञाचो मधुमत्तमं, तस्मिन्मा धाः स्वाहा वाचे स्वाहा वाचस्पतये स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्या इति, पुरस्तात् स्वाहाकारणं जुहोति । तस्माद्वाग् अत ऊर्ध्वमुत्सृष्टा यज्ञं वहति । मनसोन्तरा, मनसा हि मनः प्रातम् । तद्दु हैके सप्ताहुतीर्जुहति, सप्त छन्दांसि प्रवृत्तानि प्रतिमन्त्रमिति वदन्तः । यथा मेखला पर्यस्यते मेध्यस्य चामेध्यस्य च विहृत्यै, एवं यैते न्युप्यन्ते मेध्यस्य च विहृत्यै यज्ञस्य विहृत्यै । प्राचानं हि धिषण्येभ्यो देवानां लांकाः, प्रतीचीनं मनुष्याणाम् । तस्मात् सोमं पिबता प्राश्नो धिषण्या नोपसर्ष्याः । जनं होतृदेवलोकं ह्यध्यारोहन्ति, तेषामेतदायतनं चादयनं च, यदाग्नीध्रं च सदश्च । तद्योऽविद्वान् सञ्चरति, आर्त्तिमाच्छति । अथ यो विद्वान् सञ्चरति, न स धिषणीयामार्त्तिमाच्छति ॥ १७ ॥

कण्डिका १७ ॥ प्रवृत्त आहुतियों का वर्णन ॥

(तत् आहुः, अथ कस्मात् सौम्ये एव अध्वरं प्रवृत्ताहुतीः जुहति न हवि-

१३४ । अग्नि गतौ—आरन् । निर्धूमाग्निभिः (सशुक्रत्वाय) समानवार्यत्वाय (सम्भवति) समर्थो भवति (अपाघ्नत) पराजितवन्तः । नाशितवन्तः ॥

र्यज्ञे इति) यह कहते हैं—फिर किस लिये सोम वाले ही यज्ञ में प्रवृत्ताहुति [लगातार आहुतियों] को वे देते हैं और हविर्यज्ञ में नहीं । (अकृत्स्ना वै एषा देवयज्या, यत् हविर्यज्ञः) [उत्तर] असम्पूर्णा ही यह देवयज्या है जो हविर्यज्ञ है । (अथ ह एषा एषा एव कृत्स्ना देवयज्या, यत् सौम्यः अध्वरः, तस्मात् सौम्ये एव अध्वरे प्रवृत्ताहुतीः जुह्वति) फिर यह ही निश्चय करके सम्पूर्णा देवयज्या है, जो सोम वाला यज्ञ है, इस लिये सोम वाले ही यज्ञ में प्रवृत्त आहुतियां वे देते हैं । (वाचे जुष्टः भूयासम्, वाचस्पतये जुष्टः, देवि वाक् यत् वाचः मधुमत्तमम्, तस्मिन् मा धाः स्वाहा, वाचे स्वाहा, वाचस्पतये स्वाहा, सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा इति पुरस्तात् स्वाहाकारेण जुहोति) मैं वाणी के लिये प्रसन्न होऊँ, वाचस्पति [वाणी के स्वामी परमात्मा] के लिये प्रसन्न [होऊँ,] हे देवि वाणी ! जो वाणी का अत्यन्त मधुर कर्म है उस में मुझ को स्वाहा [सुवाणी के साथ] धारण कर, वाणी के लिये स्वाहा [सुन्दर वाणी वा आहुति] है, वाचस्पति के लिये स्वाहा है, सरस्वती [विज्ञानवती विद्या] के लिये, सरस्वती के लिये स्वाहा है—इस मन्त्र से पहिले स्वाहा शब्द के साथ वह हवन करता है । (तस्मात् वाक् अतः ऊर्ध्वम् उत्सृष्टा यज्ञं वहति) इस लिये इस के उपरान्त वाणी छुटी हुई होकर यज्ञ को ले चलती है । (मनसः अन्तरा मनसा हि मनः प्रीतम्) मन के भीतर मन के साथ ही मन प्रसन्न रहता है ।

(तत् उ ह एके सप्त आहुतीः जुह्वति, सप्त छन्दांसि प्रतिमन्त्रं प्रवृत्तानि इति वदन्तः) फिर कोई कोई सात आहुतियां देते हैं—सात छन्द एक एक मन्त्र में प्रवृत्त हैं—ऐसा कहते हुये । (यथा मेखला मेध्यस्य च अमेध्यस्य च विहृत्यै पर्य्यस्पते, एवं ह एव एते मेध्यस्य यज्ञस्य च विहृत्यै विहृत्यै न्युप्यन्ते) [उत्तर] जिस प्रकार मेखला [यज्ञ सीमा] पवित्र वस्तु के और अपवित्र वस्तु के अलग करने के लिये डाली जाती है, वैसे ही यह [पदार्थ] शुद्ध यज्ञ के विस्तार के लिये, विस्तार के लिये ही [अग्नि में] डाले जाते हैं । (धिष्ण्येभ्यः हि प्राचीनं

१७—(जुह्वति) प्रक्षिपन्ति (अकृत्स्ना) असम्पूर्णा (जुष्टः) प्रीतः । सेवितः (मधुमत्तमम्) अतिशयेन माधुर्ययुक्तं कर्म (सरस्वत्यै) विज्ञानयुक्त्यायै वाचे (पुरस्तात्) अग्रे (उत्सृष्टा) त्यक्ता (प्रीतम्) प्रसन्नम् (मेखला) यज्ञ-सीमा (मेध्यस्य) पवित्रपदार्थस्य (अमेध्यस्य) अपवित्रव्यवहारस्य (विहृत्यै) वि+हृञ् हरणे—क्तिन् । पृथक्करणाय । विस्ताराय (प्राचीनम्) पूर्वदिशि वर्तमानं स्थानम् (प्रतीचीनम्) पश्चिमदिशि वर्तमान स्थानम् (प्राञ्चः) पूर्व-

देवानां लोकाः, प्रतीचीनं मनुष्याणाम्) अग्नियों से पूर्व दिशा वाला स्थान ही देवताओं के और पश्चिम दिशा वाला स्थान मनुष्यों के लोक हैं । (तस्मात् सोमं पिबता प्राञ्चः धिषण्याः न उपसर्ष्याः) इस लिये सोम पीने वाले पुरुष करके पूर्व दिशा वाली अग्नियें अब प्राप्त की जावें । (एतत् एव हि जनं लोकं हि अध्यारोहन्ति) इस से ही जन [महत्लोक से ऊपर वाले] लोक को ही वे चढ़ जाते हैं । (तेषाम् एतत् आयतनम् उदयनं च, यत् आग्नीध्रं च सदः च) उन का यह विश्राम स्थान और उदय स्थान है जो आग्नीध्र [अग्नि प्रज्वलन] और सदः [बैठक] है । (तत् यः अविद्वान् सञ्चरति, आर्तिम् आर्च्छति) इस लिये जो अज्ञानकार [यज्ञ] करता है, वह पीड़ा पाता है । (अथ यः विद्वान् सञ्चरति, सः धिषणीयाम् आर्तिं न आर्च्छति) फिर जो विद्वान् [यज्ञ] करता है, वह अग्नि सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाता है ॥ १७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि सदा समय के अनुकूल वाणी बोलें, पवित्र और अपवित्र की सीमा करें और यथायोग्य सब का बैठक दें ॥ १७ ॥

कण्डिका १८ ॥

प्रजापतिर्वै यज्ञः, तस्मिन् सर्वे कामाः सर्वा इष्टीः सर्वममृतत्वम् । तस्य हैते गोप्तारः, यद्धिषणीयः, तान् सदः प्रसृष्यन् मस्करोति, नमो नम इति । न हि नमस्कारमतिदेवाः, ते ह नमसिताः कर्त्तारमतिस्तृजन्तीति । तत एतं प्रजापतिं यज्ञं प्रपद्यते, नमो नम इति । न हि नमस्कारमतिदेवाः, स तत्रैव यजमानः सर्वान् कामानाप्राप्ति सर्वान् कामानाप्राप्ति ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ प्रजापति को नमस्कार ॥

(प्रजापतिः वै यज्ञः, तस्मिन् सर्वे कामाः सर्वाः इष्टीः सर्वम् अमृतत्वम्) प्रजापति [प्रजापालक] ही यज्ञ [संगति व्यवहार] है, उस में सब मनोरथ, सब यज्ञ क्रियायें और सब अमरपन [मोक्ष आनन्द] हैं । (तस्य ह एते गोप्तारः यत् धिषणीयः, तान् सदः प्रसृष्यन् मस्करोति, नमोनमः इति) उस के ही यह रक्षक हैं, जो अग्नि देवता वाले [ऋत्विज] हैं, उन को सद [यज्ञशाला] में

दिशि वर्तमानाः (न) सम्प्रति । निषेधे (जनम्) महोलोकादूर्ध्वलोकम् (आयतनम्) विश्रामस्थानम् (उदयनम्) उदयकर्म (धिषणीयाम्) अग्निसम्बन्धिनीम् ॥

१८—(इष्टीः) पूर्वसवर्णादीर्घः । इष्टयः । यज्ञक्रियाः (धिषणीयः) धिषणीयाः । अग्निदेवताकाः । ऋत्विजः (प्रसृष्यन्) प्रगमिष्यन् (मस्करोति)

जाने की इच्छा करना हुआ [यजमान] नमस्कार करता है—नमोनमः [बहुत बहुत नमस्कार है] । (देवाः नमस्कारम् अति न हि, ते ह नमसिताः कर्तारम् अति सृजन्ति) देवता [विद्वान् लोग] नमस्कार का निरस्कार करके नहीं रहते, वे अवश्य [दूसरों से] नमस्कार किये गये नमस्कार करने वाले को [आशीर्वाद] देने हैं [यह गोभाओं को आशीर्वाद का विषय हुआ] । (ततः एतं प्रजापति यज्ञं प्रपद्यते, नमोनमः इति) फिर इस प्रजापति यज्ञ में वह [यजमान] पहुँचता है—नमोनमः [कहता है] । (देवाः नमस्कारम् अति न हि, सः यजमानः तत्र एव सर्वान् कामान् आप्नोति सर्वान् कामान् आप्नोति) देवता [विद्वान् लोग] नमस्कार का निरस्कार करके नहीं रहते, वह यजमान उस [नमस्कार करने] में सब मनोरथों को पाता है, सब मनोरथों को पाता है ॥१८॥

भावार्थ—बड़े बड़ों की आदरपूर्वक सम्मति मानने से मनुष्य के मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ १८ ॥

कण्डिका १६ ॥

यो वै सदस्यान् गन्धर्वान् वेद, न सदस्यामार्त्तिमाच्छति । सदः प्रसृप्यन् ब्रूयादुपद्रष्टे नम इति, अग्निर्वै द्रष्टा, तस्मा उ एवात्मानं परिदधाति सर्वमायुरेति न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । १ । सदः प्रसृप्यन् ब्रूयादुपश्रोत्रे नम इति । वायुर्वा उ उपश्रोता, तस्मा उ एवात्मानं परिदधाति सर्वमायुरेति न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । २ । सदः प्रसृप्यन् ब्रूयात्, अनुख्यात्रे नम इति आदित्यो वा अनुख्याता तस्मा उ एवात्मानं परिदधाति सर्वमायुरेति न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । ३ । सदः प्रसृप्यन् ब्रूयात्, उपद्रष्टे नम इति । ब्राह्मणो वा उपद्रष्टा, तस्मा उ एवात्मानं परिदधाति सर्वमायुरेति न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । ४ । एते वै सदस्या गन्धर्वाः । स एवमेतान् सदस्यान् गन्धर्वान् विद्वान् सदः प्रसृपति, स सदस्यामार्त्तिमाच्छति । अथ यो विद्वान् सञ्चरति, न सदस्यामार्त्तिमाच्छति । एतेन ह स्म वा आङ्गिरसः सर्वं सदः पर्यर्हति, ते न सदस्यामार्त्तिमाच्छन्ति । अथ यान् कामयेत न सदस्यामार्त्तिमाच्छेयुरिति, तेभ्य एतेन सर्वं सदः परिव्रूयात्ते न सदस्यामार्त्तिमाच्छन्ति । अथ यं कामयेत प्रमीयतेति, तमेतेभ्य आवृश्चेत् प्रमीयते ॥ १६ ॥

नस्य लोपः । नमस्करोति (अति) अतिक्रम्य । निरस्कृत्य (कर्तारम्) नमस्कर्तारम् (अतिसृजन्ति) आशीर्वादं ददति ॥

कण्डिका १६ ॥ सदस्य गन्धर्वों को नमस्कार ॥

(यः वै सदस्यान् गन्धर्वान् वेद, सदस्याम् आर्तिं न आर्च्छति) जो [यजमान] सदस्य [यज्ञशाला में बैठने वाले] गन्धर्वों [वेदवाणी वा पृथिवी धारण करने वाले विद्वानों] को जानता है, वह यज्ञशाला में होने वाली पीड़ा को नहीं पाता है । (सदः प्रसृप्सन् ब्रूयात्, उपद्रष्ट्रे नमः इति) सद [यज्ञशाला] में जाना चाहता हुआ [यजमान] बोले—उपद्रष्टा [अधिक देखने वाले] को नमस्कार है, (अग्निः वै द्रष्टा तस्मै उ एव आत्मानं परिदधाति, सर्वम् आयुः एति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद १) अग्नि ही द्रष्टा [देखने वाला, ज्योति वाला] है, उस के लिये [उस के समान बल पाने के लिये] ही अपने को वह सब प्रकार पुष्ट करता है, पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो ऐसा जानता है । १ । (सदः प्रसृप्य ब्रूयात्—उपश्रोत्रे नमः इति) सद [यज्ञशाला] को चल कर वह बोले—उपश्रोता [बहुत सुनने वाले] के लिये नमस्कार है । (वायुः वै उ उपश्रोता, तस्मै उ एव आत्मानं परिदधाति, सर्वम् आयुः एति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद २) वायु ही उपश्रोता [भले प्रकार सुनने वाला, सुनने का साधन] है, उस के लिये [उस के समान बल पाने के लिये] ही अपने को वह सब प्रकार पुष्ट करता है, पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो ऐसा जानता है । २ । (सदः प्रसर्पन् ब्रूयात्, अनुख्यात्रे नमः इति) यज्ञशाला में आगे को चलता हुआ वह बोले—अनुख्याता [निरन्तर प्रसिद्धि करने वाले] के लिये नमस्कार है । (आदित्यः वै अनुख्याता तस्मै उ एव आत्मानं परिदधाति, सर्वम् आयुः एति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद ३) प्रकाशमान सूर्य ही [अनुख्याता] प्रसिद्धि करने वाला है, उस के लिये [उस के समान बल पाने के लिये] ही वह अपने को सब प्रकार पुष्ट करता है, सम्पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो ऐसा जानता है । ३ । (सदः प्रसृप्तः ब्रूयात्, उपद्रष्ट्रे नमः इति) यज्ञशाला में पहुंचा हुआ वह कहे—उपद्रष्टा [भली भांति देखने वाले] के लिये नमस्कार है । (ब्राह्मणः वै उपद्रष्टा, तस्मै उ एव आत्मानं परिदधाति, सर्वम्

१६—(सदस्यान्) सदसि यज्ञशालायां भवान् (गन्धर्वान्) गां वाणीं पृथिवीं गतिं वा धरतीति गन्धर्वः । कृगृशृदृभ्यो वः । उ० १ । १५५ । गो + धृञ् धारणे—वप्रत्ययः, गो शब्दस्य गम् । वेदवाणीधारकान् । भूमिधरकान् (उपद्रष्ट्रे) उप + दृशिर् प्रेक्षणे—तृच् । अधिकदर्शकाय (परिदधाति) सर्वतः पोष-

आयुः एति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद ४) ब्राह्मण [वेदवेत्ता ब्रह्मा] ही उपद्रष्टा है, उस के लिये [उसके समान बल पाने के लिये] ही वह अपने को सब प्रकार पुष्ट करता है, सम्पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो ऐसा जानता है । ४ । (एते वै सदस्याः गन्धर्वाः) यह ही सदस्य [यज्ञशाला में बैठने वाले] गन्धर्व [वेदवाणी वा पृथिवी के धारण करने वाले] हैं । (सः [=यः] एवम् एतान् सदस्यान् गन्धर्वान् अविद्वान् सदः प्रसर्पति, सः सदस्याम् आर्तिम् आर्च्छति) जो इस प्रकार इन सदस्य गन्धर्वों को न जानता हुआ पुरुष यज्ञशाला में घुस जाता है, वह यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा पाता है । (अथ यः विद्वान् सञ्चरति सदस्याम् आर्तिम् न आर्च्छति) फिर जो [इन को] जानता हुआ पुरुष [यज्ञशाला में] चलता है, वह यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाता । (एते न ह स्म वै आङ्गिरसः सर्वं सदः पर्याहुः, ते सदस्याम् आर्तिं न आर्च्छन्ति) इस [व्यवहार] से ही आङ्गिरस [वेदवेत्ता लोग] सब यज्ञशाला का बखान करते हैं, वे यज्ञ सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाते । (अथ यान् कामयेत सदस्याम् आर्तिं न आर्च्छेयुः इति, तेभ्यः एतेन सर्वं सदः परिब्रूयात्, ते सदस्याम् आर्तिं न आर्च्छन्ति) फिर वह जिन [पुरुषों] को चाहे—यह लोग यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा न पावें—उन से इस प्रकार सब यज्ञशाला को वह [ब्रह्मा] वता देवे, वे यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाते हैं । (अथ यं कामयेत प्रमीयेत इति, तम् एतेभ्यः आवृश्चेत् प्रमीयते) फिर जिस [पुरुष] को चाहे—वह मर जावे, उस को इन [लोगों] के हित के लिये वह छेद डाले, वह मर जाता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्य सत्कर्मियों के आदर और दुष्कर्मियों के निरादर से संसार में बड़ाई पाते हैं ॥ १६ ॥

करिडका २० ॥

तदाहुः, यदैन्द्रो यज्ञोऽथ कस्मात् द्रावेव प्रातःसवने प्रस्थितानां प्रत्यक्षादैन्द्रीभ्यां यजतो होता चैव ब्राह्मणाच्छंसी च । इदं ते सोम्यं मध्विति होता यजति । इन्द्र त्वा वृषभं वयमिति ब्राह्मणाच्छंसी, नानादेवत्याभिरितरे, कथं

यति । समर्पयति (प्रमीयते) प्रप्रियते (उपश्रोत्रे) अधिकश्रवणसाधकाय (अनुख्यात्रे) निरन्तरख्यापकाय । प्रसिद्धिकारकाय (अविद्वान्) अजानन् (आङ्गिरसः) आङ्गिरसाः । वेदवेत्तारः ॥

तेषामैन्द्रियो भवन्ति । मित्रं वयं हवामहे इति, मैत्रावरुणो यजति । वरुणं सोमपीतय इति, यद्वै किञ्च पीतवत्, तदैन्द्रं रूपं, तेनेन्द्रं प्रीणाति । मरुतो यस्य हि क्षय इति, पोता यजति । स सुगोपातमो जन इति, इन्द्र वै गोपाः, तदैन्द्रं रूपं, तेनेन्द्रं प्रीणाति । अग्ने पत्नीरिहावहेति, नेष्टा यजति । त्वष्टारं सोमपीतय इति, यद्वै किञ्च पीतवत्, तदैन्द्रं रूपं, तेनेन्द्रं प्रीणाति । उक्षाज्ञाय वशान्नायेत्याग्नीध्रो यजति । सोमपृष्ठाय वेधस इति, इन्द्रो वै वेधाः, तदैन्द्रं रूपं, तेनेन्द्रं प्रीणाति । प्रातर्यावभिरागतं देवेभिर्जेन्यावसू, इन्द्राग्नी सोमपीतय इति । स्वयं समृद्धा अच्छावाकस्यैवमु हैता ऐन्द्रियो भवन्ति, यन्नानादेवत्याः तेनान्या देवताः प्रीणाति । यद्गुणायस्यः, तेनाग्नेय्यः, तस्मादेताभिस्त्रयमवासं भवति ॥ २० ॥

कण्डिका २० ॥ प्रातःसवन में इन्द्र आदि के लिये हवि का निर्णय ॥

(तत् आहुः, यत् ऐन्द्रः यज्ञः, अथ कस्मात् द्वौ एव होता च एव ब्राह्मणाच्छंसी च प्रातःसवनं प्रस्थितानां प्रत्यक्षात् ऐन्द्रीभ्यां यजतः) फिर वे [ब्रह्मवादी] कहते हैं—जब इन्द्र देवता वाला यज्ञ है, फिर क्यों दो ही, होता और ब्राह्मणाच्छंसी [दूसरे ऋत्विजों को छोड़कर] प्रातःसवन में उपस्थित [सोमयज्ञों] के बीच प्रत्यक्ष दो इन्द्र देवता वाली ऋचाओं से यज्ञ करते हैं । (इदं ते सोम्यं मधु—इति होता यजति, इन्द्र त्वा वृषभं वयम् इति ब्राह्मणाच्छंसी, नानादेवत्याभिः इतरे, कथं तेषाम् ऐन्द्रियः भवन्ति) इदं ते सोम्यं मधु—इस मन्त्र से होता यज्ञ करता है, इन्द्र त्वा वृषभं वयम्—इस से ब्राह्मणाच्छंसी, और अनेक देवता वाली ऋचाओं से दूसरे [ऋत्विज् यज्ञ करते हैं], कैसे इन लोगों की इन्द्र देवता वाली ऋचायें हैं । (मित्रं वयं हवामहे—इति मैत्रावरुणः यजति, वरुणं सोमपीतये—इति वै यत् किञ्च पीतवत्, तत् ऐन्द्रं रूपम्, तेन इन्द्रं प्रीणाति) मित्रं वयं हवामहे—इस मन्त्र से मैत्रावरुण [प्राण और अपान की विद्या जानने वाला] यज्ञ करता है, वरुणं सोमपीतये—[उस मन्त्र के सोमपीतये पद में]

२०—(यत्) यस्मात् कारणात् (ऐन्द्रः) इन्द्रदेवताकः (प्रस्थितानाम्) उपस्थितानां सोमयागानां मध्ये (प्रत्यक्षात्) श्रोत्रप्रत्यक्षेण (सोम्यम्) अमृतमयम् (मधु) मधुरं रसम् (वृषभम्) वलिष्ठम् (ऐन्द्रियः) इन्द्र—अण्, डीप्, यक्तायस्य इयङ् । ऐन्द्रूयः । इन्द्रसम्बन्धिन्यः ऋचः (मित्रम्) प्राणम् (वरुणम्) अपानम् (पीतवत्) पीतशब्दयुक्तं पदम् (प्रीणाति) तोषयति (मरुतः)

जो कुछ पीत शब्द वाला पद है, वह इन्द्र का रूप है, उस से इन्द्र को वह प्रसन्न करता है । (मरुतो यम्य हि क्षये—इति पोता यजति, स सुगोपातमो जनः—इति इन्द्रः [= इन्द्रः] वै गोपाः, तन् ऐन्द्रं रूपं, तेन इन्द्रं प्रीणानि) मरुतो यम्य हि क्षये—इस मन्त्र से पोता यज्ञ करता है, स सुगोपातमो जनः—[उस मन्त्र के सुगोपातम शब्द में] इन्द्र ही गोपा [पृथिवी का रक्षक] है, वह इन्द्र का रूप है, उस से इन्द्र को वह प्रसन्न करता है । (अग्ने पत्नीगिहावह—इति नेष्टा यजति, त्वष्टारं सोमपीतये—इति यन् वै किञ्च पीतवन्, तत् ऐन्द्रं रूपं तेन इन्द्रं प्रीणानि) अग्ने पत्नीगिहावह—इस मन्त्र से नेष्टा [नेता पुरुष] यज्ञ करता है, त्वष्टारं सोमपीतये—[उस मन्त्र के सोमपीतये पद में] जो कुछ पीत शब्द वाला पद है, वह इन्द्र का रूप है, उस से इन्द्र को वह प्रसन्न करता है । (उक्षाज्ञाय वशाज्ञाय—इति आग्नीध्रः यजति, सोमपृष्ठाय वेधसे—इति इन्द्रः वै वेधाः, तत् ऐन्द्रं रूपं, तेन इन्द्रं प्रीणानि) उक्षाज्ञाय वशाज्ञाय—इस मन्त्र से आग्नीध्र [अग्नि जलाने वाला पुरुष] यज्ञ करता है, सोमपृष्ठाय वेधसे—[उस मन्त्र के इस भाग में] इन्द्र ही वेधा [बुद्धिमान्] है, वह इन्द्र का रूप है, उस से वह इन्द्र को प्रसन्न करता है । (प्रातर्यावभिरागतं देवैर्भिर्जेन्यावसू इन्द्राग्नी सोमपीतये—इति अचछ्वावाकस्य स्वयं समृद्धाः ऐवम् उ ह एताः ऐन्द्रियः भवन्ति) प्रातर्यावभिरागतं.....यह सब अचछ्वावाक [ऋत्विज] की अपने आप समृद्ध [सम्पूर्ण ऋचायें] इस प्रकार से ही इन्द्र देवता वाली हैं । (यत् नानादेवत्याः, तेन अन्याः देवताः प्रीणानि) जो अनेक देवता वाली ऋचायें हैं, उस से दूसरे

हे शूरविद्वांसः (क्षये) क्षि निवासगतयोः, ऐश्वर्य्ये च—अच् । ऐश्वर्य्ये (सुगोपातमः) अतिशयेन सुष्ठु पृथ्वारक्षकः (पत्नीः) पालनशक्तीः (वह) द्विकर्मकः । प्रापय (त्वष्टारम्) सूक्ष्मकर्तारं गुणम् (उक्षाज्ञाय) श्वश्रुक्षन्पूपन्० । उ० १ । १५६ । उक्त सेचने चृद्धौ च—कनिन् । उक्षा महज्ञाम—निघ० ३ । ३ । उक्तभ्यो महद्भ्यः प्ररत्नेभ्योऽन्नं यस्मात् तस्मै । प्रवत्तानां भोजनदात्रे (वशाज्ञाय) वशिरण्योरुपसंस्थानम् । वा० पा० ३ । ३ । ५८ । वश स्पृहायाम्—अप्,—टाप् । वशाभ्यो वशीभूताभ्यः प्रजाभ्योऽन्नं यस्मात् तस्मै । निर्वत्तप्रजानां भोजनदात्रे (सोमपृष्ठाय) पृषु सेचने—थक् । ऐश्वर्य्यस्य सेचकाय वर्धकाय (वेधसे) मेधाविने—निघ० ३ । १५ (प्रातर्यावभिः) प्रातर्गामिभिः (आगतम्) आगच्छतम् (देवेभिः) देवैः । विद्धद्भिः (जेन्यावसू) वृञ् एण्यः । उ० ३ । ५८ । जि जये—एन्यः, स च डित् । जयशीलधनवन्तां (गायत्र्यः) गायत्रीछन्दोभिर्युतः

देवताओं को वह प्रसन्न करता है । (यत् गायत्र्यः, तेन आग्नेयः) जो गायत्री छन्द वाली हैं, उस से वे अग्नि देवता वाली ऋचायें हैं । (तस्मात् एताभिः त्रयम् अवाप्तं भवति) इस लिये इन [ऋचाओं] से [इन्द्र, नाना देवता और अग्नि का] त्रित्व पाया जाता है ॥ २० ॥

भावार्थ—विद्वानों [देवताओं] की स्तुति उन के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये ॥ २० ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को ऐतरेय ब्रा० ६ । १० से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(वावेव) के स्थान पर (द्वावेव) ऐतरेय ब्राह्मण से, और (जन्यावसू) के स्थान पर (जेन्यावसू) ऐ० ब्रा० और वेद से शुद्ध किया है ॥

टिप्पणी ३—सङ्केत वाले मन्त्र अर्थ सहित यहां लिखे जाते हैं ॥

१—इदं ते सोम्यं मध्वधु^१त्तन्नद्रिभिर्नरः । जुषाण इन्द्र तत् पिब—ऋ० ८ । ६५ । ८७ सायण भाष्य । ८ । ५४ । ८ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (ते इदं सोम्यं मधु) तेरे लिये यह अमृतमय रस (नरः) नेता लोगों ने (अद्रिभिः) शिलबट्टाओं द्वारा (अधुत्तन्) दुहा है, (तत्) उस को (जुषाणः) प्रसन्न होकर (पिब) तू पी ॥

२—इन्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमं हवामहे । स पाहि मध्वो अन्धसः—अथ० २० । १ । १, ऋ० ३ । ४० । १ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (त्वा वृषभम्) तुझ बलिष्ठ को (सुते) सिद्ध किये हुये (सोमे) पेश्वर्य वा ओषधियों के समूह में (वयं हवामहे) हम बुलाते हैं । (सः) सो तू (मध्वः) मधुर गुण वाले (अन्धसः) अन्न की (पाहि) रक्षा कर ॥

३—मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा—ऋ० १ । २३ । ४ ॥ (वयम्) हम (जज्ञाना) विज्ञान कराने वाले, (पूतदक्षसा) पवित्र बल वाले (मित्रम्) प्राण वायु (वरुणम्) और अपान वायु को (सोमपीतये) अमृत पीने के लिये (हवामहे) बुलाते हैं ॥

४—मरुतो यस्य हि क्षर्ये पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जनः—अथ० २० । १ । २ । ऋ० १ । ८६ । १ और यजु० ८ । ३१ ॥ (विहमसः) हे

(आग्नेयः) अग्निदेवताकः (त्रयम्) इन्द्रनानादेवताग्नयः—इति त्रिविधदेवता-सम्बद्धं त्रित्वम् (अवाप्तम्) प्राप्तम् ॥

विविध पूजनीय (मरुतः) शूर विद्वानों ! (यस्य) जिस [राजा] के (क्षये) ऐश्वर्य में (दिवः) उत्तम व्यवहारों की (पाथ) तुम रक्षा करते हो, (सः हि) वह ही (सुगोपातमः) अच्छे प्रकार पृथिवी का अत्यन्त पालने वाला (जनः) पुरुष है ॥

५—अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरूपं ॥ त्वष्टारं सोमपीतये—ऋ० १ । २२ । ६ । यजु० २६ । २० ॥ (अग्ने) हे विद्वानी पुरुष ! (इह) यहां पर (देवानाम्) विजय चाहने वाले वीरों की (उशतीः) कामना करती हुई (पत्नीः) पालन शक्तियों से (त्वष्टारम्) सूक्ष्म करने वाले गुण को (सोमपीतये) अमृत पीने के लिये (उप आ वह) तू ला ॥

६—उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । रतोर्विधेमाग्नये—अथ० २० । १ । ३ । ऋ० । ८ । ४३ । ११ ॥ (उक्षान्नाय) प्रवलों के अन्नदाता, (वशान्नाय) वशीभूत [निर्वल प्रजाओं] के अन्नदाता, (सोमपृष्ठाय) ऐश्वर्य के सींचने वाले, (वेधसे) बुद्धिमान् (अग्नये) अग्नि [समान तेजस्वी राजा] को (स्तोमैः) स्तुति योग्य व्यवहारों से (विधेम) हम पूजा करें ॥

७—प्रातर्यावभिरागतं देवेभिर्जेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये—ऋ० ८ । ३८ । ७ ॥ (जेन्यावसू) हे जयशील धन वाले (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि दोनों [विजुली और अग्नि के समान राजा और मन्त्री] (प्रातर्यावभिः) प्रातःकाल चलने वाले (देवेभिः) विद्वानों के साथ (सोमपीतये) अमृत पीने के लिये (आ गतम्) तुम आओ ॥

कण्डिका २१ ॥

ते वै खलु सर्व एव माध्यन्दिने प्रथितानां प्रत्यक्षादैन्द्रीभिर्यजन्ति, अभितृणवतीभिरेके पिवा सोममभि यमुग्र तर्द इति, होता यजति । स ईम्पाहि य ऋजीपी तरुत्र इति, मैत्रावरुणः । एवा पाहि प्रत्तथा मन्दतु त्वेति, ब्राह्मणाच्छुत्सी । अर्वाङ्गेहि सोमकामन्त्वाहुरिति, पोता । तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वाङ्गिति, नेष्टा । इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना इति, अच्छावाकः । आपूर्णा अस्य कलशः स्वाहेति आग्नीध्रः । एवमु हैता अभितृणवत्या भवन्ति । इन्द्रो वै प्रातः सवनन्नाभ्यजयत्, स एताभिर्माध्यन्दिन सवनमभ्यतृणवत्, तद्यदेताभिर्माध्यन्दिनं सवनमभ्यतृणवत्, तस्मादेता अभितृणवत्या भवन्ति ॥ २१ ॥

कण्डिका २१ ॥ माध्यन्दिन सवन में इन्द्र को हवि ॥

(ते वै खलु सर्वे एव माध्यन्दिने प्रतिस्थानां प्रत्यक्षात् ऐन्द्राभिः यजन्ति, एके अभितृणवतीभिः) वे सब ही [ऋत्विज] माध्यन्दिन सवन में उपस्थित [सोम यज्ञों] के बीच प्रत्यक्ष इन्द्र शब्द वाली ऋचाओं से यज्ञ करते हैं और कोई कोई अभितृणवती [अभि सहित तृद धातु के रूप वाली ऋचाओं] से [यज्ञ करते हैं, जैसे]—(पिबा सोममभि यमुग्र तर्हः—इति होता यजति, स ईम् पाहि यः ऋजीषी तरुत्रः—इति मैत्रावरुणः, एवा पाहि प्रलथा मन्दतु त्वा—इति ब्राह्मणाच्छंसी) पिबा सोममभि.....—इस मन्त्र से होता यज्ञ करता है, स ईम् पाहि.....—इस से मैत्रावरुण, एवापाहि प्रलथा.....—इस से ब्राह्मणाच्छंसी [यज्ञ करता है, इन तीन मन्त्रों में अभि सहित तृद धातु और इन्द्र शब्द का प्रयोग है] ॥

(अर्वाङ्गेहि सोमकामं त्वाहुः—इति पोता, तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वाङ्—इति नेष्टा, इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदानाः—इति अच्छावाकः, आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा—इति आग्नीध्रः) अर्वाङ्गेहि.....—इस मन्त्र से पोता, तवायं सोम.....—इस से नेष्टा, इन्द्राय सोमाः.....—इस से अच्छावाक, आपूर्णो अस्य.....—इस से आग्नीध्र [यज्ञ करता है, यह चार मन्त्र इन्द्र शब्द के प्रयोग वाले हैं] ॥

(एवम् उ ह एताः अभितृणवत्यः भवन्ति) इस प्रकार [माध्यन्दिन सवन में प्रयोग से] ही यह ऋचायें अभितृणवती [अभि सहित तृद धातु के प्रयोग वाली] होती हैं । (इन्द्रः वै प्रातःसवनं न अभ्यजयत्, सः एताभिः माध्यन्दिनं सवनम् अभ्यतृणवत्) इन्द्र ने ही प्रातःसवन में विजय नहीं पाया, उस

२१—(प्रस्थितानाम्) उपस्थितसोमयागानां मध्ये (अभितृणवतीभिः) अभिपूर्वस्य तृदिर् हिंसानादरयोः इति धातो रूपं यासु ताभिः ऋग्भिः (उग्र) तेजस्विन् (तर्हः) नाशितवानसि (ईम्) प्राप्तं वस्तु (ऋजीषी) अर्जेऋज च । उ० ४ । २८ । ऋज गतौ—ईषन् कित्, ऋजीष—इनि । सरलस्वभावः (तरुत्रः) अशिन्नादिभ्य इत्रोत्रौ । उ० । ४ । १७३ । तृ सवनतरणयोः अभिभवे च—उत्रप्रत्ययः । अभिभविता । विजेता (प्रलथा) पूर्वं यथा (मन्दतु) हर्षयतु (अर्वाङ्) अभिमुखः (सोमकामम्) ऐश्वर्यं कामयमानम् (अभ्यतृणवत्) अभ्यतृणत्—ऐ० ब्रा० ६ । ११ । अभितः तर्हनमकरोत् । इदं वन्धनेन स्थापितवान् (अभितृणवत्यः) अभिपूर्वस्य तृदिर्धातो रूपयुक्ताः ॥

ने इन ऋचाओं से माध्यन्दिन सवन को वश में किया । (तत् यत् एताभिः माध्यन्दिनं सवनम् अभ्यतृणवत् तस्मात् एताः अभितृणवत्यः भवन्ति) सो जो इन ऋचाओं से माध्यन्दिन सवन को उस ने वश में किया, इस लिये यह ऋचायें अभितृणवती [अभि सहित तृद मारना, अनादर करना धातु के प्रयोग चाली] हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ—कण्डिका २० के अनुसार है ॥ २१ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका के ऐ० ब्रा० ६ । ११ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(अभितृणवतीभिः तथा अभितृणवत्यः) के स्थान पर (अभितृणवतीभिः तथा अभितृणवत्यः) और (आर्वाङ्) के स्थान पर (अर्वाङ्) पद ऐतरेय ब्राह्मण से शुद्ध किया है ॥

टिप्पणी ३—संकेत वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—पिब॑ सामं॑मुभि॑ यमु॑ग्र तर्दं॑ ऊ॒र्वं गव्यं॑ महि॑ गृणान॑ इन्द्रः । वि॑ यो धृ॑ष्णो॒ वधि॑षो॒ वज्र॑हस्त॒ विश्वा॑ वृ॒त्रम॑मि॒त्रिया॑ श॒वोभिः—ऋ० ६ । १७ । १ ॥ (उग्र इन्द्र) हे तेजस्वी इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सामं पिब) साम [तत्त्वरस] को पी, (यम् अभि) जिस [साम] के लिये (महि गव्यं गृणानः) बड़े गौवों क घृत की स्तुति करते हुये तूने (ऊर्वम्) मारने योग्य शत्रु को (तर्दः) मारा है, (यः) जिस तूने (धृष्णो) हे निर्भय ! (वज्रहस्त) हे वज्रहाथ में रखने वाले ! (शवोभिः) अपने बलों से (विश्वा वृत्रम् अमित्रिया) सब रोकने वाले वैरियों को (वि वधिषः) विशेष करके नाश किया है ॥

२—स ई॑ पाहि॑ य ऋ॑जीषी॒ तरु॑त्रो॒ यः शिप्र॑वान् वृष॒भो यो म॑तीनाम् । यो गो॒त्रभिद्व॑ज्भृ॒द्यो हरि॑ष्ठाः स इन्द्र॑ चि॒त्राँ अभि॑ तृन्धि॒ वाजान्—ऋ० ६ । १७ । २ ॥ (सः) वह तू (ई पाहि) प्राप्त वस्तु की रक्षा कर, (यः ऋजीषी तरुत्रः) जो तू सीधे स्वभाव वाला और विजयी है, (यः शिप्रवान्) जो तू सुन्दर ठुड़ी और नासिका वाला है, (यः मतीनां वृषभः) जो तू विद्वानों में महाबला है, (यः गोत्रमित् वज्रभृत्) जो तू पहाड़ों का तोड़ने वाला और वज्र रखने वाला है, (यः हरिष्ठाः) जो तू मनुष्यों में बैठने वाला है, (सः इन्द्र) सो तू, हे इन्द्र ! [राजन्] (चित्रान् अभि) अद्भुत व्यवहारों के लिये (वाजान् तृन्धि) संग्रामों का नाश कर ॥

३—ए॒वा पा॑हि॒ प्र॒त्नया॑ मन्द॑तु॒ त्वा श्रु॑धि॒ ब्रह्म॑ वावृ॒धस्वो॑त॒ गीभिः॑ । आ॒विः सूर्य॑म् कृ॒णुहि॑ पी॒पिही॑षो॒ ज॒हि शत्रू॑ र॒भिगा॑ इन्द्र॒ तृन्धि—अथ० २० ।

८। १, ऋ० ६। १७। ३ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (प्रलथा एव) पहिले के समान ही [हमारी] (पाहि) रक्षा कर, (ब्रह्म) ईश्वर वा वेद (त्वा मन्दतु) तुझे हर्षित करे, [उसे] (श्रुधि) सुन (उत) और (गीभिः) वेदवाणियों से (ववृधस्व) बढ़ । (सूर्यम्) सूर्य [सूर्य समान विद्या प्रकाश] को (आविः कृणु) प्रकट कर, (इषः) अन्नों को (पीपिहि) प्राप्त हो, (शत्रून् जहि) शत्रुओं को मार और [उन की] (गाः) वाणियों को (अभि तृन्धि) सर्वथा मिटा दे ॥

४—अर्वाङ्गेहि सोमकामं त्वाहुर्यं सुतस्तस्य पिबा मदाय । उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव नः शृणुहि ह्यमानः—अथ० २०। ८। २। ऋग्० १। १०४। ६ ॥ [हे सभाध्यक्ष !] (अर्वाङ् आ इहि) सामने आ, (त्वा) तुझ को (सोमकामम्) ऐश्वर्य चाहने वाला (आहुः) वे कहते हैं, (अयं सुतः) यह सिद्ध किया हुआ [तत्त्वरस] है, (मदाय) हर्ष के लिये (तस्य पिब) उस का पान कर । (उरुव्यचाः) बड़े सत्कार वाला तू (जठरे) अपने पेट में [उसे] (आ वृषस्व) सींच ले, (पिता इव) पिता के समान (ह्यमानः) पुकारा गया तू (नः) हमारी (शृणुहि) सुन ॥

५—तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वाङ् शश्वत्तमं सुमना अस्य पाहि । अस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र—ऋ० ३। ३५। ६ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (तव अयं सोमः) तेरा यह सोम [ऐश्वर्य कारक तत्त्व रस] है, (त्वम् अर्वाङ् आ इहि) तू सामने आ, (सुमनाः) प्रसन्न चित्त तू (शश्वत्तमम्) सदा ही (अस्य पाहि) इन [ऐश्वर्य] की रक्षा कर । (अस्मिन् बर्हिषि यज्ञे) इस वृद्धिकारक यज्ञ [संगति व्यवहार] में (निषद्य) बैठ कर (इमम् इन्दुम्) इस इन्दु [ऐश्वर्यकारक तत्त्व रस] को (जठरे आ दधिष्व) उदर में भले प्रकार धारण कर ॥

६—इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना ऋभुर्येभिर्वृषपर्वा विहायाः । प्रयम्यमानान् प्रति षू गृभायेन्द्र पिव वृषधूतस्य वृष्णः—ऋ० ३। ३६। २ ॥ (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य के लिये (सोमाः) उत्पन्न पदार्थ (प्रदिवः) बड़े प्रकाशमान (विदानाः) प्राप्त होते हुये हैं, (येभिः) जिन [पदार्थों] के द्वारा (ऋभुः) बुद्धिमान् पुरुष (वृषपर्वा) समर्थ पालनों वाला और (विहायाः) अनर्थ छोड़ने वाला है । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (प्रयम्यमानान्) अच्छे प्रकार नियम युक्त पुरुषों को (सु प्रति गृभाय) ठीक ठीक ग्रहण कर और

(वृषधूतस्य) सेचनों से मथे हुये (वृष्णः) बढाने वाले रस का (पिब) पान कर ॥

७—आपूर्णा अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबध्वै ।
समु प्रिया आववृत्रन् मदाय प्रदक्षिणिट्भि सोमासु इन्द्रम्—अ० २० । ८ । ३,
ऋ० ३ । ३२ । १५ ॥ (अस्य) इस [महापुरुष] का (कलशः) कलश (आपूर्णाः)
मुंहामुंह भरा है, (स्वाहा) सुन्दर वाणी के साथ (सेक्ता इव) भरने वाले के
समान मैं ने (कोशम्) वर्तन को (पिबध्वै) पीने के लिये (सिसिचे) भरा
है । (प्रियाः) प्यारे (प्रदक्षिणिट्) दाहिनी ओर को प्राप्त होने वाले (सोमासः)
सोम [महौषधियों के रस] (मदाय) हर्ष के लिये (इन्द्रम् अभि) इन्द्र
[परम पेश्वर्य वाले प्रधान] को (उ) ही (सम्) यथाविधि (आ) सब
ओर से (अववृत्रन्) वर्तमान हुये हैं ॥

कण्डिका २२ ॥

तदाहुः, यदैन्द्रार्भवं तृतीयसवनमथ कस्मादेक एव तृतीयसवने प्रस्थितानां
प्रत्यक्षादैन्द्रार्भव्या यजति । इन्द्र ऋभुभिर्वाजवद्भिः समुक्षितमिति हेतैव नाना-
देवत्याभिरितरे कथं तेषामैन्द्रार्भव्यो भवन्ति । इन्द्रावरुणा सुतपाविमथ्सुत-
मिति मैत्रावरुणो यजति । युवां रथो अध्वरो देववीतय इति, बहूनि वा ह तद्व-
भूणां रूपम् । इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पत इति, ब्राह्मणाच्छंसी यजति । आ वां
विशन्त्विन्दवः स्वाभुव इति बहूनि वा ह तद्वभूणां रूपम् । आ वो वहन्तु सप्तयो
रघुष्यद् इति पोता यजति । रघुपत्वानः प्र जिगात वाहुभिरिति, बहूनि वा ह
तद्वभूणां रूपम् । अमेव नः सुहवा आ हि गन्तनेति नेष्टाय जति । गन्तनेति,
बहूनि वा ह तद्वभूणां रूपम् । इन्द्राविष्णु पिबतं मध्यो अस्येत्यच्छ्वावाको यजति ।
आ वामन्धांसि मदिरायग्मन्निति, बहूनि वा ह तद्वभूणां रूपम् । इमथ्सतोम-
मर्हते जातवेदस इत्याग्नीध्रो यजति । रथमिव सं महेमा मनीषयति, बहूनि वा
ह तद्वभूणां रूपम् । एवमु हैता ऐन्द्रार्भव्यो भवन्ति, यन्नानादेवत्यास्तेनान्या
देवताः प्रीणाति । यदु जगत्प्रासाहै जागतमु वै तृतीयसवनं तृतीयसवनस्य
समष्ट्यै ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ तृतीय सवन में इन्द्र और ऋभुओं को हवि ॥

(तत् आहुः, यत् ऐन्द्रार्भवं तृतीयसवनम्, अथ कस्मात् एकः एव तृतीय-
सवने प्रस्थितानां प्रत्यक्षात् ऐन्द्रार्भव्या यजति) फिर वे [ब्रह्मवादी] कहते
हैं—जब इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] और ऋभु देवताओं [विद्वानों] का

तृतीय सवन है, फिर किस लिये एक ही [ऋत्विज] तृतीय सवन में उपस्थित [सोमयाजों] के बीच प्रत्यक्ष रूप से इन्द्र और ऋभु देवताओं की ऋचा से यज्ञ करता है। (इन्द्र ऋभुभिः वाजवद्भिः समुक्षितम् इति होता एव, नाना-देवत्याभिः इतरे, कथं तेषाम् ऐन्द्रार्भव्यः भवन्ति) इन्द्र ऋभुभिर्वाजवद्भिः समुक्षितम्—इस ऋचा से होता ही। १। और अनेक देवताओं वाली ऋचाओं से दूसरे [यज्ञ करते हैं], कैसे इन [ऋत्विजों] की इन्द्र और ऋभुओं वाली [ऋचार्ये] होती हैं। (इन्द्रवरुणा सुतपाविमं सुतम्—इति मैत्रावरुणः यजति) इन्द्रावरुणा.....इस ऋचा से मैत्रावरुण [प्राण और अपान वायु जानने वाला] यज्ञ करता है। २। (युवो रथो अध्वरो देववीतये—इति बहूनि वा ह, तत् ऋभूणां रूपम्) युवो रथो अध्वरो देववीतये—[पूर्वोक्त ऋचा के देववीतये=देवानां वीतये] इस पद में बहुवचनत्व है, वह ऋभुओं का रूप है। (इन्द्रश्च सोमं पिवतं बृहस्पते, इति ब्राह्मणाच्छंसी यजति) इन्द्रश्च सोमं पिवतंइस ऋचा से ब्राह्मणाच्छंसी यज्ञ करता है। ३। (आ वां विशन्त्विन्दवः स्वाभुवः, इति बहूनि वा ह, तत् ऋभूणां रूपम्) आ वां विशन्त्विन्दवः.....—[पूर्वोक्त मन्त्र के इस भाग में] जो बहुवचनान्त पद है, वह ऋभुओं का रूप है। (आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदः—इति पीता यजति) आ वो वहन्तु.....—इस ऋचा से पीता यज्ञ करता है। ४। (रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः—इति बहूनि वा ह, तत् ऋभूणां रूपम्) रघुपत्वानः.....—[पूर्वोक्त ऋचा में जो] बहुवचनान्त है वह ऋभुओं का रूप है। (अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन

२२—(इन्द्रार्भवम्) इन्द्रदेवताकम् ऋभुदेवताकं च (ऋभुभिः) मेधा-विभिः (वाजवद्भिः) प्रशस्तान्नयुक्तैः (इन्द्रावरुणा) विद्युद् वायुवद् वर्तमानौ राजप्रजाजनौ (सुतपौ) पुत्रपालकौ (सुतम्) पुत्रम् (युवोः) युवयोः (अध्वरः) अध्वन्+रा दाने—क। मार्गप्रदः (देववीतये) दिव्यपदार्थानां प्राप्तये (बहूनि) बहुवचनान्तानि पदानि (इन्द्रः) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (सोमम्) सदोषधि-रसम् (बृहस्पते) हे बृहत्या वेदवाण्या रक्षक विद्वन् (आ विशन्तु) प्रविशन्तु। प्रामुबन्तु (इन्द्रवः) ऐश्वर्याणि (स्वाभुवः) सुष्ठु सर्वतो भवन्तः (वः) युष्मान् (सप्तयः) वस्येस्तिः । उ० ४। १८०। षप समवाये—तिप्रययः । अश्वाः (रघु-ष्यदः) रघि गतौ—उप्रत्ययः, नलोपः + स्यन्दू प्रस्त्रवणे—क्विप् । दीर्घगामिनः (रघुपत्वानः) अन्येभ्योपि दृश्यन्ते । पा० ३। २। ७५ । रघु+पत्त्वा गतौ—चनिप् । शीघ्रं गच्छन्तः (जिगात) गा स्तुतौ—ब्रुहोत्यादिकः । जिगाति गति-

इति नेष्टा यजति) अमेव नः.....—इस ऋचा से नेष्टा यज्ञ करता है । ५ ।
 (गन्तन इति बहूनि वा ह, तत् ऋभूणां रूपम्) गन्तन.....—यह पद [पूर्वोक्त
 ऋचा में] बहुवचनान्त है, वह ऋभुओं का रूप है । (इन्द्राविष्णु पिवतं मध्वो
 अस्य—इति अच्छावाकः यजति) इन्द्राविष्णु.....—इस ऋचा से अच्छावाक्
 यज्ञ करता है । ६ । (आ वामन्धांसि मदिरारायगमन्—इति बहूनि वा ह, तत्
 ऋभूणां रूपम्) आ वामन्धांसि.....—[पूर्वोक्त ऋचा में] जो बहुवचनान्त है,
 वह ऋभुओं का रूप है । (इमं स्तोममर्हते जानवेदसे इति आग्नीध्रः यजति)
 इमं स्तोममर्हते—इस ऋचा से आग्नीध्र यज्ञ करता है । ७ । (रथमिव
 सं महेमा मनीषया.....—इति बहूनि वा ह, तत् ऋभूणां रूपम्) रथमिवसं ..
 ...—[पूर्वोक्त मन्त्र के इस भाग में] जो बहुवचनान्त पद हैं, वह ऋभुओं
 का रूप हैं । (एवम् उ ह एताः ऐन्द्रार्भव्यः भवन्ति, यत् नानादेवत्याः तेन
 अन्याः देवताः प्रीणाति) इस प्रकार से ही यह सब इन्द्र और ऋभु देवताओं
 की ऋचाय हैं, जो अनेक देवता वाली हैं उन से दूसरे देवताओं को वह प्रसन्न
 करता है । (यत् उ जगत्प्रासाहै, जागतम् उ वै तृतीः सवनम्, तृतीयसवनस्य
 समष्ट्यै) जो [यह ऋचायें] संसार की बड़ी सहायता के लिये हैं, संसार
 के हित के लिये ही यह तृतीयसवन है, [वे ऋचायें] तृतीयसवन की सिद्धि के
 लिये हैं ॥ २२ ॥

भावार्थ—करिडका २० के समान है ॥ २२ ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को ऐतरेय ब्राह्मण ६ । १२ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(रः ऋषिपदः और इन्द्राविष्णु) के स्थान पर (रघुप्यदः और
 इन्द्राविष्णु) वेद और ऐतरेय ब्राह्मण से यथासंख्य ठीक किये गये हैं ॥

टिप्पणी ३—संकेत वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

कर्मा—निघ० २ । १४ । गच्छत (अमाइव) गृहं यथा (नः) अस्मान् (सुहवाः)
 शोभणाह्वानाः (गन्तन) गच्छत (इन्द्राविष्णु) वायुविद्युताविव राजमन्त्रिणौ
 (मध्वः) मधुरस्य (अन्धांसि) अन्नानि (मदिराणि) आनन्दकराणि (स्तो-
 मम्) गुणकीर्तनम् (अर्हते) योग्याय (जातवेदसे) जातानामुत्पन्नानां वेत्रे
 (सम्) सम्यक् (महेम) पूजयेम । सत्कुर्याम (मनीषया) प्रज्ञया (जगत्प्रा-
 साहै) सह मर्षणे तृतां च—अच्, टाप् । आपौ दीर्घ्यकारलोपौ । जगतः
 संसारस्य प्रासाहायै । प्रकृष्टसहायतायै तृप्तये (जागतम्) जगते संसाराय
 हितम् (समष्ट्यै) सम्प्राप्तये । संसिद्धये ॥

१—इन्द्रं ऋभुभिर्वाजवद्भिः समुक्षितं सुतं सोममा वृषस्वा गभस्त्योः ।
धियेषितो मघवन् दाशुषो गृहे सौधन्वनेभिः सह मत्स्वा नृभिः—ऋ० ३ ।
६० । ५ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (वाजवद्भिः)
उत्तम अन्न वाले (ऋभुभिः) ऋभुओं [बुद्धिमान् जनों] के साथ (समुक्षितं
सुतं सोमम्) यथाविधि सींचे हुये और उरपन्न किये हुये ऐश्वर्य को (गभ-
स्त्योः) [हगारे] दोनों हाथों में (आ वृषस्व) सब ओर से बरसा । (मघ-
वन्) हे बड़े धन वाले ! (धिया इपितः) बुद्धि से प्रेरित तू (दाशुषः गृहे)
दानी के घर में (सौधन्वनेभिः) बड़े बड़े धनुर्धारी वा विज्ञानी (नृभिः सह)
नेताओं के साथ (मत्स्व) आनन्द कर ॥

२—इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मद्य धृतव्रतौ । युवो रथो
अध्वरा देववीतये प्रति स्वस्वसमुपयातु पीतये—अथ० १७ । ५८ । १ । ऋ० ६ ।
६८ । १० ॥ (सुतपौ) हे पुत्रों की रक्षा करने वाले ! (धृतव्रतौ) उत्तम कर्मों
के धारण करने वाले (इन्द्रावरुणा) बिजुली और वायु [के समान राजा और
प्रजा जन] (इमं सुतम्) इस पुत्र को (मद्यम्) आनन्ददायक (सोमम्)
ऐश्वर्य [वा बड़ी बड़ी ओषधियों का रस] (पिबतं=पाययतम्) पान कराओ ।
(युवोः) तुम दोनों का (अध्वरः) मार्ग बताने वाला (रथः) विमान आदि
यान (देववीतये) दिव्यपदार्थों की प्राप्ति के लिये और (पीतये) वृद्धि के
लिये (प्रतिस्वस्वसम्) प्रति दिन वा प्रति घर (उप यातु) आया करे ॥

३—इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन् यज्ञे मन्दसाना वृषणवसू ।
आ वां विशन्तिवन्दवः स्वाभुवोऽस्मे रयिं सर्ववीरं नियच्छतम्—अथ० २० । १३ ।
१, ऋ० ४ । ५० । १० ॥ (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्]
(च) और (इद्रः) हे इन्द्र ! [अत्यन्त ऐश्वर्य वाले राजन्] (मन्दसाना)
आनन्द देने वाले, (वृषणवसू) बलवान् वीरों को निवास कराने वाले तुम
दोनों (सोमम्) सोम [उत्तम ओषधियों के रस] को (अस्मिन् यज्ञे) इस
यज्ञ [राजपालन व्यवहार] में (पिबतम्) पीओ । (स्वाभुवः) अच्छे प्रकार
सब ओर होने वाले (इन्द्रवः) ऐश्वर्य (वां) तुम दोनों में (आ विशन्तु)
प्रवेश करें, (अस्मे) हम को (सर्ववीरम्) सब को बीर बनाने वाला (रयिम्)
धन (नि) नियमपूर्वक (यच्छतम्) तुम दोनों दो ॥

४—आ वो वहन्तु सतयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्रा जिगात वाहुभिः ।
सीदता बर्हिरुवः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः—अथ० २० ।
१३ । २, ऋ० १ । ८५ । ६ ॥ (मरुतः) हे विद्वान् शूरो (वः) तुम को (रघुष्यदः)

शीघ्रगामी (सप्तयः) घोड़े (आ वदन्तु) सब ओर ले चलें, (रघुपत्वानः) शीघ्रगामी तुम (बाहुभिः) भुजाओं [हस्तक्रियाओं] से (प्र जिगात) आगे बढ़ो । और (उरु वहिः) चौड़े आकाश में (आ सीदत) आओ जाओ, (वः) तुम्हारे लिये (सदः) स्थान (कृतम्) बनाया गया है, (मध्वः अन्धसः) मधुर अन्न से (मादयध्वम्) [स्वयं को] तृप्त करो ॥

५—अवेव नः पुठया आ हि गन्तुं नि वहिषि सदतन्ना रणिष्टन ।
ब्रथा मन्दस्व तु पुषाणा अथ वस्वर्षीषिजीनिभिः तुम ह्येताः—ऋ० २ । ३६ ।
३ ॥ (पुषाणाः) हे अग्ने! ब्रथा पुषाणा तुमको वास्तु विद्वानों ! (अमा इव) घर के लानन (नः) उरु से (हि) निरन्तर अन्नके (आ गन्तुं) आओ, (वहिषि) कृत्स्नकारक व्यवहार में (वि सदतन्) बैठो और (रणिष्टन) उपदेश करो । (अथ) फिर (वदतः) हे मूढम करने वाले ! [सभापति] (देवेभिः) दिव्य गुणों से (अग्निभिः) जगता के साथ (अन्धसः तुमुपासः) अन्न का सेवन करता हुआ अन्न (सुमदुग्णः) बड़े मन्तनीय सन्तानदा पाता लू (मन्दस्व) आनन्द पा ॥

६—इन्द्राधिष्णुं पिबतुं मर्षी प्रस्य सोमस्य दक्षा जठरं पृणथाम् । आ
वामन्ध्रालि मदिराख्यं प्रमुपु ब्रह्माणि शृणुतुं हव्यं मे—ऋ० ६ । ६६ । ७ ॥
(दक्षा इन्द्राधिष्णु) हे दुःस्वनाशक इन्द्र और पिप्पु [वायु और विजुली के समान दोनों राजा और मन्त्री] (प्रस्य सोमस्य) इस घीटे सोम आदि ओषधियों के रस का (पिबतम्) पान करो और (जठरं पृणथाम्) उदर को भरो । (मदिराखि अन्धालि) आनन्द देने वाले अन्न (वाम्) तुम दोनों को (आ अगमन्) प्राप्त हुये हैं, (ब्रह्माणि) वेदज्ञानों और (मे हव्यम्) मेरी पुकार को (उप शृणुतम्) तुम दोनों समीप से सुनो ॥

७—इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । भद्रा हि
नः प्रमतिरस्य संमद्यन्ते नृस्ये मा रिषामा वयं तव—अथ० २० । १३ । ३; ऋ०
१ । ६४ । १ और सामवेद पू० १ । ७ । ४ तथा पू० ४ । १ । ७ ॥ (अर्हते) योग्य,
(जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे [पुरुष] के लिये (इमं स्तोमम्) इस गुण कीर्तन को (रथम् इव) रथ के समान (मनीषया) बुद्धि से (सम्) यथावत् (महेम) हम पढ़ावें । (हि) क्योंकि (अस्य) इस [विष्ठान्] की (प्रमतिः) उत्तम समझ (संसदि) सभा के बीच (नः) हमारे लिये (भद्रा) कल्याण करने वाली है । (अग्ने) हे अग्नि ! [तेजस्वी विष्ठान्] (ते सस्ये) मेरी मित्रता में (वयम्) हम (मा रिषामा) न तुनी होवें ।

कण्डिका २३ ॥

विचक्षणवतीं वाचं भाषन्ते चनसितवतीम् विचक्षयन्ति, ब्राह्मणं चन-
सयन्ति, प्राजापत्यं सत्यं वदन्ति । एतद्वै मनुष्येषु सत्यं यच्चक्षुः । तस्मादाहुरा-
चक्ष्णामद्रागिति । स यदाहाद्राक्षमिति । तथाहास्यं श्रद्धधति, यद्यु वै स्वयं वै
दृष्टं भवति, न बहूनां जनानामेष श्रद्धधाति । तस्माद्विचक्षणवतीं वाचं भाषन्ते
चनसितवतीम् । सत्योत्तरा हैवैषां वागुदिता भवति ॥ २३ ॥

कण्डिका २३ ॥ सत्य ही बोलना चाहिये ॥

(विचक्षणवतीं वाचं भाषन्ते, चनसितवतीं विचक्षयन्ति) वे [ब्रह्मवादी
लोग] विचक्षणवती [विविधदर्शी शब्द वाली] वाणी बोलते हैं और चनसित-
वती [पूजनीय शब्द वाली वाणी] कहते हैं । (प्राजापत्यं ब्राह्मणं चनसयन्ति)
प्रजापति देवता वाले ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] को चनसित [पूजनीय] शब्द वाली
वाणी वे बोलते हैं । [अर्थात् चनसित शब्द वाली वाणी ब्राह्मण को और
विचक्षण शब्द वाली क्षत्रिय और वैश्य को बोलते हैं] । (सत्यं वदन्ति) वे
सत्य बोलते हैं । (एतत् वै मनुष्येषु सत्यं यत् चक्षुः) यह ही मनुष्यों में सत्य है
जो आंख [आंख से देखा हुआ] है । (तस्मात् आचक्ष्णाम् आहुः, अद्राक्
इति) इस लिये बात कहते हुये से वे कहते हैं—क्या तू ने देखा है ? (सः यत्
आह अद्राक्षम् इति, तथा ह अस्य श्रद्धधति) सो जब वह कहता है—मैं ने
देखा है—उस प्रकार से ही उस की [बात में] श्रद्धा करते हैं । (यदि उ वै वै
स्वयं दृष्टं भवति बहूनां जनानाम् एषः न श्रद्धधाति) यदि निश्चय करके
अपने आप देखा हुआ वस्तु होता है, [बिना देखने वाले] बहुत जनों का यह
[आप देखने वाला] विश्वास नहीं करता । (तस्मात् विचक्षणवतीं चनसित-
वतीं वाचं भाषन्ते) इस लिये विचक्षणवती [विविधदर्शी शब्द वाली] और
चनसितवती [पूजनीय शब्द वाली] वाणी वे बोलते हैं । (एषां ह एव सत्यो-

२३—(विचक्षणवतीम्) गो० पू० ३ । १६ । विचक्षणशब्दयुक्ताम्
(विचक्षयन्ति) विशेषेण कथयन्ति (ब्राह्मणम्) ब्रह्मज्ञानिनम् (चनसयन्ति)
चनसितशब्दयुक्तां वाचं कथयन्ति (प्राजापत्यम्) प्रजापतिदेवताकम् (आच-
क्ष्णाम्) चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि दर्शने च—शानच् । कांचिद् वार्तां कथयमानं
पश्यन्तं वा (अद्राक्) अद्राक्षीः । दृष्टवानसि (अद्राक्षम्) दृष्टवानस्मि (श्रद्धधति)
श्रद्धां धरन्ति । विश्वासं कुर्वन्ति (सत्योत्तरा) सत्यपूर्णा (उदिता) कथिता ॥

त्तरा वाक् उदिता भवति) इन [ब्रह्मवादियों] की ही सत्यपूर्ण वाणी कही हुई होती है ॥ २३ ॥

भावार्थ—एक सत्यवादी आप्त पुरुष की बात में लोगों की श्रद्धा बढ़ती है और बहुत से मिथ्यावादियों की श्रद्धा घटती है, इस लिये मनुष्यों को सदा सत्य बोलना चाहिये ॥ २३ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को गो० पू० ३ । १६ । और ऐ० ब्रा० १ । ६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(अन्द्रिराक्) शब्द के स्थान पर (अशक्) पद ऐतरेय ब्राह्मण से शुद्ध किया है ॥

कण्डिका २४ ॥

सवृतयज्ञो वा एपः, यद्दर्शपूर्णमासौ । कस्य वाव देवा यज्ञमागच्छन्ति, कस्य वा न, वहनां वा एतन् यजमानानां सामान्यमहः । तस्मात् पूर्वद्युर्देवताः परिगृह्णीयात् । यो ह वै पूर्वद्युर्देवताः परिगृह्णाति, तस्य श्वोभूते यज्ञमागच्छन्ति । तस्माद्विहव्यस्य चतस्र ऋचो जपेत् । यज्ञविदो हि मन्यन्ते, साम एव सवृत इति, यज्ञो यज्ञेन सवृतः ॥ २४ ॥

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणोत्तरभागे द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ।

कण्डिका २४ ॥ दर्शपूर्णमास यज्ञ में देवताओं को एक दिन पहिले निमन्त्रण करे ॥

(सवृतयज्ञः वै एपः, यत् दर्शपूर्णमासौ) बहुनों से एक साथ स्वीकार किया हुआ यज्ञ ही यह होता है जो दर्शपूर्णमास [अमावस और पूर्णमासी के यज्ञ] हैं । (देवाः कस्य वाव यज्ञम् आगच्छन्ति, कस्य वा न, वहनां यजमानानाम् एतत् सामान्यम् अहः) देवता [विद्वान् लोग] किसी के ही यज्ञ में आते हैं और किसी के नहीं, बहुत से यजमानों का यह सामान्य दिन है । (तस्मात् पूर्वद्युः देवताः परिगृह्णीयात्) इस लिये पहिले दिन देवताओं को स्वीकार करे । (यः ह वै पूर्वद्युः देवताः परिगृह्णाति, श्वोभूते तस्य यज्ञम् आगच्छन्ति)

२४—(सवृतयज्ञः) बहुभिः समानस्वीकृतयज्ञः (देवाः) विद्वान्सः (पूर्वद्युः) पूर्वस्मिन् दिने (परिगृह्णीयात्) स्वीकुर्यात् (श्वोभूते) आगामि-

जो [यज्ञमान] पहिले दिन विद्वानों को स्वीकार करता है, दूसरे दिन होते उस के यज्ञ में वे आते हैं । (तस्मात् विहव्यस्य चतस्रः ऋचः जपेत्) इस लिये विहव्य [विविध देने योग्य हवि] की चार ऋचाओं को [? ?] वह जपे । (यज्ञविदः हि मन्यन्ते, सोमः एव सवृतः इति, यज्ञः यज्ञेन सवृतः) क्योंकि यज्ञ जानने वाले मानते हैं—सोम यज्ञ ही समान स्वीकार किया हुआ है—[इस लिये] एक सोम यज्ञ दूसरे सोम यज्ञ से समान स्वीकार किया गया है ॥ २४ ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्वानों के बुलाने को पहिले से निमन्त्रण देवे, जिस से वे उचित समय पर निर्विघ्न आ सकें ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुरुमहिम् श्रीसयाजीराव गायक-
वाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामथर्व-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित सैमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्य उत्तरभागे द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे शैवमासे कृष्णप्रतिपदायां तिथौ १९८०
[अशीत्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-
महायशस्वि श्री राजराजेश्वर पञ्चमजार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये
सुसमाप्तिमगात् ।

मुद्रितः—भाद्रशुक्ला ८ संवत् १९८१ वि० ता० ६ सेप्टेम्बर सन् १९२४ ई० ॥

दिने वर्तमाने (विहव्यस्य) विविधदातव्यस्य हविषः (सवृतः) बहुभिः समा-
नस्वीकृतः ॥

अथ तृतीयः प्रपाठकः ॥

कण्डिका १ ॥

ओम् । देवपात्रं वै वपद्कारः । यद्वापद् करोति, देवपात्रेणैव तद्देवता-
स्तर्पयति । अथो यदाभितृष्यन्तीरभिसंख्यं तर्पयति, एतन्नेतद्देवतास्तर्पयति ।
यदनुवपद् करोति, तद्यथैवादेऽश्वान्वा गा वा पुनरभ्यावारं तर्पयति, एतन्नेव
तद्देवतास्तर्पयति, यदनुवपद् करोति । इमानेवाग्नीनुपासत इत्यादिभिर्वाग्यतश्च
कस्मात् पूर्वस्मिन्नेवाग्नी जुहति पूर्वस्मिन्वपद् करोति । यद्देव सोमस्याग्नें वीहीति
अनुवपद् करोति, तेनैव वपद् करोति, धिष्णवाद्प्रीणाति । अथ संसितान्
सोमान् भक्षयन्तीत्याहुः । येषां नानुवपद् करोति, तदाहुः, को तु सोमस्य स्विष्ट-
कृद्भाग इति । यद्देव सोमस्याग्नें वीहीत्यनुवपद् करोति, तेनैव संसितान्
सोमान् भक्षयन्तीत्याहुः । स उ एष सोमस्य स्विष्टकृद्भागः, यदनुवपद्
करोति ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ वपद्कार और अनुवपद्कार का अर्थ ॥

(ओम् । देवपात्रं वै वपद्कारः) ओम् [गृहक परमेश्वर !] देवताओं
का पात्र रूप ही वपद्कार [यज्ञ में हवि का दान] है । (यत् वापद् करोति,
तत् देवपात्रेण एव देवाः तर्पयति) जो वह [यजमान] वपद् [वपद् एव के
साथ हवि का दान] करता है । इस अर्थ में वह देवताओं के पात्र के ही देव-
ताओं को तृप्त करता है । (अथो यदाभितृष्यन्तीः अभिसंख्यं तर्पयति, एवम्
एतत् देवताः तर्पयति) फिर जैसे अग्नि पशुओं प्रजाओं को अग्नि प्रदान करता
हुआ सम्मान तृप्त करता है, ऐसे ही यह [वपद्कार] देवताओं को दान करता
है । (यत् अनुवपद् करोति, तत् अद्ः यथा एष अश्वान्वा गा वा पुनरभ्या-
वारं तर्पयति, एवम् एव तत् देवताः तर्पयति, यद् अनुवपद् करोति) जो वह
अनुवपद् [पीने से हविन्त्याण] करता है, सो वह [वपद्] ही वपद्कार, यथा

१—(वपद्) वह प्राण १—उपदि । इतिस्त्वयः (अभितृष्यन्तीः)
अभि+जितृषा पिपासायाञ्—उत्, उप, । अग्निं दीर्घः । तर्पयति पिपासिताः
प्रजाः (अभिसंख्यम्) अभिनः संख्यन्, जिज्ञा चर्मा । अश्वान्वा (गाः) तुपमान्
(पुनरभ्यावारम्) पुनः+अभि+आ+वृ लचने—सुपुम् । पुनः पुनः अभि-
मुखम् आश्रित्य यथेष्टवस्तुना संसिच्य (उवासाने) संसन्ते (वीहीति) वी गति-
व्याप्तिप्रजनकान्त्वसतन्त्रादनेषु—लोट् । भक्षणं पुन (संसितान्) देवपात्र

वैलों को [यथेष्ट वस्तु देने से] बार बार यथावत् सींचकर मनुष्य तृप्त करता है, वैसे ही उस से देवताओं को [यजमान] तृप्त करता है, जब वह अनुवपट् करता है । (इमान् एव धिष्यन् अग्नीन् उपासते—इति आहुः, अथ कस्मात् पूर्वस्मिन् एव अग्नौ जुह्वति, पूर्वस्मिन् वपट् करोति=कुर्वन्ति) [शंका] कहते हैं—इन ही धिष्य [नामवाली] अग्नियों के समीप वे [ऋत्विज्] बैठते हैं, फिर किस लिये पहिली ही अग्नि में वे हवन करते हैं और अनुवपट् करते हैं । [समाधान] (यत् एव—सोमस्याने वीहि इति अनुवपट् करोति, तेन एव वपट् करोति, धिष्यन् प्रीणाति) जो वह [यजमान]—हे अग्ने ! तू सोम का भक्षण कर—इस [ब्राह्मण वचन] से अनुवपट् करता है, और उस से ही [सामान्य अग्नि शब्द से] वह वपट् करता है, उस से धिष्य अग्नियों को प्रसन्न करता है । (अथ संस्थितान् सोमान् भक्षयन्ति—इति आहुः) [शंका] कहते हैं—फिर संस्थित [समाप्त किये हुये] सोमरसों को वे खाते हैं, (येषाम् अनुवपट् न करोति, सोमस्य कः नु स्विष्टकृद्भागः इति—तत् आहुः) जिन [अग्नियों] का अनुवपट् [यजमान] नहीं करता, सोम का कौनसा स्विष्टकृद् भाग [यज्ञ का समाप्ति सूचक व्यवहार] है—ऐसा वह कहते हैं । (यत् एव, सोमस्याग्ने वीहि इति अनुवपट् करोति, तेन एव संस्थितान् सोमान् भक्षयन्ति—इति आहुः) जो वह—हे अग्नि ! सोम का तू भक्षण कर—इस [ब्राह्मण वचन] से वह अनुवपट् करता है और उस से ही वे लोग समाप्त सोमरसों को खाते हैं—ऐसा वह कहते हैं । (सः उ एषः सोमस्य स्विष्टकृद्भागः यत् अनुवपट् करोति) वह ही यह सोम का स्विष्टकृद् भाग [प्रायश्चित्त वा समाप्तिसूचक मन्त्र] है, जो वह अनुवपट् [पीछे से वपट् उच्चारण] करता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे यज्ञ में वपट्कार, अनुवपट्कार और स्विष्टकृत् का विचार किया जाता है, वैसे ही प्रत्येक काम में मनुष्य को आदि, अन्त और मध्य का विचार लेना चाहिये ॥ १ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को षे० ब्रा० ३ । ५ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—निम्नलिखित ब्राह्मण वचन स्विष्टकृत् वा प्रायश्चित्त मन्त्र है—

(सोमान्) सोमरसान् (स्विष्टकृत्भागः) प्रायश्चित्तमन्त्रस्य यज्ञसमाप्तिसूचकमन्त्रस्य वा पाठः ॥

ओ३म् । यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टत्
स्विष्टकृद् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करीतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्व-
प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्धयित्रे सर्वान् नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा ।
इदमग्नये स्विष्टकृते-इदं न मम ॥ (ओम्) परमेश्वर । (यत्) जो कुछ (अस्य
कर्मणः) इस कर्म में (अति--अरीरिचम्) मैं ने अधिक किया है, (यद्वा)
अथवा (न्यूनम्) न्यून (इह) इस में (अकरम्) मैं ने किया है, (तत्) उस
को (सु-इष्ट-कृत्) उत्तम मनोरथ का सिद्धि करने वाला (अग्निः) परमेश्वर
(विद्यात्) जाने, वह मेरे (सर्वम्) सब (स्विष्टम्) उत्तम मनोरथ को
(सु-हुतम्) सुन्दर रीति से अङ्गीकार (करोतु) करे ।

(सु-इष्ट-कृते) उत्तम मनोरथ के सिद्ध करने हारे, (सु-हुत-हुते) उत्तम
दान के दान करने हारे, (सर्वप्रायश्चित्त-आहुतीनाम्) सब पापनाशक तप
की आहुतियों की (कामानाम्) उत्तम कामनाओं को (समर्द्धयित्रे) सिद्ध करने
हारे (अग्नये) ज्ञान के निमित्त (नः) हम सब की (सर्वान्) सब (कामान्) उत्तम
कामनाओं को (समर्द्धय) [हे परमेश्वर !] तू सिद्ध कर । (स्वाहा) यह सुन्दर
आहुति है । (इदम्) यह [आत्मसमर्पण] (सु-इष्ट-कृते) उत्तम इष्ट के सिद्ध करने
हारे (अग्नये) परमेश्वर के लिये है—(इदम् न मम) यह मेरे लिये नहीं है ॥

करिडका २ ॥

वज्रो वै वषट्कारः । स यं द्विष्यात् तं मनसा ध्यायन् वषट् कुर्यात् ।
तस्मिंस्तह्वज्जमासाययति । पडिति वषट्करोति । पड्वा ऋतवः ऋतूनामाप्त्यै ।
वांपडिति वषट् करोति । असौ वाव वौ, ऋतवः पट्, एतमेव तद्वतुष्यादधाति,
ऋतुषु प्रतिष्ठापयति । तद्दु ह स्माह, वैत एतानिव एतेन पट् प्रतिष्ठापयति ।
द्यौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठता, अन्तरिक्षं पृथिव्यां, पृथिव्यस्तु आपः सत्येन, सत्यं ब्रह्मणि,
ब्रह्म तपसि । इत्येता एव तद्देवताः प्रतिष्ठान्याः प्रतिष्ठन्तीरिदं सर्वमनु प्रति-
तिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ २ ॥

करिडका २ ॥ वषट्कार वज्र, छह ऋतु और छह आकाश
आदि हैं ॥

(वज्रः वै वषट्कारः) वज्र रूप ही वषट्कार [आहुति दान] हैं । (सः
यं द्विष्यात् तं मनसा ध्यायन् वषट् कुर्यात्) वह [यजमान] जिस को वैरी जाने,
उस को मन से ध्यान करता हुआ वषट् [आहुति दान] करे । (तस्मिन् तत्

वज्रम् आस्थापयति) उस [शत्रु] में उस से वह वज्र स्थापित करता है । (षट् इति षषट् करोति) षट् [छह, यह षषट् = ष—षट्] शब्द को जताता है । (षट् वै ऋतवः ऋतून् आप्त्यै) षट् [छह] ही ऋतुयें हैं, ऋतुओं की प्राप्ति के लिये [यह है] । (वौषट् इति षषट् करोति) वौषट् यह पद षषट्कार है । (असौ वाव वौ, ऋतवः षट्, एतम् एव तत् ऋतुषु आदधति, ऋतुषु प्रतिष्ठापयति) वह [दिखाई देना हुआ सूर्य] ही वौ [रस पहुंचाने वाला] है, ऋतुयें छह हैं, इस [सूर्य] को ही उस [आहुति दान] से ऋतुओं में वह सब ओर से धारण करता है, ऋतुओं में बूट करके ठहराता है । (तत् उ ह स वैतः आह, एतानि एव षट् एतेन प्रतिष्ठापयति) यह ही निश्चय करके वैत [गतिवेत्ता पुरुष विशेष] कहता है—इन ही छह [आगे कहे हुए] को ही इस आहुति दान से बूट स्थापित करता है । (द्यौः अन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता, अन्तरिक्षं पृथिव्यां, पृथिवीं जम्बु, आपः सत्येन, सत्यं ब्रह्मणि, ब्रह्म तपसि) द्यौ [आकाश] अन्तरिक्ष [मध्यस्थ वायु लोक] में ठहरा है १, अन्तरिक्ष पृथिवी में २, पृथिवी जल में ३, जल सत्य [सत्तामात्र वा यथार्थ व्यवहार] के साथ ४, सत्य [सत्तामात्र वा सत्य व्यवहार] ब्रह्म [परमेश्वर वा वेद] में ५, ब्रह्म तप [ब्रह्मचर्यादि व्रत धारण] में ६ । (इति एताः एव तद् देवताः प्रतिष्ठान्याः, प्रतिष्ठन्तीः अनु इदं सब प्रतितिष्ठति) सो यह ही देवता बूढ़ता से ठहरने वाले हैं, बूढ़ता से ठहरे हुये [देवताओं] के साथ साथ यह सब [जगत्] बूढ़ता से ठहरता है । (प्रजाया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद) प्रजा [सन्तान] से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐसा जानता है ॥ २ ॥

भावार्थ—यज्ञ की यथाविधि पूर्ति से मनुष्य को मनोरथ सिद्धि होती है ॥२॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० प्रा० ३ । ६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(प्रतिष्ठाता) शब्द के स्थान पर (प्रतिष्ठिता) पद ऐतरेय ब्राह्मण से शुद्ध किया है ॥

२—(षषट्-करोति) षषट्कारं ज्ञापयति (आप्त्यै) प्राप्तये (वौषट्) वह प्रापणे—वौषट् । षषट् । हविस्त्यागः (असौ) दृश्यमानः सूर्यः (वौ) वह प्रापणे—वौ । रसवाहकः (वैतः) तदधीते तद्देव । पा० ४ । २ । ५६ । वीति—अण्, गतिवेत्ता (द्यौः) आकाशः (अन्तरिक्षे) मध्यलोके । वायुलोके (ब्रह्मणि) वेदे । परमेश्वरे (तपसि) ब्रह्मचर्यादिव्रतधारणे (प्रतिष्ठान्याः) वदेरान्यः । उ० ३ । १०४ । प्रति+ष्ठा गतिनिवृत्तौ—आन्य । बूढ़स्थितिशीलः (अनु) अनुसृत्य ॥

कण्डिका ३ ॥

त्रयो वै वषट्काराः, वज्रो धामच्छृङ्कः । स यदेवोच्चैर्वलवषट् कोरति
स वज्रस्तन्तं प्रहरति द्विपते भ्रातृव्याय, वधं योऽस्य सृत्यः [स्तृत्यः], तस्म
स्तरातवे । तस्मात् स भ्रातृव्यवता वषट् कृत्यः । अथ यः स यः [समः] सन्ततो
निर्हाणच्छ [अनिर्हाणश्चः] स्वधामच्छृत् [स्वधामच्छृत्] तन्तं प्रजाद्य पशव-
श्चानूपतिष्ठन्ते । तस्मात् स प्रजापतेन पशुकामेन वषट्कृत्यः । अथ येनैव षट्
पराध्नाति स ऋक्तो रिक्त्यात्मानं रिक्तं यजमानस्य । पापीयान् वषट्कर्त्ता
भवति, पापीयान् यस्मै वषट् करोति । तस्मात् तस्याशास्त्रेयान् । किञ्चित् स
यजमानस्य पापभद्रमाद्रियेतेति ह स्माह, योऽस्य वषट्कर्त्ता भवति, अत्रैवैनं यथा
कामयेत तथा कुर्याद्यं कामयेत यथैवानीजानोऽभूत्तथैवेजानः स्यादिति । यथैवा-
स्यर्चं ब्रूयात्तथैवास्य वषट् कुर्यात् । समानमेवैनं तत् करोति यद्कामयेत पापी-
यान् स्यादिति, उच्चैस्तरामस्यर्चं ब्रूयात्तथैवैस्तरां वषट् कुर्यात्, पापीयश्च समेवैनं
तत् करोति, यं कामयेत श्रेयान् स्यादिति, नाच्चैस्तरामस्यर्चं ब्रूयादुच्चैस्तरान्
वषट् कुर्यात्, श्रेयाश्च समेवैनं तत् करोति, श्रियएवैनं तच्छ्रियमादधाति ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ तीन वषट्कार वज्र, धामच्छृत् और
रिक्त का वर्णन ॥

(त्रयः वै वषट्काराः, वज्रः धामच्छृत्, ऋक्तः [रिक्तः]) तीन ही वषट्-
कार हैं, वज्र, धामच्छृत् [यज्ञ स्थान का ढकने वाला, रक्षा करने वाला],
और ऋक्त [रीता समृद्धि रहित] । (सः यत् एव उच्चैर्वल वषट्करोति, सः
वज्रः) सो जो ही ऊंचे स्वर से वषट् शब्द करता है वह [वषट्] वज्र है ।
तं तं वधं द्विपते भ्रातृव्याय प्रहरति, यः अस्य सृत्यः, [स्तृत्यः] तस्मै स्तरातवे)
उस ही अस्त्र [वषट्] को अनिष्ट करने वाले वैरी पर चलाता है, जो इन
[यजमान] के ढकने [दवाने वा मारने] योग्य है, यह कर्म उस के ढकने
[दवाने] के लिये है । (तस्मात् सः वषट् भ्रातृव्यवता कृत्यः) इस लिये वह
वषट् वैरी वाले [यजमान] करके करना चाहिये ।

३—(धामच्छृत्) छद् अपवारणे—किप् । धाम्नः यज्ञस्थानस्य आच्छादको
रक्षकः (ऋक्तः) रिचिर् पृथग्भावे—क्त, संप्रसारणम् । रिक्तः । सम्पत्तिशून्यः
(उच्चैर्वल) विभक्तिलोपः । उच्चैर्वलेन । उच्चध्वनिना (वधम्) हननसाधनं वज्रम्
(स्तृत्यः = स्तृत्यः) स्तृञ् आच्छादनं—क्यप्—तुक् च । आच्छादनीयः । हन्तव्यः

(अथ यः सयः [समः] सन्ततः अनिर्हाणच्छ [अनिर्हाणर्चः] ऋधामच्छत्) फिर जो [वषट्] सम [निर्दोष], निरन्तर [लगातार] और सर्वथा हानिरहित ऋचा वाला [सम्पूर्ण मन्त्र पाठ वाला] है वह धामच्छत् है । (तं तं अनु प्रजाः च पशवः च उपतिष्ठन्ते, तस्मात् सः प्रजाकामेन पशुकामेन वषट्कृत्यः) उस ही [धामच्छत्] के पीछे प्रजायें और पशु पास पास ठहरते हैं, इस लिये प्रजा चाहने वाले और पशु चाहने वाले पुरुष करके वह [धामच्छत्] वषट् करना चाहिये ।

(अथ येन एव षट् पराध्नोति, सः ऋक्तः [रिक्तः] आत्मानं रिक्ति [रिणक्ति], यजमानं रिणक्ति) फिर जिस [अपपाठ] करके ही षट् [वषट्] रीता करता है [समृद्धि रहित करता है], वह रिक्त वषट् [होता के] आत्मा को रीता करता है और यजमान को रीता करता है । (वषट्कर्ता पापीयान् भवति, पापीयान्, यस्मै वषट् करोति) वषट् करने वाला ऋत्विज बड़ा पापी होता है और वह [यजमान] बड़ा पापी होता है, जिस के लिये वह वषट् करता है । (तस्मात् तस्य आशां न इयात्) इस लिये उस [रीते वषट्कार] की इच्छा को वह न पावे [न करे] ।

(किं स्वित् सः यजमानस्य पापभद्रम् आद्रियेत यः अस्य वषट्कर्ता भवति, इति ह स्म आह) क्या वह यजमान का पाप वा कल्याण चाहता है जो [ऋत्विज] इस का वषट् करने वाला है—ऐसा वह कहता है । (अत्र एव एनं यथा कामयेत तथा कुर्यात्) यहां पर ही इस [यजमान] को जैसा चाहे वैसा वह करे । (यं कामयेत यथा एव अनीजानः अभूत् तथा एव ईजानः स्यात् इति) जिस को वह चाहे—जैसा ही यज्ञ न करने वाला होता है वैसा ही यज्ञ करने वाला होवे । (यथा एव अस्य ऋचं ब्रूयात्, तथा एव अस्य वषट्कुर्यात्, तत् समानम् एव एनं कर्गोति) जिस प्रकार से ही इस की ऋचा को वह बोले, उस प्रकार से ही इस का वषट् करे, तब इस [यजमान] को समान ही वह

शत्रुः (तस्मै) तम् (स्तरीतवे) स्तृञ् आच्छादने—तवेन् । स्तरितुम् । आच्छादयितुम् (भ्रातृव्यवता) शत्रुयुक्तेन यजमानेन (समः) समानस्वरेण (सन्ततः) निरन्तरः । विच्छेदरहितः (अनिर्हाणर्चः) निःशेषेण हानं परित्यागः । निःशेषहानिरहिता ऋग् यस्मिन् स तथाभूतः । सम्पूर्णमन्त्रपाठापेतः (अनूपतिष्ठन्ते) सेवन्ते (पराध्नोति) अवाध्नोति । अवरोधम् समृद्धिरहित्यं करोति (रिक्ति) अदादित्वमाषम् । रिणक्ति (रिणक्ति) रिचिर् पृथग्भावे । रिक्तीकरोति । समृ-

करता है । (यं कामयेत पापीयान् स्यात् इति उच्चैस्तराम् अस्य ऋचं ब्रूयात्, नीचैस्तगं वपट्कुर्यात्, तत् पापीयांसम् एव एनं करोति) जिस को चाहे— यह पापी हो जावे, ऊंचे स्वर से उस की ऋचा को बोले और नीचे स्वर से वपट् करे, तब वह इस [यजमान] को पापी ही करता है । (यं कामयेन श्रेयान् स्यात् इति, नीचैस्तगाम् अस्य ऋचं ब्रूयात्, उच्चैस्तगं वपट्कुर्यात्, तत् श्रेयांसम् एव एनं करोति) जिस पुरुष को वह चाहे अधिक कल्याण वाला वह होवे, नीचे स्वर से उस की ऋचा को बोले और ऊंचे स्वर से वपट् करे, तब वह इस [यजमान] को कल्याण युक्त ही करता है । (श्रिये एव, तत् एनं श्रियम् [श्रियाम्] आदधाति) श्री [सम्पत्ति] के लिये ही [यह कर्म है], तब इस [यजमान] को सम्पत्ति में वह स्थापित करता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—कार्यकुशल और प्रसन्नचित्त ऋत्विज लोग यजमान की इच्छानुसार यज्ञ को सिद्ध कर देते हैं, इस लिये यजमान उनका आदर करता रहे ॥३॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३ । ७ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—नीचे के पद ऐतर्य ब्राह्मण ३ । ७ से मिलाओ—

गोपथ	ऐतर्य	गोपथ	ऐतर्य
ऋक्तः	रिक्तः	रिक्ति	रिक्क्ति
सृत्यः	स्तृत्यः	यजमानस्य	यजमानम्
स यः	समः	नीचैस्तरा	नीचैस्तरां
अनिर्हाणच्छ	अनिर्हाणच्छः	तच्छ्रियम्	तच्छ्रियाम्
स्वधामच्छत्	स धामच्छत्		

कण्डिका ४ ॥

यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्, तां मनसा ध्यायन् वपट् कुर्यात् । साक्षादेव तद्देवतां प्रीणाति, प्रत्यक्षादेवतां परिगृह्णाति । सन्ततमृचा वपट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ ४ ॥

द्विहीनं करोति (पापीयान्) अत्यन्तपापयुक्तः (आशाम्) इच्छाम् (न) निषेधे (इयात्) प्राप्नुयात् (पापमद्रम्) पापं च कल्याणं च (आद्रियेत) आद्रितं कुर्यात् । इच्छेत (अनीजानः) अकृतयज्ञः (ईजानः) यज देवपूजादिपु-कानच् । कृतयज्ञः (श्रेयान्) प्रशस्य-ईयमुन् । कल्याणवान् (श्रिये) सम्पदर्थम् (आदधाति) स्थापयति ॥

कण्डिका ४ ॥ वषट्कार के साथ हवि के लिये देवता का निर्णय ॥

(यस्यै देवतायै हविः गृहीतं स्यात्, तां मनसा ध्यायन् वषट् कुर्यात्)
जिस देवता के लिये हवि ग्रहण किया गया हो, उस को मन से ध्यान करता हुआ वषट्कार करे । (तत् साक्षात् एव देवतां प्रीणाति, प्रत्यक्षात् देवतां परि-
गृह्णाति) उस से साक्षात् ही देवता को प्रसन्न करता है, प्रत्यक्ष रूप से देवता को ग्रहण करता है । (ऋचा सन्ततं वषट्कृत्यं सन्तत्यै, प्रजया पशुभिः सन्धी-
यते, यः एवं वेद) ऋचा [वेद मन्त्र] के साथ लगातार वषट्कार किया हुआ विस्तार के लिये है, वह प्रजा और पशुओं से संयुक्त होता है जो ऐसा जानता है ॥ ४ ॥

भावार्थ —उद्दिष्ट देवता का ध्यान करके हवि देने से यजमान का मनोरथ सिद्ध होता है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३ । ८ तथा ७ से मिलाओ ॥

कण्डिका ५ ॥

वज्रो वै वषट्कारः । स उ एष प्रहृतः शान्तो दीदाय । तस्य ह न सर्व एव शान्तिं वेद नो प्रतिष्ठाम् । तस्माद्वाप्येतर्हि भूयानिच मृत्युः, तन्य हैषैव शान्तिरेषा प्रतिष्ठा, यद्वागिति । वषट्कृत्य वागित्यनुमन्त्रयते, वषट्कार मा मां प्रमृत्तां माहं त्वां प्रमृत्तां वृहता मन उपह्वये ध्यानेन शरीरं प्रतिष्ठामि, प्रतिष्ठां गच्छन् प्रतिष्ठां मा गमयेदिति । तदु ह स्माह, दीर्घमेवेतत् सदप्रभ्वाजः सह ओज इत्यनुमन्त्रयेत, ओजश्च ह वै सहश्च वषट्कारस्य प्रियतमे तन्वौ, प्रियाभ्यामेव तत्तनूभ्यां समर्द्धयति । प्रियया तन्वा समृध्यते, य एवं वेद ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ वषट्कार को उपयोगी बनाने का उपाय ॥

(वज्रः वै वषट्कारः) वज्ररूप ही वषट्कार है । (सः उ एषः प्रहृतः शान्तः दीदाय) वह ही यह वषट्कार छोड़ा गया [हमारे लिये] शान्त चमकता है । (तस्य ह शान्तिं सर्वः एव न वेद नो प्रतिष्ठाम्) उस की शान्ति को प्रत्येक मनुष्य नहीं जानता है, और न [उस के] आश्रय को । (तस्मात् वा

४—(प्रीणाति) तर्पयति (सन्ततम्) निरन्तरम् (सन्तत्यै) विस्ताराय । सन्तानाय (सन्धीयते) संयुज्यते ॥

५—(शान्तः) उपद्रवरहितः (दीदाय) दीदयति ज्वलतिकर्म—निघ० १ । १६, लिट् । दीप्यते (नो) निषेधे (प्रतिष्ठाम्) दृढस्थानम् । आश्रयम् (एतर्हि)

अपि एतर्हि भूयान् इव मृत्युः) इस लिये ही अब बहुत अधिक सा मृत्यु है । (तस्य ह एषा एव शान्तिः एषा प्रतिष्ठा, यत् वाक् इति) उस [वषट्कार] को यह ही शान्ति और यह ही आश्रय है, जो वाक् [वाणी] है । (वषट्कृत्य वाक् इति अनुमन्त्रयते) वषट्कार करके वाक्, यह पद मन्त्र के साथ वह बोलता है । (वषट्कार मां मा प्रमृक्षः, अहं त्वां मा प्रमृक्षम्, वृहता मनः व्यानेन शरीरम् उपह्वये, प्रतिष्ठा असि, प्रतिष्ठां गच्छन् प्रतिष्ठां मा गमयेत् इति) हे वषट्कार ! मुझ को तू मत धो डाल [मत नष्ट कर], मैं तुझे न धो डालूँ [न नष्ट करूँ], बड़े प्रयत्न के साथ [अपने] मन को और व्यान [शरीर में फैले हुये वायु] के साथ शरीर को मैं बुलाता हूँ, तू प्रतिष्ठा [आश्रय] है, आश्रय पाता हुआ तू मुझ को आश्रय पहुंचा [यह ब्राह्मण बचन है] । (तत् उ ह स्म आह, दीर्घम् एव एतत् सत् अप्रभु, ओजः सहः ओजः इति अनुमन्त्रयेत्) कोई [ब्रह्मवादी] यह कहता है—यह [मन्त्र वाक्य] लम्बा होता हुआ भी असमर्थ है, ओजः सहः ओजः—इस [तीन पद वाले मन्त्र] को मन्त्र के साथ बोलें । [दूसरा ओजः पद आदरार्थ है] । (ओजः च ह वै सहः च वषट्कारस्य प्रियतमे तन्वां, प्रियाभ्याम् एव तनूभ्यां तत् समर्धयति) ओजः [पराक्रम] और सहः [बल] ही वषट्कार के दो अति प्रिय शरीर हैं, दोनों प्रिय शरीरों से ही उस [यजमान] को वह बढ़ाता है । (प्रियया तन्वा समृध्यते, यः एवं वेद) वह पुरुष प्रिय शरीर से बढ़ता है जो ऐसा जानता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—प्रकरण के अनुकूल मन्त्रों के विनियोग से यजमान का बल और पराक्रम बढ़ता है ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३ । ८ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(प्रतिष्ठामि) के स्थान पर (प्रतिष्ठासि), (सहः प्रभु)

इदानीम् (भूयान्) बहु-ईयसुन् । बहुतरः (वाक्) वाणी । विद्या (अनुमन्त्रयते) मन्त्रेण सह उच्चारयति (मा प्रमृक्षः) मृजी शोधे—लुङ् । मा शोधय । मा विनाशय (मा प्रमृक्षम्) विनष्टं मा कार्पम् (वृहता) महता प्रयत्नेन (मनः) स्वकीयं चित्तम् (उपह्वये) आह्वयामि (व्यानेन) व्यानादिवायुना (प्रतिष्ठा) आश्रयः (गच्छन्) प्राप्नुवन् (गमयेत्) गमय, प्रापय (सत्) वर्तमानम् (अप्रभु) असमर्थम् (ओजः सहः ओजः) पदत्रयात्मको मन्त्रः (ओजः) पराक्रमः (सहः) बलम् (समर्धयति) प्रवर्धयति ॥

के स्थान पर (सदप्रभु) और (वषट्कारश्च) के स्थान पर (वषट्कारस्य) ऐतरेय ब्राह्मण से शोध गया है ॥

कण्डिका ६ ॥

वाक् च ह वै प्राणापानौ च वषट्कारः, ते वषट्कृते वषट्कृते व्युत्क्रामन्ति । ताननुमन्त्रयते, वागोजः सह ओजो मयि प्राणापानाविति । वाचं चैव तत् प्राणापानौ च होता आत्मनि प्रतिष्ठापयति, सर्वमायुरेति, न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । शन्नो भव हृद् आपीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । सखेव सख्य उरुशस्रधीरः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीरित्यात्मानं प्रत्यभिमृशति, ईश्वरो वा एषो प्रत्यभिमृष्टो यजमानस्यायुः प्रत्यवहर्त्तुर्मनरिहन्माभक्षयेदिति । तद्यदेतेन प्रत्यभिमृशति आयुरेवास्मै तत् प्रतिरते । आ प्यायस्व सन्ते पयाथसीति द्वाभ्यां चमसानाप्याययन्त्यभिरूपाभ्याम् । यद् यज्ञेऽभिरूपं, तत् समृद्धम् ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ वाक् और प्राण औ अपान ही वषट्कार हैं ॥

(वाक् च प्राणापानौ च ह वै वषट्कारः) वाक् और प्राण और अपान ही वषट्कार [आहुति दान] हैं । (ते वषट्कृते वषट्कृते व्युत्क्रामन्ति) वे [तीनों] बार बार वषट्कार करने पर बाहिर चले जाते हैं । (तान् अनुमन्त्रयते, वाक् ओजः सहः ओजः प्राणापानौ मयि इति) उन को इस मन्त्र से अनुकूल करता है—वाक्, ओजः [पगक्रम], सहः [बल], ओजः, और प्राण और अपान मुझ में [होवे] । (तत् वाचं च एव प्राणापानौ च होता आत्मनि प्रतिष्ठापयति, सर्वम् आयुः एति, जरसः पुरा न प्रमीयते यः एवं वेद) उस से वाणी और प्राण और अपान को होता अपने में दृढ़ स्थापित करता है, वह पुरुष पूर्ण आयु पाता है और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो ऐसा जानता है । (शन्नो भव हृद् आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । सखेव सख्य उरुशस्रधीरः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः) । (इन्दो) हे बड़े ऐश्वर्य वाले (सोम) हे सोम ! [सर्वजनक परमेश्वर] (पीतः) [हम लोगों से] ग्रहण

६—(व्युत्क्रामन्ति) वहिरूर्ध्वं गच्छन्ति (शम्) सुखम् (नः) अस्माकम् (हृदे) हृदयाय (आ) समन्तात् (पीतः) गृहीतः (इन्दो) हे परमैश्वर्यवन् (सोम) सर्वोत्पादक सर्वप्रेरक परमेश्वर (सूनवे) पुत्राय (सुशेवः) शेवं सुखनाम—निघ० ३ । ६ । सुसुखयुक्तः (उरुशस्र) बहुधा प्रशंसनीय । बहुकीर्त्ते

किया गया (सुशेवः) बडा सुख देने वाला तू (नः हृदे) हमारे हृदय के लिये, (पिता इव सूनुवे) पिता के समान पुत्र के लिये (शम्) सुखदायक (आभव) सब ओर से हो, (उरुशंस) हे बड़ी प्रशंसा वाले ! (सोम) हे सोम ! [सर्व-प्रेरक परमात्मन्] (धीरः) बुद्धिमान् तू, (सखा इव सख्ये) मित्र के समान मित्र के लिये, (नः आयुः) हमारा आयु (जीवसे) जीने के लिये (प्र तारीः) बढा—ऋ० ८ । ४८ । ४—(इति आत्मानं प्रत्याभिमृशति) इस मन्त्र से वह अपने शरीर को भले प्रकार छूता है । (एषः अप्रत्याभिमृष्टः यजमानस्य आयुः प्रत्यवहर्तुम् ईश्वरः वै, अनर्हन् मा भक्षयेत् इति) यह अङ्ग विना छुये [मन्त्र] यजमान का आयु नाश करने को समर्थ होता है, अयोग्य होकर वह मुझे खा जायगा [यह विचार करे] । (तत् यत् एतेन प्रत्याभिमृशति आयुः एव अस्मै तत् प्रतिरते) संत जो इस [पूर्वोक्त मन्त्र] से अङ्ग स्पर्श करता है, आयु ही इस [यजमान] के लिये उस से वह बढाता है । (आ प्यायस्व सं ते पर्यांसि इति द्वाभ्याम् अभिरूपाभ्यां चमसान् आप्यायन्ति) आ प्यायस्व, और सं ते पर्यांसि ऋ० १ । ६१ । १७, १८—इन दो अनुकूल विषय वाली ऋचाओं से खाद्य पदार्थों को वह बढाते हैं । (यत् यज्ञे अभिरूपम्, तत् समृद्धम्) जो यज्ञ में विषय के अनुकूल है वह समृद्ध [सफल] है ॥ ६ ॥

भावार्थ—बाली, प्राण और अपान अर्थात् समस्त इन्द्रियों के सुप्रयोग

* से मनुष्य संसार में उन्नति करता है ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को ऐ० ब्रा० ३ । ८ तथा ७ । ३३ से भिलाओ ॥

टिप्पणी २—(इन्द्रो) के स्थान पर (इन्दो) ऋ० ८ । ४८ । ४ से और (प्रत्यविहर्तुर्मनरिहन) के स्थान पर (प्रत्यवहर्तुमनर्हन्) ऐ० ब्रा० ७ । ३३ से शुद्ध किया है ॥

टिप्पणी ३—दोनों प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—आ प्यायस्व मद्विन्तम् सोमं विश्वेशिगुंशुभिः । भक्षो नः सुश्रव-

(धीरः) धीमान् (जीवसे) जीवनाय (प्र तारीः) प्रवर्धय । प्रत्याभिमृशति) हस्तेन सर्वतः स्पृशति (अप्रत्याभिमृष्टः) मन्धेण स्पर्शरहितः (प्रत्यवहर्तुम्) विनाशयितुम् (अनर्हन्) अयोग्यः नन् (प्रतिरते) प्रवर्धयति (आ) समन्तान् (प्यायस्व) वर्धस्व (सम्) सम्यक् (ते) तव (पर्यांसि) जलानि । अन्नानि (चमसान्) भक्ष्यपदार्थान् (आप्यायन्ति) प्रवर्धयन्ति (अभिरूपाभ्याम्) विषयानुकूलाभ्याम् ॥

स्तमः सखा वृधे—ऋ० १ । ६१ । १७ । (मदिन्तम) हे अत्यन्त आनन्द वाले (सोम) सोम ! [बड़े ऐश्वर्य वाले विद्वान्] (विश्वेभिः) सब (अंशुभिः) तत्त्व के अंशों के साथ (आ) अच्छे प्रकार (प्यायस्व) तू बढ़, और (सुश्रव-स्तमः) अत्यन्त बड़ी कीर्ति वाला वा अत्यन्त सुन्दर अन्नों वाला (सखा) मित्र तू (नः वृधे) हमारी बढ़ती के लिये (भव) हो ॥

२—सं ते पयांसि समु' यन्तु वाजाः सं वृष्यान्यभिमातिषाहः । आप्याय मानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व-ऋ० १ । ६१ । १८ । (सोम) हे सोम ! [बड़े ऐश्वर्य वाले विद्वान्] (ते) तेरे लिये (वृष्यानि) वीरत्व बढ़ाने वाले (पयांसि) अनेक अन्न (सं यन्तु) अच्छे प्रकार मिलें, (उ) और (अभिमातिषाहः) अभिमानी शत्रुओं के दबाने वाले (वाजाः) पराक्रम (सं समु) बहुत अच्छे प्रकार [मिलें] । (अमृताय) अमरपन वा मोक्ष के लिये (आप्यायमानः) सब ओर से बढ़ता हुआ तू (दिवि) व्यवहार के बीच (उत्तमानि श्रवांसि) उत्तम यशों को (धिष्व) धारण कर ॥

कण्डिका ७ ॥

प्राणा वा ऋतुयाजाः, तद्यदुयाजैश्चरन्ति, प्राणानेव तद्यजमाने दधति । षडृतुनेति यजन्ति, प्राणमेव तद्यजमाने दधति । चत्वार ऋतुभिर्यजन्ति, अपानमेव तद्यजमाने दधति । द्विऋतुनेति उपरिष्ठाद्, व्यानमेव तद्यजमाने दधति । स चासुसम्भृतस्त्रेधाविहृतः, प्राणोऽपानो व्यान इति । ततोऽन्यत्र गुणितस्तथाह, यजमानः सर्वमायुरेत्यस्मिंल्लोक आध्नात्याप्नोत्यमृतत्वमक्षितं स्वर्गं लोके । ते वा एते प्राणा एव, ऋतुयाजाः । तस्मादनवानं ततो यजन्ति प्राणानां सन्तत्यै । सन्तता इव हीमे प्राणाः । अथो ऋतवो वा ऋतुयाजाः । सथंस्थानुवषट्कारः । योऽत्रानुवषट् कुर्यात्, असथंस्थितानृतून् संस्थापयेत् । यस्तं तत्र ब्रूयात्, असथंस्थितानृतून् समतिष्ठि [समतिष्ठिपत्] । यो दुःखमनुभविष्यतीति, शश्वत्तथा स्यात् ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ प्राण ही ऋतुयाज हैं, ऋतुयाजों में अनुवषट् न करे ॥

(प्राणाः वै ऋतुयाजाः) प्राण ही ऋतुयाज [ऋतुओं के लिये यज्ञ] हैं । (तत् यत् ऋतुयाजैः चरन्ति, प्राणान् एव तत् यजमाने दधति) इस लिये जो ऋतुयाजों से वे यज्ञ करते हैं, प्राणों [प्राण, अपान, व्यान] को ही उस से यजमान

में धारण करते हैं । (पट् ऋतुना इति यजन्ति, प्राणम् एव तत् यजमाने दधति) छह [ऋत्विज लोग]—ऋतु के साथ [ऋतुना—इन मन्त्रों के लिये देखो यजु० २१ । २३—२८] इस से वे यज्ञ करते हैं, प्राण [भीतर जाने वाले वायु] को ही उस से यजमान में धारण करते हैं । (चत्वारः ऋतुभिः यजन्ति, अपानम् एव तत् यजमाने दधति) चार [ऋत्विज]—ऋतुओं से [ऋतुभिः—इस के लिये देखो यजु० १४ । ७]—वे यज्ञ करते हैं, अपान [बाहर जाने वाले वायु] को ही उस से यजमान में धारण करते हैं । (द्विः ऋतुना इति उपरिष्ठात्, व्यानम् एव तत् यजमाने दधति) दो [ऋत्विज]—ऋतु से [ऋतुना—ऊपर देखो]—इस से पीछे से [यज्ञ करते हैं], व्यान [शरीर में फैले हुये वायु] को ही उस से यजमान में वे धारण करते हैं । (सः च सम्भृतः असुः त्रेधा विहितः, प्राणः अपानः व्यानः इति) और वह अच्छे प्रकार पुष्ट किया हुआ प्राण तीन प्रकार से विहार वाला है—प्राण, अपान, और व्यान । (ततः अन्यत्र गुणितः तथा आह) इस [ग्रन्थ] से दूसरे [ऐतरेय आदि] में यह कहा गया है—ऐसा वह [ब्रह्मवादी] कहता है । (यजमानः सर्वम् आयुः पति, अस्मिन् लोके स्वर्गे लोके आर्ध्नाति, अक्षितम् अमृतत्वम् आप्नोति) यजमान [उस से] पूर्ण आयु पाता है और इस लोक में स्वर्ग लोक के बीच समृद्ध होता है, और अक्षय अमरपन पाता है । (ते वै एते प्राणाः एव, यत् ऋतुयाजाः) वे ही यह प्राण हैं, जो ऋतुयाज हैं । (तस्मात् अनवानं ततः प्राणानां सन्तत्यै यजन्ति) इस लिये श्वास न लेकर उस के पीछे प्राणों की निरन्तरता के लिये वे यज्ञ करते हैं । (सन्तताः इव हि इमे प्राणाः) क्योंकि लगातार फैले हुये ही यह प्राण हैं । (अथो ऋतवः वै ऋतुयाजाः) फिर ऋतुयें ही ऋतुयाज हैं । (अनुवपट्कारः संस्था) अनुवपट्कार [पीछे से बोला गया वपट्] समाप्ति है । (यः अत्र अनुवपट् कुर्यात्, असंस्थितान् ऋतून् संस्थापयेत्) जो यहाँ [ऋतुयाज में]

७—(चरन्ति) अनुतिष्ठन्ति (दधति) स्थापयन्ति (पट्) पट्संस्थाकाः ऋत्विजः (द्विः) द्वो (उपरिष्ठात्) पश्चात् (असुः) प्राणः (सम्भृतः) सम्यक् पेषितः (विहितः) विविधं प्राप्तः (अनवानम्) नञ्+अव+अन प्राणने—घञ् । द्वितीयान्तं यथा भवति तथा । उच्छ्वासमकृत्वा (सन्तत्यै) अविच्छेदाय (सन्तताः) अविच्छिन्नाः । निरन्तराः (संस्था) समाप्तिः (असंस्थितान्) असमाप्तान् (संस्थापयेत्) उपरमयेत् (समतिष्ठ) समतिष्ठिपत् । उपरमयेत् (शश्वत्) सदा । अवश्यम् ॥

अनुवषट् करे, बिना समाप्त हुये ऋतुओं को वह रोक देवे । (यः त तत्र ब्रूयात्, असंस्थितान् ऋतून् समतिष्ठि [समतिष्ठिपत्], यः=सः, दुःखम् अनुभविष्यति इति) जो उस [अनुवषट्कार] को वहां बोले और बिना पूरे हुये ऋतुओं को रोक देवे, वह दुःख ही पावेगा । (शश्वत् तथा स्यात्) [इस लिये यह नियम] सदा वैसा [अनुवषट् बिना] होवे ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्य प्राण, अपान और व्यान की गतियों से बल और पराक्रम बढ़ाकर सब ऋतुओं को उपयोगी बनावे ॥ ७ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० २ । २६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(षडतुना) के स्थान पर (षडृतुना) और (समतिष्ठि) के स्थान पर (समतिष्ठपत्) पद ऐ० ब्रा० २ । २६ । में है, पहिला पद शुद्ध कर दिया है ॥

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्रों में से एक एक अर्थ सहित लिखा जाता है—

१—वसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुताः । रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रो वयो दधुः—यजु० २१ । २३ ॥ (त्रिवृता) तीनों काल में वर्तमान (वसन्तेन ऋतुना) वसन्त ऋतु के साथ (स्तुताः) स्तुति किये गये (देवाः) दिव्य गुण वाले (वसवः) पृथिवी आदि आठ वसु वा प्रथम कक्षा वाले विद्वान् लोग (रथन्तरेण) रथ से तरने वाले (तेजसा) तीक्ष्ण स्वरूप से (इन्द्रे) सूर्य के प्रकाश में (हविः) देने योग्य (वयः) आयु बढ़ाने हारे वस्तु को (दधुः) धारण करें ॥

२—सजूर्धुतुभिः सजूर्विधाभिः सजूर्द्वैः सजूर्द्वैर्वयोनाधैरग्र्ये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यु सादयतामिह त्वा ।

सजूर्धुतुभिः सजूर्विधाभिः सजूर्वसुभिः सजूर्द्वैर्वयोनाधैरग्र्ये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यु सादयतामिह त्वा ।

सजूर्धुतुभिः सजूर्विधाभिः सजू रुद्रैः सजूर्द्वैर्वयोनाधैरग्र्ये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यु सादयतामिह त्वा ।

सजूर्धुतुभिः सजूर्विधाभिः सजूरादित्यः सजूर्द्वैर्वयोनाधैरग्र्ये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यु सादयतामिह त्वा ।

सजूर्धुतुभिः सजूर्विधाभिः सजूर्विश्वैर्द्वैः सजूर्द्वैर्वयोनाधैरग्र्ये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यु सादयतामिह त्वा—यजु० १४ । ७ ॥

[हे स्त्री वा पुरुष !] (ऋतुभिः) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ (सजूः) एकसी प्रीति वा सेवा वाला, (विधाभिः) विविध प्रकार धारण करने वाले जलों के साथ (सजूः) एकसी प्रीति वाला, (देवैः) अच्छे गुणों के साथ (सजूः) एकसी प्रीति वाला, (देवैः) दिव्य सुख देने वाले (वयोनाधैः) जीवन आदि वा गायत्री छन्दों से सम्बन्ध वाले प्राणों के साथ (सजूः) एकसी प्रीति वाला [तू हो], (वैश्वानराय) सम्पूर्ण पदार्थों को प्राप्त कराने वाली (अग्नये) अग्नि विद्या के लिये (त्वा त्वा) तुझ को तुझ को (अध्वर्यू) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले (अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक अध्यापक और उपदेशक दोनों (इह) यहां जगत् में (सादयताम्) स्थापित करें ।

[हे स्त्री वा पुरुष !] (ऋतुभिः) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ (सजूः) एकसी प्रीति वा सेवा वाला, (विधाभिः) विविध वस्तुओं को धारण कराने वाली प्राणों की चेष्टाओं के साथ (सजूः) एकसी प्रीति वाला, (वसुभिः) अग्नि आदि आठ वस्तुओं के साथ (सजूः) एकसी प्रीति वाला, (देवैः) विजय चाहने वाले (वयोनाधैः) विज्ञानों से सम्बन्ध युक्त विद्वानों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला [तू हो], (वैश्वानराय) सब जगत् के चलाने वाले (अग्नये) विज्ञान के लिये (त्वा त्वा) तुझ को तुझ को (अध्वर्यू) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले (अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक अध्यापक और उपदेशक दोनों (इह) यहां [जगत् में] (सादयताम्) स्थापित करें ।

[हे स्त्री वा पुरुष !] (ऋतुभिः) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वा सेवा वाला (विधाभिः) विविध वस्तुओं को धारण कराने वाली प्राणों की चेष्टाओं के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला, (रुद्रैः) [प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीव, इन ग्यारह] रुद्रों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला, (देवैः) व्यापार कुशल (वयोनाधैः) वेद आदि शास्त्रों को जताने के प्रबन्ध करने वालों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला [तू हो], (वैश्वानराय) सब नरों के सुखसाधक (अग्नये) सब शास्त्रों के विज्ञान के लिये (त्वा त्वा) तुझ को तुझ को (अध्वर्यू) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले (अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक अध्यापक और उपदेशक दोनों (इह) यहां [जगत् में] (सादयताम्) स्थापित करें ।

[हे स्त्री वा पुरुष !] (ऋतुभिः) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वा सेवा वाला (विधाभिः) विविध प्रकार सत्य धारण कराने वाली क्रियाओं के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला, (आदित्यैः) वर्ष के बारह महीनों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला, (देवैः) तेजस्वी (वयोनाघैः) पूरण विद्या के विज्ञान और प्रचार के प्रबन्ध करने वालों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला [तू हो] (वैश्वानराय) सब नरों के पूर्ण सुख साधने वाले (अग्नये) पूर्ण विज्ञान के लिये (त्वा त्वा) तुझ को तुझ को (अध्वर्युः) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले (अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक आध्यापक और उपदेशक दोनों (इह) यहां [जगत् में] (सादयताम्) स्थापित करे ।

[हे स्त्री वा पुरुष !] (ऋतुभिः) क्षण आदि सब काल अवयवों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वा सेवा वाला (विधाभिः) सब सुखों में व्यापक क्रियाओं के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला (विश्वैः) समस्त (देवः) परोपकार के लिये सत्य असत्य जताने वालों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला (देवः) प्रशंसा योग्य (वयोनाघैः) कामयमान जीवन का प्रबन्ध करने वालों के साथ (सजूः) एक सी प्रीति वाला [तू हो], (वैश्वानराय) सब नरों के हितकारक (अग्नये) अच्छी शिक्षा के प्रकाश के लिये (त्वा त्वा) तुझ को तुझ को (अध्वर्युः) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले (अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक आध्यापक और उपदेशक दोनों (इह) यहां [जगत् में] (सादयताम्) स्थापित करें ॥

कण्डिका ८ ॥

तदाहुः, यद्धोता यद्धोता यद्धदिति, मैत्रावरणो होत्रे प्रेष्यति, अथ कस्मा-
दहोतृभ्यः सद्भ्यो होत्राशंसिभ्यो होता यद्धोता यद्धदिति प्रेष्यतीति । वाग्वै
होता, वाक् सर्व ऋत्विजः वाग् यद्धाग् यद्धदिति । अथो सर्वे वा एते सप्तहो-
तारोऽपि वा ऋचाभ्युदितं, सप्तहोतार ऋतुथा यजन्तीति । अथ य उपरिष्ठाद्
संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापतिः, प्रजापतिर्यज्ञः । स योऽत्र भक्षयेद्यस्तं तत्र ब्रूयात्,
अशान्तो भक्षो नानुवषट्कृत आत्मानमन्तरगात्र जीविष्यतीति । तथा हास्याद्यो
वै भक्षयेत्, प्राणो द्वादशर्चजामितायै, ते वै द्वादश भवन्ति, द्वादश ह वै मासाः,
भक्षः प्राण आत्मानमन्तरगादिति । तथैव ह भवति लिम्पेदिति वाव जिघ्रेत्तत्र
त [तद्] द्विदेवत्येषु चेति, तद् तत्र शासनं वेदयन्ते अथ यदमू व्यभिचरतो
नातान्योऽत्यमनुप्रपद्येते अध्वर्युः । तस्माद्दुर्नुर्नानुप्रपद्येते ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ ॥ होता यज्ञत् होता यज्ञत्—इन मन्त्रों के उच्चारण का विषय ॥

(नत् आहुः, होता यज्ञत् होता यज्ञत् इति, यन् मैत्रावरुणः होत्रे प्रेष्यति, अथ कस्मात् अहोतृभ्यः सद्भ्यः होत्राशांसिभ्यः प्रेष्यति इति—होता यज्ञत् होता यज्ञत् इति) फिर कहते हैं—होता यज्ञ करे, होता यज्ञ करे—[इन मन्त्रों के लिये देखा यजु० २१ । २६—४७] इस प्रकार जब मैत्रावरुण [प्राण और अपान वायु जानने वाला याजक] होता से कहता है, फिर किस लिये होता से भिन्न, उपस्थित, वेदवाणी से स्तुति करने वालों से यह कहता है—होता यज्ञ करे, होता यज्ञ करे । (वाक् वै होता, वाक् स्वं ऋत्विजः, वाक् यज्ञत् वाक् यज्ञत् इति) [समाधान] वाणी ही होता, [हवन करने वाला] है, वाणी ही सब ऋत्विज् लोग हैं—वाणी यज्ञ करे, वाणी यज्ञ करे [यह उस का अभिप्राय है] । (अथो सर्वं वै एतं सप्त होतारः अपि वै ऋचा अभ्युदितं, सप्तहोतारः ऋतुथा यजन्ति इति) और यह सब ही सात हवन करने वाले होते हैं, यह ही इस ऋचा द्वारा कहा गया है—सात हवन करने वाले ऋतु ऋतुओं के अनुसार हवन करते हैं [यह ब्राह्मण वचन है—इस को आगे टिप्पणी में दिये यजु० ३४ । ५५ के आशय से मिलाओ] । (अथ यः उपरिष्टान् संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापतिः, प्रजापतिः यज्ञः) फिर जो पीछे से संवत्सर यज्ञ होता है, संवत्सर [वर्ष] प्रजापति है, प्रजापति यज्ञ है । (सः यः अत्र भक्षयेत्, यः = सः, तं तत्र ब्रूयात्, अशान्तः भक्षः अनुवपट् कृतः आत्मानम् अन्तः न अगात्, न जीविष्यति इति) सो जो यहाँ [यज्ञ में] भोजन करे, वह उस [भोजन विषय] को वहाँ बोले—अशान्त भोजन अनुवपट् [समाप्तगृचक यज्ञ] करने वाले के आत्मा में नहीं जाता, वह [उसे] न जिलावेगा । (तथा ह अस्य आद्यः वै भक्षयेत्, प्राणः द्वादशर्चजामितायै, ते वै द्वादश भवन्ति, द्वादश

८—(होता) दाता । ग्रहाता (यज्ञत्) यजेत् (प्रेष्यति) अनुजानाति (अहोतृभ्यः) होतृभिन्नयाजकेभ्यः (सद्भ्यः) वर्तमानेभ्यः (होत्राशांसिभ्यः) होत्रां वेदवाचं शंसन्ति कथयन्ति तेभ्यः (अभ्युदितम्) सर्वतः कथितम् (ऋतुथा) ऋतुप्रकारेण । ऋतुना ऋतुना (अनुवपट्कृतः) अनुवपट्कारकस्य (आत्मानम्) शरीरम् । जीवम् (अन्तः) मध्ये (अगात्) गच्छति (जीविष्यति) जीविष्यति (आद्यः) आद्यं भक्षणीयं पदार्थम् (प्राणः) प्राणवायुः । प्राणवायुना (द्वादशर्चजामितायै) जमतिर्गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । जनि-

ह वै मासाः, भक्षः प्राणः आत्मानम् अन्तः अगात् इति) इस कारण से ही इस [यज्ञ] के खाने योग्य पदार्थ को ही वह खावे, प्राण बारह ऋचाओं से संबन्ध के लिये है [पूर्वोक्त यजुर्वेद २१ । २६—४० होता यज्ञत् होता यज्ञत्...के—पहिले मन्त्र] वे बारह हैं, बारह ही महीने हैं, भोजन प्राण द्वारा आत्मा में पहुंचता है । (तथा एव ह भवति लिम्पेत् इति वाव तत्र तत् द्विदेवत्येषु च जिघ्रेत् इति) वह वैसा ही होता है कि वह [भोजन उसे] बढावे, और वहां ही उस को दो देवता वाले यज्ञों में वह ग्रहण करे । (तत्र तत् उ शासनं वेदयन्ते, अथ यत् अमू अध्वर्यु व्यभिचरतः, अन्योऽन्यं नाना अनुप्रपद्येते, तस्मात् ऋतुः ऋतुः न अनुप्रपद्येते) वहां पर यह शासन बताते हैं—फिर जब दो अध्वर्यु विरुद्ध व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के बिना दोनों चले चलते हैं, इस लिये ऋतु ऋतु [दो ऋतुयें] साथ साथ नहीं चलते ॥ ८ ॥

टिप्पणी १—(त द्विदेवत्येषु) के स्थान पर (तद् द्विदेवत्येषु) समझ कर अर्थ किया है ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मन्त्रों में से एक मन्त्र और दूसरा संकेत वाला मन्त्र अर्थ सहित यहां दिया जाता है ॥

१—होता यज्ञत् समिधाग्निमिडस्युदेऽश्विनेन्द्र ११ सरस्वतीमजो धूम्रो न गोधूमैः क्वलैर्भेषजं मधु शष्पैर्न तेज इन्द्रियं पयः सोमः परिस्त्रुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ यजु० २१ । २६ ॥ (होता) हवन करने वाला (समिधा) इन्धन आदि से (अग्निम्) आग, (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा, (इन्द्रम्) ऐश्वर्य वा जीव और (सरस्वतीम्) सुशिक्षित वाणी को (इडः पदे) प्रथवी और अन्न के स्थान में (यज्ञत्) संगत करे । (धूम्रः) धुमैले वर्ण वाला (अजः) अज [माक्षिक धातु-औषधविशेष] (गोधूमैः) गेहूं, (न) और (क्वलैः) बेरों (न) और (शष्पैः) घासों के सहित (मधु) मधुर जल, (भेषजम्) औषध, (तेजः) तेज, (इन्द्रियम्) धन, (पयः) दूध वा अन्न, (परिस्त्रुता) सब ओर से प्राप्त हुये रस के साथ (सोमः) सोम [औषधियों

घसिभ्यामिण् । उ० । ४ । १३० । जमु भक्षणे गतौ च—इण् । जामिशब्दः समानजातीयवाचकः । द्वादशर्चैः संबन्धाय संयोगाय (लिम्पेत्) वर्धयेत् (जिघ्रेत्) घ्रा गन्धोपादाने ग्रहणमात्रे च । गृह्णीयात् (द्विदेवत्येषु) द्विदेवताकेषु मन्त्रेषु (व्यभिचरतः) विरोधेन गच्छतः (नाना) विना ॥

का रस], (घृतम्) घी (मधु) मधु [रस विशेष] (व्यन्तु) प्रात हों । (होतः)
हे होम करने वाले जन ! (आज्यस्य) घा का (यज) होम कर ॥

२—सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदुमप्रसादम् । सप्तापः
स्वपतो लोकमीगुन्तत्र जागृता अस्वप्रजौ सत्रसदौ च देवौ ॥ यजु० ३४ ।
५५ ॥ (सप्त ऋषयः) सात ऋषि [विषयों को प्राप्त कराने वाले, पांच ज्ञाने-
न्द्रिय, मन और बुद्धि] (शरीरे) शरीर में (प्रतिहिताः) ठहरे हुये हैं, (सप्त)
वे सात (सदम्) ठहरने के स्थान [शरीर] की (अप्रसादम्) विना भूल
(रक्षन्ति) रक्षा करते हैं । (सप्त) वे सात (आपः) व्यापने वाले [ऋषि]
(स्वपतः) सोते हुये जन के (लोकम्) लोक [देखते हुये शरीर वा जीवात्मा]
को (ईयुः) प्राप्त होते हैं, (तत्र) वहां [शरीर में] (अस्वप्रजौ) दो न सोते
हुये (सत्रसदौ) सत्र में बैठने वाले [यज्ञ अर्थात् शरीर में काम करने वाले]
(च) और (देवौ) दिव्य गुण वाले [प्राण और अपान] (जागृतः) जागते हैं ॥

कण्डिका ६ ॥

प्रजापतिर्वै यत् प्रजा असृजत, ता वै तान्ता असृजन । ता हिङ्कारेणैवा-
भ्यजिप्रत् । ताः प्रजा अमारन्, तद् वध्यते वा एतद्यज्ञो यद्वर्षीपि पच्यन्ते । यत्
सोमः सूयते, यत् पशुरालभ्यते, हिङ्कारेण वा एतत् प्रजापतिर्हि तमभिजिघ्रति,
यज्ञस्याहतायै यज्ञस्याप्यै यज्ञस्य वीर्यवत्तया इति । तस्माद् हिङ्क्रियते, तस्माद्
य एव पिता पुत्राणां सूर्जति, स श्रेष्ठां भवति, प्रजापतिर्हि तमभिजिघ्रति । यच्छु-
कुनिराण्डमध्यास्ते यन्न सूयते, तद्धि सापि हिङ्कुरोति । अथो खल्वाहुः, मह-
र्षिर्वा एतद्यज्ञस्याग्रे गेयमपश्यत् । तदेतद्यज्ञस्याग्रे गेयं, यद्धिङ्कारः । त देवाश्च
ऋयश्चाब्रुवन्, वसिष्ठोऽयमस्त, यो नो यज्ञस्याग्रे गेयमद्रागिति । तदेतद्यज्ञस्याग्रे
गेयं, यद्धिङ्कारः । ततो वै स देवानां श्रेष्ठाऽभवत् । येन वै श्रेष्ठः, तेन वसिष्ठः ।
तस्माद् यस्मिन्वासिष्ठा ब्राह्मणः स्यात्, तं दक्षिणाया नान्तरीयात् । तथा हास्य
प्रीतो हिङ्कारो भवति । अथ देवाश्च ह वा ऋषयश्च यदृक्क्षामे अपश्यन् । ते ह
स्मैने अपश्यन् । ते यत्रने अपश्यन्, तत एवैनं सर्वं दोहमदुहन । ते वा एते
दुग्धे यातयामे, य ऋक्क्षामे । ते हिङ्कारेणैवाप्यायेते । हिङ्कारेण वा ऋक्क्षामे
आपीने यजमानाय दोहं दुहाते । तस्माद् हिङ्कृत्याध्वर्यवः सोममभिषुण्वन्ति ।
हिङ्कृत्याद्गानारः साम्ना स्तुवन्ति । हिङ्कृत्याक्थश ऋचात्पिज्यं कुर्वन्ति ।
हिङ्कृत्याधर्वाणो ब्रह्मत्वं कुर्वन्ति । तस्माद् हिङ्क्रियते । प्रजापतिर्हि तमभिजि-

घ्नति । अथो खलवाहुः, एको वै प्रजापतेर्ब्रतं विभर्त्ति गौरैव, तदुभये पशव उप-
जीवन्ति, ये च ग्राम्या ये चारण्या इति ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ हिङ्कार [प्रतिध्वनि] के उच्चारण की महिमा और प्रमाण ॥

(प्रजापतिः वै यत् प्रजाः असृजत, ताः वै तान्ताः असृजत) प्रजापति ने
जब प्रजाओं को उत्पन्न किया, उन हां (तान्ताः) फैली हुई [प्रजाओं] को उत्पन्न
किया । (ताः हिङ्कारेण एव अभ्यजिघ्रत्) उन [प्रजाओं] को हिङ्कार [प्रीति-
ध्वनि] से ही उस ने ग्रहण किया । (ताः प्रजाः अमारन्) उन प्रजाओं को वह
न मारता हुआ [था] । (तत् एतत् यज्ञः वै वध्यते यत् हवींषि पच्यन्ते) इस
लिये यह ही यज्ञ [संगतिकरण व्यवहार] संयुक्त किया जाता है, जो हवि
[खाने के पदार्थ] पकाये जाते हैं । (यत् सोमः सूयते, यत् पशुः आलभ्यते,
हिङ्कारेण वं एतत् प्रजापतिः हि तं यज्ञस्य अहतायै, यज्ञस्य आप्त्यै, यज्ञस्य वीर-
यत्तयै अभिजिघ्रति इति) जो सोम [तस्वरस] निचोड़ा जाता है, जो पशु
ग्रहण किया जाता है, हिङ्कार [प्रतिध्वनि] से ही यह प्रजापति उस [सोम]
को यज्ञ के अविनाश के लिये, यज्ञ की प्राप्ति के लिये और यज्ञ की वीरवत्ता के
लिये ग्रहण करता है । (तस्मात् उ हिङ्क्रियते) इस लिये यह हिङ्कार किया
जाता है । (तस्मात् उ यः एव पिता पुत्राणां सूर्द्धति, सः श्रेष्ठा भवति, प्रजा-
पतिः हि तम् अभिजिघ्रति) इस लिये ही जो पिता [हिङ्कार से] पुत्रों का
आदर करता है, वह [पुत्र] श्रेष्ठ होता है, प्रजापति [परमात्मा] उस को
ग्रहण करता है । (यत् शकुनिः आण्डम् अध्यास्ते यत् न सूयते तत् हि सा अपि
हिङ्क्रियाति) जो चिड़िया आण्डे पर बैठती है और जब वह उसे अब उत्पन्न
करती है, तब ही वह भी हिङ्कार करती है । (अथो खलु आहुः, महर्षिः वै

६—(असृजत) सृष्टवान् (ताः) प्रजाः (तान्ताः) हसिमृत्रिण्वामि-
दमि० । उ० ३ । ५६ । तनु विस्तारे-तन्, आर्षो दीर्घः । तन्ताः । विस्तृताः
(हिङ्कारेण) हि गतिवृद्ध्योः—डि+करोतेः—अण्, आर्ष रूपम् । वृद्धिकरेण
व्यवहारेण । प्रीतिध्वनिना (अभ्यजिघ्रत्) सर्वतो गृहीतवान् (अमारन्) न
मारयन् (वध्यते) वध संयमने । संयम्यते । संबध्यते । नियमे क्रियते (सूयते)
अभिषवणेन प्राप्यते (आलभ्यते) समन्तात् प्राप्यते (अहतायै) अहततायै । अवि-
नाशाय (आप्त्यै) पर्याप्त्यै (वीरवत्तयै) वीरवत्तायै । वीर्यवत्तायै । वीरत्वप्राप्तये

यज्ञस्य अग्रे एतत् गेयम् अपश्यत्) फिर लोग कहते हैं—महर्षि [बड़े ज्ञानी पुरुष] ने ही यज्ञ के पहिले [होने वाले] इस गाने योग्य वाक्य को देखा । (तत् यज्ञस्य अग्रे एतत् गेयं, यत् हिङ्गारः) सो यज्ञ के पहिले यह गाने योग्य वाक्य है, जो हिङ्गार है । (तं देवाः च ऋषयः च अब्रुवन्, अयं वसिष्ठः अस्तु यः नः यज्ञस्य अग्रे गेयम् अद्राक् इति) उस [महर्षि] से देव [विद्वान्] और ऋषि [वेदार्थ जानने वाले] बोले—यह वसिष्ठ [अत्यन्त निवास कराने वाला वा अत्यन्त जितेन्द्रिय पुरुष] होवे, जिन ने हमारे लिये यज्ञ के पहिले गाने योग्य वाक्य देखा है । (तत् यज्ञस्य अग्रे एतत् गेयं यत् हिङ्गारः) सो यज्ञ के पहिले यह गाने योग्य वाक्य है—जो हिङ्गार है । (ततः वै सः देवानां श्रेष्ठः अभवत्) इस लिये ही वह [हिङ्गार का देखने वाला] विद्वानों में श्रेष्ठ हुआ है । (येन वै श्रेष्ठः, तेन वसिष्ठः) जिस कारण से ही वह श्रेष्ठ है, उसी से वह वसिष्ठ [अत्यन्त निवास देने वाला] है । (तस्मात् यस्मिन् वासिष्ठः ब्राह्मणः स्यात् तं दक्षिणायाः न अन्तरीयात्) इस लिये जिस [यज्ञ] में वासिष्ठ [वसिष्ठ के देखे हुये हिङ्गार को जानने वाला] ब्राह्मण होवे, उसको दक्षिणा से पृथक् न करे । (तथा ह अस्य प्रातः हिङ्गारः भवति) इस प्रकार से कि हिङ्गार इस का प्रिय है । (अथ देवाः च ह वै ऋषयः च यत् ऋक् सामे अपश्यन्) फिर देवताओं और ऋषियों ने ही जो ऋग्वेद [पदार्थों की स्तुति विद्या] और सामवेद [मोक्ष विद्या] को देखा है । (ते ह स्म एनं अपश्यन्) उन्होंने ने ही इन दोनों को देखा है । (ते यत्र एनं अपश्यन्, ततः एव एनं सर्वं दोहम् अब्रुवन्) उन्होंने ने जिस [ब्रह्मचर्यादि व्रत] में इन दोनों को देखा है, उस से ही उन्होंने ने इस सब दोहने योग्य पदार्थ [तत्त्वरस] को दुहा है । (ते वै एते दुग्धे यातयामे, ये ऋक्सामे) वह ही यह दोनों दुहे हुये नियम प्राप्त किये हुये

(सूक्तंति) सूक्तं सत्कारे । सत्करोति (शकुनिः) शकुनी । पक्षिणी (अध्यास्ते) उपतिष्ठति (न) सम्प्रति (सृयते) उत्पद्यते (गेयम्) गातव्यं वेदम् (वसिष्ठः) अतिशयेन निवासकः । अनिशयेन चशी (अद्राक्) अद्राक्षीत् (वासिष्ठः) दृष्टं साम । पा० ४ । २ । ७ । वसिष्ठ—अण् । वसिष्ठेन दृष्टो हिङ्गारो वासिष्ठः । तदधीते तद् वेद । पा० ४ । २ । ५६ । वासिष्ठ—अण् । वासिष्ठवेत्ता । वसिष्ठ—दृष्ट हिङ्गारवेत्ता (यातयामे) प्रातनियमे (आप्यायेते) प्रवर्धते (आपीने) प्रवृद्धे (उक्थशः) उक्थानि उक्थैर्वा सं जतांति उक्थशाः । मन्त्रे श्वेत ग्हाक्थ शस्पुरो-डाशो खिन् । पा० ३ । २ । ७२ । उक्थ + शंस कथने स्तुतां च—खिन् । आर्ष-

हैं, जो ऋग्वेद और सामवेद हैं । (ते हिङ्गारेण एव आप्यायेते) वे दोनों हिङ्गार से ही बढ़ते हैं । (हिङ्गारेण वै आपीने ऋक्सामे यजमानाय देहं दुहाते) हिङ्गार से ही बढ़े हुये ऋग्वेद और सामवेद यजमान के लिये दुहने योग्य पदार्थ दुहते हैं [भरपूर करते हैं] । (तस्मात् उ हिङ्कृत्य अध्वर्यवः सोमम् अभिषुण्वन्ति) इस लिये ही हिङ्गार करके अध्वर्य्य [सन्मार्ग बताने वाले] लोग साम [तश्व रस] निचोड़ते हैं । (हिङ्कृत्य उद्गातारः साम्ना स्तुवन्ति) हिङ्गार करके उद्गाता [वेद गाने वाले] लोग साम [मोक्ष विद्या] से स्तुति करते हैं । (हिङ्कृत्य उक्थशः ऋचा आर्त्विज्यं कुर्वन्ति) हिङ्गार करके वेदमन्त्र बोलने वाले लोग ऋग्वेद [पदार्थों की स्तुति विद्या] से ऋत्विजों का काम करते हैं । (हिङ्कृत्य अथर्वाणः ब्रह्मत्वं कुर्वन्ति) हिङ्गार करके अथर्वा लोग [निश्चल ब्रह्म विद्या जानने वाले] ब्रह्मा का काम करते हैं । (तस्मात् उ हिङ्क्रियते) इस लिये ही यह हिङ्गार किया जाता है । (प्रजापतिः हि तम् अभिजिघ्रति) प्रजापति [परमात्मा] ही उस [हिङ्गार करने वाले] को ग्रहण करता है । (अथो खलु आहुः, एकः गोः वै एव प्रजापतेर्वृतं विभर्ति, तत् उभये पशवः उपजीवन्ति, ये च ग्राम्याः ये च आरण्याः इति) फिर अवश्य वे कहते हैं—एक ही गौ [स्तोता वेदवेत्ता] निश्चय करके प्रजापति के व्रत [नियम] को धारण करता है, दोनों प्रकार के पशु [जीव] उस पुरुष के आश्रय जीते हैं, जो गाम वाले और वनवाले हैं ॥ ६]

भावार्थ—परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले विद्वानों के आदेश के अनुसार जो पुरुष प्रयत्न करते हैं, वे सिद्धि पाते हैं ॥

कण्डिका १० ॥

देवविशः कल्पयितव्या इत्याहुः, छन्दश्छन्दसि प्रतिष्ठाप्यमिति । शंसावोमित्याह्वयते, प्रातःसवने त्रयक्षरेण । शंसावो दैवेत्यध्वर्युः प्रतिगृह्णाति पञ्चाक्षरं । तत् अष्टाक्षरं सम्पद्यते । अष्टाक्षरा वै गायत्री, गायत्रीमेवैतत् पुरस्तात् प्रातःसवने चीकल्पताम् । उक्थं वाचीत्याह शस्त्राचतुरक्षरमोमुक्थशाद्व्यध्वर्युः

रूपं बहुवचनस्य । उक्थासः । उक्थानां वेदमन्त्राणां कथयितारः (अथर्वाणः) निश्चलज्ञानिनः । सर्ववेदवेत्तारः (गौः) गमेर्डीः । उ० २ । ६७ । गौ गाने स्तुतौ च—डा । स्तोता—निघ० ३ । १६ (ग्राम्याः) ग्रामीणाः (आरण्याः) आरण्य—ण । आरण्ये भवाः ॥

प्रतिगृणाति चतुरक्षरं तत्, अष्टाक्षरं सम्पद्यते । अष्टाक्षरा वै गायत्री, गायत्री-
मेवैतत् । उभयतः प्रातःसवनेऽचीकल्पताम् ।

अध्वर्यो शंसावोमित्याह्वयते माध्यन्दिने षडक्षरेण, शंसावो दैवेत्यध्वर्युः
प्रतिगृणाति पञ्चाक्षरं । तदेकादशाक्षरं सम्पद्यते । एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्,
त्रिष्टुभमेवैतत् पुरस्तान् माध्यन्दिनेऽचीकल्पतामुक्थं वाचीन्द्रायेत्याह, शस्त्वा
षडक्षरमोमुक्थशा यजेत्यध्वर्युः प्रतिगृणाति पञ्चाक्षरं, तदेकादशाक्षरं सम्पद्यते ।
एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्, त्रिष्टुभमेवैतत् । उभयतो माध्यन्दिने चीकल्पताम् ।

अध्वर्यो शंशंसावोमित्याह्वयते तृतीयसवने समाक्षरेण, शंसावो दैवे-
त्यध्वर्युः प्रतिगृणाति पञ्चाक्षरं, तद्द्वादशाक्षरं सम्पद्यते । द्वादशाक्षरा वै जगती,
जगतीमेवैतत् पुरस्तात्तृतीयसवने चीकल्पताम्, उक्थं वाचीन्द्राय देवेभ्य इत्याह,
शस्त्वा नवाक्षरमोमुक्थशा इत्यध्वर्युः प्रतिगृणाति त्रयक्षरं, तद् द्वादशाक्षरं
सम्पद्यते । द्वादशाक्षरा वै जगती, जगतीमेवैतत् उभयतस्तृतीयसवने चीकल्पता-
मिति ।

एतद्वै छन्दः, छन्दसि प्रतिष्ठापयति, कल्पयत्येव देवविशः, य एवं वेद ।
तदप्येषाभ्यनूक्ता, यद्गायत्रे अधिगायत्रमाहितमिति ॥ १० ॥

कण्डिका १० ॥ प्रातःसवन, माध्यन्दिन और तृतीयसवन में विशेषता से मन्त्रों का प्रयोग ॥

(देवविशः कल्पयितव्यः इति, छन्दः छन्दसि प्रतिष्ठाप्यम् इति आहुः)
देवताओं की प्रजायें बनाई जावें और छन्द [वेद] छन्द [वेद के आधार पर-
मात्मा] में रक्खा जावे—ऐसा वे [ब्रह्मवादी] कहते हैं । (शंसावोम्—इति
प्रातःसवने त्र्यक्षरेण आह्वयते) (शंसाव ओम्) हम दोनों स्तुति करें, अच्छा !
प्रातःसवन में इस तीन अक्षर वाले वाक्य से वह [होता अध्वर्यु से] कहता है ।
(शंसावो दैव—इति अध्वर्युः पञ्चाक्षरं प्रतिगृणाति) (शंसावः दैव) हम दोनों
स्तुति करते हैं, हे देव ! अध्वर्यु इस पांच अक्षर वाले वाक्य को उत्तर में
बोलता है । (तत् अष्टाक्षरं सम्पद्यते) उस से [शंसावोम् + शंसावो दैव—
पहिला और दूसरा वाक्य मिल कर] आठ अक्षर वाला वाक्य बनता है ।

१०—(देवविशः) देवानां प्रजाः (कल्पयितव्याः) सम्पादनीयाः (प्रति-
ष्ठाप्यम्) प्रतिष्ठापनीयम् (शंसाव) आवां शंसनं स्त्रोत्रं करवाव (ओम्)
अनुमतौ (शंसावः) आवां स्तुवः (दैव) देव—अञ् स्वार्थे । हे देव ! त्रिष्टुप्

(अष्टाक्षरा वै गायत्री, गायत्रीम् एव एतत् पुरस्तात् प्रातःसवने अचीकल्पताम्) आठ अक्षर वाला ही गायत्री [छन्द] है, गायत्री [स्तुति योग्य वेद विद्या] को ही इस से आरम्भ में प्रातःसवन के बीच उन दोनों ने ठहराया है । (उक्थं वाचि—इति शस्त्वा चतुरक्षरम् आह) (उक्थं वाचि) स्तोत्र [मेरी] वाणी में है—स्तोत्र पद के यह चार अक्षर वाला वाक्य वह [होता] बोलता है । (ओम् उक्थशाः—इति अध्वर्युः चतुरक्षरं प्रतिगृणाति) (ओम् उक्थशाः) हां, तू स्तोत्र बोलने वाला [हो]—अध्वर्यु यह चार अक्षर वाला वाक्य उत्तर में बोलता है । (तत् अष्टाक्षरं सम्पद्यते) उस से [उक्थं वाचि + ओम् उक्थशाः—पहिला और दूसरा वाक्य मिलकर] आठ अक्षर वाला वाक्य बनता है । (अष्टाक्षरा वै गायत्री, गायत्रीम् एव एतत् उभयतः प्रातःसवने अचीकल्पताम्) आठ अक्षर वाला ही गायत्री छन्द है, गायत्री [गाने योग्य वेद विद्या] को ही इस से दोनों ओर [स्तोत्र के पहिले और पीछे] प्रातःसवन में उन दोनों ने ठहराया है ॥

(अध्वर्यो शंसावोम्—इति माध्यन्दिने षडक्षरेण आह्वयते) (अध्वर्यो शंसावोम्) हे अध्वर्यु ! हम दोनों स्तुति करें, अच्छा ! माध्यन्दिन यज्ञ में इस छह अक्षर वाले वाक्य से वह [होता अध्वर्यु से] कहता है । (शंसावो दैव—इति अध्वर्युः पञ्चाक्षरं प्रतिगृणाति) (शंसावः दैव) हम दोनों स्तुति करते हैं, हे देव ! अध्वर्यु इस पांच अक्षर वाले वाक्य को उत्तर में बोलता है । (तत् एकादशाक्षरं सम्पद्यते) उस से [अध्वर्यो शंसावोम् + शंसावो दैव—पहिला और दूसरा वाक्य मिलकर] ग्यारह अक्षर वाला वाक्य बनता है । (एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्, त्रिष्टुभम् एव एतत् पुरस्तात् माध्यन्दिने अचीकल्पताम्) ग्यारह अक्षर वाला ही त्रिष्टुप् छन्द है, त्रिष्टुप् [तीन कर्म, उपासना और ज्ञान से पूजित ब्रह्म] को ही इस से आरम्भ में माध्यन्दिन सवन के बीच उन दोनों ने ठहराया है । (उक्थं वाचीन्द्राय—इति शस्त्वा षडक्षरम् आह) (उक्थं वाचिन्द्राय) स्तोत्र [मेरी] वाणी में इन्द्र के लिये है—स्तोत्र पद के यह छह अक्षर वाला वाक्य वह [होता] बोलता है । (ओमुक्थशाः यज-

(प्रतिगृणाति) प्रत्युत्तरं ब्रूते (सम्पद्यते) सम्यक् प्राप्नोति (पुरस्तात्) आदौ । आरम्भे (अचीकल्पताम्) तौ कल्पितवन्तौ (उक्थम्) शंसनम् । स्तोत्रम् (वाचि) मम वाचि वर्तते (शस्त्वा) स्तोत्रं पठित्वा (उक्थशाः) गो० उ० ३ । ६ । मन्त्रशंसी (उभयतः) स्तोत्रात् पुरस्तात् पश्चाच्च (शंसाव)

इति अध्वर्युः पञ्चाक्षरं प्रतिगृणाति) हां, स्तुति बोलने वाला तू यज्ञ कर—
अध्वर्यु यह पांच अक्षर वाला वाक्य [उक्थ=उक्थ्] उत्तर में बोलता है ।
(तत् एकादशाक्षरं सम्पद्यते) उस से [उक्थं वाचीन्द्राय+ओमुक्थशा यज्ञ-
पहिला और दूसरा वाक्य मिलकर] ग्यारह अक्षर वाला वाक्य बनता है ।
(एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्, त्रिष्टुभम् एव एतत् उभयतः माध्यन्दिने अर्ची-
कल्पताम्) ग्यारह अक्षर वाला ही त्रिष्टुप् छन्द है, त्रिष्टुप् [तीन कर्म, उपा-
सना और ज्ञान से पूजित ब्रह्म] को ही इन से दोनों और [स्तोत्र के आदि
और अन्त में] माध्यन्दिन सवन के बीच उन दोनों [होता और अध्वर्यु] ने
ठहराया है ॥

(अध्वर्यो शंशं सावोम्—इति तृतीयसवने सप्ताक्षरेण आह्वयते) (अध्वर्यो
शंशंसावओम्) हे अध्वर्यु ! हम दोनों स्तुति करें, अच्छा ! तृतीयसवन में इस
सात अक्षर वाले वाक्य से वह [होता अध्वर्यु से] कहता है । (शंसावो देव-
इति अध्वर्युः पञ्चाक्षरं प्रतिगृणाति) (शंसावः देव) हम दोनों स्तुति करते हैं, हे
देव ! अध्वर्यु इस पांच अक्षर वाले वाक्य को उत्तर में बोलता है । (तत् द्वाद-
शाक्षरं सम्पद्यते) उस से [अध्वर्यो शंशंसावोम्+शंसावो देव—पहिला और
दूसरा वाक्य मिलकर] बारह अक्षर वाला वाक्य बनता है । (द्वादशाक्षरा वै
जगती, जगतीम् एव एतत् पुरस्तात् तृतीयसवने अर्चीकल्पताम्) बारह अक्षर
वाला ही जगती छन्द है, जगती [जगत् की उपकार करने वाली वेद विद्या]
को ही इस से आरम्भ में तृतीयसवन के बीच उन दोनों ने ठहराया है । (उक्थं
वाचीन्द्राय देवेभ्यः—शस्त्वा इति नवाक्षरम् आह) (उक्थं वाचि इन्द्राय देवेभ्यः)
स्तोत्र [मेरी] वाणी में इन्द्र [परमेश्वर] को दिव्य गुणों के पाने के लिये है—
स्तोत्र पढ़कर यह नौ अक्षर वाला वाक्य [होता] बोलता है । (ओम् उक्-
थशाः—इति अध्वर्युः त्र्यक्षरं प्रतिगृणाति) (ओम् उक्थशाः) हां ! तू स्तुति पढ़ने
वाला हो—अध्वर्यु इस तीन अक्षर वाले वाक्य को उत्तर में बोलता है [इस
वाक्य में एक स्वर के लोप से तीन अक्षर माने हैं, ऊपर चार अक्षर कह आये
हैं] । (तत् द्वादशाक्षरं सम्पद्यते) इस से बारह अक्षर वाला वाक्य बनता है ।
(द्वादशाक्षरा वै जगती, जगतीम् एव एतत् उभयतः तृतीयसवने अर्चीकल्प-

श्रावां शंसाव स्त्वाव (अभ्यनूक्ता) अभितः आनुकूलयेनोक्ता कथिता (यत्)
यस्मात् कारणात् (गायत्रे) अमिनक्षिंयजि० । उ० ३ । १०५ । गै गाने—अत्रन्,
युक् च । गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः—निरु० १ । ८ । स्तुत्ये गुणे (अवि)

ताम् इति) बारह अक्षर वाला ही जगती छन्द है, जगती [जगत् का उपकार करने वाली वेद विद्या] को ही इस से दोनों ओर [स्तुति के आदि और अन्त में] तृतीय सवन के बीच उन दोनों [होता और अध्वर्यु] ने ठहराया है ॥

(एतत् वै छन्दः छन्दसि प्रतिष्ठापयति, देवविशः एव कल्पयति, यः एव वेद) इस से ही वह [यजमान] छन्द [वेद] को छन्द [वेद के आधार पर-मात्मा] में स्थापित करता है और देवताओं की प्रजाओं की भी कल्पना करता है, जो ऐसा जानता है । (तत् अपि एषा अभ्यनूक्ता—यत् गायत्रे अधि गायत्रम् आहितम् इति) इस से ही यह बहुत अनुकूल ऋचा कही गयी है—यत् गायत्रे अधि गायत्रम् आहितम्, इत्यादि—अथर्व ६ । १० । १ ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्यों को यथोचित वाक्यों द्वारा पदार्थों के गुणों के यथावत् ज्ञान और उपयोग से परमेश्वर की भक्ति के साथ आनन्द भोगना चाहिये ॥ १० ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । १२ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(छन्दसि) के स्थान पर (छन्दश्छन्दसि) और (उभयः) के स्थान पर (उभयतः) ऐ० ब्रा० और इसी करिडका के दूसरे स्थल से शुद्ध किया है ॥

टिप्पणी ३—(यद्गात्रे अधि.....) यह मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता है ॥

यद् गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत । यद् वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशुः—अथर्व० ६ । १० । १, ऋग्० १ । १६४ । २३ ॥ (यत्) क्योंकि (गायत्रम्) गायत्र [स्तुति करने वालों का रक्षक ब्रह्म] (गायत्रे) गायत्र [स्तुति योग्य गुण] में (अधि) ऐश्वर्य के साथ (आहितम्) स्थापित है, (वा) और (त्रैष्टुभम्) त्रैष्टुभ [तीन सत्त्व, रज और तम के बन्धन वाले जगत्] को (त्रैष्टुभात्) त्रैष्टुभ [तीन कर्म, उपासना और ज्ञान से पूजित ब्रह्म] से (निरतक्षत) उन्होंने ने [ऋषियों ने] पृथक् किया है । (वा) और (यत्) क्योंकि (जगत्) जगत् [जानने योग्य] (पदम्) पद [पाने योग्य मोक्ष पद] (जगति) जगत् [संसार] के भीतर (आहितम्) स्थापित है, (ये इत्) जो ही [पुरुष] (तत्) उस [ब्रह्म] को (विदुः) जानते हैं, (ते) उन्होंने ने (अमृतत्वम्) अमरपन (आनशुः) पाया है ॥

ऐश्वर्य्ये (गायत्रम्) गै गाने—शतृ + त्रङ् पालने—क, तलोपः । गायतां रक्षकं ब्रह्म (आहितम्) धृतम् ॥

कण्डिका ११ ॥

अथैतन्नानाच्छ्रुत्वाऽन्तरेण गर्ता इव । अथैते श्रविष्टे बलिष्टे नान्तरे णवते ताभ्यां प्रतिपद्यते, तद्गर्तस्कन्दं रोहस्य रूपं स्वर्गं तदनु वा न सङ्क्रामेत् । अमृतं वै प्रणवः, अमृतेनैव तत् मृत्युं तरति । तद्यथा मन्त्रेण वा वधशेन वा गर्तं सङ्क्रामेत्, एवं तत् प्रणवेनोपसन्तनोति । ब्रह्म ह वै प्रणवः, ब्रह्मणैवास्मै तद् ब्रह्मोपसन्तनोति । शुद्धः प्रणवः स्यात् प्रजाकामानां मकरान्तः । प्रतिष्ठाकामानां मकरान्तः प्रणवः स्यादिति हैक आहुः । शुद्ध इति त्वेव स्थितो मीमांसितः प्रणवः । अथात इह शुद्ध इह पूर्ण इति, शुद्धः प्रणवः स्याच्छ्रुत्वाऽनुवचनयोर्मध्य इति, ह स्माह कौपीतकिः । तथासंहितं भवति मकरान्तोऽवसानार्थं । प्रतिष्ठा वा अवसानं, प्रतिष्ठित्या एव । अथोभयोः कामयोराप्त्या एतौ वै छन्दः प्रवाहावरं छन्दः परञ्छन्दोऽतिप्रवाहतः, तस्यायुर्न हिनस्ति, छन्दसां छन्दोऽतिप्रौढं स्यात्, यत्रैव यं द्विष्यात्तं मनसा प्रैव विध्ये छन्दसां क्रन्दत्रे द्रवति वाचं वा शीर्यत इति । त्रिः प्रथमां त्रिरुत्तमामन्वाह, यन्नस्यैव तद्वर्हिसौ नह्यति, स्थेन्ने वलायाविस्रंसाय । यद्यपि छन्दः प्रातःसवने युज्येतार्द्धर्चश एव तस्य शंस्यं गायत्र्या रूपेण । अथो प्रातःसवनरूपेणेति, न त्रिष्टुब्जगत्यावेतस्मिं स्थानेऽर्द्धर्चशस्ये यत् किञ्चिच्छन्दः प्रातःसवने युज्येतां पच्छ एवैनयोः शस्यमिति सा स्थितिः ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ छन्दों के साथ प्रणव का सम्बन्ध और व्याख्यान ॥

(अथ एतत् नाना छन्दांसि अन्तरेण गर्ताः इव) फिर यह अनेक छन्द [पूर्व कण्डिका में कहे हुये] एक दूसरे के बीच गर्ता [गड़हों] के समान हैं । (अथ एते श्रविष्टे बलिष्टे) फिर यह दोनों [दो प्रकार के छन्द पूर्व कण्डिका में कहे हुये] अति विख्यात और अति बलवान् हैं । (नान्तरे णवते ताभ्यां प्रतिपद्यते) अभेद में णवते [जो स्तुति किया जाय वह प्रणव ओम्] उन दोनों [दो प्रकार के छन्दों] से समझा जाता है । (तत् गर्तस्कन्दं रोहस्य रूपं स्वर्गं तत् अनु वा न सङ्क्रामेत्) उस से गर्त [गड़हा वा भूमिच्छिद्र] को

११—(अन्तरेण) परस्परमध्ये (गर्ताः) हसिमृत्रिण्वामि० । उ० ३ । ८६ । गृ निगरणे—तन् । भूमिच्छिद्राणि (श्रविष्टे) श्रु श्रवणे—श्रप्, श्रवः—मतुप्, इष्टन्, मतुपो लुक् । अतिशयेन प्रसिद्धे (नान्तरे) अनन्तरे । अभेदे (णवते) नवते । नूयते । स्तूयते स प्रणवः (ताभ्याम्) द्विप्रकाराभ्यां छन्दोभ्याम्

प्राप्त होके अङ्कुर के रूप स्वर्ग को उस के अनुकूल निश्चय करके अब वह [पुरुष] अच्छे प्रकार प्राप्त करे । (अमृतं वै प्रणवः, अमृतेन एव तत् मृत्युं तरति) अमृत [अविनाशी] ही प्रणव [स्तुति योग्य ओम्] है, अमृत [अविनाशी ओम्] के साथ ही तब वह मृत्यु को पार करता है । (तत् यथा मन्त्रेण वा वंशेन वा गर्तं सङ्क्रामेत्, एवं तत् प्रणवेन उपसन्तनोति) सो जैसे मन्त्र [विचार] द्वारा अथवा वांस द्वारा गढ़हे को अच्छे प्रकार प्राप्त करे, वैसे ही तत्त्व को प्रणव द्वारा वह अच्छे प्रकार फैलाता है । (ब्रह्म ह वै प्रणवः, ब्रह्मणा एव अस्मै तत् ब्रह्म उपसन्तनोति) ब्रह्म [सब से बड़ा] ही निश्चय करके प्रणव है, ब्रह्म के द्वारा ही इस [संसार] के लिये उस ब्रह्मज्ञान को मनुष्य अच्छे प्रकार फैलाता है । (प्रजाकामानां प्रणवः शुद्धः मकरान्तः स्यात्, प्रतिष्ठाकामानां प्रणवः मकरान्तः स्यात् इति ह एकं आहुः) प्रजा चाहने वालों का प्रणव [ओम्] शुद्ध मकारान्त है, और प्रतिष्ठा चाहने वालों का प्रणव मकारान्त है—ऐसा कोई कोई कहते हैं । (शुद्धः प्रणवः इति तु एव स्थितः मीमांसितः) प्रणव शुद्ध है—यह तो स्थिर, तत्त्व से निर्णय किया हुआ [सिद्धान्त] है । (अथ अतः इह शुद्धः इह पूर्णः इति शुद्धः प्रणवः शस्त्रानुवचनयोः मध्ये स्यात् इति ह स्म कौपीतकिः आह) फिर इस कारण से कि—वह यहाँ शुद्ध है, वह यहाँ पूर्ण है—वह शुद्ध प्रणव दोनों स्तोत्र और व्याख्यान के बीच में है—ऐसा कौपीतकि [तत्त्व परोक्षक का पुत्र ऋषि] कहता है । (तथा संहितं भवति मकरान्तः अवसानार्थे) इस प्रकार से यह संगत होता है—मकरान्त [ओम्] सीमा वा ठहराव के लिये है । (प्रतिष्ठा वै अवसानं, प्रतिष्ठित्यै एव) प्रतिष्ठा [ठहराव] ही सीमा है, वह [ओम्] प्रतिष्ठा के लिये ही है । (अथ उभयोः कामयोः आप्त्यै एतौ वै छन्दःप्रवाहौ अरं छन्दः परं छन्दः अतिप्रवहतः) फिर

(गर्तस्कन्दम्) गर्त + स्कन्दिर्—गतिशोषणयोः—णमुल् । गर्तं स्कन्दित्वा प्राप्य (रोहस्य) अङ्कुरस्य (न) सम्प्रति (सङ्क्रामेत्) सम्यक् प्राप्नुयात् (अमृतम्) अविनाशि ब्रह्म (मन्त्रेण) विचारेण (वंशेन) तृणजातिभेदेन (मकरान्तः) मकारान्तः प्रणवः, ओम् (मीमांसितः) तत्त्वेन निर्णीतः (शस्त्रानुवचनयोः) स्तोत्रव्याख्यानयोः (कौपीतकिः) कुसुंरुम्भोमेदेताः । उ० ४ । १०६ कुष निष्कर्षे—इत, स्वार्थे—कन् दीर्घश्च । कुषीतक—इञ् अपत्यार्थे । कुषीतकस्य तत्त्वनिष्कर्षकस्य पुत्रः । ऋषिविशेषः (संहितम्) संगतम् (अवसानम्) विरामः । सीमा (अरम्) अलम् । पर्याप्तम् (परम्) श्रेष्ठम् (अतिप्रौढम्) अति प्रवृद्धम्

[प्रजा और प्रतिष्ठा की] दोनों कामनाओं की प्राप्ति के लिये यह दोनों छन्द प्रवाह अरं छन्द और परं छन्द [अर्थात् पर्याप्त छन्द और श्रेष्ठ छन्द] अत्यन्त करके बहते रहते हैं। (तस्य आयुः न हिनस्ति, छन्दसां छन्दः अतिप्रौढं स्यात्) उस के आयु को वह नहीं नाश करता [जिस का] छन्द [वेद ज्ञान] छन्दों के बीच अति पुष्ट होवे। (यत्र एव यं द्विष्यात् तं मनसा एव प्र विध्ये) जहां पर ही जिस से द्वेष करे, उस को मनन से ही छेद डाले। (छन्दसां क्रन्दन्ने वाचं द्रवति वा शीर्यते इति) छन्दों के बोलने वाले के लिये वह [शत्रु अपनी] वाणी पिघला देता है वा [आप] नष्ट हो जाता है। (त्रिः प्रथमां त्रिः उत्तमाम् अन्वाह तत् वर्हिसौ यज्ञस्य एव स्थेम्ने बलाय अविस्त्रंसाय नह्यति) वह तीन बार पहिली [ऋचा] और तीन बार सब से पिछली [ऋचा] पढ़ता है और उस से दो वृद्धिकारक व्यवहारों [प्रजा कामना और प्रतिष्ठा कामना, अथवा दो कुशाओं] को यज्ञ की स्थिरता के लिये, बल के लिये और अविनाश के लिये नियत करता है। (यद्यपि प्रातःसवने अर्धर्चशः एव तस्य शंस्यं छन्दः गायत्र्याः रूपेण युज्येत, अथो प्रातःसवनेरूपेण इति) यद्यपि प्रातःसवन में आधी आधी ऋचाओं से ही उस का बोलने योग्य छन्द गायत्री के रूप से बोला जावे और प्रातःसवन के रूप से भी। (त्रिष्टुब्-जगत्यौ एतस्मिन् स्थाने अर्धर्चशस्ये न युज्येताम्, यत् किञ्चित् छन्दः प्रातः-सवने) त्रिष्टुप् और जगती छन्द इस स्थान पर आधी आधी ऋचाओं के बोलने में न बोले जावें, जो कुछ छन्द प्रातःसवन में [होवे वह ही बोला जावे]। (पच्छः एव एनयोः शस्यम् इति सा स्थितिः) पाद पाद करके ही इन दोनों [त्रिष्टुप् और जगती] का कथन होवे—यह मर्यादा है ॥ ११ ॥

भावार्थ—प्रणव वा ओम् सर्वनियन्ता और सर्वरक्षक है। जहां जहां मन्त्र में अवसान अर्थात् विराम किया जावे, वहां ओम् शब्द बोला जावे ॥ ११ ॥

टिप्पणी—इस करिडका का अर्थ और अधिक विचारणीय है। प्रणव वा ओम् के लिये माण्डूक्योपनिषद् और यही गो० ब्रा० पू० १ । १६-२८ देखो ॥

(क्रन्दन्ने) कथयिन्ने (द्रवति) रस्त्रीभूतां नम्रां करोति (वर्हिसौ) वृद्धिव्यवहारौ । कुशौ (स्थेम्ने) स्थिर—इमनिच् । स्थिरतायै (अविस्त्रंसाय) अविध्वंसाय (अर्धर्चशः) ; अर्धर्चप्रयोगेण (शंस्यं, शस्यम्) शंसु कथने—कथप् । कथनीयम् । कथनम् (पच्छः) पद्—शः । पादशः । पादेन पादेन (स्थितिः) मर्यादा ॥

कण्डिका १२ ॥

अथात एकाहस्य प्रातःसवनम् । प्रजापतिं ह वै यज्ञं तन्वानं वहिष्पवमानं एव मृत्युं मृत्युपाशेन प्रत्युपाक्रामत् । स आग्नेय्या गायत्र्याज्यं प्रत्यपद्यत् । मृत्युर्वाव तं पश्यत् । प्रजापतिं पर्यक्रामत् । तं सामाज्येष्ठ सीदत् । स वायव्या प्रउगं प्रत्यपद्यत् । मृत्युर्वाव तं पश्यत् । प्रजापतिं पर्यक्रामत् । तं माध्यन्दिने पवमाने सीदत् । स ऐन्द्रा त्रिष्टुभा मरुत्वतीयं प्रत्यपद्यत् । मृत्युर्वाव तं पश्यत् । प्रजापतिं पर्यक्रामत् । स तेनैव द्रविणे पूर्वा निष्केवल्यस्य स्तोत्रिय-मासीदत्, तमस्तृणोत् । तस्माद्दु य एव पूर्वमासीदति, स तत् स्तृणुते । विद्वान् मृत्युरनवकाशमपाद्रवत्, अशथ्सत्, इतरो निष्केवल्यम् । तस्मादेकमेवोक्तं होता मरुत्वतीयेन प्रतिपद्यते । निष्केवल्यमेवात्र हि प्रजापतिं मृत्युर्व्यजहात् ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ एकाह यज्ञ के प्रातःसवन में प्रजापति
मृत्यु को स्तोत्रों द्वारा भगाता है ॥

(अथ अतः एकाहस्य प्रातःसवनम्) अब यहां एकाह [एक दिन वाले] यज्ञ का प्रातःसवन [कहा जाता है] । (यज्ञं तन्वानं प्रजापतिं ह वै वहिष्पवमाने एव मृत्युं मृत्युपाशेन प्रत्युपाक्रामत्) यज्ञ फैलाते हुये प्रजापति पर वहिष्पवमान स्तोत्र [जैसे—उपास्मै गायता नरःसाम उ० १ । १ । तृच १-३ वा ६ मन्त्र] पर ही मृत्यु [विघ्न] ने मृत्युपाश से धावा किया । (सः आग्नेय्या गायत्र्या आज्यं प्रत्यपद्यत्) उस [प्रजापति] ने आग्नेयी गायत्री से [अग्नि देवता वाले गायत्री छन्द से, जैसे—अग्निं दूतं वृणीमहे.....ऋग्० १ । १२ । १—१२, अथवा—समिधाग्निं दुवस्यत.....यजु० ३ । १—३] आज्य [उस गायत्री छन्द से घृत, इस नाम वाले स्तोत्र] को आरम्भ किया । (मृत्युः वाव तं प्रजापतिं पश्यत् पर्यक्रामत्) मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा और [उस पर] धावा किया । (तं सामाज्येष्ठ सीदत्) उस [प्रजापति] को सामाज्येष्ठ

१२—(तन्वानम्) विस्तारयन्तम् (वहिष्पवमाने) एतन्नामके स्तोत्रे (मृत्युम्) सुपां सुपो भवन्ति । वा० पा० ७ । १ । ३६ । प्रथमार्थे द्वितीया । मृत्युः (प्रत्युपाक्रामत्) प्रातिकूल्येन आक्रान्तवान् (आज्यम्) एतन्नामकं स्तोत्रम् (पश्यत्) अपश्यत् (पर्यक्रामत्) आक्रान्तवान् (सामाज्येष्ठ) सामज्येष्ठे । एतन्नामके स्तोत्रे (सीदत्) असीदत् । प्राप्नोत् (प्रउगम्) प्र+युजिर् योगे-अच्, पृषोदरादिरूपम् । प्रयुगं । प्रयोगार्हम् । एतन्नामकं स्तोत्रम् (प्रत्यपद्यत्)

[वृहत्साम नाम वाले स्तोत्र] में उस [मृत्यु] ने पाया । (सः वायव्या प्रउगं प्रत्यपद्यत्) उस [प्रजापति] ने वायवी से [वायु देवता वाले गायत्री छन्द से, जैसे—वायवा याहि दर्शतेमे ऋग्० १ । २ । १—३] प्रउग [उस गायत्री छन्द से प्रयोग योस्य, इस नाम वाला स्तोत्र] को आरम्भ किया । (मृत्युः वाव तं प्रजापतिं पश्यत् पर्य्यक्रामत्) मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा और [उस पर] धावा किया । (तं माध्यन्दिने पवमाने सीदत्) उस [प्रजापति] को माध्यन्दिन पवमान [इस नाम वाले स्तोत्र] में उसने पाया । (सः ऐन्द्रा त्रिष्टुभा मरुत्वतीयं प्रत्यपद्यत्) उस [प्रजापति] ने ऐन्द्रा त्रिष्टुप् से [इन्द्र देवता वाले त्रिष्टुप् छन्द से, जैसे—इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम् ऋग्० १ । ३२ । १—१५] मरुत्वतीय [मरुतों अर्थात् भोतों से युक्त मरुत्वान् इन्द्र अर्थात् वायु वा विजुली देवता वाले स्तोत्र] को आरम्भ किया । (मृत्युः वाव तं प्रजापतिं पश्यत् पर्य्यक्रामत्) मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा और [उस पर] धावा किया । (सः पूर्वः तेन एव द्रविणे निष्केवल्यस्य स्तोत्रियम् आसीदत्, तम् अस्तृणोत्) उस [प्रजापति] ने पहिले होकर उस [मरुत्वतीय स्तोत्र] से ही द्रविण [नाम वाले यज्ञ भाग] में निष्केवल्य [नाम वाले स्तोत्र] के स्तोत्रिय [नाम वाले स्तोत्र भाग] को पाया और उस [मृत्यु] को ढक दिया । (तस्मात् उ यः एव पूर्वम् आसीदति, सः तत् स्तृणुते) इस लिये जो हि पुरुष पहिले पहुंचता है, वह उस [मृत्यु] को ढक देता है । (मृत्युः अनवकाशं विद्वान् अपाद्रवत्, इतरः निष्केवल्यम् अशंसत्) मृत्यु अनवसर जानता हुआ भाग गया, दूसरे [प्रजापति] ने निष्केवल्य स्तोत्र पढ़ा । (तस्मात् एकम् एव उक्थं होता मरुत्वतीयेन प्रतिपद्यते) इस लिये एक ही उक्थ [कहने योग्य स्तोत्र] को होता मरुत्वतीय स्तोत्र से आरम्भ करता

प्रारब्धवान् (मरुत्वतीयम्) द्यावापृथिवीर्वाग्नुनासीरमरुत्वदग्नीषोम० । पा० ४ । २ । ३२ । मरुत्वत्—छ, अस्य देवता इत्यर्थे । मरुत्वान् इन्द्रो देवता यस्य तत् स्तोत्रम् (द्रविणे) बले—निघ० २ । ६ । धने—निघ० २ । १० । एतन्नामके यज्ञभागे (निष्केवल्यस्य) एतन्नामकस्य स्तोत्रस्य (स्तोत्रियम्) स्तोत्र—घ । एतन्नामकं स्तोत्रभागम् (अस्तृणोत्) आच्छादितवान् (विद्वान्) जानन् (अनवकाशम्) अनवसरम् (अपाद्रवत्) दूरमगच्छत् (अशंसत्) स्तुतवान् (प्रतिपद्यते) आरभते (निष्केवल्यम्) निष्केवल्येन (व्यजहात्) विशेषेण त्यक्तवान् ॥

है । (निष्केवल्यम् एव अत्र हि प्रजापतिं मृत्युः व्यजहात्) निष्केवल्य स्तोत्र से ही यहां प्रजापति को मृत्यु ने छोड़ दिया है ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे पहिले से विचार के साथ विघ्नों को हटा कर अग्नि प्रज्वलित कर के यज्ञ सिद्ध करते हैं, वैसे ही मनुष्य प्रत्येक कार्य को पहिले से विचार कर प्रयत्न के साथ पूरा करें ॥ १२ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका के कुछ कुछ अंश के लिये ऐतरेय ब्राह्मण ३ । १४ देखो ॥

टिप्पणी २—सङ्केतित मन्त्र वेद में देखो ॥

कण्डिका १३ ॥

मित्रावरुणावब्रवीत्, युवं न इमं यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरतां, मैत्रावरुणीयाम् । तथेत्यब्रूताम् । तौ सयुजौ सबलौ भूत्वा प्रासहा मृत्युमत्यैताम् । तौ ह्यस्यैतद्यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरतां मैत्रावरुणीयाम् । तस्मात् मैत्रावरुणः प्रातःसवने मैत्रावरुणानि शंसति । तौ ह्यस्यैतद्यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरताम् । यद्वेव मैत्रावरुणानि शंसति, प्रति वां सूर उदिते विधेम नमोभिर्मित्रावरुणोत हव्यैः । उत वामुषसो बुधिः साकं सूर्यस्य रश्मिभिरिति ऋचाभ्यानूक्तम् । मा नो मित्रावरुणा नो गन्तं रिशादसेति, मैत्रावरुणस्य स्तोत्रियानुरूपौ । प्र वो मित्राय गायतेति उक्थमुखम् । प्र मित्रयोर्वरुणयोरिति पर्यासः । आयातं मित्रावरुणेति यजति । एते एव तद् देवते यथाभागं प्रीणाति वषट्कृत्यानुवषट्करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशशंसाः सीदन्ति ॥ १३ ॥

कण्डिका १३ ॥ प्रातःसवन में मैत्रावरुण द्वारा मित्र और वरुण की स्तुति ॥

(मित्रावरुणौ अब्रवीत्, युवं नः यज्ञस्य इमम् अङ्गं मैत्रावरुणीयाम् अनुसमाहरताम्) वह [यजमान] मित्र और वरुण [हितकारक और उत्तम आचरण वाले दोनों पुरुषों] के विषय में [ब्रह्मा और होता से] बोला—तुम दोनों हमारे यज्ञ के इस अङ्ग को मित्र और वरुण वाली [स्तुति] से अनुकूलता के साथ समाप्त करो । (तथा इति अब्रूताम्) ऐसा ही हो—वे दोनों [ब्रह्मा

१३—(मित्रावरुणौ) हितकरं च श्रेष्ठं च पुरुषम् (अब्रवीत्) द्विकर्मकः । अकथयत् (युवम्) युवाम् (अनुसमाहरताम्) अनुकूलतया समापयतम् (मैत्रावरुणीयाम्) मित्रवरुणसम्बन्धिनीं स्तुतिम् (सयुजौ) युजिर् योगे—

और होता] बोले । (तौ सयुजौ सबलौ प्रासहा भूत्वा मृत्युम् अति पेटाम्)
 [और] वे दोनों [मित्र और वरुण] समान योग [मेल] वाले, समान
 बल वाले और विजयी होकर मृत्यु को लांघकर चले हैं । (तौ हि अस्य
 यज्ञस्य एतत् अङ्गं मैत्रावरुणीयाम् अनुसमाहरताम्) उन दोनों ने ही इस
 यज्ञ के इस अङ्ग को मित्र और वरुण वाली [स्तुति] से अनुकूलता के
 साथ समाप्त किया है । (तस्मात् मैत्रावरुणः प्रातःसवने मैत्रावरुणानि शंसति)
 इस लिये मैत्रावरुण [मित्र और वरुण की स्तुति करने वाला ऋत्विज]
 प्रातःसवन में मित्र और वरुण वाले [स्तोत्र] बोलता है । (तौ हि अस्य
 यज्ञस्य एतत् अङ्गम् अनुसमाहरताम्) वे दोनों [मित्र और वरुण] ही इस
 यज्ञ के इस अङ्ग को अनुकूलता से पूरा करें । (यत् उ एव मैत्रावरुणानि
 शंसति, मित्रावरुणा वां सुरे उदिते नमोभिः उत हव्यैः प्रति विधेम उत वाम्
 उषसः बुधिः सूर्यस्य रश्मिभिः साकम्—इति ऋचा अभ्यनूक्तम्) क्योंकि वह
 ही [मैत्रावरुण] मित्र और वरुण वाले स्तोत्र [इस प्रकार] पढ़ता है—हे
 मित्र और वरुण ! [हितकारक और उत्तम आचरण वाले पुरुषो] तुम दोनों
 को सूर्य के उदय होने पर सत्कारों और ग्रहण करने योग्य अन्नों से प्रत्यक्ष
 करके हम पूजें, और तुम दोनों को प्रभात बेला के ज्ञान में सूर्य की किरणों के
 साथ [हम पूजें]—यह इस ऋचा [ब्राह्मण वचन] करके अनुकूल कहा
 गया है । (रिशादसा मित्रावरुणा मा, नः नः गन्तम्, इति मैत्रावरुणस्य स्तो-
 त्रियानुरूपौ) हे दुःख के नाश करने वाले मित्र और वरुण [हितकारक और
 उत्तम आचरण वाले पुरुषो] तुम दोनों मत [जाओ], हम को हम को प्राप्त
 हो—यह [और पहिला ब्राह्मण वचन] मैत्रावरुण के स्तोत्र के अनुरूप दो
 [मन्त्र] हैं । (प्र वा मित्राय गायत—इति उक्थमुखम्, प्र मित्रयोर्वरुणयोः,
 इति पर्यासः, आ यातं मित्रावरुणा—इति यजति) प्र वो मित्राय गायत—ऋग्०
 ५ । ६८ । १, यह उक्थ यज्ञ का आरम्भ है, प्र मित्रयोर्वरुणयोः—ऋग्० ७ । ६६ ।

क्विप् । समानं युञ्जानौ (सबलौ) सामानबलवन्तौ (प्रासहा) प्र+षह मर्षणे
 अभिभवे च—अच्, आर्षो दीर्घः, विभक्तेराकारः । प्रकर्षेण जेतारौ (अति)
 अतीत्य । उल्लङ्घ्य (प्रति) प्रत्यक्षेण (सुरे) सूर्ये (उदिते) उद्गते (विधेम)
 पूजयेम (नमोभिः) सत्कारैः (उत) च (हव्यैः) ग्राह्यैरन्नैः (बुधिः) भुवः
 कित् । उ० २ । ११२ । बुध अवगमने—इसिन्, विभक्तेर्लक् । बुधिसि । बोधे
 (मा) निषेधे (मा गन्तं) मा गच्छतम् (नः) अस्मान् (गन्तम्) गच्छतम् (रिशा-

१, यह अन्त है, आ यातं मित्रावरुणा—ऋग्० ७ । ६६ । १६, इस से वह यज्ञ करता है । (एते एव देवते तत् यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट्करोति) इन ही देवों देवताओं को उस से अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है, और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं—नरों की स्तुति रहित यज्ञ न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [नहीं बढ़ते हैं] ॥ १३ ॥

भावार्थ—चतुर मनुष्य विद्वानों की स्तुति उन के गुणों के अनुकूल करते हैं, उस से संसार में आनन्द बढ़ता है ॥ १३ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।

१—प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिंक्षत्रावृतं वृहत्—ऋग्० ५ । ६८ । १ ॥ [हे विद्वानों] (वः) अपने लिये (विपा गिरा) प्रेरित [वेद] बाणी से (मित्राय) मित्र [हितकारक] और (वरुणाय) वरुण [उत्तम आचरण वाले पुरुष] की (प्र गायत) अच्छे प्रकार बढ़ाई करो । (महिंक्षत्रौ) वे देवों बड़े हानि से बचाने वाले (वृहत्) बड़े (ऋतम्) सत्य नियम रूप हैं ॥

२—प्र मित्रयोर्वरुणयोः स्तोमो न एतु शूष्यः । नमस्वान् तुविजातयोः—ऋग्० ७ । ६६ । १ ॥ (तुविजातयोः) बहुत प्रसिद्ध (मित्रयोः, वरुणयोः) मित्र और वरुण [हितकारक और श्रेष्ठ आचरण वाले] देवों को (नः) हमारा (शूष्यः) सुख देने वाला और (नमस्वान्) उत्तम अज्ञों वाला (स्तोमः) स्तुति योग्य व्यवहार (प्र एतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥

३—आ यातं मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं नरा । पातं सोममृतावृधा—ऋग्० ७ । ६६ । १६ ॥ (नरा) हे देवों नरों ! [नेताओं] (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण ! [हितकारक और उत्तम आचरण वाले पुरुषों] (आहुतिम्) आहुति [भेट] को (जुषाणा) सेवन करते हुये (आ यातम्) आओ, (ऋत-वृधा) हे सत्य नियम बढ़ाने वाले देवों (सोमम्) सोम [तत्त्व रस] की (पातम्) रक्षा करो ॥

दसा) शत्रुनाशकौ (पर्यासः) परि उपरमे + अस सत्तायां—घञ् । समाप्तिः । अन्तः (अभिमृशन्ते) सर्वतो विचारयन्ति ऋषयः (न) निषेधे (आप्याययन्ति) वर्धयन्ति (अनाराशंसाः) नञ् + नृ नये—अच + शंसु हिंसायां स्तुतौ कथने च—घञ् । नरः नेतारः शस्यन्ते प्रशस्यन्ते यत्र स नराशंसः, नराशंसः एव नाराशंसः नराणां प्रशंसारहिता यज्ञः (सीदति) गच्छन्ति । प्रवर्तन्ते ॥

कण्डिका १४ ॥

इन्द्रमब्रवीत्, त्वं न इमं यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरन् ब्राह्मणाच्छंसीयाम् । केन सहेति । सूर्येणेति । तथेत्यब्रूताम् । तौ सयुजौ सबलौ भूत्वा प्रासहा मृत्युमत्यै-
ताम् । तौ ह्यस्यैतद्यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरतां ब्राह्मणाच्छंसीयाम् । तस्माद् ब्राह्मणा-
च्छंसी प्रातःसवन ऐन्द्राणि सूर्यान्वङ्गानि शंसति । तौ ह्यस्यैतद्यज्ञस्याङ्गमनु-
समाहरताम् । यद्वेव ऐन्द्राणि सूर्यान्वङ्गानि शंसति, इन्द्र पिव प्रतिकामं
सुतस्य प्रातःसावस्तव हि पूर्वपीतिरिति ऋचाभ्यनूक्तम् । आ याहि सुषुमाहित
आ नो याहि सुतावत इति ब्राह्मणाच्छंसिन स्तोत्रियानुरूपौ । अयमु त्वा विच-
र्षण इति उक्थमुखम् । उद् घेदभिश्चुतामघमिति पर्यासः । इन्द्र क्रतुविदिमति
यजति । एते एव तद् देवते यथाभागं प्रीणाति, परद्ः सुषुपद् करोति ।
प्रत्येवाभिभृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशंसः सीदन्ति ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ प्रातः सवन में ब्राह्मणाच्छंसी द्वारा इन्द्र और सूर्य की स्तुति ॥

(इन्द्रम् अब्रवीत्, त्वं नः यज्ञस्य इमम् अङ्गं ब्राह्मणाच्छंसीयाम् अनु-
समाहरन्) वह [यजमान] इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] के विषय में [ब्रह्मा
और होता से] बोला—तू [तुम दोनों] हमारे यज्ञ के इस अङ्ग को ब्राह्मणा-
च्छंसी [वेद से स्तुति करने वाले ऋत्विज] वाली [स्तुति] से अनुकूलता के
साथ समाप्त करो । (केन सह इति) [वे बोले] किस के साथ । (सूर्येण इति)
[यजमान बोला] सूर्य [प्रेरणा करने वाले वा सूर्य के समान प्रतापी पुरुष]
के साथ । (तथा इति अब्रूताम्) वे दोनों [ब्रह्मा और होता] बोले—ऐसा ही
हो । (तौ सयुजौ सबलौ प्रासहा भूत्वा मृत्युम् अति पेटाम्) और वे दोनों
[इन्द्र और सूर्य] समान योग [मेल] वाले, समान बल वाले और विजयी
होकर मृत्यु को लाँघ कर चले हैं । (तौ हि अस्य यज्ञस्य एतत् अङ्गं ब्राह्मणा-
च्छंसीयाम् अनुसमाहरताम्) उन दोनों ने ही इस यज्ञ के इस अङ्ग को ब्राह्मणा-
च्छंसी वाली [स्तुति] से अनुकूलता के साथ समाप्त किया है । (तस्मात्
ब्राह्मणाच्छंसी प्रातःसवने ऐन्द्राणि सूर्यानि अङ्गानि शंसति) इस लिये ब्राह्मणा-

१४—(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् (त्वम्) युवाम् (अनुसमाह-
रन्) अनुकूलतया समापयतम् (ब्राह्मणाच्छंसीयाम्) ब्राह्मणाच्छंसिसम्बन्धिनीं
स्तुतिम् (सूर्यानि) सूर्य—यत् । सूर्याणि । सूर्यसम्बन्धीनि (प्रतिकामम्)

च्छंसी [ऋचिज] प्रातःसवन में इन्द्र वाले और सूर्य वाले अङ्गों को बोलता है । (तौ हि अस्य यज्ञस्य पतत् अङ्गं समाहरताम्) वे दोनों [इन्द्र और सूर्य] ही इस यज्ञ के इस अङ्ग को अनुकूलता से पूरा करें । (यत् उ एव ऐन्द्राणि सूर्यानि अङ्गानि शंसति) क्योंकि वह ही [ब्राह्मणाच्छंसी] इन्द्र वाले और सूर्य वाले अङ्गों को [इस प्रकार] बोलता है—(इन्द्र पिब प्रतिकामं सुतस्य प्रातःसावस्तव हि पूर्वपीतिः—इति ऋचा अभ्यनूक्तम्) इन्द्र पिब प्रतिकामं [ऋ० १० । ११२ । १] इस ऋचा [वेद मन्त्र] करके अनुकूल कहा गया है । (आ याहि सुषुमा हि ते [ऋ० ८ । १७ । १], आ नो याहि सुतावतः.....इति ब्राह्मणाच्छंसिनः स्तोत्रियानुरूपौ) आ याहि सुषुमा [ऋ० ८ । १७ । १] आ नो याहि [ऋ० ८ । १७ । १] यह दो [मन्त्र] ब्राह्मणाच्छंसी के स्तुति के अनुरूप हैं । (अयमु त्वा विचर्षणे—इति उक्थमुखम्) अयमु त्वा [ऋ० ८ । १७ । ७] यह उक्थ यज्ञ का आरम्भ है । (उद् घेदभि श्रुता मघम् इति पर्यासः) उद् घेदभि श्रुता मघम् [ऋ० ८ । ६३ । १] यह अन्त है । (इन्द्र क्रतुविदम्..... इति यजति) इन्द्र क्रतुविदम् [अथ० २० । ७ । ४] इस से वह यज्ञ करता है । (एते एव देवते तत् यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट् करोति) इन ही दोनों देवताओं को उस से अपने अपने भाग के अनुसार प्रसन्न करता है और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं—नरों की स्तुति रहित यज्ञ न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [नहीं बढ़ते हैं] ॥ १४ ॥

भावार्थ—कण्डिका १३ के समान है ॥ १४ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—इन्द्र पिब प्रतिकामं सुतस्य प्रातःसावस्तव हि पूर्वपीतिः । हर्षस्व

यथेच्छम् (सुतस्य) अभिषुतसोमस्य (प्रातःसावः) प्रातः+षुञ् अभिषवे—घञ् । प्रातःकालाभिषुतः सोमरसः (पूर्व प्रीतिः) पूर्वपातव्यरसः (सुसुम) अभिषुतवन्तो वयम् (सुतवतः) उत्तमसन्तानयुक्तान् (विचर्षणे) कृषेरादेश्च चः । उ० २ । १०४ वि+कृष विलेखने—अनि, कस्य च । विचर्षणिः पश्यति—कर्मा—निघ० ३ । ११ हे विविधं द्रष्टः । दूरदर्शिन् (उत्) ऊर्ध्वम् (घ) अवश्यम् (इत्) एव (श्रुतमघम्) प्रख्यातधनयुक्तम् (क्रतुविदम्) प्रज्ञाप्रापकम् । अन्यद्गतम्—कं० १३ ॥

हन्त॑वे शूर शत्रू॑नुक्थेभि॑ष्टे वीर्या॑ः३ प्र ब्रवाम—ऋग्० १० । ११२ । १ ॥
 (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (प्रतिकामम्) इच्छानुसार
 (सुतस्य) निचोड़े हुये [तत्त्वरस] का (पिब) तू पान कर, (प्रातःसावः)
 प्रातःसवन का हवि (तव हि) तेरा ही (पूर्वपीतिः) प्रथम पान है । (शूर)
 हे शूर ! (शत्रन् हन्तवे) शत्रुओं के मारने को (हर्षस्व) प्रसन्न हो, (उक्थेभिः)
 स्तोत्रों से (ते वीर्या) तेरे वीर कर्मों को (प्र ब्रवाम) हम कहें ॥

२—आ याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम् । एदं वहिः सदो
 मम—ऋग्० ८ । १७ । १ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (आ याहि)
 तू आ, (ते हि) तेरे लिये ही (सोमम्) सोम [तत्त्वरस] (सुसुम) हम ने
 निचोड़ा है, (इमं पिब) इस को पी, (मम) मेरे (इदं वहिः) इस वृद्धिकारक
 व्यवहार में (आ सदः) बैठ ॥

३—आ नी याहि सुताव॑तोऽस्माकं॑ सुष्टुती॑रुष । पिवा सु शिप्रिन्नन्ध॑सः—
 अथर्व० २० । ४ । १, ऋग्० ८ । १७ । ४ ॥ [हे इन्द्र राजन् !] (अस्माकं
 सुष्टुतीः) हमारी सुन्दर स्तुतियों को (उप = उपेत्य) प्राप्त होकर (सुतवतः)
 उत्तम पुत्रादि [सन्तानों] वाले (नः) हम लोगों को (आ याहि) आकर प्राप्त
 हो । (शिप्रिन्) हे दृढ़ जाबड़े वाले (अन्धसः) इस अन्न रस का (सु) भले
 प्रकार (पिब) पान कर ॥

४—अयमु॑ त्वा विचर्षणे॑ जनी॑रिवाभि संवृ॑तः । प्र सोमं इन्द्र सर्प॑तु—
 अथर्व० २० । ५ । १, ऋग्० ८ । १७ । ७ ॥ (विचर्षणे) हे दूरदर्शी (इन्द्र) इन्द्र !
 [परम ऐश्वर्य वाले पुरुष] (अयम् उ) यह ही (अभि) सब प्रकार (संवृतः)
 यथा विधि स्वीकार किया हुआ (सोमः) सोम [महौषधियों का रस], (जनीः
 इव) कुछ स्त्रियों के समान, (त्वा) तुझ को (प्र सर्पतु) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे ॥

५—उद् घेद॑भि श्रुताम॑घं वृष॑भं नर्या॑पसम् । अस्तार॑मेषि सूर्य—
 अथर्व० २० । ७ । १, ऋग्० ८ । ६३ [सायणभाष्य ८२] । १, साम पू० २ ।
 ४ । १ ॥ (सूर्य) हे सूर्य ! [सर्वव्यापक वा सर्वप्रेरक परमेश्वर] (श्रुतमघम्)
 विख्यात धन वाले, (वृषभम्) बलवान्, (नर्यापसम्) मनुष्यों के हितकारी
 कर्म वाले, (अस्तारम् अभि) शत्रुओं के गिराने वाले पुरुष को (इत्) ही (घ)
 निश्चय करके (उद् एपि) तू उदय होता है ॥

६—इन्द्रं॑ क्रतु॑विदं सु॒तं सोमं॑ हर्य॑ पुरुष्टु॒त । पिवा वृष॑स्व ता॒र्त॒पिम्—
 अथर्व० २० । ६ । २, तथा २० । ७ । ४ ॥ (पुरुष्टुत) हे बहुतों से बड़ाई किये गये

(इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति] (क्रतुविदम्) बुद्धि प्राप्त कराने वाले, (तृपिम्) तृप्त कराने वाले, (सुनम्) सिद्ध किये हुये (सोमम्) सोम [महौषधियों के रस] की (हर्य) इच्छा कर (पिब) पी (आ) और (वृषन्व) बलवान् हो ॥

कण्डिका १५ ॥

इन्द्राग्नी अब्रवीत्, युवन्न इमं यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरतामच्छावाकीयाम् । तथेत्यब्रूताम् । तां सयुजौ सबलौ भूत्वा प्रासहा मृत्युमत्यैताम् । तौ ह्यस्यैतद्यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरतामच्छावाकीयाम् । तस्मादच्छावाकः प्रातःसवन ऐन्द्राग्निं शंसति । तौ ह्यस्यैतद्यज्ञस्याङ्गमनुसमाहरताम् । यद्वेवैन्द्राग्निं शंसति, प्रातर्यावभिरागतन्देवेभिर्जेन्या वसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये इति, ऋचाभ्यनूकम् । इन्द्राग्नी आगतन्तोशा वृत्रहणा हुष इति, अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ । इन्द्राग्नी अपसस्परीत्युक्थमुखम् । इहेन्द्राग्नी उपह्वय इति पर्यासः । इन्द्राग्नी आगतमिति, यजति । एते एव तद्देवते यथाभागं प्रीणाति वषट्कृत्यानुवषट् करांति । प्रत्येवामिमृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशश्च साः संदन्ति ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ प्रातःसवन में अच्छावाक द्वारा इन्द्र और अग्नि की स्तुति ॥

(इन्द्राग्नी अब्रवीत्, युवं नः यज्ञस्य इमम् अङ्गम् अच्छावाकीयाम् अनुसमाहरताम्) वह [यजमान] इन्द्र और अग्नि [वायु और बिजुली के समान अध्यापक और उपदेशक दोनों] के विषय में [ब्रह्मा और होता से] बोला—तुम दोनों हमारे यज्ञ के इस अङ्ग को अच्छावाक वाली [स्तुति] से अनुकूलता के साथ समाप्त करो । (तथा इति अब्रूताम्) ऐसा ही हो—वे दोनों [ब्रह्मा और होता] बोले । (तौ सयुजौ सबलौ प्रासहा भूत्वा मृत्युम् अति पेटाम्) [और] वे दोनों [इन्द्र और अग्नि] समान योग [मेल] वाले, समान बल वाले और विजयी होकर मृत्यु को लांघ कर चले हैं, (तौ हि अस्य यज्ञस्य पतत् अङ्गम् अच्छावाकीयाम् अनुसमाहरताम्) उन दोनों ने ही इस यज्ञ के इस अङ्ग को अच्छावाक वाली [स्तुति] से अनुकूलता के साथ समाप्त किया है ।

१५—(अच्छावाकीयाम्) अच्छावाकसम्बन्धिनीं स्तुतिम् (अच्छावाकः) ऋद्विग् विशेषः (प्रातर्यावभिः) गो० उ० २ । २० । प्रातर्गामिभिः (जैन्यावसू) गो० उ० २ । २० । जयशीलधनवन्तौ (सोमपीतये) अमृतरसपानाय (तोशा)

(तस्मात् अच्छावाकः प्रातःसवने ऐन्द्राग्नानि शंसति) इस लिये अच्छावाक [ऋत्विज्] प्रातःसवन में इन्द्र और अग्नि वाले [स्तोत्र] बोलता है । (तौ हि अस्य यज्ञस्य एतत् अङ्गम् अनुसमाहरताम्) वे दोनों [इन्द्र और अग्नि] ही इस यज्ञ के इस अङ्ग को अनुकूलता से पूरा करें । (यत् उ एव ऐन्द्राग्नानि शंसति, प्रातर्यावभिरागतं देवेभिर्जेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये—इति ऋचा अभ्यनूक्तम्) क्योंकि वह ही [अच्छावाक] इन्द्र और अग्नि वाले स्तोत्र [इस प्रकार] पढ़ता है—[प्रातर्यावभिरा ऋग् ८ । ३८ । ७]—यह इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है । (इन्द्राग्नी आगतम्, तोशा वृत्रहणा हुवे इति अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ) हे इन्द्र और अग्नि ! तुम दोनों आओ—ऋ० ३ । १२ । १, सन्दुष्ट करने वाले, शत्रुओं के मारने वाले दोनों को मैं बुलाता हूँ—ऋ० ३ । १२ । ४—यह अच्छावाक के स्तोत्र के अनुकूल दो [मन्त्र] हैं । (इन्द्राग्नी अपसस्परि—इति उक्थमुखम्) हे इन्द्र और अग्नि ! [वायु और विजुली के समान सभापति और सेनापति दोनों] तुम्हारे कर्म के सब ओर—ऋ० ३ । १२ । ७—यह उक्थ यज्ञ का आरम्भ है । (इहेन्द्राग्नी उपह्वये, इति पर्यासः) यहाँ पर इन्द्र और अग्नि [वायु और अग्नि के समान सभापति और सेनापति दोनों] को समीप में बुलाता हूँ—ऋ० १ । २१ । १ ।, यह अन्त है । (इन्द्राग्नी आगतम्—इति यजति) हे इन्द्र और अग्नि ! तुम दोनों आओ—ऋ० ३ । १२ । १ ।, इस से वह यज्ञ करता है । (एते एव देवते तत् यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट् करोति) इन ही दोनों देवताओं को उस से अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है, और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं—नरों की स्तुति रहित यज्ञ न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [नहीं बढ़ते हैं] ॥ १५ ॥

भावार्थ—कण्डिका १३ के समान है ॥ १५ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—(प्रातर्यावभिरागतं देवेभिर्जेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये—ऋ०

तुष प्रीतौ तोषे च—घञ्, षस्य शः । विभक्तेराकारः । तोषौ । सन्तोषकौ । (वृत्रहणा) शत्रुनाशकौ (हुवे) आह्वयामि (अपसः) कर्मणः—निघ० २ । १ (परि) सर्वतः । अत्यद् गतम्—क० १३ ॥

८ । ३८ । ७) । (जेन्यावसू) हे जयशील धन वाले (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि दोनों ! [विजुली और अग्नि के समान राजा और मन्त्री]—(प्रातर्यावभिः) प्रातःकाल चलने वाले (देवेभिः) विद्वानों के साथ (सोमपीतये) अमृत पीने के लिये (आ गतम्) तुम आओ ॥

२—इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम् । अस्य पातं धियेषिता—
ऋ० ३ । १२ । १ ॥ (इन्द्राग्नी) हे इन्द्र और अग्नि ! [वायु और विजुली के समान अध्यापक और उपदेशक दोनों] (गीर्भिः) वेदवाणियों के साथ (नभः) अन्तरिक्ष से (वरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य (सुतम्) पुत्र को (आ गतम्) प्राप्त हो, और (धिया) श्रेष्ठ बुद्धि से (इषिता) ज्ञान देने वाले दोनों (अस्य) इस [पुत्र] की (पातम्) रक्षा करो ॥

३—तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राग्नी वाजसातमा—
ऋ० ३ । १२ । ४ ॥ (तोशा) सन्तुष्ट करने वाले, (वृत्रहणा) शत्रुओं के मारने वाले, (सजित्वाना) विजयी वीरों सहित रहने वाले, (अपराजिता) नहीं हराये गये (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि [सूर्य और विजुली के समान सभापति और सेनापति दोनों] को (हुवे) मैं बुलाता हूँ ॥

४—इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्यश् अनु—
ऋ० ३ । १२ । ७ ॥ (इन्द्राग्नी) हे इन्द्र और अग्नि [वायु और विजुली के समान सभापति और सेनापति दोनों] (धीतयः) [हमारे] कर्म (अपसः परि) [तुम्हारे] कर्म के सब ओर (ऋतस्य) सत्य नियम के (पथ्याः अनु) बड़े मार्गों से (उप प्र यन्ति) समीप में अच्छे प्रकार चलते हैं ॥

५—इहेन्द्राग्नी उपह्वये तयोरिस्तोममुश्मसि । ता सोमं सोमपातमा—
ऋ० १ । २१ । १ ॥ (इह) इहाँ पर (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि [वायु और अग्नि के समान सभापति और सेनापति दोनों] को (उप ह्वये) समीप में बुलाता हूँ, (तयोः इत्) उन दोनों की ही (स्तोमम्) गुण प्रशंसा (उश्मसि) हम चाहते हैं । (ता) वे दोनों (सोमम्) उत्पन्न संसार में (सोमपातमा) अत्यन्त सोम [तत्त्व रस] के पीने वाले [अथवा अत्यन्त ऐश्वर्य के रक्षक] हैं ॥

६—इन्द्राग्नी आगतम्—ऊपर संख्या २ देखो ॥

कण्डिका १६ ॥

अथ शंसावामिति, स्तोत्रियायानुरूपायोक्थमुख्याय परिधानीयायै इति, चतुश्चतुराह्वयन्ते । चतस्रा वै दिशः, दिक्षु तत् प्रतितिष्ठन्ते । अथो चतुष्पादः पशवः, पशूनामाप्त्य । अथो चतुष्पर्वाणा हि प्रातःसवने होत्रकाः । तस्माच्चतुःसर्वे गायत्राणि शंसन्ति । गायत्रं हि प्रातःसवन सर्वे समवतीभिः परिदधति । तद्यत् समवतीभिः परिदधति, अन्तो वै पर्यासोऽन्त उदर्कः, अन्तेनैवान्तं परिदधति । सर्वे मद्रतीभिर्यजन्ति, तद्यत् मद्रतीभिर्यजन्ति । सर्वे सुतवतीभिः पीतवतीभिरभिरूपाभिर्यजन्ति । यद्यज्ञोऽभिरूपं, तत्समृद्धम् । सर्वेऽनुवपद् कुर्वन्ति, स्विष्टकृत्वा अनुवपद्कारो नेत् स्विष्टकृतमन्तरयामेति । अयं वै लोकाः प्रातःसवनम् । तस्य पञ्च दिशः पञ्चोक्त्यानि । प्रातःसवनस्य स एतैः पञ्चभिरुक्थैरेताः पञ्च दिशः आप्नोत्यन्ताः पञ्च दिशः आप्नोति ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ प्रातःसवन में (शंसावोम्) मन्त्र को चार चार बार बोलें ॥

(अथ शंसावोम् इति, स्तोत्रियाय अनुरूपाय उक्थमुख्याय परिधानीयायै इति, चतुः चतुः आह्वयन्ते) फिर (शंसाव ओम्) हम दोनों स्तुति करें, हां [क० १०]—इस मन्त्र से स्तोत्रिय [स्तुति योग्य व्यवहार] के लिये, अनुरूप [विषय की अनुकूलता] के लिये, उक्थमुख [यज्ञ की मुख्यता] के लिये और परिधानीया [समाप्ति क्रिया] के लिये—इस प्रकार चार चार बार वे बोलते हैं । (चतस्रः वै दिशः, दिक्षु तत् प्रतितिष्ठन्ते) चार ही दिशा हैं, दिशाओं में उस से वे [याजक] प्रतिष्ठा पाते हैं । (अथो चतुष्पादः पशवः, पशूनाम् आप्त्यै) फिर चार पांव वाले पशु होते हैं, पशुओं की प्राप्ति के लिये [यह यज्ञ है] । (अथो प्रातः सवने चतुष्पर्वाणः हि होत्रकाः) फिर प्रातःसवन में चार प्रकार वाले ही सहायक होता लोग होते हैं । (तस्मात् चतुः सर्वे गायत्राणि शंसन्ति) इस लिये चार बार वे सब गायत्री [गाने योग्य] छन्द वाले स्तोत्रों को बोलते हैं । (गायत्रं हि प्रातःसवनं सर्वे समवतीभिः परिदधति, यत् तत् समवतीभिः

१६—(शंसावोम्) क० १० (स्तोत्रियाय) स्तुतियोग्यव्यवहाराय (अनुरूपाय) विषयानुकूलत्वाय (उक्थमुख्याय) यज्ञमुख्यतायै (परिधानीयायै) समाप्तिक्रियायै (प्रतितिष्ठन्ते) प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति (चतुष्पर्वाणः) स्नामदिपद्यति पृ० । उ० ४ । ११३ । पृ० पालनपूरणयोः—वनिप् । चतुरङ्गापेताः

परिदधति) गायत्री [गाने योग्य] छन्द वाले ही प्रातःसवन को वे सब सम-
वती ऋचाओं से [सम शब्द वाली ऋचाओं से जैसे—समं ज्योतिः सूर्येण... ..
अथर्व० ४ । १८ । १, इत्यादि मन्त्रों से] समाप्त करते हैं, क्योंकि वहां समवती
ऋचाओं से वे समाप्त करते हैं । (अन्तः वै पर्यासः अन्तः उदर्कः, अन्तेन एव
अन्तं परिदधति) अन्त ही पर्यास [विराम] है, अन्त ही उदर्क [अवसान वा
विच्छेद अर्थात् रोक] है, अन्त के साथ ही अन्त को वे समाप्त करते हैं
[एक एक विषय पर रुक कर दूसरे को आरम्भ करके पूरा करते हैं] । (सर्वे
मद्वतीभिः यजन्ति, यत् तत् मद्वतीभिः यजन्ति) वे सब मद्वती [मद
शब्द वाली] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं [याज्या ऋचा बोलते हैं], क्योंकि वहां
मद्वती ऋचाओं से वे यज्ञ करते हैं । (सर्वे सुतवतीभिः पीतवतीभिः अभि-
रूपाभिः यजन्ति) वे सब सुतवती [सुत शब्द वाली] ऋचाओं से, पीतवती
[पीत शब्द वाली] ऋचाओं से और अभिरूप [विषय के अनुकूल] ऋचाओं
से यज्ञ करते हैं । [मद्वती, सुतवती और पीतवती ऋचाओं के लिये देखो
आगे ऋग्० १ । १६ । ८ । और बहुवचन शब्द होने से ब्राह्मण में समस्त इस
नौ ऋचा वाले सूक्त का ग्रहण अभीष्ट है । अभिरूप शब्द से यह प्रयोजन है कि
अभीष्ट देवता की स्तुति में उस देवता के सूचक पद आ जावें] । (यत् यज्ञे
आभिरूपं, तत् समृद्धम्) जो यज्ञ में अनुकूल [विषय के अनुकूल कर्म] है, वह
समृद्ध है । (सर्वे स्विष्टकृत्वा अनुवषट् कुर्वन्ति) सब स्विष्टकृत मन्त्र [यदस्य
कर्मणोऽस्य ऋचिं देखो—गा० उ० ३ । १] पढ़कर अनुवषट् [समाप्ति
सूचक पद] पढ़ते हैं । (अनुवषट्कारः स्विष्टकृतं नेत् अन्तरयाम इति) अनु-
वषट्कार स्विष्टकृत् मन्त्र को कभी भी बीच [व्यग्रधान] से नहीं लेता
[स्विष्टकृत् के पीछे ही अनुवषट् होता है] । (अयं वै लोकः प्रातःसवनम्)
यह ही लोक प्रातःसवन है । (तस्य पञ्च दिशः, प्रातःसवनस्य पञ्च उक्थानि)
उस [लोक] की पांच दिशाएँ [पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और एक ऊपर
नीचे की दिशा] हैं और प्रातःसवन के पांच उक्थ [समवती, मद्वती, सुत-

(समवतीभिः) समशब्दयुक्ताभिः ऋग्भिः (उदर्कः) उत् + ऋच स्तुतौ—घञ् ।
विरामः । अवसानम् । विच्छेदः (मद्वतीभिः) मदशब्दयुक्ताभिः ऋग्भिः
(परिदधाति) समापयन्ति (सुतवतीभिः) सुतशब्दयुक्ताभिः ऋग्भिः (पीत-
वतीभिः) पीतशब्दयुक्ताभिः ऋग्भिः (अभिरूपाभिः) अनुकूलविषययुक्ताभिः
ऋग्भिः (अन्तरयाम) आर्षरूपम् । अन्तर्याति । अन्तरेण गच्छति ॥

वती, पीतवती और अभिरूपा ऋचाओं वाले स्तोत्र] हैं। (सः एतैः पञ्चभिः उक्थैः एताः पञ्चदिशः आप्नोति, एताः पञ्चदिशः आप्नोति) वह [यजमान] इन पांच प्रकार वाले स्तोत्रों से इन पांच दिशाओं को पाता है, इन पांच दिशाओं को पाता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—देश और काल के विचार से जो कार्य किये जाते हैं, वे सब प्रकार सिद्ध होते हैं १६ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को मिलाओ—गो० उ० ३ । १, उ० ४ । ४ उ० ४ । १८ और ऐतरेय ब्राह्मण ३ । १२ ॥

टिप्पणी २—पूर्वोक्त दो मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—सुमं ज्योतिः सूर्येणाह । रात्री समावती । कृणोमि सत्यमृतयेऽरसाः सन्तु कृत्वरीः—अथर्व ४ । १८ । १ ॥ (ज्योतिः) ज्योति (सूर्येण समम्) सूर्य के साथ साथ और (रात्री) रात्री (अह्ना समावती) दिन के साथ वर्तमान है, [ऐसे ही] मैं (सत्यम्) सत्य कर्म को (ऊतये) रक्षा के लिये (कृणोमि) करता हूँ, (कृत्वरीः = कृत्वर्यः) कतरने वाली विपत्तियाँ (अरसाः) नीरस (सन्तु) हो जावें ॥

२—विश्वमित् सर्वनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रहा सोमपीतये—ऋग्० १ । १६ । ८ ॥ (वृत्रहा) मेघ को प्राप्त होने वाला [वा हटाने वाला] (इन्द्रः) वायु (सोमपीतये) उत्तम उत्तम पदार्थों का रस पिलाने के लिये और (मदाय) आनन्द के लिये (इत्) ही (सवनम्) सुख के सिद्ध करने वाले (सुतम्) उत्पन्न हुये (विश्वम्) जगत् को (गच्छति) प्राप्त होता है ॥

कण्डिका १७ ॥

घ्नन्ति वा एतत्सोमं, यदभिषुण्वन्ति । यज्ञं वा एतद् घ्नन्ति, यदक्षिणा नीयन्ते । यज्ञं वा एताः सन्नक्षियन्ति, तदक्षिणानां दक्षिणात्वम् । स्वर्गो वै लोको माध्यन्दिनं सवनम् । यन्माध्यन्दिने सवने दक्षिणा नीयन्ते, स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै । बहुदेयं सेतुं वा एतत् यजमानः संस्क्रुते स्वर्गस्य लोकस्याक्रान्त्यै प्रजाक्रान्त्यै । द्वाभ्यां गार्हपत्ये जुहोत्यध्वर्युः, अस्याक्रान्तेनाक्रामयत्याग्नेय्याग्नीधीये, अन्तरिक्षं तेन । यन्माध्यन्दिने सवने दक्षिणा नीयन्ते, स्वर्ग एतेन लोके हिरण्यं हस्ते भवति । अथ नयति सत्यं वै हिरण्यं, सत्येनैवैनं तन्नयति अग्नेण गार्हपत्यं जघनेन सदेऽन्तराग्नीधीयञ्च सदश्च । ता उदीचीरन्तराग्नीधीयञ्च सदश्च

चात्त्रालञ्छोत्सृजन्ति । एतेन ह स्व वा अङ्गिरसः स्वर्गं लोकमायन् । ता वा एताः पन्थानमभिवहन्ति ॥ १७ ॥

कण्डिका १७ ॥ माध्यन्दिन सवन में दक्षिणा दातव्य है ॥

(एतत् वै सोमं घ्नन्ति, यत् अभिषुण्वन्ति, यज्ञं वै एतत् घ्नन्ति) इस [प्रकार] से ही सोम [तत्वरस] को वे प्राप्त होते हैं जब [उस को] निचोड़ते हैं, यज्ञ [देवपूजा, संगतिकरण, दान के व्यवहार] को ही इस से वे प्राप्त होते हैं । (यत् दक्षिणाः नीयन्ते, यज्ञं वै एताः सन्नक्षियन्ति, तद् दक्षिणानां दक्षिणात्वम्) जो दक्षिणायें दी जाती हैं, यज्ञ को ही यह [दक्षिणायें] अच्छे प्रकार चलाती हैं, यह ही दक्षिणाओं का दक्षिणापन है । (स्वर्गः लोकः वै माध्यन्दिनं सवनम्) स्वर्ग लोक ही माध्यन्दिन सवन है । (यत् माध्यन्दिने सवने दक्षिणाः नीयन्ते, स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै) जो माध्यन्दिन सवन में दक्षिणायें दी जाती हैं, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये [वे हैं] । (बहुदेयं सेतुं वै एतत् यजमानः स्वर्गस्य लोकस्य आक्रान्त्यै प्रजाक्रान्त्यै संस्कुरुते) बहुमूल्य सेतु [जल तरण बन्ध] को ही इस से यजमान स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये और प्रजा की प्राप्ति के लिये बनाता है । (द्वाभ्यां गार्हपत्ये अध्वर्युः जुहोति, अस्य आक्रान्तेन तेन आग्नेय्या आग्नीधीये अन्तरिक्षम् आक्रामयति) दोनों [स्वर्ग और प्रजा] के लिये गार्हपत्य [अग्नि] में अध्वर्यु हवन करता है, और इस [यजमान] को प्राप्त हुये उस [कर्म] से आग्नेयी [अग्नि देवता वाली ऋचा] से आग्नीधीय [अग्नि प्रकाशक व्यवहार] के बीच अन्तरिक्ष [मध्य लोक] में पहुंचाता है । (यत् माध्यन्दिने सवने दक्षिणाः नीयन्ते, एतेन स्वर्गं लोके हिरण्यं हस्तं भवति) जो माध्यन्दिन सवन में दक्षिणायें दी जाती हैं, इस से स्वर्ग लोक के बीच सुवर्ण [यजमान के] हाथ में होता है । (अथ सत्यं वै हिरण्यं नयति, सत्येन एव एनं तत् नयति, अग्नेण गार्हपत्यं जघनेन सदः, आग्नीधीयं च सदः च अन्तरा) फिर सत्य ही सुवर्ण पहुंचाता है, सत्य से ही इस [यजमान]

१७—(घ्नन्ति) हन हिंसागत्योः । गच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति । मारयन्ति (अभिषुण्वन्ति) अभिषवेण पीडनेन प्राप्नुवन्ति (नीयन्ते) दीयन्ते (सन्नक्षियन्ति) सम्+णक्ष गतौ—णिच्, आर्षरूपम् । सन्नक्षयन्ति । सम्यक् प्रापयन्ति (बहुदेयम्) बहुमूल्यम् (सेतुम्) जलतरणसाधनम् (आक्रान्त्यै) प्राप्तये (अस्य) इमं यजमानम् (आक्रमयति) प्रापयति (आग्नेय्या) अग्निदेवताकया ऋचया

कौ वह [सुवर्ण] ले चलता है, [अर्थात्] पहिले [सत्य] से गार्हपत्य यज्ञ में और दूसरे [सुवर्ण] से सद [सभा] में [पहुंचाता] है, [और फिर] आग्नीधीय [अग्नि प्रकाश स्थान] और सभा के बीच [वह पहुंचाता है] । (ताः उदीचीः आग्नीधीयं च सदः च अन्तरा चात्वालम् उत्सृजन्ति) उन उत्तर दिशाओं में आग्नीधीय और सभा के बीच चात्वाल [यज्ञ कुण्ड] वे [होता लोग] बनते हैं । (एतेन ह स्म वै अङ्गिरसः स्वर्गं लोकम् आयन्) इस [व्यवहार] से ही निश्चय करके अङ्गिराओं [वेदवेत्ता लोगों] ने स्वर्ग लोक [सुख स्थान] पाया है । (ताः वै एताः पन्थानम् अभिवहन्ति) वे ही यह [दक्षिणार्थ] मार्ग चलाती हैं ॥ १७ ॥

भावार्थ—क्रमानुसार कार्य करने से मनुष्य उन्नति करते हैं ॥ १७ ॥

कण्डिका १८ ॥

अग्नीध्रे अग्ने ददाति । यज्ञमुखं वा अग्नीत्, यज्ञमुखेनैव तद्यज्ञमुखं समर्धयति । ब्रह्मणे ददाति । प्राजापत्यो वै ब्रह्मा, प्राजापतिमेव तेन प्रीणाति । ऋत्विग्भ्यो ददाति, होत्रा एव तथा प्रीणाति । सदस्येभ्यो ददाति, सोमपीथस्तया निष्क्रीणीते । न हि तस्मा अर्हति सोमपीथः, तथा निष्क्रीणीयात् । यां शुश्रूषव आर्षेयाय ददाति, देवलोके तथाध्वोति । यामशुश्रूषवेऽनार्षेयाय ददाति, मनुष्यलोके तथाध्वोति । यामं प्रसृताय ददाति, वनस्पतयस्तया प्रथन्ते । यां याचमानाय ददाति, भ्रातृव्यन्तया जिन्वीते । यां भीषाक्षत्रं, तथा ब्रह्मातीयात् । यां प्रतिनुदन्ते, सा व्याघ्री दक्षिणा । यस्तां पुनः प्रतिगृह्णीयात्, व्याघ्री ह्येनं भूत्वा प्रव्लीनीयात् । अन्यया सह प्रतिगृह्णीयात्, अथ हैनन्न प्रव्लीनाति ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ दक्षिणापात्र लोगों का क्रम ॥

(आग्नीध्रे अग्ने ददाति) आग्नीध्र [अग्नि प्रकाशक ऋत्विज्] को पहिले वह [यजमान दक्षिणा] देता है । (अग्नीत् वै यज्ञमुखं यज्ञमुखेन एव तत् यज्ञमुखं समर्धयति) अग्नीत् [अग्नि प्रकाशक] यज्ञ का मुखिया है, यज्ञ के

(आग्नीधीये) आग्नीध्र—छ । आग्नीध्रस्य अग्निप्रकाशकस्य व्यवहारे गृहे वा (जघनेन) जघन्येन । अधमेन । द्वितीयेन—इत्यर्थः (अन्तरा) मध्ये (चात्वालम्) स्थाचतिमृजेरालज्वालजालीयचः । उ० १ । ११६ । चते याचने—वालज् । यज्ञकुण्डम् (अङ्गिरसः) वेदवेत्तारः (आयन्) प्राप्तवन्तः ॥

१८—(अग्नीध्रे) अग्नीध्राय । अग्निप्रकाशकाय (अग्नीत्) अग्नि प्रज्वा-

मुखिया द्वारा ही तब यज्ञ के मुख [आरम्भ] को वह सृष्टि [परिपूर्ण] करता है । (ब्रह्मणे ददाति) ब्रह्मा को देता है । (प्राजापत्यः वै ब्रह्मा, प्रजापतिम् एव तेन प्रीणाति) प्रजापति [परमेश्वर] देवता वाला ही ब्रह्मा है, प्रजापति को ही उस से [दान से] वह प्रसन्न करता है । (ऋत्विग्भ्यः ददाति, होत्राः एव तथा प्रीणाति) ऋत्विजों को वह देता है, ऋत्विजों को ही उस [दक्षिणा] से वह प्रसन्न करता है । (सदस्येभ्यः ददाति, सोमपीथः तथा निष्क्रीणीते) सदस्यों [दूसरे ऋत्विजों] को देता है, सोमपान [तत्त्वरस पीने] को उस [दक्षिणा] से वह मोल लेता है । (तस्मै सोमपीथः नहि अर्हति, तथा निष्क्रीणीयात्) उस [पुरुष] के लिये सोमपान नहीं योग्य है, उस [दक्षिणा] से वह मोल लेवे । (यां शुश्रूषवे आर्षेयाय ददाति, तथा देवलोकं ऋध्नोति) जो [दक्षिणा] सेवा करने वाले वेदवेत्ता को देता है, उस से देवलोक [विद्वानों के समाज] में वह बढ़ता है । (याम् अशुश्रूषवे अनार्षेयाय ददाति, तथा मनुष्यलोके ऋध्नोति) जो [दक्षिणा] सेवा करने वाले से भिन्न और वेद जानने वाले से भिन्न पुरुष को देता है, इस से मनुष्य लोक में वह बढ़ता है । (यामं [यां] प्रसृताय ददाति, वनस्पतयः तथा प्रथन्ते) जो [दक्षिणा] प्रसृत [विस्तृत सामान्य अधिकारी विशेष] को देता है, वनस्पतियां उस से फैलती हैं । (यां याचमानाय ददाति, आतृव्यं तथा जिन्वीते) जो दक्षिणा मांगने वाले को देता है, वैरी को उस से वह प्रसन्न करता है [क्षमा देता है] । (यां भीषाक्षत्रं, तथा ब्रह्म अति ईयात्) जो [दक्षिणा] भय के व्यवहार से रक्षा करने वाले को [वह देता है], उस से ब्रह्म [धन] को अत्यन्त करके वह पाता है । (यां प्रतिनुदन्ते सा दक्षिणा व्याघ्री) जिस को वे [ऋत्विज् लोग] लौटा देते हैं, वह

लकः (समर्धयति) सम्यग् वर्धयति (होत्राः) स्त्रीलिङ्गो बहुवचनान्तः । ऋत्विग्-विशेषान् (सोमपीथः) सोमपीथम् । तत्त्वरसपानम् (निष्क्रीणीते) मूल्येन गृह्णाति (शुश्रूषवे) सेवाशीलाय । उपासकाय (आर्षेयाय) ऋषि—ढक्, ऋषिवेदः । वेदज्ञाय (देवलोकं) विदुषां समाजे (ऋध्नोति) वर्धते (अशुश्रूषवे) सेवकाद् भिन्नाय (अनार्षेयाय) वेदज्ञाद् भिन्नाय (यामं) याम् (प्रसृताय) विस्तृताय पुरुषाय (जिन्वीते) जिवि प्रीणने, आर्षरूपन् । जिन्वति । प्रीणाति (भीषाक्षत्रम्) जिभी भये—अङ् । टाप्, षुक् च + अक्ष व्याप्तौ—अच् + ञ्ङ पालने—क । भीषायाः भयस्य अक्षाद् व्यवहाराद् रक्षकाय (ब्रह्म) धनम्—निघ० २ । १० । (अति) अत्यन्तम् (ईयात्) प्राप्नुयात् (प्रतिनुदन्ते) प्रतिकूलं

दक्षिणा व्याघ्री [के समान भयानक] है । (यः तां पुनः प्रतिगृह्णीयात्, व्याघ्री हि भूत्वा एनं प्रव्लीनीयात्) जो [यजमान] उस [दक्षिणा] को फिर लौटा लेवे, वह व्याघ्री ही होकर इस को दबा लेवे । (अन्यथा सह प्रतिगृह्णीयात्, अथ ह एनं न प्रव्लीनाति) दूसरी [दक्षिणा] के साथ वह [ऋत्विज उसे] लौटा लेवे, फिर वह निश्चय करके इस [यजमान] को नहीं दबाती है ॥ १८ ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्वानों के यथायोग्य सत्कार से उन्नति, और सत्कार योग्य पुरुषों के अनादर से अवनति पाता है ॥ १८ ॥

कण्डिका १६ ॥

यद् गां ददाति, वैश्वदेवी वै गोः, विश्वेषामेव तद्देवानां तेन प्रियं धामोपैति । यदजं ददाति, आग्नेयो वा अजः, अग्नेरेव तेन प्रियं धामोपैति । यद्विं ददाति, आव्यन्तेनापजयति । यत् कृताञ्चं ददाति, मांसन्तेन निष्क्रीणीते । यदनो वा रथो वा, शरीरन्तेन । यद्वासो ददाति, बृहस्पतिं तेन । यद्विरण्यं ददाति, आयुस्तेन वर्षीयः कुरुते । यदश्वं ददाति, सौर्यो वा अश्वः, सूर्यस्यैव तेन प्रियं धामोपैति । अन्ततः प्रतिहर्त्रे देयम् । रौद्रो वै प्रतिहर्ता, रुद्रमेव तन्निरवजयति । यन्मध्यतः प्रतिहर्त्रे दद्यात्, मध्यता रुद्रमन्ववयजेत् । स्वर्भानुर्वा आसुरिः सूर्यन्तमसाविध्यत् । तदत्रिरपनुनाद् । तदत्रिरन्वपश्यत् । यदात्रेयाय हिरण्यं ददाति, तम एव तेनापहेत । अथा ज्योतिरुपरिष्ठाद्धारयति, स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ दक्षिणा में दातव्य पदार्थ और उन के गुण ॥

(यत् गां ददाति, वैश्वदेवी वै गोः, तत् तेन विश्वेषाम् एव देवानां प्रियं धाम उपैति) जो वह गौ देता है, सब दिव्य गुण वाली ही गौ है, तब उस [दान] से सब ही दिव्य गुणों का प्रिय धाम [तेज] वह पाता है । (यत् अजं ददाति, आग्नेयः वै अजः, तेन अग्नेः एव प्रियं धाम उपैति) जो वह बकरा देता है, अग्नि के गुण वाला बकरा है, उस से अग्नि का ही प्रिय तेज पाता

प्रेरयन्ति (प्रतिगृह्णीयात्) प्रतिकूलं स्वीकुर्यात् (प्रव्लीनीयात्) प्र+व्ली. चरणे आच्छादन । आच्छादयेत् (प्रव्लीनाति) आच्छादयति ॥

१६—(गाम्) धेनुम् (वैश्वदेवी) सर्वदिव्यगुणयुक्ता (देवानाम्) दिव्यगुणात्ताम् (धाम) तेजः । स्थानम् (अजम्) अज गतिक्षेपणयोः—अच् ।

है । (यत् अविं ददाति, तेन आव्यम् अपजयति) जो वह मँढा देता है, उस से वह मँढा से उत्पन्न पदार्थ [ऊन आदि] पाता है । (यत् कृतान्नं ददाति, तेन मांसं निष्क्रीणीते) जो वह वनाया हुआ अन्न देता है, उस से वह मांस [मनन साधक गुण] बढ़ाता है । (यत् अनः वा रथः वा, तेन शरीरम्) जो वह छुकड़ा अथवा रथ [देता है], उस से वह शरीर [बढ़ाता है] । (यत् वासः ददाति, तेन वृहस्पतिम्) जो वह वस्त्र देता है, उस से वह वृहस्पति [बड़े बड़ों के पालन करने वाले गुण, बढ़ाता है] । (यत् हिरण्यं ददाति, तेन वर्षीयः आयुः कुरुते) जो वह सुवर्ण देता है, उस से वह अति बड़ा जीवन करता है । (यत् अश्वं ददाति, सौर्यः वै अश्वः, तेन सूर्यस्य एव प्रियं धाम उपैति) जो वह घोड़ा देता है, सूर्य के गुण वाला [वेगवान्] ही घोड़ा है, उस से वह सूर्य का ही प्रिय तेज पाता है । (अन्ततः प्रतिहार्त्रे देयम्) अन्त में प्रतिहर्ता [द्वारपाल, ऋत्विज्] के लिये दान है । (रौद्रः वै प्रतिहर्ता, तत् रुद्रम् एव निरवजयति) उग्र स्वभाव वाला ही प्रतिहर्ता है, उस से वह उग्र स्वभाव को ही निकाल कर जीतता है । (यत् मध्यतः प्रतिहर्त्रे दद्यात्, मध्यतः रुद्रम् अन्ववयजेत्) जो वह बीच से प्रतिहर्ता को देवे, बीच से वह उग्र स्वभाव को सर्वथा निकाल देवे । (आसुरिः वै स्वर्भानुः सूर्यं तमसा अविध्यात्) आसुरि [मेघ से उत्पन्न], आकाश में दिखाई देने वाले [राहु अर्थात् अन्धकार] ने सूर्य को अन्धकार द्वारा छेद डाला । (तत् अत्रिः अपनुनोद) उस को अत्रि [नित्य ज्ञानी परमेश्वर] ने हटा दिया, (तत् अत्रिः अन्वपश्यत्) उस को अत्रि ने [नित्य ज्ञानी परमेश्वर ने वेद में] दिखा दिया है [देखो गो० पू० २ । १७] । (यत् आत्रेयाय हिरण्यं ददाति तेन तमः एव अपहेत) जो वह आत्रेय

छागम् (अविम्) अवि रक्षणे—इन् । मेषम् (आव्यम्) अवि—व्यञ् । अवेः मेषात् प्राप्तं पदार्थम् (मांसम्) मनेर्दीर्घश्च । उ० ३ । ६४ । मन ज्ञाने—सप्रत्ययो दीर्घश्च । मांसं माननं वा मानसं वा मनो अस्मिन् सीदतीति वा—निरु० ४ । ३ । मननसाधकं गुणम् (निष्क्रीणीते) मूल्येन गृह्णाति (अनः) शकटम् (रथः) रथम् (वृहस्पतिम्) वृहतां महतां पालकं गुणम् (वर्षीयः) प्रियस्थिरस्फिरोरु० । पा० ६ । ४ । १५७ । वृद्ध—ईयसुन् । अतिवृद्धं । बहुदीर्घम् (प्रतिहर्त्रे) द्वारपालकाय । ऋत्विग्विशेषाय (रौद्रः) उग्रस्वभावयुक्तः (रुद्रम्) उग्रगुणम् (अन्ववयजेत्) अनु निरन्तरम् अवयजेत् दूरं कुर्यात् (स्वर्भानुः) दाभाभ्यां नु । उ० ३ । ३२ । स्वः + भा दीप्तौ—नु । स्वः, आकाशे भाति दीप्यते असौ । राहुः । अंध-

[अत्रि, नित्य ज्ञानी परमेश्वर के मानने वाले ब्राह्मण] को सुवर्ण देता है, उस से वह अन्धकार ही हटाता है । (अथो स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै ज्योतिः उपरिष्ठात् धारयति) फिर वह स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिये ज्योति [रूपने] ऊपर धारण करता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—दानी पुरुष दान पदार्थों के गुण जानकर दानग्रहीता की योग्यता के अनुसार उन का दान करे ॥ १६ ॥

टिप्पणी—एकाह यज्ञ के प्रातःसवन का विषय कण्डिका १२ से चलकर अब कण्डिका १६ पर समाप्त हुआ ॥

कण्डिका २० ॥

अथात एकाहस्यैव माध्यन्दिनम् । ऋक् च वा इदमग्रे साम वात्तां, सैव नामर्गासीत्, अमो नाम साम, सा वा ऋक् सामोपावदत्, मिथुनं ममभवाव प्रजात्या इति । नेत्यब्रवीत्साम, ज्यायान् वा अता मम महिमेति । ते द्वे भूत्वोपावदताम् । ते न प्रतिवचनं समवदत् । तास्तिस्त्रां भूत्वोपावदन् । यत् तिस्रो-भूत्वोपावदन्, तत् तिस्रामिः समभवत् । यत् तिसृभिः समभवत्, तस्मात्तिसृभिः स्तुवन्ति, तिसृभिरुद्गायन्ति, तिसृभिर्हि साम सस्मितं भवति । तस्मादेकस्य बह्व्यो जाया भवन्ति, न ह्येकस्या बहवः सहपतयः । यद्वै तस्मा चामश्च समवदताम्, तत् सामाभवत् । तत् साम्नः सामत्वम् । सामं भवति श्रेष्ठतां गच्छति । यो वै भवति, स सामं भवति । असामान्य इति ह निन्दन्ते । ते वै पञ्चान्यद्भूत्वा पञ्चान्यद्भूत्वा कल्पेताम्, आहावश्च हिङ्गारश्च प्रस्तावश्च प्रथमा चाद्गीथश्च मध्यमा च प्रतिहारश्चात्तमा च निधनश्च वषट्कारश्च । ते यत् पञ्चान्यद्भूत्वा पञ्चान्यद्भूत्वा कल्पेतां, तस्मादाहुः, पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्ताः पशव इति । यदु विराजं दशनीमभिसम्पद्येयातां तस्मादाहुर्विराजो यज्ञो दशन्यां प्रतिष्ठित इति । यदु वृहत्याः प्रतिपद्यते, बार्हतो वा एषः य एपस्तपति, तदेनं स्वेन समर्धयति । द्वे तिस्रः करोति । पुनरादायं प्रजात्यै रूपं, द्वाविवाग्रे भवतः । तत उपप्रजायते ॥ २० ॥

कारकर्ता (आसुरिः) अत इज् । पा० ४ । १ । ६५ । असुर—इज् । असुरो मेघः—निघ० १ । १० । मेघोरपन्नो ऽन्धकारः (अत्रिः) गा० पू० २ । १७ । सदा ज्ञानवान् परमात्मा (अपनुनाद) दूरीकृतवान् (अन्वपश्यत्) निरन्तरं दर्शितवान् वेदे (आत्रेया) अत्रेः सदाज्ञानवतः परमेश्वरस्य संबन्धाय (अप-हेत) ओहाक् त्यागे इत्यस्यार्थरूपम् । अपहेयात् । अपरयजेत् ॥

कण्डिका २० ॥ आख्यायिका के रूप में ऋक् और साम के सम्बन्ध का वर्णन ॥

(अथ अतः एकाहस्य एव माध्यन्दिनम्) अब यहाँ एकाह यज्ञ का माध्यन्दिन [सवन, कहा जाता है] । (इदम् अग्रे ऋक् च वै साम वा आस्ताम्) इस से पहिले ऋक् [स्तुति योग्य प्रकृति] और साम [मोक्षदाता ब्रह्म] यह दोनों थे । (सा एव नाम ऋक् आसीत्, अमः नाम साम) सा [साम शब्द का पहिला अक्षर सा का अर्थ लक्ष्मी है] नाम वाली ही ऋक् थी और अमः [साम शब्द का दूसरा अक्षर, अमः का अर्थ ज्ञान है] नाम वाला साम था । (सा वै ऋक् साम उपावदत्, मिथुनं प्रजात्यै सम्भवाव इति) सा [नाम वाली] ऋक् पास आकर साम से बोली—हम दोनों जोड़ा होकर सन्तान के लिये समर्थ होवें । (न इति, साम अब्रवीत्, मम महिमा अतः वै ज्यायान् इति) नहीं, साम बोला, मेरी महिमा इस [तेरो महिमा] से बहुत अधिक है । (ते द्वे भूत्वा उपावदताम्) [ऋक् दो हो गई] वे [कारण और कार्य रूप प्रकृति] दोनों होकर पास आकर [साम से उसी प्रकार] बोलीं । (ते प्रतिवचनं न समवदत्) उन दोनों का प्रत्युत्तर उस [साम] ने स्वीकार न किया । (ताः तिस्रः भूत्वा उपावदन्) [वह ऋक् तीन हांगई] वे [सत्त्व रज तम रूप] तीनों होकर [साम से उसी प्रकार] बोलीं । (यत् तिस्रः भूत्वा उपावदन्, तत् तिसृभिः समभवत्) जो तीन होकर बोलीं, उस से उस ने तीनों के साथ संयोग किया [सृष्टि करने का सामर्थ्य उन में दिया] । (यत् तिसृभिः समभवत्, तस्मात् तिसृभिः स्तुवन्ति, तिसृभिः उद्गायन्ति, तिसृभिः हि साम सम्मितं भवति) जो उस ने तीनों के साथ संयोग किया, इस लिये तीन [ऋचाश्रौ] से व स्तुति करते हैं और तीन से हा उद्गीथ [ऊंचा गान] करते हैं, और तीन से ही साम सम्मानित होता है । (तस्मात् एकस्य वह्व्यः

२०—(ऋक्) स्तुत्या वाणी । प्रकृतिः (सा) षा अन्तकर्मणि—ड, टाप् । लक्ष्मीः । प्रकृतिः (अमः) अम गतौ भोजने च—असुन् । ज्ञानम् (साम) मोक्षस्वरूपं ब्रह्म (मिथुनम्) यथा भवति तथा । मिथुनेन संयोगेन (सम्भवाव) समर्थो भवताम् (प्रजात्यै) प्रजननाय (ज्यायान्) वृद्ध—ईयसुन् । वृद्धतरः (अतः) अस्मात् । ऋङ्महिम्नः सकाशात् (उपावदताम्) । उपेत्य उक्तवत्यौ (ते) तयोः (प्रतिवचनम्) प्रत्युत्तरम् (समवदत्) समवादमङ्गीकारं कृतवान् (समभवत्) समभवनं संयोगं कृतवान् (सम्मितम्) सम्मानितम् (सामन्)

जायाः भवन्ति, एकस्याः वहवः पतयः सह न ह) इस लिये एक पुरुष के बहुत पत्नियां होती हैं, और एक पत्नी के बहुत पति एक साथ नहीं होते [यह वेद विरुद्ध है, आगे टिप्पणी २ देखें] । (यत् उ एतत् सा च अमः च समवदताम्, तत् साम अभवत्) जो ही इस प्रकार सा [ऋक् वा प्रकृति] और अमः [ज्ञान] दोनों संयुक्त हुये, वह साम [मोक्ष दाता ब्रह्म] हुआ । (तत् साम्नः सामत्वम्) वह ही साम [मोक्ष दाता ब्रह्म] का सामत्व [मोक्ष दातापन] है । (सामन् भवति श्रेष्ठतां गच्छति) जो [मनुष्य] साम [साम के समान सुखदायक] होता है, वह श्रेष्ठता पाता है । (यः वै भवति सः सामन् भवति) जो ही पदार्थ सत्ता वाला है वह साम [ब्रह्म के सामर्थ्य] में है । (असामान्यः इति ह निन्दन्ते) [जो ऐसा न माने] वह असामान्य [पक्षपाती] है—इस प्रकार लोग निन्दा करते हैं । (ते वै पञ्च अन्यत् भूत्वा पञ्च अन्यत् भूत्वा कल्पेताम्) वे दोनों [कारण और कार्यरूप ऋक्] ही पांच एक प्रकार से [कारण रूप पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश] होकर, और पांच दूसरे प्रकार से [कार्यरूप पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश] होकर समर्थ होते हैं । (आहावः च हिङ्गारः च प्रस्तावः च प्रथमा च उद्गीथः च मध्यमा च प्रतिहारः च उत्तमा च निधनं च वपट्कारः च) [सो ही यज्ञ के दश अङ्ग हैं] आहाव [आवाहन मन्त्र] १, और हिङ्गार [हि शब्द] २, और प्रस्ताव [प्रस्तोता का गान] ३, प्रथमा [पहिली ऋचा] ४, और उद्गीथ [उद्गाता का गान] ५, और मध्यमा [बीच वाली ऋचा] ६, और प्रतिहार [प्रतिहर्ता का गान] ७, और उत्तमा [सब से पिछली ऋचा] ८, और निधन [अन्त में गान का भाग] ९, और वपट्कार [अन्तिम आहुति दान] १०, । (ते यत् पञ्च अन्यत् भूत्वा पञ्च अन्यत् भूत्वा कल्पेताम्, तस्मात् आहुः, पाङ्क्तः यज्ञः पाङ्क्ताः पशवः इति) जो वे

सामवेदेन मोक्षज्ञानेन (भवति) सत्तावान् अस्ति (असामान्यः) असाधारणः । असमदर्शी । पक्षपाती (अन्यत्) एकप्रकारेण । द्वितीयप्रकारेण (कल्पेताम्) समर्थे भवताम् (आहावः) आवाहनमन्त्रः (प्रस्तावः) प्रस्तोत्रा गातव्यः (उद्गीथः) उद्गात्रा गातव्यः (प्रतिहारः) प्रतिहर्ता गातव्यः (निधनम्) अन्ते गातव्यो भागः (पाङ्क्तः) पचिविस्तारे व्यक्तीकरणे च—क्तिन् । पङ्क्ति-अण् । पङ्क्त्या विस्तारेण गौरवेण वा युक्तः । अथवा पङ्क्तिः दशसंख्यायाम् । दशावयवोपेताः (पाङ्क्ताः) विस्तारयुक्ताः । दशेन्द्रिययुक्ताः (दशनीम्) लोमादि-यामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । पा० ५ । २ । १०० । दश—नप्रत्ययो मत्वर्थ,

दोनों [कारण और कार्यरूप ऋक्] पाँच एक प्रकार से [कारण रूप पृथिवी जल तेज वायु आकाश] होकर और पाँच दूसरे प्रकार से [कार्यरूप पृथिवी जल तेज वायु आकाश] होकर समर्थ होते हैं, इस लिये वे [ऋषि] कहते हैं—पाङ्क्त [पङ्क्ति अर्थात् विस्तार और गौरव वाला अथवा दस अवयव वाला] यज्ञ है और पाङ्क्त [दश अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय वाले] पशु [जीव] हैं । (यत् उ दशनीं विराजम् अभि सम्पद्येयाताम्, तस्मात् आहुः, दशन्यां विराजः यज्ञः प्रतिष्ठितः इति) और जो वे दोनों दशनी [दश अक्षर वाले] विराट् छन्द को लक्ष्य में करके [यज्ञ करने में] समर्थ होते हैं, इस लिये वे कहते हैं—दश अक्षर वाली विराट् में यज्ञ ठहरा हुआ है । (यत् उ वृहत्याः प्रतिपद्यते, वार्हतः वै एषः, यः एषः तपति, तत् एन स्वेन रूपेण समर्थयति) जो वह [यज्ञ] वृहती छन्द से सिद्ध होता है, वृहती [वृद्धि] वाला ही यह है जो यह [यज्ञ] तपता है, इस लिये इस [यजमान] को अपने रूप से वह [यज्ञ] समृद्ध करता है । (द्वे तिस्रः करोति) वह [ब्रह्म] दो [कारण और कार्यरूप प्रकृति] को तीन [सत्त्व रज और तम रूप] करता है । (पुनः प्रजात्यै रूपम् आदायं द्वौ इव ऋग्ने भवतः) फिर संतान उत्पत्ति के लिये रूप ग्रहण करके दो ही पहिले होते हैं । (ततः उपप्रजायते) उस से वह [संतान] उत्पन्न होता ॥२०॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि कार्य और कारण का परस्पर सम्बन्ध विचार कर अपना कर्तव्य सिद्ध करें ॥ २० ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । २३ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(तस्मात् एकस्य बह्व्यः जायाः भवन्ति, एकस्य बह्ववः पतयः सह न ह) इस लिये एक पुरुष के बहुत पत्नियाँ होती हैं, और एक पत्नी के बहुत पति एक साथ नहीं होते—यह मत वेद विरुद्ध है । यहाँ ब्राह्मण में भी प्रकरण तीन का था बहुत का नहीं । वेद में एक पुरुष को एक पत्नी और एक पत्नी को एक पति एक समय में रखने का विधान है । वह ही मन्त्र, जो इस आख्यायिका का आधार जान पड़ता है लिखा जाता है । यह मन्त्र कुछ भेद से महर्षि दयानन्दकृत संस्कारविधि विवाह प्रकरण में वधू वर के परस्पर प्रतिज्ञा

डीप् । दशिनीम् । दशाक्षरयुक्ताम् (अभि) अभिलक्ष्य (सम्पद्येयाताम्) सम्पद्येताम् । सम्भवतः (विराजः) विराजि (दशन्याम्) दशाक्षरायाम् (वृहत्याः) वृहतीच्छन्दसः (प्रतिपद्यते) सिध्यति (वार्हतः) वृहती—अण् । वृद्धियुक्तः (आदायम्) आदाय । गृहीत्वा ॥

करने में भी व्याख्यात है। मन्त्र में पद एक एक वचन और द्वि द्वि वचन हैं ॥
 (अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यृक त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम् । ताविह सं
 भवाव प्रजामा जनयावहै—अथर्व० १४। २। ७१) । [हे वधू !] (अहम्) मैं
 [वर] (अमः अस्मि) ज्ञानवान् हूं, (सा त्वम्) सो तू [ज्ञानवती है],
 (अहम्) मैं (साम) सामवेद [मोक्षज्ञान के समान सुखदायक] (अस्मि)
 हूं, (त्वम्) तू (ऋक्) ऋग्वेद की ऋचा [पदार्थों के गुणों की बड़ाई बताने
 वाली विद्या के तुल्य आनन्द देने वाली] है, (अहम्) मैं (द्यौः) सूर्य [वृष्टि
 आदि करने वाले सूर्य के समान उपकारी] हूं, और (त्वम्) तू (पृथिवी)
 पृथिवी [अन्न आदि उत्पन्न करने वाली भूमि के समान उत्तम सन्तान उत्पन्न
 करने वाली] है। (तौ) वे हम दोनों (इह) यहां [गृहाश्रम में] (सं भवाव)
 पराक्रमी होवें, और (प्रजाम्) प्रजा [उत्तम सन्तान] को (आ जनयावहै)
 उत्पन्न करें ॥

कण्डिका २१ ॥

आत्मा वै स्तोत्रियः, प्रजा अनुरूपः, पत्नी धाय्या, पशवः प्रगाथः, ग्रहाः
 [गृहाः] सूक्तं, यदन्तरात्मन्, तन्नित्वि, प्रतिष्ठा परिधानीया, अन्नं याज्या ।
 सोऽस्मिंश्च लोके भवत्यमुष्मिंश्च प्रजया च पशुभिश्च गृहेषु भवति, य एवं
 वेद ॥ २१ ॥

कण्डिका २१ ॥ स्तोत्रिय आदि यज्ञाङ्गों की आत्मा आदि से सामान्यता ॥

(आत्मा वै स्तोत्रियः) आत्मा [के समान] ही स्तोत्रिय [स्तुति
 विशेष] है, (प्रजाः अनुरूपः) प्रजायें अनुरूप [विषय के सदृश स्तोत्र] हैं,
 (पत्नी धाय्या) पत्नी धाय्या [स्तुति विशेष] हैं। (पशवः प्रगाथः) सब पशु
 प्रगाथ [स्तुति विशेष] हैं, (ग्रहाः [गृहाः] सूक्तम्) सब घर सूक्त [अच्छे
 प्रकार कहा हुआ स्तोत्र] हैं, (यत् अन्तरात्मन्, तत् नित्वि) जो अन्तरात्मा
 [अन्तःकरणवर्ती पराक्रम] है, वह नित्वि [निश्चित विद्या, स्तुति विशेष]
 है, (प्रतिष्ठा परिधानीया) प्रतिष्ठा [ठहरने का स्थान] परिधानीया [सब ओर
 से धारण करने योग्य स्तुति विशेष] है, (अन्नं याज्या) अन्न [भोजनीय

२१—(अनुरूपः) विषयसदृशः स्तोमः (आत्मा) जीवः (अन्तरात्मन्)
 अन्तःकरणवर्ती पराक्रमः । सर्वान्तर्यामी परमेश्वरः (नित्वि) सत्सूद्विषद्रुह-

पदार्थ के तुल्य] याज्या [स्तुति विशेष] है । (सः अस्मिन् च अमुष्मिन् च लोके प्रजया च पशुभिः च गृहेषु भवति भवति, यः एवं वेद) वह पुरुष इस और उस लोक में प्रजा के साथ और पशुओं के साथ घरों में रहता है, रहता है, जो ऐसा जानता है ॥ २१ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को गुरुओं के अनुसार ही स्तुति करनी चाहिये ॥ २१ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । २३ के अन्तिम भाग से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(ग्रहाः) शब्द के स्थान पर (गृहाः) पद ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथब्राह्मण की अगली कण्डिका २२ से शुद्ध किया है ॥

कण्डिका २२ ॥

स्तोत्रियं शंसति । आत्मा वै स्तोत्रियः, स मध्यमया वाचा शंस्तव्य आत्मानमेवा अस्य तत् कल्पयति । अनुरूपं शंसति, प्रजा वा अनुरूपः, तस्मात् प्रतिरूपमनुरूपं कुर्वन्ति । प्रतिरूपां हैवास्य प्रजायामाजायते नाप्रतिरूपः । तस्मात् प्रतिरूपमनुरूपं कुर्वन्ति । स उच्चैस्तरामिव शंस्तव्यः, प्रजामेवास्य तच्छ्रेयसीं करोति । ध्याय्यां शंसति, पत्नी वै धाय्या, सा नीचैस्तरामिव शंस्तव्याप्रतिवादिनी हैवास्य गृहेषु पत्नी भवति, यत्रैवं विद्वान् नीचैस्तगन् धाय्यां शंसति । प्रगाथं शंसति, पशवो वै प्रगाथः, स स्वरवत्या वाचा शंस्तव्यः । पशवो वै प्रगाथः, पशवः स्वरः, पशूनामाप्त्यै । सूक्तं शंसति । गृहा वै सूक्तं, प्रतिवीतं तत्, प्रतिवीततमया वाचा शंस्तव्यम् । स यद्यपि ह दूरात् पशून्लभते गृहानेवैनानाजिगमिषति । गृहा हि पशूनां प्रतिष्ठा । निविदं शंसति यदन्तरात्मन्, तन्निवित्, तदेवास्य तत् कल्पयति । परिधानीयां शंसति, प्रतिष्ठा वै परिधानीया, प्रतिष्ठाया एवैनमन्ततः प्रतिष्ठापयति । याज्यया यजति, अन्नं वै याज्या, अन्नाद्यमेवास्य तत् कल्पयति । मूलं वा एतद्यज्ञस्य, यद्वाय्याश्च याज्याश्च । तद्यदन्नाः अन्नाद्वाय्याश्च याज्याश्च कुर्युः, उन्मूलमेव तद्यज्ञं कुर्युः । तस्मात्ताः सामान्या एव स्युः ॥ २२ ॥

कण्डिका २२ ॥ स्तोत्र इत्यादि यज्ञाङ्गों की आत्मा आदि से सदृशता का अधिक विवरण ॥

(स्तोत्रियं शंसति] वह [ऋत्विज] स्तोत्रिय [स्तोत्र] बोलता है ।

दुह० । पा० ३ । २ । ६१ । नि + विद् ज्ञाने—क्विप् । निवित्, वाङ् नाम-निघ० १ । ११ । निश्चितविद्या । स्तुतिविशेषः ॥

(आत्मा वै स्तोत्रियः, सः मध्यमया वाचा शंस्तव्यः) आत्मा [जीव के तुल्य] ही स्तोत्रिय है, वह मध्यम [न ऊंची न नीची] वाणी से बोलना चाहिये, (अस्य आत्मानम् एव तत् कल्पयति) इस [यजमान] के आत्मा को ही वह समर्थ करता है । (अनुरूपं शंसति) वह अनुरूप [विषय सहस्र. स्तोत्र] बोलता है । (प्रजा वै अनुरूपः, तस्मात् प्रतिरूपम् अनुरूपं कुर्वन्ति) प्रजा [के तुल्य] ही अनुरूप है, इस लिये प्रतिरूप [समान. विषय वाले स्तोत्र] को अनुरूप [अनुकूल वा योग्य स्तोत्र] वे करते हैं । (अस्य प्रजायाम् प्रतिरूपः ह एव आजायते, न अप्रतिरूपः) इस [यजमान] की प्रजा में [कुल. आदि के] सदृश ही [सन्ज्ञान] उत्पन्न होता है, असदृश नहीं । (तस्मात् प्रतिरूपम् अनुरूपं कुर्वन्ति) इस लिये प्रतिरूप [समान विषय वाले स्तोत्र] को अनुरूप [अनुकूल वा योग्य स्तोत्र] वे करते हैं । (सः उच्चैस्तराम् इव शंस्तव्यः) वह [अनुरूप] ऊंची ध्वनि से ही बोलना चाहिये । (अस्य प्रजाम् एव तत् श्रेयसीं करोति) इस [यजमान] की प्रजा को ही उसके द्वारा [यजमान से] अधिक श्रेष्ठ वह करता है । (धाय्यां शंसति) धाय्या [धारण. योग्य स्तुति] को वह बोलता है । (पत्नी वै धाय्या) पत्नी [के समान] ही धाय्या है । (सानाच्चैस्तराम् इव शंस्तव्या, गृहेषु अस्य पत्नी अप्रतिवादिनी ह एव भवति, यत्र एवं विद्वान् नीचैस्तरां धाय्यां शंसति) वह नीची ध्वनि से बोलनी चाहिये, घरों में इस की पत्नी अकटुभाषिणी [प्रियवादिनी] ही होती है, जहाँ ऐसा विद्वान् नीची ध्वनि से धाय्या बोलता है । (प्रगाथ शंसति) वह प्रगाथ [गाने योग्य स्तोत्र] बोलता है । (पशवः वै प्रगाथः) पशुओं [के तुल्य] ही प्रगाथ है । (सः स्वरवत्या वाचा शंस्तव्यः) वह [प्रगाथ] अच्छे स्वर वाली वाणी से बोलना चाहिये । (पशवः वै प्रगाथः, पशवः स्वरः, पशूनाम् आप्त्यै) पशुओं [के तुल्य] ही प्रगाथ है, पशुओं [के तुल्य] ही स्वर है [पशु चार पाँव वाले होते हैं और अनुदात्त, अनुदात्ततर, उदात्त और स्वगित, चार स्वर हैं], पशुओं की प्राप्ति के लिये [वह बोला जाता है] । (सूक्तं शंसति) वह सूक्त [अच्छा कहा हुआ स्तोत्र] बोलता है । (गृहाः वै प्रातर्वीतं सूक्तं, तत् प्रतिवीततमया

२२—(शंसति) पठति (अस्य) यजमानस्य (कल्पयति) समर्थ. करोति. (प्रतिरूपम्) सदृशम् । विषयसदृशतुल्यगुणम् (श्रेयसीम्) प्रशस्य—ईयसुन्, डीप् । उत्तमतराम् (शंस्तव्या) पठितव्या (अप्रतिवादिनी) पत्युः प्रतिकूलं. दूवर्ताति प्रतिवादिनी तद् विपर्ययेण । अकटुभाषिणी । प्रियभाषिणी (प्रतिवीतः

वाचा शंस्तव्यम्) घरों के समान ही अभीष्ट सूक्त है, वह अत्यन्त अभीष्ट वाणी से बोलना चाहिये । (सः यद्यपि ह दूरात् पशून् लभते, गृहान् एव एनान् आजिगमिषति) वह [कोई पुरुष] जब ही दूर से पशुओं को [चरते हुये] पाता है, घरों को ही उन्हें लाना चाहता है । (गृहाः हि पशूनां प्रतिष्ठा) क्योंकि घर ही पशुओं की प्रतिष्ठा [ठहरने का स्थान] है । (निविदं शंसति) निवित् [निश्चित विद्या वाली स्तुति] वह बोलता है । (यत् अन्तरात्मन्, तत् निवित्, तत् एव अस्य तत् कल्पयति) जो अन्तरात्मा [अन्तःकरण में वर्तमान पराक्रम] है, वह निवित् है, उस से ही इस [यजमान] के उस [अन्तरात्मा] को समर्थ करता है । (परिधानीयां शंसति) वह परिधानीया [स्तुति] बोलता है । (प्रतिष्ठा वै परिधानीया, प्रतिष्ठायै एव एनम् अन्ततः प्रतिष्ठापयति) प्रतिष्ठा [ठहरने के स्थान के समान अथवा गौरव के समान] परिधानीया है, प्रतिष्ठा के लिये ही इस [यजमान] को अन्त में वह स्थापित करता है । (याज्या याजति) याज्या [यज्ञ योग्य स्तुति] से वह यज्ञ करता है । (अन्नं वै याज्या अस्य अन्नाद्यम् एव तत् कल्पयति) अन्न ही याज्या [स्तुति] है, इस [यजमान] के खाने योग्य अन्न को ही उस से वह समर्थ करता है । (यज्ञस्य एतत् वै मूलम्, यत् धाय्याः च याज्याः च) यज्ञ का यह ही मूल है, जो धाय्यायें और याज्यायें हैं । (तत् यत् अन्नाः, अन्नात् धाय्याः च याज्याः च कुर्युः) जो वे अन्न वाली हैं, अन्न के लिये धाय्याओं और याज्याओं को वे [याजक] करें । (तत् यज्ञम् उन्मूलम् एव कुर्युः) [जो वे अन्यथा करें] उस यज्ञ को ही वे निर्मूल कर दें । (तस्मात् ताः सामान्याः एव स्युः) इस लिये वे [धाय्यायें और याज्यायें] सामान्य [सब यज्ञों में समान] ही होवें ॥ २२ ॥

भावार्थ—जैसे यज्ञ में उत्तम स्वर से अवसर के अनुसार स्तुति की जाती है, वैसे ही मनुष्यों को सब स्थानों में मनोहर वाणी से अवसर के अनुकूल बोलना चाहिये ॥ २२ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । २४ से मिलाओ ॥

तम्) प्रति + वी गतिव्याप्तिकान्त्यादिषु—क्त । अभीष्टम् । अतिप्रियम् (प्रतिवीत-तमया) अभीष्टतमया (लभते) प्राप्नाति (आजिगमिषति) आ + गमेः—सति-रूपम् । आनेतुमिच्छति (यद्यपि) यदा हि (प्रतिष्ठा) स्थितिस्थानम् (अन्नाः) अन्न—अर्शआद्यच् । अन्नवत्यः (अन्नात्) अन्नाय (उन्मूलम्) उन्मूलितम् । उत्पादितम् (सामान्याः) साधारणाः ॥

टिप्पणी २—(शंस्तव्या प्रतिवादिनी) के स्थान पर (शंस्तव्याप्रतिवादिनी = शंस्तव्या-अप्रतिवादिनां) ऐतरेय ब्राह्मण से ठीक किया है ॥

कण्डिका २३ ॥

तदाहुः, किंदेवत्यां यज्ञ इति । ऐन्द्र इति ब्रूयात्, ऐन्द्रे वाव यज्ञे सति यथाभागमन्या देवता न्ववायन् । ता प्रातःसवने मरुत्वतीये तृतीयसवने च । अथ हैतत् केवलमेवेन्द्रस्य, यदूर्ध्वं मरुत्वतीयात् । तस्मात् सर्वे निष्केवल्यानि शंसन्ति । यदेव निष्केवल्यानि, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपं । यद्वेव निष्केवल्यानि, एकं ह वा अग्रे सवनमासीत् प्रातःसवनमेव । अथ हैतं प्रजापतिरिन्द्राय ज्येष्ठाय पुत्रायैतत् सवनं निरमिमत्, यत् माध्यन्दिनं सवनम् । तस्मात् माध्यन्दिने सवने सर्वे निष्केवल्यानि शंसन्ति । यदेव निष्केवल्यानि, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यद्वेव निष्केवल्यानि, या ह वै देवताः प्रातःसवने होता शंसति, ताः शस्त्वा होत्राशंसिनोऽनुशंसन्ति । मैत्रावरुणं तृचं प्रउगे होता शंसति तदुभयं मैत्रावरुणम् । मैत्रावरुणं मैत्रावरुणोऽनुशंसति । ऐन्द्रं तृचं प्रउगे होता शंसति, तदुभयमैन्द्रम् । ऐन्द्रं ब्राह्मणाच्छंस्यनुशंसति, ऐन्द्राशं तृचं प्रउगे होता शंसति तदुभयमैन्द्राग्नम् । ऐन्द्राग्नमच्छावाकोऽनुशंसति । अथ हैतत् केवलमेवेन्द्रस्य, यदूर्ध्वं मरुत्वतीयात् । तस्मात् सर्वे निष्केवल्यानि शंसन्ति । यदेव निष्केवल्यानि, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यद्वेव निष्केवल्यानि, यदेददेवीरसहिष्ठमाया अथाभवत् केवलः सोमो अस्येति ऋचाभ्यनूक्तम् । देवान् ह यज्ञन्तन्वाना असुररक्षांस्यजिघांसन् । तेऽब्रुवन्, वामदेवं त्वं न इमं यज्ञं दक्षिणतो गोपायेति, मध्यतो वसिष्ठं, उत्तरतो भरद्वाजं, सर्वाननु विश्वामित्रम् । तस्मात् मैत्रावरुणो वामदेवान्न प्रचयवते, वसिष्ठाद् ब्राह्मणाच्छंसी, भरद्वाजादच्छावाकः, सर्वे विश्वामित्रात् । एते एवास्मैतद्रूपयोऽहरहर्जमर्गा अप्रमत्ता यज्ञं रक्षन्ति, य एवं वेद य एवं वेद ॥ २३ ॥

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणोत्तरभागे तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ।

कण्डिका २३ ॥ माध्यदिनसवन के देवता इन्द्र की महिमा ॥

(तत् आहुः, किंदेवत्यः यज्ञः इति) फिर वे [ऋषि] कहते हैं—कौन देवता वाला यज्ञ है । (ऐन्द्रः, इति ब्रूयात्, ऐन्द्रे वाव यज्ञे सति यथाभागम् अन्याः देवताः नुवायन्) इन्द्र देवता वाला है—ऐसा वह कहे, इन्द्र देवता वाले

२३—(निष्केवल्यानि) वृषादिभ्यश्चित् । उ० १ । १०६ । निः + केवृ सवने

ही यज्ञ होने पर अपने अपने भाग के अनुसार दूसरे देवता अवश्य आते हैं ।
 (ताः प्रातःसवने मरुत्वतीये तृतीयसवने च) वे [देवता] प्रातःसवन, मरुत्व-
 तीय [माध्यन्दिन सवन] और तृतीय सवन में [आते हैं] । (अथ ह इन्द्रस्य
 एव एतत् केवलं यत् मरुत्वतीयात् ऊर्ध्वम्) फिर यह इन्द्र का ही केवल
 (सेवनीय स्वरूप) है, जो मरुत्वतीय [यज्ञ] से ऊपर है । (तस्मात् सर्वे-
 निष्केवल्यानि शंसन्ति) इस लिये सब [याजक] निष्केवलय [केवल इन्द्र के
 स्तोत्रों] को बोलते हैं । (यत् एव निष्केवल्यानि, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्,
 यत् उ एव निष्केवल्यानि) जो ही निष्केवलय [स्तोत्र] हैं, वह स्वर्ग लोक
 का रूप है, क्योंकि यही निष्केवलय [केवल इन्द्र के स्तोत्र] हैं । (अथे ह वै
 एकं सवनं प्रातःसवनम् एव आसीत्) पहिले निश्चय करके एक सवन
 प्रातःसवन ही था । (अथ ह प्रजापतिः एतं [=एतस्मै] ज्येष्ठाय पुत्राय
 इन्द्राय एतत् सवनं निरमिमत्, यत् माध्यन्दिनं सवनम्) फिर प्रजापति पर-
 मेश्वर ने सब से बड़े पुत्र इस इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान् पुरुष] के लिये यह
 सवन बनाया, जो माध्यन्दिन सवन है । (तस्मात् माध्यन्दिने सवने सर्वे
 निष्केवल्यानि शंसन्ति) इस लिये माध्यन्दिन सवन में सब [याजक] निष्के-
 वलय [स्तोत्रों] को बोलते हैं [अर्थात् इन्द्र के ही स्तोत्र बोलते हैं] । (यत्
 एव निष्केवल्यानि तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्, यत् उ एव निष्केवल्यानि) जो
 ही निष्केवलय [स्तोत्र] हैं, वह स्वर्ग लोक का रूप है, क्योंकि यही निष्केवलय
 [केवल इन्द्र के स्तोत्र] हैं । (याः ह वै देवताः प्रातःसवने होता शंसति, ताः
 शस्त्वा होत्राशंसिनः अनुशंसन्ति) जिन ही देवताओं को प्रातःसवन में होता
 बुलाता है, उन का स्तुति करके होत्राशंसी [वेदवाणी से स्तुति करने वाले
 ऋत्विज] पीछे से बुलाते हैं । (मैत्रावरुणं तृचं प्रउगे हाता शंसति, मैत्रावरुणं
 मैत्रावरुणः अनुशंसति, तत् उभयं मैत्रावरुणम्) मैत्रावरुण [मित्र और वरुण
 देवता वाले] तृच [तीन मंत्रों के समूह] को प्रउग यज्ञ में हाता बोलता है,
 मैत्रावरुण स्तोत्र को मैत्रावरुण [ऋत्विज] पीछे से बोलता है, वह दोनों
 [हाता और मैत्रावरुण ऋत्विज का स्तोत्र] मित्र और वरुण देवता वाला

—कलच्, ततो यत् । निरन्तरस्वरूपयुक्तानि । इन्द्रस्तोत्राणि (होत्राशंसिनः)
 होत्रा वाङ् नाम—निघ० १ । ११ । वेदवाणीभाषिणः (अनु) पश्चात् (अदेवीः)
 विदुषां विरुद्धाः । आसुरीः (असहिष्ट) अभ्यभूत् (मायाः) छलकपटक्रियाः
 (अथ) अनन्तरमेव (केवलः) सेवनीयः (सोमः) अमृतरसः । मोक्षानन्दः

है । (ऐन्द्रं तृचं प्रउगे होता शंसति, ऐन्द्रं ब्राह्मणाच्छंसी अनुशंसति, तत् उभयम् ऐन्द्रम्) इन्द्र देवता वाले तृच को प्रउग यज्ञ में होता बोलता है, इन्द्र देवता वाले [तृच] को ब्राह्मणाच्छंसी पीछे से बोलता है, वे दोनों [दोनों के स्तोत्र] इन्द्र देवता वाले हैं । (ऐन्द्राग्नं तृचं प्रउगे होता शंसति, ऐन्द्राग्नम् अच्छावाकः अनुशंसति, तत् उभयम् ऐन्द्राग्नम्) इन्द्र और अग्नि देवता वाले तृच को प्रउग यज्ञ में होता बोलता है और इन्द्र और अग्नि देवता वाले [तृच] को अच्छावाक पीछे से बोलता है, वह दोनों [दोनों का स्तोत्र] इन्द्र और अग्नि देवता वाला है । (अथ ह एतत् केवलम् एव इन्द्रस्य यत् मरुत्वतीयात् ऊर्ध्वम्) फिर यह इन्द्र का ही केवल [सेवनीय स्वरूप] है, जो मरुत्वतीय [यज्ञ] से ऊपर है । (तस्मात् सर्वे निष्केवलानि शंसन्ति) इस लिये सब [याजक] निष्केवल्य [केवल इन्द्र के स्तोत्रों] को बोलते हैं । यत् एव निष्केवलानि तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपं, यत् उ एव निष्केवलानि) जो ही निष्केवल्य [स्तोत्र] हैं, वह स्वर्ग लोक का रूप है, क्योंकि यह ही निष्केवल्य [केवल इन्द्र के स्तोत्र] हैं । (यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत् केवलः सोमो अस्य—इति ऋचा अभ्यनूक्तम्) (यदा इत्) जब ही (अदेवीः) विद्वानों के विरुद्ध [आसुरी] (मायाः) मायाओं [झुलकपट क्रियाओं] को (असहिष्ट) उस ने जीत लिया, (अथ) तब ही (सोमः) सोम [अमृत रस अर्थात् मोक्षसुख] (अस्य) उस [पुरुषार्थी] का (केवलः) सेवनीय (अभवत्) हुआ है [अथ० २० । २७ । ५ पाद ३, ४]—इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है । (यज्ञं तन्वानाः देवान् असुर रक्षांसि अजिघांसन्) यज्ञ को फैलाते हुये देवताओं को असुर राक्षसों ने मारना चाहा । (वामदेवम् अब्रुवन्, त्वं दक्षिणतः नः इमं यज्ञं गोपाय इति, वसिष्ठम् मध्यतः, भरद्वाजम् उत्तरतः, अनु विश्वामित्रं सर्वान्) वे वामदेव [उत्तम विद्वान्] से बोले—तू दक्षिण से हमारे इस यज्ञ की रक्षा कर, वसिष्ठ से [अति श्रेष्ठ पुरुष से, वे बोले]—बीच से [रक्षा कर], भरद्वाज से [अज्ञ वा ज्ञान धारण करने वाले पुरुष से बोले]—उत्तर से [रक्षा कर], और पीछे से विश्वामित्र से [सब के मित्र पुरुष से बोले]—सबों की [सब यज्ञों की] [रक्षा कर] । (तस्मात् मैत्रावरुणः वामदेवात् न प्रच्यवते, ब्राह्मणाच्छंसी

(तन्वानाः) तन्वानान् । विस्तारयतः (अजिघांसन्) हन्तुमैच्छन् (वामदेवम्) उत्तमविद्वान्सम् (वसिष्ठम्) अतिश्रेष्ठं पुरुषम् (भरद्वाजम्) अज्ञस्य ज्ञानस्य वा धर्तारम् (विश्वामित्रम्) सर्वस्य मित्रम् (न) निषेधे (प्रच्यवते) च्युङ्,

वसिष्ठात्, अच्छावाकः भरद्वाजात्, सर्वे विश्वामित्रात्) इस लिये मित्र और वरुण देवता वाला ऋत्विज वामदेव [श्रेष्ठ विद्वान्] से नहीं बढ़ कर जाता है, ब्राह्मणाच्छंसी [वेद से स्तुति करने वाला ऋत्विज] वसिष्ठ [अति श्रेष्ठ पुरुष] से, अच्छावाक [अच्छा उच्चारण करने वाला ऋत्विज] भरद्वाज [बहुत अन्न वा ज्ञान रखने वाले पुरुष] से, और सब [ऋत्विज] विश्वामित्र से [सब के मित्र पुरुष से नहीं बढ़ कर जाते हैं अर्थात् सब समान ऋत्विज हैं] । (अस्मै एव तत् एते ऋषयः अहरहः नमर्गाः अप्रमत्ताः यज्ञं रक्षन्ति, यः एवं वेद यः एव वेद) उस पुरुष के लिये ही तब यह ऋषि लोग दिन दिन न मरते हुये [अमर] और अप्रमत्त [भूल चूक बिना] होकर यज्ञ की रक्षा करते हैं जो पुरुष ऐसा जानता है जो पुरुष ऐसा जानता है [द्विर्वचन प्रपाठक की समाप्ति बताता है] ॥ २३ ॥

भावार्थ—जैसे यज्ञ में एक इन्द्र की स्तुति करने से अन्य देवताओं की स्तुति हो जाती है, वैसे ही एक श्रेष्ठ महाप्रतापी पुरुष की बड़ाई में उस के साथियों की बड़ाई हो जाती है ॥ २३ ॥

टिप्पणी—ऊपर प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित पूरा लिखा जाता है—

येन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार । यदेददेवी-
रसहिष्ट माया अथाभवत् केवलः सोमो अस्य—अथ० २० । ८७ । ५, ऋ० ७ ।
६८ । ५ ॥ (इन्द्रस्य) इन्द्र [महाप्रतापी वीर] के (प्रथमा) पहिले और
(नूतना) नवीन (कृतानि) कर्मों को, (या) जो (मघवा) उस महाधनी ने
(चकार) किये हैं, (प्र प्र वाचम्) बहुत अच्छे प्रकार मैं कहूँ । (यदा इत्)
जब ही (अदेवीः) अदेवी [विद्वानों के विरुद्ध, आसुरी] (मायाः) मायाओं
[छल कपट क्रियाओं] को (असहिष्ट) उस ने जीत लिया है, (अथ) तब ही
(सोमः) सोम [अमृत रस अर्थात् मोक्ष सुख] (अस्य) उस [पुरुषार्थी]
का (केवलः अभवत्) सेवनीय हुआ है ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
वाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्व-

गतौ । प्रकर्षेण गच्छति (नमर्गाः) गन् गम्यद्योः । उ० १ । १२३ । नञ् + मृङ्
प्राणत्यागे—गन् । अमर्गाः । अमृताः (अप्रमत्ताः) प्रमादरहिताः ॥

वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित जेमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्य उत्तरभागे द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे माघमासे कृष्णतृतीयायां तिथौ १९८० [अशी-
त्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि
श्रीराजराजेश्वर पञ्चमजार्जमहोदयस्य सुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात् ॥

मुद्रितः—आश्विन कृष्णा ७ संवत् १९८१ वि० ता० २० सेप्टेम्बर सन् १९२४ ई० ॥

अथ चतुर्थः प्रपाठकः ॥

कण्डिका १ ॥

ओम् । कया नश्चित्र आ भुवत्, कया तं न ऊत्येति मैत्रावरुणस्य स्तोत्रि-
यानुरूपौ । कस्तमिन्द्र त्वावसुमिति बार्हतः प्रगाथः । तस्योपरिष्ठाद् ब्राह्मणम् ।
सद्यो ह जातो वृषभः कनीन इति उक्थमुखम् । एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्रेति
पर्यासः । उशन्नु षु णः सुमना उपाक इति यजति । एतामेव तद्देवतां यथाभागं
प्रीणाति, वषट्कृत्यानुवषट् करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति, न ह्यनाराश-
श्रुसाः सीदन्ति ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में मैत्रावरुण
के मन्त्र प्रयोग ॥

(ओम् । कया नश्चित्र आ भुवत्, कया त्वं न ऊत्या—इति मैत्रावरुणस्य
स्तोत्रियानुरूपौ) कया नश्चित्र आ भुवत्..., और कया त्वं न ऊत्या...यह
दो मन्त्र मैत्रावरुण [ऋत्विज] के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं । (कस्तमिन्द्र
त्वावसुम्, इति बार्हतः प्रगाथः) कस्तमिन्द्र त्वावसुम्...यह मन्त्र वृहती छन्द
वाला प्रगाथ [अच्छे प्रकार गाने योग्य स्तोत्र] है । (तस्य उपरिष्ठात् ब्राह्म-
णम्) उस के ऊपर यह [आगे वाला मन्त्र] ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है । (सद्यो

१—(कश्च) अन्येष्वपि दृश्यते । पा० ३ । २ । १ । कमेः—ड, टाप् । कः
कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा—निरु० १० । २० । कमनीयया । सुखप्रदया ।
अथवा प्रश्नवाचकोऽस्ति (नः) अस्माकम् (चित्रः) अद्भुतः । पूज्यः (आ)

ह जातो वृषभः कनीनः, इति उक्थमुखम्) सद्यो ह जातः वृषभः कनीनः^{००}
 यह मन्त्र उक्थ [स्तोत्र] का आरम्भ है । (एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्र—इति
 पर्यासः) एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्र यह मन्त्र [उक्थ का] पर्यास [विराम]
 है । (उशन्नु षु णः सुमना उपाके,—इति यजति) उशन्नु षु णः सुमना उपाके^{००}
 इस मन्त्र से वह यज्ञ करता है [याज्या आहुति देता है] । (एताम् एव देवतां
 तत् यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट् करोति) इस ही देवता को उस से
 अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है, और वषट्कार करके अनु-
 वषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अना-
 राशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते
 हैं—नरों की स्तुति के बिना [यज्ञ यजमान को] न बढ़ाते हैं और नहीं चलते
 हैं [नहीं आप बढ़ते हैं । देखो गो० उ० ३ । १५] ॥ १ ॥

भावार्थ—समय के अनुकूल यथावत् स्तुति होनी चाहिये ॥ १ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—कया नश्चित्र आ भुवद्वृती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता—
 अथर्व० २० । १२४ । १, ऋक् ४ । ३१ । १, यजु० २७ । ३६ तथा साम० उ० १ ।
 १ । १२ ॥ (चित्रः) विचित्र वा पूज्य और (सदावृधः) सदा बढ़ाने वाला
 [राजा] (नः) हमारी (कया) कमनीय वा सुख देने वाली [वा कौन सी]
 (ऊती) रक्षा से और (कया) कमनीय वा सुख देने वाली [वा कौन सी]
 (शचिष्ठया) अति उत्तम कर्म वा बुद्धि वाले (वृता) बर्ताव से (सखा)
 [हमारा] सखा (आ) ठीक ठीक (भुवत्) होवे ॥

२—कया त्वं न ऊत्याऽभि प्र मन्दसे वृषन् । कया स्तोतृभ्य आ भर—
 ऋग्० ८ । ६३ [सायण भाष्य ८२] । १६, साम० उ० ७ । ३ । ७ ॥ (वृषन्)
 हे बलवान् ! [परमेश्वर] (त्वम्) तू (कया) कमनीय वा सुखदायक (ऊत्या)
 रक्षा से (नः) हमें (अभि) सब ओर से (प्र मन्दसे) आनन्द देता है,
 (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों को (कया) कमनीय वा सुखदायक [रक्षा]
 से (आ भर) भरपूर कर ॥

समन्तात् (भुवत्) भवेत् (नः) अस्मान् (ऊत्या) रक्षया (त्वावसुम्) त्वया
 प्राप्तधनम् (कनीनः) कनी दीप्तिकान्तिगतिषु—ईन प्रत्ययः । दीप्तिमान् (उशन्)
 वश कान्तौ—शतृ । हे कामयमान (सुमनाः) प्रसन्नचित्तः (उपाके) सकोपे ॥

३—कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्त्यो दधर्षति । श्रद्धा इत्ते मघवन् पार्ये दिवि
वाजी वाजं सिपासति—ऋग्० ७ । ३२ । १४ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य
वाले राजन्] (कः मर्त्यः) कौन मनुष्य (तम्) उस (त्वावसुम्) तुझ से
पाये हुये धन वाले को (आ दधर्षति) तिरस्कार करता है । (मघवन्) हे
महाधनी ! (ते) तेरे लिये (श्रद्धा इत्) श्रद्धा से ही (पार्ये दिवि) पालने
योग्य व्यवहार में (वाजी) विज्ञानी पुरुष (वाजम्) विज्ञान को (सिपासति)
बाँटना चाहता है ॥

४—सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः प्र भर्त्तुमावदन्धसः सुतस्य । साधोः
पिब प्रतिक्रामं यथा ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य—ऋ० ३ । ४८ । १ ॥ (सद्यः
ह) शीघ्र ही (जातः) प्रकट हुये, (कनीनः) प्रकाशमान, (वृषभः) सुखों की
वर्षा करने वाले [आप, हे इन्द्र राजन् !] (प्रभर्त्तुम्) अच्छे प्रकार पालन करने
के लिये (सुतस्य अन्धसः) सिद्ध किये हुये अन्न की (आवत्) रक्षा करें ।
(रसाशिरः) रसों का खाने वाला तू (प्रतिक्रामम्) प्रत्येक कामना में, (यथा
ते) जैसे तेरे लिये हो, (साधोः) सिद्धि करने वाले (सोम्यस्य) सोम
[ऐश्वर्य] में उत्पन्न रस का (प्रथमम्) पहिले (पिब) पान कर ॥

५—एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्र विश्वे देवासः सुहवास ऊमाः । महा-
मुभे रोदसी वृद्धमृष्व निरेकमिद् वृणते वृत्रहत्ये—ऋ० ४ । १६ । १ ॥ (वज्रिन्)
हे प्रशंसित शस्त्र अस्त्र वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (अत्र
एव) यहाँ पर ही (सुहवासः) अच्छे प्रकार पुकारने वाले, (ऊमाः) रक्षा
करने वाले (विश्वे) सब (देवासः) विद्वान् लोग, (उभे रोदसी) दोनों सूर्य
और भूमि [के समान वर्तमान] (महाम्) महान् (वृद्धम्) वृद्ध [विद्यावृद्ध],
(ऋष्वम्) श्रेष्ठ (एकम् इत्) अकेले ही (त्वाम्) तुझ को (वृत्रहत्ये) शत्रुओं
के नाश वाले संग्राम में (निः वृणते) निरन्तर चुन लेते हैं ॥

६—उशन्नुषु लः सुमना उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्वधावः । पा
इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्धसा ममदः पृष्ठ्येन—ऋ० ४ । २० । ४ ॥ (नः उ
सु उशन्) हे हम को निश्चय करके अच्छे प्रकार चाहने वाले ! (स्वधावः) हे
उत्तम अन्न वाले ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सुमनाः) प्रसन्न
चित्त वाला तू (उपाके) समीप में (सुषुतस्य) अच्छे प्रकार निचोड़े गये
(सोमस्य) सोम [ऐश्वर्य युक्त पदार्थ] की (नु) शीघ्र (पाः) रक्षा कर, और (प्रति-
भृतस्य) प्रत्यक्ष पुष्ट किये हुये (मध्वः) मधु [उत्तम ज्ञान] के (पृष्ठ्येन) पीछे होने
वाले सुख से (अन्धसा) अन्न के साथ (सं ममदः) अच्छे प्रकार आनन्द कर ॥

कण्डिका २ ॥

तं वो दस्ममृतीषहं, तत्त्वा यामि सुवीर्यमिति ब्राह्मणाच्छंसिनः स्तोत्रियानुरूपौ । उदु त्ये मधुमत्तमा गिर इति बार्हतः प्रगाथः । पशवो वै प्रगाथः, पशवः स्वरः पशूनामाप्त्यै । अतो मध्यं वै सर्वेषां छन्दसां वृहती, मध्यं माध्यन्दिनं सवनानां, तन्मध्येनैव मध्यं समर्द्धयति । इन्द्रः पूर्भिदातिरद्वासमर्कैरित्युक्थमुखम् । उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येति पर्य्यासः । एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुमिति परिदधाति । वसिष्ठासो अभ्यर्चन्ति अर्कैरिति । अन्नं वा अर्कः, अन्नाद्यमेवास्मै तत्परिदधाति । स न स्तुतो वीरवद्भ्रातु गोमदिति, प्रजाञ्चैवास्मै तत्पशुंश्चाशास्ते । यूयं पात स्वस्तिमिः सदा न इति, स्वस्तिमती रूपसमृद्धा । एतद्वै यज्ञस्य समृद्धं, यत् रूपसमृद्धम् । यत् कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारमश्रुते । य एवं वेद यश्चैवं विद्वान् ब्राह्मणाच्छंसी एतया परिदधाति । ऋजीषी वजां वृषभस्तुराषाडिति यजति । एतामेव तद्देवतां यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्यानुवपट्करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति, न ह्यनाराशंसाः सीदन्ति ॥ २ ॥

कण्डिका २ ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में ब्राह्मणाच्छंसी के मन्त्र प्रयोग ॥

(तं वो दस्ममृतीषहम्, तत् त्वा यामि सुवीर्यम्, इति ब्राह्मणाच्छंसिनः स्तोत्रियानुरूपौ) तं वो दस्ममृतीषहं...और तत् त्वा यामि सुवीर्यम्...यह दो मन्त्र ब्राह्मणाच्छंसा [ऋत्विज] के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं । (उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः...इति बार्हतः प्रगाथः) उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः...यह मन्त्र वृहती छन्द वाला प्रगाथ [अच्छे प्रकार गाने योग्य स्तोत्र] है । (पशवः वै प्रगाथः, पशवः स्वरः पशूनाम् आप्त्ये) पशुओं [के तुल्य] ही प्रगाथ है, पशुओं [के तुल्य] ही स्वर है, पशुओं की प्राप्ति के लिये [वह बोला जाता है—देखो गा० उ० ३ । २२] । (अतः सर्वेषां छन्दसां मध्यं वै वृहती, सवनानां मध्यं माध्यन्दिनम्, तत् मध्येन एव मध्यं समर्द्धयति) इस लिये कि सब छन्दों का मध्य

२—(तम्) प्रसिद्धम् (वः) युस्मदर्थम् (दस्मम्) इपियुधीन्धिदसि० उ० १ । १४५ । दस दर्शनसंदंशनयोः—मक् । दर्शनीयम् (ऋतीषहम्) सांहितको दीर्घः । ऋतयो बाधकाः शत्रवः, तेषामभिभवितारम् (तत्) तादृक् (त्वा) त्वाम् (यामि) याचामि—निरु० २ । १ । याचे (सुवीर्यम्) महद्वीरवत्वम्

ही वृहती है [गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, वृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती—इन सात छन्दों में वृहती मध्यम है], [तीनों] नवनों का मध्य माध्यन्दिन है, इस लिये मध्य से ही मध्य को वह सम्पन्न करता है । (इन्द्रः पूर्भिदानिरद् दासमर्कैः इति उक्थं मुखम्) इन्द्रः पूर्भिदानिरद् दासमर्कैः यह मन्त्र उक्थ [स्तोत्र] का आरम्भ है । (उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्या इति पर्यासः) उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्या यह मन्त्र [उक्थ का] पर्यास [विराम] है । (एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रवाहुम् इति परिदधाति) एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रवाहुम् [अथ० २० । १२ । ६ पाद १] इस से परिधानीया स्तुति बोलता है । (वसिष्ठासो अभ्यर्चन्ति अर्कैः इति) वसिष्ठासो अभ्यर्चन्ति अर्कैः—[उसी मन्त्र का यह दूसरा पाद है] । (अन्नं वै अर्कः अन्नाद्यम् एव अस्मै तत् परिदधाति) अन्न ही अर्क है, खाने योग्य अन्न को ही इस [यजमान] के लिये उस से वह सब ओर धारण करता है । (स न स्तुतो वीरवद् धातु गोमत्, इति प्रजां च पशून् च एव अस्मै तत् आशास्ते) स न स्तुतो वीरवद् धातु गोमत्,—[यह उसी का तीसरा पाद है] प्रजा को [वीरवत् शब्द से] और पशुओं को [गोमत् शब्द से] ही इस [यजमान] के लिये उस से वह आशा करता है । (यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः, इति स्वस्तिमती रूपसमृद्धा) यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः—[यह उसी का चौथा पाद है] यह स्वस्ति शब्द वाली स्तुति रूप से समृद्ध है । (एतत् वै यज्ञस्य समृद्धं यत् रूपसमृद्धम्) यह ही यज्ञ का समृद्ध कर्म है जो रूप से समृद्ध है । (यत् क्रियमाणं कर्म ऋग् यजुः वा अभिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारम् अश्नुते, यः एवं वेद यः च एवं

(उत्) ऊर्ध्वम् (उ) चार्थे (त्ये) ते (मधुमत्तमाः) अतिशयेन मधुराः (गिरः) वाण्यः (पूर्भित्) शत्रूणां पुरां दुर्गाणां भेत्ता (आ अतिरत्) प्रावर्धयत् (दासम्) दासु दाने—घञ् । सेवकम् (अर्कैः) अर्चनीयैर्मन्त्रैर्विचारैः । अन्नैः (उत् पेरत) ईर गतौ—लङ् । ते विद्वांस उदीरितवन्तः । उच्चारितवन्तः । (उ) एव (ब्रह्माणि) वेदज्ञानानि (श्रवस्या) श्रवस्—यत् । श्रवसे यशसे हितानि (एव) एवम् (इत) अपि (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं सेनापतिम् (वृषणम्) वलवन्तम् (वज्रवाहुम्) शस्त्रास्त्रपाणिम् (वसिष्ठासः) वसु—इष्टन्, असुक् । अतिशयेन वसवः श्रेष्ठविद्वांसः (आभि) सर्वतः (अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (नः) अस्मान् (स्तुतः) प्रशंसितः (वीरवत्) वीरैर्युक्तम् (धातु) दधातु (गोमत्) प्रशस्तधेनुभिर्युक्तं राज्यम् (आशास्ते) आकाङ्क्षते (पात)

विद्वान् ब्राह्मणाच्छंसी एतया परिधाति) जो किये जाते हुये कर्म को ऋग्वेद वा यजुर्वेद बतलाता है, [उस के अनुसार] स्वस्ति [आनन्द के साथ उस [यजमान] के यज्ञ का पार [अन्त] वह [विद्वान्] पाता है जो ऐसा जानता है और जो ऐसा विद्वान् ब्राह्मणाच्छंसी इस [ऋचा] से परिधानीया स्तुति बोलता है । (ऋजीषी वजी वृषभस्तुराषाट्...इति यजति) ऋजीषी वजी वृषभस्तुराषाट्...इस मन्त्र से वह यज्ञ करता है [याज्या आहुति देता है] । (एताम् एव देवतां तत् यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट् करोति) इस ही देवता को उस से अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं—नरों की स्तुति बिना [यज्ञ यजमान को] न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [नहीं आप बढ़ते हैं । देखो क० १] ॥ २ ॥

भावार्थ—कण्डिका १ के संमान है ॥ २ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—तं वो दस्ममृतीषह वसोमन्दानमन्धसः । अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिर्नवामहे—अथर्व० २० । ६ । १, ऋ० ८ । ८८ । [सायण भाष्य ७७] । १, साम० ३० । १ । १ । १३ ॥ [हे मनुष्यो !] (वः) तुम्हारे लिये (तम्) उस (दस्मम्) दर्शनीय, (ऋतीषहम्) शत्रुओं के हराने वाले, (वसोः) धन से और (अन्धसः) अज्ञ से (मन्दानम्) आनन्द देने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] को (गीभिः) वाणियों से (अभि) सब प्रकार (नवामहे) हम सराहते हैं, (न) जैसे (धेनवः) गौयें (स्वसरेषु) घरों में [वर्तमान] (वत्सम्) बछड़े को [हिङ्कारती हैं] ॥

२—तत् त्वा यामि सुवीर्यं तद् ब्रह्म पूर्वचित्तये । येना यतिभ्यो भृगवो धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ—अथर्व० २० । ६ । ३, ऋ० ८ । ३ । ६ ॥ [हे परमात्मन् !] (त्वा) तुझ से (तत्) वह (सुवीर्यम्) बड़ा वीरत्व और

रक्षित (स्वस्तिभिः) सुखैः (स्वस्ति) स्वस्त्या । सुखेन (अश्नुते) प्राप्नोति (क्रियमाणम्) अनुष्ठीयमानम् (ऋजीषी) अर्जेऋज च । ३० । ४ । २८ । अर्ज अजने—ईपन्, कित्, ऋजादेशश्च । ऋजीषं धनमस्यास्तीति—इति । महाधनी (वजी) शस्त्रास्त्रभृत् (वृषभः) बलिष्ठः (तुराषाट्) तुर हिंसायाम्—क + षह अभिभवे—एिव, छान्दसो दीर्घः । तुराणां हिंसकशत्रूणामभिभविता ॥

(तत्) वह (ब्रह्म) बढ़ता हुआ अन्न (पूर्वचित्तये) पहिले ज्ञान के लिये (यामि) मैं मांगता हूँ । (येन) जिस [वीरत्व और अन्न] से (धने हिते) धन के स्थापित होने पर (यतिभ्यः) यतियों [यत्नशीलों] के लिये (भृगुवे = भृगुम्) परिपक्व ज्ञानी को और (येन) जिस से (प्रस्कण्वम्) बड़े बुद्धिमान पुरुष को (आविथ) तू ने बचाया है ॥

३—उदुत्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव—अथर्व० २० । १० । १, ऋ० ८ । ३ । १५, साम उ० ६ । १ । ६ ॥ (त्ये) वे (मधुमत्तमाः) अति मधुर (स्तोमासः) स्तोत्र (उ) और (गिरः) वाणियों (उत् ईरते) ऊंची जाती हैं । (इव) जैसे (सत्राजितः) सत्य से जीतने वाले, (धनसाः) धन देने वाले, (अक्षितोतयः) अक्षय रक्षा वाले, (वाजयन्तः) बल प्रकट करते हुये (रथाः) रथ [आगे बढ़ते हैं] ॥

४—इन्द्रः पूर्मिदातिरद् दासमकैर्विद्वसुर्दय मानो वि शत्रून् । ब्रह्मजुतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणाद् रोदसी उभे—अथर्व० २० । ११ । १ । ऋ० ३ । ३४ । १ ॥ (विद्वसुः) ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त, (पूर्मित्) [शत्रुओं के] गढ़ों को तोड़ने वाले, (शत्रून्) वैरियों को (वि) विविध प्रकार (दयमानः) मारते हुये (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] ने (अकैः) पूजनीय विचारों से (दासम्) दास [सेवक] को (आ अतिरत्) बढ़ाया है । (ब्रह्मजुतः) ब्रह्माओं [महाविद्वानों] से प्रेरणा किये गये (तन्वा) उपकार शक्ति से (वावृधानः) बढ़ते हुये, (भूरिदात्रः) बहुत से अस्त्र शस्त्र वाले [शूर] ने (उभे) दोनों (रोदसी) आकाश और भूमि को (आ) भले प्रकार (अपृणत्) तृप्त किया है ॥

५—उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ । आ यो विश्वानि शर्वसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि—अथर्व० २० । १२ । १, ऋग्वेद ७ । २३ । १ ॥ (श्रवस्या) यश के लिये हितकारी (ब्रह्माणि) वेदज्ञानों को (उ) ही (उत् ऐरत) उन [विद्वानों] ने उच्चारण किया है, (वसिष्ठ) हे अति श्रेष्ठ ! (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] को (समर्ये) युद्ध में (महय) पूज । (यः) जिस (उपश्रोता) आदर से सुनने वाले [शूर] ने (ईवतः) उद्योगी (मे) मेरे (विश्वानि) सब (वचांसि) वचनों को (शर्वसा) बल के साथ (आ) अच्छे प्रकार (ततान) फैलाया है ॥

६—एवेदिन्द्रं वृषण वज्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यकैः । स न

स्तुतो वीरवद् धातु गोमद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः—अथर्व० २० । १२ । ६,
ऋग्० ७ । २३ । ६ । यजु० २० । ५४ ॥ (एव इत्) इस प्रकार से ही (वसिष्ठासः)
अत्यन्त वसु [श्रेष्ठ विद्वान् लोम] (वृषणम्) बलवान्, (वज्रबाहुम्) वज्र
[शस्त्र अस्त्रों] को भुजा पर रखने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति]
को (अर्कैः) पूजनीय विचारों और अस्त्रों से (अभि अर्चन्ति) यथावत् पूजते
हैं । (स्तुतः) स्तुति किया गया (सः) वह (नः) हमारे लिये (वीरवत्)
वीरों से युक्त (गोमत्) उत्तम गौओं वाले [राज्य] को (धातु) धारण करे,
[हे वीरो !] (यूयम्) तुम सब (स्वस्तिभिः) सुखों से (सदा) सदा (नः)
हमें (पात) रक्षित रखे ॥

७—ऋजीषी वृजी वृषभस्तुराषाद् शुष्मी राजा वृत्रहा सोम पावा ।
युक्त्वा हरिभ्यामुपर्यासदर्वाङ् माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः—अथर्व० २० ।
१२ । ७ । ऋ० ५ । ४० । ४ ॥ (ऋजीषी) महाधनी, (वृजी) वज्रधारी (शस्त्र
अस्त्रों वाला], (वृषभः) बलवान् (तुराषाद्) हिंसक शत्रुओं का हराने वाला,
(शुष्मी) बलवान् सेना वाला, (राजा) राजा, (वृत्रहा) बैरियों का मारने
वाला, (सोमपावा) सोम [महौषधियों के रस] का पीने वाला (इन्द्रः) इन्द्र
[महाप्रतापी सेनापति] (हरिभ्याम्) दो घोड़ों से [रथ को] (युक्त्वा)
जोत कर (अर्वाङ्) सामने (उपयासत्) आवे और (माध्यन्दिने) मध्याह्न में
(सवने) यज्ञ के बीच (मत्सत्) आनन्द पावे ॥

कण्डिका ३ ॥

तरोभिर्वोविद्वसुन्तरणिरित्सिषासतीति, अच्छावाकस्य स्तोत्रियानु-
रूपौ । उदिन्वस्य रिच्यत इति, बार्हतः प्रगाथः । तस्योक्तं ब्राह्मणम् । भूय इद्वा-
वृधे वीर्यायेति उक्थमुखम् । इमामूषु प्रभृतिं सातये धा इति, पर्यासः । तस्य
दशमीमुद्धरति । घोरस्य वा आङ्गिरसस्यैतदार्षं नेद्यज्ञं निर्दहेत् शस्यमानं पिवा
वर्धस्व तव घा सुतास इति यजति । एतामेव तद्देवतां यथाभागं प्रीणाति
वषट्कृत्यानुवषट् करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति, न ह्यनाराशंसाः
सीदन्ति ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में

अच्छावाक के मन्त्रप्रयोग ॥

(तरोभिर्वो विद्वसुम्, तरणिरित् सिषासति, इति अच्छावाकस्य

१—तरोभिर्वो विद्वसुमिन्द्रं सबाधं ऊतये । बृहद् गायन्तः सुतसोमै
अध्वरे हवे भग्ं न कारिणम्—ऋ० ८ । ६६ [सायण भाष्य ५५] । १ ॥ [हे
मनुष्यो !] (भग्म्) पोषण करने वाले (कारिणं न) कर्म कुशल के समान
(वः) तुम्हारे लिये (तरोभिः) शीघ्रता से (विद्वसुम्) धन पाने वाले
(इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले वीर] को (बृहत्) बृद्धिकारक स्तोत्र
(गायन्तः) गाने हुये, (सबाधः) बाधा में पड़े हुये हम (ऊतये) रक्षा के लिये
(सुतसोमे) सिद्ध क्रिये हुये सोम [तत्त्व रस] रखने वाले (अध्वरे) हिंसा
रहित यज्ञ में (हवे = आह्वयामः) बुलाते हैं ॥

२—तरणिरित् सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । आ वृ इन्द्रं पुरुहूतं नमे
गिरा नेमिं तष्टेव सुद्र्वम्—ऋ० ७ । ३२ । २० ॥ (तरणिः इत्) तारने वाला पुरुष
ही (युजा) योग्य, (पुरन्ध्या) बहुत अर्थों को धारण करने वाली बुद्धि से
(वाजम्) विज्ञान वा धन को (सिषासति) बांटना चाहता है । (वः) तुम्हारे
लिये (पुरुहूतम्) बहुतों से बुलाये गये (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले
राजा] को (गिरा) वाणी से (आ नमे) अच्छे प्रकार भुक्ता हूँ, (तष्टा इव)
जैसे बढई (सुद्र्वम्) डूढ़ काठ वाले (नेमिम्) पहिये को [भुक्ता है] ॥

३—उदिन्वस्य रिच्यतेऽहो धनं न जिग्युषः । य इन्द्रो हरिवान् न
दभन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि—अथर्व० २० । ५६ । ३, ऋ० ७ । ३२ ।
१२ ॥ (अस्य) उस [राजा] का (इत्) ही (अंशः) भाग (जिग्युषः)
विजयी वीर के (धनं न) धन के समान (नु) शीघ्र (उत् रिच्यते) बढ़ता जाता
है, (यः) जो (हरिवान्) श्रेष्ठ मनुष्यों वाला (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला
राजा] (सोमिनि) तत्त्व रस वाले व्यवहार में (दक्षम्) बल को (दधाति)
लगाता है, और (तम्) उस [राजा] को (रिपः) बैरी लोग (न दभन्ति)
नहीं सताते हैं ॥

४—भूय इद् वावृधे वीर्याय एको अजुर्यो दयते वसूनि । प्ररिचिचे दिव
इन्द्रः पृथिव्या अर्धमिदस्य प्रति रोदसी उभे—ऋ० ६ । ३० । १ ॥ (एकः)
अकेला (अजुर्यः) न बूढ़ा होने वाला [महाबली राजा] (भूयः इत्) बहुत
अधिक ही (वीर्याय) पराक्रम के लिये (वावृधे) बढ़ता है और (वसूनि दयते)
अनेक धनों का दान करता है, [जैसे] (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला
परमात्मा] (दिवः) प्रकाश लोक से और (पृथिव्याः) पृथिवी से (प्ररिचिचे)
बहुत बढ़ा है, (अस्य) उस [परमात्मा] का (अर्धम् इत्) आधा भाग ही
(उभे रोदसी प्रति) दोनों अन्तरिक्ष और पृथिवी में है ॥

५—इमाम् षु प्रभृतिं सातये धाः शश्वच्छश्वदृतिभिर्यादमानः । सुतेसुते वावृधे वर्धनेभिर्यः कर्मभिर्महद्भिः सुश्रुतो भूत्—ऋ० ३ । ३६ । १ ॥ [हे इन्द्र ! बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (शश्वच्छश्वत्) नित्य नित्य (ऊतिभिः) रक्षण क्रियाओं से (दयमानः) प्रयत्न करता हुआ तू (इमाम् उ प्रभृतिम्) इस ही पालन शक्ति को (सातये) बांटने के लिये (सु धाः) अच्छे प्रकार धारण कर । (यः) जो मनुष्य (सुतेसुते) प्रत्येक निचाड़े हुये [तत्त्वरस] में (वर्धनेभिः) बढ़ती करने वाले साधनों से (वावृधे) बढ़ा है, वह (महद्भिः कर्मभिः) महान् कर्मों से (सुश्रुतः) बड़ा विख्यात (भूत्) हुआ है ॥

६—अस्मे प्र यन्धि मघवन्नृजीषिन्दिन्द्रं रायो विश्ववारस्य भूरेः । अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्—ऋ० ३ । ३६ । १० ॥ (मघवन्) हे पूजनीय (ऋजीषिन्) महाधनी (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (अस्मे) हम को (विश्ववारस्य) सब से स्वीकार करने योग्य (भूरेः) बहुत (रायः) धन का (प्र यन्धि) दान कर । (शिप्रिन्) हे सुन्दर नासिका और ठोढ़ी वाले (इन्द्र) इन्द्र ! (अस्मे) हमारे (शतं शरदः जीवसे) सौ वर्ष जीने का (अस्मे) हमारे लिये (शश्वतः) सदा वर्तमान (वीरान्) वीरों को (धाः) धारण कर । [इस दसवें मन्त्र के घोर आङ्गिरस ऋषि और शेष सूक्त के विश्वामित्र ऋषि हैं] ॥

७—पिवा वर्धस्व तव धा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे । यथापिबः पूर्यां इन्द्र सोमां एवा पाहि पन्यो अद्या नवीयान्—ऋ० ३ । ३६ । ३ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (पिब वर्धस्व) पी और बढ़, (प्रथमाः) पहिले (उत इमे) और यह [अद्य] (सुतासः) निचाड़े हुये (सोमासः) सोमरस [ऐश्वर्य करने वाले सोमलता आदि तत्त्वरस] (तव ध) तेरे ही हैं । (इन्द्र) हे इन्द्र ! (यथा) जैसे (पूर्यान्) पूर्व जनों के सिद्ध किये हुये (सोमान्) सोमां [तत्त्वरसों] को (अपिबः) तूने पिया है, (एव) वैसे ही (पन्यः) प्रशंसनीय और (नवीयान्) नवीनतर [अधिक बल वाला] तू (अद्य) आज (पाहि) [उनकी] रक्षा कर ॥

कारिडका ४ ॥

अथाध्वर्यो शर्मामोमिति, स्तोत्रियानुरूपाय प्रगाथायोक्थमुखाय परिधानीयाया इति पञ्चकृत्व आह्वयन्ते । पञ्चपदा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञः । सर्वे ऐन्द्राणि त्रैण्डुभानि शंसन्ति । ऐन्द्रं हि त्रैण्डुभं माध्यन्दिनथं सवनम् । सर्वे

समवतीभिः परिदधति, तद्यत् समवतीभिः परिदधति । अन्तो वै पर्यासोऽन्त उदर्कः, अन्तेनैवान्तं परिदधति । सर्वे मद्धतीभिर्यजन्ति, तद्यत् मद्धतीभिर्यजन्ति । सर्वे सुतवतीभिः पीतवतीभिरभिरूपाभिर्यजन्ति । यद्यज्ञेऽभिरूपं, तत् समृद्धम् । सर्वेऽनुवषट् कुर्वन्ति, स्विष्टकृत्वा अनुवषट्कारी नेत् स्विष्टकृतमन्तरयामेति । अन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनम् । तस्य पञ्च दिशः, पञ्चोक्थानि माध्यन्दिनस्य सवनस्य । स एतैः पञ्चभिरुक्थैरेताः पञ्च दिश आश्रोत्येताः पञ्च दिश आश्रोति ॥ ४ ॥

**कण्डिका ४ ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में (शंसावोम्)
मन्त्र को पांच बार बोलें ॥**

(अथ अध्वर्यो शंसावोम् इति, स्तोत्रियाय, अनुरूपाय, प्रगाथाय, उक्थ-
मुखाय, परिधानीयायै इति, पञ्चकृत्वः आह्वयन्ते) फिर (अध्वर्यो शंसावओम्)
हे अध्वर्यो ! हम दोनों स्तुति करें, हां—इस मन्त्र से स्तोत्रिय [स्तुति योग्य
व्यवहार] के लिये, अनुरूप [विषय की अनुकूलता] के लिये, प्रगाथ [उत्तम
गान] के लिये, उक्थमुख [यज्ञ की मुख्यता] के लिये और परिधानीया
[समाप्ति क्रिया] के लिये—इस प्रकार पांच बार वे बोलते हैं । (पञ्चपदा
पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञः) पांच पाद वाला [अथवा पांच दिशाओं में व्यापक]
पङ्क्ति [छन्द विशेष, अथवा विस्तार शक्ति प्रकृति] है, पङ्क्ति [विस्तार]
वाला यज्ञ है । (सर्वे ऐन्द्राणि त्रैष्टुभानि शंसन्ति) सब ऋत्विज इन्द्र देवता
वाले और त्रिष्टुप् छन्द वाले स्तोत्रों को बोलते हैं । (ऐन्द्रं हि त्रैष्टुभ माध्य-
न्दिनं सवनम्) क्योंकि इन्द्र देवता वाला और त्रिष्टुप् छन्द वाला माध्यन्दिन
सवन है । (सर्वे समवतीभिः परिदधति, यत् तत् समवतीभिः परिदधति) वे
सब समवती ऋचाओं से [सम शब्द वाली ऋचाओं से जैसे—समं ज्योतिः
सूर्येण.....अथर्व० ४ । १८ । १, इत्यादि मन्त्रों से] समाप्त करते हैं क्योंकि
वहां समवती ऋचाओं से वे समाप्त करते हैं । (अन्तः वै पर्यासः अन्तः उदर्कः,
अन्तेन एव अन्तं परिदधति) अन्त ही पर्यास [विराम] है, अन्त ही उदर्क
[अवसान वा विच्छेद अर्थात् रोक] है, अन्त के साथ ही अन्त को वे समाप्त
करते हैं [एक एक विषय पर रुक कर दूसरे को आरम्भ करके पूरा करते हैं] ।

४—(पञ्चकृत्वः) पञ्चवारम् (पङ्क्तिः) पञ्च विस्तारे व्यक्तिकरणे च-
क्तिन् । विस्तारः । गौरवम् । छन्दविशेषः (पाङ्क्तः) गो० उ० ३ । २० ।
विस्तारयुक्तः । अन्यद्गतम्—गो० उ० ३ । १६ ॥

(सर्वे मद्भुवतीभिः यजन्ति, यत् तत् मद्भुवतीभिः यजन्ति) वे सब मद्भुवती [मद् शब्द वाली] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं [याज्या बोलते हैं], क्योंकि वहाँ मद्भुवती ऋचाओं से वे यज्ञ करते हैं । (सर्वे सुतवतीभिः पीतवतीभिः अभिरूपाभिः यजन्ति) वे सब सुतवती [सुत शब्द वाली] ऋचाओं से, पीतवती [पीत शब्द वाली] ऋचाओं से और अभिरूप [विषय के अनुकूल] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं । [मद्भुवती, सुतवती और पीतवती ऋचाओं के लिये देखो ऋ० १ । १६ । ८ । और बहुवचन होने से ब्राह्मण में समस्त इन नौ ऋचा वाले सूक्त का ग्रहण अभीष्ट है । अभिरूप शब्द से यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता की स्तुति में उस देवता के सूचक पद आजावें] । (यत् यज्ञे अभिरूपं, तत् समृद्धम्) जो यज्ञ में विषय के अनुकूल कर्म है, वह समृद्ध [सफल] है । (सर्वे सिवष्टकृत्वा अनुवषट् कुर्वन्ति) सब सिवष्टकृत् मन्त्र [यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचम्...गो० उ० ३ । १] पढ़कर अनुवषट् [समाप्ति सूचक पद] पढ़ते हैं । (अनुवषट्कारः सिवष्टकृतम् नेत् अन्तरयाम इति) अनुवषट्कार सिवष्टकृत् मन्त्र को कभी भी बीच [व्यवधान] से नहीं करता । (अन्तरिक्षलोकः माध्यन्दिनं सवनम्) अन्तरिक्षलोक ही माध्यन्दिन सवन है । (तस्य पञ्च दिशः, माध्यन्दिनस्य सवनस्य पञ्च उक्थानि) उस [लोक] की पांच दिशाएँ [पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और एक ऊपर नीचे की दिशा] हैं माध्यन्दिन सवन के पांच उक्थ [समवती, मद्भुवती सुतवती, पीतवती और अभिरूपा ऋचाओं वाले स्तोत्र] हैं । (स एतै पंचमिः उक्थैः एताः पंच दिशः आप्नोति, एताः पंच दिशः आप्नोति) वह [यजमान] इन पांच प्रकार वाले स्तोत्रों से इन पांच दिशाओं को पाता है इन पांच दिशाओं को पाता है [अर्थात् अवश्य पाता है] ॥ ४ ॥

भावार्थ—विद्वान् मनुष्य अपनी कर्मकुशलता से सब दिशाओं में सिद्धि पाता है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को मिलाओ गो० उ० ३ । १६ । तथा गो० उ० ४ । १८ और ऐतरेय ब्राह्मण ३ । १२ । और प्रतीक वाले मन्त्रों को गो० उ० ३ । १६ टिप्पणी २ में देखो ॥

कण्डिका ५ ॥

अथ यदौपासनं तृतीयसवन उपास्यन्ते, पितृनेव तेन प्रीणानि । उपांशु पालीवतस्याग्नीध्रो यजति, रेतो वै पालीवतः, उपांशिवव वै रेतः सिच्यते, तन्ना-

नुवषट्करोति, नेद्रेतः सिकं संस्थापयामीति, असंस्थितमिव वै रेतः सिकं समृद्धम् । संस्था वा एषा, यदनुवषट्कारः । तस्मान्नानुवषट् करोति । नेष्टुरूपस्थे धिष्यन्ते वासीनो भक्षयन्ति, पत्नीभाजनं वै नेष्टा, अग्नीत् पत्नीषु रेतो घत्ते, रेतसः सिकाः प्रजाः प्रजायन्ते प्रजानां प्रजननाय । प्रजावान् प्रजर्नायिष्युर्भवति प्रजात्यै । प्रजायते प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ एकाह यज्ञ के तृतीय सवन में पालीवत स्तोत्र को आग्नीध्र का चुपके चुपके जपने का कारण ॥

(अथ यत् औपासनं तृतीयसवने उपास्यन्ते, पितृन् एव तेन प्रीणाति) फिर जो उपासना वाले स्तोत्र को तीसरे सवन में वे [ऋत्विज लोग] सेवन करते हैं, पितरों [पालन करने वाले विद्वानों] को ही उस से वह [यजमान] तृप्त करता है । (पालीवतस्य उपांशु आग्नीध्रः यजति) पालीवत [पत्नी शब्द वाले स्तोत्र] के उपांशु [शब्द बिना किये जप से] आग्नीध्र [अग्नि प्रकाशक ऋत्विज] यज्ञ करता है । (रेतः वै पालीवतः, उपांशु इव वै रेतः सिच्यते, तत् न अनुवषट् करोति) वीर्य [के सामान] ही पालीवत [पत्नी शब्द वाला स्तोत्र] है, बिना शब्द किये [बिना घबराहट] ही वीर्य सींचा जाता है, इस लिये वह अनुवषट् नहीं करता । (सिकं रेतः नेत् संस्थापयामि इति, असंस्थितम् इव वै सिकं रेतः समृद्धम्) सिंचते हुये वीर्य को मैं नहीं रोकता हूँ [ऐसा वह विचारता है], बिना रुका हुआ ही सींचा हुआ वीर्य सफल होता है । (संस्था वै एषा, यत् अनुवषट्कारः) यह रुकावट है जो अनुवषट्कार है । (तस्मात् न अनुवषट् करोति) इस लिये वह अनुवषट् नहीं करता है । (नेष्टुः उपस्थे धिष्यन्ते वा आसीनः भक्षयन्ति = भक्षयति) नेष्टा [ऋत्विज] के समीप अथवा धिष्य [नाम वाली अग्नि] के समीप बैठा हुआ वह [आग्नीध्र] भोजन करता है । (पत्नीभाजनं वै नेष्टा, अग्नीत् पत्नीषु रेतः घत्ते) पत्नियों

५—(औपासनम्) उपासना—अण् । उपासनायुक्तं स्तोत्रम् (उपास्यन्ते) आर्षं दिवादित्वम् । उपासते । सेवन्ते (उपांशु) निर्जने । निजश्रवणयोग्येन जपेन (पालीवतः) पत्नीवत्—अण् । पत्नीशब्देन युक्तं स्तोत्रम् (रेतः), वीर्यम् (नेता) नैव (संस्थापयामि) संस्थितं करोमि । निनिरुणधिम् (असंस्थितम्) अनुपरतम् (समृद्धम्) सफलम् (संस्था) स्थितिः । निवृत्तिः (उपस्थे) समीपे (पत्नीभाजनम्) पत्नीनां स्थानवान् (अग्नीत्) अग्निप्रज्वालनस्य मन्त्रेः

का स्थान ही नेत्रा है, अग्नीत् [अग्नि प्रज्वालन मन्त्र वा विचार] पत्नियों में वीर्य स्थापित करता है । (रेतसः सिक्ताः प्रजाः प्रजानां प्रजननाय प्रजायन्ते) वीर्य से सिचें हुये प्रजायें प्रजाओं की उत्पत्ति के लिये उत्पन्न होती हैं । (प्रजनयिष्णुः प्रजावान् प्रजात्यै भवति) सन्तान उत्पन्न करने वाला पुरुष सन्तानोत्पत्ति के लिये सन्तान वाला होता है । (प्रजया पशुभिः प्रजायते यः एवं वेद) सन्तान से और पशुओं से वह बढ़ता जो ऐसा जानता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्य विचार पूर्वक उत्तम सन्तान उत्पन्न कर के वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध पितरों को सेवा से तृप्त करे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को मिलाओ, ऐ० ब्रा० ६ । ३ अन्तिम भाग ॥

कण्डिका ६ ॥

अथ शाकलां जुहति । तद्यथाहिर्जीर्णायिस्त्वचो निर्मुच्येत इषीका वा मुञ्जात्, एवं हैवेते सर्वस्मात्पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते, ये शाकलां जुहति । द्रोणकलशे धाना भवन्ति, तासां हस्तैरादधति । पशवो वै धानाः, ता आहवनीयस्य भस्मान्ते निर्वपन्ति । योनिर्वै पशूनामाहवनोयः, स्व एवैनंस्तद्गोष्ठे निरपक्रमे निदधति । अथ स व्यावृत्तोऽप्सु सोमानाप्याययन्ति, तान् ह अन्तर्वेद्यां सादयन्ति, तद्धि सोमस्यायतनम् । चात्वालादपरेणाध्वर्युश्चमसानद्धिः पूरयित्वादीचः प्रणिधाय हरितानि तृणानि व्यवदधति । यदा वा आपश्चौपधयश्च सङ्गच्छन्ते, अथ कृत्स्नः सोमः सम्पद्यते । ता वैष्णव्यर्चा निनयन्ति । यज्ञो वै विष्णुः, यज्ञमेवैनमन्ततः प्रतिष्ठापयति । अथ यद्भक्षः प्रतिनिधिं कुर्वन्ति, मानुषैरैवैनं तद्भक्षेण देवं भक्षमन्तर्दधति ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ तृतीय सवन में शाकला इष्टि ॥

(अथ शाकलां जुहति) फिर शाकला [शक्ति वाली इष्टि] को वे [याजक] करते हैं । (तत् यथा अहिः जीर्णायः त्वचः वा इषीका मुञ्जात् निर्मुच्येत, एवं ह एव एते सर्वस्मात् पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते, ये शाकलां जुहति) सो जैसे सांप पुरानी केंचुरी से अथवा सरकण्डा मूँज [के छिलका] से छुट जाता

विचारो वा (प्रजनयिष्णुः) शैश्वन्दसि । पा० ३ । २ । १३७ । प्रजनयतेः—इष्णुच् । प्रजनयिता । जनकः (प्रजात्यै) सन्तानोत्पत्तये ॥

६—(शाकलाम्) शक्तिशम्योर्नित् । उ० १ । ११२ । शकल शक्तौ—कलप्रत्ययो नित्, शकल—अण्, टाप् । शकलेन सामर्थ्येन युक्ताम् इष्टिम् (अहिः)

है, ऐसे ही वे लोग सब पाप से सर्वथा छुट जाते हैं, जो शाकला [शक्ति वाली इष्ट] को करते हैं । (द्रोणकलशे धानाः भवन्ति, तासां हस्तैः आदधति) द्रोण कलश [काठ के घड़े] में भुंजे जौ होते हैं, उन को हाथों से लेकर वे धरते हैं । (पशवः वै धानाः, ताः आहवनीयस्य भस्मान्ते निर्वपन्ति) पशुओं [के समान] ही भुंजे जौ हैं, उन को आहवनीय [अग्नि] के भस्म निकलने पर वे छोड़ते हैं । (पशूनां योनिः वै आहवनीयः, स्वे निरपक्रमे गोष्ठे एव एनन् [एनान्] तत् निदधति) पशुओं के घर [के समान] ही आहवनीय अग्नि है, भागने के मार्ग रहित अपनी गोशाला में इन [पशुओं] को तब वे बांधते हैं । (अथ सः [ते] व्यावृतः अप्सु सोमान् आप्यायन्ति, तान् ह अन्तर्वेद्यां सादयन्ति, तत् हि सोमस्य आयतनम्) फिर वे लोग निवृत्त हो कर जल में सोमों [ओषधियों] को बढ़ाते हैं, और उन को भीतर की वेदी पर रखते हैं, वह ही सोम का घर है । (अध्वर्युः चात्वालात् अपरेण चमसान् अद्भिः पूरयित्वा उदीचः प्रणिधाय हरितानि तृणानि व्यवदधति) अध्वर्यु चात्वाल [यज्ञकुण्ड] से दूसरे [ऋत्विज] के साथ पात्रों को जल से भरवा कर उत्तर वाले स्थान में रख कर हरी घासों को बीच में रखता है । (यदा वै आपः च ओषधयः च सङ्गच्छन्ते, अथ कृस्मः सोमः सम्पद्यते) जब ही जल और ओषधियां मिल जाते हैं, तब सब सोम [ओषधियों का रस] प्राप्त होता है । (ताः वैष्णव्या ऋचा निनयन्ति) उस [जल] को विष्णु देवता वाली ऋचा से नितार देते हैं । (यज्ञः वै विष्णुः, यज्ञम् एव एनम् अन्ततः प्रतिष्ठापयति) यज्ञ ही विष्णु [व्यापक पदार्थ] है, यज्ञ को ही इस सोम रस] में अन्त में वह स्थापित करता है । (अथ यत् भक्षः प्रतिनिधिं कुर्वन्ति, मानुषेण एव भक्षेण तत् एनं दैवं भक्षम् अन्तर्दधति) फिर

सर्पः (इषीका) ईषेः किदूध्रस्वश्च । उ० ४ । २१ । ईष गतौ—ईकन्, टाप्, ह्रस्वश्च । मुञ्जशलाका (पाप्मनः) पापात् (द्रोणकलशे) द्रोणं द्रुममयम्— निरु० ५ । २६ । काष्ठमये कलशे (धानाः) धापृवस्यज्यतिभ्यो नः । उ० ३ । ६ । दधातेः—न, टाप् । भृष्टयवाः (योनिः) गृहम्—निघ० ३ । ४ । (एनन्) एनान् । पशून् (निरपक्रमे) पलायनमार्गरहिते (व्यावृतः) निवृत्तः (सादयन्ति) स्थापयन्ति (चात्वालात्) यज्ञकुण्डात् (चमसान्) पात्राणि (व्यवदधति) दध धारणे—लट् । व्यवधानेन स्थापयति (वैष्णव्या) विष्णु देवताकया (भक्षः) भक्ष अदने—घञ् । भक्षणीयं पदार्थम् (प्रतिनिधिम्) प्रतिरूपं स्थानिनम् (मानुषेण) मनुष्ययोग्येन ॥

जब भोजन को प्रतिनिधि [सोम का स्थानी] वे करते हैं, मनुष्यों के योग्य भोजन के साथ ही तब इस दिव्य भोजन [सोम] को भीतर धरते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अपनी शक्ति को काम में लाते हैं, वे ही कष्टों को हटाकर सोम रस [अमृत रस वा तत्त्व रस] पाते हैं ॥ ६ ॥

कण्डिका ७ ॥

पूतिर्वा एषोऽमुष्मिंलोकेऽध्वर्युश्च यजमानश्चाभिवहति, तद्यदेनं दधानमि-
हुत्यावभृथमुपहरेयुः । यथा कुणपं वाति, एवमेवैनं तत् करोति । अथ यदेनं
दधानमिहुत्यावभृथमुपहर्न्ति, सर्वमेवैनं सयोनिं सन्तनुते, समृद्धिं सम्भरन्ति ।
अभूदेवः सविता वन्धो न इति जुहोति, सर्वमेवैनं सपर्वाणं सम्भरन्ति । तिसृ-
भिस्त्रिवृद्भिर्यज्ञो द्रप्सवतीभिरभिजुहोति, सर्वमेवैनं सर्वाङ्गं सम्भरति । सौमी-
भिरभिजुहोति, सर्वमेवैनं स आत्मानं भरति । पञ्चभिरभिजुहोति, पाङ्क्तो यज्ञः,
यज्ञमेवावरुन्धे । पाङ्क्तः पुरुषः, पुरुषमेवाप्नोति । पाङ्क्ताः पशवः, पशुध्वेव
प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ अध्वर्यु और यजमान की शुद्धि और

अवभृथ स्नान ॥

(एषो पूतिः वै अमुष्मिन् लोके अध्वर्युं च यजमानं च अभिवहति, तत्
यत् एनं दधा अनमिहुत्य अवभृथम् उपहरेयुः) यह ही शुद्धि निश्चय करके उस
[स्वर्ग] लोक में अध्वर्यु और यजमान को सर्वथा ले जाती है, सो जब इस
[यजमान] को, दधि [नामवाली हवि] से हवन न करके, अवभृथ [यज्ञान्त-
स्नान शाला] में ले जावें । (यथा कुणपं वाति, एवम् एव एनं तत् करोति)
जैसे उपकारी पुरुष को मनुष्य प्राप्त होता है, वैसे ही इस [यजमान] को वह
[स्नान, उपकार] करता है । (अथ यत् एनं दधा अनमिहुत्य अवभृथम् उपह-
रन्ति, सयोनिं सर्वम् एव एनं सन्तनुते, समृद्धिं सम्भरन्ति) फिर जब इस
[यजमान] को, दधि [नाम वाली हवि] से हवन न करके, अवभृथ [यज्ञान्त

७—(पूतिः) पूज् शोधने—क्तिन् । शुद्धिः । पवित्रव्यवहारः (एषो) एषा
उ । एषा एव (अभिवहति) सर्वतो नयति (दधा) दधिनामकेन हविषा (अव-
भृथम्) अवे भृजः । उ० २ । ३ । अव + डुभृज् धारणपोषणयोः—कथन् । यज्ञा-
न्तस्नानम् (कुणपम्) कणोः सम्प्रसारणश्च । उ० ३ । १४३ । कुण शब्दोपकरणयोः—
कपन् । उपकारिणम् (वाति) गच्छति । प्राप्नोति (सयोनिम्) सगृहम् (सम्भ-

स्नान शाला] में वे ले जाते हैं, घर सहित सब ही इस [यजमान] को वह [अध्वर्य] यथावत् बढ़ाता है और समृद्धि [सम्पत्ति] को यथावत् पुष्ट करता है । (अभूद् देवः सविता वन्द्यो नू नः इति जुहोति, सपर्वाणं सर्वम् एव एनं सम्भरन्ति) अभूद् देवः सविता वन्द्यो नू नः..... इस वेद मन्त्र से वह हवन करता है, और जाड़ों सहित सब ही इस [यजमान] को वह यथावत् पुष्ट करता है । (तिसृभिः त्रिवृद्भिः द्रप्सवतीभिः अभि जुहोति, सर्वाङ्गं सर्वम् एव एनं सम्भरति) तीन तीन बार वर्तमान द्रप्सवतियों से [द्रप्स शब्द वाली ऋचाओं से, जैसे—द्रप्सश्चस्कन्द इत्यादि,—ऋ० १० । १७ । ११—१२] वह सर्वथा हवन करता है, अङ्गों सहित सब ही इस [यजमान] को वह यथावत् पुष्ट करता है । (सौमीभिः अभिजुहोति, स आत्मानं सर्वम् एव एनं भरति) सौमियों से [सोम देवता वाली ऋचाओं से, जैसे—त्वं सोम प्रचिक्रितो इत्यादि ऋ० १ । ६१ । १—२३] सब प्रकार हवन करता है, आत्मा [आत्मबल, पुरुषार्थ] सहित सब ही इस [यजमान] को वह पुष्ट करता है । (पञ्चभिः अभिजुहोति, पाङ्क्तः यज्ञः, यज्ञम् एव अवरुन्धे) पांच [उन १—२३ मन्त्रों में से पांच ऋचाओं] से वह सब प्रकार हवन करता है, पाङ्क्त [पङ्क्ति, विस्तार वाला] यज्ञ है, यज्ञ को ही वह प्राप्त होता है । (पाङ्क्तः पुरुषः, पुरुषम् एव आप्नोति) पाङ्क्तः [पङ्क्ति, विस्तार वाला] पुरुष है, पुरुष को ही वह पाता है । (पाङ्क्ताः पशवः, पशुषु एव प्रतितिष्ठति) पाङ्क्त [पङ्क्ति, विस्तार वाले] पशु हैं, पशुओं में ही वह प्रतिष्ठा पाता है । (प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति, यः एवं वेद) प्रजा से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐसा जानता है ॥७॥

भावार्थ—मनुष्य आत्मशुद्धि अर्थात् निष्कपट आचरण से कुटुम्बियों और सेना आदि प्रजाओं और गौ घोड़े आदि पशुओं को बढ़ाकर संसार में प्रतिष्ठा पावे । [पाङ्क्त शब्द का अर्थ पङ्क्ति, पांच वा विस्तार वाला है] ॥७॥

टिप्पणी—प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता है । अन्य सङ्केतित मन्त्र वेद में देखो ॥

१—अभूद् देवः सविता वन्द्यो नू न इदानीमह उपवाच्ये नृभिः ।

रन्ति) सम्यक् पोषयति (सविता) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः (नू) आर्षो दीर्घः । नू । क्षिप्रम् (सपर्वाणम्) शरीरग्रन्थिभिः सहितम् (द्रप्सवतीभिः) द्रप्सशब्द-युक्ताभिः (सौमीभिः) सोमदेवताकाभिः (स आत्मानम्) आत्मबलेन पुरुषार्थेन सहितम् (अवरुन्धे) प्राप्नोति ॥

वि यो रत्ना भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठं नो अत्र द्रविणं यथा दधत्--ऋ० ४ । ५४ ।
 १ ॥ (देवः) दिव्य गुण वाला (सविता) सविता [सर्वप्रेरक परम त्मा] (नु)
 शीघ्र (अहः) दिन के (इदानीम्) इस समय (नः) हमारा (बन्धः) बन्धना
 योग्य और (नृभिः) नेता मनुष्यों से (उपवाच्यः) सादर कहने योग्य (अभूत्)
 है, (यः) जो [सविता परमात्मा] (मानवेभ्यः) मननशीलों के लिये (रत्ना)
 रत्ना [रमणीय धनों] को (यथा) जैसे (वि भजति) बांटता है, [वैसे ही]
 वह [परमात्मा] (नः) हम को (अत्र) यहां (श्रेष्ठं द्रविणम्) श्रेष्ठ धन वा
 यश (दधत्) देवे ॥

करिडका ८ ॥

अग्निर्वाव यम इयं यमी । कुसीदं वा एतद्यमस्य यजमान आदत्ते, यदौ-
 षधीभिर्वेदिं स्तृणाति । तां यदनुपोष्य प्रयायात्, यातयेरन्नेनमेऽमुष्मिंल्लोके यमे
 यत् कुसीदमयमित्यमप्रतीतमिति वेदिमुपोषन्ती हैव सन्यमङ्कुसीदं निरवदाय
 अनृणो भूत्वा स्वर्गं लोकमेति । विश्वलोपविश्वदावस्य त्वा सं जुहामीत्याह,
 हाताद्वा यजमानस्यापराभावाय यदु मिश्रमिव चरन्त्यञ्जलिना सक्रून् प्रदाव्ये
 जुहुयात् । एष ह वा अग्निर्वेश्वानरो यत् प्रदातव्यः, स्वस्यामेवैनं त्रधोन्त्यां साद-
 यति ॥ ८ ॥

करिडका ८ ॥ वेदी पर ओषधी स्थापन और सक्तुओं से होम ॥

(अग्निः वाव यमः इयं यमी) अग्नि निश्चय करके यम [जोड़िया भाई के
 समान] और यह [वेदी] यमी [जोड़िया बहिन के समान] है । (यजमानः
 यमस्य एतत् वै कुसीदम् आदत्ते, यत् आपधीभिः वेदिं स्तृणाति) यजमान यम
 [अग्नि] का यह व्याज वाला ऋण ही लेता है, जो ओषधियों [हव्य पदार्थों]
 से वेदी को ढकता है । (यत् ताम् अनुपोष्य प्रयायात्, एनम् ए अमुष्मिन् यमे
 लोके यातयेरन्, यत् कुसीदमयम् इति अमप्रतीतम् इति वेदिम् उपोषन्ति, इह
 एव सन्यमन् कुसीदं निरवदाय अनृणः भूत्वः स्वर्गं लोकम् एति) जो उस
 [वेदी] को उष्ण न करके वह [यजमान] चला जावे, उस [यजमान] को ही
 उस यमलोक में ताड़ना करें, जो व्याज वाला ऋण है वह रोग के क्षान्त से युक्त

८—(यमः) यम परिवेषणे—अच् । एकगर्भजायमानो यमजो भ्राता
 (इयम्) वेदिः (यमी) यम—ङीष् । एकगर्भजायमाना यमजा भगिनी (कुसी-
 दम्) कुसंरुभामेदेताः । ७० ४ । १०६ । कुस श्लेषणे—ईदप्रत्ययः । वृद्धिजीवि-

है—ऐसा विचार कर वेदी को वे उष्ण करते हैं, यहाँ ही संयम [इन्द्रियनिग्रह] करता हुआ व्याज वाले ऋण को चुकाकर बिना ऋण होकर वह [यजमान] स्वर्ग लोक पाता है । (विश्वलोप विश्वदावस्य त्वा सं जुहोमि—इति ग्राह) हे विश्व के नाश करने वाले [अग्नि !] तुझ विश्वतापक को मैं अच्छे प्रकार होमता हूँ—यह [ब्राह्मण वचन] वह बोलता है । (होता अद्धा यजमानस्य अपराभावाय, यत् उ मिश्रम् इव चरन्ति, अञ्जलिना सक्तून प्रदाव्ये जुहुयात्) होता साक्षात् यजमान के जिताने के लिये है, जो मिश्र [मिले हुये अन्न] को वे चरु [हव्य पदार्थ] बनावें, अञ्जलि से [दोनों हाथ मिलाये हुये] सक्तु [भुंजे हुये जौ आदि चूर्ण] को तपाने में कुशल [अग्नि] में हवन करे । (एषः ह वै वैश्वानरः अग्निः यत् प्रदातव्यः, तत् स्वस्याम् एव योन्याम् एनं सादयति) यह ही वैश्वानर [सब नरों का हितकारी] अग्नि है, जो तपाने में कुशल है, तब वह [अग्नि] अपने ही घर में इस [यजमान] को स्थापित करता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—जैसे यज्ञ में आहुति देने से अग्नि तृप्त होकर यजमान को स्वर्ग लोक में पहुँचाता है, वैसे ही अन्न के भोजन से जाठराग्नि तृप्त होकर प्राणी को पुष्ट करता है ॥ ८ ॥

कासहितम् ऋणम् (आदत्ते) गृह्णाति (अनुपोष्य) अन् + उप + उष दाहे—
ल्यप् । अद्ग्ध्वा (प्रयायात्) प्रगच्छेत् (यातयेरन्) यत् ताडने—वि० लि० ।
हन्युः । ताडनां पीडां कुर्युः (ए) एव (कुसीदमयम्) ऋणमयं कर्म (अमप्र-
तीतम्) अम रोगे—घञ् + प्रति + इण् गतौ—क्त । रोगप्रतीतियुक्तम् (उपोषन्ती)
उपेत्य दहन्ति (सन्धमन्) सम् + यम नियमने—शतृ । संयमयन् । संयममिन्द्रि-
यनिग्रहं कुर्वन् (निरवदाय) निर् + अव + दो अवखण्डने—ल्यप् । शोधयित्वा
(विश्वलोप) विश्वस्य संसारस्य लोपो नाशो यस्मात् तत् सम्बुद्धौ (विश्वदा-
वस्य) दुन्योरनुपसर्गे । पा० ३ । १ । १४२ । दु उपतापे—णः । सर्वोपतापकम्
(अद्धा) साक्षात् । अवधारणेन (अपराभावाय) अपराभावाय । अपराजयाय
(मिश्रम्) मिश्रितमन्नम् (चरन्ति) चरुं हव्यान्नं कुर्वन्ति (सक्तून) सितनि-
गमिमसिसस्यवि० । उ० १ । ६६ । षच सेचने—तुन् । भृष्टयवादिचूर्णम् ।
(प्रदाव्ये) तत्र साधुः । पा० ४ । ४ । ६८ । प्रदाव—यत् । प्रकर्षेण दाहकुशले
अग्ना (वैश्वानरः) सर्वनरहितः (प्रदातव्यः) तकारोपसर्जनः । प्रदाव्यः । प्रदा-
हकुशलः (सादयति) स्थापयति ॥

कण्डिका ६ ॥

अहां विधान्यामेकाष्टकायामपूपञ्चतुःशरावं पक्त्वा प्रातरेतेन कक्षमुपो-
पेत् । यदि दहति पुण्यसमं भवति, यदि न दहति पापसमं भवति । एतेन ह
स्व वा अङ्गिरसः पुरा विज्ञानेन दीर्घसत्रमुपयन्ति । यो ह वा उपद्रष्टारमुपश्रो-
तारमनुख्यातारमेव विद्वान् यजते, समममुष्मिंल्लोक इष्टापूर्त्तेन गच्छते । अग्निर्वा
उपद्रष्टा, वायुर्वा उपश्रोता, आदित्यो वा अनुख्याता, तान्य एवं विद्वान्यजते,
समममुष्मिंल्लोक इष्टापूर्त्तेन गच्छते । यज्ञो नभसस्पतिरित्याह, अग्निर्वै नभस-
स्पतिरग्निमेव तदाह । एतन्नो गोपायेति स त्वं नो नभसस्पतिरित्याह, वायुर्वै
नभसस्पतिर्वायुमेव तदाह । एतन्नो गोपायेति देव संस्फानेत्याह, आदित्यो वै
देवसंस्फानः, आदित्यमेव तदाह । एतन्नो गोपायेत्ययं ते योनिरिति, अरण्यो-
रग्निं समारोपयेत् । तदाहुः, यदरण्योः समारूढो नश्येदुदस्याग्निः सीदेत्,
पुनराधेयः स्यादिति । या ते अग्नेर्यज्ञिया तनूस्तया मे ह्यारोह तया मे ह्याविशायन्ते
यानिरित्यात्मन्गनीन् समारोपयेत् । एष ह वा अग्निर्योनिः, स्वस्यामेवैनं तद्योन्यां
सादयति ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ एकाष्टका इष्टि और दो अरणियों से अग्निसमारोपण ॥

(अहां विधान्याम् एकाष्टकायां चतुःशरावम् अपूपं पक्त्वा प्रातः
कक्षम् उपोपेत्) दिनों [यज्ञदिनों] के विधान करने वाली एकाष्टका में
[सप्तमी आदि तीन तिथियों में से किसी तिथि की इष्टि विशेष में] चार
शरावो में रखे हुये अपूप [पक्वान्न] को पकाकर प्रातःकाल उस से पेट
[वेदी] को ही पुष्ट करे । (यदि दहति पुण्यसमं भवति, यदि न दहति पाप-
समं भवति) जो वह [अग्नि] जलता है, पुण्य सहित कर्म होता है, जो वह
नहीं जलता, पाप सहित कर्म होता है । (एतेन ह वै विज्ञानेन अङ्गिरसः पुरा
दीर्घसत्रम् उपयन्ति स्व) इस ही विज्ञान [सूक्ष्म विचार] से अङ्गिराओं [महा-
विद्वानों] ने पहिल समय में दीर्घसत्र [बहुत समय वाले यज्ञ] को प्राप्त
किया था । (यः ह वै उपद्रष्टारम् उपश्रोतारम् अनुख्यातारम् एव विद्वान्

६—(अह्नाम्) यज्ञदिनानाम् (विधान्याम्) विधानकारिकायाम् (एका-
ष्टकायाम्) इष्यशिभ्यां तकन् । उ० ३ । १४८ । अश भोजने अशू व्यानौ वा—
तकन्, टाप् । सप्तम्यादिदिनत्रयमध्ये एकस्यां तिथौ । इष्टिविशेषे (अपूपम्)
अ+पूय दुर्गन्धे भेदने विशरणे च-पप्रत्ययः । गोधूमादिचूर्णापिष्टकम् (कक्षम्)

यजते, अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेन समं गच्छते) जो ही मनुष्य निश्चय कर के समीप से देखने वाले, समीप से सुनने वाले और लगातार जताने वाले को ही जानता हुआ यज्ञ करता है, उस [स्वर्ग] लोक में इष्टापूर्त से [अग्नि-होत्र, वेदाध्ययन, देवमन्दिर आदि कर्म द्वारा] सर्वथा जाता है । (अग्निः वै उपद्रष्टा, वायुः वै उपश्रोता, आदित्यः वै अनुख्याता, यः तान् एवं विद्वान् यजते, अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेन समं गच्छते) अग्नि ही समीप से देखने वाला, वायु ही समीप से सुनने वाला और सूर्य ही लगातार जताने वाला है, जो पुरुष उन को ऐसा जानता हुआ यज्ञ करता है, उस [स्वर्ग] लोक में इष्टापूर्त से [अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, देवमन्दिर आदि कर्म द्वारा] सर्वथा जाता है । (यज्ञो नभसस्पतिः इति आह, अग्निः वै नभसः पतिः, अग्निम् एव तत् आह) यज्ञो नभसस्पतिः—१, यह मन्त्र वह बोलता है, अग्नि ही आकाश का पालने वाला है, अग्नि को ही तब वह यह कहता है । (एतन्नो गोपाय इति, स त्वं नो नभसस्पतिः इति आह, वायुः वै नभसः पतिः वायुम् एव तत् आह) एतन्नो गोपाय—२, और, स त्वं नो नभसस्पतिः—३, इन दो मन्त्रों को वह बोलता है, वायु ही आकाश का पालने वाला है, वायु को ही वह यह कहता है । (एतन्नो गोपाय इति, देव संस्फान—इति आह, आदित्यः वै देवः संस्फानः, आदित्यम् एव तत् आह) एतन्नो गोपाय—४ और, देव संस्फान—५, यह दो मन्त्र वह बोलता है, सूर्य ही प्रकाशमान और यथावत् बढ़ता हुआ है, सूर्य को ही वह यह कहता है । (एतन्नो गोपाय इति, अयन्ते योनिः इति अरण्योः अग्निम् समारोपयेत्) एतन्नो गोपाय—६ और, अयं ते योनिः—७ इन दो मन्त्रों से दो अरणियों [अग्नि मथने की लकड़ियों] की अग्नि को समारोपित [स्थापित] करे । (तत् आहुः, यत् अरण्योः अन्य समारूढः अग्निः नश्येत् उत्सीदेत्, पुनः आधेयः स्यात् इति) यह कहते हैं—जो दो अरणियों

वेदिकत्तम् (उ) एव (पोषेत्) पोषयेत् (पुण्यसमम्) पुण्येन सहितं कर्म (अङ्गिरसः) विद्वांसः (दीर्घसत्रम्) दीर्घकालिकयज्ञम् (उपयन्ति स्म) प्राप्त-वन्तः (उपद्रष्टारम्) समीपेन अवलोकयितारम् (उपश्रोतारम्) उपश्रवण-शीलम् (अनुख्यातारम्) निरन्तरज्ञापकम् (इष्टापूर्तेन) इष्टेन च पूर्तेन च । अग्निहोत्रवेदाध्ययनदेवमन्दिरादिकर्मणा (समम्) सर्वथा (नभसः) एव बन्धने—असुन्, हस्य भः । नभ आदित्यो भवति—निरु० २ । १४ । सूर्यस्य । आका-शस्य (पतिः) पालयिता (गोपाय) रक्ष (देव) हे प्रकाशमान (संस्फान)

की निकली हुई इस [यजमान] की अग्नि बुझ जावे [अथवा वायु आदि से] उड़कर बिखर जावे, फिर वह अग्न्याधान योग्य होवे । [इस का उत्तर] (या ते अग्नेर्यज्ञिया तनूस्तया मे ह्यारोह तया मे हि आविश, अयं ते योनिः इति आत्मन् अग्नीन् समारोपयेत्) या ते अग्नेर्यज्ञिया तनूः ... = और, अयन्ते योनिः —६, इन दो मन्त्रों से आत्मा में अग्नियों को समारोपित करे [अर्थात् भौतिक यज्ञ न करे किन्तु मन्त्रों से आत्मिक यज्ञ करे] । (एषः ह वै अग्निः योनिः, तत् स्वस्याम् एव योन्याम् एनं सादयति) यह ही अग्नि [आत्मिक अग्नि, इस यजमान का] घर है, तब वह [अग्नि] अपने ही घर में इस [यजमान] को स्थापित करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—यज्ञ प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करने से सफल होता है । यदि अग्नि बुझ जावे, तो मन्त्रों से आत्मिक यज्ञ करना चाहिये ॥ ६ ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—अयं नो नभसस्पतिः सुंस्फानो अभि रक्षतु । असमातिं गृहेषु^१ नः—अथर्व० ६ । ७६ । १ ॥ (अयम्) यह (नभसः) सूर्य [वा आकाश] का (पतिः) स्वामी परमेश्वर (संस्फानः) यथावत् बढ़ता हुआ (नः) हमारे लिये (नः) हमारे (गृहेषु) घरों में (असमातिम्) असामान्य [विशेष] लक्ष्मी वा बुद्धि को (अभि) सब ओर से (रक्षतु) रक्खे [यह मन्त्र इस ब्राह्मण में कुछ भेद से है] ॥

२—एतन्नो गोपाय—यह ब्राह्मण वचन है ॥

३—त्वं नो नभसस्पतु ऊर्जं^१ गृहेषु^१ धारय । आ पुष्टमेत्वा वसु^१—अथर्व० ६ । ७६ । २ ॥ (नभसः पते) हे सूर्य [वा आकाश] के स्वामी ! (त्वम्) तू (नः) हमारे (गृहेषु) घरों में (ऊर्जम्) बल बढ़ाने वाला अन्न (धारय) धारण कर । (पुष्टम्) पुष्टि (आ) और (वसु) धन (आ एतु) चला आवे [यह मन्त्र इस ब्राह्मण में कुछ भेद से है] ॥

४—एतन्नो गोपाय—संख्या २ ऊपर देखो ॥

सम्+स्फायी वृद्धौ—क । छान्दसं रूपम् । हे सम्यक् स्फीत । प्रवृद्ध (अरण्योः) अर्तिस्वधृ० । उ० २ । १०२ । ऋ गतौ—अनि । अग्निमन्थनकाष्ठद्वयोः (समारोपयेत्) स्थापयेत् (उत्सीदेत्) वायुना उद्गृत्य विशीर्णा भवेत् (आधेयः) अग्न्याधानेन स्थापनीयः (अग्नेः) हे अग्ने (यज्ञिया) यज्ञयोग्या (तनूः) विस्तृतिः । शरीरम् ॥

५—देव संस्फान सहस्रापोषस्येशिषे । तस्य नो गस्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवांसः स्याम—अथ० ६ । ७६ । ३ ॥ (संस्फान) हे सब प्रकार चृद्धि वाले (देव) प्रकाश स्वरूप परमात्मन् ! (सहस्रापोषस्य) सहस्र प्रकार के पोषण का (ईशिषे) तू स्वामी है । (तस्य) उस [पोषण] का (नः) हमें (रास्व) दान कर, (तस्य) उस का (नः) हमारे लिये (धेहि) धारण कर, (तस्य ते) उस तेरी (भक्तिवांसः) भक्ति वाले (स्याम) हम होवें ॥

६—एतन्नो गोपाय—सख्या २ ऊपर देखो ॥

७—अयं ते योनिः ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नश्न आ रो-
हार्था नो वर्धया रयिम्—अथर्व० ३ । २० । १, ऋग्० ३ । २६ । १० और यजु०
३ । १४ ॥ (अग्ने) हे विद्वान् पुरुष ! (अयम्) यह [सर्व व्यापी परमेश्वर]
(ते) तेरा [ऋत्वियः] सब ऋतुओं में मिलने वाला (योनिः) कारण है,
(यतः) जिस से (जातः) प्रकट होकर (अरोचथाः) तू प्रकाशमान हुआ है,
(तम्) उस [कारण] को (जानन्) पहिचान कर (आ रोह) ऊंचा चढ़,
(अथ) और (नः) हमारे लिये (रयिम्) धन (वर्धय) बढ़ा ॥

८—या ते अग्नेर्यज्ञिया तनूस्तया मे ह्यारोह तथा मे ह्याविश—ब्राह्मण वचन
है ॥ (अग्नेः) हे अग्नि [प्रकाश स्वरूप परमेश्वर] (या ते) जो तेरा (यज्ञिया
तनूः) पूजनीय विस्तार है, (तथा) उस से (मे) मेरे लिये (हि) अवश्य
(आरोह) ऊंचा हो । और (तथा) उस से (मे) मेरे लिये ही अवश्य
(आविश) प्रवेश कर ॥

९—(अयं ते योनिः...) संख्या ७ ऊपर देखो ॥

कण्डिका १० ॥

यो ह वा अग्निष्टोमं साहं वेद, अग्निष्टोमस्य साहस्य सायुज्यं सलोक-
तामश्रुते य एवं वेद, यो ह वा एष तपत्येषोऽग्निष्टोम एष साहः, तं सहैवाहा
संस्थापयेयुः, साहो वै नामैषः, तेनासन्त्वरमाणाश्चरेयुः यद्वा इदं पूर्वयोः सव-
नयोरसन्त्वरमाणाश्चरन्ति, तस्माद् घेदं तं प्राच्यो ग्रामता बहुलाविष्टा । अथ
यद्घेदं तृतीयसवने सन्त्वरमाणाश्चरन्ति, तस्माद्घेदं प्रत्यञ्चेद्दीर्घारणानि भवन्ति ।
यथैव प्रातःसवन एवं माध्यन्दिनसवन एवं तृतीयसवने, एवमु ह यजमानो
ऽप्रमायुको भवति । तेनासन्त्वरमाणाश्चरेयुः । यदा वा एष प्रातरुदेत्यथ मन्द्रतमं
तपति, तस्मान्मन्द्रतमया वाचा प्रातःसवने शंसेत् । अथ यदाभ्येत्यथ बलीयस्त-
पति, तस्माद् बलीयस्या वाचा माध्यन्दिने सवने शंसेत् । अथा यदाभितरामेत्यथ

बलिष्ठतमं तपति, तस्माद् बलिष्ठतमया वाचा तृतीयसवने शंसेत् । एवं शंसेत्, यदि वाच ईशत, वाग् हि शस्त्रं, ययानुवाचोत्तरयोत्तरया उत्सहेत्, आसमापनायतना प्रतिपद्येत । एतत् सुशस्ततरमिव भवति, स वा एष न कदाचनास्तमयति, नोदयति । तद्यदेनं पश्चाद्स्तमयतीति मन्यन्ते, अह्न एव तदन्तं गत्वाथात्मानं विपर्यस्यतेऽहरेवाधस्तात् कृणुते रात्रीं परस्तात् । स वा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति । तद्यदेनं पुरस्तादुदयतीति मन्यन्ते, रात्रेरेव तदन्तं गत्वाथात्मानं विपर्यस्यते रात्रिमेवाधस्तात् कृणुतेऽहः परस्तात् । स वा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति न ह वै कदाचन निस्त्रोचति । एतत्सह सायुज्य सलोकतामश्नुते, य एवं वेद ॥ १० ॥

करिडका १० ॥ अग्निष्टोम सूर्य समान है, तीनों सवनों में मन्त्र बोलने का विधान, सूर्य न कभी उदय और न अस्त होता है, इसका विचार ॥

(यः ह वै साह्नम् अग्निष्टोमं वेद साह्नस्य अग्निष्टोमस्य सायुज्यं सलोकताम् अश्नुते, यः एवं वेद) जो ही मनुष्य दिन सहित [दिन में पूर्ण होने वाले] अग्निष्टोम को जानता है, वह दिन सहित अग्निष्टोम का सहवास और समान लोक पाता है, जो ऐसा जानता है । (यः ह वै एषः तपति, एषः एषः साह्नः अग्निष्टोमः, तम् अह्ना सह संस्थापयेयुः) जो ही यह [दीखता हुआ सूर्य] तपता है, सो ही यह दिन सहित [दिन में पूरा होने वाला] अग्निष्टोम है, [इसलिये] उस [अग्निष्टोम] को दिन ही दिन में पूरा करें । (साह्नः वै नाम एषः, तेन असन्त्वरमाणाः चरेयुः) साह्न [दिन में रहने वाला] ही नाम यह [अग्निष्टोम] है, इस लिये [उस को] बिना शीघ्रता किये हुये [भले प्रकार देखभाल कर] करें । (यत् ह वै इदं पूर्वयोः सवनयोः असन्त्वरमाणाः चरन्ति, तस्मात् ह इदं तं प्राच्यः ग्रामता बहुलाविष्टा) जो ही इस कर्म को पहिले दो सवनों में बिना शीघ्रता किये हुये वे करते हैं, इस लिये ही

१०—(साह्नम्) अह्ना सह वर्तमानम् । एकेन दिनेन सह समापनीयम् (सायुज्यम्) सहवासम् (सलोकताम्) समानलोकत्वम् (एषः) दृश्यमानः सूर्यः (संस्थापयेयुः) समापयेयुः (असन्त्वरमाणाः) त्वरामकुर्वन्तः, सम्यक् पर्यालोचयन्तः (चरेयुः) अनुतिष्ठेयुः (प्राच्यः) प्राची । पूर्वदिग्वर्तिनी (ग्रामता) ग्रामसमूहः (बहुलाविष्टाः) बहुभिर्जनैः सम्पूर्णाः (सन्त्वरमाणाः)

इस से उस [यजमान] के लिये पूर्व देश में रहने वाला ग्राम समूह बहुत जनों से परिपूर्ण होता है । (अथ यत् ह इदं तृतीयसवने सन्त्वरमाणाः चरन्ति, तस्मात् ह इदं प्रत्यञ्चेत्, दीर्घारणानि भवन्ति) फिर जब इस कर्म को तीसरे सवन में शीघ्रता करते हुये वे करें, उस से ही यह कर्म पश्चिम देश में जावे और [वहाँ] बड़े बड़े बन [निर्जन देश] हो जावें । (यथा एव प्रातःसवने, एवं माध्यन्दिने सवने, एवं तृतीयसवने, एवम् उ ह यजमानः अप्रमायुकः भवति) जैसा ही प्रातःसवन में होवे, वैसा ही माध्यन्दिन सवन में और वैसा ही तृतीयसवन में [बिना शीघ्रता किये] होवे, इस प्रकार से ही यजमान बिना अचानक मृत्यु वाला होता है । (तेन असन्त्वरमाणाः चरेयुः) इस लिये बिना शीघ्रता किये हुये वे [ऋत्विज लोग अग्निष्टोम को] करें । (यदा वै एषः प्रातः उदेति, अथ मन्द्रतमं तपति, तस्मात् मन्द्रतमया वाचा प्रातःसवने शंसेत्) जब ही यह [सूर्य] प्रातःकाल निकलता है तब वह मन्द मन्द तपता है, इस लिये अति मन्द वाणी से प्रातःसवन में वह [स्तोत्र] बोले । (अथ यदा अभ्येति अथ बलीयः तपति, तस्मात् बलीयस्या वाचा माध्यन्दिने सवने शंसेत्) फिर जब वह [सूर्य] ऊंचा चढ़ता है तब वह [दोपहर को] अधिक प्रबल तपता है, इस लिये अधिक प्रबल वाणी से माध्यन्दिन सवन में वह [स्तोत्र] बोले । (अथो यदा अभितराम् एति, अथ बलिष्ठतमं तपति, तस्मात् बलिष्ठतमया वाचा तृतीयसवने शंसेत्) फिर जब वह [सूर्य दोपहर पीछे] अत्यन्त ऊंचा चलता है, तब वह अत्यन्त प्रबल तपता है, इस लिये अत्यन्त प्रबल वाणी से तृतीय सवन में वह [स्तोत्र] बोले । (एवं शंसेत्, यदि वाचः ईशत, वाक् हि शस्त्रं, यथा उत्तरया उत्तरया वाचा नु उत्सहेत्, आसमापनायतना प्रतिपद्येत) इस प्रकार से वह बोले कि वह वाणी पर समर्थ हो, क्योंकि वाणी शस्त्र [स्तोत्र] है, जिस बहुत बढ़ती हुई और अधिक ऊंची वाणी से वह उत्साही होवे, और समाप्ति पर्यन्त वह [वाणी] प्राप्त होवे । (एतत् सुशस्ततरम् इव भवति) यह ही कर्म बहुत ही प्रशंसित होता है ।

अतित्वरया सह वर्त्तमानाः (प्रत्यञ्चेत्) पश्चिमदिशि प्राप्नुयात् (दीर्घारणानि) विस्तृतवनानि । जनशून्यस्थानानि (अप्रमायुकः) अपमृत्यु रहितः (मन्द्रतमम्) मन्द्रतमं यथा भवति तथा (अभ्येति) आभिमुख्येनोर्ध्वं गच्छति (बलीयः) प्रबलं यथा भवति तथा (अभितराम्) किमेत्तिङ्ग्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षे । पा० ५ । ४ । ११ अभितर—आम् । पश्चिमाभिमुखानां पुरुषाणामत्यन्ताभिमुख्येन *

(सः वै एषः न कदाचन अस्तम् अयति न उदयति) वह ही यह [सूर्य] न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है । (तत् यत् एनं मन्यन्ते पश्चात् अस्तम् अयति इति) फिर जो इस [सूर्य] को लोग मानते हैं कि वह पश्चिम में अस्त होता है [सो यह बात ठीक नहीं है] । (तत् अह्नः एव अन्तं गत्वा अथ आत्मानं विपर्यस्यते, अहः एव अधस्तात् कृणुते रात्रीं परस्तात्) [क्योंकि] तब वह [सूर्य] दिन के अन्त पर पहुँचकर फिर अपने को विरुद्ध प्रकार से करता है, [अर्थात्] वह [सूर्य] दिन को नीचे [अपने नीचे वा सामने] की ओर बनाता है और रात्रि को [पृथिवी की] दूसरी ओर [बनाता है] ।

(सः वै एषः न कदाचन अस्तम् अयति न उदयति) वह ही यह [सूर्य] न कभी अस्त होता है न उदय होता है । (तत् यत् एनं मन्यन्ते पुरस्तात् उदयति इति) फिर जो उस [सूर्य] को लोग मानते हैं कि वह पूर्व में उदय होता है [सो यह ठीक नहीं है] । (तत् रात्रेः एव अन्तं गत्वा अथ आत्मानं विपर्यस्यते, रात्रिम् एव अधस्तात् कृणुते अहः परस्तात्) [क्योंकि] तब वह [सूर्य] रात्रि के अन्त पर पहुँच कर फिर अपने को विरुद्ध प्रकार से करता है, [अर्थात्] वह [सूर्य] रात्रि को [पृथिवी के] नीचे की ओर बनाता है और दिन को दूसरी ओर [अपने सामने की ओर, बनाता है] । [अर्थात् सूर्य एक सर्वतः प्रकाशमय घूमता हुआ गोला भूगोल से बहुत बड़ा है । भूगोल के घूमने से प्रत्येक समय पृथिवी का जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है, वह दिन होता चला जाता है और जो भाग पीछे रहता जाता है वहाँ रात्री होती जाती है, और सूर्य का गोला सर्वतः प्रकाशमय होने से प्रत्येक समय चमकता रहता है] ।

(बलिष्ठतमम्) अत्यन्तप्रबलम् (वाचः) वाण्याः (ईशत) ईशात । ईश्वरो भवेत् (उत्तरण्या) उ + तृ तरणे—त्युट्, डीप् । उत्कर्षेण वर्धमानया (उत्तरया) उच्चतरया (उत्सहेत्) उत्साहवान् भवेत् (आसमापनायतना) आसमापनात् आयतनं यस्याः सा । समाप्तिपर्यन्तम् आश्रयवती वाक् (प्रतिपद्येत) प्राप्नुयात् (सुशस्ततरम्) अतिशयेन प्रशस्तम् (अस्तम्) अस्यन्ते सूर्यकिरणाः अत्र । हसिमृगिणवामि० । उ० ३ । ८६ । असु क्षेपणे—तन् । अदर्शनम् । पश्चिमाचलम् (अयति) अय गतौ । गच्छति । प्राप्नोति (उदयति) उदेति । ऊर्ध्वं गच्छति (पश्चात्) पश्चिमदिशि (अन्तम्) समाप्तिम् (गत्वा) प्राप्य (अथ)

(सः वै एषः न कदाचन अस्तम् अयति न उदयति) वह ही यह [सूर्य] न कभी अस्त होता है, न कभी उदय होता है । (न ह वै कदाचन निम्नोचति, एतत् सह सायुज्यं सलोकताम् अश्नुते, यः एवं वेद) [इस लिये] वह [यजमान] कभी भी नहीं नीचे जाता है [नहीं अधोगति पाता है] और वह इस [सूर्य] के साथ सहवास और समान लोक [अवस्था] पाता है जो ऐसा जानता है ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्य सूर्य के समान प्रतापी हो कर दिन रात उन्नति का प्रयत्न करे ॥ १० ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ४४ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—(यदि वा तः) के स्थान पर ऐ० ब्रा० से (यदि वाचः) शोध गया है ॥

कण्डिका ११ ॥

अथात एकाहस्यैव तृतीयसवनं, देवाऽसुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त । ते देवा असुरानभ्यजयन् । ते जिता अहोरात्रयोः सन्धिं समभ्यवागुः । स हेन्द्र उवाच, इमे वा असुरा अहोरात्रयोः सन्धिं समभ्यवागुः । कश्चाहञ्चेमानसुरानभ्युत्थास्यामहा इति । अहञ्चेत्यग्निरब्रवीत्, अहञ्चेति वरुणः, अहं चेति वृहस्पतिः, अहं चेति विष्णुः । तानभ्युत्थायाहोरात्रयोः सन्धेर्निर्जघ्नुः । यदभ्युत्थायाहोरात्रयोः सन्धेर्निर्जघ्नुः, तस्मादुत्था अभ्युत्थाय ह वै द्विषन्तं भ्रातृव्यं निर्हन्ति, य एवं वेद । सोऽग्निरश्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय । यदग्निरश्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मादाग्नेयीभिरुक्थानि प्रणयन्ति । यदग्निरश्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात्साकमश्वम् । यत्पञ्च देवता अभ्युत्तस्थुः, तस्मात्पञ्च देवता उक्थे शस्यन्ते । या वाक् सोऽग्निः, यः प्राणः स वरुणः, यन्मनः स इन्द्रः, यच्चक्षुः स वृहस्पतिः, यच्छ्रोत्रं स विष्णुः । एते ह वा एतान् पञ्चभिः प्राणैः समीर्येत्थापयन् । तस्मादु ह एवैताः पञ्च देवता उक्थे शस्यन्ते ॥ ११ ॥

अनन्तरम् (आत्मानम्) स्वात्मानम् (विपर्यस्यते) विपर्यस्तं विरुद्धं प्रतिकूलं करोति (अधस्तात्) अधः स्थाने (परस्तात्) परस्मिन् देशे (पुरस्तात्) पूर्वस्मिन् देशे (निम्नोचति) नि + म्रुचु म्लुचु गतौ—लट् । नीचैर्गच्छति ॥

कण्डिका ११ ॥ आख्यायिका—एकाह यज्ञ के तृतीय सवन में से
सायंकाल में घुसे हुये असुर लोग इन्द्र, अग्नि, वरुण,
वृहस्पति और विष्णु पांच देवताओं अथवा वाक्
आदि पांच इन्द्रियों करके निकाले गये ॥

(अथ अतः एकाहस्य एव तृतीयसवनम्) अथ यहां से एकाह यज्ञ का ही तृतीयसवन [कहा जाता है] । (देवाऽसुराः वै एषु लोकेषु समयतन्त) देव और असुर इन लोकों [शरीर के अङ्गों] में लड़ने लगे । (ते देवाः असुरान् अभ्यजयन्) उन देवताओं ने असुरों को सामने होकर जीत लिया । (ते जिताः अहोरात्रयोः सन्धिं समभ्यवागुः) वे जीते गये [असुर] रात्रि दिन की सन्धि में घुस गये । (सः ह इन्द्रः उवाच, इमे वै असुराः अहोरात्रयोः सन्धिं समभ्यवागुः, कः च अहं च इमान् असुरान् अभि उत्थास्यामहै इति) वह इन्द्र [अर्थात् मन] बोला—यह असुर दिन और रात्रि की सन्धि में घुस गये, कौन और मैं [हम] इन असुरों के सन्मुख होकर खड़े होंगे । (अहं च इति अग्निः अब्रवीत्, अहं च इति वरुणः, अहं च इति वृहस्पतिः, अहं च इति विष्णुः) और मैं—यह अग्नि [वाक्] बोला, और मैं—यह वरुण [प्राण], और मैं—यह वृहस्पति [नेत्र], और मैं—यह विष्णु [कान] [बोला] । (तान् अभ्युत्थाय अहोरात्रयोः सन्धेः निर्जघ्नुः) उन [असुरों] को उन्होंने ने उठकर दिन और रात्रि की सन्धि से निकाल दिया । (यत् अभ्युत्थाय अहोरात्रयोः सन्धेः निर्जघ्नुः, तस्मात् उत्थाः अभ्युत्थाय ह वै द्विषन्तं भ्रातृव्यं निर्हन्ति, यः एवं वेद) जो उन्होंने उठकर दिन और रात्रि की सन्धि से [असुरों को] निकाल दिया, इस लिये उठने वाला [उत्साही पुरुष] सामने उठकर द्वेषी वैरी को मार निकालता है, जो ऐसा जानता है । (सः अग्निः अश्वः भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय) उस अग्नि ने घोड़ा [के समान वेगवान्] होकर पहिले जीत लिया । (यत्

११—(समयतन्त) युद्धाय यत्नं कृतवन्तः (सन्धिम्) संयोगम् (अभि) अभिगत्य (उत्थास्यामहै) उत्थास्यामः (निर्जघ्नुः) निःसारितवन्तः (उत्थाः) गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वञ्च । उ० ४ । २२७ । उत्+ष्ठा गति-निवृत्तौ—असि । उत्थानशीलः । उत्साही (साकम्) सह+अक गतौ—अम्, सहस्य सः । सहगन्ता । सह (अश्वम्) अश्वः (शस्यन्ते) स्तूयन्ते (वरुणः) वरणीयः स्वीकरणीयः पदार्थः (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (वृहस्पतिः) वृहतां

अग्निः अश्वः भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात् आग्नेयीभिः उक्थानि प्रणयन्ति ॥
 जो अग्नि ने घोड़ा होकर पहिले जीत लिया, इस लिये अग्नि देवता वाली
 [ऋचाओं] से उक्थों [स्तोत्रों] को वे बोलते हैं । (यत् अग्निः अश्वः भूत्वा
 प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात् साकम् अश्वम्) जो अग्नि ने अश्व [घोड़ा] होकर
 पहिले जीता, इस लिये वह साकम् अश्व [साथ साथ चलने वाला घोड़ा वा
 स्तेत्र विशेष हुआ] । (यत् पञ्च देवताः अभ्युत्तस्थुः तस्मात् पञ्च देवताः उक्थे
 शस्यन्ते) जो पांच देवता सामने खड़े हुये, इस लिये पांच देवता उक्थ
 [स्तोत्र] में स्तुति किये जाते हैं । (या वाक् सः अग्निः, यः प्राणः सः वरुणः,
 यत् मनः सः इन्द्रः, यत् चक्षुः सः बृहस्पतिः, यत् श्रोत्रं सः विष्णुः) जो वाणी
 है वह अग्नि [तापक पदार्थ] है, जो प्राण [श्वास] है वह वरुण [स्वीकार
 करने योग्य पदार्थ] है, जो मन है वह इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला पदार्थ] है,
 जो नेत्र है वह बृहस्पति [बड़े बड़ों का पालने वाला पदार्थ] है, जो कान है वह
 विष्णु [व्यापक पदार्थ] है । (एते ह वै एतान् पञ्चभिः प्राणैः समीर्य उत्थापयन्)
 इन ही [देवताओं] ने इन [असुरों] को पांच प्राणों से मिलकर उठा दिया
 [निकाल दिया] । (तस्मात् उ ह एव एताः पञ्च देवताः उक्थे शस्यन्ते) इस
 लिये ही यह पांच देवता उक्थ [स्तोत्र] में स्तुति किये जाते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि मन, वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र आदि
 को स्वस्थ रख कर विघ्नों को हटावे ॥ ११ ॥

टिप्पणी—ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ४६ में (साकमश्वम्) को साम अर्थात्
 स्तोत्र लिखा है और उस के सायण भाष्य में निम्न लिखित मन्त्रों की ओर
 साकमश्व साम के लिये संकेत किया है ।

१—एह्युषु ब्रवाणि तेऽग्नं इत्येतरा गिरः । एभिर्वर्धासु इन्दुभिः ॥
 २—यत्र क्वच ते मनो दत्तं दधसु उत्तरम् । तत्रा सदैः कृणवसे ॥ ३—नहि ते
 पूर्तमन्तिपद्भुवन्नेमानां वसो । अथा दुवो वनवसे ॥ ऋग० ६ । १६ । १६—१८,
 साम० उ० १ । १ । तृच २२, मन्त्र १ यजु० २६ । १३ ॥ १—(अग्ने) हे अग्ने !
 [तेजस्वी विद्वान्] (उ) अवश्य (आ इहि) तू आ, (ते) तेरे लिये (इत्था)
 सत्य सत्य (इतराः) दूसरी (गिरः) वाणियों को (सु) सुन्दर प्रकार से
 (ब्रवाणि) मैं कहूँ, (एभिः) इन (इन्दुभिः) ऐश्वर्य वाले पदार्थों से (वर्धासे)

पालकः (विष्णुः) व्यापकः (समीर्य) संगत्य (उत्थापयन्) उदस्थापयन् ।
 उत्थापितवन्तः । निःसारितवन्तः ॥

तू वद ॥ २—[हे विद्वन् !] (यत्र क्वच) जहां कहीं भी (ते मनः) तेरा मन
हो, (तत्र) वहां तू (सदः) स्थान (कृणवसे) करता है, [क्योंकि] तू
(उत्तरं दक्षम्) अति श्रेष्ठ बल (दधसं) रखता है ॥ ३—(नेमानां वसा)
हे नीतियों में वास करने वाले पुरुष ! (ते) तेरा (पूर्तम्) पूर्ति करने
वाला कर्म (अक्षिपत्) [हमारी] आखों से गिरने वाला (नहि भुवत्)
नहीं होवे, (अथ) इस लिये (दुवः) [हमारी] सेवा को (वनवसे)
तू स्वीकार कर ॥

कण्डिका १२ ॥

प्रजापतिर्होतेभ्यः पञ्चभ्यः प्राणेभ्यो देवान् ससृजे । यद्दु चेदं किञ्च पाङ्क्तं
तत् सृष्ट्वा व्याज्वलयत् । ते होचुर्देवाः, म्लानोऽयं पिता मयोभूः, पुनरिमं समी-
र्योत्थापयामीति । स ह सत्त्वमाख्यायाभ्युपतिष्ठते, यदि ह वा अपि निर्णिक्त-
स्यैव कुलस्थ सन्ध्युत्तेण यजते, सत्त्वं हैवाख्यायाभ्युपतिष्ठते । यो वै प्रजापतिः
स यज्ञः । स एतैरेव पञ्चभिः प्राणैः समीर्योत्थापितः । ये ह वा एन पञ्चभिः
प्राणैः समीर्योत्थापयथ्, स्ता उ एवैताः पञ्च देवता उक्थे शस्यन्ते ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ आख्यायिका—प्रजापति पांच प्राणों से पांच
देवताओं को उत्पन्न करता है और पांच देवता स्तुति
किये जाते हैं ॥

(प्रजापतिः हि एतेभ्यः पञ्चभ्यः प्राणेभ्यः देवान् ससृजे) प्रजापति
[इन्द्रिय आदि प्रजा के पालक यज्ञ] ने ही इन पांच प्राणों से देवताओं को
उत्पन्न किया [देखो कण्डिका ११] । (यत् उ च इदं किञ्च पाङ्क्तं तत् सृष्ट्वा
व्याज्वलयत्) और जो कुछ भी पाङ्क्त [पङ्क्ति पांच वा विस्तार में हान
वाला] है, उस को उत्पन्न करके उसने विविध प्रकार प्रकाशित किया । (ते
ह देवाः ऊचुः, अयं मयोभूः पिता म्लानः, पुनः इमं समीर्य उत्थापयामि इति)
वे ही देवता बोले—यह सुख पहुंचाने वाला पिता [प्रजापति] मुरझाया हुआ
है, फिर इस को हम मिल कर उठावें । (सः ह सत्त्वम् आख्याय अभ्यु-

१२—(देवान्) इन्द्रियाणां दिव्यव्यापारान् (ससृजे) सृष्टवान् (पाङ्-
क्तम्) पङ्क्तिभवम् । पञ्चभवम् । विस्तारयुक्तम् (व्याज्वलयत्) विशेषेण
अदीपयत् (म्लानः) सौ हर्षक्षये—क । म्लानियुक्तः (मयोभूः) मिञ् हिंसायाम्

पतिष्ठते) वह [प्रजापति] ही सत्त्व [पौरुष] दिखा कर सब ओर उपस्थित हुआ । (यदि ह वै अपि निर्णिकस्य एव कुलस्य सन्ध्युक्षेण । यजते, सत्त्वं ह एव आख्याय अभ्युपतिष्ठते) जब ही मनुष्य निश्चय करके शुद्ध किये हुये ही कुल के संयोग बढ़ाने से यज्ञ करता है, वह पुरुषार्थ ही दिखाकर सब ओर उपस्थित होता है । (यः वै प्रजापतिः सः यज्ञः) जो ही प्रजापति है वह यज्ञ है । (सः एतैः एव पञ्चभिः प्राणैः समीर्य उत्थापितः) वह [प्रजापति वा यज्ञ] इन ही पांच प्राणों से मिल कर उठाया गया है । (ये ह वै एनं पञ्चभिः प्राणैः समीर्य उत्थापयन्, ताः उ एव एताः पञ्च देवताः उक्थे शस्यन्ते) जिन ही [देवताओ] ने इस [प्रजापति वा यज्ञ] को पांच प्राणों से मिल कर उठाया है, वे ही यह पांच देवता उक्थ [स्तोत्र] में स्तुति किये जाते हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ—कण्डिका ११ के विषय का विशेष वर्णन है ॥ १२ ॥

कण्डिका १३ ॥

तदाहुः, यद् द्वयोर्देवतयो स्तुवत इन्द्राग्नोरिति, अथ कस्माद्भूयिष्ठो देवता उक्थे शस्यन्त इति । अन्तो वा आग्निमारुतमन्तरुक्थान्यन्त आश्विनं कनीयसीषु देवतासु स्तुवते, अन्तेष्विति । अथ कस्माद्भूयिष्ठो देवता उक्थे शस्यन्त इति । द्वे द्वे उक्थमुखे भवतः, तद्यद् द्वे द्वे ॥ १३ ॥

कण्डिका १३ ॥ उक्थ में दो इन्द्र और अग्नि की स्तुति रहते हुये बहुत देवताओं की स्तुति का विचार ॥

(तत् आहुः, यत् द्वयोः देवतयोः इन्द्राग्नयोः स्तुवते इति, अथ कस्मात् भूयिष्ठः देवताः उक्थे शस्यन्ते इति) फिर लोग कहते हैं—जब दो देवताओं इन्द्र और अग्नि [मन और वाणी, क० ११] को स्तुति करते हैं, फिर किस

—असुन् । मिनोति हिनस्ति दुःखम् । मयः सुखम्—निघ० ३ । ६ । मयः+भू सत्तायाम्—क्विप् । सुखस्य भावयिता प्रापकः (उत्थापयामि) उत्थापयामः (सत्त्वम्) सत्ताम् । पौरुषम् (आख्याय) व्याख्याय । प्रसिद्धं कृत्वा (निर्णिकस्य) णिजिर् शोधे—क्त । निरन्तरशोधितस्य (सन्ध्युक्षेण) उक्त सेचने वृद्धौ च—घञ् । उक्षणः, उक्षतेवृद्धिकर्मण उक्षन्त्युदकेनेति वा—निघ० १२ । ६ । संयोगवर्धनेन (समीर्य) संगत्य (उत्थापयन्) उदस्थापयन् ॥

१३—(आहुः) कथयन्ति (स्तुवते) स्तुवन्ति । स्तुतिं कुर्वन्ति (भूयिष्ठः) बहु—इष्टन् । पुंस्त्वमेकवचनत्वं चार्षम् । भूयिष्ठाः । बहुतमाः (आश्विनम्)

लिये बहुत से देवता उक्थ [स्तोत्र] में स्तुति किये जाते हैं । (अन्तः वै आग्नि-
मारुतम्, अन्तः उक्थानि, अन्तः आश्विनम्, अन्तेषु कनीयसीषु देवतासु स्तुवते
इति) अन्त ही अग्नि और मरुत देवता वाला स्तोत्र है, अन्त उक्थ हैं, अन्त
दोनों अश्वियों का स्तोत्र है, अन्तों [स्तोत्रों के अन्तों] में छोटे छोटे देवताओं
की स्तुति करते हैं । (अथ कस्मात् भूयिष्ठः देवताः उक्थे शस्यन्ते इति) फिर
किस लिये बहुत से देवता उक्थ में स्तुति किये जाते हैं । [शंका समाधान]
(द्वे द्वे उक्थमुखे भवतः, तत् यत् द्वे, द्वे) दो दो उक्थमुख [उक्थ के
आरम्भ के स्तोत्र] होते हैं, इस लिये जो दो हैं, [वे] दो [देवता] हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ—कण्डिका ११ का विशेष वर्णन है ॥ १३ ॥

टिप्पणी—मिलाओ कण्डिका ११ से ॥

कण्डिका १४ ॥

अथ यद्वैन्द्रावारुणं मैत्रावरुणस्योक्थं भवति । ऐन्द्रावार्हस्पत्यं ब्राह्मणा-
च्छंसिन उक्थं भवति । ऐन्द्रावैष्णवमच्छावाकस्योक्थं भवति । द्वे संशस्यंस्त
ऐन्द्रं च वारुणश्चैकमैन्द्रावारुणं भवति । द्वे संशस्यंस्त ऐन्द्रं च वार्हस्पत्यश्चैक-
मैन्द्रावार्हस्पत्यं भवति । द्वे संशस्यंस्त ऐन्द्रं च वैष्णवश्चैकमैन्द्रावैष्णवं भवति ।
द्वे द्वे उक्थमुखे भवतः, तद्यद् द्वे द्वे ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ तीन ऋत्विजों के अलग अलग उक्थ और
दो दो देवता वाले उक्थ हैं ॥

(अथ यत् मैत्रावरुणस्य ऐन्द्रावरुणम् उक्थं भवति) फिर जो मैत्रा-
वरुण [ऋत्विज] का इन्द्र और वरुण [मन और प्राण-क० ११] देवता वाला
उक्थ [स्तोत्र] होता है [उस का वर्णन] । (ब्राह्मणाच्छंसिनः ऐन्द्रावार्ह-
स्पत्यम् उक्थं भवति) ब्राह्मणाच्छंसी [ऋत्विज] का इन्द्र और बृहस्पति
[मन और आंख] देवता वाला उक्थ होता है, (अच्छावाकस्य ऐन्द्रावैष्णवम्
उक्थं भवति) और अच्छावाक् [ऋत्विज] का इन्द्र और विष्णु [मन और
कान] देवता वाला उक्थ होता है । (द्वे ऐन्द्रं च वारुणं च संशस्यं स्तः, एकम्

अश्विनोरिदम्—अण् अश्विदेवताकं स्तोत्रम् (कनीयसीषु) युवात्पयाः कनन्य-
तरस्याम् । पा० ५ । ३ । ६४ । अल्प—ईयसुन्, डीप् कन् इत्यादेशः । अल्प-
तरासु ॥

१४—(संशस्यम्) संशस्ये । स्तोतव्ये (स्तः) भवतः ॥

ऐन्द्रावरुणं भवति) [इस लिये] इन्द्र और वरुण [मन और प्राण] देवता वाले [स्तोत्र] स्तुति योग्य हैं, एक इन्द्र और वरुण वाला उक्थ होता है, (द्वे ऐन्द्रं च वार्हस्पत्यं च संशस्यं स्तः, एकम् ऐन्द्रा वार्हस्पत्यं भवति) दो इन्द्र और वृहस्पति [मन और आंख] देवता वाले [स्तोत्र] स्तुति योग्य हैं, एक इन्द्र और वृहस्पति [मन और आंख] देवता वाला [उक्थ] होता है, (द्वे ऐन्द्रं च वैष्णवं च संशस्यं स्तः, एकम् ऐन्द्रावैष्णवं भवति) दो इन्द्र और विष्णु [मन और कान] देवता वाले [स्तोत्र] स्तुति योग्य हैं, एक इन्द्र और विष्णु [मन और कान] देवता वाला [उक्थ] होता है । (द्वे द्वे उक्थमुखे भवतः, तत् यत् द्वे, द्वे) दो उक्थ मुख [उक्थ के आरम्भ के स्तोत्र] होते हैं, इस लिये जो दो हैं, [वे] दो [देवता] हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ—कण्डिका ११ का विशेष वर्णन है ॥ १४ ॥

टिप्पणी—मिताओ कण्डिका ११ ॥

कण्डिका १५ ॥

अथ यदैन्द्रावरुणं मैत्रावरुणस्योक्थं भवति । इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिवतं मद्यं धृतव्रतावित्यूचाभ्यनूक्तम् । मद्बद्धि तृतीयसवनम् । एह्युषु ब्रवाणि त अग्निरगामि भारत इति मैत्रावरुणस्य स्तोत्रियानुरूपौ । चर्षणीधृतं मघवानमुक्थमित्युक्थमुखम् । तस्योपरिष्ठाद् ब्राह्मणम् । अस्तन्नाद् द्यामसुरो विश्ववेदा इति वारुणं सांशंसिकम् । अहश्चेति वरुणोऽब्रवीद्देवतयोः संशंसायानतिशंसाय । इन्द्रावरुणा युवमध्वराय न इति पर्य्यास ऐन्द्रावरुणे । ऐन्द्रावरुणमस्येतन्नित्यमुक्थम् । तदेतत् स्वस्मिन्नायतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति । द्वन्द्वं वा एता देवता भूत्वा व्यजयन्त विजित्या एव । अथा द्वन्द्वम्यैव मिथुनस्य प्रजात्यै सैकपादिनी भवति । एकपादिन्या होता परिदधाति । यत्र होतुर्होत्रकाणां युञ्जति, तत् समृद्धन्तद्वै खलवावां राजानावध्वरे ववृत्यामिति । एवमेव केवलपर्य्यासं कुर्यात् । केवलसूक्तं केवलसूक्तमेवोत्तरयोर्भवति । इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्येति यजति । एते एव तद् देवतं यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्यानुवषट्करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशंसाः सीदन्ति ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ एकाह यज्ञ के तृतीयसवन के उक्थ में

मैत्रावरुण ऋत्विज के मन्त्र ॥

(अथ यत् मैत्रावरुणस्य ऐन्द्रावरुणम् उक्थं भवति) फिर जो मैत्रा-

वरुण [ऋत्विज] का इन्द्र और वरुण [मन और प्राण क० ११] देवता वाला उक्थ [स्तोत्र] होता है [उस का वर्णन] । (इन्द्रावरुणा सुतपौ इमं सुतं सोमं पिवतं मद्यं धृतव्रतौ—इति ऋचा अभ्यनूक्तम्) इन्द्रावरुणा सुतपौ...
 ...१—इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है । (मद्रत् हि तृतीयमवनम्) हर्ष युक्त [अथवा मद शब्द वाला] ही तृतीयसवन है । (एहि उ षु ब्रवाणि ते, आग्निरगामि भारतः—इति मैत्रावरुणस्य स्तोत्रियानुरूपौ) एहि उ षु ब्रवाणि ते२—आ अग्निः अगामि भारतः.....३—यह दो मन्त्र मैत्रावरुण के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं । (चर्षणीधृतं मघवानम् उक्थ्यम्.....इति उक्थ मुखम्) चर्षणीधृतं मघवानम् उक्थ्यम्.....४—यह मन्त्र [मैत्रावरुण का] उक्थमुख है । (तस्य उपरिष्ठात् ब्राह्मणम्) उस के उपरान्त ब्राह्मण है । (अस्तभ्नाद् द्याम् असुरः विश्ववेदाः, इति वारुणां सांशंसिकम्) अस्तभ्नाद् द्याम् असुरः जातवेदाः.....५—यह मन्त्र वरुण देवता वाला सांशंसिक [यथार्थ प्रशंसायुक्त उक्थ] है । (अहं च इति वरुणः अब्रवीत् देवतयोः संशंसाय अनतिशंसाय) और मैं—यह वरुण ने कहा [क० ११], वह दो देवताओं की यथार्थ प्रशंसा के लिये है जो अत्युक्ति बिना प्रशंसा हो । (इन्द्रावरुणा युवम् अध्वराय नः.....इति ऐन्द्रावारुणे पर्य्यासः) इन्द्रावरुणा युवम् अध्वराय नः...
 ...६—यह मन्त्र इन्द्र और वरुण वाले [उक्थ] में पर्य्यास [अन्त] है । (अस्य ऐन्द्रावारुणम् एतत् नित्यम् उक्थम्) इस [मैत्रावरुण ऋत्विज] का इन्द्र और वरुण देवता वाला यह नित्य उक्थ है । (तत् एतत् स्वस्मिन् आयत्ने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति) सो यह [उक्थ] अपने स्थान में और अपनी प्रतिष्ठा में [यजमान को] स्थापित करता है । (एताः देवताः द्वन्द्वं वै भूत्वा विजित्यै एव व्यजयन्त) इन देवताओं ने दो दो होकर विजय के लिये ही विजय पाया है । (अथो द्वन्द्वस्य एव मिथुनस्य प्रजात्यै सा एकपादिनी

१५—(मद्रत्) मदी हर्षे—किप्, मतुप् । हर्षयुक्तम् । मदशब्दयुक्तम् (आ इहि) आगच्छ (ब्रवाणि) कथयानि (ते) तुभ्यम् (आ) समन्तात् (अग्निः) अग्निरिवतेजस्वी पुरुषः (अगामि) गम्यते (भारतः) भृशशिशि-
 यजि० । उ० ३ । ११० । भृञ् भरणे—अतच् । प्रज्ञादिभ्यश्च । पा० ५ । ४ । ३८ ।
 स्वार्थे—अण् । भारताः, ऋत्विजः—निघ० ३ । १८ । भर्ता । पोषकः । (चर्षणीधृ-
 तम्) मनुष्याणां धर्तारम् (मघवानम्) बहुधनयुक्तम् (उक्थ्यम्) प्रशंसनीयम्
 (अस्तभ्नात्) स्थापितवान् (द्याम्) सूर्यलोकम् (असुरः) असुरिति प्रज्ञानाम्—

भवति) फिर दो दो [देवता] वाले ही मिथुन [ज्ञान वा जोड़] की उत्पत्ति के लिये वह [स्तुति वा ऋचा] एक पाद वाली हाती है । (एकपादिन्या होता परिदधाति) एक पाद वाली [ऋचा] से होता परिधानीया इष्टि करता है । (यत्र हेतुः होत्रकाणां युञ्जन्ति, तत् समृद्धम्) जहां होता के होत्रक लोगों [सहायक ऋत्विजों] का वे योग करते हैं, वह समृद्ध [सफल] होता है । (तत् वै खलु—आ वां राजानौ अध्वरे ववृत्याम् इति) वह ही यह मन्त्र है—
 आ वां राजानौ अध्वरे ववृत्याम्.....७—(एवम् एव केवलपर्यासं कुर्यात्)
 इस प्रकार से ही केवल पर्यास [एक देवता के स्तोत्र वाला अन्तिम् उक्थ] करे । (केवलसूक्तं केवलसूक्तम् एव उत्तरयोः भवति) केवलसूक्त, केवलसूक्त [एक देवता की स्तुति वाला सूक्त] ही पिछले दो [देवताओं] का होता है । (इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य.....इति यजति) इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य.....८—
 इस मन्त्र से वह याज्या आहुति देता है । (एते एव देवते तत् यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट्करोति) इन ही दो देवताओं को उस से अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आध्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं—नरों [नेताओं] की स्तुति बिना यज्ञ [यजमान को] न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [नहीं आप बढ़ते हैं । देखो क० ३] ॥ १५ ॥

भावार्थ—योग्य पुरुष योग्यदेवता की स्तुति योग्य विचारों से करे ॥ १५ ॥

टिप्पणी १—नीचे शुद्धि पत्र देखो ॥

निरु० १० । ३४ । रा मत्वर्थीयः । प्रज्ञावान् (विश्ववेदाः) वेदो धनम्—निघ० २ । १० । सर्वधनः (सांशंसिकम्) संशंस—ठक् । सम्यक् प्रशंसायुक्तमुक्थम् (संशंसाय) प्रशंसनाय (अनतिशंसाय) अत्युक्तिरहिताय प्रशंसनाय । यथावत्—प्रशंसनाय (द्वन्द्वम्) द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचन० पा० ८ । १ । १५ । द्वि द्वि, पूर्वपदस्य इकारस्य अम्, उत्तरस्य इकारस्य अत्वम् । द्वेद्वे (मिथुनम्) मिथ वधे मेधायां च—उनन् । ज्ञानम् । युगलम् (एकपादिनी) एकपादयुक्ता ऋक् (परिदधाति) परिधानीयां यजति (वाम्) युवाम् (राजानौ) ऐश्वर्यवन्तौ (अध्वरे) हिंसारहितयागे (आ ववृत्याम्) आवर्तयामि । आह्वयामि ॥

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
पत्यू	पहू	वेदमन्त्र
ता अग्नि	त आग्नि	”
मघवानमुक्थम्	मघवानमुक्थ्यम्	”
अस्तभ्नाद्याम्	अस्तभ्नाद् द्याम्	”
नित्युक्थम्	नित्यमुक्थम्	कण्डिका १६, १७
राजानामध्वरे	राजानावध्वरे	वेदमन्त्र
ऽववृत्याम्	ववृत्याम्	”

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।

१—इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतुं मद्यं धृतव्रतौ..... ॥

यह मन्त्र आ चुका है, गो० ब्रा० उ० २ । २२, टिप्पणी ३ ॥

२—पहूषु व्रुवाणि ते..... ॥ आ चुका है—गो० ब्रा० उ० ४ । ११, टिप्पणी ॥

३—आग्निर्गामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतनः । दिवेदासस्य सत्पतिः—ऋ० ६ । १६ । १६ ॥ (दिवेदासस्य) प्रकाश के देने वाले का (भारतः) पोषण करने वाला, (वृत्रहा) शत्रुओं का मारने वाला, (पुरुचेतनः) बहुत चेतना वाला, (सत्पतिः) सत्पुरुषों का पालने वाला (अग्निः) अग्नि [के समान तेजस्वी पुरुष] (आ अगामि) सब ओर से प्राप्त किया जाता है ॥

४—चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्य १' मिन्द्रं गिरो वृहतीरभ्यनूषत । वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवेदिवे—ऋ० ३ । ५१ । १, सा० पू० ४ । ६ । ५ ॥ (वृहतीः) बड़े विषय वाली (गिरः) [विद्वानों की] वाणियों (चर्षणीधृतम्) मनुष्यों के धारण करने वाले, (मघवानम्) बहुत धन वाले, (उक्थ्यम्) प्रशंसा योग्य, (वावृधानम्) बढ़ते हुये, (पुरुहूतम्) बहुत पुकारे गये (अमर्त्यम्) अमर, (सुवृक्तिभिः) सुन्दर ग्रहण योग्य क्रियाओं से (जरमाणम्) स्तुति किये जाते हुये (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य्य वाले राजा] की (दिवेदिवे) दिन दिन (अभि) सब ओर से (अनूषत) बड़ाई करें ॥

५—अस्तभ्नाद् द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः । आसीद् विश्वा भुवनानि सम्राड् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि—ऋ० ८ । ४२ । १ ॥ (असुरः) बुद्धिमान्, (विश्ववेदाः) सम्पूर्ण धन वाले [परमात्मा]

ने (घाम्) सूर्य लोक को (अस्तम्नात्) थांभा है, और (पृथिव्याः) पृथिवी की (वरिमाणम्) चौड़ाई को (अमिमीत) नापा है । (सम्राट्) सम्राट् [वह राजराजेश्वर परमात्मा] (विश्वा) सब (भुवनानि) भुवनों में (आ असीदत्) आकर बैठा है, (तानि इत्) वे ही (विश्वा) सब (वरुणस्य) वरुण [स्वीकार करने योग्य परमेश्वर के (व्रतानि) कर्म हैं ॥

६—इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम् । दीर्घ-
प्रयज्युमति यो वनुष्यति वयं जयेम पृतनासु दूढ्यः—ऋ० ७ । ८२ । १ ॥
(इन्द्रावरुणा) हे इन्द्र और वरुण ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा और स्वीकार करने योग्य मन्त्री] (युवम्) तुम दोनों (अध्वराय) हिंसा रहित यज्ञ के लिये (नः) हमारी (विशे) प्रजा को और (जनाय) कुटुम्बियों को (महि) बड़ा (शर्म) स्थान (यच्छतम्) दो (यः) जो [शत्रु] (दीर्घप्रयज्युम्) बड़े यज्ञ करने वाले पुरुष को (अति) उल्लंघन करके (वनुष्यति) मारे, [उस को और] (दूढ्यः) दुर्वृद्धियों को (पृतनासु) सग्रामों में (वयं जयेम) हम जीतें ॥

७—आ वा राजानावध्वरे ववृत्यां हव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः । प्र वा घृताची वाहोर्दधाना परित्मना विषुरूपा जिगाति—ऋ० ७ । ८४ । १ ॥ (राजानौ)
हे राजाओ (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा और स्वीकार करने योग्य मन्त्री] (वाम्) तुम दोनों को (अध्वरे) हिंसारहित यज्ञ में (हव्येभिः) देने और लेने योग्य पदार्थों और (नमोभिः) सत्कारों से (आ ववृत्याम्) मैं लौटाऊं । (वाहोः) [हमारी] दोनों भुजाओं में (दधाना) रखी हुई (घृताची) घृत पहुचाने वाली [चमची] (त्मना) अपने आप (विषुरूपा) नाना विध स्वभाव वाले (वाम्) तुम दोनों को (परि) सब ओर से (प्र जिगाति) पहुँच जाती है ॥

८—इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम् । इदं वामन्ध्रः परिषिक्तमासद्यास्मिन् वर्हिषि मादयेथाम्—अथर्व० ७ । ५८ । २, ऋ० ६ । ६८ । ११ ॥ (वृषणा) हे बलिष्ठ ! (इन्द्रावरुणा) बिजुली और वायु [के समान राजा और प्रजाजनो] तुम (मधुमत्तमस्य) अत्यन्त ज्ञानयुक्त, (वृष्णः) बल करने वाले (सोमस्य) ऐश्वर्य की (आ वृषेथाम्) भले प्रकार वर्षा करो । (वाम्) तुम दोनों का (इदम्) यह (परिषिक्तम्) सब प्रकार सींचा हुआ (अन्धः) अन्न है, (अस्मिन्) इस (वर्हिषि) वृद्धि कर्म में (आसद्य) बैठ कर (मादयेथाम्) आनन्दित करो ॥

कण्डिका १६ ॥

अथ यदेन्द्रावार्हस्पत्यं ब्राह्मणाच्छंसिन उक्थं भवति इन्द्रश्च सोमं पिबतं वृहस्पतेऽस्मिन् यज्ञे मन्दसाना वृषणवसू इत्युच्चाभ्यनूक्तं मद्बद्धि तृतीयसवनम् । वयमु त्वामपूर्व्यं यो न इदमिदं पुरेति ब्राह्मणाच्छंसिन स्तोत्रियानुरूपौ । प्रमंहिष्ठाय वृहते वृहद्रय इत्युक्थमुखम् । ऐन्द्रं जागतं, जागताः पशवः, पशूनामाप्त्यै । जागतमु वै तृतीयसवनं तृतीयसवनस्य रूपम् । उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा इति वार्हस्पत्यं सांशंसिकम् । अहञ्चेति वृहस्पतिरब्रवीत्, देवतयोः संशंसायानतिशंसाय । अच्छाम इन्द्रं मतयः स्वर्धिद इति पर्यास ऐन्द्रावार्हस्पत्ये । ऐन्द्रावार्हस्पत्यमस्यैतं नित्यमुक्थम् । तदेतत् स्वस्मिन्नायतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति । इन्द्रं वा एता देवता भूत्वा व्यजयन्त विजित्या एव, अथो इन्द्रस्यैव मिथुनस्य प्रजात्यै । वृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादित्यैन्द्रावार्हस्पत्या परिदधाति । इन्द्रावृहस्पत्योरेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति, उतोत्तरस्मादधरादघायोरिन्द्रः पुरस्तादुत मध्यता नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोत्विति । सर्वाभ्य एव दिग्भ्य आशिषमाशास्ते, नात्वीय कामं कामयते । सोऽस्मै कामः समृध्यते, य एवं वेद, यश्चैवं विद्वान् ब्राह्मणाच्छंस्यतया परिदधाति । वृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्व इति यजति । एते एव तद्देवते यथाभागं प्रीणाति वषट्कृत्यानुवषट्करोति प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशंसाः सीदन्ति ॥ १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ एकाह यज्ञ के तृतीय सवन के उक्थ में ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विज के मन्त्र ॥

(अथ यत् ब्राह्मणाच्छंसिनः ऐन्द्रावार्हस्पत्यम् उक्थं भवति) फिर जो ब्राह्मणाच्छंसी [ऋत्विज] का इन्द्र और वृहस्पति [मन और आँख—क० ११] देवता वाला उक्थ [स्तोत्र] होता है [उसका वर्णन] । (इन्द्रश्च सोमं पिबतं वृहस्पते अस्मिन् यज्ञे मन्दसाना वृषणवसू..... इति ऋचा अभ्यनूक्तम्) इन्द्रः च सोमं पिबतं.....१—इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है । (मद्बद्धि हि तृतीय सवनम्) हर्ष युक्त [अथवा मद शब्द वाला] ही तृतीय सवन है ।

१६—(वृहस्पते) हे वृहत्या वेदवाण्या रक्षक विद्वन् (मन्दसाना) मदि आमोदस्तुतिदीप्त्यादिषु—असानच् । आमोदयितारौ (वृषणवसू) यौ वृष्णा बलवतो वीरान् वासयतस्तौ (अपूर्व्य) स्वार्थे—यत् । नास्ति पूर्वः श्रेष्ठो यस्मात्

(अयमुत्त्वामपूर्व्य, यो नः इदमिदं पुरा—इति ब्राह्मणाच्छंसिनः स्तोत्रियानुरूपौ)
 वयम् उ त्वाम् अपूर्व्य२, और, यः न इदमिदं पुरा३—यह दो मन्त्र
 ब्राह्मणाच्छंसी के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं । (प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्दये...
 ...इति उक्थमुखम्) प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्दये.....४—यह मन्त्र [ब्राह्मणा-
 च्छंसी का] उक्थमुख है । (ऐन्द्रं जागतं, जागताः पशवः, पशूनाम् आप्त्यै)
 इन्द्र देवता वाला [स्तोत्र] जगत् का हितकारी है, जगत् के हितकारी पशु
 हैं, पशुओं के प्राप्ति के लिये [यह स्तोत्र है] । (जागतम् उ वै तृतीयसवनं
 तृतीयसवनस्य रूपम्) जगत् का हितकारी ही तीसरा सवन है [और पूर्वोक्त
 कर्म] तृतीय सवन का रूप है । (उदप्रतो न वयो रक्षमाणाः.....इति वार्हस्प-
 त्यं सांशंसिकम्) उदप्रतः न वयः रक्षमाणाः.....५—यह मन्त्र बृहस्पति देवता
 वाला सांशंसिक [यथार्थ प्रशंसायुक्त उक्थ] है । (अहं च इति बृहस्पतिः
 अब्रवीत्, देवतयोः संशंसाय अनतिशंसाय) और मैं—यह बृहस्पति ने कहा
 [क० ११], वह दो देवताओं की यथार्थ प्रशंसा के लिये है जो अत्युक्ति बिना
 प्रशंसा हो । (अच्छाम इन्द्रं मतयः स्वर्विदः.....इति ऐन्द्राबाहस्पत्ये पर्य्यासः)
 अच्छा मे इन्द्रं मतयः स्वर्विदः.....६—यह मन्त्र इन्द्र और बृहस्पति वाले
 [उक्थ] मे पर्य्यास [अन्त] है । (अस्य ऐन्द्राबाहस्पत्यम् एतत् नित्यम्
 उक्थम्) इस [ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विज] का इन्द्र और बृहस्पति देवता वाला
 यह नित्य उक्थ है । (तत् एतत् स्वस्मिन् आयतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठा-
 पयति) सो यह [उक्थ] अपने स्थान में और अपनी प्रतिष्ठा में [यजमान
 को] स्थापित करता है । (एताः देवताः द्वन्द्वं वै भूत्वा विजित्यै एव व्यजयन्त)
 इन देवताओं ने दो दो होकर विजय के लिये ही विजय पाया है । (अथो द्वन्द्वस्य

सः अपूर्वः, अपूर्व्यः । हे अनुपम (इदमिदम्) बहुनिर्दिष्टम् (पुरा) अग्रे (मंहि-
 ष्ठाय) मंहतेर्दानकर्मा—निघ० ३ । २० । महि वृद्धौ दाने च—तृच्, मंहितृ—
 इष्ठन्, तृलोपः । दातृतमाय (बृहते) गुरुरैर्महते (बृहद्दये) रै शब्दस्य ऐका-
 रस्य एकारः । प्रभूतधनाय (जागतम्) जगत्—अण् । जगते हिताय (उदप्रतः)
 प्रुङ् गतौ—क्विप् । उदकं प्राप्ताः (न) यथा (वयः) पक्षिणः (रक्षमाणाः)
 आत्मानं पालयन्तः (अच्छ) सुष्ठु (मे) मम (मतयः) बुद्धयः (स्वर्विदः)
 सुखस्य लम्भयिष्यः (बृहस्पतिः) बृहतां शूराणां रक्षकः सेनापतिः (नः)
 अस्मान् (परि) सर्वतः (पातु) रक्षतु (ऐन्द्राबाहस्पत्या) विभक्तेर्लुक् । ऐन्द्रा-
 बाहस्पत्यया ऋचा (उत्) अपि च (उत्तरस्मात्) ऊर्ध्वलोकात् (अधरात्)

एव मिथुनस्य प्रजात्यै) फिर दो दो [देवता] वाले ही मिथुन [ज्ञान वा जोड़] की उत्पत्ति के लिये है । (बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चात्...इति ऐन्द्राबार्हस्पत्या परिदधाति) बृहस्पतिः नः परि पातु पश्चात्...७—इस इन्द्र और बृहस्पति वाली [ऋचा] से वह परिधानीया इष्टि करता है । (इन्द्राबृहस्पत्याः एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति) इन्द्र और बृहस्पति के ही यज्ञ को वह स्थापित करता है । (उत उत्तरस्मात् अधरात् अघायो इन्द्रः पुरस्तात् उत मध्यतः नः सखा सखिभ्यः वरिवः कृणातु इति) उत उत्तरस्मात्...यह [पूर्वोक्त मन्त्र ७ के तीन पाद बोले जाते हैं] । (सर्वाभ्यः एव दिग्भ्यः आशिषम् आशास्ते, अर्त्वीयं कामं न कामयते) सब ही दिशाओं से वह आशीर्वाद चाहता है और निन्दा योग्य कामना नहीं चाहता । (सः कामः अस्मै समृध्यते, यः एवं वेद, यः च एवं विद्वान् ब्राह्मणाच्छंसी एतया परिदधाति) वह काम [कामना योग्य पदार्थ] उस के लिये समृद्ध [सफल] होता है, जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा विद्वान् ब्राह्मणाच्छंसी [ऋत्विज] इस [स्तुति] से परिधानीया [इष्टि करता है । (बृहस्पते युवम् इन्द्रश्च वस्वः...इति यजति) बृहस्पते युवम् इन्द्रः च वस्वः...इस मन्त्र से वह याज्या आहुति देता है । (एते एव देवते तत् यथाभागं प्रीणाति वषट्कृत्य अनुवषट् करोति) इन ही दो देवताओं को उस से अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्यायन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं—नरों [नेताओं] की स्तुति बिना यज्ञ [यजमान को] न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [नहीं आप बढ़ते हैं । देखो क० ३] ॥ १६ ॥

भावार्थ—कण्डिका १५ के समान है ॥ १६ ॥

टिप्पणी १—(बृहद्रथ) के स्थान पर (बृहद्रय) वेद मन्त्र से शुद्ध किया है ॥

अधस्तन लोकात् (अघायोः) पापेच्छुकात् । दुराचारिणः (पुरस्तात्) अग्रे (नः) अस्मभ्यम् (सखा) सुहृत् (सखिभ्यः) मित्राणां हिताय (वरिवः) वृञ् वरणे यङ्लुकि—असुन् । ऋतश्च । पा० ७ । ४ । ६२ । अभ्यासस्य रिगागमः, टिलोपः वरिवो धननाम—निघ० २ । १० । वरणीयं धनम् (कृणोतु) करोतु (अर्त्वीयम्) भृमृशीङ्० । उ० १ । ७ । ऋत जुगुप्तायाम्—उप्रत्ययः । अर्तु—छ । निन्दायोग्यम् (युवम्) युवाम् (वस्वः) वसुनः । धनस्य । अन्यत् पूर्ववत् क० १५ ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन् यज्ञे मन्दसाना वृषणवसू ।
आ वां विशन्तिवन्दवः स्वाभुवाऽस्मे रयिं सर्ववीरुं नियच्छतम्—अथर्व० २० ।
१३ । १, ऋग्० ४ । ५० । १० ॥ (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी वेद वाणी
के रत्नक विद्वान्] (च) और (इन्द्रः) हे इन्द्र ! [अत्यन्त ऐश्वर्य वाले राजन्]
(मन्दसाना) आनन्द देने वाले, (वृषणवसू) बलवान् वीरों के निवास कराने
वाले तुम दोनों (सोमम्) सोम [उत्तम ओषधियों के रस] का (अस्मिन्)
इस (यज्ञे) यज्ञ [राजपालन व्यवहार] में (पिबतम्) पीओ । (स्वाभुवः)
अच्छे प्रकार सब ओर होने वाले (इन्द्रवः) ऐश्वर्य (वाम्) तुम दोनों में
(आ विशन्तु) प्रवेश करें, (अस्मे) हम को (सर्ववीरम्) सब को वीर
बनाने वाला (रयिम्) धन (नि) नियम पूर्वक (यच्छतम्) तुम दोनों दो ॥

२—वयमु त्वामपूर्व्यं स्थूरं न कश्चिद् भरन्तोऽवस्यवः । वाजे चित्रं
हवामहे—अथर्व० २० । १४ । १, ऋग्० ८ । २१ । १, साम० पू० ५ । २ । १० ॥
(अपूर्व्यं) हे अनुपम ! [राजन्] (कत् चित्) कुछ भी (स्थूरम्) स्थिर
वस्तु (न) नहीं (भरन्तः) रखते हुये, (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले (वयम्)
हम (वाजे) सग्राम के बीच (चित्रम्) विचित्र स्वभाव वाले (त्वाम्) तुम्हें
को (उ) हि (हवामहे) बुलाते हैं ॥

३—यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । सखाय इन्द्र-
भृतये—अथर्व० २० । १४ । ३, ऋग्० ८ । २१ । ६, साम० उ० ५ । २ । २ ॥
(यः) जो [पराक्रमी] (नः) हमारे लिये (इदमिदम्) इस—इस (वस्यः)
उत्तम वस्तु को (पुरा) पहिले (प्र) अच्छे प्रकार (आनिनाय) लाया है,
(तम् उ) उस ही (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी वीर] को, (सखायः) हे
मित्रो ! (वः) तुम्हारी (ऊतये) रक्षा के लिये (स्तुषे) मैं सराहता हूँ ॥

४—प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे । अपा-
मिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम्—अथर्व० २० । १५ ।
१, ऋग्० १ । ५७ । १ ॥ (मंहिष्ठाय) अत्यन्त दानी, (बृहते) महागुणी, (बृह-
द्रये) महाधनी, (सत्यशुष्माय) सच्चे बलवान् [सभाध्यक्ष] के लिये (तवसे)
बल पाने को (मतिम्) बुद्धि (प्र) उत्तम रीति से (भरे) मैं धारण करता
हूँ (प्रवणे) ढालू स्नान में (अपाम् इव) जलों के [प्रवाह के] समान, (यस्य)
जिस [सभाध्यक्ष] का (दुर्धरम्) बेरोक (विश्वायु) सब को जीवन देने
वाला (राधः) धन (शवसे) बल के लिये (अपावृतम्) फैला हुआ है ॥

५—उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः । गिरिभ्रजो मोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिम्भ्यः१ 'र्का अनावन्—अथर्व २० । १६ । १, ऋग् १० । ६८ । १ ॥ (उदप्रुतः) जल को प्राप्त हुये, (रक्षमाणाः) अपनी रक्षा करते हुये (वयः न) पत्नियों के समान, (वावदतः) बार बार गरजते हुये (अभ्रियस्य) बादल के (घोषाः इव) शब्दों के समान (गिरिभ्रजः) पहाड़ों से गिरते हुये, (मदन्तः) तृप्त करते हुये (ऊर्मयः न) जल के प्रवाहों के समान, (अर्काः) पूजनीय परिडतों ने (बृहस्पतिम्) बृहस्पति [बड़ी वेद वाणी के रक्षक महाविद्वान्] को (अभि) सब ओर से (अनावन्) सराहा है ॥

६—अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्विदः सध्रीचीविश्वा उशतीरनूषत । परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मयं न शुन्ध्युं मघवानमृतये—अथर्व० २० । १७ । १, ऋग् १० । ४३ । १ ॥ (स्वर्विदः) सुख पहुचाने वाली, (सध्रीचीः) आपस में मिली हुई, (उशतीः) कामना करती हुई, (विश्वाः) सब (मे) मेरी (मतयः) बुद्धियों ने (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी राजा] को (अच्छ) अच्छे प्रकार से (अनूषत) सराहा है और (ऊतये) रक्षा के लिये [ऐसे, उसे] (परिष्वजन्ते) सब ओर से घेरती हैं, (यथा) जैसे (जनयः) पत्नियां (पतिम्) [अपने अपने] पति को, और (न) जैसे (शुन्ध्युम्) शुद्ध आचार वाले, (मघवानम्) महाधनी (मयम्) मनुष्य को [लोग घेरते हैं] ॥

७—बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्माद्धरादघायोः । इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु—अथर्व० २० । १७ । ११, ऋग् १० । ४३ । ११ ॥ (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े शूरों का रक्षक सेनापति] (नः) हमें (पश्चात्) पीछे से, (उत्तरस्मात्) ऊपर से (उत) और (अधरात्) नीचे से (अघायोः) बुरा चीतने वाले शत्रु से (परि पातु) सब प्रकार बचावे । (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला राजा] (पुरस्तात्) आगे से (उत) और (मध्यतः) मध्य से (नः) हमारे लिये (वरिवः) सेवनीय धन (कृणोतु) करे, (सखा) [जैसे] मित्र (सखिभ्यः) मित्रों के लिये [धन करता है] ॥

८—बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । धृत्तं रथिं स्तुवते कीरये चिद्व्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः—अथर्व० २० । १७ । १२, ऋग् ७ । ६७ । १० ॥ (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी वेद वाणी के रक्षक विद्वान्] (च) और (इन्द्रः) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (युवम्) तुम दोनों (दिव्यस्य) आकाश के (उत) और (पार्थिवस्य) पृथिवी के (वस्वः) धन के (ईशाथे) स्वामी हो । (स्तुवते) स्तुति करते हुये (कीरये) विद्वान् को (रथिम्)

(चित्) अवश्य (धत्तम्) तुम दोनों दो, [हे वीरो !] (यूयम्) तुम सब (स्वस्तिभिः) सुखों के साथ (सदा) सदा (नः) हमें (पात) रक्षित रक्खो ॥

कण्डिका १७ ॥

अथ यदैन्द्रावैष्णवमच्छावाकस्योक्तं भवति इन्द्राविष्णु मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो दधानेत्यूचाभ्यनूक्तं । मद्रद्धि तृतीयसवनम् । अधाहीन्द्र गिर्वण इयन्त इन्द्र गिर्वण इत्यच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ । ऋतुर्जनित्री तस्या अपस्परीत्युक्तमुखम् । तस्योक्तं ब्राह्मणं, नूमर्तो दयते सनिष्यन्निति वैष्णवं सांशंसिकम् । अहश्चेति विष्णुरब्रवीत्, देवतयोः संशंसायानतिशंसाय । सं वां कर्मणा समिषा हिनोमीति पर्यास ऐन्द्रावैष्णवे । ऐन्द्रावैष्णवमस्यैतं नित्यमुक्तम् । तदेतत् स्वस्मिन्नायतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति । द्वन्द्वं वा एता देवता भूत्वा व्यजयन्त विजित्या एव । अथो द्वन्द्वस्यैव मिथुनस्य प्रजात्या उभा जिग्यथुर्न पराजयेथे इत्यैन्द्रावैष्णव्यर्चा परिदधाति, इन्द्राविष्णोरेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति । इन्द्राविष्णु पिबतं मध्वो अस्येति यजति । एते एव तर्ह्वते यथाभागं प्रीणाति वषट्कृत्यानुवषट्करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशंसाः सीदन्ति ॥ १७ ॥

कण्डिका १७ ॥ एकाह यज्ञ के तृतीयसवन के उक्त में अच्छावाक ऋत्विज के मन्त्र ॥

(अथ यत् अच्छावाकस्य ऐन्द्रावैष्णवम् उक्तं भवति) फिर जो अच्छावाक [अच्छे बोलने वाले ऋत्विज] का इन्द्र और विष्णु [मन और कान—क० ११] देवता वाला उक्त [स्तोत्र] होता है [उस का वर्णन] । (इन्द्राविष्णु मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो दधाना... इति ऋचा अभ्यनूक्तम्) इन्द्राविष्णु मदपती... १—इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है । (मद्रत् हि तृतीयसवनम्) हर्ष युक्त [अथवा मद शब्द वाला] ही तृतीयसवन है । (अधाहीन्द्र गिर्वणः..., इयं त इन्द्रगिर्वणः... इति अच्छावाकस्य

१७—(इन्द्राविष्णु) वायुविद्युताविव सभासेनेशौ (मदपती) आनन्दस्य पालकौ (मदानाम्) आनन्दानाम् (सोमम्) ऐश्वर्यम् (आ यातम्) आगच्छतम् (द्रविणो) द्रविणा उ इति पदद्वयमेकीभय द्रविणो इति सिद्धम् । द्रविणा द्रविणानि धनानि उ अपि (दधाना) दधानौ । धरन्तौ (अध) अद्य । सम्प्रति (हि) एव (गिर्वणः) स्तुतिभिः सेवनीय (ऋतुः) वर्षाकालः (जनित्री)

स्तोत्रियानुरूपौ) अध हि इन्द्र गिर्वणः... २—और, इयं ते इन्द्र गिर्वणः...
 ...३—यह दो मन्त्र अच्छावाक के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं । (ऋतुर्जनित्री
 तस्या अपस्परिइति उक्थमुखम्) ऋतुः जनित्री तस्याः अपः परि...
 ...४—यह मन्त्र [अच्छावाक का] उक्थ मुख है । (तस्य उक्तं ब्राह्मणम्)
 उस का ब्राह्मण कहा गया है । (नू मर्त्तं दयते सनिष्यन् इमि वैष्णवं सांशं-
 सिकम्) नु मर्त्तः दयते सनिष्यन्.....५—यह मन्त्र विष्णु देवता वाला सां-
 शंसिक [यथार्थ प्रशंसा युक्त उक्थ] है । (अहं च इति विष्णुः अब्रवात्,
 देवतयोः संशंसाय अनतिशंसाय) और मैं—यह विष्णु ने कहा [क० ११], वह
 देवताओं की यथार्थ प्रशंसा के लिये है जो अत्युक्ति बिना प्रशंसा हो । (सं वां
 कर्मणा समिषा हिनेमि....., इति ऐन्द्रावैष्णवे पर्यासः) सं वां कर्मणा...
 ...६—यह मन्त्र इन्द्र और विष्णु वाला [उक्थ] में पर्यास [अन्त] है ।
 (अस्य ऐन्द्रावैष्णवम् एतत् नित्यम् उक्थम्) इस [अच्छावाक] का इन्द्र और
 विष्णु देवता वाला यह नित्य उक्थ है । (तत् एतत् स्वस्मिन् आयतने स्वस्यां
 प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति) सो यह [उक्थ] अपने स्थान में और अपनी प्रति-
 ष्ठा में [यजमान को] स्थापित करता है । (एताः देवताः द्वन्द्वं वै भूत्वा
 विजित्यै एव व्यजयन्त) इन सब देवताओं ने दो दो हाकर विजय के लिये ही
 विजय पाया है । (अथो द्वन्द्वस्य एव मिथुनस्य प्रजात्यै) फिर दो दो [देवता]
 वाले ही मिथुन [ज्ञान वा जोड़ा] की उत्पत्ति के लिये हैं । (उभा जिग्यथुर्न
 परा जयेथे.....इति ऐन्द्रावैष्णव्या ऋचा परिदधाति) उभा जिग्यथुः न ... ७—
 इस इन्द्र और विष्णु वाली ऋचा से वह परिधानीया इष्टि करता है । (इन्द्रा-
 विष्णोः एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति) इन्द्र और विष्णु के यज्ञ को वह स्थापित
 करता है । (इन्द्राविष्णु पिवतं मध्वो अस्य.....इति यजति) इन्द्राविष्णु
 पिवतम्.....८—इस मन्त्र से वह याज्या आहुति देता है । (एते एव देवते

जनयित्री । जननी (अपः) जलानि (परि) सर्वतः (नु) शीघ्रम् (मर्त्तः)
 मनुष्यः (दयते) धनमादत्ते (सनिष्यन्) सार्वधातुभ्यः इन । उ० ४ । ११८ ।
 षण्णु दाने—इन् । सुप आत्मनः क्यच् । पा० ३ । १ । ८ । सनि—क्यच्, लाल-
 सायां सुगागमः, ततः शतृ । दातव्यधनमिच्छन् (सम्) सम्यक् (वाम्) युवाम्
 (कर्मणा) ईप्सिततमेन व्यापारेण (इषा) अज्ञेन (हिनेमि) वर्धयामि (उभा)
 उभौ । इन्द्राविष्णु (जिग्यथुः) लिटि रूपम् । युवां जितवन्तो शत्रून् (न)
 निषेधे (पराजयेथे) पराजयं प्राप्नुथः (मध्वः) मधुरस्य । अन्यत् पूर्ववत् ॥

तत् यथाभागं प्रीणाति वषट्कृत्य अनुवषट्करोति) इन ही दो देवताओं को उस से अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रनम्र करता है और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम आहुति दान] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं—नरों [नेताओं] की स्तुति बिना यज्ञ [यजमान का] न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [नहीं आप बढ़ते हैं । देखो क० ३] ॥ १७ ॥

भावार्थ—कण्डिका १५ के समान है ॥ १७ ॥

टिप्पणी १—(मदयती) के स्थान पर (मदपती) और (अपसस्परि) के स्थान पर (अपस्परि) वेद मन्त्र से शोधा है ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—इन्द्राविष्णु मदपती मदानामां सामं यातुं द्रविणो दधाना । सं वामज्जन्तुभिर्मितानां सं स्तोमासः शस्यमानास उक्थैः—ऋग्० ६ । ६६ । ३ ॥ (इन्द्राविष्णु) हे इन्द्र और विष्णु [वायु और बिजुली के समान सभापति और सेनापति] (मदानाम्) आनन्दों के बोध (मदपती) आनन्द के पालने वाले और (द्रविणो) धनों के भी (दधाना) धारण करने वाले तुम दोनों (सोमम्) ऐश्वर्य को (आ यातम्) प्राप्त हाओ । (मतीनाम्) मनुष्यों के (शस्यमानासः) बोले हुये (स्तोमासः) स्तोम [स्तुति व्यवहार] (अक्नुभिः) तेजों और (उक्थैः) वेद स्तोत्रों के साथ (वाम्) तुम दोनों को (सं सम् अजन्तु) बहुत अच्छे प्रकार प्रकट करें ॥

२—अथा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा कामान् महः संसृज्महे । उदेव यन्त उदभिः—अथर्व० २० । १०० । १, ऋ० ६ । ६६ । [सायण भाष्य ८७] । ७, साम० ३० १ । १ । तृच २३ ॥ (गिर्वणः) हे स्तुतियों से सेवनीय (इन्द्र) इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (अध हि) अब ही (त्वा) तुम्हें (महः) अपनी बड़ी (कामान्) कामनाओं को, (उदा) जल [जल की बाढ़] के पीछे (उदभिः) दूसरे जलों की बाढ़ों के साथ (यन्तः इव) चलते हुये पुरुषों के समान हमने (उप) आदर से (संसृज्महे) समर्पण किया है ॥

३—इयं त इन्द्र गिर्वणो रातिः क्षरति सुन्वतः । मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि—ऋ० ६ । १३ । ४ ॥ (गिर्वणः) हे स्तुतियों से सेवनीय (इन्द्र) इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (ते) तेरे लिये (सुन्वतः) तत्त्वरस निचोड़ने वाले पुरुष की (इयम्) यह (रातिः) दान क्रिया (क्षरति) बहती है, (मन्दानः)

हर्ष करता हुआ तू (अस्य वहिषः) इस वृद्धि कारक व्यवहार का (वि) विशेष कर के (राजसि) राजा है ॥

४—ऋतुर्जनित्री तस्या अपस्परि मत्तु जात आविशद्यासु वर्धते । तदा-
हना अभवत् पिप्युषी पयोऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थयम्—ऋ० २ । १३ । १ ॥
(ऋतुः) ऋतु [वर्षाकाल] (जनित्री) [प्रत्येक पदार्थ की] जननी है, (तस्याः
परि) उस [जनना] से (जातः) उत्पन्न हो कर वह [पदार्थ] (मत्तु)
शीघ्र (अपः) जलों में (आ आविशत्) सब प्रकार से प्रवेश करता है, (यासु)
जिन [जलों] में (वर्धत) वह बढ़ता है । (तत्) इस से वह [पदार्थ]
(आहनाः) पान योग्य (अभवत्) होता है, और (पयः) रस की (पिप्युषी)
बढ़ाने वाली [वह जननी ऋतु हाती है] । (तत्) तब (अंशोः) अंश [ओष-
धि के डांठल] का (पीयूषम्) पीने योग्य रस (प्रथमम्) मुख्य कर के (उक्थयम्)
प्रशंसनीय [अथवा उक्थ नामक यज्ञ के योग्य] होता है ॥

५—नू मर्तो दयते सनिष्यन् यो विष्णव उरुगायाय दाशत् । प्र यः सत्राचा
मनसा यजात एतावन्तं नयमा विवासात्—ऋग्० ७ । १०० । १ ॥ (सनि-
ष्यन्) भक्ति चाहता हुआ (मर्तः) वह मनुष्य (नु) शीघ्र (दयते) [मनोरथ]
पाता है, (यः) जा (उरुगायाय) बहुत गान योग्य (विष्णवे) विष्णु [व्यापक
परमात्मा] को (दाशत्) देवे [आत्मदान करे] और (यः) जो (सत्राचा)
सत्य को प्राप्त हुये (मनसा) मन से (एतावन्तम्) इतन बड़े (नयम्) नगों
के हितकारी [विष्णु] को (प्र यजति) अच्छे प्रकार पूजे और (आववा-
सात्) सब ओर से सेवे ॥

६—सं वां कर्मणा समिषा हिंनोमीन्द्राविष्णु अपसस्पारे अस्य । जुषेथां
यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता—ऋ० ६ । ६६ । १ ॥ (इन्द्रा-
विष्णु) हे इन्द्र और विष्णु [सूर्य और बिजुली के समान सभापति और संना-
पति (वाम्) तुम दोनों को (अस्य) इस (अपसः पारे) कर्म के पार में
(कर्मणा) अत्यन्त चाहे हुये व्यापार और (इषा) अन्न से (सं सं हिंनोमि)
में बढ़ाता हूं, (यज्ञम्) यज्ञ [संगति करण व्यवहार] को (जुषेयाम्) सेवों
(च) और (नः) हम को (अरिष्टैः) बेरोक (पथिभिः) मार्गों से (पारयन्ता)
पार करते हुये तुम दोनों (द्रविणम्) धन वा यश (धत्तम्) दो ॥

७—उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न पराजिये कतरश्च नै नयोः । इन्द्रश्च
विष्णो यदपस्पृशेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयथाम्—अथर्व० ७ । ४४ । १, ऋ०

६ । ६६ । ८ ॥ (विष्णो) हे विष्णु ! [बिजुली के समान व्याप्त होने वाले समा-
पति] (च) और (इन्द्रः) हे इन्द्र ! [वायु के समान ऐश्वर्यवान् सेनापति]
(उभा) तुम दोनों ने [शत्रुओं को] (जिग्यथुः) जीता है, और तुम दोनों
(न) कभी नहीं (परा जयेथे) हारते हो, (एनयोः) इन [तुम] दोनों में से
(कतरः चन) कोई भी (न) नहीं (पग जिग्ये) हारा है । (यत्) जब (अप-
स्पृधेथाम्) तुम दोनों ललकारे हो (तत्) तब (सहस्रम्) असंख्य [शत्रु
सेना दल] को (त्रेधा) तीन विधि पर [ऊंचे, नीचे और मध्य स्थान में]
(वि) विविध प्रकार से (पेरयेथाम्) तुम दोनों ने निकाल दिया है ॥

८—इन्द्राविष्णु पिवंतुं मध्वो अस्य सोमस्य दक्षा जठरं पृण्थाम् । आ
वामन्धांसि मदिरायाम्ब्रुप ब्रह्माणि शृणुतुं हवं मे—ऋग० ६ । ६६ । ७ ॥
(दक्षा) हे दुःखनाशक (इन्द्राविष्णु) इन्द्र और विष्णु ! [वायु और बिजुली
के समान अध्यापक और उपदेशक] तुम दोनों (अस्य) इस (मध्वः) मधुर
(सोमस्य) सोम [ओषधियों के रस] का (पिवतम्) पान करो और
(जठरम्) पेट को (आ पृण्थाम्) अच्छे प्रकार भरो । (वाम्) तुम दोनों
को (मदिराणि) आनन्द देने वाले (अन्धांसि) अन्न (अग्मन्) प्राप्त हुये हैं,
(मे) मेरे (ब्रह्माणि) स्तोत्रों और (हवम्) पुकार को (उप शृणुतम्) तुम
दोनों समीप से सुनो ॥

कण्डिका १८ ॥

अथाध्वर्यो शथंशथंसावोमिति स्तोत्रियायानुरूपायोक्थमुखाय परिदधा-
नीयाय इति चतुश्चतुराह्वयन्ते । चतस्रो वै दिशः, दिक्षु तत् प्रतितिष्ठन्ते । अथो
चतुष्पादः पशवः, पशूनामाप्त्यै । अथो चतुष्पर्वाणो हि तृतीयसवने होत्रकाः,
तस्माच्चतुः सर्वे त्रैष्टुभं जागतानि शंसन्ति । जागतं हि तृतीयसवनम् । अथ हैतत्
त्रैष्टुभान्यप्रतिभूतमिव हि प्रातःसवने मरुत्वतीये तृतीयसवने च होत्रकाणां
शस्त्रम् । धीतरसं वा पतत्सवनं, यत्तृतीयसवनम् । अथ हैतद्धीतरसं शुक्रियं
छन्दः, यत् त्रिष्टुभा यातयामसवनस्यैव तत् सरस्वतायै [सरसतायै] । सर्वे सम-
वतीभिः परिदधति, तद्यत्समवतीभिः परिदधति । अन्तो वै पर्य्यासोऽन्त उदर्को-
ऽन्तः, सजाया उ ह वा अवेनायान्तेनैवान्तं परिदधति । सर्वे मद्रतीभिर्यजन्ति ।
तद्यन्मद्रतीभिर्यजन्ति । सर्वे सुतवतीभिः पीतवतीभिरूपाभिर्यजन्ति । यद्यज्ञोऽभिरूपं,
तत्समृद्धम् । सर्वेऽनुवषट् कुर्वन्ति, स्विष्टकृत्वा अनुवषट्कारो नेत् स्विष्टकृतमन्त-
रयामेति । असौ वै लोकस्तृतीयसवनं, तस्य पञ्च दिशः, पञ्चोक्थानि तृतीयसवनस्य ।

स एतैः पञ्चभिरुक्थैः एताः पञ्च दिश आप्नोति । तद्यद्देवां लोकानां रूपं, या मात्रा । तेन रूपेण तथा मात्रयेमांल्लोकानृधोतीमांल्लोकानृधोतीति ॥ १८ ॥

कण्डिका १८ ॥ एकाह यज्ञ के तृतीयसवन में (शंशंसावोम्)
इस मन्त्र को चार चार बार बोलें ॥

(अथ अध्वर्यो शंशंसावोम् इति, स्तोत्रियाय अनुरूपाय उक्थमुखाय परिधानीयायै इति, चतुः चतुः आह्वयन्ते) फिर (अध्वर्यो शंशंसाव ओम्) हे अध्वर्यो ! हम दोनों स्तुति करें, हां—इस मन्त्र से स्तोत्रिय [स्तुति योग्य व्यवहार] के लिये, अनुरूप [विषय की अनुकूलता] के लिये, उक्थ-मुख [यज्ञ की मुख्यता] के लिये और परिधानीया [समाप्ति क्रिया] के लिये—इस प्रकार चार चार बार वे बोलते हैं । (चतस्रः वै दिशः, दिक्षु तत् प्रतितिष्ठन्ते) चार ही दिशाएँ हैं, दिशाओं में उस से वे [याज्ञक] प्रतिष्ठा पाते हैं । (अथो चतुष्पादः पशवः पशूनाम् आप्त्यै) फिर चार पाँव वाले पशु होते हैं, पशुओं की प्राप्ति के लिये [यह यज्ञ है] । (अथो तृतीयसवने चतुर्धर्वाणः हि होत्रकाः) फिर तृतीयसवन में चार अङ्ग वाले ही सहायक होता लोग होते हैं । (तस्मात् चतुः सर्वे त्रैष्टुभं जागतानि शंसन्ति) इस लिये चार बार वे सब त्रिष्टुप् [कर्म उपासना ज्ञान के सहारे वाले अथवा त्रिष्टुप्] छन्दों वाले स्तोत्रों से जगत् के हितकारी कर्म वे बोलते हैं । (जागतं हि तृतीयसवनम्) जगत् का हितकारी ही तीसरा सवन है । (अथ ह एतत् त्रैष्टुभानि प्रातःसवने मरुत्वतीये तृतीयसवने च होत्रकाणाम् अप्रतिभूतम् इव हि शस्त्रम्) फिर यह ही त्रिष्टुप् छन्द वाले स्तोत्र प्रातःसवन में, मरुत्वतीय [माध्यन्दिन सवन] में और तीसरे सवन में सहायक होता लोगों का अप्रतिभूत [प्रतिभू अर्थात् स्थानी बिना] ही शस्त्र [स्तोत्र] हैं [अर्थात् त्रिष्टुप् तीनों सवनों में अवश्य बोला जाता है] । (धीतरसं वै एतत् सवनम्, यत् तृतीयसवनम्) पी चुके हुये रस वाला ही यह सवन है, जो तीसरा सवन है [तीसरे सवन से पहिले सोमरस पी लिया जाता है फिर किस लिये तीसरा सवन है—इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है] । (अथ ह एतत् अधीतरसं

१८—(शंशंसाव) पूर्वोत्तरस्य द्वित्वमार्षम्—गो० उ० ३ । १०, १६ तथा ४ । ४ । शंसाव । आवाम् शंसनं स्तोत्रं करवाव (ओम्) अनुमतौ (त्रैष्टुभम्) त्रैष्टुभानि । त्रिष्टुप्छन्दायुक्तानि । कर्मोपासनाज्ञानयुक्तानि (जागतानि) जगतीछन्दायुक्तानि । जगते हितानि (अप्रतिभूतम्) प्रतिभूरहितम् । स्थानिना

शुक्रिय छन्दः, यत् त्रिष्टुभा यातयामसवनस्य एव तत् सरसतायै) फिर यह बिना पीचुके हुये रस वाला, वार्यवान् छन्द [स्तोत्र] है, जो त्रिष्टुप् [तीनों सवनों में ठहरने वाले छन्द] के साथ बीते हुये योग्य समय वाले सवन के रसीलेपन के लिये है [देखो—ऐतरेय ब्रा० ६ । १२] । (सर्वे समवतीभिः परिदधति, यत् तत् समवतीभिः परिदधति) वे सब समवती ऋचाओं से [सम शब्द वाली ऋचाओं से जैसे—समं ज्योतिः सूर्येणअथर्व० ४ । १८ । १, इत्यादि मन्त्रों से] समाप्त करते हैं, क्योंकि वहां समवती ऋचाओं से वे समाप्त करते हैं । (अन्तः वै पर्यासः, अन्तः उदर्कः, अन्तः सजायाः उ ह वै अवेनाय अन्तेन एव अन्तं परिदधति=परिदधाति) अन्त ही पर्यास [विराम] है, अन्त ही उदर्क [अवसान वा विच्छेद अर्थात् रोक] है, अन्त ही संगति के रक्षक के लिये अन्त के साथ ही अन्त को समाप्त करता है । [एक एक विषय पर रुककर दूसरे को आरम्भ करके समाप्त किया जाता है] । (सर्वे मद्भवतीभिः यजन्ति, यत् तत् मद्भवतीभिः यजन्ति) वे सब मद्भवती [मद शब्द वाली] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं [याज्या ऋचा बोलते हैं], क्योंकि वहां मद्भवती ऋचाओं से वे यज्ञ करते हैं । (सर्वे सुतवतीभिः पीतवतीभिः अभिरूपाभिः यजन्ति) वे सब सुतवती [सुत शब्द वाली] ऋचाओं से, पीतवती [पीत शब्द वाली] ऋचाओं से और अभिरूप [विषय के अनुकूल] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं । [मद्भवती, सुतवती और पीतवती ऋचाओं के लिये देखो ऋग्० १ । १६ । ८ । और बहुवचन शब्द होने से ब्राह्मण में समस्त इस नौ ऋचा वाले सूक्त का ग्रहण अभीष्ट है । अभिरूप शब्द से यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता की स्तुति में उस देवता के सूचक पद आजावें] । (यत् यज्ञे अभिरूपं, तत् समृद्धम्) जो यज्ञ में विषय के अनुकूल कर्म है, वह समृद्ध है । (सर्वे स्विष्टकृत्वा अनुवषट् कुर्वन्ति) सब स्विष्टकृत् मन्त्र [यदस्य कर्मणो ऽत्यरीरिचं..... देखो—गो० उ० ३ । १] पढ़कर अनुवषट् [समाप्ति सूचक पद] पढ़ने हैं । (अनुवषट्कारः स्विष्टकृतं नेत् अन्तरयाम इति) अनुवषट्कार स्विष्टकृत् मन्त्र को कभी भी बीच [व्यवधान] से नहीं लेता [स्विष्टकृत् के

रहितम् (धीतरसम्) धेद् पाने—क । पीतसारम् (अधीतरसम्) अपीतसारम् । सर्वरसोपेतम् (शुक्रियम्) शुक्र—घ । वार्ययुक्तम् (यातयामसवनस्य) गतयोग्य कालसवनस्य (सरसतायै) सरसत्वाय (सजायाः) षञ्ज सङ्गे—क, ऋप् । सङ्गतेः (अवेनाय) श्यास्त्याह्वजविभ्य इनच् । उ० २ । ४६ । अत्र रक्षणादौ

पीछे ही अनुवपद् होता है] । (असौ वै लोकः तृतीयसवनम्) वह ही [सूर्य]
लोक तीसरा सवन है । (तस्य पञ्च दिशः, तृतीयसवनस्य पञ्च उक्थानि) उस
[सूर्य लोक] की पांच दिशाएँ [पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और एक ऊपर
नीचे की दिशा] हैं और तीसरे सवन के पांच उक्थ [समवती, मदवती,
सुनवती, पीनवती और अभिरूपा ऋचाओं वाले स्तोत्र] हैं । (सः एतैः
पञ्चभिः उक्थैः एताः पञ्चदिशः आप्नोति) वह [यजमान] इन पांच प्रकार
वाले स्तोत्रों से इन पांच दिशाओं को पाता है । (तत् यत् एषां लोकानां रूपं
या मात्रा) क्योंकि वह इन लोकों का रूप [आकार] है जो मात्रा [परिमाण]
है । (तेन रूपेण तथा मात्रया इमान् लोकान् ऋध्नोति, इमान् लोकान् ऋध्नोति
इति) उस ही रूप [आकार] से और उस मात्रा [परिमाण] से इन लोकों
को वह समृद्ध करता है, इन लोकों को वह समृद्ध करता है [अवश्य समृद्ध
करता है] ॥ १५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि देश और काल का विचार करके कार्य
करें जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हो ॥ १५ ॥

टिप्पणी १—(शस्त्रं) के स्थान पर (शस्त्रं) ठीक है, और (सरस्वतायै)
के स्थान पर (सरसतायै) ऐ० ब्रा० ६ । १२ से शुद्ध किया है ॥

टिप्पणी २—इस कण्डिका को प्रातःसवन में गो० उ० ३ । १६ और
माध्यन्दिन सवन में उ० ४ । ४ से मिलाओ और वहाँ पर ही प्रयोजनीय
मन्त्र हैं ॥

कण्डिका १६ ॥

तदाहुः, किं षोडशिनः षोडशित्वं, षोडश स्तोत्राणि षोडश शस्त्राणि
षोडशभिरक्षरैरादत्ते, द्वे वा अक्षरे अनिरिच्येते, षोडशिनोऽनुष्टुभमभिसम्प-
न्नस्य । वाचो वा एतौ स्तनौ, सत्यानृते वाव ते, अवत्यैनं, नैनमनृतं हिनस्ति, य
एवं वेद ॥ १६ ॥

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणस्य चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ४ ॥

—इनच्=एनच् । अविनाय । रक्षकाय (अन्तरयाम) गो० उ० ३ । १६ । अन्त-
र्याति । अन्तरेण गच्छति । अन्यद् गतम्—गो० उ० ३ । १६ ॥

कण्डिका १६ ॥ एकाह यज्ञ में षोडशी शब्द की व्याख्या ॥

(तत् आहुः, षोडशिनः किं षोडशित्वम्) वे कहते हैं—षोडशी [सोलह अङ्ग वाले यज्ञ] का क्या षोडशित्व [सोलहपन] है? [इस का समाधान] (षोडश स्तोत्राणि षोडश शस्त्राणि षोडशभिः अक्षरैः आदत्ते) सोलह स्तोत्रों और सोलह शस्त्रों को [आधे आधे अनुष्टुप् छन्द के] सोलह अक्षरों से वह [अध्वर्यु] ग्रहण करता है । (अनुष्टुभम् अभिसम्पन्नस्य षोडशिनः द्वे अक्षरे वै अतिरिच्येते) अनुष्टुप् रखने वाले षोडशी [स्तोत्र] के दो दो अक्षर बढ़ जाते हैं [आधे अनुष्टुप् के १६ अक्षरों के आदि और अन्त में ओम् शब्द बोलने से १८ अक्षर होते हैं—इस का समाधान] । (वाचः वै एतौ स्तनौ, ते वाव सत्यानृते) वाणी के [स्त्रीलिङ्ग होने से] यह दोनों स्तन [कुच वा चूची] हैं जो ही सत्य और भूठ हैं । (सत्यम् एनम् अवति अनृतम् एनं न हिनस्ति, यः एवं वेद) सत्य उस की रक्षा करता है और भूठ उस को नहीं सताता है जो ऐसा जानता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्य को उन्नति के लिये सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥

टिप्पणी १—एकाह यज्ञ समाप्त हुआ ॥

टिप्पणी २—इस कण्डिका को मिलाओ—ऐ० ब्रा० ४ । १ ॥

टिप्पणी ३—(ते वा) के स्थान पर (द्वे वा) ऐ० ब्रा० से शुद्ध किया है ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
वाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणभासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामथव-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित जेमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्य उत्तरभागे चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ॥

१६—(आदत्ते) गृह्णाति (अतिरिच्येते) अधिके भवतः (अभिसम्प-
न्नस्य) अभिप्राप्तस्य (स्तनौ) स्तन मेघशब्दे—अच् । स्त्रीणाम् अङ्गभेदौ (सत्या-
नृते) सत्यं यथार्थवदनं च अनृतं मिथ्यावदनं च (अवति) रक्षति (हिनस्ति)
दुःखयति ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे माघमासे शुक्लचतुर्दश्यां तिथौ १६८० [अशी-
त्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि
श्रीराजराजेश्वर पञ्चमजार्ज महोदयस्य सुमाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात् ॥

मुद्रितः—आश्विनशुक्ला ४ संवत् १६८१ वि० ता० २ आकटूबर सन् १६२४ ई० ॥

अथ पञ्चमः प्रपाठकः ॥

कण्डिका १ ॥

ओम् । अहवै देवा आश्रयन्त रात्रीमसुराः । तेऽसुराः समावद्भीर्या एवा-
सन् , नो व्यावर्त्तन्त । सोऽब्रवीत् इन्द्रः, कश्चाहं चेमानसुरान् रात्रीमन्ववैष्यामहा
इति । स देवेषु न प्रत्यविन्दत्, अविभयू रात्रेस्तमसः । मृत्योस्तम इव हि रात्रिः,
मृत्युर्वै तमः, तस्माद्धाप्येतर्हि भूयानिव नक्तम् । स यावन्मात्रमिवाप्रक्रम्य विभेति,
तं वै छन्दांस्येवान्ववायन् । तद्यच्छन्दांस्येवान्ववायन्, तस्मादिन्द्रश्च छन्दांसि च
रात्रिं वहन्ति, न निविच्छस्यते न पुरोरुङ् न धाय्या नान्या देवता । इन्द्रश्च ह्येव
छन्दांसि च रात्रिं वहन्ति तान्वै पर्य्यायैः पर्य्यायमनुदन्त । यत् पर्य्यायैः पर्य्याय-
मनुदन्त, तस्मात् पर्य्यायाः, तत् पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वम् । तान्वै प्रथमैरेव पर्य्यायैः
पूर्वरात्रादनुदन्त, मध्यमैर्मध्यरात्रादुत्तमैरपररात्रात् । अपिशर्वर्या अपिस्ससीत्य-
ब्रुवन् । तद्यदपि शर्वर्या अपिस्ससीत्यब्रुवन्, तदपिशर्वराणामपिशर्वरत्वम् । शर्व-
राणि खलु ह वा अस्यैतानि छन्दांसीति ह स्माह । एतानि ह वा इन्द्रं रात्र्यास्त-
मसो मृत्योरभिपत्यावारयन्, तदपिशर्वराणामपि शर्वरत्वम् ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ आख्यायिका—अतिरात्र यज्ञ में से इन्द्र और

छन्दों ने तीन पर्य्यायों में असुरों को निकाल दिया ॥

(ओम्) ओम् [हे परमेश्वर] । (देवाः वै अहः आश्रयन्त, असुराः
रात्रीम्) देवताओं ने दिन [प्रकाश वा ज्ञान] का आश्रय लिया और असुरों
ने रात्रि [अन्धकार वा अज्ञान] का । (ते असुराः समावद्भीर्याः एव आमन्
नो व्यावर्त्तन्त) वे असुर [देवताओं के] तुल्य पराक्रमी निश्चय करके थे,

१—(आश्रयन्त) आ-अश्रयन्त । आश्रितवन्तः । संवितवन्तः (समाव-
द्भीर्याः) पूर्वपदस्य दीर्घत्वं मतुपो योजनं चार्थम् । समवीर्याः । तुल्यपरा-

[इस लिये] वे न हटे । (सः इन्द्रः अब्रवीत् कः च अहं च इमान् असुरान् रात्रीम् अनु अवैष्यामहै इति) वह इन्द्र बोला—कौन और मैं [हम दोनों] इन असुरों को रात्रि में ढूढ़कर निकाल दें । (सः देवेषु न प्रत्यविन्दत्, रात्रेः तमसः अबिभयुः) उमने देवताओं में ढूढ़कर [किसी को भी] न पाया, वे रात्रि के अन्धकार से डर गये । (मृत्योः तमः इव हि रात्रिः, मृत्युः वै तमः) मृत्यु के अन्धकार के समान ही रात्रि है, मृत्यु [के समान] ही अन्धकार है । (तस्मात् ह अपि एतर्हि नक्तं भूयान् इव सः यावन्मात्रम् इव आप्रक्रम्य विभेति) इस लिये ही अब भी रात्रि में अधिकतर वह [प्रत्येक मनुष्य] थोड़ा भी बाहर जाकर डरता है । (छन्दांसि एव तं वै अनु अवायन्) छन्द [आह्लादक गायत्री आदि] ही उस [इन्द्र] के साथ साथ चले । (तत् यत् छन्दांसि एव अनु अवायन्, तस्मात् इन्द्रः च छन्दांसि च रात्रिं वहन्ति, न निवित् शस्यते, न पुरोरुक्, न धायया, न अन्या देवता) सो जो छन्द ही साथ साथ चले, इस लिये इन्द्र और छन्द रात्रि [अतिरात्र यज्ञ] को चलाते हैं, न निवित् [निश्चित विद्या स्तुति विशेष] बोली जाती है, न पुरोरुक् [आगे से प्रसन्न करने वाली स्तुति विशेष] न धाय्या [धारण करने योग्य, सामिधेनी ऋचा] न दूसरा देवता । (इन्द्रः च हि एव छन्दांसि च रात्रिं वहन्ति, तान् वै पर्य्यायैः पर्य्यायम् अनुदन्त) इन्द्र और छन्दों ने ही रात्रि [अतिरात्र यज्ञ] को चलाया, उन्होंने उन [असुरों] को ही पर्य्यायों [क्रम क्रम से] घेरकर निकाल दिया । (यत् पर्य्यायैः पर्य्यायम् अनुदन्त, तस्मात् पर्य्यायैः, तत् पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वम्) जो पर्य्यायों से घेरकर [उन को] उन्होंने निकाला, इस लिये वे पर्य्याय [घूम कर आने वाले] हैं, वह ही पर्य्यायों का पर्य्यायपन है । (तान् वै प्रथमैः एव पर्य्यायैः पूर्वरारात् अनुदन्त, मध्यमैः मध्यरात्रात्, उत्तमैः अपररात्रात्) उन [असुरों] को उन्होंने पहिले पर्य्यायों [घूम कर आने के व्यवहारों] के द्वारा रात्रि के पहिले भाग से निकाला, मध्यमों के द्वारा मध्यरात्रि से और पिछुलों के द्वारा

क्रमाः (नो) निषेधे (व्यावर्तन्त) वि + आ + वृत्तुः वर्तने—लङ् । निवृत्ता अभवन् (अनु) अनुगम्य (अवैष्यामहै) अव + आ + इष गतौ—लोट् । निःसारयाम (प्रत्यविन्दत्) प्रतीक्ष्य प्राप्तवान् (अबिभयुः) भीताः अभवन् (तमसः) अन्धकारात् (एतर्हि) इदानीम् (भूयान्) बहुतरः (यावन्मात्रम्) यत्किञ्चित् (इव) एव । अपि (छन्दांसि) गायत्र्यादीनि छन्दांसि (अन्यवायन्) अनु + अव + इण् गतौ—लङ् । अनुगम्य प्राप्ताः (रात्रिम्) रात्रिभवमतिरात्रयज्ञम्

पिच्छली रात्रि से । (अपिशर्वर्याः अपिस्सि—इति अब्रुवन्) वे [छन्द] बोले—
निश्चित रात्रि से [असुरों के निकालने को] हम उपस्थित हुये हैं । (तत् यत्
अपिशर्वर्याः अपिस्सि, इति अब्रुवन्, तत् अपिशर्वराणाम् अपिशर्वरत्वम्)
जो उन [छन्दों] ने कहा—निश्चित रात्रि से [असुरों के निकालने को] हम
उपस्थित हुये हैं, इस लिये अपिशर्वरों [निश्चित नाश करने वालों] का अपि-
शर्वरत्व [निश्चित नाश करने वाला व्यवहार] है । (शर्वराणि खलु ह वै
अस्य एतानि छदांसि इति ह स्म आह) [निश्चय कर के असुरों के] नाश
करने वाले इस [यज्ञ] के यह छन्द हैं—यह वह [ऋषि] कहता है । (एतानि
ह वै इन्द्रं रात्र्याः मृत्योः तमसः अभिपत्य अब्रुवन्, तत् अपिशर्वराणाम्
अपिशर्वरत्वम्) इन [छन्दों] ने ही इन्द्र को रात्रि के मृत्यु [के समान]
अन्धकार से निकाल कर स्वीकार किया, इस लिये अपिशर्वरों [निश्चित
नाश करने वालों] का अपिशर्वरत्व [निश्चित नाश करने वाला व्यव-
हार] है ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि सदा सावधान रह कर पर्यायों अर्थात्
पहरुओं द्वारा परस्पर रक्षा करें जिस से निशाचर चोर डाकू आदि कष्ट
न दें ॥ १ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को मिलाओ—पे० ब्रा० ४ । ५ ॥

टिप्पणी २—शुद्धिपत्र इस प्रकार है ।

(वहन्ति) निर्वहन्ति (निवित्) सत्सूद्विषद्बुहदुहयुजविद० । पा० ३ । २ ।
६१ । नि+विद् ज्ञाने—क्विप् । विवित्, वाङ्नाम—निघ० १ । ११ । निश्चित-
विद्या । स्तुतिविशेषः (पुरोरुक्) पुरः+रुच दीतावभिप्रीतौ च—क्विप् ।
स्तुतिविशेषः (धाव्या) पाठ्यज्ञात्रायनिकायधाय्या० । पा० ३ । १ । १२६ ।
दधातेएर्यत् । अग्निज्वालनार्था ऋक् । सामिधेनी (पर्यायैः) परि+इण् गतौ
—घञ् । अनुक्रमैः (पर्यायम्) पर्याय—णमुल् । परीत्य (अनुदन्त) निःसारि-
तवन्तः (पूर्वरात्रात्) रात्रिप्रथमभागात् (अपिशर्वर्याः) कृगृशृवृञ्चतिभ्यः
ष्वरच् । उ० २ । १२१ । शृ हिंसायां—ष्वरच्, डीप् । निश्चयेन रात्रेः सकाशात्
(अपिस्सि) अपिस्सः । निश्चयेन तिष्ठामः (अपिशर्वराणाम्) निश्चयेन
असुरादिनाशकानाम् (शर्वराणि) असुरनाशकानि (अभिपत्य) उद्घृत्य (अवा-
रयन्) स्वीकृतवन्तः ॥

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
इन्द्रस्य [दो बार]	इन्द्रश्च [दो बार]	ऐ० ब्रा० ४ । ५
निविद्यस्यते	निविच्छस्यते	”
पुरारत्	पुरोरुङ्	”
अपिशर्वर्याः [दो बार]	अपिशर्वर्याः [दो बार]	”

कण्डिका २ ॥

प्रथमेषु पर्यायेषु स्तुवते, प्रथमान्येव पदानि पुनराददते । यदेवैषां मनो-
रथा आसन्, तदेवैषान्तेनाददते । मध्यमेषु पर्यायेषु स्तुवते, मध्यमान्येव पदानि
पुनराददते । यदेवैषामश्वा गाव आसन्, तदेवैषां तेनाददते । उत्तमेषु पर्या-
येषु स्तुवते, उत्तमान्येव पदानि पुनराददते । यदेवैषां वासो हिरण्यं मणिरध्या-
त्ममासीत्, तदेवैषां तेनाददते । आ द्विषता वसु दत्ते, निरेवैनमेभ्यः सर्वेभ्यो
लोकेभ्यो जुदते, य एवं वेद ॥ २ ॥

कण्डिका २ ॥ अतिरात्र यज्ञ के तीन पर्यायों में तीन प्रकार से स्तुति ॥

(प्रथमेषु पर्यायेषु स्तुवते, प्रथमानि एव पदानि पुनः आददते) पहिले
पर्यायों में वे [ऋत्विज] स्तुति करते हैं, [मन्त्रों के] पहिले ही पदों को वे
दो बार लेते हैं [बालते हैं] । (यत् एव एषां मनोरथः आसन्, एषां तत् एव
तेन आददते) जो कुछ भी इन [असुरों] के मनोरथ होते हैं, उन के उन
[मनारथों] को उस के द्वारा वे ले लेते हैं । (मध्यमेषु पर्यायेषु स्तुवते, मध्य-
मानि एव पदानि पुनः आददते) मध्य वाले पर्यायों में वे स्तुति करते हैं,
[मन्त्रों के] मध्य वाले ही पदों को वे दो बार लेते हैं । (यत् एव एषाम् अश्वाः
गावः आसन्, एषां तत् एव तेन आददते) जो कुछ भी इन [असुरों] के घोड़े
और गौय हैं उन के उनको ही वे उस के द्वारा ले लेते हैं । (उत्तमेषु पर्यायेषु
स्तुवते, उत्तमानि एव पदानि पुनः आददते) पिछले पर्यायों में वे स्तुति करते
हैं, [मन्त्रों के] पिछले ही पदों को वे दो बार लेते हैं । (यत् एव एषां वासः
हिरण्यं मणिः अध्यात्मम् आसीत्, एषां तत् एव तेन आददते) जो कुछ भी इन

२—(स्तुवते) स्तुवन्ति (पुनः) द्विवारम् (आददते) गृहणन्ति (मनो-
रथाः) इच्छाव्यवहाराः (एषाम्) असुराणाम् (आसन्) सन्ति (अध्यात्मम्)

[असुरों] का वस्त्र, सुवर्ण, और मणि शरीर पर वर्तमान है, उन का उस को ही उस के द्वारा वह ले लेते हैं । (द्विषतः वसु आ दत्ते, एनम् एभ्यः सर्वेभ्यः लोकेभ्यः एव निर्नुदते, यः एवं वेद) वह [मनुष्य] शत्रु का धन ले लेता है और इस [शत्रु] को इन सब लोकों से निकाल देता है, जो ऐसा विद्वान् है ॥ २ ॥

भावार्थ—नाति निपुण पुरुष सावधानी से शत्रुओं को अनेक प्रकार से आधीन करें ॥ २ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को मिलाओ—ऐ० ब्रा० ४ । ६ ॥

कण्डिका ३ ॥

पवमानवदहरित्याहुः, न रात्रिः पवमानवती, कथमुभे पवमानवती भवतः, केन ते समावद्भाजौ भवत इति । यदेवेन्द्राय मद्रने सुतमिदं वसो सुतमन्ध इदं ह्यन्त्रोजसा सुतमिति स्तुवन्ति च शंसन्ति च, तेन रात्रिः पवमानवती, तेनोभे पवमानवती भवतः, तेन ते समावद्भाजौ भवतः । पञ्चदशस्तोत्रमहरित्याहुः, न रात्रिः पञ्चदशस्तोत्रा, कथमुभे पञ्चदशस्तोत्रे भवतः, केन ते समावद्भाजौ भवत इति । द्वादशस्तोत्रायपिशर्वराणि तिसृभिर्देवताभिः सन्धिना राथन्तरेणाश्विना यः स्तुवते, तेन रात्रिः पञ्चदशस्तोत्रा, तेनोभे पञ्चदशस्तोत्रे भवतः, तेन ते समावद्भाजौ भवतः । परिमितं स्तुवन्त्यपरिमितमनुशंसन्ति, परिमितं भूतमपरिमितं भव्यमपरिमितान्येवावस्वन्ध्यादित्यतिशंसन्ति । स्तोममति वै प्रजास्यात्मानमति पशवः । तद्यदेवास्यात्मानन्तदेवास्यैतेनाप्याययन्ति । अथो द्वयं वा इदं सर्वं स्नेहश्चैव तत्तेजश्च । अथ तद्द्वारात्राभ्यामाप्यं स्नेहतेजसोराप्यै । गायत्रीं स्तोत्रियानुरूपं शंसन्ति, तेजां वै गायत्री, तमः पाप्मा, रात्रिस्तेन तेजसा तमः पाप्मानन्तरन्ति पुनरादायं, शंसन्ति । एवं हि सामगाः स्तुवते, यथास्तुतमनुशस्तं भवति । न हि तत् स्तुतं यन्नानुशस्तम् । तदाहुः, अथ कस्मादुत्तमात् प्रतीहारादाह्वय साम्ना शस्त्रमुपसन्तन्वन्तीति ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ अतिरात्र यज्ञ में पवमान आदि स्तोत्रों का विचार ॥

(पवमानवत् अहः इति आहुः, रात्रिः पवमानवती न, कथम् उभे पव-

आत्मानं शरीरमधिकृत्य वर्तमानम् । शरीरे अवस्थितम् (आसीत्) अस्ति (द्विषतः) शत्रोः (आदत्ते) गृह्णाति ॥

३—(पवमानवत्) पवमानस्तोत्रयुक्तम् (उभे) अहोरात्रे (समावद्भाजौ)

मानवती भवतः, केन ते समावद्भाजौ भवतः इति) वे [ब्रह्मवादी] कहते हैं दिन [यज्ञ] पवमान स्तोत्र वाला है, और रात्रि [यज्ञ] पवमान स्तोत्र वाली नहीं है, कैसे दोनों [दिन और रात] पवमान स्तोत्र वाले होते हैं और किस कारण से वे दोनों एकसे भाग वाले होते हैं । [इस का समाधान] (इन्द्राय मद्बुधने सुतम्, इदं वसो सुतमन्धः, इदं हि अन्वोजसा सुतम् इति—यत् एव स्तुवन्ति च शंसन्ति च, तेन रात्रिः पवमानवती, तेन उभे पवमानवती भवतः, तेन ते समावद्भाजौ भवतः) इन्द्राय मद्बुधने सुतम्.....ऋ० ८ । ६२ [सायणभाष्य ८१] । १६, साम० उ० २ । ७ । ४ ।, इदं वसो सुतम् अन्धः.....ऋ० ८ । २ । १, सा० पू० २ । ३ । १०, इदं हि अनु अोजसा सुतम्.....ऋ० ३ । ५१ । १०, सा० पू० २ । ८ । १, इन [तीन मन्त्रों] से वे उद्गाता लोग] स्तोत्र पढ़ते हैं और [होता लोग] शस्त्र पढ़ते हैं, इस से रात्रि पवमान स्तोत्र वाली है [क्योंकि तीनों मन्त्रों में सुत—निचोड़ा गया साम—शब्द पवमानवाची है], इस से दोनों पवमान स्तोत्र वाले हैं, इस कारण से वे दोनों एकसे भाग वाले हैं ॥

(पञ्चदशस्तोत्रम् अहः इति आहुः रात्रिः पञ्चदशस्तोत्रा न, कथम् उभे पञ्चदशस्तोत्रे भवतः, केन ते समावद्भाजौ भवतः इति) वे [ब्रह्मवादा] कहते हैं—दिन पन्द्रह स्तोत्र वाला है, और रात्रि पन्द्रह स्तोत्र वाली नहीं है, कैसे दोनों [दिन और रात्रि] पन्द्रह स्तोत्र वाले हैं और किस कारण से वे दोनों एक से भाग वाले होते हैं । [इस का समाधान] (द्वादशस्तोत्राणि अपिशर्वराणि तिसृभिः देवताभिः, राथन्तरेण सन्धिना अश्विना यः स्तुवते, तेन रात्रिः पञ्चदशस्तोत्रा, तेन उभे पञ्चदशस्तोत्रे भवतः तेन ते समावद्भाजौ भवतः) तीन देवताओं सहित बारह स्तोत्र वाले अपिशर्वरस्तोत्र हैं [आगे टिप्पणी ४ देखो, उन स्तोत्रों में] राथन्तर साम की ध्वनि वाले सन्धि [प्रातःकालीन स्तोत्र] से दोनों अश्वियों [दिन रात के मेल] को जो [ऋत्विज] स्तुति करता है, उस से रात पन्द्रह स्तोत्र वाली है, उस से वे दोनों पन्द्रह स्तोत्र वाले होते हैं, और उसी कारण से वे दोनों एक से भाग वाले होते हैं । (परिमितं स्तुवन्ति,

समानभागयुक्ते (मद्बुधने) अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । पा० ३ । २ । ७५ । मदी हर्षे—कनिष् । हर्षशीलाय (सुतम्) अभिषुतं सोमम् (वसो) हे वासयितः (अन्धः) अन्नम् (अोजसा) बलेन (स्तुवन्ति) उद्गातारः स्तोत्रं पठन्ति (शंसन्ति) होतारः शस्त्रं पठन्ति (पवमानवती) पवमानस्तोत्रयुक्ता । तथा, द्विवचनस्य ईकारादेशः चा० पा० ७ । १ । ३६ । पवमानवत्यौ (सन्धिना) प्रातःसन्धिना (राथन्तरेण) राथ-

में अनुशस्त्र न हो । (तत् आहुः, अथ कस्मात् उत्तमात् प्रतीहारात् आहूय साम्ना शस्त्रम् उपसन्तन्वन्ति इति) वे कहते हैं—फिर किस लिये सब से पिछले प्रतीहार [प्रतिहर्ता के गाने योग्य स्तोत्र] से बोलकर सामगान के साथ शस्त्र को समीप में वे बढ़ाते हैं [इस का उत्तर ऊपर आचुका है] ॥ ३ ॥

भावार्थ—अवसर को विचार कर स्तुति करनी योग्य है ॥ ३ ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को मिलाओ—ऐ० ब्रा० ४ । ६ ॥

टिप्पणी २—(उभ) के स्थान में (उभे) ऐ० ब्रा० से शुद्ध किया गया है ॥

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—इन्द्राय मद्बवने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । अर्कमर्चन्तु कारवः—
ऋग्० ८ । ६२ [सायण भाष्य ८१] । १६, साम० २ । ७ । ४ ॥ (नः गिरः)
हमारी वाणियों (मद्बवने) हर्षशील (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले वीर
पुरुष] के लिये (सुतम्) सुत [निचोड़े हुये तत्त्व रस] को (परि स्तोभन्तु)
सब ओर से सराहें, और (कारवः) स्तुति करने वाले लोग (अर्कम्) पूजनीय
[वीर] को (अर्चन्तु) पूजें ॥

२—इदं वसो सुतमन्धः पिबो सुपूर्णमुदरम् । अनाभयिन् ररिमा ते—
ऋग्० ८ । २ । १, साम० पू० ३ । २ । १० ॥ (वसो) हे वसु ! [वसाने वाले इन्द्र
राजन्] (इदम्) इस (सुतम्) सुत [निचोड़े हुये] (अन्धः) अन्न [तत्त्व-
रस] को (सुपूर्णम् उदरम्) भले प्रकार भर पेट (पिब) पी, (अनाभयिन्)
हे निर्भय ! (ते) तुम्हें (ररिमा) [वह] हम देते हैं ॥

३—इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबो त्वशस्य गिर्वणः—ऋग्०
३ । ५१ । १०, साम० पू० २ । ८ । १ ॥ (राधानां पते) हे धनों के स्वामी !
[इन्द्र राजन्] (इदं हि) यह ही (ओजसा) बल के साथ (अनु) निरन्तर
(सुतम्) सुत [निचोड़ा गया तत्त्व रस] है, (गिर्वणः) हे स्तुतियों से सेव-
नीय ! (अस्य) इस [तत्त्वरस] का (तू) तौ (पिब) पान कर ॥

टिप्पणी ४—बारह स्तोत्र वाले अपिशर्वर छह मन्त्र प्रातः सन्धि में
रथन्तर साम की ध्वनि से गाये जाते हैं । छह मन्त्रों के अर्धर्च अर्धर्च करके
पाठ करने से बारह हो जाते हैं [देखो—गो० उ० ६ । ८], तीन देवता इस

व्यम् (आदायम्) आदाय । गृहीत्वा (सामगाः) उद्गातारः (प्रतीहारात्)
प्रति + ह्य् प्रापयो—घञ्, वा दीर्घः । प्रतिहर्ता गातव्यात् स्तोमात् ॥

प्रकार हैं—पहिले और दूसरे मन्त्र अग्नि, तीसरे और चौथे उषा तथा पांचवें और छठे अश्विनौ देवता वाले हैं । साम वेद में यह छह मन्त्र एक स्थान पर हैं ॥

१, २ अग्निदेवता ॥

१—ए॒ना वो॑ अ॒ग्निं नम॑सो॒र्जो नपा॑त॒मा हु॑वे । प्रि॒यं चेति॑ष्ठम॒रुतिं स्व॑-
ध्व॒रं वि॒श्वस्य॑ दू॒तम॒मृत॑म्—ऋग्० ७ । १६ । १, यजु० १५ । ३२, साम० १ । २ ।
१३ ॥ (एना नमसा) इस अन्न वा सत्कार से (वः) तुम्हारे लिये (ऊर्जः
नयातम्) पराक्रम के न गिराने वाले, (प्रियम्) प्रिय, (चेतिष्ठम्) अत्यन्त
चेताने वाले, (अरतिम्) गति वाले [पुरुषार्थी], (स्वध्वरम्) अच्छे प्रकार
हिंसा रहित व्यवहार वाले, (विश्वस्य दूतम्) सब के कार्य साधने वाले,
(अमृतम्) न मरने वाले (अग्निम्) अग्नि [अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान्]
को (आ हुवे) मैं बुलाता हूँ ॥

२—स यो॑जते अ॒रुषा॑ वि॒श्वभो॑जसा॒ स दु॑द्रव॒त् स्वा॑हुतः । सु॒ब्रह्मा॑ य॒ज्ञः
सु॒शमी॑ वसू॒नां दे॒वं राधो॑ जना॒नाम्—ऋ० ७ । १६ । २, यजु० १५ । ३३ । ३४
भेद सं, साम० ३० १ । २ । १३ ॥ (सः) वह [अग्नि समान तेजस्वी विद्वान्]
(विश्व भोजसा) संसार के रक्षा करने वाले (अरुषा) तेज से (योजते) युक्त
होता है, (स्वाहुतः) अच्छे प्रकार बुलाया गया (सः) वह (दुद्रवत्) शीघ्र
पहुचता है, वह (सुब्रह्मा) सुन्दर अन्न वा धनों वाला वा अच्छे प्रकार चारों
वेद जानने वाला, (यज्ञः) संगति योग्य (सुशमी) सुन्दर कर्मों वाला, (जनानाम्)
मनुष्यों के लिये (वसूनाम्) धनों के बीच (देवम्) प्रकाशमान (राधः) धन
[के समान] है ॥

३, ४ उषा देवता ॥

३—प्र॒त्यु॑ अ॒दर्श्या॑य॒त्यु॑ च्छन्ती॑ दु॒हिता॑ दि॒वः । अपो॑ महि॑ व्ययति॒
चक्ष॑से तमो॑ ज्योति॑ष्कृ॒णोति॑ सून॒री—ऋ० ७ । २१ । १, साम० ३० १ । २ । १४
भेद से ॥ (आयती) आती हुई (उच्छन्ता) अन्धकार निकालती हुई (दिवः)
सूर्य की (दुहिता) पुत्रा [उषा, प्रभात बेला] (उ) निश्चय करके (प्रति
अदर्शि) प्रत्यक्ष देखी जाती है, वह (महि तमः) बड़े अन्धकार को (अपो
व्ययति) हटा देती है, (सूनरी) सुन्दर नत्री [अच्छे प्रकार ले चलन वाली
वह] (चक्षसे) देखने के लिये (ज्यातः) ज्योति [उजाला] (कृणोति)
करती है ॥

४—उ॒दुस्त्रि॑याः सृ॒जते॑ सूर्यः॑ सर्वा॑ उ॒द्यन् नक्ष॑त्रमर्चि॒वत् । तवे॑दुषा॑

मन्त्रयते, ब्रह्मन् स्तोष्यामः प्रशास्तरिति । मनोग्रणीर्भवति एतेषां प्राणानां, मनसा हि प्रसूताः स्तामेन स्त [स्तु] यामेति, प्राणानेव तत् मनसा सन्दधाति । अथ यद् ब्रह्मा स्तुतेत्युच्चरनुजानाति, मनो वै ब्रह्मा, मन एव तत् प्राणैः सन्दधाति । अथ यत् प्रस्तोता प्रस्तौति, अपानमेव तत् प्राणैः सन्दधाति । अथ यत् प्रतिहर्त्ता प्रतिहरति, व्यानमेव तदपानैः सन्दधाति । अथ यदुद्गाताद्गायति, समानमेव तत् प्राणैः सन्दधाति । अथ यद्धोता साम्ना शस्त्रमुपसन्तनोति, वाग्वै होता, वाचमेव तत् प्राणैः सन्दधाति । अथ यत् सदस्यो ब्रह्माणमुपासीदति, प्रजापतिर्वै सदस्यः, प्रजापतिमेवाप्नोति । अथ यद्धोत्राशंसिनः सामं सन्तति [सामसन्तति] कुर्वन्ति, अङ्गानि वै होत्राशंसिनः, अङ्गान्येवास्य तत् प्राणैः सन्दधाति । अथ यद्यजमानस्तात्रमुपासीदति, आत्मा वै यजमानः, आत्मानमेवास्य तत् कल्पयति । तस्मान्नैन वहिर्वेद्यभ्याश्रावयेयुर्नाभ्युदियान्नाभ्यस्तमियान् नाधिष्ये प्रतपेन्नेत् प्राणेभ्य आत्मानमन्तरगादिति ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ ॥ यज्ञ का मनुष्य के अङ्गों और ऋत्विजों का प्राणों आदि के दृष्टान्त से वर्णन ॥

(पुरुषः वै यज्ञः) पुरुष [कं समान] ही यज्ञ है । (तस्य शिरः एव हविधानम्) उस [यज्ञ] का शिर हविधान [हविःस्थान] ही है, (मुखम् आहवनीयः) मुख आहवनीय [आग्नि] है, (उदरं सदः) पेट सद [यज्ञशाला] है, (अन्तः उक्थानि) भीतर वाली [आत] उक्थ [स्तात्र] ह, (बाहू मार्जालीयः च आग्नीधीयः च) दानों भुजाय मार्जालीय [शुद्धिस्थान] और आग्नीधीय [अग्नि का स्थान] है, (याः इमाः देवताः ते अन्तःसदः) जा यह देवता [इन्द्रियां] है, वे भीतर बैठन वाले [सभासद] है, (सन्धिष्ये प्रातष्ठे गार्हापत्यव्रतश्रवणौ इति) सन्धिष्ये और प्रातष्ठे [पेट की गांठ और तलुआ देनों] गार्हापत्य और व्रत श्रवण [यज्ञाग्नि विशेष] है ॥

(अथ तस्य अपरम्) फिर इस [यज्ञ] का दूसरे प्रकार [वर्णन] है । (मनः एव ब्रह्मा) मन [यज्ञ के मन समान] ही ब्रह्मा [चारों वेद जानने

४—(अन्तः) शरीरमध्ये भवन्ति । आन्त्राणि (मार्जालीयः) स्वाचति-मृजेरालज्वालज्वालीयचः । उ० १ । ११६ । मृजू शौचालङ्कारयोः—आलीयच् । शोधनदेशः (आग्नीधीयः) स्वार्थे—छ । आग्नीध्रम् । हेतुर्गृहम् । अग्निस्थानम् (देवताः) इन्द्रियाणि (अन्तःसदः) सभासदः (सन्धिष्ये प्रातष्ठे) पादग्रन्धि-

वाला ऋत्विज] है, (प्राणः उद्गाता) प्राण उद्गाता है, (अपानः प्रस्तोता) अपान प्रस्तोता है, (व्यानः प्रतिहर्ता) व्यान प्रतिहर्ता है, (वाक् होता) वाक् [जिह्वा] होता है, (चक्षुः अध्वर्युः) नेत्र अध्वर्यु है, (प्रजापतिः सदस्यः) प्रजापति [प्रजाओं इन्द्रियों का पालने वाला व्यवहार] सदस्य है, (अङ्गानि होत्राशंसिनः) अङ्ग होत्राशंसी [ऋचा बालने वाले] लोग हैं, (आत्मा यजमानः) और आत्मा [समान] यजमान है । (सोमः पवते.....-इति तत् यत् अध्वर्युः स्तोत्रम् उपाकरोति, चक्षुः एव तत् प्राणैः सन्दधाति) सोमः पवते.....१, इस मंत्र से जब वह अध्वर्यु स्तोत्र को विधि पूर्वक आरम्भ करता है, नेत्र को ही उस से प्राणों के साथ वह मिलाता है, (अथ यत् प्रस्तोता ब्रह्माणम् आमन्त्रयते, ब्रह्मन् प्रशास्तः स्तोष्यामः इति) फिर जब प्रस्तोता ब्रह्मा को बुलाता है—हे ब्रह्मन् ! हे प्रशास्ता ! [शासक] हम स्तुति करेंगे । (मनः पतेपां प्राणानाम् अग्रणीः भवति, मनसा हि प्रसूताः स्तोमेन स्तयाम [स्तुयाम] इति, प्राणान् एव तत् मनसा सन्दधाति) मन इन प्राणों का अग्रणी [आगे ले चलने वाला प्रधान] होता है, मन से ही प्रेरणा किये हुये हम स्तोत्र के साथ स्तुति करें—इस प्रकार प्राणों को ही उस से मन के साथ वह मिलाता है । (अथ यत् ब्रह्मा स्तुत इति उच्चैः अनुजानाति, मनः वै ब्रह्मा, मन एव तत् प्राणैः सन्दधाति) फिर जब ब्रह्मा ऊंचे स्वर से अनुमति देता है—तुम स्तुति करो—मन ही ब्रह्मा है, मन को ही उस से प्राणों के साथ मिलाता है । (अथ यत् प्रस्तोता प्रस्तौति, अपानम् एव तत् प्राणैः सन्दधाति) फिर जब प्रस्तोता प्रस्तोत्र बोलता है, अपान को ही उस से प्राणों के साथ वह मिलाता है । (अथ यत् प्रतिहर्ता प्रतिहरति, व्यानम् एव तत् अपानैः सन्दधाति) फिर जब प्रतिहर्ता प्रतिहार स्तोत्र बोलता है, व्यान को ही उस से अपानों के साथ वह मिलाता है । (अथ यत् उद्गाता उद्गायति, समानम् एव तत् प्राणैः सन्दधाति) फिर

श्च पादतलं च (वाक्) जिह्वा (प्रजापतिः) इन्द्रियपालकव्यवहारः (उपाकरोति) विधिपूर्वकमारभते (सोमः) सर्वोत्पादकः परमेश्वरः (पवते) शुद्धोऽस्ति (सन्दधाति) संयोजयति (अग्रणीः) अग्र + णीञ् प्रापणे—क्विप् । अग्रनेता । प्रधानः (प्रसूताः) प्रेरिताः । (स्तयाम्) लेखप्रमादः । स्तुयाम् । स्तुतिं कुर्याम (अनुजानाति) अनुमन्यते (सामं सन्तति) लेखप्रमादः । सामसन्ततिम् । सामगानविस्तृतिम् (कल्पयति) समर्थयति (वहिर्वेदि) अपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्या । पा० २ । १ । १२ । समासान्तोऽव्ययीभावः । वेद्याः सका-

जब उद्गाता [उत्तम गाने वाला] उद्गान [उत्तम साम गान] करता है, समान वायु को ही उस से प्राणों के साथ वह मिलाता है । (अथ यत् होता साम्ना शस्त्रम् उपसन्तनेति, वाक् वै होता, वाचम् एव तत् प्राणैः सन्दधाति) फिर जब होता साम गान के साथ शस्त्र [स्तोत्र] को अच्छे प्रकार फैलाता है, वाक् [जिह्वा] ही होता, [हवन करने वाला] है, जिह्वा को ही उस से प्राणों के साथ वह मिलाता है । (अथ यत् सदस्यः ब्रह्माणम् उपासीदति, प्रजापतिः वै सदस्यः, प्रजापतिम् एव आप्नोति) फिर जब सदस्य ब्रह्मा [मन] के पास बैठता है, प्रजापति [प्रजापालक] ही सदस्य है, प्रजापति [प्रजापालक व्यवहार] को ही वह पाता है । (अथ यत् होत्राशंसिनः सामं सन्तति [साम-सन्तति] कुर्वन्ति, अङ्गानि वै होत्राशंसिनः, अस्य अङ्गानि एव तत् प्राणैः सन्दधाति) फिर जब होत्राशंसी लोग साम गान का फैलाव करते हैं, अङ्ग ही होत्राशंसी लोग हैं, इस [यजमान] के अङ्गों को उस से प्राणों के साथ वह मिलाता है । (अथ यत् यजमानः स्तोत्रम् उपासीदति, आत्मा वै यजमानः, अस्य आत्मानम् एव तत् कल्पयति) फिर जब यजमान स्तोत्र को समीप से सेवता है, आत्मा ही यजमान है, इस [यजमान] के ही आत्मा को उस से वह [ऋत्विज] समर्थ करता है । (तस्मात् एनं वहिर्वेदि न अभ्याश्रावयेयुः) इस लिये इस से [आवश्यकता के लिये बाहिर जाने पर यजमान से] वेदी से बाहिर स्थान में वे [ऋत्विज] न वात चीत करें, (न अभ्युदियात् न अभ्यस्तमियात्) न [उस को दूसरे स्थान में] सूर्य उदय हो और न अस्त हो [दिन रात यजमान यज्ञ शाला में रहै], (न अधिष्ये प्रतपेत्) वह [यजमान] धिष्ये [यज्ञाग्नि] से अन्यत्र न तापे, (प्राणेभ्यः आत्मानम् अन्तः नेत् अगात्) और प्राणों से [अलग पदार्थों को] अपने भीतर न आने दे ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य प्राण अपान आदि प्राणों और जिह्वा नेत्र आदि इन्द्रियों को सावधान रखते हैं, वे अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं ॥

टिप्पणी—प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है ॥

१—सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः—ऋग्० ६ । ६६ । ५,

शाद् वहिर्देशे (अभ्याश्रावयेयुः) अभ्याश्रावणम् अभितोवार्तालापं कुर्युः (अभ्यु-
दियात्) उदयं प्राप्नुयात् (अस्तमियात्) अस्तं गच्छेत् (अधिष्ये) धिष्ये-
नामकाग्निसकाशाद् भिन्नदेशे (अन्तः) मध्ये (अगात्) प्राप्नुयात् ॥

साम० पू० ६ । ४ । ५ ॥ (सोमः) सोम [सर्वोत्पादक परमेश्वर] (पवते) शुद्ध है [वा व्यापक है], वह (मतीनाम्) मननशील मनुष्यों का (जनिता) उत्पन्न करने वाला, (दिवः) आकाश [वा व्यवहार] का (जनिता) उत्पन्न करने वाला, (पृथिव्याः) पृथिवी का (जनिता) उत्पन्न करने वाला, (अग्नेः) अग्नि का (जनिता) उत्पन्न करने वाला, (सूर्यस्य) सूर्य का (जनिता) उत्पन्न करने वाला, (इन्द्रस्य) बिजुली [वा ऐश्वर्य] का (जनिता) उत्पन्न करने वाला (उत) और (विष्णाः) विष्णु [व्यापक वायु आदि] का (जनिता) उत्पन्न करने वाला है ॥

कण्डिका ५ ॥

प्रथमेषु पर्यायेषु स्तुवते, प्रथमेषु पदेषु निनर्दयन्ति, प्रथमरात्रादेव तदसुरान्निरघ्नन्ति । मध्यमेषु पर्यायेषु स्तुवते, मध्यमेषु पदेषु निनर्दयन्ति, मध्यमरात्रादेव तदसुरान्निरघ्नन्ति । उत्तमेषु पर्यायेषु स्तुवते, उत्तमेषु निनर्दयन्ति, उत्तमरात्रादेव तदसुरान्निरघ्नन्ति । तद्यथाभ्याघारात् पुनः पुनः पाप्मानं निर्हरन्त्येवमेवैतत् स्तोत्रियानुरूपाम्ब्यामहोरात्राभ्यामेव तदसुरान्निरघ्नन्ति । गायत्रीं शंसन्ति, तेजो वै ब्रह्मवर्चसं गायत्री, तेज एवास्मै तत् ब्रह्मवर्चसं यजमाने दधति । गायत्री [गायत्रीं] शस्त्वा जगतीं शंसन्ति, ब्रह्म ह वै जगती, ब्रह्मणो-वास्मै तद् ब्रह्मवर्चसं यजमाने दधति । व्याह्वयन्ते गायत्रीश्च जगतीश्चान्तरेण, छन्दांत्येव तं नानावीर्याणि कुर्वन्ति । जगतीः शस्त्वा त्रिष्टुभः शंसन्ति, पशवो वै जगती, पशूनेव तत् त्रिष्टुभः परिदधति । बलं वै वीर्यं त्रिष्टुप्, बलमेव तद्वीर्येऽन्ततः प्रतिष्ठापयति । अन्धस्वस्थो मद्भृत्यः सुतवत्यः पीतवत्यस्त्रिष्टुभो याज्याः समृद्धाः सुलक्षाः, एतद्वै रात्रीरूपं जाग्रियात् । रात्रिं यावदु ह वै न वा स्तुवते न वा शस्यते, तावदीश्वरा असुररक्षांसि च यज्ञमनुवनयन्ति । तस्मादाहवनीयं समिधमाग्नीध्रीयं गार्हपत्यं धिष्यं समुज्व [ज्व] लयते । अतिभाषयेरनुज्वलयेरनु प्रकाशमिव वै तस्यादारे भिन्नं सुवीरंस्तान् हातःश्रेष्ठो वा इति पाप्मानं भिवृकोति । ते तमःपाप्मानमपाघ्नते तेतमःपाप्मानमपाघ्नते ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ यज्ञ के पर्यायों में स्तोत्रों और शस्त्रों के प्रयोग ॥

(प्रथमेषु पर्यायेषु स्तुवते, प्रथमेषु पदेषु निनर्दयन्ति, प्रथमरात्रात् एव तत् असुरान् निरघ्नन्ति) पहिले पर्यायों में [क० २] वे स्तोत्र पढ़ते हैं, पहिले

५—(स्तुवते) स्तुवन्ति (निनर्दयन्ति) उच्चैः शब्दयन्ति (निरघ्नन्ति)

पदों में ऊंचे बोलते हैं, रात्रि के प्रथम भाग से ही तब असुरों को निकाल मारते हैं । (मध्यमेषु पर्यायेषु स्तुवते, मध्यमेषु पदेषु निनर्हयन्ति, मध्यमरात्रात् एव तत् असुरान् निरघ्नन्ति) मध्यम पर्यायों में वे स्तोत्र पढ़ते हैं, मध्यम पदों में ऊंचे बोलते हैं, रात्रि के मध्य से ही तब असुरों को निकाल मारते हैं । (उत्तमेषु पर्यायेषु स्तुवते, उत्तमेषु निनर्हयन्ति, उत्तमरात्रात् एव तत् असुरान् निरघ्नन्ति) पिछले पर्यायों में वे स्तोत्र पढ़ते हैं, पिछले [पदों] में ऊंचे बोलते हैं, रात्रि के पिछले भाग से ही तब असुरों को निकाल मारते हैं । (तत् यथा अभ्याधारात् पुनः पुनः पाप्मानं निर्हरन्ति, एवम् एव एतत्, स्तोत्रियानुरूपाभ्याम् अहोरात्राभ्याम् एव तत् असुरान् निरघ्नन्ति) सो जैसे बड़े प्रकाश से बार बार पाप को निकाल देते हैं, वैसे ही यह है, स्तोत्रिय और अनुरूप [विषय के सदृश स्तोत्र] के द्वारा दिन और रात से ही तब से असुरों को निकाल मारते हैं ॥

(गायत्रीं शंसन्ति, ब्रह्मवर्चसं तेजः वै गायत्री, ब्रह्मवर्चसं तेजः एव अस्मै तत् यजमाने दधति) गायत्री [गायत्री मन्त्र आर छन्द] को वे पढ़ते हैं, ब्रह्मवर्चसं तेज [वेद पढ़ने से पाया हुआ तेज] ही गायत्री है, ब्रह्मवर्चसं तेज को ही इस [जगत् के] हित के लिये तब यजमान में वे धारण करते हैं । (गायत्री [गायत्री] शस्त्वा जगतीं शंसन्ति, ब्रह्म ह वै जगती, ब्रह्मणा एव अस्मै तत् ब्रह्मवर्चसं यजमाने दधति) गायत्री बोल कर जगती [जगती छन्द वा जगत् उपकारिका ऋचा] वे बोलते हैं, ब्रह्म [वेद ज्ञान] ही जगती है, ब्रह्म [वेद ज्ञान] से ही इस [जगत्] के हित के लिये तब ब्रह्मवर्चसं को यजमान में वे धारण करते हैं । (गायत्रीः च जगतीः च अन्तरेण व्याह्वयन्ते, छन्दासि एव तं नानावीर्याणि कुर्वन्ति) गायत्री छन्दों और जगती छन्दों को अलग अलग वे विविध प्रकार बोलते हैं, छन्द ही उस [यजमान] में बहुत से सामर्थ्य करते

आर्षोऽकारः । निघ्नन्ति । निःसार्य नाशयन्ति (अभ्याधारात्) अमि+आ+घृत्तरणे दीप्तौ च—घञ् । सर्वतः प्रकाशात् (निर्हरन्ति) नाशयन्ति (ब्रह्मवर्चसम्) वेदाध्ययनजन्यतेजः (दधति) धारयन्ति (ब्रह्म) वेदज्ञानम् (व्याह्वयन्ते) विविधमाह्वयन्ति कथयन्ति (नानावीर्याणि) विविधवीरकर्माणि (वीर्ये) धातुपुष्टौ (सुलक्षाः) सुलक्षणयुक्ताः (जात्रियात्) प्रबुध्येत् (ईश्वरा) शैर्लुक् । ईश्वराणि समर्थानि (अनुवनयन्ति) वन हिंसायाम् । निरन्तरं नाशयन्ति (समु) सम्भूय (उ) एव (तस्य) दृश्यमानस्य सूर्यस्य (आदारे) आदारयन्ति शत्रून् यत्र । आ+घृत् विदारणे—घञ् । संगामे (मित्रम्) प्रस्तुष्टितम् । विकसितम्

हैं । (जगतीः शस्त्वा त्रिष्टुभः शंसन्ति, पशवः वै जगती, पशून् एव तत् त्रिष्टुभः परिदधति) जगती छन्दों को बोलकर वे त्रिष्टुभों को बोलते हैं, पशु ही जगती [जगत् उपकारिका शक्ति] हैं, पशुओं को ही तब त्रिष्टुभ धारण करते हैं । (बलं वै वीर्यं त्रिष्टुप्, बलम् एव तत् वीर्यं अन्ततः प्रतिष्ठापयति) बल वीर्य ही त्रिष्टुप् [तीत कर्म, उपासना और ज्ञान का ठहराव] है, बल को ही तब वीर्य [धातु पुष्टि] में अन्त में वह स्थापित करता है । (अन्धस्वत्यः, मद्धत्यः, सुतवत्यः, पीतवत्यः त्रिष्टुभः याज्याः समृद्धाः सुलक्षणाः, एतत् वै रात्रीरूपं जाग्रियात्) अन्धस्वती [अन्धस्, अन्न शब्द वाली], मद्धती [मद् अर्थात् हर्ष शब्द वाली], सुतवती [सुत, निचोड़े हुये सोम शब्द वाली], पीतवती [पीत, पीये हुये सोम रस शब्द वाली], त्रिष्टुभ ऋचायें यज्ञ करने योग्य, समृद्ध और सुन्दर लक्षणा वाली हैं, इन सं ही रात्रि रूप [अन्धकार] में वह जागता रहे । (रात्रिं यावत् उ ह वै न वा स्तुवते, न वा शस्यते, तावत् ईश्वरा असुररक्षांसि च यज्ञम् अनुवनयन्ति) रात्रि में जब ही वह न तो स्तान्न पढ़ता है और न ऋत्विज पढ़ता है, तब समर्थ होते हुये असुर और राक्षस यज्ञ को नष्ट कर डालते हैं । (तस्मात् आहवनीयं समिधम् आग्नीधीयं गार्हपत्यं धिष्यं सम् उज्व [ज्ज्व] लयते) इस लिये आहवनीय, समिध्, आग्नीधीय, गार्हपत्य और धिष्य [पांच अग्नियों] को ठीक ठीक ही जलाता रहे । (तस्य प्रकाशम् इव वै आदारे भिन्नं सुवीरम् अतिभाषयेरन्, ज्वलयेरन्, स्तान् हातः श्रेष्ठः वै इति, पाप्मानं न अभिवृक्णाति) उस [सूर्य] के प्रकाश के समान ही संग्राम में प्रफुल्ल बड़े वीर पुरुष को आदर से बोले और प्रकाशित करें—यह अव्याकुल [द्रुढस्वभाव], गतिमान् [पुरुषार्थी] और श्रेष्ठ है—[उस को] पाप नहीं पकड़ता है । (ते तमः पाप्मानम् अपाघ्नते ते तमः पाप्मानम् अपाघ्नते) वे [शूर लोग] अन्धकार रूप पाप को नष्ट कर देते हैं; वे [शूर लोग] अन्धकार रूप पाप को नष्ट कर देते हैं [अवश्य ही नष्ट करते हैं] ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे संग्राम के पड़ाव में मित्र और शत्रु की पहिचान के लिये

(स्तान्) प्रम अवैकल्ये—क्विप् । अनुनासिकस्य कि भ्रुलोः कडिति । पा० ६ । ४ । १५ । उपधादीर्घः । मौनाधातोः । पा० ८ । २ । ६४ । मस्य नः । अव्याकुलः । द्रुढस्वभावः (हातः) हसिमृगिण् वा० । उ० ३ । ८६ । ओहाङ् गतौ—तन् । गतिमान् (अभिवृक्णाति) वृक् आदाने—लट् । स्वादित्वमार्षम् । अभिवर्कते । अभिवृक्णाति ॥

विशेष बोलियां बोली जाती हैं, वैसे ही यज्ञ में सिद्धि पाने और विघ्नों के हटाने के लिये विशेष स्तोत्र और शस्त्र बोले जाते हैं ॥ ५ ॥

कण्डिका ६ ॥

विश्वरूपं वै त्वाष्ट्रमिन्द्रोऽहं स त्वष्टा हतपुत्रोऽभिचरणीयमपेन्द्र सोम-
माहरत् । तस्येन्द्रो जज्ञिरे । स संस्कृत्वा प्रासहा सोममपिवत् स विष्टद्व्यर्छत् ।
तस्मात् सोमो नानुपहृतेन न पातव्यः । सोमपीथोऽस्य द्व्यृद्धिको भवति । तस्य
मुखात् प्राणैभ्यः श्रीर्यशांस्यूध्वान्युदक्रामत् । तानि पशून् प्राविशन् । तस्मात्
परवो यशोयशो ह भवति, य एवं वेद । ततोऽस्मा एतदश्विनौ च सरस्वती
च यज्ञं समभरन् सौत्रामणिं भैषज्याय । तयेन्द्रमभ्यपिञ्चन् । ततो वै स देवानां
श्रेष्ठाऽभवत् । श्रेष्ठः स्वानां चान्येषां च भवति, य एवं वेद यश्चैवं विद्वान्
सौत्रामण्याभिषिच्यते ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ आख्यायिका-त्वष्टा का इन्द्र से सोमरस छीनना और सौत्रामणी इष्टि ॥

(इन्द्रः विश्वरूपं त्वाष्ट्रं वै अहन्) इन्द्र [सूर्य] ने विश्वरूप [संसार
में व्यापक] त्वाष्ट्र [त्वष्टा प्रकाशमान सूर्य के पुत्र मेघ वा अन्धकार] को मार
डाला । (हतपुत्रः सः त्वष्टा अभिचरणीयम् इन्द्रम् सोमम् अप आहरत्) मरे
पुत्र वाले उस त्वष्टा ने सब प्रकार प्राप्ति योग्य इन्द्र [सूर्य] से सोम रस [जल]
को छीन लिया । (इन्द्रः तस्य जज्ञिरे) इन्द्र ने उसे जान लिया । (सः संस्कृत्वा
प्रासहा सोमम् अपिवत्, सः विष्टद्व्यर्छत्) उस [त्वष्टा] ने शुद्ध करके बला-
त्कार सोमरस पी लिया, और वह [सोम को] प्रवेश करता हुआ शूछित हो
गया । (तस्मात् सोमः नानुपहृतेन न न पातव्यः) इस लिये सोमरस [यज्ञ में
श्रेष्ठियों का तत्त्वरस] बिना बुलाये पुरुष को अब न पीना चाहिये । (अस्य
सोमपीथः द्व्यृद्धिकः भवति) इस [यजमान] का सोमरस पान दो ऋद्धि

६—(विश्वरूपम्) सर्वजगद्ब्यापकरूपयुक्तम् (त्वष्टारम्) नष्टनेष्टृ-
त्वष्टृहेतृपोत् । उ० २ । ६५ । त्विष दीप्तौ वा त्वत् तनूकरणे—तृच्, इकारम्य
अकारः । त्वष्टृ-ग्रण् । त्वष्टुः सूर्यम्यपुत्रर् इव मेघम् अन्धकारं वा (इन्द्रः) सूर्यः
(अहन्) हतवान् (त्वष्टा) सूर्यः (अभिचरणीयम्) अमितः प्राणैभ्यः (सोमम्)
रसम् । मेघजलम् (जज्ञिरे) ज्ञा अवबोधनं—लिट् । बहुवचनार्पम् । जज्ञे ।
ज्ञातवान् (संस्कृत्वा) संस्कृत्य । संशोध्य (प्रासहा) प्रसह्य । बलात्कारेण

वाला होता है । (तस्य मुखात् प्राणेभ्यः श्रीः यशांसि ऊर्ध्वानि उदक्रामत्) उस के मुख और प्राणों से श्री और अनेक यश [दोनों ऋद्धियां] ऊंचे चढ़ते हैं । (तानि पशून् प्राविशन्) वे [श्री और यश] पशुओं में प्रवेश करते हैं । (तस्मात् पशवः यशोयशः ह [तस्मै] भवति, यः एवं वेद) इस लिये पशु [सब प्राणी] बहुत यश रूप [उस के लिये] होते हैं, जो ऐसा विद्वान् है । (ततः अस्मै एतत् अश्विनौ च सरस्वती च सौत्रामणिं यज्ञं भेषज्याय सम् अभरन्) इसी से इस [यजमान] के लिये इस प्रकार दोनों अश्वी [दिन रात वा सूर्य चन्द्रमा] और सरस्वती [विज्ञान वाली वेद विद्या] सौत्रामणी [अच्छे प्रकार रत्नक इन्द्र परमात्मा का भक्ति युक्त क्रिया] यज्ञ को औषध के लिये यथावत् पुष्ट करते हैं । (तथा इन्द्रम् अभ्यषिञ्चन्) उस [सौत्रामणी इष्टि] से इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को उन्होंने अभिषेक किया है । (ततः वै सः देवानां श्रेष्ठः अभवत्) इस लिये ही वह देवों [विद्वानों] में श्रेष्ठ हुआ है । (स्वानां च अन्येषां च श्रेष्ठः भवति, यः एवं वेद, यः च एवं विद्वान् सौत्रामण्या अभिषिच्यते) वह अपने और दूसरे लोगों में श्रेष्ठ होता है, जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा विद्वान् सौत्रामणी [बड़े रत्नक परमात्मा की भक्ति वाली इष्टि] से अभिषेक किया जाता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य वृत्रासुर अर्थात् मेघ को हटाकर पृथिवीके जल को खींचकर समृद्ध होता है, वैसे ही वीर पुरुष शत्रुओं को मारकर संसार में यश पाता है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—इस आख्या का मूल वेदमन्त्र है, जो अर्थ सहित लिखा जाता है—

अहंन् वृत्रं वृत्रतरं व्यसमिन्द्रो वज्रेण महता वधेन । स्कन्धासीवु

(विष्टत्) विष्ट व्यस्तौ वा विश प्रवेशे—क्त । विष्ट इतिनामधातुः, ततः शतृ । विष्टं प्रवशं कुर्वन् (व्यर्द्धत) वि + ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु—लङ्, अड-भावः । मूर्च्छामगात् (द्रव्यद्विकः) द्विधासम्पत्तियुक्तः (यशोयशः) बहुकीर्तिरूपम् (अश्विनौ) गा० उ० ५ । ३ । अहोरात्रौ । सूर्याचन्द्रमसौ (सरस्वती) विज्ञान-वती वेदविद्या (सौत्रामणिम्) सवधातुभ्यो मनिन् । उ० ४ । १४५ । सु + त्रैङ् पालने—मनिन् । साऽस्य देवता । पा० ४ । २ । २४ । सुत्रामन्—अण्, टिलोपा-भावः, स्त्रियां ङोप् । ईकारस्य ह्रस्वत्वमार्षम् । महारत्नकयोग्यां भक्तिं पूजां वा । इष्टावशेषम् (स्वानाम्) ज्ञातीनां बन्धूनाम् ॥

कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उपपृक् पृथिव्याः—ऋ० १ । ३२ । ५ ॥ (इन्द्रः)
इन्द्र [सूर्य वा विजुली] ने (वृत्रतरम्) अन्यन्त ढक लेने वाले (वृत्रम्) वृत्र
[रोकने वाले मेघ] को (महता वधेन) बड़े हथियार, (वज्रेण) वज्र [कुल्हाड़े
के समान छेदने वाले किरण समूह] से (व्यंसम्) बिना कन्धे करके (अहन्)
मार डाला (कुलिशेन) कुल्हाड़े से (विवृक्णा) काट डाले गये (स्कन्धांसि
इव) वृक्ष दण्डों के समान (अहिः) अहि [सब ओर चलता हुआ मेघ]
(पृथिव्याः) पृथिवी से (उपपृक्) छूता हुआ (शयते) सोता है [अर्थात्
सूर्य की किरणों से मेघ छिन्न भिन्न होकर पृथिवी पर बरसता है] ॥

कण्डिका ७ ॥

अथ साम गायति ब्रह्मा, क्षत्रं वै साम, क्षत्रेणैवैनं तदभिषिञ्चति । अथो
साम्राज्यं वै साम, साम्राज्येनैवैनं तत् साम्राज्यं गमयति । अथो सर्वेषां वा एष
वेदानां रसः, यत् साम, सर्वेषामेव तद्वेदानां रसेनाभिषिञ्चति । वृहत्यां गायन्ति,
वृहत्यां वा असावादित्यः श्रियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठ [ष्ठि] तस्तपति । ऐन्द्र्यां
वृहत्यां गायति । ऐन्द्रो वा एष यज्ञक्रतुयत् सौत्रामणिः । ऐन्द्रायतन एव एतर्हि
यो यजते, एव एवैनं तदायतन प्राणाति । अथ कस्मात् संशयानानि नाम, एतैर्वै
सामभिर्देवा इन्द्रमिन्द्रियेण वीर्येण समश्यन्, तथैवैतद्यजमाना एतैरेव सोम-
भिरिन्द्रियेणैव वीर्येण सशंश्यन्ति । संश्रवसे विश्रवसे सत्यश्रवसे श्रवस इति
सामानि भवन्ति । एष्वेवैनं लाकेषु प्रतिष्ठापयति । चतुर्भिर्धनं भवति, चतस्रो
वै दिशः, दिक्षु तत् प्रतिष्ठन्ते । अथो चतुष्पादः पशवः, पशूनामाप्यै । तदाहुः,
यदेतत् साम गीयते, अथ क्वैतस्य साम्मुक्थं, का प्रतिष्ठा । त्रयो देवा एका-
दशेत्याहुः, एतद्वा एतस्य साम्मुक्थमेषा प्रतिष्ठा । त्रयस्त्रिंशं ग्रहं गृह्णाति,
साम्नः प्रतिष्ठायै प्रतिष्ठायै ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ साम सब वेदों का रस है, सौत्रमणी यज्ञ में साम गान ॥

(अथ ब्रह्मा साम गायति) फिर ब्रह्मा [चतुर्वेदी ऋत्विज] साम
[वेदों के सार, मोक्षज्ञान] को गाता है । (क्षत्रं वै साम, क्षत्रेण एव एनम् तत्
अभिषिञ्चति) राज्य ही साम [मोक्ष ज्ञान] है, राज्य के साथ ही इस [यज्ञ-

७—(साम) मोक्षज्ञानम् (क्षत्रम्) राज्यम् (साम्राज्यम्) सम्राज्—
ध्यज् । चक्रवर्ति राज्यम् । सार्वभौमराज्यम् (गमयति) प्रापयति (रसः) सारः

मान] को तब वह अभिषेक करता है । (अथो साम्राज्यं वै साम, साम्राज्येन एव एन तत् साम्राज्यं गमयति) फिर साम्राज्य [चक्रवर्ती राज्य] ही साम गान है, साम्राज्य [साम्राज्य के समान सामगान] के साथ ही इस [यजमान] को तब साम्राज्य वह पहुंचाता है । (अथो सर्वेषां वेदानां वै एषः रसः, यत् साम) फिर सब वेदों का ही यह रस है, जो साम गान है । (सर्वेषां वेदानाम् एव रसेन तत् अभिषिञ्चति) सब ही वेदों क रस से तब वह [यजमान को] अभिषेक करता है । (वृहत्यां गायन्ति) वृहती [बड़े विषय वाली वेद विद्या वा वृहती छन्द] में वे [साम] गाते ह । (वृहत्यां वे असौ आदित्यः श्रियां प्रतिष्ठायाम् प्रतिष्ठतः [प्रतिष्ठितः] तपति) वृहती [बड़े विषय वाली वेद वाणी] में ही वह चमकने वाला सूर्य शोभा और प्रतिष्ठा में ठहरा हुआ तपता है । (ऐन्द्र्यां वृहत्यां गायति) इन्द्र [परमेश्वर] देवता वाली वृहती [वेदवाणी] में वह [साम] गाता है । (ऐन्द्रः वै एषः यज्ञक्रतुः यत् सौत्रामणिः) इन्द्र देवता वाला ही यह यज्ञ कर्म है जो सौत्रामणी [सुत्रामा बड़े रक्षक इन्द्र परमेश्वर देवता वाली इष्टि] है । (ऐन्द्रायतनः एषः, एतर्हि यः यजते, स्वे एव आयतने एनं तत् प्रीणाति) इन्द्र देवता वाले आश्रय से युक्त यह [यजमान] है, जो अब यज्ञ करता है, अपने ही आश्रय में इस [यजमान] को तब वह [इन्द्र] प्रसन्न करता है ॥

(अथ कस्मात् संश्यानानि नाम, एतैः वै सामभिः देवाः इन्द्रम् इन्द्रियेण वीर्येण समश्यन्, तथा एव एतत् यजमानाः एतैः एव सामभिः इन्द्रियेण एव वीर्येण संश्यन्ति) फिर किस लिये संश्यान [आपस में मिले हुये साम ज्ञान] प्रसिद्ध हैं । [उत्तर] इन ही सामज्ञानों से विद्वानों ने इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले जीव] को इन्द्रपत [ऐश्वर्य] और वीर्य [पराक्रम] के साथ अच्छे प्रकार तीक्ष्ण किया है वैसे ही अब यजमानों को इन ही साम ज्ञानों से ऐश्वर्य और पराक्रम के साथ वे सब प्रकार तीक्ष्ण करते हैं । (संश्रवसे विश्रवसे सत्यश्रवसे श्रवसे इति सामानि भवन्ति) संश्रव [अच्छे प्रकार अन्न, धन और यश] के

(वृहत्याम्) वृहद्विषयायां वेदवाण्याम् (प्रतिष्ठतः) लेखप्रमादः । प्रतिष्ठितः (सौत्रामणिः) सर्वधातुभ्योमनिन् । उ० ४ । १४५ । सु + त्रैङ् पालने-मनिन् । साऽस्य देवता । पा० ४ । २ । २३ । सुत्रामन्—अण्, टिलापोन, डीप्, अत्र-पुलिङ्गः । सौत्रामणी । महारक्षकयोग्या भक्तिः । इष्टिविशेषः (ऐन्द्रायतनः) इन्द्रादेवताकस्याश्रययुक्तः (संश्यानानि) सम् + श्र्यैङ् गतौ—क्त । संगतानि

लिये, विश्रव [विविध अन्न धन और यश] के लिये, सत्यश्रव [सत्य अन्न धन और यश] के लिये और श्रव [सामान्यतः अन्न धन और यश] के लिये यह सामज्ञान होते हैं । (एषु एव लोकेषु एनं प्रतिष्ठापयति) इन ही लोकों में इस [यजमान] को वह प्रतिष्ठित करता है । (चतुः निधनं भवति, चतस्रः वै दिशः, दिक्षु तत् प्रतिष्ठन्ते) चार बार निधनं [अन्तिम यज्ञ कर्म] होता है, चार ही दिशाएँ हैं, दिशाओं में तब वे प्रतिष्ठा पाते हैं । (अथो चतुष्पादः पशवः, पशुनाम् आप्त्यै) फिर चार पाँव वाले पशु हैं, पशुओं की प्राप्ति के लिये [साम है] ॥

(तत् आहुः, यत् एतत् साम गीयते, अथ क एतस्य साम्नम् उक्थम्, का प्रतिष्ठा) फिर वे कहते हैं—जो यह साम गाया जाता है, तब कहां इस [साम] का साम वाला उक्थ है और क्या प्रतिष्ठा है । (त्रयः देवाः एकादश इति आहुः, एतत् वै एतस्य साम्नम् उक्थम्, एषा प्रतिष्ठा) [उत्तर] तीन [तीन बार] ग्यारह [तेतीस] देवता हैं [देखो गो० उ० २ । १३]—ऐसा कहते हैं, यह ही इस [साम] का साम वाला उक्थ है, यही प्रतिष्ठा है । (त्रयस्त्रिंशं ग्रहं साम्नः प्रतिष्ठायै प्रतिष्ठायै गृह्णाति) तेतीस अवयव वाला पात्र वह [यजमान] साम से प्रतिष्ठा के लिये, प्रतिष्ठा के लिये ग्रहण करता है ॥७॥

भावार्थ—बुद्धिमान् चतुर्वेदी ब्रह्मा के वेदज्ञान के उपदेश से मनुष्य चक्रवर्ती राज्य आदि पाकर संसार में प्रतिष्ठा बढ़ाता है ॥ ७ ॥

कण्डिका ८ ॥

प्रजापतिरकामयत, वाजमाप्नुयात्, स्वर्गं लोकमेति । स एतं वाजपेयमपश्यत् । वाजपेयो वा एषः, य एष तपति, वाजमेतेन यजमानः स्वर्गं लोकमाप्नोति । शुक्रवत्यो ज्योतिष्मत्यः प्रातःसवने भवन्ति, तेजो ब्रह्मवर्चसं ताभिराप्नोति । बाजवत्यो माध्यन्दिने सवने स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै । अन्नवत्यो गणवत्यः पशुमत्यस्तृतीयसवने भवन्ति, भूमानं ताभिराप्नोति । सर्वः सप्तदशो भवन्ति, प्रजापतिर्वै सप्तदशः, प्रजापतिमेवाप्नोति । हिरण्यस्रज ऋत्विजो भवन्ति,

सामानि (समश्यन्) शो तनूकरणे—लङ् । सम्यक् तीक्ष्णीकृतवन्तः (यजमानाः) यजमानान् (संश्यन्ति) सम्यक् तीक्ष्णीकुर्वन्ति (संश्रवसे) श्रु श्रवणे—असुन् । श्रवः=अन्नम्—निघ० २ । ७, धनम्—२ । १० । सम्यग् अन्नस्य धनस्य यशसो वा प्राप्तये (चतुः) चतुर्वारम् (निधनम्) अन्तिमयज्ञकर्म (साम्नम्) सामन्—अण्, अकारलोप आर्षः । सामनम् । सामयुक्तम् (त्रयस्त्रिंशम्) त्रयस्त्रिंशावयवोपेतम् (ग्रहम्) पात्रम् (साम्नः) सामसकाशात् ॥

महस एव तद्रूपं क्रियते । एष मेऽमुष्मिंल्लोके प्रकाशोऽसदिति, ज्योतिर्वै हिरण्यं, ज्योतिषैवैनमन्तर्दधत्याजिं धावन्ति यजमानमुज्जापयन्ति, नाके रोहति, स महसे रोहति, विश्वमहसे रोहति, सर्वमहसे रोहति, मनुष्यलोकादेवैनमन्तर्दधति । देवस्य सवितुः सवं स्वर्गं लोकं वर्षिष्ठं नाकं रोहेयमिति ब्रह्मा रथचक्रं सर्पति, सवितृप्रसून एवैनं तत् समर्पयति । अथो प्रजापतिर्वै ब्रह्मा, प्रजापतिमेवंनं वज्रा-दधिप्रसुवति, नाकस्योज्जित्यै वाजिनां सन्तत्यै । वाजिसामाभिगायति, वाजिमान् भवति । वाजो वै स्वर्गं लोकः, स्वर्गमेव तं लोकं रोहति । विष्णोः शिपिविष्ट-चतीषु वृहदुत्सं भवति, स्वर्गमेव तं लोकं रूढ्वा ब्रह्मस्य विष्टपमतिक्रामत्यति-क्रामति ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ ॥ आख्यायिका—वाजपेय यज्ञ का वर्णन ॥

(प्रजापतिः अकामयत्, वाजम् आप्नुयात्, स्वर्गं लोकम् एति) प्रजापति [प्रजापालक चतुर्वेदी ऋत्विज] ने चाहा—वह वाज [ज्ञान वा बल] प्राप्त करे, और स्वर्ग लोक पावे । (सः एतं वाजपेयम् अपश्यत्) उस ने इस वाज-पेय [ज्ञान रक्षक यज्ञ] को देखा । (वाजपेयः वै एषः, यः एषः तपति) वाज-पेय ही यह है जो यह तपता है [हवन क्रिया जाता है] । (एतेन यजमानः वाजं स्वर्गं लोकम् आप्नोति) इस से यजमान ज्ञानयुक्त स्वर्गलोक पाता है । (शुक्र-वत्यः ज्योतिष्मत्यः प्रातःसवने भवन्ति) शुक्रवती [शुक्र शब्द वाली ऋचाएँ जैसे १—वायो शुक्रो अयामि ते.....ऋग्० ४ । ४७ । १] और ज्योतिष्मती [ज्योतिः शब्द वाली ऋचाएँ जैसे २—अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु.....अथर्व० १ । ६ । २] प्रातःसवन में होती हैं । (ताभिः ब्रह्मवर्चसं तेजः आप्नोति) उन [ऋचाओं] से ब्रह्मवर्चस तेज वह पाता है । (वाजवत्यः माध्यन्दिने सवने स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै) वाजवती [वाज शब्द वाली ऋचाएँ जैसे ३—

८—(एति) इयात् । प्राप्नुयात् (वाजपेयम्) वज गतौ—घञ् । अचो यत् । पा० ३ । १ । ६७ । पा रक्षणे वा पा पाने—यत् । ईद्यति । पा० ६ । ४ । ६५ । आकारस्य ईकारः, गुणश्च । वाजो विज्ञानं बलं च पेयं रक्षणीयं यस्मिन् स वाज-पेयः । विज्ञानस्य बलस्य च रक्षकं यज्ञम् (वाजम्) । वाज—अर्शआद्यच् । विज्ञानवन्तम् । बलवन्तम् (शुक्रवत्यः) शुक्रशब्दयुक्ताः + ऋचाः (भूमानम्) पृथ्वादिभ्य इमनिच् वा । पा० ५ । १ । १२२ । बहु—इमनिच् । बहोर्लोपो भूच बहोः । पा० ६ । ४ । १५८ । इकारलोपः, बहोर्भू । बहुत्वम् (सप्तदशः) बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात् । पा० ५ । ४ । ७३ । सप्तदशन्—डच् । सप्तदशावयवयुक्तः

मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते श्रवन्तु ।.....अथर्व० ४ । २७ ।
 १] माध्यन्दिन सवन में स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये हैं । (अन्नवत्यः गणवत्यः पशुमत्यः तृतीयसवने भवन्ति, ताभिः भूमानम् आप्नोति) अन्नवती [अन्न शब्द वाली ऋचायें जैसे ४—यत् ते अन्नं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । अथर्व० १० । ५ । ४५], गणवती [गण शब्द वाली ऋचायें जैसे ५—मरुतो गणैरवन्तुअथर्व० १६ । ४५ । १०] और पशुमती [पशुशब्द वाली ऋचायें जैसे ६—सं सं स्रवन्तु पशवः—अथर्व० २ । २६ । ३] तृतीय सवन में होती हैं, उन से वह [उन सब की] बहुतायत पाता है । (सर्वः सप्तदशः भवन्ति, प्रजापतिः वै सप्तदशः, प्रजापतिम् एव आप्नोति) यह सब सत्रह अवयव [मन्त्र] वाला होता है, प्रजापति [प्रजापालक यज्ञ ही] सत्रह अवयव वाला है, [उस से] प्रजापति [प्रजापालक परमेश्वर] को ही वह पाता है । (हिरण्यस्रजः ऋत्विजः भवन्ति महसे एव तत् रूपं क्रियते) सुवर्ण की माला वाले ऋत्विज होते हैं, महत्त्व के लिये ही वह रूप किया जाता है । (एषः प्रकाशः मे अमुष्मिन् लोके असत् इति) यह प्रकाश मेरे लिये उस लोक में होवे—यह प्रयोजन है । (ज्योतिः वै हिरण्यं, ज्योतिषा एव एनम् अन्तः दधति) ज्योति ही सुवर्ण है, ज्योति के साथ ही इस [यजमान] को भीतर धारण करते हैं, (आजिं धध्वन्ति यजमानम् उज्जापयन्ति) संग्राम का वे धावा करते हैं और यजमान को अच्छे प्रकार जिताते हैं । (सः नाके आरोहति, महसे रोहति, विश्वमहसे रोहति, सर्वमहसे रोहति, मनुष्यलोकात् एव एनम् अन्तः दधति) वह सुख न लिये चढ़ता है, महत्त्व के लिये चढ़ता है, व्यापक महत्त्व के लिये चढ़ता है, सम्पूर्ण महत्त्व के लिये चढ़ता है, मनुष्य लोक से [अलग करके शूरवीरा में] हा इस [यजमान] को भीतर धारण करते हैं । (देवस्य सवितुः सवं स्वर्गं लोकं वर्षिष्ठं नाकं रोहे-

(हिरण्यस्रजः) सुवर्णमालायुक्ताः (महसे) महत्त्वाय (असत्) भवेत् (अन्तः) मध्ये (आजिम्) अज्यतिभ्यां च । उ० ४ । १३१ । अज गतिक्षेपणयोः—इण् । संग्रामम्—निघ० २ । १७ (उज्जापयन्ति) जिजये—णिच् । उत्कृष्टजयं कारयन्ति (विश्वमहसे) व्यापकमहत्त्वाय । संसारे महत्त्वाय (सवितुः) प्रेरकस्य परमेश्वरस्य (सवम्) सव—अर्शआद्यच् । ऐश्वर्योपेतम् (वर्षिष्ठम्) वृद्ध—इष्टन् । वृद्धतमम् (सर्पति) प्राप्नोति (समर्पयति) ऋ गतौ—णिच् । सम्प्रदाति (वाजिनाम्) ज्ञानिनाम् (वाजिसाम) वाजिनो ज्ञानिनः परमेश्वरस्य मोक्षज्ञानम् (वाजिमान्) ज्ञानिपुरुषैर्युक्तः (विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य

यम् इति ब्रह्मा रथचक्रं सर्पति, सवितृप्रसूतः एव एनं तत् समर्पयति) प्रकाशमान प्रेरक परमात्मा के ऐश्वर्य युक्त स्वर्ग लोक और सब से बड़े सुख में मैं चढूँ—[यह ब्राह्मण वचन बोल कर] ब्रह्मा रथ के पहिये के पास जाता है, सर्व-प्रेरक परमात्मा से प्रेरणा किया हुआ ही वह इस [यजमान] को उसे [रथ] सौंप देता है । (अथो प्रजापतिः वै ब्रह्मा, प्रजापतिम् एव एनम् वज्रात् नाकस्य उज्जित्यै वाजिनां सन्तत्यै अधि प्रसुवति) फिर प्रजापति [प्रजापालक] ही ब्रह्मा [चतुर्वेदी ऋत्विज] है, प्रजापति [प्रजापालक] इस [यजमान] को ही वज्र से सुख के लाभ के लिये और ज्ञानियों के विस्तार के लिये वह अधिकार पूर्वक प्रेरणा करता है । (वाजिसाम अभिगायति, वाजिमान् भवति) ज्ञानियों का साम वह [ब्रह्मा] भली भांति गाता है, ज्ञानी पुरुषों वाला वह [यजमान] होता है । (वाजः वै स्वर्गः लोकः, तं स्वर्गं लोकम् एव रोहति) वाज [ज्ञान] ही स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक को ही वह [यजमान] चढता है । (विष्णोः शिपिविष्टवतीषु वृहत् उत्तमं भवति, तं स्वर्गं लोकम् एव रूढ्वा ब्रध्नस्य विष्टपम् अतिक्रामति अतिक्रामति) विष्णु देवता [सर्वव्यापक परमेश्वर] की शिपिविष्टवती ऋचाओं में [शिपिविष्ट, प्रकाशयुक्त परमेश्वर शब्द वाली ऋचाओं में जैसे ७—किमित्ते विष्णां परिचक्ष्यं भूत् ऋग् ७ । १०० । ९] बहुत बड़ा सब से पिछला [अन्तिम यज्ञ भाग] होता है, उस स्वर्ग लोक का ही चढ कर ब्रध्न [लोकों को आकर्षण में बांधने वाले सूर्य] के लोक को वह [यजमान] लाँघ जाता है लाँघ जाता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—मनुष्य को चाहिये कि महाविद्वानों की सम्मति से ज्ञानपूर्वक पराक्रमी होकर संसार में बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा पावे ॥ ८ ॥

टिप्पणी—सङ्केतित मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—शुक्रवती ऋचा—वायो शुक्रो अयामि तु मध्वो अग्रं दिविष्टिषु ।

(शिपिविष्टवतीषु) शिपिविष्टशब्दयुक्तासु । सर्वधातुभ्य इन् । ३० ४ । ११८ । शिञ् निशाने, छेदनं—इन् कित् पुक् च, शिपि + विश प्रवेशने—क्त । शिपिविष्टोऽस्मीति प्रतिपन्नरश्मिः । शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते तैराविष्टा भवति—निरु० ५ । ८ । रश्मिभिर्युक्तः । प्रकाशयुक्तः परमेश्वरः (ब्रध्नस्य) बन्धेर्ब्रध्निधुधी च । ३० ३ । ५ बन्ध बन्धने—नक्, ब्रधादेशः । लोकानां बन्धकस्य आकर्षणे धारकस्य सूर्यस्य (विष्टपम्) विष्टपविष्टपविशिपोलपाः । विश प्रवेशने—कप-प्रत्ययः तुट् च । भुवनम् । लोकम् (अतिक्रामति) अतीत्य गच्छति ॥

आ याहि सोमपीतये स्पर्हो देव नियुत्वन्ता—ऋग्० ४ । ४७ । १ ॥ (वायो) हे वायु ! [वायु के समान वेग वाले वार] (शुक्रः) शुक्र [शुद्ध—स्वभाव वाला वा वीर्यवान्] मैं (दिविष्टिषु) विजय की इच्छाओं में (ते) तेरे लिये (मध्वः) मधु [तत्त्व ज्ञान] का (अग्रम्) प्रधान अंश (अयामि) लाता हूँ । (देव) हे देव ! [विजय चाहने वाले शूर] (स्पर्हः) चाहने योग्य तू (सोमपीतये) सोम [तत्स्वरस्य] पाने के लिये (नियुत्वन्ता) नित्य मेल वाले व्यवहार के साथ (आ याहि) आ ॥

२—ज्योतिष्मती ऋचा—अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुत वा हिरण्यम् । सपत्ना अस्मदधरे भवन्तुत्तमं नाकमधि राहयेमम्—अथर्व० १ । ६ । २ ॥ (देवाः) हे व्यवहार जानने वाले महात्माओ ! (अस्य) इस के [मेरे] (प्रदिशि) शासन में (ज्योतिः) तेज, [अर्थात्] (सूर्यः) सूर्य, (अग्निः) अग्नि, (उत वा) और भी (हिरण्यम्) सुवर्ण (अस्तु) होवे । (सपत्नाः) सब बैरी (अस्मत्) हम से (अधरे) नीचे (भवन्तु) होवें । (उत्तमम्) अति ऊंचे (नाकम्) सुख में (इमम्) इसको [मुझ को] (अधि) ऊपर (राहय=राहयत) तुम चढ़ाओ ॥

३—वाजवती ऋचा—मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्त प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु । आशूनिव सुयमानह ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः—अथर्व० ४ । २७ । १ ॥ (मरुताम्) शत्रुनाशक वारों का (मन्वे) मैं मनन करता हूँ । (मे) मेरे लिये (अधि) अनुग्रह से (ब्रुवन्तु) वे बोलें और (इमम्) इस (वाजम्) बल को (वाजसात) अन्न के सुख वा दान के निमित्त (प्र) अच्छे प्रकार (अवन्तु) तृप्त करें । (आशून् इव) शीघ्रगामी घोड़ों के समान (सुयमान्) उन सुन्दर नियम वालों को (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (अह्ने) मैंने पुकारा है । (ते) वे (नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुञ्चन्तु) छुड़ावें ॥

४—अन्नवती ऋचा—यत् ते अन्नं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । तस्य नस्त्वं भुवस्पत सप्रयच्छ प्रजापते—अथर्व० १० । ५ । ४५ ॥ (भुवः पते) हे भूपति [राजन् !] (यत्) जो (ते) तेरा (अन्नम्) अन्न (पृथिवीम् अनु) पृथिवी पर (आक्षियति) रहा करता है । (भुवः पते) हे भूपति ! (प्रजापते) हे प्रजापति [राजन् !] (त्वम्) तू (नः) हमें (तस्य) उस [अन्न] का (सप्रयच्छ) दान करता रह ॥

५—गणवती ऋचा—मृस्तो मा गुरौर्वन्तु प्राणायानायुषे वर्चस

ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा—अथर्व० १६ । ४५ । १० ॥ (मरुतः) शूर पुरुष (मा) मुझे (गणैः) सेना दलों के साथ (अवन्तु) बचावें, (प्राणाय) प्राण के लिये, (अपानाय) अपान के लिये, (आयुषे) जीवन के लिये, (वर्चसे) प्रताप के लिये, (ओजसे) पराक्रम के लिये, (तेजसे) तेज के लिये, (स्वस्तये) स्वस्ति [सुन्दर सत्ता] के लिये और (सुभूतये) बड़े ऐश्वर्य के लिये (स्वाहा) स्वाहा [सुन्दर वाणी] हो ॥

६—पशुमती ऋचा—सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः । सं धान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण हविषा जुहोमि—अथर्व० २ । २६ । ३ ॥ (पशवः) गौ आदि पशु (सम्) मिल कर, (अश्वाः) घोड़े (सम्) मिल कर, (उ) और (पूरुषाः) सब पुरुष (सम् सम्) मिल मिल कर (स्रवन्तु) चलें । और (या) जो (धान्यस्य) धान्य [अन्न] की (स्फातिः) बढ़ती है, [वह भी] (सम् = सम् स्रवतु) मिल कर चले । (संस्राव्येण) कोमलता से युक्त (हविषा) भक्ति वा अन्न के साथ [उन सब को] (जुहोमि) मैं ग्रहण करूँ ॥

७—शिपिविष्टवती ऋचा—किमित्तं विष्णो परिचक्ष्य भूत् प्र यद् ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि । मा वर्षो अस्मदप गूह एतद् यदन्यरूपः समिथे बभूथ—ऋग्० ७ । १०० । ६ ॥ (विष्णो) हे विष्णु ! [व्यापक परमेश्वर] (किम् इत्) क्या ही [अद्भुत वर्णन] (ते) तेरा (परिचक्ष्य भूत्) कथन योग्य है, (यत्) जो (प्र ववक्षे) तू कहता है—(शिपिविष्टः अस्मि) मैं शिपिविष्ट [तेज में प्रवेश किये हुये] हूँ—(अस्मत्) हम से (एतत् वर्षः) इस रूप को (मा अप गूहः) तू मत छिपा, (यत्) जब (समिथे) संग्राम में (अन्यरूपः) दूसरे रूप वाला तू (बभूथ) होता है ॥

करिडका ६ ॥

अथातो अक्षोर्यामाः, प्रजापतिर्वै यत् प्रजा असृजत, ता वै तां ता असृजत । ताः सृष्टाः पराच्य एवासन्नोपावर्तन्त । ता एकेन स्तामेनोपागृह्णात् । ता अत्यरिच्यन्त, ता द्वाभ्यान्ताः सर्वैः । तस्मात् सर्वस्तोमः, ता एकेन पृष्ठेनोपागृह्णात् । ता अत्यरिच्यन्त, ता द्वाभ्यां ताः सर्वैः, तस्मात् सर्वस्पृष्टः । ता अतिरिक्तांक्थे वारवन्तीयेनावारयन्, तस्माद्देपोऽतिरिक्तोक्थवान् भवति । तस्माद्धारवन्तीयं ता यदाप्ता यच्छत्, अतो वा अक्षोर्यामाः । अथो प्रजावाप्पुरित्याहुः, प्रजानां यमन इतीहैवैतदुक्थं, ता वर्हिः प्रजाः शनायेरंस्तर्हि हैतेन यजते, स

एषोऽष्टापृष्ठो भवति, तद्यथान्यस्मिन् यज्ञे विश्वजितः पृष्ठमनुमञ्जरं भवति, कथमेतदेवमन्वेति । पितृषु यज्ञानां तद्यथा श्रेष्ठिनि संवशेयुरपि विद्विषाणाः, एवमेवैतच्छ्रेष्ठिनो वशेयान्नमन्नस्यानुचर्याय क्षमन्ते ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ आख्यायिका—अप्तोर्याम यज्ञ का वर्णन ॥

(अथ अतः अप्तोर्यामाः) अब यहां अप्तोर्याम [पायी हुई प्रजा के नियम, यज्ञविशेष—गो० पू० ५ । २३, कहे जाते हैं] । (प्रजापतिः वै यत् प्रजाः असृजत, ताः वै तान् ताः असृजत) प्रजापति [प्रजापालक परमेश्वर] ने जब प्रजाओं को सृजा, और (ताः) उन [प्रजाओं] को ही (तान्) वे [पुरुष] और (ताः) वे [स्त्रियां] बनाया । (ताः सृष्टाः पराच्यः एव आसन्, न उपावर्तन्त) वे उत्पन्न हुये [प्रजाय] पराङ्मुख [मुह फेरे हुये] ही हुये और न लौटे । (ताः एकेन स्तोमेन उपागृह्णात्) उन को एक स्तोम से उस [प्रजापति] ने ग्रहण किया । (ताः अत्यरिच्यन्त) वे प्रजायें और आगे निकल गये । (ताः द्वाभ्यां ताः सर्वैः, तस्मात् सर्वस्तोमः) उन को दो [स्तोम] से उन को सब से [सब स्तोमों से उस ने ग्रहण किया], इस लिये वह सर्वन्तोम [सब स्तोम वाला यज्ञ] है । (ताः एकेन पृष्ठेन उपागृह्णात्) उन को एक पृष्ठ [नाम वाले स्तोत्र] से उस ने ग्रहण किया । (ताः अत्यरिच्यन्त) वे और आगे निकल गये । (ताः द्वाभ्यां ताः सर्वैः, तस्मात् सर्वस्पृष्टः) उन को दो [पृष्ठ] से, उन को सबों से [सब पृष्ठों से उस ने ग्रहण किया], इस लिये वह सर्वस्पृष्ट [सर्वस्पृष्ठों वा पृष्ठों वाला यज्ञ] है । (ताः अतिरिक्तोक्थे वारवन्तीयेन अवारयन्, तस्मात् एषः अतिरिक्तोक्थवान् भवति) उन को अतिरिक्त उक्थ [औं, से अधिक स्तोत्र वाले यज्ञ] में वारवन्तीय [रोकने के कर्म सेवने वाले स्तोत्र] से उस ने रोका, इस लिये वह [यज्ञ] और से अधिक स्तोत्र वाला होता है । (तस्मात् यत् वारवन्तीयं ताः आप्ताः यच्छ्रुत् अतः वै अप्तोर्यामाः) इस लिये जब वारवन्तीय [स्तोत्र] से उन प्राप्त हुये [प्रजाओं] को उस ने नियम में किया, इस

६—(अप्तोः) गो० पू० ५ । २३ । आप्तायाः प्राप्तायाः प्रजायाः (यामाः) गो० पू० ५ । २३ । नियमाः (ताः) प्रजाः (तान्) पुरुषान् (ताः) स्त्रियः (पराच्यः) परा+अञ्चु गतिपूजनयोः—किन्, डीप् । पराङ्मुख्यः (उपावर्तन्त) निवृत्ता अभवन् (अत्यरिच्यन्त) रिच वियोजनसंपर्चनयोः, रिचिर् विरेचने च—लङ् । अतिक्रान्ताः पृथग्भूता अभवन् (वारवन्तीयेन) वृञ् चरणे—घञ् । हसिमृत्रिण्० । उ० ३ । ८६ । वन संभक्तौ—तन् । वारवन्त—

लिये वे अतोर्याम [प्राप्त हुये प्रजा के नियम वाले यज्ञ] हैं। (अथो प्रजावामुः इति आहुः, प्रजानां यमनः इति, इह एव एतत् उक्थम्) फिर वह [प्रजापति] प्रजाओं का प्राप्त करने वाला और प्रजाओं का नियम में करने वाला है—ऐसा कहते हैं—इस लिये यहां ही यह उक्थ [अतोर्याम] है। (ताः प्रजाः बर्हिः श्नायेरन्, तर्हि ह एतेन यजते, सः एषः श्रष्टापृष्ठः भवति) उन प्रजाओं ने बर्हि [वृद्धिकारक कर्म वा कुश तृण] को शुद्ध किया, तब ही इस [बर्हि] से वह यज्ञ करता है, वह ही यह [यज्ञ] आठ पृष्ठों [स्तोत्रों] वाला होता है। (तत् यथा अन्यस्मिन् यज्ञे विश्वजितः अनुसञ्चरं पृष्ठं भवति, कथम् एतत् एवम् अत्र इति) सो जैसे दूसरे यज्ञ में विश्वजित् के पीछे चलने वाला पृष्ठ होता है, कैसे यह [पृष्ठ] ऐसा यहां है। [उत्तर] (एषः यज्ञानां पिता) यह [विश्वजित्] यज्ञों का पिता है। [देखो गो० पू० ४ । १४] (तत् यथा श्रेष्ठिनि अपि विद्विषाणाः संवशेयुः, एवम् एतत् श्रेष्ठिनः वशेयान्नम् अन्नस्य आनुचर्याय क्षमन्ते) सो जिस प्रकार से श्रेष्ठी [श्रेष्ठ कर्म वाले महाधनी सेठ] में ही द्वेष छोड़े हुये पुरुष कामना करते हैं, ऐसे ही यह है, श्रेष्ठी पुरुष के कामना योग्य अन्न को अन्न के अनुचरण [प्राप्ति के लिये] सहते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जैसे प्रजापति परमात्मा प्रजाओं और अन्नों को उत्पन्न करके सब का अपन वश में रखता है, वैसे ही प्रजापालक वीर पुरुष सब लोगों को अन्न दान आदि से सन्तुष्ट करके परस्पर अनुकूल रखे ॥ ६ ॥

छ । निवारणसेवनीयेन यज्ञेन (आप्ताः) प्राप्ताःप्रजाः (यच्छुत्) यम नियमने—लङ् । अयच्छुत् । निर्यामतवान् (प्रजावामुः) दाभाभ्यां नुः । उ० ३ । ३२ । प्रजा + अव + आप्लृ लभ्भने—नु । प्रजानां लभ्भकः प्रापकः (यमनः) यम नियमने—ल्यु । नियामकः (श्नायेरन्) षौ वेष्टनशोभाशौचेषु—भ्वा० वि० लि०, सस्य शः । स्नायेयुः । शोधयेयुः (अनुसञ्चरम्) पश्चाद्गमनशीलम् (श्रेष्ठिनि) श्रेष्ठं कर्म अस्य—इति । श्रेष्ठकर्मकारके । महाधनिके (संवशेयुः) वश कान्तौ—वि० लि० । सम्यक् कामनां कुर्युः (विद्विषाणाः) द्विष अप्रीतौ—शानच् । विगतद्वेषाः (वशेयान्नम्) ढश्छन्दासि । पा० ४ । ४ । १०६ । वशा—दप्रत्ययो बाहुलकात् । कामनार्हमन्नम् (आनुचर्याय) अनुचर—ष्यञ् । अनुचरणाय । प्रापणाय (क्षमन्ते) सहन्ते । लभन्ते ॥

कण्डिका १० ॥

तद्यथैवादेऽह उक्थानामग्नेयं प्रथमं भवति, एवमेवैतदत्राप्याग्नेयं प्रथमं भवति । ऐन्द्रे वाव तत्रोत्तरे ऐन्द्रे वा एते ऐन्द्रावैष्णवमच्छावाकस्योक्थं भवति । चतुराहावान्यतिरिक्तोक्थानि भवन्ति, चतुष्टया वै पशवः, अथो चतुष्पादः पशवः, पशूनामाप्त्यै । त एते स्तोत्रियानुरूपास्तृचा अर्द्धर्चशस्याः । प्रतिष्ठा वा अर्द्धर्चः प्रतिष्ठित्या एव । अथैतेषामेवाश्विनानां सूक्तानां द्वे द्वे समाहावमेकैकमहरहः शंसति, अश्विनौ वै देवानां भिषजौ, तस्मादाश्विनानि सूक्तानि शंसन्ति, तदश्विभ्यां प्रददुरिदं भिषज्यतमिति । क्षेत्रवत्यः परिधानीया भवन्ति, यत्र हतस्तत्प्रजा अशनायन्तीः पिबासन्तीः संरुद्धा स्थिता आसन्, ता दीनां एताभिर्यथाक्षेत्रं पाययाञ्चकार, तर्पयाञ्चकार, अथो इयं वै क्षेत्रं पृथिवी, अस्यामदीनायामन्ततः प्रतिष्ठास्यामहा इति । त्रिष्टुभो याज्या भवन्ति, यत्र हतस्तत्प्रजा अशनायन्तीः पिबासन्तीः संरुद्धा स्थिता बभूवुः, ता हैवैना एताभिर्यथौकसं व्यवसाययाञ्चकार, तस्मादेता याज्या भवन्ति तस्मादेता याज्या भवन्ति ॥ १० ॥

कण्डिका १० ॥ असोर्याम यज्ञ का अधिक वर्णन ॥

(तत् यथा एव अहः उक्थानाम् अदः आग्नेयं प्रथमं भवति, एवम् एव एतत् अत्र अपि आग्नेयं प्रथमं भवति) सो जैसे ही दिन के [यज्ञों के] उक्थों में अब अग्नि देवता वाला स्तोत्र पहिले होता है, वैसे ही यहां [असोर्याम में— क० ६] भी यह अग्नि देवता वाला स्तोत्र पहिले होता है । (तत्र ऐन्द्रे वाव, उत्तरे ऐन्द्रे वै एते) वहां [उक्थों में] दो इन्द्र देवता वाले स्तोत्र ही हैं और पिछले [असोर्याम] में दो इन्द्र देवता वाले ही यह [स्तोत्र] हैं । (अच्छावाकस्य ऐन्द्रावैष्णवम् उक्थं भवति) अच्छावाक् ऋत्विज का इन्द्र और विष्णु देवता वाला उक्थ होता है । (चतुराहावानि अतिरिक्तोक्थानि भवन्ति, चतुष्टयाः वै पशवः, अथो चतुष्पादः पशवः, पशूनाम् आप्त्यै) चार आवाहन मन्त्र वाले अतिरिक्त उक्थ [औरों से अधिक मन्त्र वाले उक्थ] हैं, चार अङ्ग वाले ही पशु यज्ञ हैं, फिर चार पांव वाले पशु हैं, पशुओं की प्राप्ति के लिये [यह

१०—(अदः) इदानीम् (आग्नेयम्) अग्नेर्दक् । पा० ४ । २ । ३३ ।
अग्नि—दक् । अग्निदेवताकम् (चतुराहावानि) चतुरावाहनयुक्तानि (चतुष्टयाः) चतुर—तयप् । चतुरवयवाः (पशवः) पशुनामकयज्ञाः । गवादयः

यज्ञ है] । (ते एते स्तोत्रियानुरूपाः तृचाः अर्धर्चशस्याः) से। यह ही स्तोत्रिय और अनुरूप वाले तृच [सामवेद उत्तरार्चिक देखो] आधी आधी ऋचाओं में बोलने योग्य हैं । (प्रतिष्ठा वै अर्धर्चः, प्रतिष्ठित्यै एव) प्रतिष्ठा [स्थिति समान] ही आधी ऋचा है, प्रतिष्ठा के लिये ही [यह विधान है] । (अथ एतेषाम् एव आश्विनानां सूक्तानां द्वे द्वे, एकैकं समाहावम् अहरहः शंसति) फिर इन ही आश्विन [अश्वि देवता वाले] सूक्तों के दो दो [स्तोत्र] हैं, एक एक समाहाव [आवाहन स्तोत्र] को दिन दिन वह बोलता है । (अश्विनौ वै देवानां भिषजौ, तस्मात् आश्विनानि सूक्तानि शंसन्ति) दोनों अश्वी [दिन रात] ही विद्वानों के दो वैद्य हैं, इस लिये अश्वियों के सूक्तों को वे बोलते हैं । (तत् अश्विभ्यां प्रददुः, इदं भिषज्यतम् इति) वह [यज्ञकर्म] दोनों अश्वियों को उन्होंने ने दिया—इस की तुम दोनों ओषधी करो । (क्षेत्रवत्यः परिधानीयाः भवन्ति) क्षेत्रवती [क्षेत्र शब्द वाली ऋचायें जैसे—शं नो देवः सविता..... अथर्व० १६ । १० । १०] परिधानीया [अन्तिम इष्टि] होती हैं । (यत्र हतः तत् प्रजाः अशनायन्तीः पिवासन्तीः संरुद्धाः स्थिताः आसन्) जहां वह [यज्ञ] मारा गया [परिधानीय स्तोत्र ठीक न हुआ], वहां प्रजायें भूख की मारी और प्यास की मारी रुकी हुई स्थित होती हैं । (ताः दीनाः एताभिः यथाक्षेत्रं पाययाञ्चकार तर्पयाञ्चकार) उन दीन [दुखिया प्रजाओं] को इन [परिधानीया ऋचाओं] से खेत के अनुसार उस [यजमान] ने जल पान कराया और तृप्त किया । (अथो इयं वै पृथिवी क्षेत्रम्, अस्याम् अदीनायाम् अन्ततः प्रतिष्ठास्यामहै इति) फिर यह ही पृथिवी खेत है, इस अदीना [बलवती और उपजाऊ पृथिवी] पर अन्त में [पुरुषार्थ के पीछे] हम प्रतिष्ठा पावेंगे । (त्रिष्टुभः याज्याः भवन्ति) त्रिष्टुप् [तीन कर्म उपासना ज्ञान के सहारे वाली, वा त्रिष्टुप् छन्द वाली स्तुतियां] याज्या [यज्ञ करने योग्य] होती हैं । (यत्र हतः, तत् प्रजाः अशनायन्तीः पिवासन्तीः संरुद्धाः स्थिताः बभूवुः) जहां वह [यज्ञ] मारा गया है

(समाहावम्) आवाहनमन्त्रयुक्तम् (क्षेत्रवत्यः) क्षेत्रपदयुक्ताः (अशनायन्तीः) अशनक्यच्, शत्, ऊीप् । अशनायन्त्यः । बुभुक्षिताः (पिवासन्तीः) पिपासन्त्यः । पिपासिताः (दीनाः) दुःखिता (पाययाञ्चकार) जलपानंकारितवान् (तर्पयाञ्चकार) तर्पितवान् (अदीनायाम्) बलवत्याम् । शस्योत्पादिकायाम् (प्रतिष्ठास्यामहै) प्रतिष्ठिताः भविष्यामः (व्यवसाययाञ्चकार) व्यवसायमुद्योगं कारितवान् ॥

[याज्या स्तोत्र ठीक नहीं होते], वहां प्रजायें भूख को मारी, प्यास की मारी और रुकी हुई स्थित होतो हैं । (ताः ह एव एताः एताभिः यथौकसं व्यवसाय-याञ्चकार) उन ही इन [प्रजाओं] को इन [याज्या स्तुतियों] से घर घर के अनुसार उस [यजमान] ने उद्यमी बनाया । (तस्मात् एताः याज्याः भवन्ति, तस्मात् एताः याज्याः भवन्ति) इस लिये यह [प्रजायें] याज्या [पूजने योग्य] होती हैं, इस लिये यह [प्रजायें] याज्या [पूजनीया] होती हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—विचारशील पुरुष ही अपनी प्रजाओं अर्थात् सन्तानों और अन्य लोगों को उत्तम उत्तम उपायों द्वारा भूख प्यास से बचा कर सुखी रखते हैं ॥ १० ॥

टिप्पणी—सङ्केतित मन्त्र अर्थ सहित दिये जाते हैं ।

१—आश्विन सूक्त—इमा उ वा दिविष्टय..... देखो गो० उ० ५ । ३ ।
टिप्पणी ४ ।

२—क्षेत्रवती ऋचा—शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसे विभातीः । शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः—अथर्व० १६ । १० । १० ॥ (देवः) प्रकाशमान (सविता) लोकों का चलाने वाला सूर्य (त्रायमाणः) रक्षा करता हुआ (नः) हमें (शम्) सुखदायक हो, (विभाताः) जगमगाती हुयो (उषसः) प्रभात वेलायें (नः) हमें (शम्) सुखदायक (भवन्तु) हों । (पर्जन्यः) सींचने वाला मेघ (नः) हमें और (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये (शम्) सुखदायक (भवतु) हो, (शंभुः) मङ्गल दाता (क्षेत्रस्य) खेत का (पतिः) स्वामी (नः) हमें (शंम्) सुखदायक (अस्तु) हो ॥

कण्डिका ११ ॥

अथातो नैकाहिकं श्वःस्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति, प्रातःसवने-हीनमेव तत्सन्तन्वन्त्यहीनस्य सन्तत्यै । तद्यथा ह वा एकाहस्तुत एवमहीनः स्तुतः, तद्यथैकाहस्य सुतस्य सवनानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति, एवमहीनस्य सुतस्याहानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति । तद्यश्वःस्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति, प्रातःसवनेऽहरेव तदहो रूपं कुर्वन्ति । अपरेणैव तदहोपरमहरभ्यार-भन्ते, तत्तथा न माध्यन्दिने सवने । श्रीवै पृष्ठानि तानि तस्मिन्नेवावस्थितानि भवन्ति । एतेनैव विधिना तृतीयसवने न श्वःस्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ अनैकाहिक वा अहीन अर्थात् अनेक दिनों में होने वाले यज्ञ का वर्णन ॥

(अथ अतः अनैकाहिकम्) अब यहां अनैकाहिक [वा अहीन अर्थात् अनेक दिनों में होने वाला वा सम्पूर्ण अङ्ग वाला यज्ञ कर्म कहा जाता है] । (श्वःस्तोत्रियम् अद्यस्तोत्रियस्य अनुरूपं कुर्वन्ति) आगामी दिन में होने वाले स्तोत्रिय [स्तोत्र] को आज होने वाले स्तोत्रिय के अनुरूप [छन्द, देवता आदि से सदृश] करते हैं । (प्रातःसवने अहीनम् एव तत् अहीनस्य सन्तत्यै सन्तन्वन्ति) प्रातःसवने में अहीन [बहुत दिनों में होने वाले वा सम्पूर्ण अङ्ग वाले यज्ञ] को ही तब अहीन के फैलाव के लिये फैलाते हैं [क० १५] । (तत् यथा ह वै एकाहः स्तुतः एवम् अहीनः स्तुतः) सो जैसे ही एकाह [एक दिन में होने वाला यज्ञ] स्तुति किया जाता है, वैसे ही अहीन [बहुत दिन में होने वाली यज्ञ] स्तुति किया जाता है । (तत् यथा एकाहस्य सुतस्य सवनानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति, एवम् अहीनस्य सुतस्य अहानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति) सो जैसे एकाह यज्ञ के निचोड़े हुये सोम के [तीन] सवन साथ साथ वर्तमान होकर चलते हैं, वैसे ही अहीन यज्ञ के निचोड़े हुये सोम के दिन [दिनों में होने वाले यज्ञ कर्म] साथ साथ वर्तमान हो कर चलते हैं । (तत् यत् श्वःस्तोत्रियम् अद्यस्तोत्रियस्य अनुरूपं कुर्वन्ति, प्रातःसवने अहः एव तत् अहः रूपं कुर्वन्ति) सो जब आगामी दिन में होने वाले स्तोत्रिय को आज होने वाले स्तोत्रिय के अनुरूप [समान रूप] करते हैं, प्रातःसवन में दिन को ही तब दिन के अनुरूप करते हैं । (अपरेण एव अहा तत् अपरम् अहः अभ्यारभन्ते, तत् तथा न माध्यन्दिने सवने) दूसरे ही दिन के साथ तब दूसरे दिन को आरम्भ करते हैं, सो वैसा माध्यन्दिन सवन में नहीं [आरम्भ करते] । (श्रीः वै पृष्ठानि, तानि तस्मिन् एव अवस्थितानि भवन्ति) श्री ही पृष्ठ [स्तोत्र] हैं, वे [पृष्ठ]

११—(अनैकाहिकम्) कालाद् ठञ् । पा० ४ । ३ । ११ । एकाह—ठञ्, नञ् समासः । अनेकदिनवर्तमानं यज्ञकर्म । अहीननामकयज्ञः (श्वःस्तोत्रियम्) आगामिदिने क्रियमाणं स्तोत्रम् (अद्यस्तोत्रियस्य) अस्मिन् दिने क्रियमाणस्य स्तोत्रस्य (अनुरूपम्) छन्दोदेवतादिना सदृशम् (अहीनम्) गो० ब्रा० ३० २ । ८ । अहर्गणसाध्यसुत्याकम् । बहुदिनेषु क्रियमाणं यज्ञविशेषम् । सम्पूर्णाङ्ग-यज्ञम् (सन्तन्वन्ति) सम्यग् विस्तारयन्ति । अनुतिष्ठन्ति (एकाहः) राजाहः—सखिभ्यषट्च् । पा० ५ । ४ । ६१ । एकाहन्—टच् । उत्तमैकाभ्याञ्च । पा० ५ ।

उस [माध्यन्दिन सवन] में ही ठहरे हुये हैं । (एतेन एव विधिना तृतीय-सवन श्वःस्तोत्रियम् अद्यस्तोत्रियस्य अनुरूपं न कुर्वन्ति) इस ही विधि से तीसरे सवन में आगामी दिन में होने वाले स्तोत्रिय को आज होने वाले स्तोत्रिय के अनुरूप नहीं करते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—यज्ञों को यथा विधान करना चाहिये ॥ ११ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को मिलाओ—ऐ० ब्रा० ६ । १७ ॥

टिप्पणी २—(प्रातःसवने हीनमेव तत् सन्तन्वन्त्यहीनस्य सन्तत्यै) ऐसा पाठ राजेन्द्रलाल मित्र पशियाटिक सोसैटी के पुस्तक से और आगे वाली कण्डिका १५ के पाठ से (प्रातःसवनेऽहीनस्य सन्तत्यै) जीवानन्द विद्यासागर के पाठ के स्थान पर शुद्ध किया है । (तद्यश्वः) के स्थान पर (तद्यच्छ्वः) ऐतरेय ब्राह्मण में है ॥

कण्डिका १२ ॥

अथात आरम्भणीया एव, ऋजुनीता नो वरुण इति मैत्रावरुणस्य । मित्रो नयतु विद्वानिति, प्रणेता वा एष होत्रकाणां, यन्मैत्रावरुणः, तस्माद्देवा प्रणेत्रिर्मती [प्रणेतृमती] भवति, इन्द्रं वो विश्वतस्परीति ब्राह्मणाच्छंसिनः । हवामहे जनेभ्य इति, इन्द्रमेवैतयाहरहर्निर्ह्वयन्ते, न हैवैषां विहवेन्य इन्द्रं वृङ्क्ते, यत्रैवं विद्वान् ब्राह्मणाच्छंस्येतामहरहः शंसति । यत् सोम आ सुते नर इत्यच्छावाकस्य । इन्द्राग्नी अजोहवुरितीन्द्राग्नी एवैतयाहरहर्निर्ह्वयन्ते, न हैवैषां विहवेऽन्य इन्द्राग्नी वृङ्क्ते । यत्रैवं विद्वानच्छावाकस्येताम् [अच्छावाक पताम्] एतामहरहः शंसति, ता वा एताः स्वर्गस्य लोकस्य नावः सन्तारण्यः । स्वर्गमेवैताभिर्लोकमनुसञ्चरन्ति ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ अहीन [अहर्गण यज्ञ] में आरम्भणीया ऋचाओं का वर्णन ॥

(अथ अतः आरम्भणीयाः एव) अब यहां आरम्भणीया [अहर्गण यज्ञ की पहिली ऋचायें] ही हैं । (ऋजुनीती नो वरुणः इति मैत्रावरुणस्य) ऋजु-

४ । ६० । अहन् इत्यस्य अह्न इत्ययमादेशो न । एकस्मिन् दिने क्रियमाणो यज्ञः (सन्तिष्ठमानानि) सहवर्तमानानि (यन्ति) गच्छन्ति । अनुष्ठीयन्ते ॥

१२—(आरम्भणीयाः) अहर्गणे आरब्धुमर्हाः ऋचः (ऋजुनीती) सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । तृतीयायाः पूर्वं सवर्णदीर्घः । ऋजुनीत्या । सरलनयनेन

नीती नो वरुणः... १ ऋ० १ । ६० । १ । यह ऋचा मैत्रावरुण ऋत्विज की [आरम्भणीया] है । मित्रो नयतु विद्वान् इति, एषः वै होत्रकाणां प्रणेता, यत् मैत्रावरुणः) मित्रो नयतु विद्वान् [यह उसी मन्त्र का दूसरा पाद है, उस में नयतु लेचले—यह पद लीञ् ले चलना, धातु सं है] इस से यह होता लोगों का प्रणेता [प्रवर्त्तक, लेचलने वाला] है, जो मैत्रावरुण ऋत्विज है । (तस्मात् एषा प्रणेत्रिर्मती [प्रणेतृमती] भवति) इस लिये यह ऋचा प्रणेतृ [ले चलने वाले शब्द] वाला है । (इन्द्रं वो विश्वतस्पारि इति ब्राह्मणाच्छंसिनः) इन्द्रं वो विश्वतस्पारि ... २, अथर्व० २० । ३६ । १, यह ब्राह्मणाच्छंसी की [आरम्भणीया] है । (हवामहे जनेभ्यः इति, इन्द्रम् एव एतया अहरहः निर्हयन्ते) हवामहे जनेभ्यः [यह उसी मन्त्र का दूसरा पाद है, उस में हवामहे—हम बुलाते हैं—यह पद है] इस ऋचा से इन्द्र को ही दिन दिन वे बुलाते हैं । (एषां ह एव विहवे अन्यः इन्द्रं न वृङ्क्ते, यत्र एवं विद्वान् ब्राह्मणाच्छंसी एताम् अहरहः शंसति) इन [यजमानों] के विशेष आवाहन में दूसरा कोई इन्द्र को नहीं रोकता है, जहां ऐसा विद्वान् ब्राह्मणाच्छंसी इस ऋचा को दिन दिन बोलता है । (यत् सोम आ सुते नरः इति अच्छावाकस्य) यत् सोमे आ सुते नरः... ३, ऋ० ७ । ६४ । १० । यह अच्छावाक् ऋत्विज की [आरम्भणीया] है । (इन्द्राग्नी अजोहवुः इति, इन्द्राग्नी एव एतया अहरहः निर्हयन्ते) इन्द्राग्नी अजोहवुः [यह उस मन्त्र का दूसरा पाद है उस में अजोहवुः—वे बुलाते हैं—यह पद है] इस से इन्द्र और अग्नि को ही इस ऋचा से दिन दिन वे बुलाते रहते हैं । (एषां ह एव विहवे इन्द्राग्नी न वृङ्क्ते यत्र एवं विद्वान् अच्छावाकस्य [अच्छावाकः] एताम् अहरहः शंसति) इन ही [यजमानों] के विशेष आवाहन में दूसरा कोई इन्द्र और अग्नि को नहीं रोकता है, जहां ऐसा विद्वान् अच्छावाक इस [ऋचा] को दिन दिन

(नः) अस्मान् (वरुणः) श्रेष्ठः (मित्रः) सर्वोपकारी (नयतु) गमयतु (प्रणेता) प्रवर्त्तकः (प्रणेतृमती) प्रणेतृवाचकशब्दवती (इन्द्रम्) परमैश्वर्य्यवन्तं परमात्मानम् (वः) युष्मभ्यम् (विश्वतः) सर्वेभ्यः (परि) सर्वतः (हवामहे) आह्वयामः (जनेभ्यः) प्राणिनां हिताय (निर्हयन्ते) नितराम् आह्वयन्ते (एषाम्) यजमानानाम् (विहवे) विशेषावाहने (वृङ्क्ते) वर्जयति (अजोहवुः) आहूतवन्तः । आह्वयन्ते (अच्छावाकस्य) सुपां सुपो भवन्ति । वा० पा० ७ । १ । ३६ । प्रथमार्थे षष्ठी । अच्छावाकः (सन्तारण्यः) सम्पारण्यः । सम्यक् परनेत्र्यः (अनुसञ्चरन्ति) निरन्तरं गच्छन्ति ॥

बोलता है । (ताः वै एताः स्वर्गस्य लोकस्य सन्तारण्यः नावः) वे ही यह [तीनों ऋचायें] स्वर्ग लोक की तरा देने वाली नाव हैं । (स्वर्गम् एव लोकम् एताभिः अनुसञ्चरन्ति) स्वर्ग लोक को ही इन [ऋचाओं] से वे निरन्तर चले जाते हैं ॥१२॥

भावार्थ—जहां यज्ञ में ऋत्विज लोग मन्त्रों का प्रयोग ठीक ठीक करते हैं, वहां यज्ञमान परमानन्द पाते हैं ॥ १२ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को मिलाओ—ऐ० ब्रा० ६ । ६ ॥

टिप्पणी २—शुद्धिपत्र नीचे है ।

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
प्रणेत्रिर्मती	प्रणेतृमती	ऐ० ब्रा० ६ । ६
आ सते	आ सुते	वेद और ऐ० ब्रा०
अच्छावाकस्येता	अच्छावाक एता	ऐ० ब्रा० ६ । ६

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् । अर्यमा देवैः सजौषाः—ऋ० १ । ६० । १ ॥ (वरुणः) श्रेष्ठ गुण वाला, (मित्रः) सब का उपकारी, (विद्वान्), जानकार, (अर्यमा) न्यायकारी पुरुष, (देवैः) दिव्य गुण वाले विद्वानों से (सजौषाः) समान प्राति करता हुआ (नः) हम को (ऋजुनीती) सीधौ नीति से (नयतु) ले चले ॥

२—इन्द्रं वो विश्वतुस्परि हवामहे जनैभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः—अथर्व० २० । ३६ । १, ऋ० १ । ७ । १०, साम० उ० ८ । १ । २ ॥ [हे मनुष्यो!] (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] को (वः) तुम्हारे लिये और (विश्वतः जनैभ्यः) सब प्राणियों के लिये (परि) सब प्रकार (हवामहे) हम बुलाते हैं, वह (अस्माकम्) हमारा (केवलः) सेवनीय (अस्तु) होवे ॥

३—यत्सोम आ सुते नर इन्द्राग्नी अजोहवुः । सप्तिवन्ता सपर्यवः—ऋ० ७ । ६४ । १० ॥ (यत्) जब (सोमे सुते) सोम [तत्त्वरस] निचुड़ने पर (सपर्यवः) सत्कार करने वाले (नरः) नर [नेता लोग] (सप्तिवन्ता) उत्तम घोड़ों वाले (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि [सूर्य और अग्नि के समान राजा और मन्त्री] को (आ अजोहवुः) बुलाते हैं [तब वे दोनों सहाय करते हैं] ॥

कण्डिका १३ ॥

अथातः पराधानीया एव, ते स्याम देव वरुणेति, मैत्रावरुणस्य । इषं

स्वश्च धीमहीति, अयं वै लोक इषमित्यसौ वै लोकः स्वरिति, उभावेवैनौ तौ लोकाच्चारभते । व्यन्तरिक्षमतिरदिति ब्राह्मणाच्छंसिनो विवृतृचम् । स्वर्गमेवै-
ताभिलोकं विवृणोति । मदे सोमस्य रोचनेन्द्रो यदभिनद् बलमिति, सिषासवो
ह वा एते यद् दीक्षिताः, तस्मादेषा बलवती भवति । उद्गुगा आजदङ्गिरोभ्य
आविष्कुरवन् गुहासतीः । अर्वाञ्चं नुनुदे बलमिति, सनिमेतेभ्य एतयावरुन्धे ।
इन्द्रेण रोचना दिवो दृढानि दृंहितानि च । स्थिराणि न पराणुद इति, स्वर्गमेवै-
तयाहरहर्लोकमवरुन्धे । आहं सरस्वतीवतीरित्यच्छावाकस्य । इन्द्राग्न्योरवो
वृण इति, एतद् वा इन्द्राग्न्योः प्रियं धामः [धाम], यद्वागिति, प्रियेणैवैनौ
तद्वासा समर्द्धयति । प्रियेणैव धाम्ना समृध्यते, य एवं वेद ॥ १३ ॥

**कण्डिका १३ ॥ अहीन वा अहर्गण यज्ञ में परिधानीया अर्थात्
समाप्तिवाली ऋचाओं का वर्णन ॥**

(अथ अतः परिधानीयाः एव) अब यहां परिधानीया ही [समाप्ति
वाली ऋचायें कही जाती हैं] । (ते स्याम देव वरुण इति, मैत्रावरुणस्य)
ते स्याम देव वरुण.....१, ऋग्० ७ । ६६ । ६, यह मैत्रावरुण की [परिधा-
नीया] है । (इषं स्वश्च धीमहि इति, अयं वै लोकः इषम् इति, असौ वै लोकः
स्वः इति, उभौ एव एनौ तौ लोकात् च आरभते) इषं स्वश्च धीमहि—अन्न
और सुख को हम धारण करें [यह उस मन्त्र का तीसरा पाद है], यह ही
लोक अन्न है, वह ही लोक सुख है, इस से दोनों ही उन [दो लोकों] को इस
लोक से वह अवश्य पाता है । (व्यन्तरिक्ष मतिरत् इति ब्राह्मणाच्छंसिनः
विवृतृचम्) व्यन्तरिक्षम् अतिरत्.....अथर्व० २० । २८ । १—३, यह ब्राह्म-
णाच्छंसी का विवृतृच् [विवृ-खोलना—शब्द वाला तीन मन्त्रों का समूह,
परिधानीया] है । (स्वर्गम् एव लोकम् एताभिः विवृणोति) स्वर्ग ही लोक
को इन [तीन ऋचाओं] से वह खोल देता है [विवृ शब्द का अर्थ—खोलना-
है, मन्त्र के वि शब्द से विवृ-खोलना-लिया है] (मदे सोमस्य रोचना, इन्द्रो
यदभिनद् बलम् इति, सिषासवः ह वै एते यत् दीक्षिताः, तस्मात् एषा बलवती

१३—(परिधानीयाः) समाप्तिसाधनभूता ऋचः (इषम्) अन्नम् (स्वः)
सुखम् (धीमहि) धारयामहे (लोकात्) अस्माल्लोकात् (च) अवधारणे
(आरभते) आलभते । प्राप्नोति (वि) विविधम् । वियुक्तम् (अतिरत्) पारं
कृतवान् (विवृतृचम्) विवृशब्दयुक्तं तृचम् (विवृणोति) विवृतं करोति

भवति) मदे सोमस्य रोचना, इन्द्रः यत् अभिनद् वलम् [तृच के पहिले मन्त्र के यह दूसरे और तीसरे पाद हैं, तीसरे पाद में वल शब्द है], देने की इच्छा वाला ही यह सब है जो दीक्षा पाये हुये हैं, इस लिये यह ऋचा बलवती [बल शब्द वाली] है । (उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहासतीः, अर्वाञ्च नुनुदे वलम् इति, सनिम् एतेभ्यः एतया अवरुन्धे) उद्गा आजदङ्गिरोभ्यः [यह उस तृच का दूसरा मन्त्र है] इस से लाभ इन [दीक्षितों] के लिये इस [ऋचा] से वह प्राप्त करता है । (इन्द्रेण रोचना दिवो दृह्लानि दृहितानि च स्थिराणि न पराणुदे इति, स्वर्गम् एव लोऋम् एतया अहरहः अवरुन्धे) इन्द्रेण रोचना दिवः [यह तृच का तीसरा मन्त्र है] स्वर्ग ही लोक को इस [ऋचा] से दिन दिन वह [यजमान] प्राप्त करता है । (आहं सरस्वतीवतोः, इति अच्छावाकस्य) आहं सरस्वतीवतोः ऋग्० ८ । ३८ । १० । यह अच्छावाक की [परिधानीया ऋचा] है । (इन्द्राग्न्योरवो वृणे, इति, एतत् ह वै इन्द्राग्न्याः प्रियं धामः [धाम], यत् वाक् इति) इन्द्राग्न्योरवो वृणे, [यह उसी मन्त्र का दूसरा पाद है], इन्द्र और अग्नि का यह ही प्रिय धाम है [मन्त्रोक्त—अवः—रक्षा ही धाम वा स्थान है], जो वाणी [सरस्वती] है । (प्रियेण एव धाम्ना एनौ तत् समर्धयति) प्रिय धाम से ही इन दोनों [इन्द्र और अग्नि] को तब वह [अच्छावाक] समृद्ध [सफल] करता है । (प्रियेण एव धाम्ना

(मदे) आनन्दे (सोमस्य) ऐश्वर्यस्य (रोचना) विभक्तेराकारः । रोचनया । प्रीत्या (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमात्मा (यत्) यदा (अभिनत्) व्यदारयत् (वलम्) हिंसकम् । विघ्नम् (सिषासवः) षणु दाने वा षणु संभक्तौ—सनि—उप्रत्ययः । सनीवन्तर्द्ध० । पा० ७ । २ । ४६ । इटो विकल्पनाद् अभावपक्षे । जनसनखनां० । पा० ६ । ४ । ४२ । आत्वम् । सनितुं दातुं वेच्छ्वः (बलवती) बलशब्दयुक्ता ऋक् (उत्) ऊर्ध्वम् (गाः) वाणीः । विद्याः (आजत्) अज गतिक्षेपणयोः—लङ् । अगमयत् (अङ्गिरोभ्यः) विज्ञानिभ्यः (आविष्कृण्वन्) प्रकटयन् (गुहा) गुहायाम् । गुप्तावस्थायाम् (सतीः) विद्यमानाः (अर्वाञ्चम्) अधोगतम् (नुनुदे) प्रेरितवान् (सनिम्) लब्धिम् (इन्द्रेण) परमैश्वर्यवता परमात्मना (रोचना) रोचनानि । प्रकाशाः (दिवः) व्यवहारस्य (दृह्लानि) दृह वृद्धौ—क । दृढीकृतानि (दृहितानि) दृहि वृद्धौ—क । वर्धितानि । विस्तारितानि (स्थिराणि) स्थितिशीलानि (न) निषेधे (पराणुदे) परा+णुद प्रेरणे—क्विप् । परानोदनाय । दूरे प्रेरणाय (सरस्वतीवतोः) वाग्वतोः (अवः)

समृध्यते यः एवं वेद) प्रिय धाम से ही वह समृद्ध होता है, जो ऐसा विद्वान् है ॥ १३ ॥

भावार्थ—कण्डिका १२ के समान है ॥ १३ ॥

टिप्पणी १—(इस कण्डिका को मिलाओ—ऐ० ब्रा० ६ । ७ ॥

टिप्पणी २—शुद्धि पत्र नीचे दिया जाता है ॥

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
इषांश्च	इषं	वेद तथा ऐ० ब्रा०
स्वधी०	स्वश्च धी०	” ”
व्यन्तरिक्ष	व्यन्तरिक्ष	” ”
धामः	धाम	ऐतरेय ब्राह्मण

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । इषं स्वश्च धीमहि—
ऋ० ७ । ६६ । ६, साम० उ० ४ । १ । ८ ॥ (देव) हे देव ! [विजय चाहने वाले वीर] (वरुण) हे वरुण ! [श्रेष्ठ] (मित्र) हे मित्र ! [सर्वोपकारी] (सूरिभिः सह) बुद्धिमानों सहित (ते ते) तेरे ही (स्याम) हम होवें और (इषम्) अन्न (च) और (स्वः) सुख (धीमहि) धारण करें ॥

२—व्य १^१ न्तरिक्षमतिरन्मद्वे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्वलम्—
अथर्व० २० । २८ । १—३, ऋग्० ८ । १४ । ७—६, साम० उ० ८ । १ ।
तृच ६ ॥ (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्यवान् परमात्मा] ने (सोमस्य) ऐश्वर्य के (मदे) आनन्द में (रोचना) प्रीति के साथ (अन्तरिक्षम्) आकाश को (वि अतिरत्) पार किया है, (यत्) जब कि उस ने (वलम्) बल [हिंसक विघ्न] को (अभिनत्) तोड़ डाला ॥ १ ॥

३—उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहा सतीः । अर्वाञ्चं नुनुदे
खलम् ॥ (गुहा) गुहा [गुप्त अवस्था] में (सतीः) वर्तमान (गाः) वाणियों को (आविः कृण्वन्) प्रगट करते हुये उस [परमेश्वर] ने (अङ्गिरोभ्यः) विज्ञानी पुरुषों के लिये (उत् आजत्) ऊंचा पहुँचाया और (वलम्) बल [हिंसक विघ्न] को (अर्वाञ्चम्) नीचे (नुनुदे) हटाया है ॥ २ ॥

४—इन्द्रेण रोचना दिवो दृहानि दृंहितानि च । स्थिराणि न पराणुदे ॥

रक्षणम् (आ वृणे) सर्वतः प्रार्थयामि (धाम्ना) स्थानेन (समर्धयति) समृद्धौ करोति ॥

(इन्द्रेण) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] कर के (दिवः) व्यवहार के (स्थिराणि) ठहराऊ (रोचना) प्रकाश (न पराणुदे) न हटने के लिये (दृहानि) पक्के किये गये (च) और (दृंहितानि) बढ़ायें गये [फैलाये गये] हैं ॥ ३ ॥

५—आहं सरस्वतीवतोरिन्द्राग्न्योरवो वृणो । याभ्यां गायत्रमृच्यते—
ऋ० ८ । ३८ । १० ॥ (अहम्) मैं (सरस्वतीवतोः) सरस्वती [विज्ञानवती वेद वाणी] वाले (इन्द्राग्न्योः) इन्द्र और अग्नि [सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी राजा और मन्त्री] की (अवः) रक्षा (आ वृणो) चाहता हूँ, (याभ्यां) जिन दोनों के लिये (गायत्रम्) गायत्र [गाने योग्य वैदिक स्तोत्र] (ऋच्यते) गाया जाता है ॥

कण्डिका १४ ॥

उभय्यो होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति, अहीनपरिधानीयाश्चैकाहिन्यस्य [-न्यश्च] तत एकाहिकीभिरेव मैत्रावरुणः परिदधाति, ते नास्माह्नोकाश्च प्रच्यवते । आहिनीकीभिरच्छावाकः स्वर्गस्य लोकस्याप्त्यै, उभयीभिर्ब्राह्मणाच्छंसी, एवमसावुभौ व्यन्वारभमाण एतीमञ्च लोकममुञ्च । अथोऽहीनश्चैकाहश्च, अथो संवत्सरश्चाग्निष्टोमश्च, अथो मैत्रावरुणश्चाच्छावाकश्च, एवमसावुभौ व्यन्वारभमाण एति । अथ तत् एकाहिकीभिरेव तृतीयसवने होत्रकाः परिदधाति, तेनास्माह्नोकाश्च प्रच्यवते । आहिनीकाभिरच्छावाकः स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै । कामं तद्धोता शंसेत्, यद्धोत्रकाः पूर्वेषुः शंसयुः । यद्वै होता तद्धोत्रकाः, प्राणो वै होता, अङ्गानि होत्रकाः, समानो वा अयं प्राणोऽङ्गान्यनुसञ्चरन्ति । तस्मात् तत् कामं होता शंसेत्, यद्धोत्रकाः पूर्वेषुः शंसयुः । यद्वै होता तद्धोत्रकाः, आत्मा वै होता, अङ्गानि होत्रकाः, समानो वा इमेऽङ्गानामन्ताः, तस्मात् तत् कामं होता शंसेत्, यद्धोत्रकाः पूर्वेषुः शंसयुः । यद्वै होता तद्धोत्रकाः, सूक्तान्तैर्होता परिदधाति, अथ समान्य एव होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ अहीन और एकाह यज्ञों में होत्रक लोगों की दो प्रकार की परिधानीया ऋचाये ॥

(उभय्यः होत्रकाणां परिधानीयाः भवन्ति, अहीन परिधानीयाः च एकाहिन्यस्य = एकाहिन्यः च) दो प्रकार की होत्रक लोगों [तीन सहायक होताओं]

१४—(उभय्यः) उभय—ङीप् । द्विविधाः (एकाहिन्यस्य) लेखप्रमादः ।

की परिधानीया [समाप्ति वाली ऋचार्ये] होती हैं, अहीनपरिधानीया [बहुत दिन वाले यज्ञ की परिधानीया] और एकाहिनी [एक दिन वाले यज्ञ की] । (ततः एकाहिकीभिः एव मैत्रावरुणः परिदधाति, तेन अस्मात् लोकात् न प्रच्यवते) इस लिये एकाहिकी [एक दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं] से हो मैत्रावरुण ऋत्विज परिधानीया बोलता है, इस कारण इस लोक से वह [यजमान] नहीं गिरता है । (आहिनीकीभिः अच्छावाकः स्वर्गस्य लोकस्य आप्त्यै) आहिनीकी [बहुत दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं] से अच्छावाक् ऋत्विज स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये [परिधानीया बोलता है] । (उभयोभिः ब्राह्मणाच्छंसी, एवम् असौ उभौ इमं च अमुं च लोकं व्यन्वारभमाणः एति) दोनों प्रकार वाली [ऋचाओं] से ब्राह्मणाच्छंसी [परिधानीया बोलता है], इस प्रकार से वह [यजमान] दोनों इस और उस लोक को निरन्तर पाता हुआ चलता है । (अथो अहीनं च एकाहं च, अथो संवत्सरं च अग्निष्टौमं च, अथो मैत्रावरुणं च अच्छावाकं च, एवम् असौ उभौ व्यन्वारभमाणः एति) फिर अहीन [बहुत दिनों में होने वाले] और एकाह [एक दिन में होने वाले यज्ञ] को, फिर संवत्सर और अग्निष्टौम [यज्ञ] को, फिर मैत्रावरुण और अच्छावाक् [ऋत्विज] को, इस प्रकार वह [यजमान] दो दो को ग्रहण करता हुआ चलता है ॥

(अथ ततः एकाहिकीभिः एव तृतीयसवने होत्रकाः परिदधाति [परिदधाति], तेन अस्मात् लोकात् न प्रच्यवते) फिर तब एकाहिकी [एक दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं] से ही तीसरे सवन में होत्रक लोग परिधानीयार्ये बोलते हैं, इस कारण इस लोक से वह [यजमान] नहीं गिरता । (आहिनीकीभिः अच्छावाकः स्वर्गस्य लोकस्य समप्त्यै) आहिनीकी [बहुत दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं] से अच्छावाक स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये [परिधानीया बोलता है] । (तत् होता कामं शंसेत्, यत् होत्रकाः

एकाहिन्यश्च । एकाह—इनि, डीप्, जसि रूपम् । एकाहिन्यः । एकाहयज्ञे विहिता ऋचः (एकाहिकीभिः) एकाह—ठन्, डीप् । एकाहिकाभिः । एकाहविहिताभिः (परिदधाति) परिधानीयां शंसति (आहिनीकीभिः) अहीन—ठक्, डीप्, वर्णव्यत्ययः । आहीनिकीभिः । अहीनेषु अहर्गणेषु विहिताभिः (व्यन्वारभमाणः) लस्य रः । विविधमालभमानः स्पृशन् (एति) गच्छति । प्राप्नोति (कामम्) यथाकामम् । यथेष्टम् (समानः) तुल्यः (पूर्वेषु) सद्यः

पूर्वेद्युः शंसेयुः) तब होता चाहे तो [वे मन्त्र] बोले, जो होत्रक लोगों ने पहिले दिन बोले थे । (यत् वै होता, तत् होत्रकाः) जो ही होता ऋत्विज है वे ही होत्रक लोग हैं । (प्राणाः वै होता, अङ्गानि होत्रकाः, अयं प्राणः वै समानः अङ्गानि अनुसञ्चरन्ति = अनुसञ्चरति) प्राण [के तुल्य] ही होता ऋत्विज है, और अङ्ग होत्रक लोग हैं, यह प्राण ही समान [एक रस फैलने वाला होकर] अङ्गों में घूमता रहता है । (तस्मात् तत् कामं होता शंसेत् यत् होत्रकाः पूर्वेद्युः शंसेयुः) इस लिये तब होता चाहे तो [वे मन्त्र] बोले, जो होत्रक लोगों ने पहिले दिन बोले थे । (यत् वै होता तत् होत्रकाः) जो ही होता ऋत्विज है वे ही होत्रक लोग हैं । (आत्मा वै होता, अङ्गानि होत्रकाः, अङ्गानां वै इमे अन्ताः समानः = समानाः) आत्मा ही होता ऋत्विज है, और अङ्ग होत्रक लोग हैं, अङ्गों के यह अन्त [हाथ पैर अङ्गुली आदि] एक से हैं । (तस्मात् तत् होता कामं शंसेत्, यत् होत्रकाः पूर्वेद्युः शंसेयुः) इस लिये तब होता चाहे तो [वे मन्त्र] बोले, जो होत्रक लोगों ने पहिले दिन बोले थे । (यत् वै होता तत् होत्रकाः, सूक्तान्तैः हाता परिधायति) जो ही होता ऋत्विज है, वे ही होत्रक लोग हैं, [इस लिये] सूक्त के पिछले [मन्त्रों] से होता परिधानीया बोलता है । (अथ होत्रकाणाम् एव परिधानीयाः समान्यः भवन्ति) फिर होत्रक लोगों की परिधानीया भी समान [एक साथ बोली हुई] होती हैं ॥ १४ ॥

धावार्थ—जहाँ विद्वान् ऋत्विज लोग अपना अपना काम यथाविधि करते हैं, वह यज्ञ सर्वथा सुफल होता है ॥ १५ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका को क० १३ और ऐतरेय ब्राह्मण ६ । ८ से मिलाओ ॥

कण्डिका १५ ॥

यः श्वःस्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति, प्रातःसवनेऽहीनमैव तत्सन्तन्वन्ति, अहीनस्य सन्तत्यै । त एते होत्रकाः प्रातःसवने षडहस्तोत्रियं शस्त्वा माध्यन्दिनेऽहीनसूक्तानि शंसन्ति, सत्यां [आ सत्यो] यातु मघवाँ ऋजीषीति । सत्यवान् [-वन्] मैत्रावरुणो अस्मा इदु प्रतवसे तुरायेति ब्राह्मणाच्छंसी । शासद्वहिर्दुहितुर्नप्यं गादित्यच्छावाकः । तदाहुः, कस्मादच्छावाको वह्निवदेतत्

परुत्परार्थेषमः० । पा० ५ । ३ । २२ । पूर्व—एद्युस् । पूर्वदिने (सूक्तान्तैः) सूक्तानाम् अन्तिमाभिर्ऋग्भिः (समान्यः) तुल्याः ॥

सूक्तमुभयत्र शंसति, स पराक्षु चैवाह सर्वाक्षु चेति । वीर्यवान् वा एष वह्वृचः, यदच्छावाकः । वहति ह वै वह्नेर्धुरः, यासु युज्यते । तस्मादच्छावाको वह्निवदे-
तत् सूक्तमुभयत्र शंसति, स पराक्षु चवाह सर्वाक्षु चेति । तानि पञ्चस्वहःसु
शस्यन्ते । चतुर्विंशोऽभिजिति विषुवति विश्वजिति महाव्रते तान्येतान्यहीन-
सूक्तानीत्याचक्षते । न ह्येषु किञ्चन हीयते, पराश्चि ह वा एतान्यहान्यभ्यावर्त्तानि
भवन्ति । तस्मादेतान्येष्वहःसु शस्यन्ते । यदेतानि शंसन्ति, तत् स्वर्गस्य
लोकस्य रूपम् । यद्वेदैतानि शंसति, इन्द्रमेवैतैर्निर्ह्वयन्ते, यथा ऋषभं वासिताय
ते वै देवाश्च ऋषयश्चाब्रुवन्, समानेन यज्ञं सत्त्वं तन्वामहा इति । तदेतद्यज्ञस्य
समानमपश्यत् । समानां प्रगाथां समानी प्रतिपद्ः समानानि सूक्तानि । ओकः-
सारी वा इन्द्रो यत्र वा इन्द्रः पूर्वं गच्छति, गच्छत्येव तत्रापरं यज्ञस्यैव सेन्द्र-
तायै ॥ १५ ॥

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणोत्तरभागे पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ५ ॥

करिडका १५ ॥ यज्ञों में अच्छावाक ऋत्विज के विशेष स्तोत्र ॥

(यः श्वः स्तोत्रियम् अद्यस्तोत्रियस्य अनुरूपं कुर्वन्ति, प्रातःसवने अही-
नम् एव तत् अहीनस्य सन्तत्यै सन्तन्वन्ति) जब आगामी दिन में होने वाले
स्तोत्रिय [स्तोत्र] को आज होने वाले स्तोत्रिय के अनुरूप [छन्द, देवता आदि
सं सद्रूप] करते हैं, प्रातःसवन में अहीन [बहुत दिनों में होने वाले यज्ञ]
को ही तब अहीन [पूर्ण व्यवहार] के फैलाव के लिये फैलाते हैं [करिडका
११ तथा ऐ० ब्रा० ६ । १७] । (ते एते होत्रकाः प्रातःसवने षडहस्तोत्रियं शस्त्वा
माध्यन्दिने अहीनसूक्तानि शंसन्ति) वे ही यह होत्रक लोग प्रातःसवन में छह
दिन वाले यज्ञ के स्तोत्रिय बोलकर माध्यन्दिन सवन में अहीन [बहुत दिनों में
होने वाले यज्ञ] के सूक्तों को बोलते हैं—(सत्यो [आ सत्यो] यातु मघवान्
ऋजीषी इति, सत्यवात् [सत्यवत्] मैत्रावरुणः, अस्मा इदु प्र तवसे तुराय
इति, ब्राह्मणाच्छंसी, शासद् वन्हिर्दुहितुर्नप्यं गात् इति, अच्छावाकः) आ सत्यो
यातु मघवा ऋजीषी.....अथर्व० २० । ७७ । १—८, इस सत्यवत् [सत्य शब्द
वाले आठ मन्त्र के सूक्त] को मैत्रावरुण [बोलता है] । (अस्मा इदु प्र तवसे

१५—(यः) यत् । यदा (मघवान्) धनवान् (ऋजीषी) ऋजीष-इति ।
सरत्स्वभावः (सत्यवान्) आर्षो दीर्घः । सत्यवत् । सत्यशब्दयुक्तं सूक्तम्
(अस्मै) संसारहिताय (इत्) एव (उ) विचारे (तवसे) बलाय (तुराय)

तुराय.....अथर्व० २० । ३५ । १—१६ इस [सोलह मन्त्र वाले सूक्त] को ब्राह्मणाच्छंसी [बोलता है] । (शासद् वह्निर्दुहितु नप्त्यं १ । इति.....ऋग्० ३ । ३१ । १—२२, इस [चाईस मन्त्र वाले सूक्त] को अच्छावाक [बोलता है] ॥

(तत् आहुः, तस्मात् अच्छावाकः वह्निवत् एतत् सूक्तम् उभयत्र शंसति सः पराक्षु च एव सर्वाक्षु च आह इति) वे कहते हैं—किस लिये अच्छावाक वह्निवत् [वह्निशब्द वाले] इस सूक्त को दो जगह बोलता है, [अर्थात्] आवृत्ति रहित [चतुर्विंश आदि यज्ञों] में और भी आवृत्ति वाले [षडह आदि यज्ञों] में बोलता है । [समाधान] (वीर्यवान् वै एषः बह्वृचः, यत् अच्छावाकः वह्नेः धुरः ह वै वहति यासु युज्यते) सामर्थ्य वाला ही यह बहुत ऋचायें जानने वाला है जो अच्छावाक है और वह वह्नि [बोझ ले चलने वाले] के बोझों को ही ले जाता है, जिन [बोझों] में वह जोड़ा जाता है । (तस्मात् अच्छावाकः वह्निवत् एतत् सूक्तम् उभयत्र शंसति, सः पराक्षु च एव सर्वाक्षु च आह इति) इस लिये अच्छावाक वह्निवत् [वह्नि शब्द वाले] इस सूक्त को दो जगह बोलता है, [अर्थात्] आवृत्ति रहित [चतुर्विंश आदि यज्ञों] में और भी आवृत्ति वाले [षडह आदि यज्ञों] में बोलता है । (तानि पञ्चसु अहःसु शस्यन्ते, चतुर्विंशे अभिजिति विषुवति विश्वजिति महाव्रते तानि एतानि अहीनसूक्तानि इति आचक्षते, हि एषु किंचन न हीयते) वे [सूक्त] पांच दिन [यज्ञों] में बोले जाते हैं, [अर्थात्] चतुर्विंश में, अभिजित् में, विषुवान् में, विश्वजित् में और महाव्रत में, वे ही यह अहीन [बहुत दिन रहने वाले वा हीनता रहित यज्ञ के] सूक्त हैं—ऐसा कहते हैं, क्योंकि इन सूक्तों] में कुछ भी [अङ्ग] नहीं छोड़ा जाता है । (पराश्चि ह वै एतानि अहानि अभ्यावर्तीनि भवन्ति) आवृत्ति रहित ही यह दिन आवृत्ति वाले होते

त्वर त्वरणे—क । वेगवते (शासत्) शासु अनुशिष्टौ—शत् । जक्षित्यादयः षट् । पा० ६ । १ । ६ । अभ्यस्तसंज्ञात्वात् नुमभावेः । अनुशासनं कुर्वन् (वह्निः) वोढा गृहवाहकः (दुहितुः) नप्तृनेष्टृत्वष्टृ० । उ० २ । ६५ दुह प्रपूरणे—तृच् । इडागमः । सुखस्य पूरयित्र्याः । कन्यायाः (नप्त्यम्) नप्तृ—यत् स्वार्थे । रलोपः । नप्तारम् । दौहित्रम्—निरु० ३ । २१ । दुहितृपुत्रम् (गात्) अगमत् । प्राप्नोति (पराक्षु) परा—अश्नु गतिपूजनयोः—किन् । परा अश्नति 'गच्छतीति पराक् । आवृत्तिरहितेषु चतुर्विंशादिषु अहस्सु (आह) ब्रवीति (सर्वाक्षु) सर्व—अश्नु गतिपूजनयोः—किन् । सर्वम् अश्नति गच्छतीति सर्वाक् । आवृत्तिसहितेषु

हैं । (तस्मात् एतानि एषु अहःसु शस्यन्ते) इस लिये यह [सूक्त] इन दिनों में बोले जाते हैं । (यत् एतानि शंसन्ति, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्) जो वे इन को बोलते हैं, वह स्वर्ग लोक का रूप [चिन्ह] है । (यत् उ एव एतानि शंसति [शंसन्ति] इन्द्रम् एव निर्ह्वयन्ते, यथा ऋषभं वासितायै) जो ही इन [सूक्तों] को वे बोलते हैं, इन्द्र को ही इन से वे बुलाते हैं, जैसे गतिमान् [पुरुषार्थी वीर] को निवास करायी हुई प्रजा के लिये [बुलाते हैं] [ऐ० ब्रा० ६ । १८] ॥

(ते वै देवा चः ऋषयः च अब्रुवन्, समानेन यज्ञं सन्तन्वामहै इति) वे ही देव [विजयी पुरुष] और ऋषि लोग [दूर दर्शी पुरुष] बोले—एक से विधान से यज्ञ को हम फैलावें । (तत् एतत् यज्ञस्य समानम् अपश्यत् [अपश्यन्], समानां प्रगाथां समानी प्रतिपदः समानानि सूक्तानि) सो यह ही यज्ञ के एक से विधान को उन्होंने ने देखा—[अर्थात् एकसो प्रगाथा को, एकसी आरम्भणीया ऋचाओं को और एक से सूक्तों को । (ओकःसारी वै इन्द्रः, यत्र वै इन्द्रः पूर्वं गच्छति तत्र यज्ञस्य एव सेन्द्रतायै अपरम् एव गच्छति) घर घर पहुँचने वाला ही इन्द्र है जहाँ ही इन्द्र पहिले घर जाता है, वहाँ यज्ञ में इन्द्र सहित विद्यमानता के लिये दूसरे [घर] भी जाता है [ऐ० ब्रा० ६ । १७] ॥ १५ ॥

भावार्थ—ऋत्विज लोग समय के अनुकूल मन्त्रों से देवताओं का आवाहन करें ॥ १५ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६ । १७, ६ । १८ और ६ । १७ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—शुद्धि पत्र नीचे है ॥

षडहगतेषु अहःसु (वीर्यवान्) शक्तिमान् (बह्वृचः) वहीनाम् ऋचामध्येता (धुरः) भारान् (हीयते) त्यज्यते (पराञ्चि) आवृत्तिरहितानि (आभ्यावर्तीनि) आवृत्तिसहितानि (ऋषभम्) ऋषिवृषिभ्यां कित् । उ० ३ । १२३ ऋष गतौ दर्शनं च—अभच्, कित् । गतिमन्तम् । पुरुषार्थिनम् (वासितायै) वस निवासे—णिच्—क्त, टाप् । निवासितायै प्रजायै (समानेन) सदृशेन विधानेन (समानी) पूर्वसवर्णदीर्घः । समानीः (प्रतिपदः) आरम्भणीया ऋचः (ओकःसारी) गृहेषु सञ्चरणशीलः (सेन्द्रतायै) इन्द्रेण सह वर्तमानतायै ॥

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
सत्योयातु	आ सत्यो यातु	वेद
सत्यवान्	सत्यवन्	ऐ० ब्रा० ६ । १८
नप्त्य	नप्त्यं	वेद

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।

१—आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हरय उप नः । तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्षमिहाभिपित्वं करते गृणानः—अथर्व० २० । ७७ । १—८, ऋ० ४ । १६ । १—८ ॥ (सत्यः) सच्चा [सत्यवादी, सत्यकर्मी], (मघवान्) महाधनी, (ऋजीषी) सरल स्वभाव वाला [राजा] (आ यातु) आवे, और (अस्य) इस [राजा] के (हरयः) मनुष्य (नः) हमारे (उप द्रवन्तु) पास आवें । (तस्मै) उस के लिये (इत्) ही (सुदक्षम्) सुन्दर बलवाला (अन्धः) अन्न (सुषुमा) हमने सिद्ध किया है, (गृणानः) उपदेश कर्ता हुआ वह (इह) यहां (अभिपित्वम्) मेल मिलाप (करते) करे ॥ [सूक्त में आठ मन्त्र हैं, शेष के लिये वेद देखो] ॥

२—अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिनाय । ऋचीषमायाधिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा—अथर्व० २० । ३५ । १—१६, ऋ० १ । ३१ । १—१६ ॥ (अस्मै) इस [संसार] के हित के लिये (इत्) ही (उ) विचार पूर्वक (तवसे) बल के निमित्त, (तुराय) फुर्तीले (माहिनाय) पूजनीय, (ऋचीषमाय) स्तुति के समान गुण वाले, (अधिगवे) बे रोक गति वाले, (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति] के लिये (स्तोमम्) स्तुति को (ओहम्) पूरे विचार को और (राततमा) अत्यन्त देने योग्य (ब्रह्माणि) धनों को (प्रयः न) तृप्ति करने वाले अन्न के समान (प्र हर्मि) मैं आगे लाता हूँ [सूक्त में १६ मन्त्र हैं, शेष के लिये वेद देखो] ॥

३—शासद् वहिर्दुहितुर्नप्त्यं गाद् विद्वाँ ऋतस्य दीधितिं सपर्यन् । पिता यत्र दुहितुः सेकमृज्जन्तसं शुग्म्येन मनसा दधन्वे—ऋ० ३ । ३१ । १—२२ ॥ (विद्वान्) जानकार (वहिः) वहि [घर का चलाने वाला पिता] (ऋतस्य) सत्य नियम के (दीधितिम्) धारण करने वाले [जामाता] को (शासत्) शिक्षा देता हुआ और (सपर्यन्) पूजता हुआ (दुहितुः) पुत्री से (नप्त्यम्) नाती [नाती के समान देहते] को (गात्) पाता है, (यत्र) जहाँ [गृहस्थ व्यवहार में] (दुहितुः) पुत्री के (सेकम्) सेचन [सींचे हुये पुत्र]

को (ऋजन्) समर्थ पाता हुआ (पिता) वह पिता (शम्भ्येन) सुखी (मनसा) मन के साथ (सं दधन्वे [धवि गतौ लिट्) संगत होता है [अर्थात् पुत्रहीन पिता बेटी से दौहते को लेकर नाती के समान अपना दायभागी करता और सुखी होता है ॥ यह मन्त्र निरु० ३ । ४ और ५ में व्याख्यात है । सूक्त में २२ मन्त्र हैं, शेष के लिये वेद देखो] ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
चाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्व-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री परिडित जेमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्योत्तरभागे पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ १९८० [अशी-
त्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि
श्रीराजराजेश्वर पञ्चमजार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात् ॥

मुद्रितः—कार्तिककृष्ण ८ संवत् १९८१ वि० ता० २१ आकटूबर सन् १९२४ ई० ॥

अथ षष्ठः प्रपाठकः ॥

कण्डिका १ ॥

ओम् । तान्वा एतान् सम्पातान् विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्, एवा त्वामि-
न्द्र वज्रिन्नत्र यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि कथामहामवृधत् कस्य हेतुरिति । तान्
विश्वामित्रेण दृष्टान् वामदेवो असृजत । स हेरक्षाञ्चके [हेक्षाञ्चके] विश्वामित्रो
यान् वाहं सम्पातानदर्शं स्तान् वामदेवो असृजत । कानि त्वं [न्वहं] हि सूक्तानि
सम्पातांस्तत्प्रतिमान् सृजेयमिति । स एतानि सूक्तानि सम्पातांस्तत्प्रतिमान्-
सृजत, सद्यो ह जातो वृषमः कनीन उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्याभितष्टेव दीधया
मनीषामिति विश्वामित्रः । इन्द्रः पूर्भिदातिरहासमर्कैर्य एक इद्रव्यश्चर्षणीनां
यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम इति वसिष्ठः । इमाम् षु प्रभृतिं सातये धा इच्छन्ति
त्वा सोम्यासः सखायः शासद्वहिर्दुहितुर्नृपत्य [नृपत्य] ज्ञादिति भरद्वाजः । एतैर्वै
सम्पातैरेत ऋषय इमान् लोकान् समपतन् । तद्यत्समपतन्, तस्मात् सम्पाताः,
तत् सम्पातानां सम्पातत्वम् । ततो वा एतांस्त्रीन् सम्पातान् मैत्रावरुणो विप-

य्यासमेकै रुमहरहः शंसति, एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्रेति प्रथमेऽहनि, यत्र इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टीति द्वितीये, कथामहामवृधत् कस्य होतुरिति तृतीये । त्रीनेव सम्पातान् ब्राह्मणाच्छ्रुत्सी विपर्यासमेकैरुमहरहः शंसति, इन्द्रः पूर्भिदातिर-
द्दासमकैरिति प्रथमेऽहनि, य एक इद्व्यश्वर्षणीनामिति द्वितीये, यस्तिगमशृङ्गो
वृषभो न भीम इति तृतीये । त्रीनेव सम्पातानच्छ्रावाको विपर्यासमेकैरुमहरहः
शंसति, माम् [इमाम्] षु प्रभृतिं सातये धा इति प्रथमेऽहनि, इच्छन्ति त्वा
सोम्यासः सखाय इति द्वितीये, शासद्वहिर्दुहितुर्नृप्य [नृप्य] ज्ञादिति तृतीये ।
तानि वा एतानि नव त्रीणि चाहरहः शंस्यानि । तानि द्वादश भवन्ति । द्वादश
ह वै मासाः संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापतिः, प्रजापतिर्यज्ञः, तत् संवत्सरं प्रजा-
पतिं यज्ञमाप्नोति । तस्मिन् संवत्सरे प्रजापतौ यज्ञे अहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति,
प्रतितिष्ठन्ते । इदं सर्वमनु प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं
वेद । तान्यन्तरेणावापमावपेरन्, अन्यूखा [अन्यूखा] विराजश्चतुर्थेऽहनि,
वैग दीश्च [वैमदीश्च] पङ्क्तीः पञ्चमे, पारुत्ते पी [पारुच्छेप] षष्ठेऽथ यान्य-
न्यानि महास्तोत्राण्यष्टर्चान्यावपेरन् ॥ १ ॥

कण्डिका १ ॥ अहीन यज्ञ में सम्पात सूक्तों का वर्णन ॥

(ओम्) ओम् [हे रक्षक परमेश्वर] । (तान् वै एतान् सम्पातान्
विश्वामित्रः प्रथमम् अपश्यत्, एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्र, यत्र इन्द्रो जुजुषे-
यच्च वष्टि, कथा महामवृधत् कस्य होतुः—इति) उन ही इन सम्पातों [भली
भांति प्राप्ति योग्य वा ऐश्वर्ययुक्त ज्ञान वाले सूक्त विशेषों] को विश्वामित्र [सब
के मित्र वा सब के प्यारे ऋषि] ने पहिले ही पहिले देखा [विचारा]—एवा
त्वामिन्द्र.....ऋ० ४ । १६ । १—११, यत्र इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि.....ऋ० ४ ।
२२ । १—११, और कथा महामवृधत् कस्य होतुः.....ऋ० ४ । २३ । १—११] ।
(विश्वामित्रेण दृष्टान् तान् वामदेवः असृजत) विश्वामित्र के देखे हुये उन
[तीन सम्पातों] को वामदेव [श्रेष्ठ विद्वान् ऋषि] ने प्रकट कर दिया ।
(सः ह विश्वामित्रः ईक्षाञ्चक्रे, अहं वा यान् सम्पातान् अदर्शम् तान् वामदेवः
असृजत) उस ही विश्वामित्र ने देखा [विचारा]—मैं ने जिन सम्पातों को
देखा था, इन को वामदेव ने प्रकट कर दिया । (कानि त्वं [नु अहं] सूक्तानि

१—(सम्पातान्) सम् + पत गतौ ऐश्वर्ये च—घञ्, अथवा पा रक्षणे-
क्त । सम्पतनशीलान् । सम्यक् प्राप्तवान् सम्यगैश्वर्ययुक्तान् बोधान् । सूक्तविशे-
षान् (अपश्यत्) दृष्टवान् । वेदमध्ये ज्ञातवान् (जुजुषे) जुषते । सेवते

हि तत्प्रतिमान् सम्पातान् सृजेयम् इति) कौन से सूक्तों को अब मैं उन के सदृश सम्पात प्रकट करूँ । (सः एतानि सूक्तानि तत्प्रतिमान् सम्पातान् असृजत—सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः, उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्या, अभि तष्टेव दीधया मनीषाम्, इति विश्वामित्रः, इन्द्रः पूभिदातिरद्दासमकैः, य एक इद् धव्यश्चर्षणीनाम्, यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः, इति वसिष्ठः, इमाम् षु प्रभृतिं सातये धाः, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः, शासद् वह्निर्दुहितुर्नृपत्यं [नृपत्यं] गात् इति भरद्वाजः) उस ने इन सूक्तों को उन के सदृश सम्पात प्रकट किया— सद्यो ह जातो वृषभो कनीनः.....ऋ० ३ । ४८ । १—५, उदु ब्रह्माण्यैरत श्रव-स्या.....ऋ० ७ । २३ । १-६, अभि तष्टेव दीधया मनीषाम्.....ऋ० ३ । ३८ । १—१०, इन [तीन सूक्तों] के विश्वामित्र [ऋषि] हैं, इन्द्रः पूभिदातिरद्दासमकैः—ऋ० ३ । ३४ । १—११, यः एक इद् धव्यश्चर्षणीनाम्—ऋ० ६ । २२ । १—११, यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः—ऋ० ७ । १६ । १—११, इन [तीन सूक्तों] के वसिष्ठ [ऋषि] हैं, इमाम् षु प्रभृतिं सातये धाः—ऋ० ३ । ३६ । १—६, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः—ऋ० ३ । ३० । १—२२, शासद् वह्निर्दुहितुर्नृपत्यं [नृपत्यं] गात्.....ऋ० ३ । ३१ । १—२२, इन [तीन सूक्तों] के भरद्वाज [ऋषि] हैं । (एतैः सम्पातैः एते ऋषयः इमान् लोकान् समपतन्) इन ही सम्पातों [प्राप्ति योग्य ज्ञानों] से इन ऋषियों ने इन लोकों को पाया । (तत् यत् समपतन् तस्मात् सम्पाताः, तत् सम्पातानां सम्पातत्वम्) सो जो उन्होंने ने [लोकों को] अच्छे प्रकार पाया, इसी से वे सम्पात [अच्छे प्रकार पाने योग्य ज्ञान] हैं, वह ही सम्पातों का सम्पातत्व [अच्छे पाने योग्य धर्म] है । (ततः वै एतान् त्रीन् सम्पातान् मैत्रावरुणः विपर्यासम् एकैकम् अहरहः शंसति, एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्र-प्रथमे अहनि, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्चवष्टि—इति द्वितीये, कथा महामवृधत् कस्य हेतुः इति तृतीये) फिर ही इन [तीन सम्पातों] को मैत्रावरुण ऋत्विज उलट्टे क्रम से एक एक को दिन दिन बोलता है—[अर्थात्] एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्र—इस [सम्पात] को पहिले दिन में, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि—इस को दूसरे में, कथा महामवृधत् कस्य हेतुः—इस को तीसरे में ।

(वष्टि) कामयते (कथा) केन प्रकारेण (महाम्) महान्तम् (अवृधत्) वर्धते (असृजत्) प्रकटीकृतवान् (ईक्षां चक्रे) विचारितवान् (वा) वै । एव (तत्-प्रतिमान्) तैः सदृशान् (सृजेयम्) प्रकटीकरवाणि (कनीनः) गो० उ० ४ । १ । दीप्तिमान् (उत्प्रेरत) ईर गतौ—लङ् । ते उदीरितवन्तः । उच्चारितवन्तः

(त्रीन् एव सम्पातान् ब्राह्मणाच्छंसी विपर्यासम् एकैकम् अहरहः शंसति, इन्द्रः पूर्भिदातिरद्दासमकैः—इति प्रथमे अहनि, य एक इद् धव्यश्चर्षणीनाम्—इति द्वितीये, यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः—इति तृतीये) तीन ही सम्पातों को ब्राह्मणाच्छंसी उलट्टे क्रम से एक एक को दिन दिन बोलता है—[अर्थात्] इन्द्रः पूर्भिदातिरद्दासमकैः—इस को पहिले दिन में, य एक इद् धव्यश्चर्षणीनाम्—यह दूसरे में, यस्तिग्मशृङ्गो वृषभा न भीमः—यह तीसरे में । (त्रीन् एव सम्पातान् अच्छावाकः विपर्यासम् एकैकम् अहरहः शंसति, इमाम् षु प्रभृतिं सातये धाः—इति प्रथमे अहनि, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः—इति द्वितीये, शासद् वह्निर्दुहितुर्नृप्यं [नृप्यं] गात्—इति तृतीये) तीन ही सम्पातों को अच्छावाक उलट्टे क्रम से एक एक को दिन दिन बोलता है—इमाम् षु प्रभृतिं सातये धाः—यह पहिले दिन में, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः—यह दूसरे में, शासद् वह्निर्दुहितुर्नृप्यं गात्—यह तीसरे में । (तानि त्रीणि वै एतानि नव च अहरहः शंस्यानि) वे तीन [वामदेव वाले] और यह नौ [विश्वामित्र, वसिष्ठ और भरद्वाज वाले सूक्त] दिन दिन बोलने चाहिये । (तानि द्वादश भवन्ति) वे बारह होते हैं । (द्वादश वै मासाः संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापतिः, प्रजापतिः यज्ञः, तत् प्रजापतिं संवत्सरं यज्ञम् आप्नोति) बारह ही महीने संवत्सर हैं, संवत्सर प्रजापति है और प्रजापति यज्ञ है, इस लिये प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ को वह [यजमान] पाता है । (तस्मिन् प्रजापतौ संवत्सरे यज्ञे अहरहः प्रतितिष्ठन्तः यन्ति, प्रतितिष्ठन्ते) उस प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ में दिन दिन दृढ़ बैठे हुये वे चलते हैं और प्रतिष्ठा पाते हैं । (इदं सर्वम् अनु प्रतितिष्ठति) इस सब [कर्म] के पीछे पीछे मनुष्य प्रतिष्ठा पाता है । (प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद) प्रजा के साथ और पशुओं के साथ वह प्रतिष्ठा [बड़ाई] पाता है जो ऐसा विद्वान् है । (तानि अन्तरेण आवापम् आवपेरन्, अन्यूखा [अन्यूक्षाः] विराजः चतुर्थे अहनि, वैपदीः [वैमदीः] च पङ्क्तीः पञ्चमे, पारुक्षेपी [पारुक्षेपीः] षष्ठे) उन [सूक्तों] में आवाप [क्षेपक सूक्त] को वे [ऋत्विज] डालें—

(उ) एव (ब्रह्मणि) वेदज्ञानानि (श्रवस्या) श्रवसे यशसे हितानि (तष्टा) सूक्ष्मीकरणशीलः (दीधय) प्रकाशय (मनीषाम्) प्रज्ञाम् (चर्षणीनाम्) कृषे-
रादेश्च धः (चः) । उ० २ । १०४ । कृष विलेखने—अनि, कस्य च । मनुष्याणाम्—
निघ० २ । ३ (सोम्यासः) सोममर्हति यः । पा० ४ । ४ । १३७ । सोम—य ।
तत्त्वरसयोग्याः (समपतन्) सम्यक् प्राप्तवन्तः (विपर्यासम्) वि + परि + असु

[अर्थात् न्यूह को छोड़ कर विराट् छन्द छह दिन वाले यज्ञ के] चौथे दिन में, वैपदी [विपदी अर्थात् विमद ऋषि की देखो हुई ऋचायें] पङ्क्ति छन्द वाली पाचवें में, और पारुक्षेपी [पारुक्षेपी अर्थात् पारुक्षेप ऋषि की देखी हुई ऋचायें] छठे में [इस विषय में टिप्पणी ४ देखो] (अथ यानि अन्यानि महास्तोत्राणि अष्टर्चानि, आवपेरन्) जो दूसरे महास्तोत्र आठ ऋचा वाले हैं, [उन को] आवाप [क्षेपणीय] बनावें [करिडका २ देखो] ॥

भावार्थ—यज्ञ में ठीक ठीक मन्त्रों के प्रयोग से ऋत्विज लोग यजमान को स्वर्ग में पहुँचाते हैं ॥ १ ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को ऐतरेय ब्राह्मण ६। १८ तथा ६। १६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—शुद्धि पत्र नीचे है ॥

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
हेरक्षाश्चके	हेक्षाश्चके	ऐ० ब्रा० ६। १८
त्वं	न्वहं	"
नृत्य [दो बार]	नृत्य [दो बार]	"
मामू षु	इमामू षु	वेद, और ऊपर इसी में
अन्यूखाः	अन्यूह्याः	पाणिति १। २। ३४
वैपदीः	वैमदाः	ऐ० ब्रा० ६। १६
पारुक्षेपीः	पारुक्षेपीः	"

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित दिये जाते हैं ॥

१—एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्नत्र विश्वे देवासः सुहवास ऊमाः । महामुभे रोदसी वृद्धमृष्वं निरेकमिद् वृणते वृत्रहत्ये—ऋ० ४। १६। १—११, वामदेव ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है—गो० उ० ४। १। शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

२—यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो महाम् करति शुष्म्या चित् । ब्रह्म स्तोमं मघवा सोममुक्था यो अश्मानं शवसा विभ्रदेति—ऋग्० ४। २२। १—११ वामदेव ऋषि ॥ (यत् इन्द्रः) जो इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा (नः)

क्षेपे—घञ् । यथा भवति तथा विपर्यासेन । विपरीतक्रमेण (आवापम्) आ उप्यते स्थाप्यते । टुवप वीजतन्तुसन्ताने—घञ् । प्रक्षेपणीयम् (आवपेरन्) प्रक्षेपेयुः (अन्यूह्याः) न्यूह्याभि ऋग्भी रहिताः (वैमदीः) विमद—अण्, डीप् । विमदाख्येन महर्षिणा दृष्टाः (पारुक्षेपी) पारुक्षेपीः—ऐ० ब्रा० ६। १६। पारुक्षेपेण दृष्टाः ॥

हमें (जुजुषे) सेवता है (च) और (यत्) जो (वष्टि) चाहता है, (तत्) वह (महान्) महान् [पूजनीय], (शुष्मी) अति बली (नः) हम को (चित्) ही (आ करति) स्वीकार करे, (यः) जो (मघवा) महाधनी [राजा] (ब्रह्म) बहुत धन वा अन्न, (स्तोमम्) प्रशंसनीय गुण, (सोमम्) तत्त्वरस, (उक्था) प्रशंसनीय वस्तुओं और (अश्मानम्) मेघ [के समान उपकारी गुण] को (शवसा) बल के साथ (विभ्रत्) धारण करता हुआ (एति) चलता है ॥ [शेष मन्त्र वेद में देखो] ॥

३—कथा महामवृधत् कस्य हेतुर्यज्ञं जुषाणो अभि सोममूर्धः । पिबन्नुशानो जुषमाणो अन्धो ववत् ऋष्वः शुचते धनाय—ऋ० ४ । २३ । १—११, वामदेव ऋषि ॥ (कथा) किस प्रकार से (कस्य हेतुः) किस दानी के (महाम्) बड़े (यज्ञम्) यज्ञ [सङ्गति योग्य व्यवहार] को (जुषाणः) सेवन करता हुआ वह [इन्द्र विद्वान्] (ऊधः) निवाहने वाले (सोमम् अभि) सोम [तत्त्वरस] के लिये (अवृधत्) बढ़ता है । [उस सोम को] (उशानः) चाहता हुआ (पिबन्) पीता हुआ, और (जुषमाणः) प्रसन्न होता हुआ (ऋष्वः) वह महान् पुरुष (अन्धः) अन्न (ववत्) पहुँचाता है, और (धनाय) धन के लिये (शुचते) सोचता है ॥ [शेष मन्त्र वेद में देखो] ॥

४—सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः—ऋ० ३ । ४८ । १—५, विश्वामित्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है—गो० उ० ४ । १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

५—उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं सम्ये महया वसिष्ठ । आ यो विश्वानि शवसा ततानोपश्रोताम् ईवतो वचांसि—अथ० २० । १२ । १—६, ऋग० ७ । २३ । १—६, वसिष्ठ ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है—गो० उ० ४ । १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

६—अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः । अभिप्रियाणि ममृशत् पराणि कवीं रिच्छामि संदृशे सुमेधाः—ऋ० ३ । ३८ । १—१० । विश्वामित्र के गोत्र का प्रजापति, अथवा वाच्य वाक् का पुत्र, अथवा प्रजापति और वाच्य दोनों, अथवा विश्वामित्र ही ऋषि—शाकलकसंहिता और सायण भाष्य ॥ [हे इन्द्र विद्वन् !] (तष्टा इव) बढ़ई के समान और (सुधुरः) बहुत बोझ उठाने वाले, (अत्यः) लगातार चलने वाले (वाजी न) घोड़े के सदृश (जिहानः) चलता हुआ तू (मनीषाम्) बुद्धि को (अभि)

सब ओर से (दीधय) प्रकाशित कर, (प्रियाणि) प्रिय और (पराणि) श्रेष्ठ कर्मों को (अभि ममृशत्) सब ओर से विचारता हुआ (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि वाला मैं (कवीन्) बड़े विद्वानों को (सन्दृशे) ठीक ठीक दर्शन के लिये (इच्छामि) चाहता हूँ ॥ [शेष मन्त्र वेद में देखो] ॥

७—इन्द्रः पूर्णिदातिरुद् दासमकै विद्ववसुर्दयमानो वि शन्नून् । ब्रह्म-
जुतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे—ऋ० ३ । ३४ । १—११,
विश्वामित्र ऋषि—अथर्व० २० । ११ । १—११ ॥ यह मन्त्र आ चुका है—गो०
उ० ४ । २, शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

८—य एक इद्धव्यश्चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः । यः पत्यते
वृषभो वृष्यावान् सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्—ऋ० ६ । २२ । १—११,
भरद्वाज ऋषिः । अथर्व २० । ३६ । १—११ ॥ (तम्) उस (इन्द्रम्) इन्द्र
[बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] को (आभिः) इन (गीर्भिः) वाणियों से (अभि)
सब प्रकार (अर्चै) मैं पूजता हूँ । (यः) जो (एकः) अकेला (इत्) ही
(चर्षणीनाम्) मनुष्यों के बीच (हव्यः) ग्रहण करने योग्य है और (यः) जो
(वृषभः) श्रेष्ठ (वृष्यावान्) पराक्रम वाला (सत्यः) सच्चा (सत्वा) वीर
(पुरुमायः) बहुत बुद्धि वाला और (सहस्वान्) महाबलवान् (पत्यते) स्वामी
है ॥ [शेष मन्त्र वेद में देखो] ॥

९—यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वाः । यः
शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः—ऋ० ७ । १६ । १—११
वसिष्ठ ऋषि, अथर्व० २० । ३७ । १—११ ॥ (एकः) अकेला [वही] (विश्वाः)
सब (कृष्टीः) मनुष्य प्रजाओं को (प्र) अच्छे प्रकार (च्यावयति) चलाता है,
(यः) जो (तिग्मशृङ्गः न) तीखी किरणों वाले सूर्य के समान (भीमः) भय-
ङ्कर और (वृषभः) वरषा करने वाला है । और (यः) जो तू (शश्वतः) निर-
न्तर (अदाशुषः) न देने वाले के (गयस्य) घर का (वेदः) धन (सुष्वितराय)
अधिक ऐश्वर्य वाले व्यवहार के लिये (प्रयन्ता) देने वाला (अस्ति) है ॥ [शेष
मन्त्र वेद में देखो] ॥

१—इमामू षु प्रभृतिं सातये ध्याः शश्वच्छ्वदूतिभिर्यादमानः । सुतेसुते
वावृधे वर्धनेभिर्यः कर्मभिर्महद्भिः सुश्रुतो भूत्—ऋ० ३ । ३६ । १—६,
विश्वामित्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है—गो० उ० ४ । ३ ॥ शेष मन्त्र वेद में
देखो ॥

११—इच्छन्ति त्वा सोम्यासुः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयांसि ।
तितित्क्षन्ते अभिशस्तिं जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः—ऋ० ३ । ३० ।
१—२२, विश्वामित्र ऋषि ॥ (सोम्यासः) तत्त्वरस के योग्य [ब्रह्मज्ञानी]
(सखायः) मित्र लोग (त्वा) तुम्हें (इच्छन्ति) चाहते हैं, (सोमम्) ऐश्वर्य
को (सुन्वन्ति) सिद्ध करते हैं, (प्रयांसि) तृप्त करने वाले अन्न आदि वस्तुयं
(दधति) धारण करते हैं और (जनानाम्) मनुष्यों की (अभिशस्तिम्) सब
शोर से हिंसा को (आ तितित्क्षन्ते) भले प्रकार सहते हैं, (हि) क्योंकि,
(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले वीर] (त्वत्) तुम्ह से [अधिक] (प्रकेतः)
उत्तम बुद्धिवाला (कः चन) कौन सा है ? ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

१२—शासद् वह्निर्दुहितुर्षत्यं गाद् विद्राँ ऋतस्य दीधितिं सपर्यन् ।
पिता यत्र दुहितुः संकमञ्जन्तसं शर्म्येन मनसा दधन्वे—ऋ० ३ । ३१ । १—
२२, विश्वामित्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है । गो० उ० ५ । १५ ॥ शेष मन्त्र
वेद में देखो ॥

टिप्पणी ४—(अन्यूङ्गा विराजः—इत्यादि) न्यूङ्ग रहित । विराद् छन्द,
वैमदी, पङ्क्ति, और पारुच्छेपो ऋचायें । (यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्गसामसु । पाणि-
नि १ । २ । ३४) यज्ञ कर्म में जप, न्यूङ्ग और साम गान को छोड़ कर एक
श्रुति स्वर हो—यहां न्यूङ्ग शब्द आया है । सोलह प्रकार के ओङ्कार सहित वेद
मन्त्र न्यूङ्ग कहाते हैं । सायण भाष्य ऐ० ब्रा० ६ । १६ में अन्यूङ्ग आदि इस
प्रकार माने हैं—(न तु गिरो अपि मृष्ये—ऋ० ७ । २२ । ५—८) तथा (प्र वौ
महे महिवृधे भरध्वं—ऋ० ७ । ३१ । १०—१२) यह सात विराद् ऋचायें हैं
जिन का प्रयोग न्यूङ्ग बिना होता है ॥

(यजामह इन्द्रं—ऋ० १० । २३ । १—७) यह सात ऋचायें वैमदी
हैं, अर्थात् इन के विमद ऋषि हैं । (यच् चिद्धि सत्य सोमपा—ऋ० १ ।
२६ । १—७) यह सात ऋचायें पङ्क्ति छन्द वाली हैं ॥

(इन्द्राय हि द्यौरसुरो—ऋ० १ । १३१ । १—७) यह सात ऋचायें
पारुच्छेपी हैं, इन के पारुच्छेप ऋषि हैं ॥

कण्डिका २ ॥

को अद्य नर्या देवकाम इति मैत्रावरुणः । वने न वा योऽन्यथायि चाक-
न्निति ब्राह्मणाच्छंसी । आ याह्यर्वाङ्गुप बन्धुरेष्ट [ष्टा] इत्यच्छावाकः । एतानि
षा आवपनानि, एतैरेवावपनैर्देवाश्च ऋषयश्च स्वर्गं लोकमायन् । तथैवेतद्यज-

माना एतैरेवावपनैः स्वर्गं लोकं यन्ति । सद्यो ह जातो वृषभः कनीन इति मैत्रा-
वरुणः पुरस्तात् सम्पातान महरहः शंसति । तदेतत् सूक्तं स्वर्गं [स्वर्ग्य] मेतेन
सूक्तेन देवाश्च ऋषयश्च स्वर्गं लोकमायन् । तथैवैतद्यजमाना एतेनैव सूक्तेन
स्वर्गं लोकं यन्ति । तद्वृषभवत् पशुमद्भवति पशूनामाप्त्यै । तत्पञ्चर्चं भवति, अन्नं
वै पङ्क्तिः, अन्नाद्यस्यावरुध्यै, अरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्त्विति [—यन्तेति]
स्वर्गताया एवैतदहरहः शंसति । उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येति ब्राह्मणाच्छंसी ।
ब्रह्मणवदेतत् सूक्तं समृद्धमेतेन सूक्तेन देवाश्च ऋषयश्च स्वर्गं लोकमायन् ।
तथैवैतद्यजमाना एतेनैव सूक्तेन स्वर्गं लोकं यन्ति । तदु वै षडर्चं, षड् वा
ऋतवः, ऋतूनामाप्त्यै । तदुपरिष्ठात् सम्पातानामहरहः शंसति । अभि तष्टेव
दीधया मनीषामित्यच्छावाको अहरहः शंसति । अभिवदति तत्यै रूपमभि-
प्रियाणि ममृशत्पराणीति, यान्येव पराण्यहानि, तानि प्रियाणि, तान्येव
तदभिममृ [—ममृ] शन्तो यन्त्यभ्यारभमाणाः । परो वा अस्माल्लोकात् स्वर्गो
लोकः, स्वर्गमेव तं लोकमभिममृशन्ति । कवीं ऋ [कवीरि] च्छामि सन्दशे
सुमेधा इति, ये ह वा अनेन पूर्वं प्रीतास्ते वै कवयः, तान्यमेव [तानेव] तदभ्य-
मिवदति । यदु वै दशर्चं, दश वै प्राणाः, प्राणानेव तदाप्नोति प्राणानां सन्तत्यै ।
यदु वै दशर्चं, दश वै पुरुषे प्राणाः, दश स्वर्गो लोकाः, प्राणांश्चैव तत् स्वर्गांश्च
लोकानाप्नोति । प्राणेषु चैवैतत् स्वर्गेषु च लोकेषु प्रतितिष्ठन्तो यन्ति । यदु वै
दशर्चं, दशाक्षरा विराड्, इयं वै विराड्, इयं वै स्वर्गस्य लोकस्य प्रतिष्ठा,
तदेतदस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति । सकृदिन्द्रं निराह तेने [तेनै] द्राद्रूपाश्च
प्रच्यवते, तदुपरिष्ठात् सम्पातानामहरहः शंसति ॥ २ ॥

कण्डिका २ ॥ अहीन यज्ञ में आवाप सूक्तों का वर्णन और महत्त्व ॥

(को अद्य नर्यः देवकामः इति मैत्रावरुणः) को अद्य नर्यः देवकामः—
ऋ० ४ । २५ । १—८, इस सूक्त को मैत्रावरुण [अहीन यज्ञ में बोलता है] ।
(वने न वा यो न्यधायि चाकन्—इति ब्राह्मणाच्छंसी) वने न वा यो न्यधायि
चाकन्—ऋ० १० । २६ । १—८, इस सूक्त को ब्राह्मणाच्छंसी [बोलता है] ।
(आ याह्यर्वाडुप बन्धुरेष्ट [ष्टाः]—इति अच्छावाकः) आ याह्यर्वाडुप बन्धुरेष्टाः
—ऋ० ३ । ४३ । १—८, इस सूक्त को अच्छावाक [बोलता है] । (एतानि वै

२—(अद्य) इदानीम् (नर्यः) नृषु साधुः (देवकामः) देवान् विदुषः
कामयमानः (वने) अरण्ये वृत्ते (न) इव (वायः) शकुनिः (नि अधायि)
निहितः (चाकन्) कामयमानः । उत्सुकमनाः (आ याहि) आगच्छ (अर्वाड्)

आवपनानि, एतैः एव आवपनैः देवाः च ऋषयः च स्वर्गं लोकम् आयन्) यह ही आवपन [क्षेपणीय सूक्त] हैं, इन ही आवपनों से देवों [विद्वानों] और ऋषियों [सन्मार्गदर्शक महात्माओं] ने स्वर्गलोक पाया है । (तथा एव एतत्, यजमानाः एतैः एव आवपनैः स्वर्गं लोकं यन्ति) वैसे ही यह है—यजमान लोग इन ही आवपनों से स्वर्गलोक पाते हैं । (सद्यो ह जाता वृषभः कनीनः—इति मैत्रावरुणः सम्पानानां पुरस्तात् अहरहः शंसति) सद्यो ह जातः वृषभः कनीनः—ऋ० ३ । ४८ । १—५, गो० उ० ४ । १,—इस सूक्त को मैत्रावरुण सम्पानों से पहिले [कण्डिका १] दिन दिन बोलता है । (तत् एतत् सूक्तं स्वर्गं [स्वर्ग्यं] एतेन सूक्तेन देवाः च ऋषयः च स्वर्गं लोकम् आयन्) से यह सूक्त स्वर्ग के लिये हितकारी है, इस सूक्त से देवों [विद्वानों] और ऋषियों [सन्मार्गदर्शक महात्माओं] ने स्वर्गलोक पाया है । (तथा एव एतत् यजमानाः एतेन एव सूक्तेन स्वर्गं लोकं यन्ति) वैसे ही यह है—यजमान लोग इस ही सूक्त से स्वर्ग लोक पाते हैं । (तत् ऋषभवत् पशुमत् पशुनाम् आप्त्यै भवति) वह ऋषभ [वृषभ] शब्द वाला पशु युक्त [सूक्त] पशुओं की प्राप्ति के लिये है [ऋषभ वा वृषभ बेल भी है और वह पशु है] । (तत् पञ्चै भवति, अन्नं वै पङ्क्तिः अन्नाद्यस्य अवहन्ध्यै) वह पांच ऋचा वाला [सूक्त] है, अन्न भी पङ्क्ति [पांच तर्क वाला] है, खाने योग्य अन्न की प्राप्ति के लिये है [पंचभूतात्मके देहे आहारः पाञ्चभूतिकः । विपक्वः पचधा सम्यग् गुणान् खानभिवधयेत्—शुश्रुत-आहारविधिः । पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच तर्कों से बने देह में आहार पांच तर्कों के स्वरूप का है, अच्छे प्रकार पका हुआ आहार पांच प्रकार अपने गुणों को बढ़ाता है—जैसे पार्थिव गुण गन्ध को बढ़ाता है, इसी प्रकार और भी जानो] । (अरिष्टैः नः पथिभिः पारयन्तु [पारयन्ता]—इति स्वर्गतायै एव एतत् अहरहः शंसति) अरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता [सं वां कर्मणा—ऋ० ६ । ६६ । १, इस मन्त्र का यह चौथा पाद है, देखो गो० उ० ४ । १७] स्वर्ग की प्राप्ति के लिये ही इस को वह [मैत्रावरुण] बोलता है । (उदु ब्राह्मण्यैरत श्रवस्या इति ब्राह्मणाच्छंसी) उदु ब्रह्मा-

अग्निमुखः (उप) समीपे (बन्धुरेष्ठाः) मद्गुरादयश्च । उ० १ । ४१ बन्धु बन्धने—उरच्, बुन्धुर—तिष्ठतेर्विच् । बन्धुरे बन्धनयुक्ते रभ्ये वा रथे तिष्ठन् (आवपनानि) आवपनेयानि । प्रक्षेपणीयानि सूक्तानि (ऋषभवत्) ऋषभेण वृषभशब्देन युक्तम् (पङ्क्तिः) पञ्च व्यक्तीकरणे, विस्तारे—क्तिन् क्तिच् वा ।

एयैरत श्रवस्या—ऋ० ७ । २३ । १—६ । गो० उ० ४ । १ तथा ६ । १, इस सूक्त को ब्राह्मणाच्छंसी [बोलता है] । (ब्रह्मणवत् एमत् समृद्धं सूक्तम्, एतेन सूक्तेन देवाः च ऋषयः च स्वर्गं लोकम् आयन्) ब्रह्मन् [ब्रह्माणि] शब्द वाला यह समृद्ध सूक्त है, इस सूक्त से देवों [विद्वानों] और ऋषियों [सन्मार्गदर्शक महात्माओं] ने स्वर्ग लोक पाया है । (तथा एव एतत्, यजमानाः एतेन सूक्तेन स्वर्गं लोकं यन्ति) उसी प्रकार ही यह है—यजमान लोग इस ही सूक्त से स्वर्ग लोक पाते हैं । (तत् उ वै षडर्चं, षड् वै ऋतवः, ऋतूनाम् आप्त्यै) यह सूक्त छह ऋचा वाला है, छह ही ऋतुयें हैं, ऋतुओं की प्राप्ति के लिये [यह सूक्त है] । (तत् सम्पातानाम् उपरिष्ठात् अहरहः शंसति) उस को सम्पात सूक्तों के उपरान्त [क० १] दिन दिन वह पढ़ता है ॥

(अभि तष्टेव दीधया मनीषाम्—इति अच्छावाकः अहरहः शंसति) अभि तष्टेव दीधया मनीषाम्—ऋ० ३ । ३८ । १—१० गो० उ० ६ । १, इस सूक्त को अच्छावाक दिन दिन बोलता है । (अभि वदति तत्यै रूपम्, अभिप्रियाणि मर्म-शत् पराणि, इति यानि एव पराणि अहानि, तानि प्रियाणि, तानि एव तत् अभिममृं [-ममृ] शन्तः आरभभाणाः यन्ति) अभि, [सब ओर], शब्द वाला [पहिला पाद] वह बोलता है, वह विस्तार के लिये रूप है, अभिप्रियाणि ममृशत् पराणि [यह उसी मन्त्र की तीसरा पाद है], जो ही श्रेष्ठ दिन हैं, वे ही प्रिय हैं, उन को ही तब सब ओर से विचारते हुये और आरम्भ करते हुये लोग चलते हैं । (अस्मात् लोकात् परः वै स्वर्गः लोकः तं स्वर्गम् एव लोकम् अभिमृशन्ति) इस [सामान्य] लोक से श्रेष्ठ ही स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक को ही वे छूते हैं [पाते हैं] (कवीं ऋच्छामि [कवीरिच्छामि] सन्दृशे सुमेधाः इति ये ह वै पूर्वे अनेन प्रीताः ते वै कवयः, तान्यम् [तान्] एव तत् अभ्याभिवदति) कवीं रिच्छामि सन्दृशे सुमेधाः [यह उस मन्त्र का चौथा पाद है] जो हि पहिले ऋषि इस [सूक्त भाग] से प्रसन्न हुये हैं, वे ही कवि [महाज्ञानी] हैं, उन को ही इस [पाद से] वह प्रणाम करता है । (यत् उ वै दशर्चम्, दश वै प्राणाः, प्राणान् एव तत् प्राणानां सन्तत्यै आप्नोति) जो वह

पञ्चावयवा श्रेणिः पञ्चतत्त्वयुक्तत्वात् (अरिष्टैः) गो० उ० ४ । १६ । अहिंसितैः (पारयन्ता) पारं गमयन्तो (अभिवदति) अभि शब्दयुक्तं सूक्तं ब्रूते (तत्यै) सन्तत्यै (अभिममृशन्तः) अभितः पुनः स्पृशन्तः, विचारयन्तः (अभ्यभिवदति) अभि अभि इति शब्दद्वययुक्तं सूक्तं ब्रूते । अभितो अभिवादनं नमस्कराति

दश ऋचा वाला सूक्त है, दस ही प्राण [पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय] हैं, प्राणों को ही तब प्राणों के फैलाव के लिये वह पाता है । (यत् उ वै दशर्चम् दश वै पुरुषे प्राणाः, दश स्वर्गः [स्वर्गाः] लोकाः, तत् प्राणान् च एव स्वर्गान् लोकान् च आप्नोति) जो यह दस ऋचा वाला सूक्त है, और दस ही पुरुष में प्राण हैं, [दस इन्द्रियों की स्वस्थता से] दस स्वर्ग लोक हैं, उस से ही प्राणों और स्वर्ग लोकों [इन्द्रियों की स्वस्थ गोलकों] को वह पाता है । (एतत् प्राणेषु च एव स्वर्गेषु च लोकेषु प्रतितिष्ठन्तः यन्ति) इस से ही प्राणों और स्वर्ग लोकों में दृढ ठहरे हुये वह चलते हैं । (यत् उ वै दशर्चम्, दशाक्षरा विराट्, इयं वै विराट्, इयं वै स्वर्गस्य लोकस्य प्रतिष्ठा, तत् एतत् अस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति) जो ही यह [सूक्त] दस ऋचा वाला है, दस अक्षर वाला विराट् छन्द है, यह [पृथिवी] ही विराट् [विविध ऐश्वर्य वाली] है, यह [पृथिवी] ही स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा [दृढ स्थिति] है, सो यह इस प्रतिष्ठा में [यजमान को] प्रतिष्ठित करता है । (सकृत् इन्द्रं निराह, तेन इन्द्रात् [ऐन्द्रात्] रूपात् न प्रच्यवते) एक बार इन्द्र को वह बोलता है, इस लिये इन्द्र वाले रूप [ऐश्वर्य] से नहीं गिरता है । (तत् सम्पातानाम् उपरिष्ठात् अहरहः शंसति] इस लिये सम्पात सूक्तों के उपरान्त [इस सूक्त को] दिन दिन वह बोलता है ॥ २ ॥

भावार्थ—कण्डिका १ के समान है ॥ २ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६ । १६ और ६ । २० से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—शुद्धि पत्र नीचे है ॥

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
बन्धुरेष्ट	बन्धुरेष्ठा	ऋ० ३ । ४३ । १
सूक्तं, स्वर्गं	सूक्तं स्वर्ग्यं	ऐ० ब्रा० ६ । २०
पारयन्त्विति	पारयन्तेति	ऋ० ६ । ६६ । १
अभि ममृशन्तो	अभिममृशन्तो	ऐ० ब्रा० ६ । २०
कवीन् ऋच्छामि	कवीँ रिच्छामि	ऋ० ३ । ३८ । १
तान्यमेव	तानेव	ऐ० ब्रा० ६ । २०
ते, नेन्द्राद्	तेनैन्द्राद्	"

(स्वर्गा लोकाः) स्वर्गा लोकाः (सकृत्) एकवारम् (ऐन्द्रात्) इन्द्र सम्बन्धिनः सकाशात् ॥

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—को अद्य नर्यो देवकाम उशनिद्रस्य सुख्यं जुजोष । को वा महेऽ-
वसे पाय्याय समिद्धे अग्नौ सुतसोम ईद्वे—ऋ० ४ । २५ । १-८ वामदेव ऋषि ॥
(अद्य) आज (कः) कौन (नर्यः) नरों [नेताओं] में श्रेष्ठ, (देवकामः)
विद्वानों को चाहने वाला और (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] की
(सुख्यम्) मित्रता की (उशन्) कामना करता हुआ [मनुष्य] (जुजोष)
सेवा करता है । (वा) अथवा (कः) कौन (समिद्धे) प्रज्वलित (अग्नौ)
अग्नि में (सुतसोमः) सोम [तत्त्वरस] निचोड़ता हुआ [मनुष्य] (महे)
बड़े (पाय्याय) पार लगाने वाले (अवसे) रक्षणदि कर्म के लिये (ईद्वे)
ऐश्वर्यवान् होता है ॥ [शेष मन्त्र वेद में देखो] ॥

२—वने न वा यो न्यधायि चाकं छुचिर्वां स्तोमो भुरणावजीगः । यस्ये-
दिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान्—ऋ० १० । २६ । १-८,
वसुक ऋषि, अथर्व० २० । ७६ । १-८ ॥ (वने) वृक्ष पर (न) जैसे (चाकन्)
प्रीति करने वाला (वा, यः=वायः) पत्नी का बच्चा (नि अधायि) रक्खा
जाता है, [वैसे ही] (भुरणा) हे दोनों पाषाणों ! [माता पिताओं] (शुचिः)
षवित्र (स्तोमः) बड़ाई योग्य गुण ने (वाम्) तुम दोनों को (अजीनाः)
ग्रहण किया है । (यस्य) जिस [बड़ाई योग्य गुण] का (इत्) ही ग्रहण
करने वाला (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष] (पुरुदिनेषु) बहुत दिनों
के भीतर (नृणाम्) नेताओं का (नृतमः) सब से बड़ा नेता, (नर्यः) पुरुषों
का हितकारा (क्षपावान्) श्रेष्ठ रात्रियों वाला है ॥ [शेष मन्त्र वेद में देखो] ॥

३—आ याह्यर्वाङ्गुपं बन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम् । प्रिया
सखाया वि मुचोपं बर्हिस्त्वामिमे हव्यवाहो हवन्ते—ऋ० ३ । ४३ । १-८ विश्वा-
मित्र ऋषि ॥ [हे इन्द्र राजन्] (बन्धुरेष्ठाः) बन्धनों वाले वा सुन्दर रथ में
बैठा हुआ तू (अर्वाङ्गु) सामने (उप आ याहि) समीप आ, (प्रदिवः तव)
उत्तम प्रकाश वाले तेरे (इत्) ही (सोमपेयम् अनु) सोम [तत्त्व वा शोष-
धियों के रस] पीने के लिये (प्रिया सखाया) दो प्रिय मित्र [अध्यापक और
उपदेशक वर्तमान हैं], (बर्हिः) ऊँचे आसन को (वि मुच) छोड़ दे, (इमे)
यह (हव्यवाहः) देने लेने योग्य पदार्थ लाने वाले लोग (त्वाम्) तुझ को
(उप हवन्ते) आदर से बुलाते हैं ॥ [शेष मन्त्र वेद में देखो] ॥

४—सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः प्रभर्तु मावदन्धसः सुतस्य । साधोः

पिव प्रतिक्रामं यथा ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य-ऋ० ३ । ४८ । १-५, विश्वामित्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है-गो० उ० ४ । १ तथा ६ । १ । शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

५—सं वां कर्मणा समिषा हिनेामीन्द्राविष्णु अपमस्पारे अस्य । जुषेथां यज्ञं द्रविणं च घत्तमरिष्टैर्नः पृथिभिः पारयन्ता-ऋ० ६ । ६६ । १-८ ॥ भरद्वाज बृहस्पति का पुत्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है गो० उ० ४ । १७ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

६—उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्थे महया वसिष्ठ । आ यो विश्वानि शर्वसा तनानेप श्रोता म ईवतो वचांसि-ऋ० ७ । २३ । १-६ ॥ वसिष्ठ ऋषि । यह मन्त्र आ चुका है गो० उ० ४ । १ तथा ६ । १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

७—अभि तष्टैव दीधया मनीषामत्ये न वार्जा सुधुरो जिहानः । अभि प्रियाणि ममृशत् पराणि कवी र्च्छामि सन्दर्शे सुभेधाः--ऋ० ३ । ३८ । १-१० विश्वामित्र के गोत्र का प्रजापति, अथवा वाच्य वाक् का पुत्र, अथवा प्रजापति और वाच्य दोनों, अथवा विश्वामित्र ही ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है--गो० उ० ६ । १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

कण्डिका ३ ॥

कस्तमिन्द्र त्वा वसुं कन्नव्यो अतसीनां कद्र [कद्रू] कृन्वस्यातं [न्व१-स्याकृतं] इति कद्रन्तः प्रगाथा अहरहः शंसति । एको [को] वै प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्यै । यदेव कद्रन्तः, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यद्वेव कद्रन्तः, अथो अन्नं वै कम्, अथो अन्नस्यावरुध्यै । यद्वेव कद्रन्तः अथो सुखं वै कम्, अथो सुखस्यावरुध्यै । यद्वेव कद्रन्तः, अथोहरहर्वा एते, शान्तान्यहीनमृक्तान्युपयुञ्जाना यन्ति, तानि कद्रद्भिः प्रगाथैः शमयन्ति । तान्येभ्यः शान्तानि कं भवन्ति, त न्येताञ्छान्तानि स्वर्गं लोकमभिवहन्ति । त्रिष्टुभः सूक्तः प्रतिपदः शं न्युः, ता हैके पुरस्तात् प्रगाथानां शंसन्ति, धाय्या इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात् । क्षत्रं वै होता, विशो होत्राशंसिनः, क्षत्रम्यैव तद्विषं [शं] प्रत्युद्यामिनीं कुर्युः । पावमानस्य सन्त्रिष्टुभौ [पापवस्यसं त्रिष्टुभो] मा [म] इमा सूक्तः प्रतिपद इत्येवं विद्यात्, यथा वै समुद्रं प्रतरेयुः, एवं हैवैते प्रस्रवयन्ते ये संवत्सरं द्वादशाहं वोपासन्ते, तद्यथा सैरावती [-ती] नाव पारकामाः समारोहेयुः एवं हैवैतास्त्रिष्टुभः स्वर्गकामाः समारोहन्ति । न ह वा एतच्छन्दो गमयित्वा स्वर्गं लोकमुपावर्त्तन्ते । वीर्यवन्तं मंहिताभ्यो न द्याह्वयीत [व्याह्वयीत] समान हि छन्दः, अथो-

पित्र प्रतिक्रामं यथा ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य-ऋ० ३ । ४८ । १-५, विश्वामित्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है-गो० उ० ४ । १ तथा ६ । १ । शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

५—सं वां कर्मणा समिषा हिनेमःऋषिणा अपमस्पारे अस्य । जुषेथी यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता-ऋ० ६ । ६६ । १-८ ॥ भरद्वाज बृहस्पति का पुत्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है गो० उ० ४ । १७ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

६—उदु ब्रह्माण्यैरत श्रुस्येन्द्रं समये महया वसिष्ठ । आ यो विश्वानि शर्वसा तनानोप श्रोता म ईर्वतो वचांसि-ऋ० ७ । २३ । १-६ ॥ वसिष्ठ ऋषि । यह मन्त्र आ चुका है गो० उ० ४ । १ तथा ६ । १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

७—अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः । अभि प्रियाणि ममृशत् पराणि कवीं रिच्छामि मन्दशे सुमेधाः-ऋ० ३ । ३८ । १-१० विश्वामित्र के गोत्र का प्रजापति, अथवा वाच्य वाक् का पुत्र, अथवा प्रजापति और वाच्य दोनों, अथवा विश्वामित्र ही ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है-गो० उ० ६ । १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

कण्डिका ३ ॥

कस्तमिन्द्र त्वा वसुं कन्नव्यो अतसीनां कद्र [कद्रू] कृन्वस्यातं [न्व१-स्याकृतं] इति कद्रन्तः प्रगाथा अहरहः शंसति । एको [को] वै प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्यै । यदेव कद्रन्तः, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यद्वेव कद्रन्तः, अथो अन्नं वै कम्, अथो अन्नस्यावरुध्यै । यद्वेव कद्रन्तः अथो सुखं वै कम्, अथो सुखस्यावरुध्यै । यद्वेव कद्रन्तः, अथोहरहर्वा एते, शान्तान्यहीनमृक्तान्युपयुञ्जाना यन्ति, तानि कद्रद्भिः प्रगाथैः शमयन्ति । तान्येभ्यः शान्तानि कं भवन्ति, न न्येताञ्छान्तानि स्वर्गं लोकमभिवहन्ति । त्रिष्टुभः मृक्तः प्रतिपदः शंनयुः, ता हैके पुरस्तात् प्रगाथानां शंसन्ति, धाय्या इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात् । क्षत्रं वै होता, विशो होत्राशंसिनः, क्षत्रम्यैव तद्विषं [शं] प्रत्युद्यामिनीं कुर्युः । पावमानस्य सन्त्रिष्टुभौ [पापवस्यसं त्रिष्टुभो] मा [म] इमा सृक्तः प्रतिपद इत्येवं विद्यात्, यथा वै समुद्रं प्रतरेयुः, एवं हैवैते प्रस्रवयन्ते ये संवत्सरं द्वादशाहं वोपासन्ते, तद्यथा सैरावती [-तीं] नाव पारकामाः समारोहेयुः एवं हैवैतास्त्रिष्टुभः स्वर्गकामाः समारोहन्ति । न ह वा एतच्छन्दो गमयित्वा स्वर्गं लोकमुपावर्तन्ते । वीर्यवन्तं मंहिताभ्यां न द्याह्वयीत [व्याह्वयीत] समान हि छन्दः, अथो-

ऽन्ये [नेद्] धाय्या करवाणीति । यदेनाः शंसन्ति, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् ।
यद्वेवैनाः शसन्ति, इन्द्रमेवैतैर्निहयन्ते, यथा ऋषभं वासितायै ॥ ३ ॥

कण्डिका ३ ॥ अहीन यज्ञ में कद्बत् प्रगाथों का उपयोग और महत्त्व ॥

(कस्तमिन्द्र त्वावसुं, कन्नव्यो अतसीनां, कद् न्वस्याकृतम् इति कद्वन्तः
प्रगाथाः अहरहः शंसति [शस्यन्ते]) कस्तमिन्द्र त्वावसुम्—.....ऋ० ७ ।
३२ । १४, कन्नव्यो अतसीनाम्.....ऋ० ८ । ३ । १३, कद् न्वस्याकृतम्.....
ऋ० ८ । ६६ [सायणभाष्य ५५] । ६, यह कत् वा क शब्द वाले प्रगाथ दिन
दिन बोले जाते हैं । (कः वै प्रजापतिः, प्रजापतेः आप्त्यै) क शब्द प्रजापति
[का वाचक] है, प्रजापति के पान के लिये [यह है] । (यत् एव कद्वन्तः,
तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्) जो यह [प्रगाथ] कत् अथवा क शब्द वाले
हैं, वह स्वर्गलोक का रूप है । (यत् उ एव कद्बन्तः, अथो अन्नं वै कं, अथो
अन्नस्य अवरुध्यै) जिस कारण से यह [प्रगाथ] कत् शब्द वाले हैं, और अन्न
ही क है, इस लिये अन्न की प्राप्ति के लिये [यह है] । (यत् उ एव कद्वन्तः,
अथो सुखं वै कं, अथो सुखस्य अवरुध्यै) जिस कारण से यह [प्रगाथ] कत्
शब्द वाले हैं, और सुख ही क है, इस लिये सुख की प्राप्ति के लिये [यह है] ।
(यत् उ एव कद्वन्तः अथो अहरहः वै एते शान्तानि अहीनसूक्तानि उपयुञ्जानाः
यन्ति, तानि कद्बद्भिः प्रगाथैः शमयन्ति) जिस कारण से यह [प्रगाथ]
कत् शब्द वाले हैं, इस लिये दिन दिन यह [यजमान] शान्ति वाले अहीन
[बहुत दिन रहने वाले यज्ञ] के सूक्तों को उपयोग में लाते हुये चलते हैं, उन
को वे कत् शब्द वाले प्रगाथों से शान्ति युक्त करते हैं । (तानि शान्तानि एभ्यः
कं भवन्ति) वे शान्ति युक्त [सूक्त] इन [यजमानों] के लिये सुखकारी होते
हैं । (तानि शान्तानि एतान् स्वर्गं लोकम् अभिवहन्ति) वे शान्ति युक्त [सूक्त]
इन [यजमानों] को स्वर्ग लोक में पहुंचाते हैं । (त्रिष्टुभः सूक्तः प्रतिपदः
शंसेयुः) त्रिष्टुप् [छन्द वाली] सूक्त की आरम्भ वाली ऋचाओं को वे बोलें ।

३—(त्वावसुम्) गो० उ० ४ । १ । त्वया प्राप्तघनम् (कत्) कथम् (नव्यः)
नव—ईयसुन्, ईकारलोपः । नवीयः । नवतरं कर्म (अतसीनाम्) अत्यविचमि-
तमि० । उ० ३ । ११७ । अत सातत्यगमने—अतच्, डीष् । सन्ततगामिनीनां
सृष्टीनाम् (कत्) किम् (उ) एव (नु) इदानीम् (अकृतम्) अनाचरितम्

(ताः ह एके प्रगाथानां पुरस्तात् शंसन्ति, धाय्याः इति वदन्तः, तत् उ तथा न कुर्यात्) उन [त्रिष्टुभों] का कोई कोई प्रगाथों के पहिले बोलते हैं, यह धाय्या [अग्नि प्रज्वलित करने के मन्त्र] हैं—ऐसा कहते हुये, सो वैसा वह [होता ऋत्विज] न करे । (क्षत्रं वै होता, विशः होत्राशंसिनः, क्षत्रस्य एव तत् विशं प्रत्युद्यामितीं कुर्युः) राजा [के समान] होता पुरुष है, प्रजायें होत्राशंसी [सहायक होता लोग] हैं, इस लिये [उन्हें बालने से] प्रजा को राजा के प्रतिकूल उद्योग वाली वे करंगे, (पापवस्यसम्) अतिशय पाप वाला व्यवहार [उस से वे करंगे] । (त्रिष्टुभः मे इमाः सूक्तः प्रतिपदः, इति एवं विद्यात्) त्रिष्टुप् छन्द मेरी यह सूक्त के आरम्भणीय ऋचायें हैं—ऐसा वह [होता] जाने । (यथा वै समुद्रं प्रतरेयुः, एवं ह एव एते प्रस्रवयन्ते, ये संवत्सरं द्वादशाहं वा उपासन्ते) जैसे ही लोग समुद्र पार करते हैं, वैसे ही वे पार जाते हैं जो संवत्सर [वर्ष भर रहने वाले यज्ञ] अथवा द्वादशाह [बारह दिन वाले यज्ञ] को करते हैं । (तत् यथा सैरावतीं नावं पारकामाः समारोहेयुः, एवं ह एव एताः त्रिष्टुभः स्वर्गकामाः समारोहन्ति) सो जैसे बहुत अन्न वाली नाव पर पार जाना चाहने वाले लोग चढ़ते हैं, वैसे ही इन त्रिष्टुप् छन्दों पर स्वर्ग चाहने वाले लोग चढ़ते हैं । (एतत् छन्दः ह वै वीर्यवन्तं स्वर्गं लोकं गमयित्वा न उपावर्तन्ते = उपावर्तयते) यह छन्द वीर्यवान् [बलिष्ठ यजमान] को स्वर्गलोक में ले जाकर नहीं लौटाता है । (मंहिताभ्यः न व्याह्वयीत, समानं हि छन्दः, अथो नेत् धाय्याः करवाणि इति) प्रकाशित [ऊपर जाने हुये] त्रिष्टुभों से पहिले

(कद्वन्तः) कच्छब्दयुक्ताः । कशब्दयुक्ताः (शान्तानि) सुखकराणि (उपयुञ्जानाः) उपयुक्तानि कुर्वाणः (शमयन्ति) शान्तानि कुर्वन्ति (अभिवहन्ति) प्रापयन्ति (सूक्तः) सूक्तस्य (प्रतिपदः) प्रारम्भणीया ऋचः (धाय्या) दधातेः—एयत् । अग्निज्वालनार्था ऋचः । सामिधेन्यः (क्षत्रम्) क्षत्रियः । राजा (विशः) प्रजाः (होत्राशंसिनः) वेदवाणिवाचकाः (प्रत्युद्यामिनीम्) प्रतिकूलोद्योगयुक्ताम् (पापवस्यसम्) पाप+वसु—ईयसुन्, ईकारलोपः । पापवसीयसम् । अतिशयेन पापव्यवहारम् (प्रतरेयुः) परतीरं गच्छेयुः (प्रस्रवयन्ते) परतीरं गच्छन्ति (उपासन्ते) उपासते । अनुतिष्ठन्ते (सैरावतीम्) इरा—अण्, इरा अन्नम्, तत्समूहः ऐरम्, तेन सह वर्तत इति सैरम्, मतुप्, डीप्, आपौ दीर्घः । पर्याप्तान्नयुक्ताम् (पारकामाः) परतीरगमनेच्छुकाः (उपावर्तन्ते) उपवर्तयते (वीर्यवन्तम्) सामर्थ्योपेतं यजमानम् (मंहिताभ्यः) महि दीप्तौ—क्त । दीप्ताभ्यः ।

[शंसावाम्—गो० उ० ३। १६] व्याहाव न करे, समान ही [सूक्तों का] छन्द है, इस से धाय्या [अग्नि प्रज्वलित करने की ऋचाओं] को मैं न करूँ [ऐसा होता कहे]। (यत् एनाः शसन्ति, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्) जो वे इन [त्रिष्टुभों] को बोलते हैं वह स्वर्ग लोक का रूप है। (यत् उ एव एनाः शंसन्ति, इन्द्रम् एव एतैः निह्वयन्ते, यथा ऋषभं वासितायै) जब वे इन [त्रिष्टुभों] को बोलते हैं, इन्द्र को ही इन [छन्दों] से वे बुलाते हैं, जैसे गतिमान् [पुरुषार्थी] को निवास करती हुई प्रजा के लिये [बुलाते हैं] ॥ ३ ॥

भावार्थ—करिडका १ के समान है ॥ ३ ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को—ऐ० ब्रा० ६। २१ से मित्ताश्रो ॥

टिप्पणी २—शुद्धि पत्र नीचे लिखा जाता है ॥

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
कद्रू	कद्रु	ऋ० ८। ६६। ६
कृन्वस्यातं	न्व १ स्याकृतं	” ”
एको वै	को वै	ऐ० ब्रा० ६। २१
तद्विषं	तद्विशं	” ”
पावमानस्यसन्	पापवस्यसं	” ”
त्रिष्टुभौ	त्रिष्टुभो	” ”
मा इमा	म इमाः	” ”
सैरावती	सैरावतीं	” ”
द्याह्वयीत	व्याह्वयीत	” ”
अन्ये धाय्या	नेद् धाय्याः	” ”

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्त्यो दधर्षति । श्रद्धा इत्ते मघवन् पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति—ऋ० ७। ३२। १४, १५ ॥ यह मन्त्र आ लुका है—गो० उ० ४। १ ॥

२—कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत् मर्त्यः । नहीन्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गान्तं आनशुः—ऋ० ८। ३। १३, १४ अथर्व० २०। ५०। १, २ ॥ (अत-

प्रज्ञाताभ्यः । त्रिष्टुभ्यः पूर्वम (न) निषेधे (व्याह्वयीत्) शंसावाम्—गो० उ० ३। १६, इति व्याहावं कुर्यात् (नेत्) नैव (ऋषभम्) गो० उ० ५। १५। गति-मन्तं पुरुषार्थिनम् (वासितायै) गो० उ० ५। १५। निवासितायै प्रजायै ॥

सीनाम्) सदा चलती हुई [सृष्टियों] के (तुरः) वेग देने वाले [परमात्मा] के (नव्यः) अधिक नवीन कर्म को (मर्त्यः) मनुष्य (कत्) कैसे (गृणती) बताने के ? (नु) क्या (अस्य) उस की (महिमानम्) महिमा और (इन्द्रियम्) इन्द्रिय [परम पेश्वर्य] को (गृणन्तः) वर्णन करते हुये पुरुषों ने (स्वः) आनन्द (नहि) नहीं (आनशुः) पाया है ? ॥

३—कदून्व '१ स्याकृत्तुमिन्द्रस्यास्ति पौंस्यम् । केनो नु कं श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रहा—ऋ० ८ । ६६ । [सायण भाष्य ५५] । ६, अथर्व० २० । ६७ । ३, साम० ८ । २ । १३ ॥ (अस्य) इस (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले वीर] का (नु) अब (कत् उ) कौन सा (पौंस्यम्) पौरुष (अकृतम्) बिना किया हुआ (अस्ति) है ? (केना) किस (श्रोमतेन) श्रुति [वेद] मानने वाले करके (नु) अब (जनुषः परि) जन्म से लेकर (वृत्रहा) शत्रु नाशक [वीर पुरुष] (कम्) सुख से (न) नहीं (शुश्रुवे) सुना गया है ॥

कण्डिका ४ ॥

अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रानिति, मैत्रावरुणः पुरस्तात् सम्पातानामहरहः शंसति । अपापाचो अभिभूते नुदस्वापोदीचो अप शूगाधराच उरौ यथा तव शर्मन् मदेमेति, अभयस्य रूपमभयमिव ह्यन्विच्छेति, ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मीति, ब्राह्मणाच्छंस्येनामहरहः शंसति युक्तवतीं युक्त इवाह्यहीनोऽहीनस्य रूपमुहं नो लोकमनुषीति, अच्छावाको अहरहः शंसति । अनुनेषीत्येत इवाह्यहीनोऽहीनस्य रूपं नेषीति सत्रायणरूपम् । ओकःसारी हैवैषामिन्द्रो भवति, यथा गौः प्रज्ञातं गोष्ठं, यथा ऋषभं वासितायाः, एवं हैवैषामिन्द्रो यज्ञमागच्छन्ति । न शूनं [शुनं] यथाहीनस्य परिदध्यात् । क्षत्रियो ह राष्ट्राच्च्यवते, यो हैव परो भवति, तमभिह्वयति ॥ ४ ॥

कण्डिका ४ ॥ अहीन यज्ञ में विशेष मन्त्रों का प्रयोग ॥

(अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रान्—इति मैत्रावरुणः सम्पातानां पुरस्तात् अहरहः शंसति) अपेन्द्र प्राचो मघवन् अमित्रान्—अथर्व० २० । १२५ । १, हे महाधनी इन्द्र ! पूर्व वाले बैरियों को दूर [हटा]—यह मन्त्र मैत्रावरुण सम्पात सूक्तों के पहिले दिन दिन बोलता है । (अपापाचो अभिभूते नुद-

४—(अप) दूरे (प्राचः) प्र + अञ्चतेः क्तिन्, शस् । पूर्वदेशे वर्तमानान् (मघवन्) महाधनिन् (अमित्रान्) पीड़कान् वैरिणः (अपाचः) पश्चिमदेशे

स्वापोदीचो अप शूराधराच उरौ यथा तव शर्मन् मदेम, इति अभयस्य रूपम्, अभयम् इव हि अन्विच्छ इति) अप अपाचः अभिभूते... [उसी मन्त्र के शेष तीन पाद, अर्थ नीचे देखो] यह [वाक्य] अभय का रूप है, अभय को ही तू ढूँढ़ । (ब्रह्मणा ते ब्रह्मयजा युनजिम इति ब्राह्मणाच्छंसी एतां युक्तवतीम् अहरहः शंसति, युक्तः इव हि अहीनः, अहीनस्य रूपम्) ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनजिम—अथर्व० २० । २६ । १—इस युक्तवती [युनजिम इस पद में युज, संयुक्त करना धातु के अर्थ वाली ऋचा] को ब्राह्मणाच्छंसी दिन दिन बोलता है युक्त [मिला हुआ, यज्ञ के दिनों से मिला हुआ] ही अहीन [बहुत दिनों वाला यज्ञ] है, [इस लिये यह मन्त्र] अहीन का रूप है । (उरुं नो लोकम् अनुनेषि, इति अच्छावाकः अहरहः शंसति) उरुं नो लोकम् अनुनेषि—अथर्व १६ । १५ । ४, यह मन्त्र अच्छावाक दिन दिन बोलता है । (अनु नेषि इति एतः इव हि अहीनः, अहीनस्य रूपम्) अनु नेषि, [तू निरन्तर ले चलता है] इस से एतः [आया हुआ] ही अहीन यज्ञ है, [इस लिये यह मन्त्र] अहीन यज्ञ का रूप है । (नेषि इति सत्रायणरूपम्) नेषि [तू ले चलता है] यह सत्र यज्ञ के अनुष्ठान का रूप है । (एषाम् ओकःसारी ह एव इन्द्रः भवति) इन [यजमानों] के घरों में जाने वाला इन्द्र है । (यथा गौः प्रज्ञातं गोष्ठं, यथा वासितायाः ऋषभम्, एवं ह एव इन्द्रः एषां यज्ञम् आगच्छन्ति = आगच्छति) जैसे गौ जाने हुये गोठ में आती है, और जैसे निवास कराई हुई प्रजायें उद्योगी पुरुष के पास [आती हैं], वैसे ही इन्द्र इन [यजमानों] के यज्ञ में आता है । (शुनं यथा अहीनस्य न परिदध्यात्) शुनं [शुनं हुवेम... अथर्व० २० । ११ । ११, इस पद वाली ऋचा से जिस प्रकार अहीन यज्ञ की परिधीया [समाप्ति विधि] न

वर्तमानान् (अभिभूते) हे अभिभवितः (नुदस्व) प्रेरय (उदीचः) उत्तरदेशे
वर्तमानान् (अधराचः) दक्षिणदिशि वर्तमानान् (उरौ) विस्तीर्णं (शर्मन्)
शर्मणि । शरणे (मदेम) दृष्येम (इव) एव (अन्विच्छ) अन्वेषणेन प्राप्ति
(ब्रह्मणा) अन्नेन (ते) तुभ्यम् (ब्रह्मयुजा) धनस्य संयोजकौ संग्राहकौ
(युनजिम) संयोजयामि (युक्तवतीम्) युनजिम इति श्रवणाद् युजि धात्वर्थ-
वतीम् (युक्तः) अहां परस्पर सम्बन्धवान् (नः) अस्मान् (लोकम्) स्थानम्
(अनु) निरन्तरम् (नेषि) शपो लुक् । नयसि । नय (एतः) आ + इण् गतौ - क ।
प्रवृत्तः (सत्रायणरूपम्) सत्रस्य यज्ञविशेषस्य अयनस्य अनुष्ठानस्य रूपम् (ओकः-
सारी) गृहगामी (वासितायाः) गौ० उ० ५ । १५ । प्रथमार्थे षष्ठी । वासिता ।

करे [वैसा करे] । (क्षत्रियः ह राष्ट्रान् च्यवते, यः ह एव परः भवति, तम् अभिह्वयति) [इस मन्त्र की परिधानीया से] क्षत्रिय [राजा] राज्य से गिर जाता है, [क्योंकि] जो ही [इस का] वैरी है, उस [वैरी] को [इस परिधानीया से] वह बोलाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—कण्डिका १ के समान है ॥ ४ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६ । २२ से मिलाओ ॥ ४ ॥

टिप्पणी २—शुद्धि पत्र नीचे दिया जाता है—

अशुद्ध	शुद्ध	प्रमाण
उरु	उरुं	अथर्व० १६ । १५ । ४
शूनं	शुनं	अथर्व० २० । ११ । ११

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१—अपेन्द्र प्राचो मघवन्मित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व । अपोदीचो अपं शूराधराचं उरौ यथा तव शर्मन् मदेम—अथर्व० २० । १२५ । १, ऋ० १० । १३१ । १ भेद से ॥ (मघवन्) हे महाधनी ! (अभिभूते) हे विजयी ! (शूर) हे शूर ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (प्राचः) पूर्व वाले (मित्रान्) वैरियों को (अप) दूर, (अपाचः) पश्चिम वाले [वैरियों] को (अप) दूर, (उदीचः) उत्तर वाले [वैरियों] को (अप) दूर, और (अधराचः) दक्षिण वाले [वैरियों] को (अप) दूर, (नुदस्व) हटा, (यथा) जिस से (तव) तेरी (उरौ) चौड़ी (शर्मन्) शरण में (मदेम) हम आनन्द करें ।

२—ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशु । स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन् प्रजानन् विद्वाँ उप याहि सोमम्—अथर्व० २० । २६ । १, ऋ० ३ । ३५ । ४ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (ते) तेरे लिये (ब्रह्मणा) अन्न के साथ (ब्रह्मयुजा) धन के संग्रह करने वाले, (आशु) शीघ्र चलने वाले, (हरी) दोनों जल और अग्नि को (सखाया) दो मित्रों के तुल्य (सधमादे) चौरस स्थान में (युनज्मि) मैं संयुक्त करता हूँ, (स्थिरम्) दृढ़ (सुखम्) सुख देने वाले [इन्द्रियों के लिये अच्छे हितकारी—निरु० ३ । १३]

निवासिता प्रजा (शुनम्) सुखप्रदम् (शूनम्) आर्यो दीर्घः । शुनं इति पद-युक्तया ऋचा (परिदध्यात्) परिधानीयां समाप्तविधिं कुर्यात् (परः) शत्रुः (अभिह्वयति) आह्वयति ॥

(रथम्) रथ पर (अधितिष्ठन्) चढ़ता हुआ (प्रजानन्) बड़ा चतुर (विद्वान्) विद्वान् तू (सोमम्) ऐश्वर्य को (उप याहि) प्राप्त हो ॥

३—उरुं नो लोकमनु' नेषि विद्वान्स्व' र्यज्ज्योतिरभयं स्वस्ति । उग्रा तं इन्द्र स्यविरस्य बाहू उप क्षयेम शरणा बृहन्ता—अथर्व० १६ । १५ । ४, ऋ० ६ । ४७ । ८ भेद से ॥ (विद्वान्) जानकार तू (नः) हमें (उरुम्) चौड़े (लोकम्) स्थान में (अनु नेषि) निरन्तर ले चलता है, (यत्) जो (स्वः) सुखप्रद, (ज्योतिः) प्रकाशमान, अभयम्) निर्भय और (स्वस्ति) मङ्गल दाता [अच्छी सत्ता वाला] है । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (स्यविरस्य ते) तुझ दृढ़ स्वभाव वाले के (उग्रा) प्रचण्ड, (शरणा) शरण देने वाले, (बृहन्ता) विशाल (बाहू) दोनों भुजाओं का (उप) आश्रय लेकर (क्षयेम) हम रहें ॥

४—शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ । शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सजितं धनानाम्—अथ० २० । ११ । ११, ऋ० ३ । २० । २२ आदि १३ वार ॥ (शुनम्) सुन्न देने वाले (मघवानम्) बड़े धनी, (अस्मिन्) इस (भरे) युद्ध के बीच (वाजसातौ) अन्न के पाने में (नृतमम्) बड़े नेता, (शृण्वन्तम्) सुनने वाले, (उग्रम्) तेजस्वी, (समत्सु) सङ्ग्रामों में (वृत्राणि) शत्रुओं को (घ्नन्तम्) मारने वाले, (धनानाम्) धनों के (सजितम्) जीत लेने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी जन] को (ऊतये) रक्षा के लिये (हुवेम) हम बुलावें ॥

कण्डिका ५ ॥

अथातोहीनश्च युक्तिश्च विमुक्तिश्च व्यन्तरिक्षमतिरदित्यहीनं युङ्क्ते । एवेदिन्द्रमिति विमुञ्चति । नूनं सा त इत्यहीनं युङ्क्ते । नू ष्टुन इति विमुञ्चति । एष ह वा अहीन तन्तुमर्हति, य एनं योक्त्रश्च विमोक्त्रश्च वेद, तस्य हैषैव युक्तिरेषा विमुक्तिः । तद्यत् प्रथमेऽहनि चतुर्विंश एकाहिकीभिः परिदध्युः, प्रथम एवाहनि यज्ञं संस्थापयेयुर्नाहीनकर्म कुर्युः । अथ यदहीनः परिधानीयाभिः परिदध्युः, तद्यथा युक्तो विमुच्यमाना उत्कृत्येत, एवं यजमाना उत्कृत्येरन्, नाहीनकर्म कुर्युः । अथ यदुभयीभिः परिदध्युः, तद्यथा दीर्घाध्व उपविमोकं याज्याः, त दृक् तत् समानीभिः परिदध्युः । तदाहुः, एकया द्वाभ्यां वा स्तोममतिशंसेत्, दीर्घारणयानि भवन्ति, यत्र बह्वीभिः स्तोमोऽतिशस्यते, अथो क्षिप्रन्देवेभ्योऽन्नाद्यं सम्प्रयच्छामीति, अपरिमिताभिरुत्तरयोः सवनयोः । अपरिमितो वै स्वर्गो लोकः,

स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै । तद्यथा अभिहेषते पिपामते क्षिप्रं प्रयच्छेत्, तादृक्
तत् समानीभिः परिदध्युः । सन्ततो हैवैपामारब्धो विस्रस्तो यज्ञो भवति,
सन्ततमृचा वषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ ५ ॥

कण्डिका ५ ॥ अहीन यज्ञ की युक्ति और विमुक्ति ॥

(अथ अतः अहीनः [अहीनस्य] च युक्तिः च विमुक्तिः च) अब अहीन
[बहुत दिन वाले यज्ञ] का संयोग और वियोग [कहा जाता है] । (व्यन्तरि-
क्षमतिरत्, इति अहीनं युङ्क्ते, एवेदिन्द्रम्—इति विमुञ्चति) व्यन्तरिक्षमति-
रत्.....अथर्व० २०। २८। १, इस मन्त्र से वह अहीन यज्ञ को जोड़ता है,
और एवेदिन्द्रम्.....अथर्व० २०। १२। ६, इस मन्त्र से वह [उस को]
अलगाता है । (नूनं सा ते—इति अहीनं युङ्क्ते, नू ष्टुतः—इति विमुञ्चति)
नूनं सा ते..... ऋ० २। १२। २१ आदि, इस मन्त्र से वह अहीन यज्ञ को
जोड़ता है, और नू ष्टुतः.....ऋ० ४। १६। २१ इत्यादि, इस मन्त्र से वह [उसे]
अलगाता है । (एषः ह वै अहीनं तन्तुम् अर्हति यः एनम् योक्त्रं च विमोक्त्रं च
वेद) वह ही निश्चय करके अहीन यज्ञ को फैलाने योग्य है, जो इस [यज्ञ] के
मिलाव और अलगाव को जानता है । (तस्य ह एषा एव युक्तिः एषा विमुक्तिः)
उस [मनुष्य] की यह ही युक्ति और यह ही विमुक्ति है । (तत् यत् प्रथमे अहनि
चतुर्विंशो एकाहिकीभिः परिदध्युः, प्रथमे एव अहनि यज्ञं संस्थापयेयुः, अहीनकर्म
न कुर्युः) फिर जब पहिले दिन चतुर्विंश यज्ञ में एकाहिकी [एक दिन वाले यज्ञ की
ऋचाओं] से पूरा करें, पहिले ही दिन यज्ञ को पूरा करें और अहीन [बहुत दिन
वाले यज्ञ] के कर्म को न करें । (अथ यत् अहीनः [अहीनस्य] परिधानीयाभिः
परिदध्युः, तत् यथा युक्तः विमुच्यमानाः [विमुच्यमानः] उतकृत्येत, एवं यज-
मानाः उतकृत्येरन्, अहीनकर्म न कुर्युः) फिर जब अहीन यज्ञ की परिधानीयों
[समाप्ति क्रियाओं] से पूरा करें, सो जैसे जुता हुआ [रथादि में जुता हुआ
घोड़ा बहुत थकने पर] छुटा हुआ कतर जावे [नष्ट हो जावे], ऐसे ही यजमान
लोग कतरे जावें [नष्ट हो जावें, इस लिये] अहीन यज्ञ कर्म न करे । (अथ

५—(युक्तिः) संयोगः (विमुक्तिः) वियोगः (युङ्क्ते) संयोजयति
(विमुञ्चति) वियोजयति (योक्त्रम्) दाम्नीशसयुयुजस्तु० । पा० ३। २। १८२।
युजिर् योगे—पून् । बन्धनम् (विमोक्त्रम्) गुधृवीपचिवचि० । उ० ४। १६७।
मुच्छ मोचने—त्र । विमोचनम् (परिदध्युः) समापयेयुः (संस्थापयेयुः) समा-
पयेयुः (युक्तः) रथयुक्तोऽश्वः (उतकृत्येत) उच्छिद्येत । विनश्येत् (उतक-

यत् उमयीभिः परिदध्युः, तत् यथा दीर्घाध्वे उपविमोकं याज्याः, तादृक् तत् समानीभिः परिदध्युः) फिर जो दोनों प्रकार वाली [एक दिन वाले और बहुत दिन वाले यज्ञ की ऋचाओं] से समाप्त करें, सो जैसे लम्बे मार्ग में उपविमोक [जगह जगह विश्राम के समान] याज्या ऋचायें हैं, उसी प्रकार उस [कर्म] को एकसी ऋचाओं से पूरा करें ॥

(तत् आहुः, एकया द्वाभ्यां वा स्तोमम् अतिशंसेत, दीर्घारणानि भवन्ति, यत्र बह्वीभिः स्तोमः अतिशस्यते) फिर कहते हैं, एक अथवा दो ऋचाओं द्वारा स्तोम अधिक बोला जावे, [वहां] बड़े बड़े बन हो जाते हैं, जहां बहुत सी ऋचाओं द्वारा [स्तोम] बढ़ाकर बोला जाता है । (अथो क्षिप्रं देवेभ्यः अन्नाद्यं सम्प्रयच्छामि इति, अपरिमिताभिः उत्तरयोः सवनयोः) फिर शीघ्र विद्वानों को खाने योग्य अन्न देता हूं—यह [ब्राह्मण वचन बोलकर] अपरिमित [बे गिनती ऋचाओं] से दोनों पिछले सवनों में [माध्यन्दिन और तृतीयसवन में स्तोम बढ़ाकर बोला जाता है] । (अपरिमितः वै स्वर्गः लोकः, स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै) अपरिमित [परिमाण रहित] ही स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये [यह कर्म होता है] । (तत् यथा अभिहेषते पिपासते क्षिप्रं प्रयच्छेत्, तादृक् तत् समानीभिः परिदध्युः) सो जैसे हिनहिनाते हुये, प्यासे [घोड़े] को शीघ्र [जल] देवे, वैसे ही उस [यज्ञ कर्म] को समान ऋचाओं से समाप्त करे । (एषां ह एव सन्ततः आरब्धः अविस्त्रस्तः यज्ञः भवति, ऋचा सन्ततं वषट्कृत्यं सन्तत्यै) इन [पुरुषों] का ही फैलाया हुआ, आरम्भ किया हुआ यज्ञ विनाश रहित होता है, ऋचा द्वारा फैलाया हुआ वषट् कर्म [यजमान के] फैलाव के लिये है । (प्रजया पशुभिः सन्धीयते, यः एवं वेद) प्रजा और पशुओं से वह संयुक्त होता है, जो ऐसा विद्वान् है ॥ ५ ॥

भावार्थ—यज्ञों के यथाविधि समाप्त होने पर यजमान लोग सुख पाते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६। २३। से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

त्येरन्) विनश्येयुः (दीर्घाध्वे) दूरमार्गें (उपविमोकम्) तत्र तत्र विमोचनम् (अभिहेषते) हेष्टु अश्वशब्दे—शतृ, आर्षं परस्मैपदम् । हेषां कुर्वाणाय (पिपासते) तृषिताय (अविस्त्रस्तः) अविनाशितः (सन्धीयते) संयुज्यते ॥

१—व्य१'न्तरि॑त्तमति॒रन्मद॑ सोम॒स्य रोच॑ना । इन्द्रो॑ यदभि॒नद॑ वल॒मू ॥
अथर्व० २० । २८ । १ ॥ इत्यादि ऊपर आ चुका है—गो० उ० ५ । १३ ॥

२—ए॒वेदिन्द्रं॑ वृष॑णुं वज्र॒बाहुं॑ वसि॒ष्ठासो॑ अ॒भ्यर्च॑न्त्य॒कैः । स न॑
स्तुतो॑ वी॒रव॑द् धातु॒ गोम॑द् यूयं पा॒त स्व॒स्तिभिः॑ सदा॑ नः—अथर्व २० । १२ ।
६, ऋग्० ७ । २३ । ६, यजु० २० । ५४ ॥ यह मन्त्र आचुका है—गो० उ० ४ । २ ॥

३—नूनं॑ सा ते॒ प्रति॑ वरं॑ जरि॒त्रे दु॑हीयदिन्द्र॒ दक्षि॑णा म॒घोनी॑ । शि॒क्षा
स्तो॒तृभ्यो॑ मा॒र्ति ध॒ग्भगो॑ ना बृह॒द्रदे॑म वि॒दथे॑ सु॒वीराः—ऋग्० २ । ११ । २१,
२ । १५ । १०, २ । १६ । ६, २ । १७ । ६, २ । १८ । ६, २ । १६ । ६, २ । २० । ६,
और निरु० १ । ७ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले वीर] (नूनम्)
निश्चय करके (ते) तेरी (सा) वह (मघोनी) बहुत धन वाली (दक्षिणा)
दक्षिणा [दानक्रिया] (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (वरम्) वर
[कामना] (प्रति) प्रत्यक्ष (दुहीयत्) पूर्ण करे । (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने
वालों को (शिक्षा) शिक्षा दे, (नः) हमें (अति = अतीत्य) छोड़ कर (भगः)
[हमारे] ऐश्वर्य को (मा धक्) मत भस्म कर, (सुवीराः) बड़े वीरों वाले
हम (विदथे) ज्ञान स्थान यज्ञ में (बृहत्) बृहत् [साम आदि विज्ञान]
(वदेम) कहे ॥

४—नू ष्टु॑त इन्द्र॒ नू गृ॑णान इषं॑ जरि॒त्रे न॒द्यो ३' न पी॑पेः । अ॒कारि॑ ते
हरि॒वो ब्रह्म॑ नव्यं॑ धि॒या स्या॑म र॒थ्यः सदा॑साः—ऋग्० ४ । १६ । २१, ४ । १७ ।
२१, ४ । १६ । ११, ४ । २० । ११, ४ । २१ । ११, ४ । २२ । ११, ४ । २३ । ११,
४ । २४ । ११ ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (नु नु) अब ही
(स्तुतः) स्तुति किया गया और (गृणानः) उपदेश करता हुआ तू (नद्यः न)
नदियों के समान (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (इषम्) अन्न (पीपेः)
बढ़ा, (हरिवः) हे उत्तम घोड़ों वाले ! (ते) तेरे लिये (नव्यम्) अधिक
नवीन (ब्रह्म) अन्न (अकारि) किया गया है, (धिया) बुद्धि वा कर्म के साथ
हम (रथ्यः = रथ्याः) उत्तम रथों वाले और (सदासाः) सेवकों वाले (स्याम)
होवें ॥

कण्डिका ६ ॥

तदाहुः, कथं द्रव्युक्थो होतैकसूक्त एकोक्था होत्रा द्विसूक्ता इति । असौ
वै होता योऽसौ तपति, स वा एक एव, तस्मादेकसूक्तः । स यद्विधातो द्वाविवा
भवति, तेज एव मण्डलं भा अपरं शुक्लमपरं कृष्णं, तस्माद् द्रव्युक्थः । रश्मयो

वाव होत्राः, ते वा एकैकं, तस्मादेकोक्थाः । तद्यदेकैकस्य रश्मेर्द्वौ द्वौ वर्णौ भवतः, तस्माद् द्विसूक्ताः । संबत्सरो वाव होता, स वा एक एव, तस्मादेकसूक्तः । तस्य यद् द्रव्यान्यहानि भवन्ति, शीतान्यन्यान्युष्णान्यन्यानि, तस्माद् द्रव्युक्थः । ऋतवो वाव होत्राः, ते वा एकैकं, तद्यदेकैकस्यतौ द्वौ द्वौ मासौ भवतः, तस्माद् द्विसूक्ताः । पुरुषो वाव होता स वा एक एव, तस्मादेकसूक्तः । स यत्पुरुषो भवत्यन्यथैव प्रत्यङ् भवत्यन्यथा प्राङ्, तस्माद् द्रव्युक्थः । अङ्गानि वाव होत्राः, तानि वा एकैकं, तस्मादेकोक्थाः । तं यदेकैकमङ्गं द्युतिर्भवति, तस्माद् द्विसूक्ताः । तदाहुः, यद् द्रव्युक्थो होतैकसूक्त एकोक्था होत्रा द्विसूक्ताः, कथं तत् समं भवति, यदेव द्विदेवत्याभिर्यजन्ति, अथो यद् द्विसूक्ता होत्रा इति ब्रूयात्, तदाहुः, यदग्निष्टोम एव सति यज्ञे द्वे होतुरुक्थे अतिरिच्येते, कथं ततो होत्रा न व्यवच्छिद्यन्त इति । यदेव द्विदेवत्याभिर्यजन्ति, अथो यद् द्विसूक्ता होत्रा इति ब्रूयात्, तदाहुः, यदग्निष्टोम एव सति यज्ञे सर्वा देवताः सर्वाणि छन्दांस्याप्यायन्ति, अथ कतमेन छन्दसायातयामान्युक्थानि प्रणयन्ति, कया देवतयेति । गायत्रेण छन्दसाग्निना देवतयेति ब्रूयात् । देवान् ह यज्ञं तन्वाना असुररक्षांस्यभिचेरिरे यज्ञपर्वणि, यज्ञमेषां हनिष्यामस्तृतीयसवनं प्रति तृतीयसवने ह यज्ञस्त्वरिष्टो बलिष्ठः प्रतनुमेषां यज्ञं हनिष्याम इति । ते वरुणं दक्षिणतोऽयोजयन्, मध्यतो बृहस्पतिमुत्तरतो विष्णुम् । तेऽब्रवन्, एकैकाः समः, नेदमुत्सहामहेति, स्तु [अस्तु] नो द्वितीयो येनेदं सह व्यशनवामहा इति । तानिन्द्रोऽब्रवीत्, सर्वे मद्द्वितीया स्थेति । ते सर्वे इन्द्रं द्वितीयाः, तस्मादैन्द्रावारुणमैन्द्रावार्हस्पत्यमैन्द्रावैष्णवमेनुशस्यते । द्वितीयवन्तो ह वा एतेन स्वा भवन्ति, द्वितीयवन्तो मन्यते, य एवं वेद ॥ ६ ॥

कण्डिका ६ ॥ होताओं और होत्रक लोगों के उक्थों का वर्णन और असुरों से यज्ञ की रक्षा ॥

(तत् आहुः, कथं होता द्रव्युक्थः एकसूक्तः होत्राः एकोक्थाः द्विसूक्ताः इति) वे कहते हैं—कैसे होता दो उक्थ वाला और एक सूक्त वाला होता है, और होत्रक [सहायक होता लोग] एक उक्थ वाले और दो सूक्त वाले होते हैं । (असौ वै होता यः असौ तपति, सः वै एकः एव, तस्मात् एकसूक्तः) [उस का उत्तर] वह ही [सूर्य] होता [जल का दाता और ग्रहीता] है जो वह तपता

६—(आहुः) कथयन्ति (विध्यातः) वि + ध्यै चिन्तने—क्त । विविध-चिन्तितः (भाः) किरणः (वर्णौ) शुक्लादिरूपे (द्रव्यानि) द्रव्ययानि द्वे अयने

हैं वह ही [सूर्य] एक ही है, इस लिये वह एक सूक्त वाला है । (सः यत् विध्यातः द्वौ इव भवति तेजः एव मण्डलम् भाः अपरं शुक्लम् अपरं कृष्णम्, तस्मात् द्वायुक्थः) वह [सूर्य] जब विविध प्रकार ध्यान किया गया, दो के समान होता है, तेज ही मण्डल और किरण है, [सामने की ओर अथवा किरण में] एक शुक्ल रूप और दूसरा [पिछली ओर अथवा किरण में] कृष्ण रूप है इस लिये वह [होता] दो उक्थ वाला है । (रश्मयः वाव होत्राः ते वै एकैकम्, तस्मात् एकोक्थाः) किरणों [के समान] ही होत्रक लोग हैं, वे [दोनों किरण और होत्रक] निश्चय करके एक एक हैं, इस लिये वे [होत्रक] एक उक्थ वाले होते हैं । (तत् यत् एकैकस्य रश्मेः द्वौ द्वौ वर्यौ भवतः, तस्मात् द्विसूक्ताः) फिर जो एक एक किरण के दो दो रूप [शुक्ल और कृष्ण] होते हैं । इस लिये वे [होत्रक] दो सूक्त वाले होते हैं ॥

संवत्सरः वाव होता, सः वै एकः एव, तस्मात् एकसूक्तः) संवत्सर [के समान] ही होता है, वह निश्चय करके एक ही है, इस लिये वह [होता] एकसूक्त वाला है । (तस्य यत् द्वायानि [द्वायानि] अहानि भवन्ति अन्यानि शीतानि अन्यानि उष्णानि, तस्मात् द्वायुक्थः) उस [संवत्सर] के जो दो अयन [सूर्य के मार्ग, दक्षिणाधन और उत्तरायण] वाले होते हैं, एक शीत और एक उष्ण, इस लिये वह [होता] दो उक्थ वाला होता है । (ऋतवः वाव होत्राः, ते वै एकैकं, तस्मात् एकोक्थाः) ऋतुओं [के समान] ही होत्रक लोग हैं, वे ही एक एक हैं, इस लिये वे [होत्रक] एक उक्थ वाले हैं । (तत् यत् एकैकस्य ऋतौ [= ऋतोः] द्वौ द्वौ मासौ भवतः, तस्मात् द्विसूक्ताः) सो जो एक एक ऋतु के दो दो महीने होते हैं, इस लिये वे [होत्रक] दो सूक्त वाले हैं ॥

(पुरुषः वाव होता, सः वै एकः एव तस्मात् एकसूक्तः) पुरुष [के समान] ही होता है वह निश्चय करके एक ही है, इस लिये वह [होता] एक सूक्त वाला है । (सः यत् पुरुषः अन्यथा एव प्रत्यङ् भवति, अन्यथा प्राङ् भवति, तस्मात् द्वायुक्थः) सो जो पुरुष एक प्रकार से ही पीछे की ओर होता है और

दक्षिणायनमुत्तरायणं च येषां तानि (ऋतौ) ऋतोः (प्रत्यङ्) प्रति + अश्नु गतिपूजनयोः—किन् । पश्चाद्देशभवः (द्युतिः) कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । पा० ५ । २ । १३८ । द्वि—ति षत्वर्थे, वर्णव्यत्यये मति सम्प्रसारणेन वकारस्य उकारः, इकारस्य यकारः । द्वित्वयुक्तम् (अतिरिच्येते) अधिके वर्तेते (व्यवच्छिन्ने

दूसरे प्रकार से सामने की ओर, इस लिये वह [होता] दो उक्थ वाला है । (अङ्गानि वाव ह्येषाः, तानि वै एकैकं, तस्मात् एकोक्थाः) अङ्गों [के समान] ही होत्रक लोग हैं, वे [अङ्ग] ही एक एक हैं, इस लिये वे [होत्रक] एक उक्थ वाले हैं । (तं [= तस्य] यत् एकैकम् अङ्गं द्युतिः भवति, तस्मात् द्विसूक्ताः) उस [पुरुष] का जो एक एक अङ्ग [जैसे हाथ और पांव] दो अवयव वाला होता है, इस लिये वे [होत्रक] दो सूक्त वाले होते हैं ॥

(तत् आहुः, यत् द्रव्युक्थः एकसूक्तः होता, एकोक्थाः द्विसूक्ताः होत्राः, कथं तत् समं भवति) वे कहते हैं—जो दो उक्थ वाला और एक सूक्त वाला होता है, और एक उक्थ वाले और दो सूक्त वाले होत्रक होते हैं, कैसे यह कर्म समान होता है । (यत् एव द्विदेवत्याभिः यजन्ति, अथो यत् द्विसूक्ताः होत्राः इति ब्रूयात्) जब ही दो देवता वाली ऋचाओं से यज्ञ करते हैं, और जब दो उक्थ वाले होत्रक हैं, वह यह बतलावे । (तत् आहुः यत् अग्निष्टोमे एव यज्ञे सति होतुः द्वे उक्थे अतिरिच्येते कथं ततः होत्राः न व्यवच्छिद्यन्ते इति) जब अग्निष्टोम ही यज्ञ होने पर होता के दो उक्थ बढ़ते हैं, कैसे उस से होत्रक लोग नहीं अलग अलग होते । (यत् एव द्विदेवत्याभिः यजन्ति, अथो यत् द्विसूक्ताः होत्राः इति ब्रूयात्) [उत्तर] जब ही दो देवता वाली ऋचाओं से वे यज्ञ करते हैं, फिर जब दो सूक्त वाले होत्रक हैं [इस लिये वे अलग अलग नहीं होते]—यह कहे । (तत् आहुः अग्निष्टोमे एव यज्ञे सति सर्वाः देवताः सर्वाणि छन्दांसि आप्यायन्ति, अथ कतमेन छन्दसा कया देवतया अयातयामानि उक्थानि प्रणु-बन्ति इति) वे कहते हैं—जब अग्निष्टोम ही यज्ञ होने पर सब देवताओं और सब छन्दों को वे बढ़ाते हैं, फिर कौन से छन्द से और किस देवता से समय के अनुकूल उक्थों को वे आगे लाते हैं । (गायत्रेण छन्दसा अग्निना देवतया इति ब्रूयात्) गायत्री छन्द से और अग्नि देवता से [समय के अनुकूल उक्थों को वे आगे लाते हैं]—ऐसा वह कहे । (यज्ञं तन्वानाः [= तन्वानान्] देवान् ह् असुररक्षांसि यज्ञपर्वणि अभिचेरिरे, एषां यज्ञं तृतीयसवनं प्रति हनिष्यामः)

द्यन्ते) विभिद्यन्ते । विनश्यन्ते (अयातयामानि) न यातो गतो याम उचितस-मयो येषां तानि । समयानुकूलानि (अभिचेरिरे) अभिचारं कपटविचारं चक्रुः (अरिष्टः) अहिंसितः । सुरक्षितः (प्रतनुम्) विस्तृतम् (हनिष्यामः) नाश-यिष्यामः (स्तु) अकारलोपः । अस्तु (व्यश्नवामहै) प्राप्तुयाम । समापयाम (मद्द्वितीयाः) अस्मद्—द्वितीय । प्रत्योत्तरपदयोश्च । पा० ७ । २ । ६८ । इति

यज्ञ फैलाते हुये देवताओं से असुर और राक्षस यज्ञ के उत्सव में अभिचार [छल प्रयोग] करने लगे—इन के यज्ञ को तीसरे सवन में हम नष्ट कर देंगे, (तृतीय-सवने ह अरिष्टः यज्ञः तु वलिष्ठः, एषां प्रतनुं यज्ञं हनिष्यामः इति) तीसरे सवन में ही बिना विगड़ा हुआ यज्ञ अति बलवान् होता है, इन के फैले हुये यज्ञ को हम नष्ट कर देंगे । (ते दक्षिणतः वरुणं, मध्यतः वृहस्पतिं, उत्तरतः विष्णुम् अयोजयन्) उन [देवताओं] ने दक्षिण ओर वरुण को, बीच में वृहस्पति का और उत्तर में विष्णु को नियुक्त किया । (ते अब्रुवन्, एकैकाः स्मः इदं न उत्सहामहै इति, स्तु [अस्तु] नः द्वितीयः येन सह इदं व्यशनवामहै इति) वे [तीनों] बोले—हम एक एक हैं, इस काम में हम उत्साह नहीं कर सकते, इस लिये हमारा कोई दूसरा [सहायक] हो, जिस के साथ इस काम को हम प्राप्त कर लें (तान् इन्द्रः अब्रवीत्, सर्वे मद्द्वितीयाः स्य इति) उन से इन्द्र बोला—तुम सब मुझे दूसरा [सहायक] रखने वाले हो । (ते सर्वे इन्द्र (= इन्द्रेण) द्वितीयाः, तस्मात् ऐन्द्रावरुणम्, ऐन्द्रावार्हस्पत्यम्, ऐन्द्रावैष्णवम् अनुशस्यते) वे सब इन्द्र के साथ सहाय वाले हैं, इस लिये इन्द्र-वरुण वाला, इन्द्र-वृहस्पति वाला और इन्द्र-विष्णु वाला सूक्त निरन्तर बोला जाता है । (द्वितीयवन्तः ह वै एनेन स्वाः भवन्ति, द्वितीयवन्तः [= द्वितीयवान्] मन्यते, यः एवं वेद) इस [विधान] से ही दूसरे [सहायक] वाले अपने लोग होते हैं, दूसरे [सहायक] वाला वह माना जाता है जो ऐसा विद्वान् है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य को चाहिये कि संसार में सङ्घटन करके कार्य सिद्धि करे ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका के लिये देखो पे० ब्रा० ६ । १३ तथा १४ ॥

कण्डिका ७ ॥

आग्नेबीषु मैत्रावरुणस्योक्थं प्रणयन्ति, वीर्यं वा अग्निः, वीर्यैर्वास्मै तत् प्रणयन्ति । ऐन्द्रावारुणमनुशस्यते, वीर्यं वा इन्द्रः, क्षत्रं वरुणः, पशव उक्थानि, वीर्यैर्वा तत् क्षत्रेण चोभयतः पशून् परिगृह्णाति स्थित्या अनपक्रान्त्यै । ऐन्द्रीषु ब्राह्मणाच्छंभिन उक्थं प्रणयन्ति, वीर्यं वा इन्द्रः वीर्यैर्वास्मै तत् प्रणयन्ति । ऐन्द्रावार्हस्पत्यमनुशस्यते, वीर्यं वा इन्द्रः, ब्रह्म वृहस्पतिः, पशव उक्थानि,

रूपसिद्धिः । अहं द्वितीयः सहायको येषां ते (इन्द्रम्) इन्द्रेण । वीर्येण—क० ७ (अनु) निरन्तरम् (मन्यते) ज्ञायते ॥

वीर्यैव तद्ब्रह्मणा चोभयतः पशून् परिगृह्णाति स्थित्या अनपक्रान्त्यै । ऐन्द्री-
ष्वच्छावाकस्योक्थं प्रणयन्ति, वीर्यं वा इन्द्रः, वीर्यैवास्मै तत् प्रणयन्ति ।
ऐन्द्रावैष्णवमनुशस्यते, वीर्यं वा इन्द्रः, यज्ञो विष्णुः, पशव उक्थानि, वीर्यैव
तद्यज्ञेन चोभयतः पशून् परिगृह्य क्षत्रेऽन्ततः प्रतिष्ठापयति । तस्माद्दु क्षत्रियो
भूयिष्ठं हि पशूनामीशते याधिष्ठाता प्रदाता, यस्मै प्रजा वेदा अवरुद्धाः, तान्ये-
तान्यैन्द्राणि । जागतानि शंसन्ति, अथो एतैरेव सेन्द्रं तृतीयसवनमेतैर्जागतं सवनं,
धराणि ह वा अस्यैतान्युक्थानि भवन्ति, यन्नाभानेदिष्टो वालखिल्यो वृषाकपि-
रेवयामरुत्, तस्मात् तानि सार्द्धमेवोपेयुः, सार्द्धमिदं रेतः सिकते समृद्धं, एकधा
प्रजनयामेति ये ह वा एतानि नानूपेयुः, यथा रेतः सिक्तं विलुम्पेत कुमारं वा
जातमङ्गशो धिभजेत् तादृक् तत् । तस्मात्तानि सार्द्धमेवोपेयुः । सार्द्धमिदं रेतः
सिक्तं समृद्धमेकधा प्रजनयामेति । शिल्पानि शंसन्ति, यदेव शिल्पानि, एतेषां वै
शिल्पानामनुकृतिर्हि शिल्पमधिगम्यते, हस्ती कंसो वासो हिरण्यमश्वतरी रथ-
शिल्पं, शिल्पं हास्य समधिगम्यते, य एवं वेत्, यदेव शिल्पानि शंसन्ति, तत्
स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यदेव शिल्पानि, आत्मसंस्कृतिर्वै शिल्पान्यात्मानमे-
वास्य तत् संस्कुर्वन्ति ॥ ७ ॥

कण्डिका ७ ॥ यज्ञ में उक्थों और शिल्पों का वर्णन ॥

(आग्नेयिषु मैत्रावरुणस्य उक्थं प्रणयन्ति) अग्नि देवता वाली ऋचाओं में मैत्रावरुण ऋत्विज के उक्थ [स्तोत्र] को आगे लाते हैं । (वीर्यं वै अग्निः, वीर्येण एव अस्मै तत् प्रणयन्ति) वीर्य [पराक्रम] ही अग्नि है, वीर्य के साथ ही इस [यजमान] के लिये उस [उक्थ] को आगे लाते हैं । (ऐन्द्रावरुणम् अनुशस्यते) इन्द्र-वरुण देवता वाला [उक्थ] फिर बोला जाता है । (वीर्यं वै इन्द्रः क्षत्रं वरुणः, पशवः उक्थानि, तत् वीर्येण एव क्षत्रेण च उभयतः पशून् स्थित्याः अनपक्रान्त्यै परिगृह्णाति) वीर्य ही इन्द्र है, राज्य वरुण है, सब पशु उक्थ हैं, तब वीर्य के साथ और राज्य के साथ ही दोनों ओर से पशुओं को

७—(आग्नेयीषु) अग्निदेवताकासु ऋक्षु (प्रणयन्ति) प्ररुषेण प्राप्नुवन्ति (अनपक्रान्त्यै) अचलतायै (प्रतिष्ठापयति) स्थापयति (ईशते) इष्टे । ईश्वरो भवति (अवरुद्धाः) रक्षिताः (धराणि) धारणीयानि । सहचराणि (नाभानेदिष्टः) नहो भश्च । उ० ४ । १२६ । एह बन्धने—इज् । सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । नाभि—डा । अन्तिक—इष्टन् । अन्तिकवाढयोर्नदसाधौ । पा० ५ । ३ । ६३ । नेदादेशः । नाभौ वेदसम्बन्धे नेदिष्ठोऽतिसमीपः । ऋषिविशेषः । नाभा-

स्थिति [ठहराव] की अचलता [दृढ़ता] के लिये वह [यजमान] ग्रहण करता है । (ऐन्द्रीषु ब्राह्मणाच्छंशिनः उक्थं प्रणयन्ति) इन्द्र देवता वाली ऋचाओं में ब्राह्मणाच्छंसी के उक्थ को आगे लाते हैं । (वीर्यं वै इन्द्रः, वीर्येण एव अस्मै तत् प्रणयन्ति) वीर्य [पराक्रम] ही इन्द्र है, वीर्य के साथ ही इस [यजमान] के लिये उस [उक्थ] को आगे लाते हैं । (ऐन्द्रावाहस्पत्यम् अनुशस्यते) इन्द्र—वृहस्पति वाला उक्थ फिर बोला जाता है । (वीर्यं वै इन्द्रः, ब्रह्म वृहस्पतिः, पशवः उक्थानि, तत् वीर्येण एव ब्रह्मणा च उभयतः पशुम् स्थित्याः अनपक्रान्त्यै परिगृह्णाति) वीर्य ही इन्द्र है, ब्रह्म [वेदज्ञान] वृहस्पति है, सब पशु उक्थ हैं, तब वीर्य के साथ और ब्रह्म के साथ ही दोनों ओर से पशुओं को स्थिति [ठहराव] की अचलता के लिये वह [यजमान] ग्रहण करता है । (ऐन्द्रीषु अच्छावाकस्य उक्थं प्रणयन्ति) इन्द्र देवता वाली ऋचाओं में अच्छावाक के उक्थ को आगे लाते हैं । (वीर्यं वै इन्द्रः, वीर्येण एव अस्मै तत् प्रणयन्ति) वीर्य [पराक्रम] ही इन्द्र है, वीर्य के साथ ही इस [यजमान] के लिये उस [उक्थ] को आगे लाते हैं । (ऐन्द्रावैष्णवम् अनुशस्यते) इन्द्र—विष्णु वाला उक्थ फिर बोला जाता है । (वीर्यं वै इन्द्रः, यज्ञः विष्णुः पशवः उक्थानि, तत् वीर्येण एव यज्ञेन च उभयतः पशुन् परिगृह्य क्षत्रे अन्ततः प्रतिष्ठापयति) वीर्य ही इन्द्र है, यज्ञ [देव पूजनादि] विष्णु [व्यापक] है, सब पशु उक्थ हैं, तब वीर्य के साथ और यज्ञ के साथ ही दोनों ओर से पशुओं को ग्रहण करके राज्य पर अन्त में [यजमान को] स्थापित करता है । (तस्मात् क्षत्रियः भूयिष्ठं हि पशूनाम् ईशते यः अधिष्ठाता प्रदाता, यस्मै प्रजाः वेदाः अवरुद्धाः, तानि एतानि ऐन्द्राणि) इस लिये ही क्षत्रिय [राजा] बहुत करके ही पशुओं का स्वामी है, जो अधिष्ठाता और बड़ा दाता है और जिस के लिये [ऋषियों को] दिये हुये वेद रक्षित हैं, वह ही यह सब इन्द्र के कर्म हैं ॥

दिष्टेन दृष्टम् उक्थम् (वालखिल्यः) वृञ् वरणे—घञ्, रस्य लः + खल कणश आदानं—क्यप् । वालं पर्व वृणोतेः—निरु० ११ । ३१ । वरणीयस्य स्वीकरणा- यस्य ग्राहयिता । वालखिल्यसंज्ञकानि सूक्तानि (वृषाकपिः) कनिन् युवृषितक्षि० । उ० १ । १६५ । वृष सेचने पराक्रमे च—कनिन्, यद्वा इगुपधज्ञापीक्रिः । पा० ३ । १ । १३५ । इति कप्रत्ययः । कुण्ठकम्प्येर्नलोपश्च । उ० ४ । १४४ । कपि चलने—इप्रत्ययः । अन्येषामपि दृश्यते । पा० ६ । ३ । १३७ । इति दीर्घः । वृषा- कपिः पदनाम—निघ० ५ । ६ । अथ यद् रश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नेति तद्वृषाक-

(जागतानि शंसन्ति) जगती छन्द वाले [उक्थों] को वे बोलते हैं । (अथो एतैः एव सेन्द्रं तृतीयसवनम् , एतैः जागतं सवनम्) फिर इन [उक्थों] करके ही इन्द्र सहित तीसरा सवन है, इन ही करके जागत [जगत् का उपकारक] सवन है । (धराणि ह वै अस्य एतानि उक्थानि भवन्ति, यत् नाभानेदिष्ठः, वालखिल्यः वृषाकपिः, एवयामरुत्) धारण योग्य ही इस [सवन] के यह उक्थ हैं, जो नाभानेदिष्ठ [इदमित्था रौद्रं गूर्तबचा, और ये यज्ञेन दक्षिणया समत्ता.....ऋ० १० । ६१ तथा ६२, यह नाभानेदिष्ठ [वेद सम्बन्ध में अति समीप ऋषि वाले दो सूक्त], वालखिल्य [अभि प्रवः सुराधस आदि, ऋ० ८ । ४६-५६ यह वाल खिल्य [स्वीकार योग्य के ग्रहण करने वाले] नाम के ग्यारह सूक्त], वृषाकपि [वि हि सोतोरसृक्षत...ऋ० १० । ८६, यह वृषाकपि [बलवान् चेष्टा कराने वाले ऋषि वाला सूक्त] और एवयामरुत् [प्र वो महे मतयो यन्तु.....ऋ० ५ । ८७, यह एवयामरुत् [पाने योग्य का प्राप्त कराने वाला शत्रुनाशक ऋषि] का सूक्त] है । (तस्मात् तानि सार्द्धम् एव उपेयुः) इस लिये इन को एक साथ ही वे प्राप्त करें । (इदं रेतः सार्द्धं सिकतं समृद्धम्, एकधा प्रजनयाम इति) यह वीर्य एक साथ सींचा हुआ सफल होता है, [इस लिये] एक प्रकार से [एक साथ] हम उत्पन्न करें । (यं ह वै एतानि न अनूपेयुः, यथा रेतः सिकतं विलुम्पेत, कुमारं वा जातं अङ्गशः विभजेत् . तादृक् तत्) जो [ऋत्विज लोग] इन [उक्थों] को न लगातार प्राप्त करें, जैसे वीर्य सींचा हुआ छिन्न भिन्न हो जावे [तब] वह कुमार [गर्भस्थ बालक] अथवा उत्पन्न हुये बालक को अङ्ग अङ्ग से खण्डित कर देवे, वैसे ही वह [यज्ञ कर्म खण्डित] होता है । (तस्मात् तानि सार्द्धम् एव उपेयुः) इस लिये उन [चार उक्थों] को एक साथ ही प्राप्त करें । (इदं रेतः सार्द्धं सिकतं समृद्धम्, एकधा

पिर्भवति वृषाकम्पनः—निरु० १२ । २७ । हरविष्णु वृषाकपी—अमरः २३ । १३० । वृषाकपिः=विष्णुः शिवः, अग्निः, इन्द्रः, सूर्यः,—इति शब्दकल्पद्रुमः । वृषा बलवान्, कपिः कम्पयिता चेष्टयिता इन्द्रो जीवात्मा । ऋषिविशेषः । वृषाकपिदृष्टसूक्तम् (एवयामरुत्) इण् शीर्भ्यां वन् । उ० १ । १५२ । इण् गतौ—वन् + या प्रापणे—क, आर्षो दीर्घः । मित्रोरुतिः । उ० १ । ६४ । मृङ् प्राणत्यागे—उति । एवयः प्रापणीयस्य प्रापकश्चासौ मरुत् शत्रूणां मायिता च । ऋषिविशेषः । एवयामरुत् संबन्धेन दृष्टं सूक्तम् (उपेयुः) उप—इयुः । प्राप्नुयुः (प्रजनयाम) उत्पादयाम (विलुम्पेत) लुप्त्ये च्छेदने । विनाशयेत् (विभजेत्) विभक्तं कुर्यात् (शिल्पानि)

प्रजनयाम इति) यह वीर्य एक साथ सींचा हुआ सफल होता है, [इस लिये] एक प्रकार से [एक साथ] हम उत्पन्न करें ॥

(शिल्पानि शंसति) शिल्प [कला कौशल वाले नाभानेदिष्ट ऋषि के सूक्तों, ऋ० १० । ६१, ६२] को वह बोलता है । (यत् एव शिल्पानि, एतेषां शिल्पानां वै अनुकृतिः, हि शिल्पम् अधिगम्यते) जो ही शिल्प सूक्त हैं, वे इन शिल्पों का अनुकरण [दृष्टान्त] हैं, क्योंकि [इन से] शिल्प समझा जाता है । (हस्ती, कंसः, वासः, हिरण्यम् अश्वतरी रथशिल्पम्) हाथी, कंस [चमकीला द्रव्य वा पात्र], वस्त्र, सुवर्ण आभूषण और खच्चरी, रथ के शिल्प हैं । (शिल्पं ह अस्य समधिगम्यते, यः एवं वेद) शिल्प ही उस पुरुष का अच्छे प्रकार समझा जाता है, जो ऐसा विद्वान् है । (यत् एव शिल्पानि शंसति, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्) जो ही वह शिल्प सूक्तों को बोलता है, वह स्वर्ग लोक का रूप है । (यत् उ एव शिल्पानि, वै आत्मकृतिः, शिल्पानि एव अस्य आत्मानम् तत् संस्कुर्वन्ति) जो हि शिल्प कर्म हैं, वे ही आत्मा के संस्कार [शुद्ध वासनार्ये] हैं, शिल्प कर्म ही इस [मनुष्य] के आत्मा को तब संस्कार युक्त करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि वेदमन्त्रों को भली भांति विचार कर और शिल्पशास्त्र आदि विद्याओं में निपुण होकर आनन्द भोगें ॥ ७ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका के लिये देखो ऐ० ब्रा० ५ । १५ तथा ६ । २७ ॥

कण्डिका ८ ॥

नाभानेदिष्टं शंसति, रेतो वै नाभानेदिष्टः । रेत एवास्य तत् कल्पयति । तद्रेतो मिश्रं भवति, दमया रेतः सञ्जग्मानो निषिञ्चदिति, रेतसः समृद्ध्या एव । तं नाराशं संशंसति, प्रजा वै नरः, वाक् शंसः, प्रजासु तद्वाचं दधाति । तस्मादिमा; प्रजा अदन्त्यो जायन्ते । तं हैके पुरस्तात् प्रगाथानां शंसन्ति, पुरस्तादायतना वागिति वदन्ते, उपरिष्ठादेके । उपरिष्ठादायतना वागिति वदन्तो मध्य एव शंसन्ते, मध्यायतना वा इर्यं वाग्, उपरिष्ठान्नेदीयसीव तं होतम रेतो भूर्तं शस्त्वा

स्त्रपशिल्पशस्त्रपवाष्प० । उ० ३ । २८ । शील समाधौ-प, ह्रस्वत्वम् । कौशलानि । शिल्पसूक्तानि (अनुकृतिः) अनुकरणम् । सदृशीकरणम् (कंसः) वृत्तवदिवचिवसिहनिकमि कषिभ्यः सः । उ० । ३ । ६२ । कमु कान्तौ—स । तेजसद्रव्यं पात्रम् (हिरण्यम्) सुवर्णभूषणम् (आत्मसंस्कृतिः) आत्मनः शुद्धवासना (संस्कुर्वन्ति) शोधयन्ति ॥

मैत्रावरुणाय सम्प्रयच्छति । एतस्य त्वं प्राणान् कल्पयति [कल्पयेति], बाल-
खिल्याः शंसन्ति, प्राणा वै बालखिल्याः, प्राणानेवास्य तत् कल्पयति । ता विहृताः
शंसति, विहृता वै प्राणाः प्राणेनापानो अपानेन व्यातः । स पच्छुः प्रथमे सूक्ते
विहरति, अर्द्धर्चशो द्वितीये, ऋक्शस्वृतीये । स यत् प्रथमे सूक्ते विहरति, वाचं
चैव तन्मनश्च विहरति । यद् द्वितीये चक्षुश्चैव तच्छ्रोत्रं च विहरति । यत्तृतीये
प्राणं चैव, तदात्मानं च विहरति । तदुपातो विहरेत्, कामः, अन्ये तु वै
प्रगाथाः कल्पयन्तेति मर्शं समेव विहरेत् । तथा वै प्रगाथाः कल्पयन्ते ।
यदेवातिमर्शं, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यदेवातिमर्शं, आत्मा वै वृहती,
प्राणाः सतोवृहती, स वृहतीमशंसीत् । स आत्माथ सतोवृहतीं, ते प्राणा अथ
वृहतीमथ सतोवृहतीं, तदात्मानं प्राणैः परिवृढन्नेति । यदेवातिमर्शः, आत्मा वै
वृहती, प्रजाः सतोवृहती, स वृहतीमशंसीत् । स आत्माथ सतोवृहतीं, ते प्रजा
अथ वृहतीमथ सतोवृहतीं, तदात्मानं प्रजया परिवृढन्नेति । यदेवातिमर्शं, आत्मा
वै वृहती, पशवः सतोवृहती, स वृहतीमशंसीत् । स आत्माथ सतोवृहतीं, ते पशु-
वाथ वृहतीं, अथ सतोवृहतीं, तदात्मानं पशुभिः परिवृढन्नेति । तस्य मैत्रावरुणः
प्राणान् कल्पयित्वा ब्राह्मणाच्छंसिने सम्प्रयच्छति । एतस्य त्वं प्रजनयेति, सुकीर्तिं
शंसति, देवयोनिर्वै सुकीर्तिः तद्यज्ञियायां देवयोन्यां यजमानं प्रजनयेति [प्रजन-
यति] । वृषाकपिं शंसति, आत्मा वै वृषाकपिः, आत्मानमेवास्य तत् कल्पयति ।
तन्यूश्च इति [तं न्यूह्वयति], अन्नं वै न्यूश्च, अन्नाद्यमेवास्मै तत् सम्प्रय-
च्छति, यथा कुमाराय जाताय स्तनम् । स पाङ्क्तो भवति, पाङ्क्तो ह्ययं पुरुषः
पञ्चधा विहितः लोमानि त्वगस्थिमज्जामस्तिष्कम् । स यावानेव पुरुषस्तावन्तं
यजमानं संस्कृत्याच्छावाकाय सम्प्रयच्छति । एतस्य त्वं प्रतिष्ठां कल्पय, इत्यैव-
यामरुतं शशंसति, प्रतिष्ठा वा एवयामरुत् प्रतिष्ठाया एवन्तमन्ततः प्रतिष्ठा-
पयति । याज्यया यजति, अन्नं वै याज्या, अन्नाद्यमेवास्मै तत् प्रयच्छति ॥ ८ ॥

कण्डिका ८ ॥ नाभानेदिष्ठ, नाराशंस, बालखिल्य, प्रगाथ,
वृहती, सतोवृहती, वृषाकपि, न्यूह्व, एवयामरुत्
और याज्या का विनियोग ॥

(नाभानेदिष्ठं शंसति) नाभानेदिष्ठ [नाभानेदिष्ठ ऋषि बाले सूक्त—
क० ७] को वह [होता] बोलता है । (रेतः वै नाभानेदिष्ठः, अस्य रेतः एव

८—(कल्पयति) समर्थयति (मिश्रम्) रजसा मिश्रितम् (क्षमया)
भूम्या—निघ० १ । १ (रेतः) वीर्यम् । उदकम्—निघ० १ । १२ (सञ्जग्मानः)

तत् कल्पयति) वीर्य ही नाभानेदिष्ट [वेद सम्बन्ध में अति समीप पदार्थ] है, इस [यजमान] के वीर्य को ही उस से वह समर्थ करता है । (तत् रेतः मिश्रं भर्वात, क्षमया सञ्जग्मानः रेतः निषिञ्चत् इति, रेतसः समृध्यै एव) फिर वीर्य [रज के साथ] मिला हुआ होता है, [जैसे] पृथिवी के साथ संगति करता हुआ [सूर्य] जल सींचता रहता है [वैसे ही] वीर्य की सफलता के लिये ही [यह कर्म है] । (तं नाराशंसं शंसति) उस नाराशंस [नाभानेदिष्ट ऋषि वाले सूक्त—ऋ० १० । ६२ । १-११] को वह बोलता है । (प्रजाः वै नरः वाक् शंसः, प्रजासु तत् वाचं दधाति) प्रजायें ही नर हैं, और वाणी शंस है [अर्थात् नर + शंस = नाराशंस], प्रजाओं में उस से वाणी [जिह्वा] को वह स्थापित करता है । (तस्मात् इमाः प्रजाः अदन्त्यः जायन्ते) इस लिये यह प्रजायें बिना दांत वाली उत्पन्न होती हैं [क्योंकि जीभ दांत की है] । (तं ह वै एके प्रगाथानां पुरस्तात् शंसन्ति, पुरस्तादायतना वाक् इति वदन्ते) उस [नाराशंस सूक्त] को ही कोई २ ऋषि प्रगाथों [दो दो मन्त्रों के समूहों] के पहिले बोलते हैं, [मुख में] पहिले स्थान वाली वाणी है—ऐसा वे कहते हैं । (एके उपरिष्ठात्, उपरिष्ठादायतना वाक् इति वदन्तः) कोई कोई [प्रगाथों के] पीछे [बोलते हैं], पीछे [मुख के मूर्धा आदि] स्थान वाली वाणी है—ऐसा वे कहते हैं । (मध्ये एव शंसेत्, मध्यायतना वै इयं वाक्) [प्रगाथों के] मध्य में ही [नाराशंस] बोलते, मध्य [शरीर में नाभि हृदय आदि] स्थान वाली ही यह वाणी है । (उपरिष्ठात् नदोयसि इव तं रेतोभूतं शस्त्वा होता मैत्रावरुणाय संप्रयच्छति) उपरान्त अत्यन्त निकट वाले [नाभानेदिष्ट के सूक्त के अन्त के अत्यन्त समीप भाग] में ही उस वीर्य रूप सूक्त को बोल कर होता मैत्रावरुण को [यजमान को] देता है—(एतस्य प्राणान् त्वं कल्पय इति) इस के प्राणों को तू समर्थ कर ॥

(वालखिल्याः शंसन्ति = शंसति) वालखिल्य ऋचाओं को [क० ७] वह [मैत्रावरुण] बोलता है । (प्राणाः वै वालखिल्याः अस्य प्राणान् एव तत् कल्पयति) प्राण ही वालखिल्य स्वीकार योग्य के ग्रहण कराने वाले] हैं, इस [यजमान] के प्राणों को ही उस से वह समर्थ करता है । (ताः विहताः

सङ्गं प्राप्तः (निषिञ्चत्) निषिञ्चति (अदन्त्यः) नञ् + दन्त—ङीप् । दन्त-शून्याः (पुरस्तादायतना) पूर्वभागस्थाना (उपरिष्ठादायतना) उपरिष्ठात् मूर्ध्नि आयतनं स्थानं यस्याः सा (मध्यायतना) शरीरमध्ये नाभ्यादौ स्थानं यस्याः सा (उपरिष्ठात् नदोयसि) उपरिष्ठात् नाभानेदिष्टसूक्तस्यावसानभागस्यात्यन्तस-

शंसति, विहताः वै प्राणाः, प्राणेन अपानः, अपानेन व्यानः) उन्हें आपस में मिली हुई वह बोलता है, आपस में मिले हुये ही प्राण हैं [श्वास मात्र] हैं, प्राण [भीतर जाने वाले श्वास] के साथ अपान [बाहर निकलने वाला श्वास], और अपान के साथ व्यान [समस्त शरीर में फैला वायु मिला हुआ है] । (सः पञ्चः प्रथमे सूक्ते विहरति, अर्धर्चशः द्वितीये, ऋक्शः तृतीये) वह पाद पाद करके पहिले सूक्त में [वालखिल्य ऋचाओं को] बोलता है, आधी आधी ऋचाओं से दूसरे में, ऋचा ऋचा से तीसरे में । (सः यत् प्रथमे सूक्ते विहरति, तत् वाचं च एव मनः च विहरति) वह जो पहिले सूक्त में [वालखिल्य ऋचाओं को] संयुक्त करता है उस से वाणी और मन को ही संयुक्त करता है । (यत् द्वितीये, तत् चक्षुः च एव श्रोत्रं च विहरति) वह जो दूसरे में [संयुक्त करता है] उस से आंख और कान को ही संयुक्त करता है । (यत् तृतीये, तत् प्राणं च एव आत्मानं च विहरति) वह जो तीसरे [सूक्त] में [जोड़ता है], उस से प्राण को और आत्मा को ही वह जोड़ता है । (तत् उपातः कामः, विहरेत्) उस से कामना प्राप्त हुई, वह [वैसा ही] जोड़े । (अन्ये तु वै प्रगाथाः कल्पयन्ते, अतिमर्शम् एव सं विहरेत्) कोई कोई तो प्रगाथाओं को मानते हैं, अतिमर्श [मन्त्रों के अस्यन्त संयोग] को ही वह बोले—(तथा वै प्रगाथाः कल्पयन्ते) इस प्रकार से ही वे प्रगाथाओं को मानते हैं । (यत् एव अतिमर्शम्, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्) जो ही अतिमर्श [मन्त्रों का मिलान] है, वह स्वर्गलोक का रूप है । (यत् उ एव अतिमर्शम्, आत्मा वै वृहती, प्राणाः सतोवृहती) जो ही अतिमर्श [मिलान] है, आत्मा ही वृहती छन्द है और प्राण सतोवृहती छन्द हैं । (सः वृहतीम् अशंसीत्, सः आत्मा, अथ सतोवृहतीम्, ते प्राणाः अथ वृहतीम् अथ सतोवृहतीं तत् आत्मानं प्राणैः परिवृढं एति) [जो] वह वृहती छन्द बोलता है, वह आत्मा है, फिर सतोवृहती छन्द को, वे प्राण हैं, फिर वृहती फिर सतोवृहती को [बोलता है]- उस से आत्मा को प्राणों के साथ बढ़ाता हुआ वह चलता है । (यत् उ एव अतिमर्शः, आत्मा वै वृहती, प्रजाः सतोवृहती) क्योंकि यह ही अतिमर्श

गीर्वाणब्राह्मण भागे (इव) एव (विहताः) परस्परव्यतिषिक्ताः । परस्परसंगताः (पञ्चः) पद्—शः । पादेन पादेन (विहरति) योजयति । शंसति (उपातः) प्राणः (कल्पयन्ते) रचयन्ति (अतिमर्शम्) संयोगम् (परिवृढं) परिवृहन् । परिवृढं (एति) गच्छति । प्रवर्तते (सुकीर्तिम्) सुकीर्तिनामकेन ऋविण्

[मिलान] है, आत्मा ही वृहती है, और प्रजायें सतोवृहती । (सः वृहतीम् अशंसीत् सः आत्मा, अथ सतोवृहती, ते [=नाः]; प्रजाः, अथ वृहतीम् अथ सतोवृहतीं तत् आत्मानं प्रजया परिवृढन् एति) वह जो वृहती को बोलता है वह आत्मा है, फिर जो सतोवृहती को, वे प्रजायें है, फिर जो वृहती को फिर सतोवृहती को [मिला कर बोलता है], उस से आत्मा को प्रजा के साथ बढ़ाता हुआ वह चलता है । (यत् उ एव अतिमर्शम्, आत्मा वै वृहती, पशवः सतोवृहती) क्योंकि यह भी अतिमर्श [अत्यन्त विचार] है—आत्मा ही वृहती है और पशु सतोवृहती है । (सः वृहतीम् अशंसीत् सः आत्मा, अथ सतोवृहतीम्, तेषां पशवः, अथ वृहतीम् अथ सतोवृहतीं, तत् आत्मानं पशुभिः परिवृढन् एति) [जो] वह वृहती छन्द बोलता है वह आत्मा है फिर सतोवृहती को, वे सब पशु हैं, फिर वृहती को फिर सतोवृहती को [बोलता है], उस से आत्मा को पशुओं के साथ बढ़ाता हुआ वह चलता है ॥

(मैत्रावरुणः तस्य प्राणान् कल्पयित्वा ब्राह्मणाच्छंसिने सम्प्रयच्छति—त्वम् एतस्य प्रजनय इति) मैत्रावरुण इस [यजमान] के प्राणों को समर्थ करके [उसे] ब्राह्मणाच्छंसि को देता है—तू इस का उत्तम जन्म कर । (सुकीर्तिं शंसति, देवयोनिः वै सुकीर्तिः, तन् यज्ञियायां देवयान्यां यजमानं प्रजनयति) वह [ब्राह्मणाच्छंसि] सुकीर्ति [सुकीर्ति ऋषि के देखे हुये सूक्त—अप प्राच इन्द्रं विश्वाँ—ऋ० १० । १३१ । १-७] को बोलता है, देवों [दिव्य गुणों] की उत्पत्ति स्थान सुकीर्ति [उत्तम बड़ाई] है, तब पूजनीय दिव्य गुणों की उत्पत्ति स्थान में यजमान को उत्तम जन्म देता है । (वृषाकपिं शंसति, आत्मा वै वृषाकपिः अस्य आत्मानम् एव तत् कल्पयति) वृषाकपि [वृषाकपि के देखे सूक्त—क० ७] को वह बोलता है आत्मा ही वृषाकपि [बलवान् चेष्टा कराने वाला] है, उस के आत्मा को ही तब वह समर्थ करता है । (त न्यूह्य इति [=तं न्यूह्यति]) उस [वृषाकपि सूक्त] को न्यूह्य युक्त करता है [क० १] । (अन्नं वै न्यूह्यः, अन्नाद्यम् एव अस्मै तत् सम्प्रयच्छति, यथा जाताय कुमारार्य स्तनम्) अन्न ही न्यूह्य है, खाने योग्य अन्न ही उस [यजमान] को तब वह देता है, जैसे उत्पन्न हुये बच्चे को स्तन [माता देती है] । (सः पाङ्क्तो भवति, पाङ्क्तः हि अयम् पुरुषः पञ्चधा विहितः, लामानि त्वक् अस्थि मज्जा मस्तिष्कम्)

दृष्टं सूक्तम्—ऋ० १० । १३१ (तं न्यूह्यति) तं वृषाकपिं न्यूह्ययुक्तं करोति (पाङ्क्तः) पङ्क्ति विंशति० । पा० ५ । १ । ५६ । पञ्चन्—तिप्रत्ययः, टिलोपः,

वह न्यूह पाङ्क्त [पङ्क्ति छन्द पांच पाद वाला] है, पाङ्क्त [पांच परिमाण वाला] ही यह पुरुष है [जो] पांच प्रकार से विधान किया गया है—लोम, त्वचा, हड्डी, मज्जा और मस्तिष्क [भेजा] ॥

(यावान् एव पुरुषः, सः तावन्तं यजमानं संस्कृत्य अच्छावाकाय सम्प्र-
यच्छति त्वम् एतस्य प्रतिष्ठां कल्पय इति) जितना ही पुरुष है, वह [ब्राह्मणा-
च्छंसी] उतना यजमान को शुद्ध करके अच्छावाक को देता है—तू इस [यज-
मान] की प्रतिष्ठा कर । (एवयामरुत शंसति) वह [अच्छावाक] एवयामरुत
सूक्त [क० ७] बोलता है । (प्रतिष्ठा वै एवयामरुत्, प्रतिष्ठायै एव एनम्
अन्ततः प्रतिष्ठापयति) प्रतिष्ठा [गौरव] ही यावयामरुत् [पाने योग्य का
प्राप्त कराने वाला शत्रु नाशक] है, प्रतिष्ठा के लिये ही इस [यजमान] को
अन्त में वह स्थापित करता है । (याज्या यजति) वह याज्या [ऋचा] से
यज्ञ करता है । (अन्नं वै याज्या, अन्नाद्यम् एव अस्मै तत् प्रयच्छति) अन्न ही
याज्या है, खाने योग्य अन्न ही इस [यजमान] को वह उस से देता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य वेद मन्त्रों के तत्त्व को समझकर आत्मपुष्टि करते
हैं, वे ही अपनी और दूसरों की उन्नति करते हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को मिलाओ—पै० ब्रा० ६ । २७, २८, २९, ३० ॥

टिप्पणी २—शुद्धि इस प्रकार है (त्वं...कल्पयति) = (त्वं ..कल्पयेति)
(प्रजनयेति) = (प्रजनयति), और (त न्यूँ ख इति) = (तं न्यूह्यति)—पैत-
रेय ब्राह्मण ॥

कण्डिका ६ ॥

तानि वा एतानि सहचरणानीत्याचक्षते, यन्नाभानेदिष्टो बालखिल्यः,
वृषाकपिरेवयामरुतानि सह वा शंसेत् सह वा न शंसेत् । यदेषामन्तरीयात्
तद्यजमातस्यान्तरीयात् । यदि नाभानेदिष्टं रेतोस्यान्तरीयात्, यदि बालखिल्याः
प्राणानस्यान्तरीयात्, यदि वृषाकपिमात्मानमस्यान्तरीयात्, यदेवयामरुतं प्रति-
ष्ठा वा एवयामरुत्, प्रतिष्ठाया एवैनन्तथँ श्रावयेत्, दैव्याश्च मनुष्याश्च तानि
सह वा शंसेत्, सह वा न शंसेत् । स ह बुडिल आश्वितरा स्युर्विश्वजितो होता
सदीक्षाञ्चक्रे, एतेषां वा एषां शिल्पानां विश्वजिति सांवत्सरिके द्वे होतुरुक्थे

पङ्क्ति—अण् । पञ्चपरिमाणयुक्तः । पञ्चधाविहितः (संस्कृत्य) संशोधय ।
अन्यद् गतम्—क० ७ ॥

माध्यन्दिनमभिप्रच्यवेते । हन्ताहमिच्छुमेवयामरुतं शस्ययानीति, तद्ध तथा शस्य-
याञ्चके । तद्ध तथा शस्यमाने गोश्ल आजगाम । स होवाच, होतः कथा ते शस्त्रं
विचक्र स्रवत इति, किं ह्यभूयदित्येवयामरुदयमुत्तरतः शस्यत इति । स होवाच,
इन्द्रो वै माध्यन्दिनः, कथेन्द्रं माध्यन्दिनान्यनीकसीति, नेन्द्रं माध्यन्दिनान्यनीषा-
मिति । स होवाच, छन्दस्त्वदभु माध्यन्दिनं, सातिजागतं वाति, जागतं वा स
उ मारुतो मेवं संसृष्टेति [मैवं शंसिष्टेति] । स होवाच, अरमाच्छावाकेत्यथा-
स्मिन्ननुशासनमीषे । स होवाच, इन्द्रमेष विष्णुं न्यङ्गानि शंसति, अथ त्वं हेतु-
रुपरिष्ठाद्रौद्रिया धाय्या, या पुरुस्तान्मारुतस्य सूक्तस्याप्यस्यधा इति । तथेति ।
तदप्येतर्हि तथैव शस्यते, यथा षष्ठे पृष्ठ्याहनि । कल्पत एव यज्ञः, कल्पते यज्ञ-
मानस्य प्रजापतिः, कथमत्राशस्त एव नाभानेदिष्टो भवति । अथ बालखिल्याः
शंसति, रेतो वा अग्रेऽथ प्राणा एवं ब्राह्मणाच्छंस्यशस्त एव नाभानेदिष्टो भवति ।
अथ वृषाकपिं शंसति, रेतो वा अग्रेऽथात्मा, कथमत्र यजमानस्य प्रजापतिः, कथं
प्राणा अवरुद्धा भवन्तीति । यजमानं वा एतेन सर्वेण यज्ञक्रतुना संस्कुर्वन्ति, स
यथा गर्भो योन्यामन्तरेव सम्भवञ्छेते, न ह वै सकृदेवा अग्रे सर्वं सम्भवति,
एकैकं वाङ्गं सम्भवति । सर्वाणि चेतसमानेऽहनि क्रियेरन्, कल्पयत एव यज्ञः,
कल्पते यजमानस्य प्रजापतिः । अथ हैव एवयामरुतं होता शंसेत्, तस्यास्य
प्रतिष्ठा, तस्या एवैनमन्ततः प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठापयति ॥ ६ ॥

**कण्डिका ६ ॥ नाभानेदिष्ट, बालखिल्य, वृषाकपि और एवया-
मरुत् सहचरणों का वर्णन तथा बुडिल और गोश्ल
के प्रश्नोत्तर ॥**

(तानि वै एतानि सहचरणानि इति आचक्षते, यत् नाभानेदिष्टः, बाल-
खिल्यः, वृषाकपिः एवयामरुत्, तानि सह वा शंसेत्, सह वा न शंसेत्) वे
ही यह सहचरण [एक दिन में बोले गये सूक्त] हैं, ऐसा वे [ब्रह्मवादी]
कहते हैं, जो नाभानेदिष्ट, बालखिल्य, वृषाकपि, और एवयामरुत् [क० ७]
हैं, उन को अथवा वह एक साथ ही बोले, अथवा एक साथ न बोले । (यत्
एषाम् अन्तरीयात्, तत् यजमानस्य अन्तरीयात्) जो इन में से कुछ वह छोड़

६—(सहचरणानि) एकस्मिन् दिने सह शंसनीयानि शिल्पसूक्तानि
(अन्तरीयात्) विच्छेदे भेदे भवेत् । विनाशयेत् (श्रावयेत्) श्रु गतौ । गम-
येत् । च्यावयेत् (दैव्याः) देवसंबन्धिन्याः (मनुष्याः) मानुष्याः । मनुष्यसम्बन्धि-

है, उस से यजमान का नाश करे । (यदि नाभानेदिष्ठम्, अस्य रेतः अन्तरीयात्) यदि नाभानेदिष्ठ को [छोड़े], इस के वीर्य को वह नष्ट करे, (यदि बालखिल्याः, अस्य प्राणान् अन्तरीयात्) यदि बालखिल्याओं को [वह छोड़े!] इस के प्राणों को वह नष्ट करे । (यदि वृषाकपिम्, अस्य आत्मानम् अन्तरीयात्) यदि वृषाकपि को [वह छोड़े], वह इस के आत्मा को नष्ट करे । (यत् एवयामरुतम्, प्रतिष्ठा वै एवयामरुत्, दैव्याः च मनुष्याः [मानुष्याः] च प्रतिष्ठायाः एव एनं तं श्रावयेत्) यदि एवयामरुत् को [वह छोड़े], प्रतिष्ठा ही एवयामरुत् है, दैवी [दिव्य गुण वाली] और मानुषी [मननशीलों वाली] प्रतिष्ठा से ही इस [यजमान] को वह निकाल देवे । (तानि सह वा शसेत्, सह वा न शसेत्) उन को अथवा वह एक साथ ही बोले, अथवा एक साथ न बोले ॥

(सः ह बुडिलः, आश्वितराः स्युः, विश्वजितः होता सत् ईक्षाञ्चक्रे एतेषां वै एषां शिल्पानां सांवत्सरिके विश्वजिति हेतुः द्वे उक्थे माध्यन्दिनम् अभि प्रच्यवेते) वह [प्रसिद्ध] बुडिल [त्यागी ऋषि] यह विचार कर, कि [यह लोग] बलवान् पुरुषों के तराने वाले हों, विश्वजित् यज्ञ का होता होकर विचारने लगा—इन शिल्पों [नाभानेदिष्ठ आदि] के संवत्सर रहने वाले विश्वजित् यज्ञ में होता के दो उक्थ माध्यन्दिन सवन पर होते हैं । (हन्त, अहम् इच्छम् एवयामरुतं शस्ययानि इति, तत् ह तथा शस्ययाञ्चके) हर्ष है—मैंने चाहा है—मैं एवयामरुत् सूक्त बोला—उस को उस ने उसी प्रकार उच्चारण कराया । (तत् ह तथा शस्यमाने गोश्लः आजगाम) तब ही वैसा बोले जाने पर गोश्ल [वेदवाणी का सेवक, ऋषि] आ गया । (सः ह उवाच, होतः कथा ते शस्त्रं विचक्रं स्रवते इति) वह गोश्ल बोला—हे होता ! कैसे तेरा स्तोत्र बिना पहिये चलता

त्याः (बुडिलः) बुड त्यागे संवरणे च—इलच्, कित् । त्यागी । ऋषिविशेषः (आश्वितराः) अश्व—इजू स्वार्थे + तृ तारणे—अच् आश्वीनाम् अश्वानां बलवत्पुरुषाणां तारकाः (सत्) सन् (ईक्षाञ्चक्रे) विचारितवान् (अभि) अभिलक्ष्य (प्रच्यवेते) प्रवर्तते (हन्त) हर्षोऽस्ति (इच्छम्) लुङि आर्षरूपम् । ऐच्छम् (शस्ययानि) शंसयानि (शस्ययाञ्चके) शंसयाञ्चकं । शंसनं कारितवान् (गोश्लः) गो + श्रिञ् सेवायां—डप्रत्ययः, रस्य लः । वेदवाणीसेवकः । ऋषिविशेषः (कथा) कथम् (विचक्रम्) चक्ररहितम् (स्रवते) गच्छति प्रवर्तते (अभूयत) अभूत् (उत्तरतः) उत्तरस्यां दिशि (अनीकसि) एणञ्

है । (किं हि अभूत् इति) [बुडिल बोला] क्या ही [दोष] हुआ है । (एव-
यामरुत् अयम् उत्तरतः शस्यते [शंसति] इति) । [गोश्ल बोला] एवयामरुत्
सूक्त को यह [अच्छावाक] उत्तर ओर से बोलता है । (सः ह उवाच, इन्द्रः
[ऐन्द्रः] वै माध्यन्दिनः, कथा इन्द्रं माध्यन्दिनानि अनीकसि इति) वही
[गोश्ल फिर] बोला—इन्द्र देवता वाला ही माध्यन्दिन सवन है, कैसे इन्द्र
को माध्यन्दिन सूक्तों से तू ने निकाला है । (इन्द्रं माध्यन्दिनानि न अनीषाम्
इति) [बुडिल बोला] इन्द्र को माध्यन्दिन सूक्तों से मैं ने नहीं निकाला । (सः
उवाच, इदम् उ छन्दः तु माध्यन्दिनं साति जागतं वा अतिजागतं वा) वह
[गोश्ल] बोला—यह छन्द तो माध्यन्दिन के अवसान में जगती छन्द वा अति-
जगती छन्द [तो ठीक है, परन्तु] (सः उ मारुतः, एवं मा संसृष्ट [मा शंसि-
ष्ट] इति) वह [स्तोम] मरुत देवता वाला है, इस प्रकार वह [उसे] न
बोले । (सः ह उवाच अरम् अच्छावाक इति, अथ अस्मिन् अनुशासनम् ईषे)
वह [बुडिल] बोला—हे अच्छावाक ! बस [चुप रह], क्योंकि इस में
[गोश्ल का] अनुशासन मैं मानता हूँ । (स ह उवाच, एषः इन्द्रं विष्णुं न्यङ्गानि
शंसति = शंसतु) वह [गोश्ल] बोला—यह अच्छावाक इन्द्र को विष्णु के
चिन्हों सहित मन्त्रों [ऋ० ६ । २० । १-१३ जिस के दूसरे मन्त्र में विष्णु शब्द
है और जो इन्द्र देवता वाला है] बोले । (अथ त्वम् हांतुः [हैतुः] उपरिष्ठात्
या रौद्रीया धाय्या, अस्य मारुतस्य सूक्तस्य पुरस्तात् अपि धाः इति) और
तू हे होता ! अन्त में जो रुद्र देवता वाली धाय्या है, [उस को] इस मारुत
सूक्त के पहिले ही धारण कर । (तथा इति) । [बुडिल बोला] वैसा ही हो ।
(तत् अपि एतर्हि तथा एव शस्यते, यथा षष्ठे पृष्ठ्याहनि) वह अब भी वैसा
ही बोला जाता है, जैसे पृष्ठ्याह यज्ञ के छठे दिन ॥

(यज्ञः एव कल्पते, यजमानस्य प्रजापतिः कल्पते, कथम् अत्र नाभाने-
दिष्टः अशस्तः एव भवति) यज्ञ ही समर्थ होता है और यजमान का प्रजा-
पालक व्यवहार समर्थ होता है, कैसे यहां नाभानेदिष्ट स्तोम बिना बोला हुआ

प्रापणे—लुङ्, आर्षम् । अनैषीः । प्रेरितवान् अस्मि (अनीषाम्) लुङ्, आर्षम् ।
अनैषम् । प्रेरितवान् अस्मि (साति) ऊतियूतिजूतिसाति० । पा० ३ । ३ । ६७ ।
षो अन्तकर्मणि यद्वा षै ल्ये—क्तिन्, विभक्तेर्लुक् । सातौ । अवसाने (मा
संसृष्ट) मा शंसिष्ट । शंसनं मा करोतु (अरम्) अलम् । पर्याप्तम् (ईषे) ईष
गतौ । गच्छामि । प्राप्नोमि (विष्णुम्) विष्णोः (न्यङ्गानि) लिङ्गानि (हेतुः)

ही रहता है । (अथ बालखिल्याः शंसति, रेतः वै अग्रे अथ प्राणाः, एवं ब्राह्मणा-
च्छंसी [ब्राह्मणाच्छंसिना] नाभानेदिष्ठः अशस्तः एव भवति) फिर वह बाल-
खिल्य ऋचायें बोलता है, वीर्य ही पहिले है फिर प्राण हैं, इस प्रकार ब्राह्मणा-
च्छंसी करके नाभानेदिष्ठ स्तोम बिना बोला हुआ ही होता है । (अथ वृषा-
कपिं शंसति, रेतः वै अग्रे अथ आत्मा, कथम् अत्र यजमानस्य प्रजापतिः कथं
प्राणाः अवरुद्धाः भवन्ति इति) फिर वृषाकपि [वृषाकपि वाले स्तोम] को
वह बोलता है, वीर्य ही पहिले फिर आत्मा होता है, कैसे यहां यजमान का प्रजा-
पालक व्यवहार [समर्थ होता है], और कैसे प्राण रक्षित होते हैं । (यजमानं
वै एतेन सर्वेण यज्ञक्रतुना संस्कुर्वन्ति, यथा सः गर्भः योन्याम् अन्तः एव सम्भ-
वन् शेते) [उत्तर] यजमान को ही इस सब यज्ञ कर्म से वे संस्कार युक्त करते
हैं, जैसे गर्भ गर्भाशय के भीतर ही उत्पन्न होता हुआ रहता है । (सर्वं
सकृत् एव अग्रे न ह वै सम्भवति, एकैकं वा अङ्गं सम्भवति) सब एक बार
ही पहिले नहीं समर्थ होता, एक एक ही अङ्ग समर्थ होता है । (सर्वाणि चेत्
समाने अहनि क्रियेरन्, यज्ञः एव कल्पयते, यजमानस्य प्रजापतिः कल्पते) जो
सब [शिल्प स्तोत्र] एक दिन में किये जावें, यज्ञ अवश्य समर्थ होता है, और
यजमान का प्रजापालक व्यवहार समर्थ होता है । (अथ ह एव एवयामरुतं
होता शंसेत्, तस्य अस्य प्रतिष्ठा, तस्यै एव एनम् अन्ततः प्रतिष्ठापयति प्रति-
ष्ठापयति) फिर ही एवयामरुत् स्तोम को होता बोले, उस [यजमान] की प्रति-
ष्ठा है, उस [प्रतिष्ठा] के लिये ही इस [एवयामरुत स्तोम] को अन्त में वह
स्थापित करता है, वह स्थापित करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य यज्ञ के अङ्ग अङ्ग के विचार के साथ यज्ञ सिद्धि करके
प्रतिष्ठा पावे ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका के लिये देखो पीछे क० ७ । ८ और ऐ० ब्रा०
५ । १५ और ६ । ३०, ३१ ॥

टिप्पणी २—संकेतित मन्त्रों में से दो मन्त्र यहां लिखते हैं, शेष वेद में
देखो—द्यौर्नय इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थौ रयिः शर्वसा पृत्सु जनान् । तं नः सहस्र-
भरमुर्वरासां दद्धि सूनो सहस्रो वृत्रतुरम । १ । दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सूत्रा

हे होतः (धाः) अधाः । धेहि (प्रजापतिः) प्रजातिः । जन्म (अवरुद्धाः)
रक्षिताः (संस्कुर्वन्ति) संस्कारयुक्तं कुर्वन्ति (योन्याम्) गर्भाशये (सम्भ-
वन्) उत्पन्नः सन् (शेते) वर्तते (कल्पयते) कल्पते । समर्थते ॥

सूर्यं देवेभिर्धायि विश्वम् । अहिं यद् वृत्रमपो वत्रिवांसं हृन्नीषिन् विष्णुना
सचानः । २ । ऋ० ६ । २० । १, २ ॥

१—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (यः रयिः) जो धन
(द्यौः न भूम) सूर्य के समान सत्तामात्र को, (शवसा) बल से (पृत्सु)
सङ्ग्रामों में (अर्यः = अरेः) बैरी के (जनान्) मनुष्यों को (अभि तस्थौ) वश
में करता है । (सहसः सुनो) हे बल से प्रेरणा करने वाले [शूर !] (नः)
हमें (तम्) उस (सहस्रभरम्) सहस्रों पदार्थ धारण करने वाले, (उर्वरासाम्)
उपजाऊ भूमि के सेवने वाले (वृत्रतुरम्) शत्रुओं के नाश करने वाले [धन]
को (दद्धि) दे ॥ १ ॥

२—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (दिवः = दवे न)
सूर्य समान (तुभ्यम्) तेरे लिये (सत्रा) सत्य से (विश्वम्) सब (असुर्यम्)
असुरों का ऐश्वर्य (देवेभिः) विद्वानों करके (अनु धायि) निरन्तर धारण किया
गया है । (ऋजाषिन्) हे सरल धर्म वाले ! (यत्) जब कि तू ने (वृत्रम्)
बैरी को, (विष्णुना) विजुली से (सचानः) मिले हुये [सूर्य के समान]
(अपः) जलों को (वत्रिवांसम्) बांटने वाले (अहिम्) मेघ को (हन्)
मारा है ॥ २ ॥

कण्डिका १० ॥

देवक्षेत्रं वै षष्ठमहः । देवक्षेत्रं वा एत आगच्छन्ति, ये षष्ठमहरागच्छन्ति ।
न वै देवा अन्याऽन्यस्य गृहे वसन्ति, नर्त्तुर्ऋतोर्गृहे वसतीत्याहुः, तद्यथायथ-
मृत्विज ऋतुयाजान् यजन्त्यसम्प्रदायम्, तद्यद्वतून् कल्पयति, यथायथं जनिता ।
तदाहुः, नर्त्तप्रैषी प्रेष्येयुर्नर्त्तुप्रैषी वषट् कुर्युः, वाग्वा ऋतुप्रेषा, आप्यायते वै
वाक् षष्ठेऽहनीति । यद्वतुप्रेषी प्रेष्येयुः, यद्वतुप्रेषी वषट् कुर्युः, वाचमेव तदासां
शान्तामृक्वतीं वहरावणीमृच्छेयुः, अच्युताद्यज्ञस्य च्यवेरन्, यज्ञान् प्राणान्
प्रजायाः पशुभ्यो जिह्वायेयुः, तस्माद्गमेभ्य एव प्रेषितव्यमृग्मेभ्योऽधि वषट्कृत्यम् ।
तन्न वाचमासां शान्तामृक्वतीं वहरावणीमृच्छति, नाच्युताद्यज्ञस्य च्यवेरन्,
यज्ञान् प्राणान् प्रजायाः, पशुभ्यो जिह्वायन्ति । पारुच्छेपीरुपदधति, द्वयोः सव-
नयोः पुरस्तात् प्रस्थितयाज्यानाम् । रोहितं वै नामैतच्छन्दः, यत् पारुच्छेपम् ।
एतेन ह वा इन्द्रः सप्त स्वर्गाल्लोकानारोहत् । आरोहन्ति सप्त स्वर्गाल्लोकान्, य
एवं वेद । तदाहुः, यत् पञ्चपद एव पञ्चमस्याहोरूपं, षट्पदात् षष्ठस्य, अथ
कस्मात् सप्तपदात् षष्ठेऽहनि शस्यन्त इति । षड्भिरेव पदैः षष्ठमहरवाप्नुवन्ति,

विच्छिद्ये वै तदहः, यत् सप्तमम् । तदेव सप्तमेन पदेनाभ्यारुह्य वसन्ति, सन्त-
त्यैस्त्रयहैरव्यवच्छिन्नैर्यन्ति, य एवं विद्वांस उपयन्ति ॥ १० ॥

कण्डिका १० ॥ षडह यज्ञ में पारुच्छेपी ऋचाओं का प्रयोग ॥

(देवक्षेत्रं वै षष्ठम् अहः) देव क्षेत्र [विद्वानों का घर] ही छुटा दिन है । (देवक्षेत्रं वै एते आगच्छन्ति, ये षष्ठम् अहः आगच्छन्ति) विद्वानों के घर ही यह [यजमान लोग] आते हैं, जो छुटे दिन आते हैं । (न वे देवाः अन्योन्य-स्य गृहे वसन्ति, न ऋतुः ऋतोः गृहे वसति इति आहुः) न तो देवता [सूर्य वायु आदि] एक दूसरे के घर में बसते हैं, न ऋतु [वसन्त आदि] ऋतु के घर में बसता है—ऐसा लोग कहते हैं । (तत् यथायथं ऋत्विजः असम्प्रदायम् ऋतुयाजान् यजन्ति, यत् तत् जनिता यथायथम् ऋतून् कल्पयति) फिर यथा-योग्य स्थान पर बैठे ऋत्विज लोग दूसरे को स्थान न देकर ऋतुओं के यज्ञों को करते हैं, जिस से तब जनिता [ऋतुओं का ठीक करने वाला ऋत्विज] यथा-योग्य स्थान पर बैठा हुआ ऋतुओं को समर्थ करता है । (तत् आहुः ऋतुप्रैषी न प्रेष्येयुः न ऋतुप्रैषी वषट्कुर्युः) फिर कहते हैं—ऋतुप्रैषी [ऋतु यज्ञ के मन्त्र बतलाने वाला] प्रेष्यमन्त्र [होता यज्ञदिन्द्रम्—इत्यादि यजु० २१ । ४५] को न बोलें और न ऋतुप्रैषी वषट्कार [समाप्ति कर्म] करे । (वाक् वै ऋतुप्रेषा, वाक् वै षष्ठे अहनि आप्यायते इति) वाणी ही ऋतुप्रेष मन्त्र है, वाणी ही छुटे दिन में समाप्त हो जाती है । (यत् ऋतुप्रैषी प्रेष्येयुः, यत् ऋतुप्रैषी वषट्कुर्युः, तत् आतां शान्तां ऋक्वतीं वहरावणीं वाचम् एव ऋच्छेयुः यज्ञस्य अच्युतात् च्यवेरन्) यदि ऋतुप्रैषी प्रेष मन्त्रों को बोलें, और जो ऋतुप्रैषी वषट्कार करे, वह तब समाप्त हुई, थकी हुई शून्य चाला [निरर्थक] और बाँझ से चिल्लाती हुई वाणी को हाँ प्राप्त करें और यज्ञ के न गिरते हुये प्रयोग से वे गिर पड़ें । (यज्ञान् प्राणान् प्रजायाः पशुभ्यः जिह्यायेयुः) यज्ञों और प्राणों को प्रजा से और पशुओं से वे टैढ़ा [प्रतिकूल] करें । (तस्मात् ऋग्मेभ्यः एव प्रेषितव्यम्, ऋग्मेभ्यः अधि वषट्कृत्यम्) इस लिये ऋचा [तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ठ—ऋ० २ ।

१०—(देवक्षेत्रम्) क्षि निवासे—पून् । देवानां विदुषां गृहम् (अन्यो-
न्यस्य) परस्परस्य (यथायथम्) यथायोग्यम् । स्वस्वस्थानग्रहणेन (असंप्र-
दायम्) नञ् + सम् + प्र + ददातेः—वञ्, युक् चं, ततो णमुल् । स्वस्थानम्
अन्यस्मै अदत्त्वा (ऋतुप्रैषी) ऋतुप्रेष—इति । ऋतुप्रैषाणाम् ऋतुयाजाथं
मन्त्राणां प्रवर्तकः (प्रेष्येयुः) प्रेष्येत । प्रवर्तेत (ऋतुप्रेषा) ऋतुप्रवर्तिका

३६ । १] को पहिले बोलकर ही प्रैष मन्त्र बोले और ऋचा को ही पहिले बोलकर वषट्कार बोले । (तत् आतां शान्ताम् ऋक्तवतीम् वहरावणीं वाचं न ऋच्छन्ति, न यज्ञस्य अच्युतात् च्यवेरन्, [न] यज्ञान् प्राणान् प्रजायाः पशुभ्यः जिह्मायन्ति) तब वे समाप्त हुई, थकी हुई, शून्य वाली [निरर्थक] बोझ से चिह्नाती हुई वाणी को नहीं प्राप्त करते, और न यज्ञ के न गिरे हुये प्रयोग से गिरते और [न] यज्ञों और प्राणों को प्रजा से और पशुओं से टैढा करते हैं ॥

(पारुच्छेपीः द्वयोः सवनयोः प्रस्थितयाज्यानां पुरस्तात् उपदधति) पारुच्छेपी [पारुच्छेप की देखी ऋचाओं—अग्निं होतारं मन्ये—इत्यादि, ऋ० १ । सूक्त १२७—१३६] ऋचाओं को दोनों [पहिले] सवनों में प्रयोग के योग्य याज्याओं के पहिले वे धरते हैं । (रोहितं वै नाम पतत् छन्दः यत् पारुच्छेपम्) रोहित [चढ़ने योग्य] ही नाम यह छन्द है जो पारुच्छेप [पारुच्छेप ऋषि के सूक्तों वाला] है । (एतेन ह वै इन्द्रः सप्त स्वर्गान् लोकान् आ-अरोहत्) इस [रोहित छन्द] से ही इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान् जीव] सात स्वर्ग लोकों [अर्थात् भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः सात व्याहृतियों से जिन का सम्बन्ध शिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पाद, और शिर से हैं] को चढ़ा । (सप्त स्वर्गान् लोकान् आरोहन्ति [आरोहति], यः एवं वेद) सात स्वर्ग लोकों को वह चढ़ता है जो ऐसा विद्वान् है । (तत् आहुः यत् पञ्चपदः एव पञ्चमस्य अहः रूपम्, षट्पदात् षष्ठस्य, अथ कस्मात् सप्तपदात् षष्ठे अहनि शस्यन्ते इति) फिर वे कहते हैं—पांच पद वाली ऋचायें ही पांचव दिन का रूप हैं, छह पद वाले मन्त्र से छठे का [रूप है], फिर किस लिये सात पाद वाले मन्त्र से छठे दिन में वे स्तुति करते हैं । (षड्भिः एव पदैः षष्ठम् अहः अवाप्नुवन्ति, विच्छिधे वै तत् अहः यत् सप्तमम्) छह ही पादों से छठे दिन को वे प्राप्त करते हैं, काट

(आप्यायते) आ समाप्तौ + प्येङ् वृद्धौ—लट् । समाप्यते (आप्ताम्) समाप्ताम् (शान्ताम्) शान्ताम् । खेदयुक्ताम् (ऋक्तवतीम्) रिचिर् विरेचने पृथग्भावे च—क्त, मतुप् आर्षरूपम् । ऋक्तां शल्याम् (वहरावणीम्) वह + रवण—स्वार्थे—अण्, डीप्, । वहेन गुरुभारेण रवणं रादन यस्याः ताम् (ऋच्छेयुः) प्राप्नुयुः (अच्युतात्) अनष्टात् प्रयोगात् (च्यवेरन्) पतनं प्राप्नुयुः (जिह्मायेयुः) जहातेः सन्वदाकारलोपश्च । उ० १ । १४१ । आहाक् त्यागे—मन्, जिह्म इत्यस्मात् नामधातुः । कुटिलान् विरुद्धान् कुर्युः (ऋग्मेभ्यः) ऋच् + माङ् माने -- क । ऋक्शिरस्केभ्यः प्रैषमन्त्रेभ्यः ऊर्ध्वम् (जिह्मायन्ति) कुटिलान् कुर्वन्त (पारुच्छेपीः)

छन्दांसि षष्ठेऽहनि शस्तानि भवन्ति, सरसैः छन्दोभिरिष्टं भवति, सरसैः छन्दोभिर्यज्ञं तनुते, य एव वेद ॥ ११ ॥

कण्डिका ११ ॥ देवासुर सङ्ग्राम की आख्यायिका, यज्ञों में छठे दिन के कर्म ॥

(देवासुराः वै एषु लोकेषु समयतन्त) देवता और असुर इन लोकों में युद्ध करने लगे । (ते देवाः षष्ठेन अहा एभ्यः लोकेभ्यः असुरान् पराणुदन्त) उन देवताओं ने छठे दिन [के यज्ञ] द्वारा इन लोकों से असुरों को निकाल दिया । (तेषां यानि अन्तर्हस्तानि वसूनि आसन्, तान् [=तानि,] आदायन् समुद्रं प्रारूप्यन्त) उन [देवताओं] के जो हाथों में धन थे, उन्हें वे [असुर] ले गये और समुद्र में फेंक दिया । (देवाः वै तेषाम् अनुहाय एतेन एव छन्दसा अन्तर्हस्तानि वसूनि आददत्) देवताओं ने उन का पीछा करके इस ही [पारुच्छेप] छन्द से [उन के] हाथ में के धनों को ले लिया । (तत् एव एतत् पदं, पुनःपदम्) वह ही यह पाद है, [जो] पुनःपद [छह पाद के बोले जाने के पीछे सातवां पाद] है । (सः वा अंकुशः आकुञ्चनाय, द्विषतः वसु आ दत्ते, एनम् एभ्यः सर्वेभ्यः लोकेभ्यः एव निर्नुदते, यः एवं वेद) वह ही समेटने के लिये अंकुश है, वह बैरी के धन को ले लेता है, और इस को इन सब लोकों से ही निकाल देता है, जो ऐसा विद्वान् है ॥

(द्यौः वै देवताः [देवता] षष्ठम् अहर्वहति, त्रयस्त्रिंशः स्तोमः, रैवतं साम अतिछन्दः छन्दः, अनेन यथादैवतम्, यथास्तोमम्, यथाम्नाम यथाछन्दः समृधाति, बः एवं वेद) प्रकाशमान् सूर्य देवता [यज्ञ के] छठे दिन को ले चलता है, त्रयस्त्रिंश स्तोम, रैवत साम, और अति छन्द छन्द होता है । इस [विधान] से देवता के अनुसार, स्तोम के अनुसार, सामगान के अनुसार

११—(समयतन्त) सग्रामं कृतवन्तः (पराणुदन्त) परा—अनुदन्त । निःसारितवन्तः (अन्तर्हस्तानि) हस्तगतानि । अधिकारप्राप्तानि (आदायन्) आ + अदायन् । गृहीतवन्तः (प्रारूप्यन्त) प्र—अरूप्यन्त । रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च—णिच् । प्रक्षिप्तवन्तः (अनुहाय) अनु + ओहाङ् गतौ—ल्यप् । पृष्ठतो गत्वा (आददत्) आ—अददत् । गृहीतवन्तः (तत्) तत्र । पारुच्छेपीषु ऋक्षु (पुनःपदम्) षट्सु पादेषु समाप्तेषु पुनः पश्चात् उच्चार्यमाणः सप्तमः पादः (अङ्कुशः) वक्राग्रलौहास्त्र भेदः (आकुञ्चनाय) आकर्षणाय (आ दत्ते) गृह्णाति

और छन्द के अनुसार वह समृद्ध होता है, जो ऐसा विद्वान् है । (यत् वै समानोदकं, तत् षष्ठस्य अहः रूपम्) जो हि समान अन्त कर्म है, वह छुटे दिन का रूप है । (यदि एव प्रथमम् अहः, तत् उत्तमम् अहः, तत् एव एतत् पदम्) जो ही पहिला दिन है, वह ही सब से पिछला दिन है [पहिले दिन के समान पिछले दिन काम होता है], वह ही वह पाद है । (पुनः यत् षष्ठं, यत् अश्ववत्, यत् रथवत्, यत् पुनरावृत्तम्, यत् पुनर्निवृत्तं, यत् अन्तरूपं, यत् असौ अभ्युदितः लोकः यत् नाभानेदिष्ठं यत् पारुच्छेपं यत् नाराशंसं, यत् द्वैपदा, यत् सप्तपदा, यत् कृतं, यत् रैवतं, तत् तृतीयस्य अहः रूपम्) फिर जो छुटा [दिन] है, जो अश्व शब्द वाला, जो रथ शब्द वाला, जो आवृत्ति वाला और जो पुनर्निवृत्ति वाला, और जो अन्तरूप वाला छन्द है, जो वह [सूर्य] उदय होता हुआ लोक है, जो नाभानेदिष्ठ, जो पारुच्छेप और जो नाराशंस सूक्त है, जो दो पादवाली ऋचा और सात पाद वाली ऋचा है, जो कृत [भूत काल] है और जो रैवत साम है, वह तीसरे दिन का रूप [चिन्ह] है । (एतानि वै षष्ठस्य अहः रूपाणि, षष्ठेन अह्ना अक्तानां छन्दसाम् उ रसः निनेजत्) यह ही छुटे दिन के रूप हैं, छुटे दिन के साथ मिले हुये छन्दों का रस पुष्ट किया जावे । (तं [तस्मै] प्रजापतिः उदानः ए [एव]) उस [यजमान] के लिये उदान वायु ही प्रजापालक है । (नाराशंस्या गायत्र्या रैभ्या त्रिष्टुभा पारिक्षित्या जगत्या गाथया अनुष्टुभा) नाराशंसी, गायत्री, रैभी, त्रिष्टुप्, पारिक्षिती [पारिक्षित् शब्द वाली], जगती, गाथा, और अनुष्टुप् ऋचा के साथ [यह काम होता है] । (एतानि वै छन्दांसि षष्ठे अहनि अयातयामानि शस्तानि भवन्ति, तत् छन्दसाम् एव सरसतयै [सरसतायै], अयातयामतायै) यह ही छन्द छुटे दिन में उचित समय

(द्यौः) प्रकाशलोकः । सूर्यः (वहति) निर्वहति । प्रवर्तयति (अतिछन्दः) गायत्र्यादि सप्तछन्दोभ्योः अधिकाक्षरयुक्तं छन्दः (समानोदकम्) तुल्यसमाप्तिकम् (पुनरावृत्तम्) पुनरावृत्तियुक्तम् (पुनर्निवृत्तम्) पुनर्निष्पादितं । पुनः सिद्धम् (पारुच्छेपम्) पारुच्छेपेन दृष्टम् (द्वैपदा) द्विपादोपेता ऋक् (सप्तपदा) सप्तपादोपेता । यथा पारुच्छेपी (कृतम्) भूतार्थवाचि प्रत्यययुक्तं धातुमात्रम् (अक्तानाम्) सङ्गतानाम् (निनेजत्) णिजिर् शौचपोषणयोः । शोधयेत् । पोषयेत् (पारिक्षित्या) पारिक्षित्—अण्, डीप् । परीक्षिच्छन्देनोपेतया (अयातयामानि) उचितसमययोग्यानि (इष्टम्) अभिलषितम् । प्रियम् (भवति) प्राप्नोति (तनुते) विस्तारयति ॥

के अनुकूल बोले गये होते हैं, यह काम छन्दों के ही रसीलेपन और उचित समय के अनुकूलपन के लिये है । (अस्य ह सरसानि छन्दांसि षष्ठे अहनि शस्तानि भवन्ति, सरसैः छन्दोभिः इष्टं भवति, सरसैः छन्दोभिः यज्ञं तनु ते यः एवं वेद) उस के ही रसीले छन्द छठे दिन में बोले गये होते हैं, रसीले छन्दों से वह इष्ट [प्रिय पदार्थ] पाता है, और रसीले छन्दों से वह यज्ञ फैलाता है, जो ऐसा विद्वान् है ॥ ११ ॥

भावार्थ—कण्डिका १० के समान है ॥ ११ ॥

टिप्पणी—इस कण्डिका के लिये अगली कण्डिका १२ और पेत्रेय ब्राह्मण ५ । ११, १२ तथा ६ । ३२ देखो ॥

कण्डिका १२ ॥

अथ यद् द्वैपदौ स्तोत्रियानिरूपौ भवतः, इमा नु कं भुवनासीषधामेति । द्विपाद्वै पुरुषः, द्विप्रतिष्ठः पुरुषः, पुरुषो वै यज्ञः, तस्माद् द्वैपदौ स्तोत्रियानुरूपौ भवतः । अथ सुकीर्त्तिं शंसति, अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रानिति । देवयोनिर्वै सुकीर्त्तिः, स य एवमेतां देवयोन्यां सुकीर्त्तिं वेदकीर्त्तिं प्रतिष्ठापयति, भूतानां कीर्त्तिमान् स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । अथ वृषाकपिं शंसति, वि हि सोतोरमृत्ततेति । आदित्यो वै वृषाकपिः, तद्यत् कम्पयमानो रेतो वर्षति, तस्माद् वृषाकपिः, तद् वृषाकपेर्वृषाकपित्वं कपिरिव वै सर्वेषु लोकेषु भाति, य एवं वेद । तस्य तृतीयेषु पादेष्वान्तथोन्यूर्ध्वनिनर्दीं करोति, अन्नं वै न्युखः, बलं निनर्दः, अन्नाद्यमेवास्मै तद् बले निदधाति । अथ कुन्तापं शंसति, कुर्यं ह वै नाम कुत्सितं भवति, तद्यत्तपति, तस्मात् कुन्तापाः, तत् कुन्तापानां कुन्तापत्वम् । तप्यन्ते स्मै कुर्यानिति तप्तकुर्यः स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । तस्य चतुर्दश प्रथमा भवन्ति, इदं जना उपश्रुतेति । ताः प्रगाहं शंसति, यथा वृषाकपिं वार्षरूपं हि वृषाकपेस्तन्यायमित्येव । अथ रैभीः शंसति, वच्यस्व रेभ वच्यस्वेति । रेभ्यस्तो वै देवाश्च ऋषयश्च स्वर्गं लोकमायन्, तथैवैतद्यजमाना रेभन्त एव स्वर्गं लोकं यन्ति, ताः प्रग्राहमित्येव । अथ पारिक्षितीः शंसति, राज्ञो विश्वजनीनस्येति । संवत्सरो वै परिक्षित्, संवत्सरो हीदं सर्वं परिक्षियतीति । अथो खल्वाहुः, अग्निर्वै परिक्षित् अग्निर्हीदं सर्वं परिक्षियतीति । अथो खल्वाहुः, गाथा एवैताः कारव्या राज्ञः परिक्षित इति । स नस्तद्यथा कुर्यात्, यथाकुर्यात्, गाथा एवैतास्य [तस्य] शस्ता भवन्ति । यद्यु वै गाथा अग्नेरेव गाथाः संवत्सरस्य वेति ब्रूयात्, यद्यु वै

मन्त्रोऽग्नेरेव मन्त्रः संवत्सरस्य वेति ब्रूयात्, ताः प्रग्राहमित्येव । अथ कारव्याः शंसति इन्द्रः कारुमबूधुधदिति । यदेव देवाः कल्याणं कर्म कुर्वन्तत् कारव्याभिरवाप्नुवन्, तथैवैतत् यजमानाः । यदेव देवाः कल्याणं कर्म कुर्वन्ति, तत् कारव्याभिरवाप्नुवन्ति, ताः प्रग्राहमित्येव । अथ दिशां कल्पन्तीः, पूर्वं शस्त्वा यः सभेयो विदथ्य इति । जनकल्पा उत्तराः शंसति, योनाक्ताक्तो अनभ्यक्त इति, ऋतवो वै दिशः प्रजननः, तद्यद् दिशाङ्कल्पन्तीः पूर्वं शस्त्वा यः सभेयो विदथ्य इति जनकल्पा उत्तराः शंसति, ऋतूनेव तत् कल्पयति, ऋतुषु, प्रतिष्ठापयति । प्रतिष्ठन्तीरिदं सर्वमनुप्रतिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । ता अर्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव । अथेन्द्रगाथाः शंसति, यदिन्द्रोऽदो दाशराज्ञ इति । इन्द्रगाथाभिर्ह वै देवा असुरानाज्ञायथैनानन्यायन्, तथैवैतत् यजमाना इन्द्रगाथाभिरेवाप्रियं भ्रातृव्यमागाथाथैनमतियन्ति, तामर्द्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव ॥ १२ ॥

कण्डिका १२ ॥ षडह यज्ञ में स्तोत्रिय, अनुरूप, सुकीर्ति,
वृषाकपि, कुन्ताप [अथ० २० । १२७-१३६], रैभी,
पारिच्छिती, कारव्या, दिशां कल्पन्ती और इन्द्र
गाथाओं का वर्णन ॥

१—(अथ यत् द्वैपदौ स्तोत्रियानुरूपो भवतः इमा नु कं भुवना सीषधाम इति) फिर जो दो पाद वाले स्तोत्रिय और अनुरूप स्तोत्र होते हैं—इमा नु कं भुवना सीषधाम—अथर्व० २० । ६३ । १, द्विपात् त्रिष्टुप्, यह मन्त्र बोला जाता है । (द्विपाद् वै पुरुषः, द्विप्रतिष्ठः पुरुषः, पुरुषः वै यज्ञः, तस्मात् द्वैपदौ स्तोत्रियानुरूपौ भवतः) दो पाद वाला ही पुरुष है, दो प्रतिष्ठा वाला [दोनों स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आश्रय वाला] पुरुष है, पुरुष ही यज्ञ है, इस लिये दो पाद वाले स्तोत्रिय और अनुरूप होते हैं ॥

१२—(द्वैपदौ) द्विपाद्युक्तौ (कम्) सुखम् (सीषधाम) साधयेम (द्वि प्रतिष्ठः) द्वे प्रतिष्ठे स्थूलसूक्ष्मशरीररूपाश्रयौ यस्य सः (भूतानाम्) प्राणिनां मध्ये (वृषाकपिम्) गो० उ० ६ । ७ । वृष्टेः कम्पयितारं चेष्टयितारं सूर्यम् (वि) वियोगे (सोतोः) ईश्वरे तोसुनकसुनौ । पा० ३ । ४ । १३ । षुञ् अभिषवे—तोसुन् । अभिषेतुम् । तत्त्वरसं निष्पादयितुम् (असृक्षत) विसृष्टवन्तः । त्यक्तवन्तः (रेतः) जलम् (कपिः) वृष्टेः कम्पयिता । सूर्यः (न्यूङ्खनि-

का नाम है क्योंकि वह उसे तपाता है, इस लिये वे कुन्ताप [पाप के भस्म करने वाले] हैं, वह ही कुन्तापों का कुन्तापत्व [पापनाशक व्यवहार] है। (अस्मै कुयान् [=कुयाः] तप्यन्ते इति, तप्तकृयः स्वर्गं लोके प्रतितिष्ठति) इस [यजमान] के लिये पाप भस्म किये जाते हैं, इस लिये पाप भस्म किया हुआ वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। (प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद) प्रजा से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐसा विद्वान् है। (तस्य चतुर्दश प्रथमाः भवन्ति; इदं जना उपश्रुत इति) उस [कुन्ताप] के चौदह पहिले मन्त्र हैं—इदं जना उपश्रुत.....अथर्व० २० । १२७ । १—१४, यह ऋचायें हैं। (ताः प्रग्राहं शंसति, यथा वृषाकपिम्) उन [ऋचाओं] को पाद पाद ग्रहण करके और ठहर कर वह बोलता है जैसे वृषाकपि सूक्त को। (वार्षरूपं हि वृषाकपेः) वृष्टि वाला रूप ही वृषाकपि का है। (तत् न्यायम् इति एव) सो वह ठीक ही है ॥

५—(अथ रेभीः शंसति, वच्यस्व रेभ वच्यस्व—इति) फिर रेभ शब्द वाली ऋचाओं को वह बोलता है—वच्यस्व रेभ वच्यस्व.....अथर्व० २० । १२७ । ४—६, यह ऋचायें हैं। (रेभन्तः वै देवाः च ऋषयः च स्वर्गं लोकम् आयन्) रेभ [स्तुति] करते हुये ही देवों [विद्वानों] और ऋषियों [सन्मार्गदर्शकों] ने स्वर्ग लोक पाया है। (तथा एव एतत् यजमानाः रेभन्तः एव स्वर्गं लोकं यन्ति) वैसे ही इस [विधान] से यजमान रेभ [स्तुति] करते हुये ही स्वर्ग लोक पाते हैं। (ताः प्रग्राहम् इति एव) इन [ऋचाओं] को पाद पाद ग्रहण करके और ठहर कर [वह बोलता है], यह ही विधान है ॥

६—(अथ पारिक्षितीः शंसति, राज्ञः विश्वजनीनस्य इति) फिर परीक्षित् शब्द वाली ऋचायें वह बोलता है, राज्ञो विश्वजनीनस्य.....अथर्व० २० । १२७ । ७—१० यह ऋचायें हैं। (संवत्सरः वै परीक्षित्, संवत्सरः हि

(रेभन्तः) स्तुवन्तः (पारिक्षितीः) परिक्षित् इति शब्दयुक्ताः (परिक्षित्) परि + क्षि निवासे पेश्वर्ये च—क्विप्, तुक् । सर्वतो निवासकः (कारव्याः) कारु- शब्दयुक्ताः (राज्ञः) शासकस्य (परीक्षितः) सर्वत पेश्वर्ययुक्तस्य (विश्व-जनीनस्य) आत्मजनविश्वजनभोगोत्तरपदात् खः । पा० ५ । १ । ६ । विश्व-जन—ख प्रत्ययः । सर्वजनेभ्यो हितस्य (कारुम्) कृवापाजि० । उ० १ । १ । करोतेः—उण् । कार्यकर्तारम् । स्तोतारम्—निघ० ३ । १६ (अबूबुधत्) प्रबो- धितवान् (कुर्वन्) अकुर्वन् । कृतवन्तः (कल्पतीः) कल्पू सामर्थ्ये रचनायां

इदं सर्वं परिक्षियति इति) संवत्सर ही परीक्षित् [सब ओर से बसने वाला] है, क्योंकि संवत्सर ही इस सब में सब ओर से बास करता है। (अथो खलु आहुः, अग्निः वै परिक्षित्, अग्निः हि इदं सर्वं परिक्षियति इति) फिर कोई कहते हैं—अग्नि ही परिक्षित् है, क्योंकि अग्नि इस सब में सब ओर से बास करता है। (अथो खलु आहुः, गाथाः एव एताः कारव्याः—राज्ञः परिक्षितः इति) फिर कोई कोई कहते हैं—यह कारु शब्द वाली ऋचायें गाथा हैं [जिन में] राज्ञः परिक्षितः पद आये हैं अथर्व० २० । १२७ । ६, १० । (सः नः तत् यथा कुर्यात्, यथा कुर्यात्, गाथाः एव एतस्य शस्ताः भवन्ति) वह [ऋत्विजः] हमारे लिये उस विधान से जैसा करे, वैसा करे, यह ऋचायें इस [सूक्त] की गाथायें ही बोली हुई होती हैं। (यदि उ वै गाथाः अग्नेः एव संवत्सरस्य वा गाथाः इति ब्रूयात्) यदि वे गाथायें हैं, वे अग्नि की वा संवत्सर की गाथायें हैं—ऐसा वह बतलावे। (यदि उ वै मन्त्रः अग्नेः एव संवत्सरस्य वा मन्त्रः वा इति ब्रूयात्) जो वह मन्त्र है, वह अग्नि का वा संवत्सर का मन्त्र है—यह वह बतलावे। (ताः प्रगाहम् इति एव) इन [ऋचाओं] को पाद पाद ग्रहण करके और ठहर कर [वह बोलता है], यह ही विधान है ॥

७—(अथ कारव्याः शंसति, इन्द्रः कारुमबूबुधत्—इति) फिर कारु [स्तोता] शब्द वाली ऋचायें वह बोलता है—इन्द्रः कारुमबूबुधत्.....अथर्व० २० । १२७ । ११, यह मन्त्र है। (यत् एव देवाः कल्याणं कर्म कुर्वन् [अकुर्वन्] तत् कारव्याभिः अवाप्नुवन्) जो कुछ भी विद्वानों ने कल्याण कर्म किया है, वह कारु शब्द वाली ऋचाओं से पाया है। (तथा एव एतत् यजमानाः) वैसे ही इस से यजमानों ने [कल्याण कर्म पाया है]। (यत् एव देवाः कल्याणं कर्म कुर्वन्ति तत् कारव्याभिः अवाप्नुवन्ति) जो ही विद्वान् लोग कल्याण कर्म करते हैं वह कारु शब्द वाली ऋचाओं से ही पाते हैं। (ताः प्रगाहम् इति एव) उन

च—क्तिन् । रचनाः (सभेयः) सभा—ढ । सभ्यः (विदथ्यः) विदथेषु विद्वत्सु साधुः (जनकल्पाः) जनकल्पाभिधा ऋचः (अनाक्तात्) अन+आ+अञ् व्यक्तिस्रक्षणकान्तिगतिषु—क्त+अञ् व्याप्तौ—अच् । अशुद्धव्यवहारयुक्तः (अनभ्यक्तः) अन+अभि+अञ् व्यक्तौ—क्त । अव्यक्तः । अविख्यातः (अर्धर्चशः) पादे पादे अर्धर्चेन अर्धर्चेन (यत्) यदा (अदः) तत् (दाशराज्ञे) दाश्ट दाने—घञ्+राजृ ऐश्वर्ये—कनिन् । दाशानां दानपात्राणां भृत्यानां स्वामिहिताय (आज्ञाय) आकारोऽत्र अवशब्दार्थे । अवज्ञाय । अवज्ञातवन्तः । तिरस्कृतवन्तः

[ऋचाओं] को पाद पाद ग्रहण करके और उहर कर [वह बोलता है] यह ही विधान है ॥

८—(अथ दिशां कल्पतीः, यः सभेयः विदथ्यः इति पूर्वं शस्त्वा) फिर दिशां कल्पती [दिशाओं की रचना वाली ऋचाओं] को, यः सभेयः विदथ्यः—अथर्व० २० । १२८ । १, इस मन्त्र को पहिले बोल कर [वह बोलता है] । (जनकल्पाः उत्तराः शंसति यो नाक्ताक्ष अनभ्यक्त इति) जन कल्पवाली ऋचाओं को वह पीछे बोलता है, यो नाक्ताक्ष अनभ्यक्तःअथर्व० २० । १२८ । ६, यह मन्त्र है । (ऋतवः वै दिशः प्रजननः [प्रजननाः]) ऋतुयै ही दिशा के उत्पन्न करने वाले हैं । (तत् यत् दिशां कल्पतीः, यः सभेयः विदथ्यः इति पूर्वं शस्त्वा जनकल्पाः उत्तराः शंसति, ऋतून् एव तत् कल्पयति, ऋतुषु प्रतिष्ठापयति) फिर जो दिशां कल्पतिः को, यः सभेयः विदथ्यः इस मन्त्र को पहिले बोल कर, [बोलता है] और जनकल्प ऋचाओं को पीछे बोलता है, ऋतुओं को ही वह उस से समर्थ करता है और ऋतुओं में [यजमान को] स्थापित करता है । (प्रतिष्ठन्तीः अनु इदं सर्वं प्रतिष्ठति) प्रतिष्ठा वाली ऋचाओं के साथ यह सब [जगत्] प्रतिष्ठा पाता है । (प्रजया पशुभिः प्रतिष्ठति यः एवं वेदं) प्रजा से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा विद्वान् है । (ताः अर्धर्चशः प्रतिष्ठित्यै एव शंसति) उन ऋचाओं को आधी आधी ऋचाओं करके प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥

९—(अथ इन्द्रगाथाः शंसति यदिन्द्रोऽदो दाशराज्ञः इति) फिर इन्द्र गाथाओं को वह बोलता है, यदिन्द्रोऽदो दाशराज्ञःअथर्व० २० । १२८ । १२ —१६, यह मन्त्र है । (इन्द्रगाथाभिः ह वै देवाः असुरान् अथ एतान् अन्यान् आज्ञाय) इन्द्र गाथाओं से ही देवताओं ने असुरों को और इन दूसरों को निन्दित किया । (तथा एव एतत् यजमानाः इन्द्रगाथाभिः एव अप्रियं भ्रातृव्यम् अथ एनम् आगाय अतियन्ति) वैसे ही यह है—यजमान लोग इन्द्र गाथाओं से ही अप्रिय बैरी को फिर इस [शत्रु] को चढ़ाई करके लाँघते हैं । (ताम् अर्धर्चशः प्रतिष्ठित्यै एव शंसति) उस ऋचा को आधी आधी ऋचा करके प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥ १२ ॥

(आगाय) आ+गाङ् गतौ—ल्यप् । आभिमुख्येन प्राप्य (अतियन्ति) उल्लंघयन्ति । जयन्ति ॥

भावार्थ—मनुष्य वेदविहित कर्म करने से बाहिरी और भीतरी शत्रुओं को हराकर संसार में उन्नति करें ॥ १२ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को पे० ब्रा० ६। २६, ६। ३२, ६। ३३ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले सूक्तों के पहिले पहिले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं, शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

१—दो स्तोत्रियानुरूप—इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च
दु वाः । यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चीकलपाति ॥—अ० २० ॥
६३ । १—६, तथा देखो ऋ० १० । १५७ । १—५, यजु० २५ । ४६, साम उ०
४ । १ । तृच २३ ॥ (इमा) यह (भुवना) उत्पन्न पदार्थ, (च) और (इन्द्रः)
इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सभापति] (च) और (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्
लोग हम (नु) शीघ्र (कम्) सुख को (सीषधाम) सिद्ध करें । (आदित्यैः
सह) प्रखण्ड व्रतधारी विद्वानों के साथ (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला
सभापति] (नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञ [मेल मिलाप आदि] (च) और
(तन्वम्) शरीर (च) और (प्रजाम्) प्रजा [सन्तान आदि] को (च) भी
(चीकलपाति) समर्थ करे ॥

२—(अपेन्द्र प्राचो मघवन्न मित्रानपापांचो अभिभूते नुदस्व । अपोर्दी-
चो अर्ये शूराधराच उरौ यथा तव शर्मन् मदेम ॥ १ ॥ अ० २० । १२५ । १—
७, ऋ० १० । १३१ । १—७ ।) यह मन्त्र आ चुका है—गो० उ० ६ । ४ ॥

३—वृषाकपि सूक्त—वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवमंसत । यत्राम-
दद् वृषाकपिर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १ ॥ अ० २० । १२६ ।
१—२३, ऋ० १० । ५६ । १—२३ ॥ (हि) क्योंकि (सोतोः) तस्वरस का
निकालना (वि असृक्षत) उन्होंने ने [लोगों ने] छोड़ दिया है, [इसी से]
(देवम्) विद्वान् (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य आत्मा] को (न
(अमंसत) उन्होंने ने नहीं जाना, (यत्र) जहां [संसार में] (अर्यः) स्वामी
(मत्सखा) मेरा [देह वाले का] साथी (वृषाकपिः) वृषाकपि [चलवान्
कपाने वाले अर्थात् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] ने (पुष्टेषु) पुष्टिकारक धनों
में (अमदत्) आनन्द पाया है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला मनुष्य]
(विश्वस्मात्) सब [प्राणीमात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥

४—कुन्ताप सूक्त—इदं जना उप श्रुत नराशंसु स्तविष्यते । षष्ठिं सहस्रा

नवतिं च कौरम् आ रुशमेषु दद्महे ॥ १ ॥ अ० २० । १२७ । १—१४, कुन्ताप
सूक्त—(जनाः) हे मनुष्यो ! (इदं) यह (उप) आदर से (श्रुत) सुनो,
[कि] (नराशंसः) मनुष्यों में प्रशंसावाला पुरुष (स्तविष्यते) बड़ाई किया
जावेगा । (कौरम) हे पृथ्वी पर रमण करने वाले राजन ! (षष्टिम् सहस्रा)
साठ सहस्र (च) और (नवतिम्) नब्बे [अर्थात् अनेक दानों] को (रुश-
मेषु) हिंसकों के फँकने वालों के बीच (आ दद्महे) हम पाते हैं ॥

५—रैभी ऋचायै—वच्यस्व रेभं वच्यस्व वृक्षे न पके शकुनः । नष्टे
जिह्वा चर्चरीति क्षुरो । न भुरिजोरिव ॥ ४ ॥ अ० २० । १२७ । ४—६ ॥ (रेभ)
हे विद्वान् ! (वच्यस्व) उपदेश कर, (न) जैसे (शकुनः) पक्षी (पके) फल
वाले (वृक्षे) वृक्ष पर [चहचहाता है] । (नष्टे) दुख व्यापने पर (भुरिजोः)
दानों धारण पोषण करने वाले [स्त्री पुरुष] की (इव) ही (जिह्वा) जीभ
(चरचरीति) चलती रहती है, (न) जैसे (क्षुरः) छुरा [केशों पर चलता
है] ॥

६—पारिक्षिती ऋचायै—राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोर्मत्याँ अति ।
वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोतां परिक्षितः ॥ अ० २० । १२७ । ७—११ ॥ (यः)
जो (देवः) देव [विक्षय चाहने वाला पुरुष] (मर्त्याँ अति) मनुष्यों में
बढ़ कर [गुणी है] (विश्वजनीनस्य) सब लोगों के हितकारी, (वैश्वान-
रस्य) सब के नेता, (परिक्षितः) सब प्रकार ऐश्वर्य वाले (राज्ञः) उस राजा
की (सुष्टुतिम्) उत्तम स्तुति को (आ) भले प्रकार (सुनोत) मथो ॥

७—कारव्या ऋचायै—इन्द्रः कारु मबूबुधदुत्तिष्ठ वि चरा जनम् । मम-
दुग्रस्य चर्कधि सर्व इत् ते पृणादरिः ॥ अ० २० । १२७ । ११ ॥ (इन्द्रः) इन्द्र
[बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] ने (कारुम्) काम करने वाले को (अबूबुधत्)
जगाया है—(उत्तिष्ठ) उठ और (जनम्) लोगों में (वि चर) विचर, (मम
इत् उग्रस्य) मुझ ही तेजस्वी की [भक्ति] (चर्कधि) तू करता रहे, (सर्वः)
प्रत्येक (अरिः) बैरी (इत्) भी (ते) तेरी (पृणात्) तृप्ति करे ॥

८—दिशां कल्पन्ति ऋचायै—यः सभेयो विद्वथ्यः सुत्वा यज्वाथ पूरुषः ।
सूर्यं चामू रिशादस्तद् देवाः प्रागकल्पयन् ॥ अ० २० । १२८ । १—१६)
(यः) जो (सभेयः) सभ्य [सभाओं में चतुर], (विद्वथ्यः) विद्वानों में
प्रशंसनीय, (सुत्वा) तत्त्व स्तुतिकालने वाला (अथ) और (यज्वा) मिलन-
सार (पूरुषः) पुरुष है । (अमू) उस (सूर्यम्) सूर्य [के समान प्रतापी] को

(च) निश्चय करके (तत्) तब (रिशादसः) हिंसकों के नाश करने वाले (देवाः) विद्वानों ने (प्राक्) पहले [ऊंचे स्थान पर] (अकल्पयन्) माना है ॥

६, उत्तर जलकल्प ऋचा—योऽनाक्ताक्षो अनभ्यक्तो अमणिवो अहिर-
ण्यवः । अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ अ० २०। १२८। ६ ॥
(यह) जो (ब्रह्मणः) ब्रह्मा (वेदज्ञानी] का (पुत्रः) पुत्र (अब्रह्मा) अब्रह्मा
[वेद न जानने वाला, कुमार्गी] (अनाक्ताक्षः) अशुद्ध व्यवहार वाला और
(अनभ्यक्तः) अविख्यात है । वह (अमणिवः) मणियों [रत्नों] का न रखने
वाला और (अहिरण्यवः) तेज हीन होवे, (तोता) यह यह कर्म (कल्पेषु)
शास्त्र विधानों में (संमिता) प्रमाणित है ॥

१०, इन्द्रगाथा ऋचायें—यदिन्द्रादो दाशराज्ञे मानुषं वि गाहथाः ।
विरूपः सर्वस्मा आसीत् सह यज्ञाय कल्पते ॥ अ० २०। १२८। १२-१६ ॥ (यत्)
जब, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (दाशराज्ञे) दानपात्र
सेवकों के राजा के लिये [अर्थात् अपने लिये] (अदः) उस [वेदोक्त]
(मानुषम्) मनुष्य के कर्म को (वि गाहथाः) तू ने बिलो डाला है [गड़बड़
कर दिया है] । (सर्वस्मै) सब के लिये (विरूपः) वह दुष्ट रूप वाला व्यव-
हार (आसीत्) हुआ है । यह [मनुष्य] (यज्ञाय) पूजनीय कर्म के लिये (सह)
मिल कर (कल्पते) समर्थ होता है ॥

कण्डिका १३ ॥

अथैतशप्रलापं शंसति, एता अश्वा आसवन्त इति । ऐतशो ह मुनिर्यज्ञ-
स्यायुर्ददर्श । स ह पुत्रानुवाच, पुत्रका यज्ञस्यायुरभिदृच्छंस्तदभिलपिष्यामि मा
मा तृप्तं मन्यध्वमिति । तथेति तदभिललाप । तस्य ह इत्यग्निरैतशायनो ज्येष्ठः
पुत्रोऽभिदुदृत्य मुखमपि जग्राह, ब्रुवं, तृप्तो नः पितेति । स होवाच, धिक् त्वा
जातमापरस्य पापिष्ठान्ते प्रजां करिष्यामीति । यो मे मुखं प्रागृहीष्यो यदि जातम
मै मुखं प्राग्रहीष्यः, शतायुषं प्रा [गा] मकरिष्यं सहस्रायुषं पुरुषमिति । तस्मादभ्य-
अथ ऐतशायना आजानेयाः सन्तः पापिष्ठामन्येषां बलिहृतः पितायच्छं ताः स्वेन
प्रजापतिना स्वया देवतया । यदैतशः प्रलापः, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यद्वे-
वैतशः प्रलापः, यातयामा वा क्षितिः, ऐतशैतशः प्रलापो यातयामा मे यज्ञः सद-
क्षिति मे यज्ञो सदिति । तं वा ऐतशैतशप्रलापं शंसति, पदावग्राहन्तासामुत्तमेन
पदेन प्रणौति, यथा निविद्ः । अथ प्रवह्निकाः पूर्वशस्त्वा विवतौ किरणौ द्वाविति
प्रतिराधानुत्तराः शंसति, भुगित्यभिगत इति प्रवह्निकाभिर्ह वै देवा असुराणां

रसाम्प्रवृद्धुः । तद्यथाभिर्ह वै देवा असुराणां रसां प्रवृद्धुः, तस्मात् प्रवह्लिकाः, तत् प्रवह्लिकानां प्रवह्लिकात्वम् । ता वै प्रतिराधैः प्रत्यरार्ध्वान् । तद्यत् प्रतिराधैः प्रत्यरार्ध्वान्, तस्मात् प्रतिराधाः, तत् प्रतिराधानां प्रतिराधत्वम् । प्रवह्लिकाभिरेव द्विषतां भ्रातृव्यानां रसां प्रवह्लिकास्ता वै प्रतिराधैः प्रतिराध्वन्ति, ताः प्रगाहमित्येव । अथाजिज्ञासेन्याः शंसति, इहेच्छु प्रागपागुदगधरागिति । आजिज्ञासेन्याभिर्ह वै देवा असुरानाज्ञाय अथैनानन्यायन्, तथैवैतद्यजमाना आजिज्ञासेन्याभिरेवाप्रियं भ्रातृव्यमागायाथैनमतियन्ति । ता अर्द्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव । अथातिवादं शंसति, वीशमे देवा अक्रंसतेति । श्रीर्वा अतिवादस्तमकच्चं शंसति, एकस्ता वै श्रोस्तां वै विरेभं शंसति, विरेभैः श्रियं पुरुषो वहतीति । तामर्द्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव ॥ १३ ॥

कण्डिका १३ ॥ कुन्ताप सूक्तो में ऐतशप्रलाप, प्रवह्लिका,
प्रतिराध, आजिज्ञासेन्या, और अतिवाद मन्त्रों
का प्रयोग ॥

(अथ ऐतशप्रलापं शंसति, एता अश्वा आस्रवन्ते, इति) अब ऐतशप्रलाप [ऐतश ज्ञानवान् ऋषि का आलाप] वह [ऋत्विज्] बोलता है—एता अश्वा आस्रवन्ते...अथर्व० २० । १२६ । १-२०, यह सूक्त है । (ऐतशः ह मुनिः यज्ञस्य आयुः ददर्श) ऐतश [ज्ञानवान्] मुनि ने [इस सूक्त में] यज्ञ के आयु [जीवन काल] को देखा । (सः ह पुत्रान् उवाच, पुत्रकाः यज्ञस्य आयुः अभिदद्वक्षम् तत् अभिलपिष्यामि, मा मा तृप्तं मन्यध्वम् इति) वह पुत्रों से बोला—हे प्यारे पुत्रो ! यज्ञ के जीवन काल को मैं ने देखा है, उस को मैं आलापूंगा, मुझ को तुम मत तृप्त मानो [मत रोको] । (तथा इति) [वे बोले] ऐसा ही हो । (तत् अभिललाप) उस ने उसे आलापा । (तस्य ह इति अग्निः ऐतशायनः

१३—(ऐतशप्रलापम्) इणस्तशन्तशसुनौ । उ० ३ । १४६ इण् गतौ—त्तशन्, एतश—अण् । ऐतशम् एतशस्य ब्राह्मणस्य सम्बन्धिनं प्रलापम् आलापम् (अश्वाः) अशू व्याप्तौ—कन्, टाप् । व्यापिकाः प्रजाः (आ) आगत्य (स्रवन्ते) गच्छन्ति (आयुः) एतेर्णिञ्च । उ० २ । ११८ । इण् गतौ—उसि णित् । जीवनम् । जीवनज्ञानम् (पुत्रकाः) हे प्रियपुत्राः (अभिदद्वक्षम्) द्रष्टवानस्मि (अभिलपिष्यामि) अभितः कथयिष्यामि (ऐतशायनः) अश्वादिभ्यः फञ् । पा० ४ । १ । ११० । एतश ऐतश वा—फञ् बाहुलकात् । ऐतशस्य गोत्रोत्पन्नः (अभिदुद्वत्य)

ज्यैष्ठः पुत्रः अभिदुहृत्य मुखम् अपि जग्राह, ब्रुवन्, नः पिता तृप्तः इति) अग्निं नामक ऐतश गोत्र में उत्पन्न उस के जेठे पुत्र ने निरादर करके मुंह पकड़ लिया यह बोलते हुये—हमारा पिता बस करे । (सः ह उवाच, धिक् त्वा जाल्मापरस्य ते प्रजां पापिष्ठां करिष्यामि इति) वह बोला—तुझे धिक्कार है, तुझ क्रूर व्यवहार वाले की प्रजा को महादुखी कर दूंगा, (यः मे मुखं प्रागृहीष्यः यदि जाल्म मे मुखं प्रागृहीष्यः) जिस तूने मेरे मुंह को पकड़ा है, यदि, हे क्रूर ! तू ने मेरे मुख को पकड़ा है । (शतायुषं ग्राम् [गाम्] अकरिष्यं सहस्रायुषं पुरुषम् इति) [नहीं तो] सौ बरस वाली गाय और सहस्र वर्ष वाला पुरुष को मैं कर देता । (तस्मात् अभ्यग्नयः ऐतशायनाः आजानेयाः सन्तः पापिष्ठाम् [=पापिष्ठाः] अन्येषां बलिहृतः, पिता ताः स्वेन प्रजापतिनः स्वया देवतया अयच्छन् [=अयच्छत्]) इस लिये ऐतश के गोत्र वाले अभ्यग्नि नाम वाले आजानेय [बड़ी गति से ले चलने वाले उत्तम घोड़ों के समान] होते हुये महादुखी, दूसरों के अन्न पाने वाले [हुये, क्योंकि] पिता ने उन [प्रजा लोगों] को अपने प्रजापालक व्यवहार से अपने देवता द्वारा रोका [शाप दिया] । (यत् ऐतशः प्रलापः, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्) जो यह ऐतश आलाप है, वह स्वर्ग लोक का रूप है । (यत् उ एव ऐतशः प्रलापः यातयामा वा क्षितिः) क्योंकि उचित समय बीता हुआ ही ऐतशप्रलाप हानि है । (अयातयामा [=अयातयामः] ऐतशैतशः प्रलापः मे यज्ञः सत् [असत्] अक्षिति मे यज्ञः सत् [असत्] इति) उचित समय बिना चूका हुआ ऐतशप्रलाप वाला मेरा यज्ञ होवे, हानि रहित मेरा यज्ञ होवे । (तं वै ऐतशैतशप्रलापं पदावग्राहं शंसति, तस्माम् उक्तमेन पदेन यथा निविदः प्रणोति) उस ही ऐतशप्रलाप को एक एक पाद लेकर वह बोलता है, उन [ऋचाओं] के पिछले पाद से निविदू मन्त्रों के समान प्रणव [ओङ्कार] करता है ॥

(अथ प्रवह्लिकाः पूर्वशस्त्वा, वित्तौ किरणौ द्वौ, इति प्रतिराधान् उत्तराः शंसति, भुगित्यभिगतः इति) फिर प्रवह्लिका [शत्रुओं को चलायमान

अभिदुहृत्य । अनादृत्य (ब्रुवन्) कथयन् सन् (तृप्तः) पर्याप्तः (जाल्मापरस्य) आर्षो दीर्घः । जल आच्छादने—मण् । जाल्मे क्रूरव्यवहारे परस्य तत्परस्य (प्रागृहीष्य) प्र-अग्रहीष्य । प्रकर्षेण गृहीतवान् असि (ग्राम्) गाम्—ऐ० ब्रा० ६ । ३३ । धेनुम् (सहस्रायुषम्) सहस्रवर्षजीवनयुक्ताम् (आजानेयाः) अज गतिक्षपणयोः—वञ्+आ+णीञ् प्रापणे—यत् । आजनेन गमनेन आजानेयः । उत्तमघोषका इव (बलि-

करने वाली ऋचायें] पहले बोलकर—विततौ किरणौ द्वौ इति.....अ० २०। १३३। १—६, यह मन्त्र है, प्रतिराधों [शत्रुओं को रोकने वाले मन्त्रों] को पीछे वाली ऋचायें करके वह बोलता है—भुगित्यभिगतः इति.....अथ० २०। १३५। १—३, यह प्रतिराध मन्त्र हैं। (प्रवह्लिकाभिः ह वै देवाः असुराणां रसान् [=रसान्] प्रववृहुः) प्रवह्लिका ऋचाओं से ही देवताओं [विद्वानों] ने असुरों के रसों [पराक्रमों] को उखाड़ दिया। (तत् यथा आभिः ह वै देवाः असुराणां रसान् प्रववृहुः, तस्मात् प्रवह्लिकाः, तत् प्रवह्लिकानां प्रवह्लिकात्वम्) सो जैसे इन [ऋचाओं] से ही विद्वानों ने असुरों के रसों को उखाड़ दिया, इस लिये यह प्रवह्लिका [चलायमान करने वाली ऋचायें] हैं—यही प्रवह्लिकाओं का प्रवह्लिकापन है। (ताः वै प्रतिराधैः प्रत्यरार्ध्वन्) उन [ऋचाओं] ने ही प्रतिराध मन्त्रों से [असुरों के पराक्रमों को] हटा दिया। (तत् यत् प्रतिराधैः प्रत्यरार्ध्वन्, तस्मात् प्रतिराधाः, तत् प्रतिराधानां प्रतिराधत्वम्) सो जो प्रतिराध मन्त्रों से हटा दिया, इस लिये वे प्रतिराध मन्त्र हैं, यह ही प्रतिराध मन्त्रों का प्रतिराधपन है। (प्रवह्लिकाभिः एव द्विषतां भ्रातृव्याणां रसान् प्रवह्लिकाः, ताः वै प्रतिराधैः प्रतिगार्ध्वन्ति, ताः प्रग्राहम् इति एव) प्रवह्लिका ऋचाओं से ही अप्रिय बैरियों के पराक्रमों को वे चलायमान करने वाली ऋचायें ही प्रतिराध मन्त्रों से हटा देती हैं, उन को पाद पाद करके [वह बोलता है]।

(अथ आजिज्ञासेन्याः शंसति, इहेच्छ [= इहेत्थ] प्रागपागुदगधरागिति) फिर आजिज्ञासेन्याओं [शत्रुओं का तिरस्कार करने वाली ऋचाओं] को वह बोलता है—इहेत्थ प्रागपागुदगधराक् इति.....अथ० २०। १३४। १—४, यह मन्त्र हैं। (आजिज्ञासेन्याभिः ह वै देवाः असुरान् आज्ञाय अथ एनान् अन्या-

हृतः) आहारस्य प्रापकाः (अयच्छुम्) अयच्छुत् । नियमितवान् (यातयामा) विगतयोग्यः समयः (क्षितिः) हानिः (अयातयामा) प्राप्तयोग्यसमयः (असत्) भवेत् (पदावग्राहम्) पादेन पादेन अवगृह्य (प्रणौति) प्रणवेन ओङ्कारेण सह शंसति (प्रवह्लिकाः) प्र + हल चलने—एवुल्, टाप्, अकारस्य इकारः। प्रवह्लिकाख्याः ऋचः (प्रतिराधान्) प्रतिराधकान् । प्रतिराधसज्ञान् मन्त्रान् (भुक्) भुज पालनाभ्यवहारयोः—क्विप् । पालकः परमात्मा (अभिगतः) आभिमुख्येन प्राप्तः (रसान्) वीर्याणि (प्रववृहुः) वृह उद्यमने—लिट् । उद्यतवन्तः । उत्पादितवन्तः (प्रग्राहम्) पादेन पादेन गृहीत्वा (आजिज्ञासेन्याः) आकारो अत्र अत्र शब्दार्थे । आज्ञातुमज्ञातुमिच्छा आजिज्ञासा, तामर्हन्तीति तत् साध-

यन् [=अत्यायन्], तथा एव एतत् यजमानाः आजिज्ञासेन्याभिः एव अप्रियं भ्रातृव्यम् आगाय अथ एनम् अतियन्ति ।) आजिज्ञासेन्या ऋचाओं से ही विद्वानों ने असुरों को तिरस्कार करके फिर उनको उल्लंघन किया, वैसे ही अब यजमान लोग आजिज्ञासेन्या ऋचाओं से ही अप्रिय बैरी पर चढ़कर फिर उसको उल्लंघन करते हैं । (ताः अर्धर्चशः प्रतिष्ठित्यै एव शंसति) उन [ऋचाओं] को आधी आधी ऋचाओं से प्रतिष्ठा के लिये वह बोलता है ॥

(अथ अतिवादं शंसति, वी३मे देवा अक्रंसत इति) फिर वह अतिवाद [शत्रुओं के अधिक्षेप अर्थात् घुड़कने वाले मन्त्र] को वह बोलता है—वी३मे देवा अक्रंसत इति.....अथ० २० । १३५ । ४, यह वह मन्त्र है । (श्रीः वै अतिवादः, तम् एकर्चं शंसति) श्री ही [सम्पत्तिका हेतु] अतिवाद है । उस एक ऋचा वाले को वह बोलता है । (एकः ताः [एका सा] श्रीः, तां वै विरेभं शंसति, विरेभैः श्रियं पुरुषः वहति इति) एक ही वह श्री है, उस [ऋचा] को विविध ध्वनि से वह बोलता है, विविध ध्वनियों से श्री को पुरुष पाता है । (ताम् अर्धर्चशः प्रतिष्ठित्यै एव शंसति) उसको आधी आधी ऋचा करके प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥ १३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य वेदों को विचार कर प्रयत्न के साथ बैरियों को निर्बल करते हैं, वे ही श्रीमान् होते हैं ॥ १३ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६ । ३३ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—प्रतीक वाले सूक्तों के पहिले पहिले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं । शेष मन्त्र वेद में देखो—

कुन्ताप सूक्तानि ॥

१, ऐतश सूक्त—एता अश्वा आस्रवन्ते ॥१॥ प्रतीपं प्राति सुत्वनम् ॥२॥

अथ० २० । १२६ । १—२० ॥ (एताः) यह (अश्वाः) व्यापक प्रजायें (प्रती-

नीभूता ऋचः (इत्थ) इत्थम् । अनेन प्रकारेण (प्राक्) प्राच्यां दिशि (अपाक्) प्रतीच्यां दिशि (उदक्) उदीच्यां दिशि (अधराक्) नीच्यां दक्षिणस्यां दिशि (आज्ञाय) अवज्ञातवन्तः (आगाय) आभिमुख्येन प्राप्य (अतिवावम्) अतिक्षेपम् । तिरस्कारम् । अतिवादाख्यं सूक्तम् (इमे) प्रसिद्धाः (अक्रंसत) क्रमु पादविक्षेपे । पादं विक्षिप्तवन्तः । अग्रे गताः (विरेभम्) ध्वनिविशेषम् (वहति) प्राप्नोति ॥

पम्) प्रत्यक्ष व्यापक (सुत्वनम् प्राति) ऐश्वर्य वाले [परमेश्वर] के लिये (आ) आकर (स्रवन्ते) चलती हैं। १, २ ॥

२, प्रवहिका ऋचायें—विततौ किरणौ द्वौ तावा पिनष्टि पुरुषः। न वै कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ अथ० २०। १३३। १—६ ॥ (द्वौ) दोनों (किरणौ) प्रकाश की किरणें [शारीरिक बल और आत्मिक पराक्रम] (विततौ) फैले हुये हैं, (तौ) उन दोनों को (पुरुषः) पुरुष [देहधारा जीव] (आ) सब ओर से (पिनष्टि) पीसता है [सूक्ष्म रीति से काम में लाता है]। (कुमारि) हे कुमारी! [कामना योग्य स्त्री] (वै) निश्चय करके (तत्) वह (तथा) वैसा (न) नहीं है, (कुमारि) हे कुमारी! (यथा) जैसा (मन्यसे) तू मानती है ॥

३, प्रतिराध सूक्त—भुगित्यभिगतः शलित्यपक्रान्तः फलित्यभिष्ठितः। दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरोथामो दैव ॥ अथ० २०। १३५। १—३ ॥ (भुक्) पालन वाला [परमात्मा] (अभिगतः) सामने पाया गया है—(इति) ऐसा है, [शल] शीघ्रगामी वह (अपक्रान्तः) सुख से आगे चलता हुआ है—(इति) ऐसा है, (फल) सिद्धि करने वाला वह (अभिष्ठितः) सब ओर ठहरा हुआ है—(इति) ऐसा है। (जरितः) हे स्तुति करने वाले (दैव) परमात्मा का देवता मानने वाले विद्वान्! (दुन्दुभिम्) ढोल को (आहननाभ्याम्) दा डंका से (आ) सब ओर (उथामः) हम उठाव [बल से बजावें] ॥

४, आजिज्ञासेन्या ऋचायें—इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्—अरालागुदभर्त्सथ—अथ० २०। १३४। १—४ ॥ (इह) यहां (इत्थ) इस प्रकार (प्राक्) पूर्व में, (अपाक्) पश्चिम में, (उदक्) उत्तर में और (अधराक्) दक्षिण में—(अरालागुदभर्त्सथ) हिंसा की गति का धिक्कारने वाला परमात्मा है ॥

५, अतिवाद मन्त्र—वीमे देवा अक्रंसताध्वर्यो क्षिप्रं प्रचरं। सुसत्यमिद् गवामस्यसिं प्रखुदसिं—अथ० २०। १३५। ४ ॥ (इमे देवाः) इन विद्वानों ने (वि) विविध प्रकार (अक्रंसत) पैर बढ़ाया है, (अध्वर्यो) हे हिंसा न करने वाले विद्वान्! (क्षिप्रम्) शीघ्र (प्रचर) आगे बढ़। और (प्रखुदसि) बड़े आनन्द में (असि) तू हो, (असि) तू हो, [यह वचन] (गवाम्) स्तोताओं [गुण व्याख्याताओं] का (सुसत्यम् इत्) बड़ा ही सत्य है ॥

कण्डिका १४ ॥

अथादित्याश्चाङ्गिरसीश्च शंसति, आदित्या ह जरितरङ्गिरोभ्यो दक्षिणामन-

यन्निति । तदेवनीथमित्याचक्षते । आदित्याश्च ह वा आङ्गिरसश्च स्वर्गे लोके-
ऽस्पृद्धन्त, वयं पूर्वं स्वरेषामो वयं पूर्वं इति । ते हाङ्गिरसः श्वःसुत्यां दद्रुशुः । ते
हाङ्गिरमूचुः, परेह्यादित्येभ्यः श्वःसुत्यां प्रब्रूहीति । अथादित्या अद्यसुत्यान्ददशुः,
ते हाङ्गिरमूचुः, अद्यसुत्यास्माकं, तेषां नस्त्वं होतासीदुपेमस्त्वामिति । स पत्या-
ग्निरुवाच, अथादित्याः अद्यसुत्यामीक्षन्ते, कं वो होतारमवोचन्, बाह्वयन्ते
युष्माकं वयमिति । ते हाङ्गिरसश्चक्रुधुः, मा त्वं गमो नु वयमिति । नेतिहाङ्गिरु-
वाच, अनिन्ध्या वै माह्वयन्ते किल्विषं हि तद्यो निन्धस्य हवन्न इति । तस्मादति-
दूरमत्यल्पमिति, यजमानस्य हवमिया देवाः । किल्विषं हि तद्या निन्धस्य हव-
त्वंति [हवन्न इति] । तान् हादित्यानङ्गिरसो याजयाञ्चक्रुः, तंभ्यो हीमां पृथिवीं
दक्षिणां निन्धुः, तं ह न प्रतिजगृहुः । सा हीयं, निवृत्तोभयतः शीष्णां दक्षिणाः
शुचाविद्धाः शाचमाना व्यचरन् कुपिताः, मा नः प्रतिगृहीषुरिति । तस्मा पता
निरदीर्यन्ते, य एते प्रतरा [प्रदरा] अधिगम्यते । तस्मान्निवृत्तदक्षिणां नोपा-
कुर्व्यात् नैनां प्रमृजेन्नेदक्षिणां प्रमृणजानीति । तस्माद्य एवास्य समानजन्मा
भ्रातृव्यः स्याद् वृणुह्युः, तस्मा एनां दद्यात् । तन्नः पराची दक्षिणा विवृणक्ति,
द्विषति भ्रातृव्येऽन्ततः शुचं प्रतिष्ठापयति । योऽसौ तपति स वै शंसति,
आदित्या ह जरितरङ्गिरोभ्यो दक्षिणामनयन् तां ह जरितः प्रत्यायन्निति, न
हीमां पृथिवीं प्रत्यायंस्तामु ह जरितः प्रत्यायन्निति, प्रतिहितेषु मायंस्तां ह जरि-
तर्नः प्रत्यगृभ्णन्निति, न हीमां पृथिवीं प्रत्यगृभ्णंस्तामु ह जरितर्नः प्रत्यगृभ्ण-
न्निति, प्रगृह्यादित्यमगृभ्णन् नहानेतरसन्न [अहानेतरसन्न] वि चेतना गीति ।
एष ह वा अन्हां विचेता, योऽन्हां तपति । स वै शंसति, यज्ञानतरसं न पुरोग-
वाम इति । एष ह वै यज्ञस्य पुरागवी, यदक्षिणा यथार्हामः सस्त मेतिरेतदन्ते-
त्येष एवेश्वर उन्नेता । उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्याभिर्यविष्ठः । उतेमाशु
मानः [मानं] पिपत्तीत्येष एव श्वेत एष शिषुपत्येष उतो पद्याभिर्यविष्ठः उते-
माशु मानं पिपत्तीति, आदित्या रुद्रा वसवस्ते नु तः [स्त्वे ऽनुत] इदं राधः
प्रतिगृभ्णी ह्यङ्गिरः । इदं राधो विभुः प्रभुरिदं राधो वृहत् पृथुः । देवा ददत्वा-
सुरन्तद्धो अस्तु सुचेतनम् । युष्माश्च अस्तु दिवे दिवे प्रत्येव गृभायतेति । तद्य-
दादित्याश्चाङ्गिरसीश्च शंसति, स्वर्गताया एवैतदहरहः शंसति, यथा निविदेऽथ
भूतेच्छन्दः शंसति, त्वमिन्द्र शर्म रिणेतीमे [रिण इतीमे] वै लोका भूतेच्छन्दो-
ऽसुरान् ह वै देवा अन्नं सेचिरे । भूतेन भूतेन जिघांसन्तस्तितीर्षमाणास्तानिमे
देवाः सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽच्छादयन् । तद्यदेतानिमे देवाः सर्वेभ्यो भूतिभ्योऽच्छा-

दयन्, तस्माद्भूतेच्छन्दस्तद् भूतेच्छन्दां [भूतेच्छन्दसां] भूतेच्छन्दत्वम् । छाद-
यन्ति ह वापरमिमे लोकाः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो निरघ्नन् । सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽच्छन्दते
[छन्दते], य एव वेद ॥ १४ ॥

कण्डिका १४ ॥ कुन्ताप सूक्तों में आदित्या और आङ्गिरसी
ऋचाओं अथवा देवनीथ सूक्त का प्रयोग, आदित्यों का
अङ्गिराओं को पृथिवी की दक्षिणा, पृथिवी की
विषमता और भूतेच्छन्द का प्रयोग ॥

(अथ आदित्याः च आङ्गिरसाः च शंसति, आदित्या ह जरितरङ्गिरोभ्यो
दक्षिणामनयन् इति) फिर आदित्या और आङ्गिरसी ऋचाओं [आदित्य और
अङ्गिर शब्द वाली ऋचाओं] को वह बोलता है—आदित्या ह जरितर.....
अथ० २० । १३५ । ६, यह मन्त्र है । (तत् देवनीथम् इति आचक्षते) उस को
देवनीथ [विद्वानों करके पाने योग्य]—ऐसा वे कहते हैं । (आदित्याः च ह वै
आङ्गिरसः [=अङ्गिरसः], च स्वर्गे लोके अस्पर्धन्त, वयं पूर्वे स्वः एष्यामः, वयं
पूर्वे इति) आदित्य लोग [ऋषि विशेष] और अङ्गिरा लोग [ऋषि विशेष]
स्वर्ग लोक के विषय में झगड़ने लगे—हम पहिले स्वर्ग जायेंगे, हम पहिले ।
(ते अङ्गिरसः ह श्वःसुत्यां ददृशुः) उन अङ्गिराओं ने श्वःसुत्या [आगामी
कल्य होने वाले सोम यज्ञ] को देखा [करना विचारा] । (ते ह अग्निरम्
ऊचुः, परेहि आदित्येभ्यः श्वःसुत्यां प्रब्रूहि इति) वे अग्निर [अग्नि नाम पुरुष]
से बोले—जा, और आदित्य ऋषियों को श्वःसुत्या का कह दे [बुलवा दे] ।
(अथ आदित्याः अद्यसुत्यां ददृशुः) फिर [अग्नि के बुलवा देने पर] आदित्य
लोगों ने अद्यसुत्या [आज होने वाले सोम यज्ञ] को देखा [करना विचारा] ।
(ते ह अग्निरम् ऊचुः, अस्माकम् अद्यसुत्या, तेषां नः त्वम् इत होता असि,

१४—(आदित्याः) अखण्डब्रह्मचारिणः । आदीप्यमानाः सूर्यकिरणाः
(ह) एव (जरितः) हे स्तोतः (अङ्गिरोभ्यः) विज्ञानिभ्यः । प्राणवायुभ्यः
(दक्षिणाम्) प्रतिष्ठादानम् (अनयन्) प्रापितवन्तः । दत्तवन्तः (देवनीथम्)
हनुकुषिनीरमिकाशिभ्यः कथन् । उ० २ । २ । देव+णीञ् प्रापणे—कथन् ।
विद्वद्भिः प्रापणीयम् (अस्पर्धन्त) स्पर्धां विजयेच्छां कृतवन्तः (एष्यामः)
गमिष्यामः (श्वःसुत्याम्) आगमिदिने भव्यं सोमयागम् (अग्निरम्) आर्ष-
रूपम् । अग्निनामानं पुरुषम् (अद्यसुत्याम्) अद्यतनसोमयागम् (उपेमः) उपग-

त्वाम् उपेमः इति) वे अग्निर से बोले—हमारा अद्यसुत्या यज्ञ है, तू ही उन का और हमारा होता [हवन कराने हारा] है, हम तुम्हें को पहुँचते हैं [उन के सहित तुम्हें बुलाते हैं] । (सः अग्निः एत्य उवाच, अथ आदित्याः अद्यसुत्याम् ईक्षन्ते, कं वः होतारम् अवाचन् वा आह्वयन्ते, युष्माकं वयम् इति) वह अग्नि आकर बोला—अब आदित्य लोग अद्यसुत्या यज्ञ देखते हैं [करना विचारते हैं], सुख से तुम्हारे होता को वे कहते हैं और बुलाते हैं, तुम्हारे हम [होता] हैं । ते ह अङ्गिरसः चक्रुधुः, त्वं नु मा गमः, वयम् इति) वे अङ्गिरा ऋषि क्रोधित हुये—तू अब मत जा, हम [भी न जावेंगे] । (न इति ह अग्निः उवाच) ऐसा नहीं—यह अग्नि बोला । (अनिन्द्याः वै मा आह्वयन्ते, तत् हि किल्बिषं यः अनिन्द्यस्य हवं न इति) अनिन्दनीय [श्रेष्ठ पुरुष] मुझे बुलाते—हैं, यह पाप है, जो मैं अनिन्दनीय के बुलावे को न [मानूँ] । (तस्मात् अतिदूरम् अत्यल्पम् इति) इस लिये यह बहुत दूर [अश्लील] और बहुत तुच्छ बात है । (देवाः यजमानस्य हवम् इयाः, तत् हि किल्बिषं यः अनिन्दस्य हवत्वेति = हवन्न इति) देवताओं [विद्वान् लोगों] ने यजमान के बुलावे को माना है, यह पाप है, जो मैं अनिन्दनीय के बुलावे को न [मानूँ] ॥

च्छेमः (एत्य) आगत्य (कम्) सुखेन (चक्रुधुः) चुक्रुधुः । क्रोधितवन्तः (अनिन्द्याः) अनिन्दनीयाः । श्रेष्ठाः (किल्बिषम्) पापम् (हवम्) आवाहनम् (इयाः) इयुः । प्रापुः (याजयाञ्चक्रुः) यज्ञं कारितवन्तः (निन्युः) आनीतवन्तः । दत्तवन्तः (प्रतिजगृहुः) स्वीकृतवन्तः (निवृत्ता) त्यक्ता (उभयतःशीर्ष्णा) उत्तरदक्षिणध्रुवरूपशिरोयुक्ता (शुचाविद्धाः) व्यध ताडने-क्त । शोकेन वाधिताः (निरदीर्यन्ते) विदारिता वर्त्तन्ते (प्रतरः) प्रदराः—ए० ब्रा० ६ । ३५ । विदारणानि (अधिगम्यन्ते) ज्ञायन्ते । दृश्यन्ते (उपाकुर्यात्) स्वीकुर्यात् (प्रमृजेत्) मृजू शौचालङ्कारयोः । अलङ्कुर्यात् (प्रमृणजानीति) मृण हिंसायाम्, आर्ष-रूपम् । प्रमृणीयात् । नाशयेत् (वृणुह्युः) पृषिदिव्यधि० । उ० १ । २३ । वृणु प्रीणने—कु । यजिमनिशुन्धि० । उ० ३ । २० । हु दानादानयोः अदने च—युच्, दीर्घः । सुखस्य ग्रहीता (पराची) पर + अश्नु गतिपूजनयोः—किन्, डीप् । शत्रु-गता (विवृणक्ति) वृजी वर्जने । वर्जयति । त्यजति (प्रति) प्रत्यक्षम् (आयन्) अगच्छन्, प्राप्नुवन् (प्रतिहितेषु) प्रत्यक्षधृतेषु पदार्थेषु (अगृह्णन्) अगृह्णन् गृहीतवन्तः (अहानेतरसम्) सम्यानच् स्तुवः । उ० २ । ८६ । अह व्याप्तौ—आनच् । तरो बलनाम—निघ० २ । ६ । ततः अर्शआद्यच् । अहाने व्याप्तौ तरसं

(तान् आदित्यान् ह अङ्गिरमः याजयांचकुः) उन आदित्य ऋषियों को अङ्गिराओं ने यज्ञ करा दिया । (तेभ्यः हि इमां पृथिवीं दक्षिणां निन्युः, तं [=तां] ह न प्रतिजगृहुः) उन [अङ्गिराओं] को उन्हां ने यह पृथिवी दक्षिणा दी, उस को उन [अङ्गिराओं] ने न लिया । (सा हि इयं निवृत्ता उभतःशीर्ष्णा) सा ही यह त्यागी हुई [पृथिवी] देा ओर शिर वाली [उत्तर और दक्षिण ध्रुव रूप शिर वाली] है । (दक्षिणाः शुचाविद्धाः शोचमानाः कुपिताः व्यचरन्, नः मा प्रतिगृहीषुः इति) वह दक्षिणायें सोच में छिदी हुई, शोक करती हुई, कुपित होकर विचरने लगीं—उन्हीं ने हमें नहीं ग्रहण किया है । (तस्मै [=तस्मात्] एताः [=एते] निरदीरयन्ते, ये एते प्रतराः [=प्रदराः] अधिगभ्यन्ते) इस लिये यह फट गये हैं, जो यह खड़े [पहाड़ नदी आदि विषम स्थान] जाने जाते हैं । (तस्मात् निवृत्तदक्षिणां न उपाकुर्यात्, न एनां दक्षिणां प्रमृजेत् नेत् प्रमृण-जानीति) इस लिये त्यागी हुई दक्षिणा को न लेवे, न इस दक्षिणा को सजावे और न नष्ट करे । (तस्मात् अस्य यः एव समान जन्मा वृणुह्युः भ्रातृव्यः स्यात्, तस्मै एनां दद्यात्) इस लिये इस [यजमान] का समान जन्म वाला, सुख छीनने वाला शत्रु होवे, उस को यह [दक्षिणा] देवे । (तत् पराची दक्षिणा नः विवृणक्ति, द्विषति भ्रातृव्ये अन्ततःशुचं प्रतिष्ठापयति) सो वह शत्रु को पहुंची हुई दक्षिणा हमें त्याग देती है, अप्रिय शत्रु पर अंत में शोक स्थापित करती है ॥

(यः असौ तपति, सः वै शंसति, आदित्या ह जरितरङ्गिरोभ्यो दक्षिणा-मनयन्, तां ह जरितः प्रत्यायन् इति, न हि इमां पृथिवीं प्रत्यायन्) जो वह

बलयुक्तं व्यवहारम् (चेतनानि) चेतनाः । ज्ञानानि (विचेता) विचेता । विचेतिता । विज्ञापकः (यज्ञानेतरसम्) सम्यातच् स्तुवः । उ० २ । ८६ । यज देवपूजासंगतिकर्णदानेषु—आनच्, नकारश्छान्दसः । यज्ञे वलियुक्तं व्यवहारम् (न) सम्प्रति (पुरोगवामः) गु गतौ—लट्, परस्मैपदम् । गवते गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । अग्नेभूत्वा गच्छामः प्राप्नुमः । (पुरोगवी) अग्रगामी (स्रस्तम्) पतितम् । शत्रुम् (इतिरेतत्) अतरेत् । अविभवेत् (अन्ता) अन्ते (श्वेतः) शुक्लवर्णः सूर्यः (आशुपत्वाः) अशु प्रुषिलटि० । उ० १ । १५१ । आशु+पत गतौ—कन् । हे शीघ्रगामिनः (उतो) निश्चयेन (पद्माभिः) पाद—यत्, पद्-भावः । पादाय गमनाय हिताभिर्गतिभिः (यविष्ठः) युवन्—इष्टन् । अतिश-येन बलवान् (उत) अवश्यम् (ईम्) प्राप्तव्यम् (आशु) शीघ्रम् (मानम्) शरिमाणम् (पिपति) पूरयति (शिषुपति) पृभिदिथधि० । उ० १ । २३ ।

[सूर्य] तपता है वह ही प्रशंसा किया जाता है—आहित्या ह.....अथ० २० । १३५ । ६, [मन्त्र के पहिले तीन पाद हैं] उन्हों [अङ्गिगत्रों] ने इस पृथिवी को प्रत्यक्ष नहीं पाया है । (तामु ह जरितः प्रत्यायन् इति प्रतिहितेषु मा आयन्) तामु ह जरितः प्रत्यायन् [उस मन्त्र का चौथा पाद] प्रत्यक्ष रक्खे पदार्थों में [उन्हों ने उस को] नहीं पाया । (तां ह जरितर्नः प्रत्यगृभ्णन् इति, न हि इमां पृथिवीं प्रत्यगृभ्णन्) तां ह जरितर्नः प्रत्यगृभ्णन् [उसी सूक्त के मन्त्र ७ का पहिला पाद] उन्हों ने इस पृथिवी को प्रत्यक्ष नहीं लिया है । (तामु ह जरितर्नः प्रत्यगृभ्णन् इति, प्रगृह्य आदित्यम् अगृभ्णन्) तामु ह जरितर्नः प्रत्यगृभ्णन् [उसी मन्त्र का दूसरा पाद] [पृथिवी को] ग्रहण करके सूर्य को उन्हों ने ग्रहण किया । (न हानेतरसं [अहानेतरसं] न वि चेतनानि इति, एषः ह वै अहनां विचेता, यः असौ तपति, सः वै शंसति) अहानेतरसं न वि चेतनानि [उसी मन्त्र का तीसरा पाद], यह ही दिनों का जताने वाला है, जो वह तपता है, वही प्रशंसा किया जाता है । (यज्ञानेतरसं न पुरोगवामः इति, एषः ह वै यज्ञस्य पुरोगवी, यत् दक्षिणाः यथा अर्हामः एषः एव ईश्वरः उन्नेता अन्ता स्रन्तम् इतिरेतत्) यज्ञानेतरसं न पुरोगवामः [उसी का चौथा पाद] यह ही यज्ञ का अग्रगामी है, क्योंकि जैसे हम दक्षिणाओं के योग्य होते हैं, यह ही समर्थ ऊंचा ले जाने वाला [सूर्य] अन्त में गिरे हुये [शत्रु] को हरा देता है । (उन श्वेत आशु पत्वा उतो पद्याभिर्यविष्ठः । उतेमाशु मानः [मानं] पिपर्ति इति, एषः एव श्वेतः एषः शिषुपति, एषः उतो पद्याभिः यविष्ठः उत ईम् आशुमानं पिपर्ति इति) उत श्वेतः अशुपत्वाः... [उसी सूक्त का मन्त्र ८] यही श्वेत है यही हिंसक [विष्णु] का गिरावे वाला है और यही चलने योग्य गतियों से अति बलवान् होकर अवश्य पाने योग्य परिमाण को शीघ्र पूरा करता.

शिष हिंसायाम्—कु । सर्वधातुभ्य इन् । उ० ४ । ११८ । पत अधोगतौ—इन्, विभक्तिलुक् । हिंसकानां विज्ञानामधोगमयिता (अनु) अनुसृत्य (ते) प्रसिद्धाः (राधः) धनम् (प्रति) प्रत्यक्षेण (गृम् गीहि) गृहाण (अङ्गिरः) हे विज्ञानिन् (विभुः) व्यापकम् (प्रभुः) समर्थम् (वृ इत्) बहु (प्रथुः) विस्तृतम् (ददतु) प्रयच्छन्तु (आसुरम) असुर—अण् भावे । असुरत्वं प्रज्ञावत्त्वं वानवत्त्वं वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्थानस्ताश्चास्यामर्थाः—निरु० १० । ३४ । बुद्धिमत्त्वम् (वः) युष्माकम् (सुचेतनम्) प्रशस्तज्ञानम् (गृभायन्) गृह्णीत (भूतेच्छन्दः) चन्दे-रादेश्च छुः । उ० ४ । २१६ । भूते + छुदि आच्छादने—असुन् । ऐश्वर्ये शत्रुच्छादनम् ।

है । (आदित्या रुद्रा वसवस्ते नु तः [वसवस्त्वेऽनु त] इदं राधः प्रतिगृभ्णीह्य-
ङ्गिरः । इदं राधो विभुः प्रभुरिदं राधो वृहत् पृथुः ॥ देवा ददत्वासुरं तद् वो
अस्तु सुचेतनं । गुष्मा अस्तु दिवे दिवे प्रत्येव गृभायत इति) आदित्या रुद्रा
.....वृहत् प्रथुः । देवा ददत्वासुरं.....गृभायत इति [यह दो उसी सूक्त के
मन्त्र ६, १० भेद से हैं] । (तत् यत् आदित्याः च आङ्गिरसीः च शंसति,
स्वर्गतायै एव एतत् अहरहः यथा निविदः शंसति) सो जो आदित्या और
आङ्गिरसी ऋचाओं को वह बोलता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिये ही इस को निविदों
के समान [मन्त्र के अन्त में भी ओम् बोल कर] दिन दिन वह बोलता है ॥

(अथ भूतेच्छन्दः शंसति) फिर भूतेच्छन्द [ऐश्वर्य में शत्रु को ढकना]
वह बोलता है । (त्वमिन्द्र शर्म रिणा इति, इमे वै लोकाः भूतेच्छन्दः असुरान्
ह वै देवाः अन्नं सेचिरे) त्वमिन्द्र शर्म रिणाः... [उसी सूक्त के मन्त्र ११-१३]
इन ही लोकों में भूतेच्छन्दों द्वारा असुरों से ही देवताओं ने अन्न सेवन किया ।
(भूतेन भूतेन तान् जिघांसन्तः तितीर्षमाणाः इमे देवाः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अच्छा-
दयन्) प्रत्येक ऐश्वर्य से उन [शत्रुओं] को मारना चाहते हुये और हराना
चाहते हुये इन देवताओं ने सब प्राणियों के लिये ढक दिया । (तत् यत् एतान्
इमे देवाः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अच्छादयन् तस्मात् भूतेच्छन्दः, तत् भूतेच्छन्दाम्
[=भूतेच्छन्दसाम्] भूतेच्छन्दत्वम्) सो जो इन [शत्रुओं] को इन देवताओं
ने सब प्राणियों के लिये ढक दिया, इस लिये यह भूतेच्छन्द [ऐश्वर्य में ढकने
वाला] है, यही भूतेच्छन्दों का भूतेच्छन्दत्व है । (इमे लोकाः सर्वेभ्यः लोकेभ्यः
ह वा अपरम् छादयन्ति निरघ्नन्) यह लोक [देवता लोग] सब प्राणियों के
लिये निश्चय करके बैरी को ढक लेते और मार निकालते हैं । (सर्वेभ्यः भूतेभ्यः
अच्छन्दते [छन्दते], यः एवं वेद) सब प्राणियों से [शत्रुओं को] वह ढक
देता है, जो ऐसा विद्वान् है ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य नीति निपुण होकर उपद्रवी शत्रुओं को निकाल
देते हैं, वे ही अपनी और प्रजा की रक्षा कर सकते हैं ॥ १४ ॥

एतन्नामसूक्तम् (शर्म) शरणम् । सुखम् (रिणा) रिणाः । अरिणाः । प्रापि-
तवानसि (सेचिरे) षच सेवने । से वितवन्तः (जिघांसन्तः) हन्तुमिच्छन्तः
(तितीर्षमाणाः) तरितुमभिभवितुमिच्छन्तः (अच्छादयन्) आच्छादितवन्तः
(निरघ्नन्) नाशितवन्तः (छन्दते) आच्छादयति शत्रून् ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ६ । ३४, ३५, ३६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—शुद्धि इस प्रकार है,—(हव त्वेति)=(हवन्न इति) इसी कण्डिका में ऊपर देखो । (न हानेतरसम्)=(अहानेतरसम्) अथ० २० । १३५ । ७ । (मानः)=(मानम्)—मन्त्र ८, (तः)=(त=ते), मन्त्र ६, (रिणा)=(रिणाः) मन्त्र ११ । कुछ और शब्द भी कोष्ठ में शुद्ध दिये हैं ॥

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥

१, आदित्या और आङ्गिरसी ऋचायें—आदित्या ह जरितरङ्गरोभ्यो दक्षिणामनयन् । तां ह जरितः प्रत्यायस्तामु ह जरितः प्रत्यायन्—अथ० २० । १३५ । ६ ॥ (आदित्याः) अखण्ड ब्रह्मचारियों ने (ह) ही, (जरितः) हे स्तुति करने वाले ! (आङ्गिरोभ्यः) विज्ञानी पुरुषों के लिये (दक्षिणाम्) दक्षिणा [दान वा प्रतिष्ठा] को (अनयन्) प्राप्त कराया है । (ताम्) उस [दक्षिणा] को (ह) ही, (जरितः) हे स्तुति करने वाले ! (प्रति आयन्) उन्होंने ने प्रत्यक्ष पाया है, (ताम्) उस [दक्षिणा] को (उ) निश्चय करके (ह) ही, (जरितः) हे स्तुति करने वाले ! (प्रति आयन्) उन्होंने ने प्रत्यक्ष पाया है ॥

२—तां ह जरितर्नः प्रत्यगृभ्णस्तामु ह जरितर्नः प्रत्यगृभ्णः । अहानेतरसं न वि चेतनानि यज्ञानेतरसं न पुरोगवामः—अथ० २० । १३५ । ७ ॥ (ताम्) उस [दक्षिणा] को (ह) ही, (जरितः) हे स्तुति करने वाले ! (नः) हमारे लिये (प्रति अगृभ्णन्) उन्होंने ने [विज्ञानियों ने—मन्त्र ६] प्रत्यक्ष पाया है, (ताम्) उस को (उ) निश्चय करके (ह) ही, (जरितः) हे स्तुति करने वाले ! (नः) हमारे लिये (प्रति अगृभ्णः) तू ने प्रत्यक्ष पाया है । (न) अभी (अहानेतरसम्) व्यक्ति में बल रखने वाले व्यवहार को, (वि) विविध (चेतनानि) चेतनाओं को, और (न) अभी (यज्ञानेतरसम्) यज्ञ [देवपूजा, संगतिकरण और दान] में बल रखने वाले व्यवहार को (पुरोगवामः) हम आगे होकर पावें ॥

३—उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्याभिर्यविष्ठः । उतेमाशु मानं पिपति—अथ० २० । १३५ । ८ ॥ (आशुपत्वाः) हे शीघ्रगामी पुरुषो ! (श्वेतः) श्वेत वर्ण वाला [सूर्य] (उत) भाँ (यविष्ठः) अत्यन्त बलवान् होकर (पद्याभिः) चलने योग्य गतियों से (उतो) निश्चय करके (उत) अवश्य (ईम्) प्राप्ति योग्य (मानम्) परिमाण को (आशु) शीघ्र (पिपति) पूरा करता है ॥

४—आदित्या रुद्रा वसवस्त्वेऽनु' त इदं राधः प्रति गृभ्णीह्यङ्गिरः ।
इदं राधो विभु प्रभु' इदं राधो वृहत् पृथु'—अथ० २० । १३५ । ६ ॥ [हे शूर
सेनापति !] (ते) वे (आदित्याः) अखण्डः ब्रह्मचारी [अथवा १२ महीने],
(रुद्राः) ज्ञान दाता [अथवा ११ रुद्र, १० प्राण और आत्मा] और (वसवः) श्रेष्ठ
विद्वान् लोग [अथवा पृथिवी आदि ८ वसु] (त्वे अनु) तेरे पीछे पोछे हैं,
(अङ्गिरः) हे विज्ञानी पुरुष ! (इदम्) इस (राधः) धन को (प्रति) प्रत्यक्ष
रूप से (गृभ्णीहि) तू ग्रहण कर । (इदम्) यह (राधः) धन (विभु) व्यापक
और (प्रभु) बलयुक्त है, (इदम्) यह (राधः) धन (वृहत्) बहुत और
(पृथु) विस्तीर्ण है ॥

५—देवा ददत्वास्तु'रं तद् वे' अ तु सुचेततम् । युष्माँ अस्तु दिवे'दिवे
प्रत्येव' गृभायत—अथर्व० २० । १३५ । १० ॥ [हे मनुष्यो !] (देवाः) विद्वान्
लोग (आसुरम्) बुद्धिमत्ता (ददतु) देवों, (तत्) वह (वः) तुम्हारे लिये
(सुचेतनम्) सुन्दर ज्ञान (अस्तु) होवे । (युष्मान्) तुम को वह (दिवे'दिवे)
दिन दिन (अस्तु) होवे, [उस को] (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (पव) ही
(गृभायत) तुम ग्रहण करा ॥

६—भूतेच्छन्द मन्त्र—त्वमिन्द्र शर्म रिणा हव्यं पारावतेभ्यः । विप्राय
स्तुवते व'पुवनिं दुग्शवसे वह—अथ० २० । १२५ । ११, मन्त्र १२, १३ वेद में
देखो ॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (त्वम्) तू ने (शर्म)
शरण और (हव्यम्) हव्य [विद्वानों के योग्य अन्न] (पारावतेभ्यः) पार और
अवार देश वाले लोगों के लिये (रिणाः) पहुँचाया है । (स्तुवते) स्तुति करने
वाले (विप्राय) बुद्धिमान् के लिये (वसुवनिम्) धनों का सेवन (दुग्शवसे)
दुष्ट अपयश मिटाने को (वह) प्राप्त करा ॥

कण्डिका १५ ॥

अथाहनस्याः शंसति, यदस्या अंहुभेद्या इत्याह, न स्याद्वा इदं सर्वं प्रजा-
तमाह, न स्याद्वा एनदधिप्रजायतेऽस्यैव सर्वस्याप्त्यै प्रजात्यै । ना वै षट् शंसेत्,
षड् वा ऋतवः, ऋतवः पितरः, पितरः प्रजापतिः, प्रजापतिराह, न स्यात् तादृशं
शंसदिति । शाम्भव्यस्य वचः, दशाक्षरा विराड्, वैराजो यज्ञः, तङ्गर्भा उपजी-
वन्ति । श्रीवै विराड्, यशोऽन्नाद्यं, श्रियमेव तद्विराजं यशस्यन्नाद्ये प्रतिष्ठापयति ।
प्रतिष्ठन्तीरिदं सर्वमनु प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ।
तिष्ठः शंसदिति वात्स्यः । त्रिवृद्धै रेतः सिक्तं सम्भवत्याण्डमह्यं जरायुस्त्रिवृत्

प्रत्ययं, माता पिता यज्जायते, तत् तृतीयम्, अभूतोद्यमेवैतत्, यच्चतुर्थीं शंसेत् ।
सर्वा एव षोडश शंसदिति हैके । कामार्त्तो वै रेतः सिञ्चति, रेतसः सिक्ताः प्रजाः
प्रजायन्ते, प्रजानां प्रजननाय । प्रजावान् प्रजनयिष्णुर्भवति, प्रजात्यै प्रजायते
प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ १५ ॥

कण्डिका १५ ॥ कुन्ताप सूक्तों में आहनस्या ऋचाओं का प्रयोग ॥

(अथ आहनस्याः शंसति, यदस्या अहुभेद्या इति आह) फिर आहन-
स्यायें [संयोग सूचक ऋचायें] वह बोलता है—यदस्या अहुभेद्या—अथ० २० ।
१३६ । १—१६, यह सूक्त बालता है । (आह इदं सर्वं प्रजातं वै न स्यात्, न
स्यात् एतत् वै अधिप्रजयते, अस्य सर्वस्य एव आप्त्यै प्रजात्यै) वह कहता है—
यदि यह सब प्रकट किया गया न होवे, यह भी न होवे कि यह [जगत्] प्रकट
होवे, इस सब [जगत्] की प्राप्ति और उत्पत्ति के लिये [यह कर्म है] । (ताः
वै षट् शंसेत्) उन छह ही [ऋचाओं] को बोले । (षट् वै ऋतवः, ऋतवः
पितरः, पितरः प्रजापतिः) छह ही ऋतुयें हैं, ऋतुयें पितर [पालने वाले] हैं,
पितर प्रजापति [प्रजापालक] है । (प्रजापतिः आह, न स्यात्, तादृशं शंसेत्
इति) प्रजापति कहता है—अब ऐसा होवे, वैसा बोले [सृष्टि उतपादन मन्त्र
बोले] । (शाम्भव्यस्य वचः, दशान्नरा विराट्, वैराजः यज्ञः, गर्भाः तम् उप-
जीवन्ति) शाम्भव्य ऋषि का वचन है—[दस ऋचायें बोले] दस अन्नर
वा ना विराट् छन्द है, विराट्, [विविध पेश्वर्य] वाला यज्ञ है, गर्भ उस
[यज्ञ] के आश्रय जीते हैं । (श्रीः वै विराट्, यशः, अन्नाद्यं, तत् श्रियम् एव
विराजं यशसि अन्नाद्ये प्रतिष्ठापयति) श्री [सम्पत्ति] ही विरट्, यश और
खाने योग्य अन्न है, तब श्री [अर्थात्] विराट् को यश में और खाने योग्य
अन्न में वह स्थापित करता है । (प्रतिष्ठन्तीः अनु इदं सर्वं प्रतिनिष्ठति)
ठहरी हुई [प्रजाओं] के साथ साथ यह सब प्रतिष्ठा पाता है । (प्रजया पशुभिः
प्रतिनिष्ठति, यः एवं वेद) प्रजा से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा [ठहराव]
पाता है, जो ऐसा विद्वान् है । (तिस्रः शंसेत् इति वात्स्यः) तीन [ऋचायें]

१५—(आहनस्याः) सर्वधातुभ्योऽसुन् । उ० ४ । १८६ । आ + हन हिंसा-
गत्योः—असुन्, आहनस्—यत्, टाप् । आहनसः आहननस्य संयोगस्य सम्ब-
न्धिनीः ऋचः (अहुभेद्या) भृमृशीङ् । उ० १ । ७ । अम रोगे पीडने च—उ
प्रत्ययः, हुक् च । अंहुरः = अंहस्वान्—निरु० ६ । २७ । अवितृस्त् तन्त्रिभ्य ई ।

बोले, यह वात्स्य [कहता है] । (त्रिवृत् वै रेतः सिक्तं सम्भवति—आण्डम् अल्पं जरायुः त्रिवृत् प्रत्ययम्) तीन विधि से वर्तमान ही सींचा हुआ वीर्य समर्थ होता है—आण्ड [आण्डज पत्नी आदि], अल्प [सूक्ष्म, अङ्कुर वृक्ष आदि] और जरायु [जरायुज मनुष्य आदि] यह तीन विधि से वर्तमान प्रतीति है । (माता पिता, यत् जायते, तत् तृतीयम्) माता और पिता [दे] और जो उत्पन्न होता है वह तीसरा है [यह भी त्रिवृत् है] । (अभूतोद्यम् एव एतत्, यत् चतुर्थीं शंसेत्) भविष्य कर्म का कथन ही यह है जो चौथी [ऋचा] को बोले । (सर्वाः एव षोडश शंसेत् इति ह एके) सब ही सोलह [ऋचाओं] को बोले—यह कोई कोई [कहते हैं] । (कामार्तः वै रेतः सिञ्चति, रेतसः सिक्ताः प्रजाः प्रजानां प्रजननाय प्रजायन्ते) काम से पीड़ित पुरुष ही वीर्य सींचता है, वीर्य से सींची हुई प्रजायें प्रजाओं के उत्पन्न करने के लिये उत्पन्न होती हैं । (प्रजनयिष्णुः प्रजावान् भवति, प्रजात्यै प्रजया पशुभिः प्रजायते, यः एवं वेद) उत्पन्न करने वाला पुरुष प्रजाओं वाला होता है, प्रजा की उत्पत्ति के लिये प्रजा से और पशुओं से वह बढ़ता है, जो ऐसा विद्वान् है ॥१५॥

भावार्थ—जो मनुष्य वेदों के तत्त्व सार को समझ कर संसार में काम करते हैं, वे धन धान्य, प्रजा और पशुओं से समृद्ध होते हैं ॥

टिप्पणी १—इस करिडका को ऐतरेय ब्राह्मण ६ । ३६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—सोलह ऋचाओं में से प्रतीक वाला एक मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है, शेष वेद में देखा ॥

यदस्या अंहुभेदाः कृथु स्थूलमुपात्सत् । मुष्काविदस्या एजतो गोशुफे शकुलाविंव—अथ० २० । १३६ । १—६, तथा मन्त्र १ ययुर्वेद २३ । २८ ॥

उ० ३ । १५८ । मिदिर् विदारणे—ई प्रत्ययः । अंहुना पापेन भेदनीया विदारणीया या सा अंहुभेदी तस्याः प्रजायाः (न) निषेधे । सम्प्रति (त्रिवृत्) त्रिविधवर्तमानम् (सम्भवति) समर्थं भवति (आण्डम्) जमन्ताड् डः । उ० १ । ११४ । अम संयोगे—ड, अण् । पद्यादिप्रादुर्भावकोषजम् । आण्डजम् (अल्पम्) पानीविषिभ्यः पः । उ० ३ । २३ । अल वारणपर्याप्तिभूषासु—प । सूक्ष्मम् । अङ्कुरजम् (जरायुः) किंजरयोः श्रिणः । उ० १ । ४ । जरा+इण् गतौ—अण् । गर्भाशयः । गर्भजम् (प्रत्ययम्) प्रतीतिः (अभूतोद्यम्) वद कथने—क्यप् । अभूतस्य अनतीतस्य अनागतस्य भविष्यकर्मणः कथनम् (प्रजनयिष्णुः) श्लेषेन्दसि । पा० ३ । ३ । १३७ । प्रजनयतेः—इष्णुच् । प्रजनयिता ॥

(यत्) जब (अस्याः) इस (अंहुभेद्याः) पाप से नाश होने वाली [प्रजा] के (कृधु) छोटे और (स्थूलम्) बड़े [पाप] को (उपातसत्) वह [राजा] नाश करता है । (अस्याः) इस [प्रजा] के (मुष्कौ इत्) दोनों ही चोर [स्त्री और पुरुष चोर अथवा राति और दिन के चोर] (गोशफे) गौ के खुर के गढ़े में (शकुलौ इव) दो मछलियों के समान (एजतः) कांपते हैं [डरते हैं] ॥

कण्डिका १६ ॥

अथ दाधिक्रीं शंसति, दधिक्राव्शो [दधिक्राव्णो] अकारिषमिति । तत उत्तराः पावमानीः शंसति, सुतासो मधुमत्तमा इति । अन्नं वै दधिकाः, पवित्रं पावमान्यः, तदु हैके पावमानीभिरेव पूर्वं शस्त्वा तत उत्तरा दाधिक्रीं शंसति । इयं वागन्नाद्या, यः पवत इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात्, उपनश्यति ह वाग-शनायती । स दाधिक्रीमेव पूर्वं शस्त्वा तत उत्तराः पावमानीः शंसति । तद्य-दाधिक्रीं शंसति, इयं वागाहनस्यां वाचमवादीत्, तद्देवपवित्रेणैव वाचं पुनीते । स वा अनुष्टुप् भवति । वाग्वा अनुष्टुप्, तत् स्वेनैव छन्दसा वाचं पुनीते । तामर्द्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव । अथ पावमानीः शंसति, पवित्रं वै पाव-मान्यः, इयं वागाहनस्यां वाचमवादीत्, तत्पावमानीभिरेव वाचं पुनीते । ताः सर्वा अनुष्टुभो भवन्ति, वाग्वा अनुष्टुप्, तत्स्वेनैव छन्दसा वाचं पुनीते । ता अर्द्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव अथ द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदिति । एतं तृच-मैन्द्रावार्हस्पत्यं सूक्तं शंसति । अथ हैतदुत्सृष्टं, तत् यदेतं, तृचमैन्द्रावार्हस्पत्य-मन्त्यं तृचमैन्द्राजागतं शंसति, सवनधारणमिदं गुल्मह इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात् । त्रिष्टुभायतना वा इयं वाक् एषां होत्रकाणां, यदैन्द्रावार्हस्पत्या तृतीय-सवने । तद्यदेतं तृचमैन्द्रावार्हस्पत्यमन्त्यं तृचमैन्द्राजागतं शंसति, स्व एवैनं तदायतने प्रीणाति, स्वयोर्देवतयोः कामं नित्यमेव परिदध्यात्, कामं तृचस्योत्त-मया । तदाहुः, संशंसेत्, षष्ठेऽहनि न संशंसेत्, कथमन्येष्वहःसु संशंसति कथमत्र न संशंसतीति । अथो खलवाहुः, नैव संशंसेत् स्वर्गो वै लोकाः, षष्ठ-महरसमा ये वै स्वर्गो लोकः कश्चिद्वै स्वर्गे लोके शमयतीति । तस्मान्न संशंसति यदेव न संशंसति, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम् । यद्वेवैनाः संशंसति, यज्ञा-भानेदिष्टे [नाभानेदिष्टो] बालखिल्यो वृषाकपिरेवयामरुत् । एतानि वा अत्रो-क्थानि भवन्ति । तस्मान्न संशंसति । ऐन्द्रो वृषाकपिः सर्वाणि छन्दांस्यैतशः

प्रलाप उपाप्तो यदैन्द्रावार्हस्पत्या तृतीयसवने, तद्यदेतं तृचमैन्द्रावार्हस्पत्यं सूक्तं शंसति, ऐन्द्रावार्हस्पत्या परिधानीया विशो अदेवीरभ्याचरन्तीरिति । अपरजना ह वै विशो अदेवीः, न ह्यस्यापरजनं भयं भवति, शान्ताः प्रजाः क्लृप्ताः सहन्ते, यत्रैवंविदं शंसति यत्रैवंविदं शंसतीति ब्राह्मणम् ॥ १६ ॥

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणोत्तरभागे षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः ॥

समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥

कण्डिका १६ ॥ कुन्ताप सूक्तों में दाधिक्रीं, पवमानी और ऐन्द्रा-
वार्हस्पत्य ऋचाओं का प्रयोग, षडह यज्ञ की समाप्ति ॥

(अथ दाधिक्रीं शंसति, दधिकावशो [दधिकावणो] अकारिषम् इति)
फिर दाधिक्री [दधिका शब्द वाली ऋचा] को वह बोलता है—दधिकावणो
अकारिषम्..... अथ० २० । १३७ । ३, यह मन्त्र है । (ततः उत्तराः पावमानीः
शंसति, सुतासो मधुमत्तमाः इति) फिर पीछे वाली पावमानी [शुद्ध करने
वाली ऋचायें] वह बोलता है—सुतासो मधुमत्तमाः.....अथ० २० । १३७ ।
४—६, यह ऋचायें हैं । (अन्नं वै दधिका, पवित्रं पावमान्यः) अन्न ही दधिका
[धारण करने वाला और ले चलने वाला] है, और पवित्र [शुद्ध आचरण]
पावमानी [शुद्ध करने वाली क्रियायें] हैं । (तत् उ ह एके पावमानीभिः [=पाव-
मानीः] एव पूर्वं शस्त्वा ततः उत्तरा [=उत्तरां] दाधिक्रीं शंसति) फिर ही
कोई कोई [कहते हैं]—पावमानी ऋचाओं को पहिले बोलकर उस से पीछे
दाधिक्री बोलता है । (इयं वाक् अन्नाद्या, यः पवते—इति वदन्तः तत् उ तथा
न कुर्यात्, अशनायती ह वाक् उपनश्यति) यह वाक् अन्नाद्या [अन्न खाने वाली]
है, यः पवते—यह [ब्राह्मण वचन] वे बोलत हैं, इस लिये वह वैसा न करे
[पावमानियों को पहिले न बोले], भूखी वाणी नष्ट हो जाती है । (सः दाधि-

१६—(दाधिक्रीम्) दधि+क्रमु पादविक्षेपे—विट्, अनुनासिकस्य
आकारः, दधिका—अण्, डीप् । दधिका एव दधिकावा । दधिका शब्दयुक्ता-
मृचम् (दधिकावणः) डुधाञ् धारणपोषणयोः—कि, दधि+क्रमु पादविक्षेपे
वनिप् । दधिकावा अश्वनाम—निघ० १ । १४ । दधत् क्रामतीति—निघ० २ ।

क्रीम् एव पूर्वं शस्त्वा ततः उत्तराः पावमानीः शंसति) वह दाधिक्री ही ऋचा पहिले बोलकर फिर पीछे वाली पावमानियों को बोलता है । (तत् यत् दाधिक्रीं शंसति, इयं वाक् आहनस्यां वाचम् अवादीत्, तत् देवपवित्रेण एव वाचं पुनीते) फिर वह जो दाधिक्री ऋचा बोलता है, यह वाणी आहनस्या वाणी [संयोग वाली ऋचा—कण्डिका १५] को बोलती है, तब विद्वानों की पवित्रता से ही वाणी को शुद्ध करता है । (सः [=सा] वै अनुष्टुप् भवति) वह ही अनुष्टुप् छन्द है । (वाक् वै अनुष्टुप्, तत् स्वेन एव छन्दसा वाचं पुनीते) वाणी ही अनुष्टुप् है [निघ० १ । ११], तब वह अपने ही छन्द से वाणी को शुद्ध करता है । (ताम् अर्धर्चशः प्रतिष्ठित्यै एव शंसति) उस [दाधिक्री] को आधी आधी ऋचा से प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥

(अथ पावमानीः शंसति) फिर पावमानी ऋचायें वह बोलता है । (पवित्रं वै पावमान्यः, इयं वाक् आहनस्यां वाचम् अवादीत्, तत् पावमानीभिः एव वाचं पुनीते) पवित्र आचरण ही पावमानी ऋचायें [शुद्ध व्यवहार क्रियायें] हैं, यह वाणी आहनस्या वाणी को बोलती है, तब पावमानी ऋचाओं ही वाणी को वह शुद्ध करता है । (ताः सर्वाः अनुष्टुभः भवन्ति, वाक् वै अनुष्टुप् तत् स्वेन एव छन्दसा वाचं पुनीते) वे सब अनुष्टुप् छन्द हैं, वाणी ही अनुष्टुप् है, तब वह अपने ही छन्द से वाणी को शुद्ध करता है । (ताः अर्धर्चशः प्रतिष्ठित्यै एव शंसति) उन को आधी आधी ऋचा करके प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥

(अथ द्रप्सा अंशुयतीमतिष्ठत् इति, एतं तृचम् ऐन्द्रावार्हस्पत्यं सूक्तं शंसति) अथ द्रप्सा अंशुमतीमतिष्ठत् इति... अथ० २० । १३७ । ७—६, इस तृच इन्द्र और बृहस्पति देवता वाले सूक्त को वह बोलता है । (अथ ह

२७ । धारणशीलस्य क्रमणशीलस्य च (अकारिषम्) अहं कर्म कृतवानस्मि (उत्तराः) अनन्तराः (पावमानीः) पवित्रव्यवहारसूचिका ऋचाः (सुतासः) निष्पादिताः (मधुमत्तमाः) मधुना ज्ञानेन अतिशयेन युक्ताः (अशनायती) अशन—क्यच्—शतृ, डीप् । बुभुक्षिता (आहनस्याम्) आहननस्य संयोगस्य सूचिकामृचम् (अवादीत्) वदति (पुनीते) शोधयति (पवित्रेण) शुद्धव्यवहारेण (अनुष्टुप्) स्तोमति अर्चति कर्मा—निघ० ३ । १४ । अनु+ष्टुभ स्तम्भे

एतत् उत्सृष्टं, तत् यत् एतं तृचम् ऐन्द्रावार्हस्पत्यम् अन्त्यं तृचम् ऐन्द्राजागतं शंसति इदं सवनधारणं, गुल्महः इति वदन्तः, तत् उ तथा न कुर्यात्) फिर यह सूक्त छोड़ा हुआ है, इस लिये जो वह इस इन्द्र और वृहस्पति देवता वाले तृच और पिछले इन्द्र देवता वाले जगति [वा त्रिष्टुप्] छन्द के तृच को वह बोलता है, यह [तीनों] सवनों का धारण करना है, गुल्महः [शत्रु सेना का नाश करने वाला इन्द्र है] यह वह बोलते हैं, इस लिये ही वह वैसा न करे [इन तृचों को न बोले] । (त्रिष्टुभायतना वै एषां होत्रकाणाम् इयं वाक्, यत् ऐन्द्रावार्हस्पत्या तृतीयसवने) त्रिष्टुप् छन्द वाली ही इन सहायक होताओं की यह वाणी है, जो इन्द्र और वृहस्पति देवता वाली तीसरे सवन में है । (तत् यत् एतम् ऐन्द्रावार्हस्पत्यं तृचम् अन्त्यम् ऐन्द्राजागतं तृचं शंसति, तत् एनं स्वे एव आयतने प्रीणाती) सो जो इस इन्द्र और वृहस्पति वाले तृच और पिछले इन्द्र देवता वाले जगती [वा त्रिष्टुप्] छन्द के तृच को बोलता है उस से इस [इन्द्र] को ही अपने स्थान पर वह प्रसन्न करता है । (स्वयोः देवतयोः कामं नित्यम् एव परिदध्यात्, कामं तृचस्य उत्तमया) अपने ही दोनों देवताओं के [तृच से] चाहे नित्य ही पूरा करे, चाहे तृच की सब से पिछली ऋचा से [पूरा करे] ॥

(तत् आहुः, षष्ठे अहनि संशंसेत्, न संशंसेत्) फिर लोग कहते हैं—छठे दिन में [शिल्पसूक्तों को] मिलाकर बोले, [अथवा] न मिलाकर बोले । (कथम् अन्येषु अहःसु संशंसति, कथम अत्र न संशंसति इति) कैसे दूसरे दिनों में वह मिलाकर बोलता है और कैसे यहां [छठे दिन में] वह नहीं मिलाकर बोलता । (अथो खलु आहुः न एव संशंसेत्) [उत्तर] तब वे कहते हैं—वह मिलाकर न बोले । (स्वर्गः वै लोकाः [=लोकः] षष्ठम् अहः, असमाः ये [=असमः यः] वै स्वर्गः लोकः, कश्चित् वै स्वर्गं लोके शमयति इति)

स्तुतौ च—क्विप् । निरन्तरस्तुतिशीला । वाक्—निघ० १ । १२ । (द्रप्सः) वृत्तृवदिवचि० । उ० ३ । ६२ । दृप हर्षमोहनयोः, गर्वे च—सप्रत्ययः । गर्ववान् (अंशुमतीम्) मृगयवादयश्च । उ० १ । ३७ । अंश विभाजने—कु । विभागवतीं सीमायुक्तां नदीम् (अव अतिष्ठत्) अवस्थितवान् (उत्सृष्टम्) त्यक्तम् (गुल्महः) गुड वेष्टने रक्षणे च—मक्+हन हिंसागत्योः ड । शत्रुसेनानाशकः (परिद-

स्वर्ग ही लोक छुटा दिन है, वह असम [सब के लिये असमान अर्थात् न मिलने योग्य] है जो स्वर्ग लोक है, कोई ही [पुर्यात्मा] स्वर्ग लोक में शान्ति पाता है । (तस्मात् न संशंसति) इस लिये वह मिलाकर नहीं बोलता । (यत् एव न संशंसति, तत् स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्) जो वह मिलाकर नहीं बोलता, वह स्वर्ग लोक का रूप है । (यत् उ एव एनाः संशंसति, यत् नाभानेदिष्टे [=नाभानेदिष्टः], बालखिल्यः वृषाकपिः एवयामरुत्, एतानि वै अत्र उक्थानि भवन्ति, तस्मात् न संशंसति) जो ही वह इन [ऋचाओं] को मिलाकर बोलता है, जो नाभानेदिष्ट, बालखिल्य, वृषाकपि और एवयामरुत् [कण्डिका ८] हैं, यह ही यहां [छुटे दिन वाले यज्ञ में] उक्थ [प्रधान स्तोत्र] हो जाते हैं, इस लिये [इन को] मिलाकर न बोले । (ऐन्द्रः वृषाकपिः ऐतशः प्रलापः सर्वाणि छन्दांसि उपाप्तः, यत् ऐन्द्रावाहस्पत्या तृतीयसवने) इन्द्र देवता वाला वृषाकपि और ऐतश प्रलाप [सूक्त] सब छन्दों को प्राप्त हैं, जो इन्द्र और वृहस्पति देवता वाली [स्तुति] तीसरे सवन में है । (तत् यत् एतं तृचम् ऐन्द्रावाहस्पत्य सूक्तं संसति, ऐन्द्रावाहस्पत्या परिधानीया, विशो अदेवीरभ्या चरन्तीः इति) सो जो इस तृच इन्द्र और वृहस्पति देवता वाले सूक्त को वह बोलता है, वह इन्द्र और वृहस्पति वाली परिधानीया [समाप्ति सूचक ऋचा] है—विशो अदेवीरभ्याचरन्तीः ... अथ० २० । १३७ । ६ पाद ३, ४ यह बोली जाती है । (अपरजनाः ह वं अदेवीः विशः) [इस ऋचा में] बैरी लोग ही कुव्यवहार वाली प्रजायें हैं । (अस्य हि अपरजनं भयं न भवति, शान्ताः क्लृप्ताः प्रजाः सहन्ते, यत्र एवंविदं संसति यत्र एवंविदं संसति इति ब्राह्मणम्) उस [पुरुष] को बैरी से उत्पन्न भय नहीं होता है । [उस की] शान्ति युक्त समर्थ प्रजायें [बैरी को] हराती हैं, जहां ऐसे ज्ञान का वह बोलता है, जहां ऐसे ज्ञान को वह बोलता है—यह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान] है [द्विरावृत्ति ग्रन्थ समाप्ति सूचक है] ॥ १६ ॥

ध्यात्) समापयेत् (संशंसत्) ऐकाहिकानि सूक्तानि सम्भूय संसेत (शमयति) शान्तिं तृप्तिं प्राप्नोति (उक्थानि) प्रधानस्तोत्राणि (परिधानीया) समाप्तिक्रिया (विशः) प्रजाः (अदेवीः) कुव्यवहारवतीः (अभि) सर्वतः (आचरन्तीः) विचरन्तीः (अपरजनम्) शत्रुजनितम् (क्लृप्ताः) समर्थाः (एवंविदम्) विद ज्ञाने—किप् सम्पदादिः । एवं ज्ञानम् ॥

भावार्थ—जो चतुर मनुष्य समझ बूझ कर शुभ कामों को अन्त तक पहुँचाते हैं वे शत्रुओं को हटाकर प्रजा को सुखी करके यश पाते हैं ॥ १६ ॥

टिप्पणी १—इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ६ । ३६ और ६ । २६ से मिलाओ ॥

टिप्पणी २—शुद्धि इस प्रकार है—(दधिक्राव्शो)=(दधिक्राव्णो) अथ० २० । १३७ । ३, (नाभानेदिष्टे)=(नाभानेदिष्टो) ऐ० ब्रा० ६ । ३६ ॥

टिप्पणी ३—प्रतीक वाले एक एक मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं, शेष मन्त्र वेद में देखो ॥

१, दाधिक्री ऋचा—(दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि त्वा मुखा करत् प्रण आयूषि तारिषत्—अथ० २० । १३७ । ३) । (दधिक्रावणः) चढ़ा कर चलने वाले वा हींसने वाले, (जिष्णोः) जीतने वाले, (वाजिनः) वेग वाले (अश्वस्य) घोड़े के (अकारिषम्) कर्म को मैं ने किया है । वह [कर्म] (नः) हमारे (मुखा) मुखों को (सुरभि) पेश्वर्य युक्त (करत्) करे और (नः) हमारे (आयूषि) जीवनों को (प्र तारिषत्) बढ़ावे ॥

२, पावमानी तृच—(सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । पवित्रवन्तो अक्षरन् देवान् गच्छन्तु वो मदाः—अथ० २० । १३७ । ४—६, ऋ० ६ । १०१ । ४—६, साम० उ० २ । २ । तृच १५) । (सुतासः) निचोड़े हुये, (मधुमत्तमाः) अत्यन्त ज्ञान करने वाले, (मन्दिनः) आनन्द देने वाले, (पवित्रवन्तः) शुद्ध व्यवहार वाले (सोमाः) सोम [तत्त्वरस] (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] के लिये (अक्षरन्) बहे हैं, (मदाः) वे आनन्द देने वाले [तत्त्वरस] (वः) तुम (देवान्) विद्वानों को (गच्छन्तु) पहुँचें ॥

३, ऐन्द्रा वार्हस्पत्य तृच—(अवं द्रमंप्सो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः । आवत् तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनृमणा अधत्त—अथ० २० । १३७ । ७—६, ऋ० ८ । ६६ [सायण भाष्य ८५] । १३-१५, साम० पू० ४ । ४ । १) । (द्रमः) घमंडी, (कृष्णः) कौवा [के समान निन्दित लुटेरा शत्रु] (दशभिः सहस्रैः) दस सहस्र [बड़ी सैना] के साथ (इयानः) चलता हुआ (अंशुमतीम्) विभाग वाली [सीमा वाली नदी] पर (अव-अतिष्ठत्) ठहरा है । (नृमणाः) नरों के समान मन वाले (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े प्रतापी शूर] ने (तम् धमन्तम्) उस हाँफते हुये को (शच्या) बुद्धि से

(आवत्) बचाया है और (स्नेहिताः) अपनी मारु सेनाओं को (अप अथत्त) हटा लिया है ॥

इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गायक-
चाडाविष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम् ऋक्सामाथर्व-
वेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदिना अथर्व-
वेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणभाष्य उत्तरभागे षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अयं प्रपाठको ग्रन्थश्च प्रयागनगरे भाद्रमासे कृष्णजन्माष्टम्यां तिथौ
१६८१ तमे [एकाशीत्युत्तरैकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-
चिरप्रतापि-महायशस्वि श्रीराजराजेश्वर पञ्चमजार्ज महोदयस्य
सुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात् ॥

[मुद्रितः-मार्गशीर्षकृष्णा ८ संवत् १६८१ वि० ता० १६ नोवेम्बर सन् १६२४ ई० ॥]

क्षेमकरणदास त्रिवेदी ।

५२ लूकरगंज, प्रयाग,
[अलाहाबाद]
भाद्रकृष्णा ८ संवत् १६८१ वि०
ता० २२ अगस्त १६२४ ई० ॥

जन्म, कार्तिक शुक्ला ७ संवत् १६०५
विक्रमीय [ता० ३ नवम्बर १८४८ ईस्वी]
जन्मस्थान, ग्राम शाहपुर-मडराक,
ज़िला अलीगढ़ ॥

ओ३म्
गोपथब्राह्मण भाष्य में वेदमन्त्र, ब्राह्मण वचन
आदि की वर्णानुक्रमणसूची ॥

मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ	मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक कण्डिका	पृष्ठ
अ					
अथ शुरुशुष्टे	उ २, ४	३७६	अभितष्टेव दीधया	उ ६, २	६०२
अग्न आ याहि वी	पू १, २६	६४	अभि प्र वः सुरा	उ ६, ७	६२४
अग्नि होतारं मन्ये	उ ६, १०	६३७	अभूद् देवः सवि	उ ४, ७	५१४
अग्निं दूतं वृणी	पू २, २३	१५६	अमेव नः सुहवा	उ २, २२	४३३
अग्निं दूतं वृणी	उ ३, १२	४६६	अमोऽहमस्मि सात्वं	उ ३, २०	४८६
अग्निमीडे पुरोहि	पू १, २६	६३	अयं त इधम आत्मा	उ १, ४	३२८
अग्निमीडे पुरोहि	उ १, ४	३२७	अयं ते योनिर्ऋ	उ ४, ६	५२०
अग्निर्विद्वान् यज्ञं	पू १, १२	३१	अयं नो नभसस्प	उ ४, ६	५१६
अग्निवासाः पृथि	पू २, ६	११७	अयमु त्वा विचर्ष	उ ३, १४	४७३
अग्नीषोमावदधु	उ २, ६	३६५	अर्थवद्धातुरप्रत्ययः	पू १, २६	१५४
अग्ने पत्नीरिहा	उ २, २०	४२५	अर्वाडेहि सोमकामं	उ २, २१	४२८
अच्छा म इन्द्र	उ ४, १६	५३६	अव द्रप्सो अंशु	उ १, १६	६७०
अदितेऽनुमन्यस्व	उ १, ४	३२८	असि यमो अस्यादि	पू २, २१	१५१
अधा हीन्द्र गिर्वण	उ ४, १७	५४२	अस्तभ्नाद् घामसुरो	उ ४, १५	३३३
अधिपतिरसि	उ २, १४	४०६	अस्मा इदु प्र तवसे	उ ५, १५	५६३
अनितिरसि	उ २, १३	४०५	अस्मे प्र यन्धि मघ	उ ४, ३	५०७
अनुख्यात्रे नमः	उ २, १६	४१६	अस्य देवाः प्रदिशि	उ ५, ८	५७३
अनुमतेऽनुमन्यस्व	उ १, ४	३२८	अहन् वृत्रं वृत्रतरं	उ ५, ६	५६६
अनुरोहोऽसि	उ २, १४	४०६	आ		
अनुवृदसि	उ २, १४	४०६	आक्रमो ऽसि	उ २, १४	४०६
अन्तरिक्षे पथिभि	पू २, ६	११८	आग्निरगामि भारतो	उ ४, १५	५३३
अप प्राच इन्द्र विश्वाँ	उ ६, ८	६२६	आचार्यो ब्रह्मचारी	पू २, ५	१०४
अपेन्द्र प्राचो मघ	उ ६, ४	६१३	आदित्या रुद्रा वसव	उ ६, १४	६६२
अपेन्द्र प्राचो मघ	उ ६, १२	६४७	आदित्या ह जरितर	उ ६, १४	६६१
अभिजिदसि	उ २, १३	४०५	आ नो याहि सुता	उ ३, १४	४७३
अभि तष्टेव दीधया	उ ६, १	५६६	आ पतये त्वा परि	उ २, ३	३७६
			आ पूर्णो अस्य कलश	उ २, २१	४२६

मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ	मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ
आपो वत्सं जनयन्ती	पू १, २	७	इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ	उ १, ११	३४६
आपो वत्सं जनयन्ती	पू १, ३६	६०	इन्द्रस्यौजो मरुताम	पू २, २१	१५१
आ प्यायस्व मदिन्तम	उ ३, ६	४४७	इन्द्राग्नी अपसस्प	उ ३, १५	४७६
आ यातं मित्रावरुणा	उ ३, १३	४७०	इन्द्राग्नी आगतं सुतं	उ ३, १५	४७६
आ याहि सुषमाहि	उ ३, १४	४७३	इन्द्राग्नी उपह्वये	उ ३, १५	४७६
आ याह्यर्वाडुप व	उ ६, २	६०६	इन्द्राय मद्रने सुतं	उ ५, ३	५५६
आरोहोऽसि	उ २, १४	४०६	इन्द्राय सोमः प्र दिवो	उ २, २१	४२८
आ वात वाहि भेषजं	पू ३, १३	१६६	इन्द्रावरुणा मधुम	उ ४, १५	५३४
आ वां राजानावध्व	उ ४, १५	५३४	इन्द्रा वरुणा सुतपा	उ २, २२	४३२
आ वो वहन्तु सप्तयो	उ २, २२	४३२	इन्द्राय हि धौरसुरो	उ ६, १	६०१
आ सत्यो यातु मघवाँ	उ ५, १५	५६३	इन्द्रावरुणा युवध्व	उ ४, १५	५३३
आहं सरस्वतीवतो	उ ५, १३	५८७	इन्द्रावरुणा सुतपा	उ ४, १५	५३३
इ			इन्द्राविष्णु पिबतं	उ २, २२	४३३
इयणः सम्प्रसा	पू १, २६	५५	इन्द्राविष्णु पिबतं	उ ४, १७	५४४
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः	उ ६, १	६०१	इन्द्रविष्णु मदपती	उ ४, ७	५४२
इदं वसो सुतमन्धः	उ ५, ३	५५६	इन्द्रेण रोचना दिव	उ ५, १३	५८६
इदं ह्यन्वोजसा	उ ५, ३	५५६	इमं स्तोममर्हते	उ २, २२	४३३
इदं जना उपश्रुत	उ ६, १२	६४७	इमा उ वां दिविष्टय	उ ५, ३	५५८
इदं ते सोम्यं मध्व	उ २, २०	४२४	इमा उ वां दिविष्टय	उ ५, १०	५७६
इदमित्था रौद्रं गूर्त	उ ६, ७	६२०	इमा ते वाजिभ्रव	पू २, २१	१५१
इन्द्रः कारुमबुबुध	उ ६, १२	६४८	इमा नु कं भवना	उ ६, १२	६४७
इन्द्रः पूभिदाति	उ ४, २	५०३	इमामू षु प्रभृतिं	उ ४, ३	५०७
इन्द्रः पूभिदाति	उ ६, १	६००	इमामू षु प्रभृतिं	उ ६, १	६००
इन्द्रं वो विश्वतस्प	उ ५, १२	५८३	इयं त इन्द्र गिर्वणो	उ ४, १७	५४२
इन्द्र ऋभुभिर्वाज	उ २, २२	४३२	इयं पित्र्या राण्ये	उ २, ६	३८८
इन्द्र एषां नेता	उ २, २	३७३	इषे त्वोर्जे त्वा	पू १, २६	६३
इन्द्र क्रतुविदं सु	उ ३, १४	४७३	इहेत्थ प्रागपागु	उ ६, १३	६५४
इन्द्र जीव सूर्य जीव	पू १, ३६	६०	इहेन्द्राग्नी उप ह्वये	उ ३, १५	४७६
इन्द्र त्वा वृषभं	उ २, २०	४२४	उ		
इन्द्र पिब प्रतिकामं	उ ३, १४	४७२	उक्षान्नाय वशान्नाय	उ २, २०	४२५
इन्द्रश्च सोमं पिबतं	उ २, २२	४३२	उच्चा पतन्तमरुणं	पू २, ६	११८
इन्द्रश्च सोमं पिबतं	उ ४, १६	५३८	उत् श्वेत आशुपत्वा	उ ६, १४	६६२
इन्द्रस्य नु वीर्याणि	उ ३, १२	४६७	उत्क्रमोऽसि	उ २, १४	४०६

मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ	मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ
उत्क्रान्तिरसि	उ २, १४	४०६	एवा पाहि प्रलथा	उ २, २१	४२७
उदप्रुतो न वया	उ ४, १६	५३६	एवेदिन्द्रं वृषणं वज्र	उ ४, २	५०३
उदिन्वस्यरिच्य	उ ४, ३	५०६	एवेदिन्द्रं वृषणं वज्र	उ ६, ५	६१७
उदुत्ये मधुमत्तमा	उ ४, २	५०३	एह्यु षु ब्रवाणि ते	उ ४, १२	५२६
उदु ब्रह्माण्यैरत	उ ४, २	५०३	एह्यु षु ब्रवाणि ते	उ ४, १५	५३३
उदु ब्रह्माण्यैरत	उ ६, १	५६६	ओ		
उदु ब्रह्माण्यैरत	उ ६, २	६०२	ओजो सि पितृभ्य	उ २, १३	४०५
उदुस्त्रियाः सृजते	उ ५, ३	५५७	ओमभ्यादाने	पू १, २७	५६
उद् गा आजदङ्गिरो	उ ५, १३	५८६	ओं भुवो जनत्	उ २, १४	४०६
उद् घेदभि श्रुता	उ ३, १४	४७३	ओं भूर्जनत्	उ २, १४	४०६
उद्बुध्यस्वाम्ने	उ १, ४	३२७	ओं भूर्भुवः स्वर्जनत	उ २, १४	४०६
उपद्रष्टे नमः	उ २, १६	४१६	ओं स्वर्जनत्	उ २, १४	४०६
उपनीय तु यः शिष्यं	पू २, १	६३	क		
उप श्रोत्रे नमः	उ २, १६	४१६	कः सप्त खानि	पू १, ८	२२
उपास्मै गायता नरः	उ ३, १२	४६६	कथं गायत्री त्रिवृ	पू १, २१	४४
उभा जिग्यर्थुन परा	उ ४, १७	५४४	कथा महामवृधत्	उ ६, १	५६६
उहं नो लोकमनुनेषि	उ ६, ४	६१४	कन्नव्यो अतस्तीनां	उ ६, ३	६१०
उशन्तु षु णः	उ ४, १	४६६	कदू न्वस्याकृति	उ ६, ३	६११
उशिगसि	उ २, १३	४०५	कया त्वं न ऊत्या	उ ४, १	४६८
ऋ			कया नश्चित्र	उ ४, १	४६८
ऋचो अक्षरे प८मे	पू १, २२	४७	कस्तमिन्द्रत्वाव	उ ४, १	४६६
ऋजीषो वज्री वृष	उ ४, २	५०४	कस्तमिन्द्र त्वा	उ ६, ३	६६०
ऋतुनीती ना वरुणो	उ ५, १२	५८३	किमित्ते विष्णो परि	उ ५, ८	५७४
ऋतुर्जनित्री तस्या	उ ४, १७	५४३	कुह स्विद् दोषा	पू ३, १२	१८६
ए			को अद्य नच्यो दे	उ ६, २	६०६
एकपाद् द्विपदो भूयो	उ २, ६	११७	ग		
एतन्नो गोपाय	उ ४, ६	५१६	गोमूर्त्रं गोमयं	पू २, २२	१५३
एता अश्वा आ स्रव	उ ६, १३	६५३	च		
एना वो अग्निं नमसो	उ ५, ३	५५७	चक्षुः श्रोत्रं यशो	पू २, ८	११२
एवा त्वामिन्द्र वज्रि	उ ४, १	४६६	चत्वारि शृङ्गा	पू २, १६	१३३
एवा त्वामिन्द्र वज्रि	उ ४, २	५०३	चन्द्रमा अस्वशन्त	पू २, ६	११८
एवा त्वामिन्द्र वज्रि	उ ६, १	५६८			

मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ	मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ
चन्द्रमा मनसो जातः	पू १, १२	३१	दिवि त्वात्तिरधार	पू २, १७	१३५
चर्षणीधृतं मघवा	उ ४, १५	५३३	दिवो न तुभ्यमन्वि	उ ६, ६	६३४
ज			दिवो नु मां वृहता	पू २, ७	१०८
जीवा स्थ जीव्यासं	पू १, ३६	६०	देव संस्फान सह	उ ४, ६	५२०
जीवेम शरदः शतम्	पू २, ८	११२	देव सधितः प्रसुव	उ १, ४	३२८
लुष्टो वाचे भूयासं	उ २, १७	४१६	देवस्य त्वा सवितु	उ १, २	३२२
त			देवस्य त्वा सवितु	उ १, २	३२३
तं वो दस्ममृती	उ ४, २	५०२	देवस्य त्वा सवितु	उ २, २०	३६६
तत् सवितुर्वरेण्यं	पू १, ३२	७१	देवाः पितरः पितरो	पू ५, २१	२६८
तदण्डमभवद् धैमं	पू १, ३	७	देवा ददत्वासुरं	उ ६, १४	६६२
तदेवाग्निस्तदादि	पू १, ६	१८	देवानामेतत् परि	पू २, ७	१०८
तन्तुरसि प्रजा	उ २, १३	४०५	द्यौर्नय इन्द्राभि	उ ६, ६	६३४
तं त्वा समिद्धिर	उ १, ४	३२८	द्रप्सश्चस्कन्द पृ	उ २, १२	४०४
तरणिरित सिषा	उ ४, ३	५०६	द्रप्पश्चस्कन्द	उ ४, ७	५१४
तवायं सोमस्त्वमे	उ २, २१	४२८	ध		
तस्माद् यज्ञात् सर्वं	पू १, ६	१८	धरुणोऽसि	उ २, १४	४०६
तस्मिन्नण्डे स भगवा	पू १, ३	७	न		
तां ह जरितर्नः प्र	उ ६, १४	६६१	न ते गिरो अपि मृ	उ ६, १	६०१
तानि कर गद् ब्रह्मचारी	पू २, ८	११२	नमोऽन्तु सर्पेभ्य	पू १, १०	२८
ताभ्यां स शकलाभ्यां	पू १, ३	७	नाके राजन् प्रति	पू ५, २१	२६८
तिरोभिर्वो विद	उ ४, ३	५०६	नाभुरसि	उ २, १३	४०५
तुभ्यं हि गानो वसिष्ठ	उ ६, १०	६३६	नूनं सा ते प्रतिवरं	उ ६, ५	६१७
ते स्याम देव वरुण	उ ५, १३	५८६	नू मर्तो दयते सनि	उ ४, १७	५४३
तोशा वृत्रहणा हुवे	उ ३, १५	४७६	नू ष्टुत इन्द्र नू गृ	उ ६, ५	६१७
त्रिवृदसि	उ २, १४	४०६	प		
श्रीणि न आहर्दिवि	पू २, २१	१५१	पञ्चभूतात्मके देहे	उ ६, २	६०३
त्वं नो नभसस्प	उ ४, ६	५१६	परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू १, १	१
त्वमिन्द्र शर्म रि	उ ६, १४	६६२	परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू १, ७	१८
त्वं सोम प्र चिकितो	उ ४, ७	५१४	परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू १, ७	१८
द			परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू १, ७	१६
दधिक्रावृणो अकारि	उ ६, १६	६७०	परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू १, ३६	८३

मन्त्र आदि	भाग, प्रपठक, करिडका	पृष्ठ
परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू २, २१	१४६
परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू ३, १६	२०७
परोक्षेण परोक्षप्रिया	पू ४, २३	२५१
पिबा वर्धस्व तव	उ ४, ३	५०७
पिबा सोममभि	उ २, २१	४२७
पूर्णात् पूर्णमुदचति	पू १, ७	२०
पृतनाषाडसि	उ २, १३	४०५
पृथिव्यै श्रोत्राय	पू १, १४	३५
प्रकेतो ऽसि	उ २, १३	४०५
प्रतिधिरसि	उ २, १३	४०५
प्रतीपं प्राति सुत्वनम्	उ ६, १३	६५३
प्रत्ययलोपे प्रत्ययल	पू १, २६	५४
प्रत्यु अदर्श्यायत्यु	उ ५, ३	५५७
प्र मंहिष्ठाय बृहते	उ ४, १६	५३८
प्र मित्रयोर्वरुणयोः	उ ३, १३	४७०
प्ररोहो ऽसि	उ २, १४	४०६
प्रवृद्सि	उ २, १४	४०६
प्र वो महे मतयो य	उ ६, ७	६२४
प्र वो मित्राय गायत	उ ३, १३	४७०
प्राणापानौ जनयन्	पू २, ८	११२
प्रातर्यावभिरागतं	उ २, २१	४२५
प्रातर्यावभिरागतं	उ ३, १५	४७५
प्रावास्यह्वांशुषि	उ २, १३	४०५
प्रेतिरसि	उ २, १३	४०५
प्रेन्द्रस्य वोचं प्र	उ ३, २३	४६६
ब		
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां	पू २, १	६३
ब्रह्मचारीणां १	पू २, १	६२
ब्रह्मचार्येति ममि	पू २, १	६३
ब्रह्मजज्ञानं प्रथ	उ २, ६	२८७
ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा	उ ६, ४	६१३
ब्रह्मास्या स्तुते	उ २, १५	४१२

मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, करिडका	पृष्ठ
भ		
भुगित्यभिगतः	उ ६, १३	६५४
भूय इद् वावृधे	उ ४, ३	५०६
भूयसीः शग्दः श	पू २, ८	११२
भूर्भुवः स्वर्धौरिव	उ १, ४	३२७
म		
मरुतां मन्वे अधि मे	उ २, ८	५७३
मरुता मा गरौर	उ ५, ८	५७३
मरुतो यस्य हि	उ २, २०	४२४
मित्रं वयं हवामहे	उ २, २०	४२४
य		
यः समेयो विदथ्यः	उ ६, १२	६४८
य एक इद् धव्यश्च	उ ६, १	६००
यच् चिद्धि सत्य	उ ६, १	६०१
यजामह इन्द्र	उ ६, १	६०१
यजूषि यज्ञे समिध	उ २, ११	४०१
यज्ञकर्मण्यजप	उ ६, १	६०१
यज्ञेन यज्ञमयजन्त	उ २, ११	४०१
यत् ते अन्नं भुवस्व	उ ५, ८	५७३
यत् त्वा यामि सुवी	उ ४, २	५०२
यत् सोम आ सुते नर	उ ५, १२	५८३
यदक्रन्दः प्रथमं	पू २, १८	१३८
यदक्रन्दः प्रथमं	पू २, २१	१५१
यदस्य कर्मणोऽत्य	उ ३, १	४३६
यदस्य कर्मणोऽत्य	उ ३, १६	४७८
यदस्य कर्मणोऽत्य	उ ४, १८	५४६
यदस्य अंहुमेद्याः	उ ६, १५	६६४
यदिन्द्रादोदाश	उ ६, १२	६४६
यद् गायत्रे अधि	उ ३, १०	४६२
यज्ञ इन्द्रो जुजुषे	उ ६, १	५६६
यमेन दत्तं त्रित एनमा	पू २, २१	१५१

मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ	मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ
यस्तिग्म शृङ्गो	उ ६, १	६००	वि हि सोतोरसृक्षत	उ ६, १२	६४७
यस्ते द्रप्सस्कन्दति	उ २, १२	४०५	वीमे देवा अक्रंसता	उ ६, १३	६५४
या ते अग्नेऽयः शया	उ २, ७	३६१	वृहस्पतये स्तुत	उ २, १४	४०६
या ते अग्ने यज्ञिया	उ ४, ६	५२०	वृहस्पतिर्नः परिपातु	उ ४, १६	५३६
युवं चित्रं ददथु	उ ५, ३	५५८	वृहस्पते युवमिन्द्रश्च	उ ४, १६	५३६
ये अग्रयो अण्वस्वन्त	उ २, १२	४०४	वेषश्रीरसि	उ २, १४	४०६
ये यज्ञेन दक्षिण्या	उ ६, ७	६२४	वो वसून् वो दे	उ २, १५	४१२
योऽनाक्ताक्ता अनभ्य	उ ६, १२	६४६	व्यन्तरिक्षमतिरन्म	उ ५, १३	५८६
यो न इदमिदं पुरा	उ ४, १६	५३८	व्यन्तरिक्षमतिरन्म	उ ६, ५	६१७
यो विद्यात् सप्त	पू २, १६	१३३			
			श		
			शतमिन्नु शरदो	पू ४, १७	२४४
			शं नो देवः सविता	उ ५, १०	५७६
			शन्नो देवीरभिष्टय	पू १, १४	३५
			शन्नो देवीरभिष्टय	पू १, २६	६४
			शं नो भव हृद	उ ३, ६	४४६
			शासद् वहिर्दुहितु	उ ५, १५	५६३
			शासद् वहिर्दुहितु	उ ६, १	६०१
			शुनं हुवेम मघवान	उ ६, ४	६१४
			श्येनाऽसि	पू ४, १२	२८७
			स		
			संरोहो ऽसि	उ २, १४	४०६
			सं वां कर्मणा समि	उ ४, १७	५४३
			सं वां कर्मणा समि	उ ६, २	६०७
			सञ्जसर्पो ऽसि	उ २, १४	४०६
			सं सं स्वन्तु पशवः	उ ५, ८	५७४
			स ई पाहि य ऋजी	उ २, २१	४२७
			सङ्क्रमोऽसि	उ २, १४	४०६
			सजूर्ऋतुभिः सजूः	उ ३, ७	४५०
			सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु	पू १, २६	५४
			सद्यो ह जातो वृषभः	उ ४, १	४६६
			सद्यो ह जातो वृषभः	उ ६, १	५६६
			सद्यो ह जातो वृषभः	उ ६, २	६०६

र

रश्मिरसि क्षया	उ २, १४	४०६
राज्ञो विश्वजनीनस्य	उ ६, १२	६४८
रेवदस्याषधी	उ २, १३	४०५

व

वच्यस्व रेभ वच्यस्व	उ ६, १२	६४८
वनस्पते वी ड्वङ्गो	पू २, २१	१५१
वने न वा योन्यधा	उ ६, २	६०६
वयमु त्वामपूर्व्य	उ ४, १६	५३८
वयाधा असि	उ २, १४	४०६
वसन्त इन्नु रन्त्यो	पू ४, २४	२५५
वसन्तेन ऋतुना	उ ३, ७	४५०
वसुकोऽसि	उ २, १४	४०६
वस्यष्टिरसि	उ २, १४	४०६
वषट्कार मा मां प्रमृ	उ ३, ५	४४४
वागोजः सह ओज	उ ३, ६	४४६
वायवा याहि दर्शते	उ ३, १२	४६७
वायो शुक्रो अयामि	उ ५, ८	५७२
विततो किरणौ द्वौ	उ ६, १२	६५४
विश्वमित् सवनं सुत	उ ३, १६	४७६
विष्टम्भोऽसि	उ २, १३	४०५
वि हि सोतोरसृक्षत	उ ६, ७	६२४

मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ	मन्त्र आदि	भाग, प्रपाठक, कण्डिका	पृष्ठ
स नः पितेव सूनवे	उ १, ४	३२७	सरस्वत्यनुमन्यस्व	उ १, ४	३२८
सं ते पर्यांसि समु	उ ३, ६	४४८	सविता प्रसवा	उ २, ६	३८७
सन्धिरसि	उ २, १३	४०५	सुतासो मधुमत्तमाः	उ ६, १६	६७०
स पचामि स ददामि	पू ५, २१	२६८	सुदितिरसि	उ २, १३	४०५
सप्तास्यासन् परि	पू १, १२	३१	सुसमिद्धाय शोचिषे	उ १, ४	३२८
सप्त ऋषयः प्रतिहि	पू ३, १२	१६१	सोऽभिधाय शरीरात्	पू १, ३	७
सप्त ऋषयः प्रतिहि	उ २, १३	४०६	सोमः पवते जनिता	उ ५, ४	५६१
सप्त ऋषयः प्रतिहि	उ ३, ८	४५५	सोमं मन्यते पपि	पू २, ६	११८
स वृहतीं दिश	पू १, १०	२८	सुताद् यमन्ति	पू २ १७	१३५
समं ज्योतिः सूर्येण	उ ३, १६	४७६	स्वरादि निपातम	पू १, २६	५५
समं ज्योतिः सूर्येण	उ ४, ४	५०८	स्ववृदसि	उ २, १४	४०६
समं ज्योतिः सूर्येण	उ ४, १८	५४६			
समिधाग्निं दुवस्यत	उ १, ४	३२७	ह		
समिधाग्निं दुवस्यत	उ ३, १२	४६६	हलोऽनन्तराः संयोः	पू १, १७	५७
सम्राडसि	पू ४, १३	२८६	हिरण्यगर्भः समव	पू १, २	५
स योजते अरुषा	उ ५, ३	५५७	होता यज्ञत् समिधा	उ ३, ८	४५४
			होता यज्ञदिन्द्रम्	उ ६, १०	६३६

क्षेमकरणदास त्रिवेदी

५२ लूकरगंज, प्रयाग

मार्गशीर्ष शुक्ला २ सं० १६८१ वि०

ता० २८ नोवेंबर १६२४ ॥

॥ ओ३म् ॥

नया आनन्द समाचार ॥

अथर्ववेद भाष्य और गोपथब्राह्मण भाष्य हिन्दी सहित छप गये ।

शीघ्र मंगाइये ॥

१—अथर्ववेद भाष्य—अथर्ववेद का अर्थ अभी तक यहाँ की किसी भाषा में न था, और संस्कृत में भी श्री सायण भाष्य पूरा नहीं है। अब परमात्मा की कृपा से इस वेद का हिन्दी और संस्कृत प्राभाषिक भाष्य प्रयाग निवासी पं० जेमकरणदास त्रिवेदी का किया हुआ श्रीमान् राजाधिराज धीरवीर-चिरप्रतापी श्री सयाजी राव गायकवाड़ बड़ोदाधीश, तथा श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभाओं संयुक्त प्रान्त और पंजाब प्रान्त तथा विद्वान् ग्राहक महाशयों की विशेष प्रचार सहायता से पूरा होकर छप गया ।

इस वेद के बीसों काण्डों का भावपूर्ण संचित स्त्री पुरुषों के समझने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य विषय सूची, मन्त्रसूची, पदसूची, आदि सहित अल्प मूल्य में उपस्थित है। वेदप्रेमी महाशय सब स्त्री पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयों और पारितोषिकों के लिये भाष्य मंगावें और जगत्पिता परमात्मा के पारमार्थिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यकविद्या, राजविद्यादि अनेक विद्याओं का तत्त्व-जानकर आनन्द भागें, छुपाई उत्तम और कागज़ देसी बढिया रायल अठपेजी है ।

पुराने ग्राहक जिन के पास सब काण्ड नहीं हैं और नये ग्राहक भाष्य शीघ्र मंगावें, पुस्तक थोड़े रहे हैं, ऐसे बड़े ग्रन्थ का फिर शीघ्र छपना कठिन है। बोझ लगभग ६०० तोला वा ७॥ सेर है, रेल से मंगाने वाले महाशय रेलवे स्टेशन लिखें। पूरा भाष्य २३ भाग मूल्य ४७॥), वी० पी० व्यय ४॥।)

काण्ड	१ भूमिका सहित			२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
मूल्य	१।)			१।-)	१।।-)	२।)	१।।।=	३।)	२।)	२।)	२।)	२।।)	२।)
काण्ड	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	परि- शिष्ट	मन्त्र सूची	पद सूची	योग
मूल्य	२=)	१।≡)	१।)	१-)	॥-)	।≡)	२।=)	३।)	७।)	।≡)	१-)	४।)	४७॥)

२—गोपथब्राह्मण भाष्य—गोपथब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण प्राचीन ग्रन्थ है। इसका अब तक न कोई भाष्य और न कोई अनुवाद है। अब परमात्मा

की कृपा से उक्त परिडत जी ने अथर्ववेद भाष्य के समान इस ब्राह्मण का भाष्य सरल हिन्दी और संस्कृत में करके मूल ग्रन्थ, अनेक टिप्पणियों, व्याकरणादि प्रक्रियाओं, विनियोगीय मन्त्रों सहित प्रकाशित कर दिया है। सब स्त्री पुरुष इस ग्रन्थ के स्वाध्याय से आत्मोन्नति करें। इस ग्रन्थ को महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाशादि पुस्तकों में वैदिक साहित्य के उपयोगी ग्रन्थों में माना है। पुस्तक थोड़े छुपे हैं, ग्राहक महाशय शीघ्रता करें। छुपाई उत्तम कागज़ देसी सफ़ेद बढ़िया रायल अठपेजी मूल्य ७।), वी० पी० व्यय ॥३)

३-हवनमन्त्राः-धर्म शिक्षा का उपकारी पुस्तक-चारों वेदों के संगृहीत मन्त्र, ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वामदेव्यगान सरल हिन्दी में शब्दार्थ सहित, गुरुकुलों, डी० ए० वी० कालिजों और स्कूलों में प्रचलित संशोधित १-), डाक से १=)

४-रुद्राध्यायः-प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः) ब्रह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत हिन्दी और अंग्रेज़ी में मूल्य १=), डाक से ॥)

५-रुद्राध्यायः-मूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य ॥), डाक से -)

६-वेदविचार्ये-कांगड़ी गुरुकुल में हिन्दी व्याख्यान। वेदों में विमान, नौका, अस्त्र शस्त्र, व्यापार, गृहस्थ, अतिथि, सभा, ब्रह्मचर्यादि का वर्णन, मूल्य -)॥, डाक से =)

मार्गशीर्ष संवत् १९८१,
दिसम्बर १९२४

पता-पं० खेमकरणदास त्रिवेदी
५२, लूकरगंज, प्रयाग ।

Address—Pt. Khem Karan Das Trivedi,
52, LUKERGANJ, ALLAHABAD.

अथर्ववेदभाष्य सम्मतियां ॥

श्रीमती आर्य प्रतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर
अन्तरंग सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-७३ की प्रति ।

ला० दीवान चन्द प्रतिनिधि आर्य समाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं०
क्षेमकरणदास को अथर्ववेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे,
उपस्थित हुआ । निश्चय हुआ कि २५) मासिक की सहायता एक वर्ष के लिये दी
जावे और उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तकें उन से स्वीकार की जावें ॥

टिप्पणी—यह नियम बत्तीस महीने तक रहा ॥

श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश आगरा और
अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून १९१६ ई०
के निश्चय संख्या १३ (अ) और (ब) की लिपि ।

(अ) समाजों में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक
बनें तथा अन्यो को बनावें ।

(ब) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एक क्लर्क के लिये पं०
क्षेमकरणदास जी को देवे, जिस का बिल उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में
भेजते रहें । इस धन के बदले में पंडित जी उतने धन की पुस्तकें सभा को देंगे ।

टिप्पणी—यह नियम चार वर्ष तक रहा ॥

लिपि गश्ती चिट्ठी श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा जो पूर्वोक्त
निश्चय के अनुसार समाजों को भेजी गयी (संख्या ५६७६ प्राप्त
२० जुलाई १९१६ ई०)

॥ ओ३म् ॥

मान्यवर, नमस्ते !

आप को ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी बयोवृद्ध विद्वान् श्री
पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी गत कई वर्षों से बड़ी योग्यता पूर्वक अथर्ववेद का
भाष्य कर रहे हैं । आप ने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य को करने
का प्रयत्न किया है । भाष्य काण्डों में निकलता है अब तरु ६ कांड निकल चुके
हैं । आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य
होरहा है । त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खूब प्रशंसा की है । परन्तु
खेद है कि अभी आर्यसमाज में उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने की ओर लोगों
की बहुत कम रुचि है । जिस के कारण त्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रहे हैं ।
भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं । लागत तरु वसूल नहीं होती । वेदों का पढ़ना
पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यमात्र का प्रधान कर्त्तव्य है । अतएव सविनय
निवेदन है कि वैदिक धर्मी मात्र श्री त्रिवेदी जी को उन के महत्त्वपूर्ण गुरुतर
कार्य में साहस प्रदान करें । स्वयम् ग्राहक बनें और दूसरों को बनावें । ऐसा
करने से भाष्यकार महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी विन्ताओं से मुक्त

होकर भाष्य को और भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होंगे । आशा है कि वेदों के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ कर्तव्य समझेंगे । प्रत्येक आर्य के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये । समाज के पुस्तकालयों में तो उन का रखना बहुत ही ज़रूरी है । भाष्य के प्रत्येक कांड का मूल्य त्रिवेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा है ।

त्रिवेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते पर कीजिये ।
जल्दी से भाष्य मंगाइये ।

भवदीय—

नन्दलाल सिंह, बी० एस सी० एलएल० बी० उपमन्त्री ।

चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०—१२—१५१४ । कार्यालय श्रीमती आर्य-
प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त आगरा व अवध, बुलन्दशहर ।

आप का पत्र संख्या १०१ तथा अथर्ववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला । इस कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है । वास्तव में आप आर्यसमाज के साहित्य को समृद्धिशाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप की विद्वत्ता और कृपा के लिये आर्य संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिक्षा सूत्र धारी को आभारी होना चाहिये । ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन और समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करें, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप सदैव जारी रखें वही प्रार्थना है ।

भवदीय

मदनमोहन सेठ

(एम० ए० एलएल० बी०) मन्त्री सभा ।

श्रीमान् पंडित तुलसीराम स्वामी—प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा
संयुक्तप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ—मार्च १९१३ ।

ऋग्यजुर्वेद का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और भाषा में किया है, सामवेद का श्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथर्ववेद के भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी । पं० क्षेमकरणदास जी प्रयाग निवासी ने इस अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है । भाष्य का क्रम अच्छा है । यदि इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है, तो चारों वेदों के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आर्यों का उपकार होगा ।

श्रीयुत महाशय नारायणप्रसाद जी—मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वृन्दावन,
मथुरा—उपप्रधान आर्य-प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आर्यमित्र आगरा, २४
जनवरी १९१३ ।

श्री० पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक् साम तथा अथर्व-
वेद सम्बन्धी परीक्षात्तीर्ण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैं ने सम्पूर्ण
[प्रथम] कांड का पाठ किया । त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी की
शैली के अनुसार भावपूर्ण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र

के किस शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उपयोगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आर्यसमाज का पक्ष-पोषक और इम योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उस की एक एक पोथी (कापी) अपने पुस्तकालय में रखे ।

त्रिवेदी जी ने इस भाष्य का आरंभ करके एक बड़ी कमी के पूर्ण करने का उद्योग किया है । ईश्वर उन को बल तथा वेद संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान करें निर्विघ्नता के साथ वह शुभकार्य पूरा हो" छपाई और कागज़ भी अच्छा है ।

श्रीयुत महाशय मुन्शीराम जी—जिज्ञासु, मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार—पत्र संख्या ६४ तिथि २७-१०-१९६६ ।

अथर्ववेद भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकाशानुसार तीसरे हिस्से के लगभग देख चुका हूं आप का परिश्रम सराहनीय है ।

तथा—पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१९६६ ।

अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ ।

श्रीयुत पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ—छान्दोग्योपनिषद् भाष्य-कार, वेदतत्त्वादि ग्रन्थकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आदि आदि, सम्पादक आर्यमित्र—८ फरवरी १९१३ ।

अथर्ववेद भाष्य । श्री पं० ज्ञेमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रशंसनीय है । आप बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी कर और अब वहां से पेंशन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे । अन्ततः आप ने वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बन हं । आप परिश्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं । आप का अथर्ववेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है ।

श्रीयुत पंडित भीमसेन शर्मा इटावा—उपनिषद्, गीतादि भाष्य-कर्ता, वेदशास्त्राता कलकत्ता यूनीवर्सिटी, सम्पादक ब्रह्मण सर्वस्व इटावा, फरवरी १९१३ ॥

अथर्ववेदभाष्य—इसे प्रयाग के परिडित ज्ञेमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित किया है । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में अभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है भाष्यकर्ता के मानसिक विचारों का झुकाव आर्यसामाजिक सिद्धान्तों की तरफ है, अतएव भाष्य भी आर्यसामाजिक शैली का ही हुआ है । तब भी कई अंशों में स्वामी दयानन्द के भाष्य से अच्छा है । और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है ।

श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, ठिकाना हकीम देवी प्रसाद जी, १३७ अतरसुइया, प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१९१५ ॥

श्रीयुत परिडित जी नमस्ते,

महेवा के पते से आप का भेजा हुआ पत्र और अथर्ववेद भाष्य चौथा कांड मिला, मैं ने चारों कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ । आप ने

हम सभी पर अत्यन्त कृपा की है आपको अनेकों धन्यवाद हैं। आशा है कि पांचवां कांड भी शीघ्र तैयार होकर वी० पी० द्वारा मुझे मिलेगा।

दो पुस्तक हवनमन्त्राः की जिस का मूल्य १)॥ है कृपाकर भेज दीजिये मेरी एक बहिन को आवश्यकता है।

श्रीयुत पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी—कानपुर, सम्पादक सरस्वती प्रयाग फरवरी १९१३।

अथर्ववेद भाष्य—श्रीयुत क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी के वेदार्थज्ञान और श्रम का यह फल है, कि आप ने अथर्ववेद का भाष्य लिखना और क्रम क्रम से प्रकाशित करना आरम्भ किया है... बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर रहे हैं। स्वर सहित मूलमन्त्र, पद पाठ, हिन्दी में साव्य अर्थ, भावार्थ, पाठान्तर टिप्पणी आदि से आप ने अपने भाष्य को अलंकृत किया है आपकी राय है कि “वेदों में सार्वभौम विज्ञान का उपदेश है”। आपका भाष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेद भाष्य के ढंग का है।

श्रीयुत पण्डित गणेश प्रसाद शर्मा—संपादक भारतसुदशाप्रवर्तक फतेहगढ़, ता० १२ अप्रैल १९१३।

हर्ष की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उस की पूर्ति का आरम्भ हो गया। वेद भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है। प्रथम मन्त्र पुनः पदार्थ युक्त भाषार्थ उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये धात्वर्थ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है वैदिक धर्म के प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ग्राहक होना चाहिये कि उन के ग्रन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उस से कार्य लिया जा सकता है।

बाबू कालिकाप्रसाद जी—सिलक मर्वेन्ट कम्पनगढ़ा, बनारस सिटी संख्या ५८६ ता० २७-३-१३।

आप का भेजा अथर्ववेद भाष्य का वी० पी० मिला, मैं आपका भाष्य देख कर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण करें। आप बहुत काम एक साथ न छोड़कर इसी की तरफ समाधि लगाकर पूर्ण करेंगे। मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ अङ्क छुपे मेरे पास भेज देना।

श्रीयुत महाशय रावत हरप्रसादसिंह जी वर्मा, मुकाम एकडला पोस्ट किशुनपुर, जिला फतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १९१३।

वास्तव में आप का किया हुआ “अथर्ववेद भाष्य” निष्पक्षता का आश्रय लिया चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है। ईश्वर आप को वेद भण्डारे को आवश्यकीय कार्यों के सम्पादन करने का बल प्रदान करें।

श्रीयुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी (सभापति हिन्दी साहित्य सम्मेलन लखनऊ)—मनोविनोद आदि अनेक ग्रन्थों के कर्ता, सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेन्ट सेक्रेटरियट, पी० डब्ल्यू० डी० श्री प्रयागराज, पत्र ता० १७-६-१३।

आप का अथर्ववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। आपकी यह पाण्डित्य-पूर्ण कृति वेदार्थ जिज्ञासुओं को बहुत हितकारिणी होगी। आप का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा उपादेय है। प्रकाश लाहोर १२ आषाढ़ संवत् १९७३ (२५ जन १९१६-लेखक श्रीयुत पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी)

हम पंडित ज्ञेमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते—स्वामी (दयानन्द) जी ने लिखा है—कि वेद का पढ़ना पढ़ाना आर्यों का परम धर्म है—इसके अनुकूल श्री पंडितजी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते हैं और आर्यों के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ करते रहते हैं—पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रों तथा रुद्राध्याय का भाषा में अर्थ प्रसिद्ध किया है—जो कि आर्यों के लिये पठन पाठन में उपयोगी हैं। इस सम्बन्ध में यह अथर्ववेद के पांच कांड छुपा कर निःसन्देह बड़ा लाभ पहुँचाया है। आर्यों की जो शिक्षा प्रणाली थी उस को टूटे आज पांच हजार वर्ष हो चुके हैं। ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर लोगों के भीतर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित किया। परन्तु हमें शोक यह है वेद के पढ़ने पढ़ाने में आर्य लोग इतना समय नहीं लगाते जितना वे प्रबन्ध संबंधी भगड़ों की बातों में लगाते हैं। हमारा विश्वास है कि जब तक पं० ज्ञेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थी लोग अपना समय वेदों के खोज में न लगावेंगे तब तक आर्यसमाज का कोई गौरव नहीं बढ़ सकता। अथर्ववेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है। इस के ऊपर सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा हुआ है वह बड़ी अधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका नहीं हुई।..... इस समय जो पांच कांडों का भाष्य पंडित जी ने प्रकाशित किया है उस के लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है। प्रथम उन्होंने ने सूक्त के तथा मन्त्रों के देवता दिये हैं—पश्चात् छन्द...विद्वानों का यही काम है कि वह जैसे जैसे साधन उन के पास हों वैसे वैसे सोचकर वेद मन्त्रों का अर्थ प्रकाशित करें। ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब होंगे तब सच्चे अर्थ खोज करना आगामी विद्वानों को सरल होगा। परन्तु इस समय बड़ी भारी कठिनाई यह है कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं मिलते हैं और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से पुस्तकों का प्रकाशित करना बन्द होता है। इसलिये सब आर्यों को परम उचित है कि पंडित ज्ञेमकरणदास जी जैसे विद्वान् पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल लेकर उन को अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहें। त्रिवेदी जी कोई धनाढ्य पुरुष नहीं हैं उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उनके पास है लगा दी है.....त्रिवेदी जी ने जो कुछ किया है वह वैदिक धर्म के प्रेम से प्रवृत्त होकर—इसलिये न केवल सब आर्य पुरुषों का यह कर्तव्य है कि इस भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्साहित करें, किन्तु धनाढ्य आर्य पुरुषों का यह भी कर्तव्य है कि उनकी आर्थिक सहायता करें।

The VIDYADHIKARI (Minister of Education), Baroda State, letter No. 624 dated 6th February 1913.

.....It has been decided to purchase 20 copies of your book entitled अथर्ववेद भाष्यम्. It has been sanctioned for use of the library and the prize distribution. Please send them...also add on the address label "For Encouragement Fund."

Rai Thakur Datta, Retired District Judge, Dera Ismail Khan, Letter dated March 25th, 1914.

The Atharva Veda Bhashya :—It is a gigantic task and speaks volumes for your energies and perseverance that you should have undertaken at an advanced age. I wish I had a portion of your will power.

Letter dated 30th April 1914.

I very much admire your labour of love and hope...the venture will not fail for want of pecuniary support.

THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD.

Letter No. 912 dated 21st May 1915.

Has the honour to request him to be so good as to send a copy each of the 1st and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this office for transmission to the India Office, London.

THE ARYA PATRIKA, LAHORE, APRIL 18, 1914.

The Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharva Veda, which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das Trivedi, does great credit to his penergy, perseverance and scholarship. The first part contains the Introduction and the First Kanda or Book. There is a learned discussion on the origin of the Vedas and the pre-eminent position in Sanskrit literature. The arrangement is good, the original Mantra is followed by a literal translation and their *bhavarth* or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious; they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various words quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unadikosa of Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darshana of Patanjali and other standard ancient works.....The pandit appears to have laboured very hard and the Book before us does credit to his erudition; scholars may not agree with certain of his renderings, but like a true Arya, who venerates the Vedas, he has made an honest attempt to find in the Vedic verses something which will elevate and ennoble mankind. Cross references to verses where the word has already occurred in this Veda are also given to enable the reader to compare notes. There can be no finality in Vedic interpretation, but honest attempts like these which shall render the task easy to others are commendable. We are glad to call public attention to this scholarly work, and hope that Pandit Khem Karan Das Trivedi will get the encouragement which he so richly deserves..... Our earnest request is that the revered Pandit will go on with this noble work and try to finish the whole before he is called to eternal rest.....

N. B.—The printing and paper are good, price is moderate.